

॥ ओ३म् ॥

“वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है” ॥

आनन्दसमाचार ।

१—अथर्ववेदभाष्यम्—जिन वेदों की महिमा सब बड़े ऋषि, मुनि और योगी गाने आये हैं और विदेशी विद्वान् जिनका अर्थ खोजने में लग रहे हैं। वे अब तक संस्कृत में होने के कारण बड़े कठिन थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का अर्थ तो भाषा में हो चुका था। परन्तु अथर्ववेद का अर्थ अभी तक नागरी भाषा में न था। और संस्कृत में भी श्री सायण भाष्य पूरा नहीं है। अब परमात्मा की कृपा से अथर्ववेद का भाष्य भी नागरी भाषा (हिन्दी) और संस्कृत में वेद, निघण्टु, निरुक्त, व्याकरणादि सत्य शास्त्रों के प्रमाणों सहित, प्रयाग निवासी पं० होमकरणदास त्रिवेदी ने संवत् १९६६ वि० में आरंभ करके संवत् १९७७ वि० में श्रीमती आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त और पंजाब प्रान्त तथा विद्वान् ग्राहक महाशयों की शुण ग्राहकता से पूरा कर लिया।

२—भाष्य का क्रम इस प्रकार। १—सूक्त के देवता, छन्द, उपदेश, २—सस्वर मूल मन्त्र, ३—सस्वर पदपाठ, ४—मन्त्रों के शब्दों को कोष्ठ में देकर सान्ध्य भाष्यार्थ, ५—भावार्थ, ६—आवश्यक टिप्पणी पाठान्तर, अनु रूप पाठादि, ७—प्रत्येक पृष्ठ में लाइन देकर सन्देह निवृत्ति के लिये शब्दों और क्रियाओं की व्याकरण निरुक्तादि प्रमाणों से सिद्धि।

३—इस वेद में २० छोटे बड़े काण्ड हैं, एक एक काण्ड का भावपूर्ण संक्षिप्त स्त्री पुरुषों के समझने योग्य अति सरल हिन्दी और संस्कृत भाष्य अल्प मूल्य में छुपकर उपस्थित है। वेदप्रेमी श्रीमान् राजे, महाराजे, सेठ, साहूकार, विद्वान् और सर्व साधारण स्त्री पुरुष स्वाध्याय, पुस्तकालयों और पारितोषिकों के लिये भाष्य मंगार्वे और जगत्पिता परमात्मा के पारमार्थिक और आलारिक उपदेश, ब्रह्मविद्या, वैद्यकविद्या, शिल्पविद्या, राजविद्यादि अनेक विद्याओं का तत्त्व जानकर आनन्द भोगें, कृपाई उत्तम और कागज़ बढ़िया रायल अठपेजी है।

स्थायी ग्राहकों में नाम लिखाने वाले सज्जन २० सैकड़ा छोड़कर पुस्तक वी० पी० वा नगद दाम पर पाते हैं। डाकव्यय ग्राहक देते हैं।

काण्ड	१ भूमिका सहित	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	
मूल्य	१।	१।-	१।।-	२।	१।।।-	३।	२।	२।	२।	२।।	२।	
काण्ड	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	मन्त्र सूची	पद सूची	योग
मूल्य	२=)	१।।।	१।	१-	।।-	।।	२।=)	३।	७।			४२)

भाष्य सब छुप गया, मन्त्र सूची छुप रही है, पद सूची छुपने में है। पुराने ग्राहक जिनके पास सब काण्ड नहीं पहुँचे, आर नये ग्राहक भाष्य शीघ्र मंगार्वे पुस्तक थोड़े रहे हैं, ऐसे बड़े ग्रन्थ का फिर छुपना कठिन है।

हवनमन्त्राः—धर्म शिक्षा का उपकारी पुस्तक—चारों वेदों के संगृहीत मन्त्र ईश्वर स्तुति, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण, हवनमन्त्र, वामदेव्यगान सरल भाषा में शब्दार्थ सहित संशोधित बढ़िया रायल अठपेजी पृष्ठ ६०, मूल्य १।॥

रुद्राध्यायः—प्रसिद्ध यजुर्वेद अध्याय १६ (नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त हषवे नमः) ब्रह्मनिरूपक अर्थ संस्कृत, भाषा और अंग्रेजी में बढ़िया रायल अठपेजी, पृष्ठ १४८ मूल्य १=)

रुद्राध्यायः रायल अठपेजी, पृष्ठ १४ मूल्य १॥

वेदविद्यायें

शस्त्र निर्माण, अर्थ, अतिथि, समो, चर्यादि का वर्णन मूल्य १=)

२० अक्टूबर १९२२

पता—पं० होमकरणदास त्रिवेदी

५२, लुकरगंज, प्रयाग । (Allahabad).

सूचना—सूची १ और २ अथर्ववेद भाष्य कार्ड २० के आरम्भ में लगाएँ ॥

१—सूक्त विवरण, अथर्ववेद कार्ड २० ॥

सूक्त विवरण नगर

क्र	सूक्त के प्रथम पद	देवता	उपदेश	छन्द
१	इन्द्र त्वा वृषभु	इन्द्र आदि	राजा और प्रजा	गायत्री आदि
२	मरुतः पोत्रात्	मरुत आदि	विद्वान् लोग	गायत्री आदि
३	आ याहि सुषुमा	इन्द्र	राजा और प्रजा	गायत्री
४	आ नो याहि	इन्द्र	महौषधियां	गायत्री आदि
५	अयमु त्वा विचर्यणे	इन्द्र	सोम रस सेवन	गायत्री आदि
६	इन्द्र त्वा वृषभं	इन्द्र	राजा और प्रजा	गायत्री आदि
७	उद् वेदभि श्रुता	इन्द्र	सेनापति	गायत्री आदि
८	पवा याहि प्रक्षथा	इन्द्र	मनुष्य कर्तव्य	त्रिष्टुप् आदि
९	तं वो दस्पमृतीषहं	इन्द्र	ईश्वर उपासना	बृहती आदि
१०	उद् तु त्ये मधुमत्तमा	इन्द्र	ईश्वर उपासना	बृहती आदि
११	इन्द्र. पूर्विका	इन्द्र	राजा और प्रजा	त्रिष्टुप् आदि
१२	उद् ब्रह्मारायैत	इन्द्र	सेनापति कर्तव्य	पङ्क्तिः आदि
१३	इन्द्रश्च सोमं	इन्द्र आदि	राजा और विद्वान्	त्रिष्टुप् आदि
१४	वयमु त्त्रामध्वर्य	इन्द्र	राजा और प्रजा	उष्णिक आदि
१५	प्र महिष्ठाय बृहते	इन्द्र	समाध्यक्ष	जगती आदि
१६	उदप्रुतो न वयो	बृहस्पति	विद्वान् लोग	त्रिष्टुप् आदि
१७	अच्छाम इन्द्र	इन्द्र आदि	राजा और प्रजा	जगती आदि
१८	वयमु त्वा तदि	इन्द्र	राजा और प्रजा	गायत्री आदि
१९	वार्त्रहन्त्याय शवसे	इन्द्र	राजा और प्रजा	गायत्री आदि
२०	शुभिमन्तम न ऊनये	इन्द्र	राजा और प्रजा	गायत्री आदि
२१	न्यु ३ पु वाच प्र	इन्द्र	मनुष्य कर्तव्य	जगती आदि
२२	अभि त्वा वृषभा	इन्द्र	राजा और प्रजा	गायत्री आदि
२३	आ तू न इन्द्र	इन्द्र	राजा और प्रजा	गायत्री आदि
२४	उप नः सुतमा	इन्द्र	विद्वान् लोग	गायत्री आदि
२५	अश्वावति प्रथमो	इन्द्र	विद्वान् लोग	जगती आदि
२६	योगे योगे तव	इन्द्र	सेनाध्यक्ष आदि	गायत्री आदि
२७	यदिन्द्राहं यथा	इन्द्र	राजा के लक्षण	गायत्री आदि
२८	व्यश्नतरिक्षमति	इन्द्र	राजा के लक्षण	गायत्री आदि
२९	त्व हि स्तोमवर्धन	इन्द्र	राजा के धर्म	गायत्री आदि
३०	प्र ते महे विदथे	इन्द्र	बल पराक्रम	जगती आदि

१—सूक्त विवरण अथर्ववेद भाष्य काण्ड २० ॥

सूक्त	सूक्त के प्रथम पद	देवता	उपदेश	छन्द
३१	ता वज्रिणां मन्दिनं	इन्द्र	पुरुषार्थ-	जगती आदि
३२	आ रोदसी हर्यं	इन्द्र	राजा के कर्तव्य	त्रिष्टुप् आदि
३३	अप्सु धूनस्य हरिवः	इन्द्र	राजा के धर्म	त्रिष्टुप् आदि
३४	यो जात एव प्रथमो	इन्द्र	परमेश्वर गुण	त्रिष्टुप् आदि
३५	अस्मा इदु प्र तवसे	इन्द्र	सभापति	त्रिष्टुप् आदि
३६	य एक इद् धव्य	इन्द्र	मनुष्य कर्तव्य	पङ्क्ति आदि
३७	यस्तिग्मशृङ्गो	इन्द्र	राजा और प्रजा	त्रिष्टुप् आदि
३८	आ याहि सुषुमा	इन्द्र	राजा और प्रजा	गायत्री आदि
३९	इन्द्रं वो विश्वतस्परि	इन्द्र	परमेश्वर उपासना	गायत्री आदि
४०	इन्द्रेण सं हि दृक्से	मरुत आदि	राजा और प्रजा	गायत्री आदि
४१	इन्द्रो दधीचो अथ	इन्द्र	राजा के कर्तव्य	गायत्री
४२	वाचमष्टापदीमह	इन्द्र	मनुष्य कर्तव्य	गायत्री
४३	भिन्धि विश्वा अप	इन्द्र	राजा के धर्म	गायत्री
४४	प्र सभ्राजं चर्षणी	इन्द्र	राजा और प्रजा	गायत्री आदि
४५	अयमु ते समतसि	इन्द्र	सभापति कर्तव्य	गायत्री आदि
४६	प्रणेतारं वस्यां	इन्द्र	सेनापति लक्षण	गायत्री
४७	तमिन्द्र वाजयामसि	इन्द्र	राजा प्रजा आदि	गायत्री आदि
४८	अभि त्वा वर्चसा	इन्द्र आदि	परमात्मा और जीवात्मा	गायत्री आदि
४९	यच्छक्रा वाचमा	इन्द्र	ईश्वर उपासना	गायत्री आदि
५०	कन्नव्यो अतसीनां	इन्द्र	परमेश्वर महिमा	अनुष्टुप् आदि
५१	अभि प्र वः सुराध	इन्द्र	परमेश्वर उपासना	बृहती आदि
५२	धयं घ त्वा सुतावन्त	इन्द्र	परमेश्वर उपासना	बृहती
५३	क ई वेद सुते	इन्द्र	सेनापति	बृहती
५४	विश्वाः पृतना	इन्द्र	राजा और प्रजा	जगती आदि
५५	तमिन्द्रं जोहवीमि	इन्द्र	राजा के कर्तव्य	जगती आदि
५६	इन्द्रो मदाय वावृधे	इन्द्र	सभापति लक्षण	पङ्क्ति आदि
५७	सुरूपकनुसूनये	इन्द्र	मनुष्य कर्तव्य	गायत्री आदि
५८	श्रायन्त इव सूर्यं	इन्द्र आदि	ईश्वर विषय	बृहती आदि
५९	उदुत्वे मधुमत्तमा	इन्द्र	ईश्वर, राजा, प्रजा	बृहती आदि
६०	पवा ह्यसि वीर्यु	इन्द्र	मनुष्य कर्तव्य	गायत्री आदि
६१	तं ते मदं शृणीमसि	इन्द्र	परमेश्वर गुण	उष्णिक् आदि
६२	वयमु त्वामपूर्य	इन्द्र	राजा, प्रजा आदि	उष्णिक् आदि
६३	इमा नु कं भुवना	इन्द्र आदि	राजा, प्रजा आदि	पङ्क्ति आदि

१-सूक्त विवरण अथर्ववेद काण्ड २० ॥


सूक्त	सूक्त के प्रथम पद	देवता	उपदेश	सुन्द
६४	इन्द्र नो गधि	इन्द्र	परमात्मा के गुण	उष्णिक् आदि
६५	एतो न्विन्द्रं स्तवाम	इन्द्र	परमेश्वर गुण	गायत्री आदि
६६	रतुहीन्द्रं व्यश्वयद	इन्द्र	ऐश्वर्यवान् पुरुष	उष्णिक् आदि
६७	वनोति हि सुन्वन्	इन्द्र आदि	मनुष्य कर्तव्य	अष्टि आदि
६८	सुरुपकन्तुमृतये	इन्द्र	मनुष्य कर्तव्य	गायत्री आदि
६९	न वा नो याम	इन्द्र आदि	पराक्रमी मनुष्य	गायत्री आदि
७०	वीलु चिदाकज	मरुत आदि	राजा और प्रजा आदि	गायत्री आदि
७१	महाँ इन्द्रः परश्च	इन्द्र	मनुष्य कर्तव्य	गायत्री आदि
७२	विश्वेषु हि त्वा	इन्द्र	परमेश्वर उपासना	अष्टि आदि
७३	तुभ्येदिमा सवना	इन्द्र	सनापति लक्षण	अनुष्टुप् आदि
७४	यश्चिद्धि सत्य सोम	इन्द्र	राजा और प्रजा	पङ्क्ति आदि
७५	वि त्वा ततश्चे मिथुना	इन्द्र	परमेश्वर उपासना	अष्टि आदि
७६	वने न वा यो न्यधा	इन्द्र	राजा के कर्तव्य	त्रिष्टुप् आदि
७७	आ सत्यो यातु मधुवाँ	इन्द्र	राजा के धर्म	त्रिष्टुप् आदि
७८	तदू वो गाय सुते	इन्द्र	राजा और प्रजा	गायत्री
७९	इन्द्र क्रतुं न आ भव	इन्द्र	राजा के कर्तव्य	बृहती आदि
८०	इन्द्र ज्येष्ठं न आ	इन्द्र	राजा के कर्तव्य	बृहती आदि
८१	यद् द्याव इन्द्र ते	इन्द्र	परमात्मा के गुण	बृहती आदि
८२	यदिन्द्र यावतस्त्व	इन्द्र	राजपुरुष और प्रजा	बृहती आदि
८३	इन्द्र त्रिधातु शरणं	इन्द्र	राजा के कर्तव्य	बृहती आदि
८४	इन्द्रा यादि चित्र	इन्द्र	सभापति कर्तव्य	गायत्री आदि
८५	मा चिदन्यद्, विशंसत	इन्द्र	परमेश्वर गुण	बृहती आदि
८६	ब्रह्मणा ते ब्रह्म युजा	इन्द्र	मनुष्य कर्तव्य	त्रिष्टुप्
८७	अध्वर्यवांसुख्य	इन्द्र आदि	पुरुषार्थी लक्षण	त्रिष्टुप् आदि
८८	यस्तस्तम्भ सहसा	बृहस्पति	विद्वानों के कर्तव्य	त्रिष्टुप् आदि
८९	अस्तेव सु प्रतरं	इन्द्र	मनुष्य कर्तव्य	त्रिष्टुप् आदि
९०	यो अद्रिमित् प्रथमजा	बृहस्पति	राजा के लक्षण	त्रिष्टुप्
९१	इमां धियं सप्त	बृहस्पति	परमात्मा के गुण	त्रिष्टुप्
९२	अभि प्र गोपतिं	इन्द्र	राजा प्रजा आदि	गायत्री आदि
९३	उत् त्वा मन्दन्तु	इन्द्र	परमेश्वर उपासना	गायत्री आदि
९४	आयातिवन्द्रः स्वपति	इन्द्र	राजा और प्रजा	त्रिष्टुप् आदि
९५	त्रिकद्रुकेषु महिपो	इन्द्र	राजा के कर्तव्य	अष्टि आदि
९६	तीवस्याभिधयवसो	इन्द्र आदि	राजा के कर्तव्य	त्रिष्टुप् आदि

१—सूक्त विवरण अथर्ववेद काण्ड २० ॥

सूक्त	सूक्त के प्रथम पद	देवता	उपदेश	सूक्त
६७	वयमेनमिदा- ह्यो	इन्द्र	वीर लक्षण	बृहती आदि
६८	त्वामिद्धि हवामहे	इन्द्र	राजा के धर्म	अनुष्टुप् आदि
६९	अभि त्वा पूर्वपीतय	इन्द्र	परमेश्वर गुण	बृहती आदि
१००	अथा हीन्द्र निर्वाण	इन्द्र	राजा और प्रजा	उष्णिक् आदि
१०१	अग्नि दूतं वृणीमहे	अग्नि	भौतिक अग्नि	गायत्री आदि
१०२	ईलेन्यां नमस्य	अग्नि	परमेश्वर गुण	गायत्री आदि
१०३	अग्निमीलिष्वावसे	अग्नि	परमेश्वर गुण	बृहती आदि
१०४	इमा उ त्वा पुरुवसो	इन्द्र	परमेश्वर गुण	बृहती आदि
१०५	त्वमिन्द्र प्रतूर्ति	इन्द्र	परमेश्वर गुण	अनुष्टुप् आदि
१०६	तव त्यदिन्द्रियं बृहन्	इन्द्र	परमेश्वर गुण	उष्णिक् आदि
१०७	संसस्य मन्यवे	इन्द्र आदि	परमेश्वर गुण	गायत्री आदि
१०८	त्वं न इन्द्रा भरं	इन्द्र	परमेश्वर प्रार्थना	उष्णिक् आदि
१०९	स्वादेरित्था	इन्द्र	सभापति आदि	पथ्या पङ्क्ति
११०	इन्द्राय मद्रवने	इन्द्र	विद्वान् के कर्तव्य	गायत्री
१११	यत् सोममिन्द्र	इन्द्र	मनुष्य कर्तव्य	उष्णिक्
११२	यद्य कञ्च बृत्रह	इन्द्र	मनुष्य कर्तव्य	गायत्री
११३	उमय अणवच्च च न	इन्द्र	राजा के धर्म	बृहती
११४	अस्मात्त्वयो अना	इन्द्र	परमेश्वर गुण	उष्णिक् आदि
११५	अहमिद्धि पितु	इन्द्र	परमेश्वर गुण	गायत्री
११६	माभूम निष्ठा	इन्द्र	राजा के कर्तव्य	बृहती
११७	पिषा सोममिन्द्र	इन्द्र	राजा के कर्तव्य	पङ्क्ति आदि
११८	शम्यु ३ पु शचीपत	इन्द्र	परमेश्वर उपासना	बृहती आदि
११९	अस्तावि मन्म	इन्द्र	परमेश्वर स्तुति	बृहती आदि
१२०	यदिन्द्र प्रागपा	इन्द्र	परमेश्वर गुण	अनुष्टुप् आदि
१२१	अभि त्वा शूर नोतु	इन्द्र	परमेश्वर गुण	बृहती आदि
१२२	रंवतीर्नः सधमाद	इन्द्र	सभापति लक्षण	गायत्री
१२३	तत् सूर्यस्य देवत्व	सूर्य	सूर्य का काम	त्रिष्टुप्
१२४	कया नरिचित्र आ भुव	इन्द्र आदि	राजा और प्रजा	गायत्री आदि
१२५	अपेद्र प्राचे मधव	इन्द्र आदि	राजा के धर्म	त्रिष्टुप्
१२६	चि हि सोतोस्तुभत	इन्द्र	गृहस्थ कर्तव्य	पङ्क्ति
१२७	इद जना उप श्रुन	प्रजापति, इन्द्र	राजा के धर्म	बृहती आदि
१२८	याः समेतो विद्वयः	प्रजापति, इन्द्र	मनुष्य कर्तव्य	अनुष्टुप्
१२९	पथा अश्वा आस्रवन्ते	प्रजापति	मनुष्य के प्रयत्न	गायत्री आदि

१-सूक्त विवरण अथर्ववेद काराड २० ॥

सूक्त	सूक्त के प्रथम पद	देवता	उपदेश	छन्द
१३०	की अर्थ बहुलि	प्रजापति	मनुष्य के पुरुषार्थ	पङ्क्ति आदि
१३१	आमिनोनिनि भद्यते	प्रजापति	पेश्वर्थ प्राप्ति	गायत्री आदि
१३२	शाद्वदावुकमेकक्रम	प्रजापति	परमात्मा के गुण	गायत्री आदि
१३३	विननी किरगी द्वी	कुमारी	स्त्रियों के कर्तव्य	अनुष्टुप्
१३४	इहेथ्य प्रागगग	प्रजापति	बुद्धि बढ़ाना	पङ्क्ति
१३५	भुमित्यभिमतः	प्रजापति, इन्द्र	मनुष्य कर्तव्य	अनुष्टुप् आदि
१३६	यदस्या अहुभेद्यः	प्रजापति	राजा और प्राजा	अनुष्टुप् आदि
१३७	यद् प्राचीरजगन्ता	अलक्ष्मी प्र आदि	राजा और प्रजा	अनुष्टुप् आदि
१३८	नहाँ इन्द्रो य ओजसा	इन्द्र	राजा और प्रजा	गायत्री
१३९	आ नूनमश्विना	अश्विनौ	शुरु जन	बृहती आदि
१४०	यज्ञासत्या भुरग्य	अश्विनौ	दिन राति	बृहती आदि
१४१	यातं ह्यर्दिष्पा उन नः	अश्विनौ	दिन राति	गायत्री आदि
१४२	अभुस्स्यु प्र दंय्या	अश्विनौ	दिन राति	अनुष्टुप् आदि
१४३	तं वां रथं वयम	अश्विनौ	राजा और मन्त्री	त्रिष्टुप् आदि



२-अथर्ववेद काण्ड २० के मन्त्र अन्वय वेदों में सम्पूर्णा वा कुछ भेद से ॥

मन्त्र संख्या	मन्त्र	अथर्ववेद (काण्ड २०) सूक्त, मन्त्र	अथर्ववेद (अन्यत्र) काण्ड, सूक्त, मन्त्र	ऋग्वेद, मण्डल, सूक्त, मन्त्र	यजुर्वेद अध्याय, मन्त्र	सामवेद पूर्वार्चिक, उचरार्चिक आदि
१	इन्द्र त्वा	१।२	२०।६।१	३।४०।१	८।३१	
२	मखेतो यस्य	१।२		१।८६।१		
३	उवाजाय	१।३	३।२१।६	८।४३।१२		
४	मक्तः पोत्रात्	२।१		१।१५।२		
५-७	आ याहि	३।१-३	२०।३८।१-३, ४७।७६	८।१७।१-३		७०।१।१; म० १ पु० २।१०।७७
८-१०	आ नो याहि	४।१-३		८।१७।४-६		
११-१७	अयसु त्वा	५।१-७		८।१७।६-१३		५-७; ७०।१।२।५ म० ५, पु० २।७।५
१८-२६	इन्द्र त्वा दृष	६।१-६	म० १, २०।११।१	३।४०।१-६		
२७	इन्द्र क्रतुर्विदं	६।२	२०।७।४			
२८	गिर्षणः पाहि	६।६				पु० ३।१।२
२९	अर्वावलोन	६।८	२०।२०।४, ५७।८			म० १; पु० २।४।१
३०-३२	उदूचेदभि	७।१-३		८।६३।१-३		म० १-३; ७०।६।३।४
३३	इन्द्र क्रतुर्विदं	७।४				
३४	।पवा पाहि मत्त	८।१	२०।६।२	६।१७।३।		

२ अथर्ववेद काण्ड २० के मन्त्र अन्व वेदों में सम्पूर्ण वा कुछ भेद से

मन्त्र संख्या	मन्त्र	अथर्ववेद (काण्ड २०) सूक्त, मन्त्र	अथर्ववेद (अन्यत्र) काण्ड, सूक्त, मन्त्र	ऋग्वेद, मण्डल, सूक्त, मन्त्र	यजुर्वेद अध्याय, मन्त्र	सामवेद पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक आदि
२०-६१	उद मुतो न वयो	१६।१-१२	७।५०।७,म०	१०।६८।१-१२		
२२-१०२	अच्छं म इन्द्रं मतयः	१७।१-११	२०-११, २०।	१०।४३।१-११		
२०३	गोमिष्टरेमामतिं	१७।१०	८६।१०-११, २०।			
२०४	बृहस्पतिर्न परि	१७।११	६४।१०, ११			
१०५	बृहस्पते युव	१७।१२	७।५१।१			
१०६-१०८	वयमु त्वा	१८।१-३	२०।८७।७	७।६७।१०		
१०६-१११	वयमिन्द्र त्वा	१८।४-६		८।२।१६-१८		६०१।२।३ म०१; पू०२।७।६, म०४; पू०२।४।८
११२-११८	वात्रहृत्वाय	१६।१-७		७।३१।४-६		
११६ १२२	शुभ्रन्तम न	२०।१-४	म० १-७, २०।	३।३७।१-७	म०१; १८।६८	
१२३	अर्वावतो न आग	२०।४	५७।४-१०	३।३७।८-११		
१२४ २६	इन्द्रो अङ्ग महद् भय	२०।५-७	२०।६।८	२।४१।१० २२		म० ५; पू० ३।१।७
१२७ ३७	न्ययूषु बाच प्रमहे	२१।१-११		१।५३।१-४१		
१३८ ४०	अम त्वा वृषसा	२२।१-३		८।४५।२२-२४		६०१।२।७ म०१; पू०२।७।७

१४१-४३	असि म गोपति	२२।४-४	२०।६२।१-३	८।६६।४६	३०७।१।१ स० १, ५०२।८।४
१४४-५२	आ तू न इन्द्र	२३।१-६		३।४२।१-४	
१५३-६१	उप नः सुनमा	२४।१-६		३।४२।१-६	
१६२-६७	अशवावर्ति प्रथमो	२५।१-६		१।८३।१-६	
१६८	प्रोत्रो पीति	२५।७	२०।३३।२	१०।१०४।३	
१६९	योगे योगे	२६।१	१६।२५।७		
१७०-७१	आ या गमद् यधि	२६।२३		१।३०।८-६	३०१।२।२१
१७२-७४	युञ्जति नम	२६।४-६	२०।४७।१० १२	२।६।१-३	३०२।३।७।३० ८।१।६
१७५	केतुं कृण्वन्त	२६।६			३०३।३।१५
१७६-८१	यदिन्द्राह यथा	२६।६			स० १-३, ३०२।६।६ स० १, ५०२।३।७
१८२	यस इन्द्रवर्षे	२७।१६		८।१४।१-६	५०२।३।७।३० ८।१।६
१८३-८६	अन्तरिक्षमतिर	२७।५			५०३।२।८
१८७-९१	त्वं हि स्तोम	२८।१-४	२०।३६।४५	८।१४।७-१०	
१९२	अथा फेनेन नमु	२८।५		८।१४।११-१५	
१९३-९७	प्र ते महे त्रिद	२८।३		१०।६६।१५	
१९८-०२	ता वज्रिण	३०।१५		१०।६६।६-१०	
२०३-०५	आ रोदसी	३१।१५		१०।६६।११-१३	
२०६-०८	अणु घृतस्य	३२।१-३		१०।१०४।२-४	
२०९	प्रोत्रा पीति वृष्य	३२।१-३	२०।५५।७		
२१०-२४	यो जात एव	३३।२		२।१२।१-१५	
२१५	अस्मा इतुं म	३४।१११, १८		१।६२।१-१६	
		३५।१५, १८			
		३५।१-२६			

२ अथर्ववेद काण्ड २० के मन्त्र अन्त्य वेदों में सम्पूर्ण वा कुब्ज भेद से ॥

मन्त्र संख्या	मन्त्र	अथर्ववेद, (काण्ड २०) सूक्त, मन्त्र	अथर्ववेद, (अथर्व) काण्ड, सूक्त, मन्त्र	ऋग्वेद, मण्डल, सूक्त, मन्त्र	यजुर्वेद, अथर्व, मन्त्र	सामवेद, पूर्वाचिक, उत्तराचिक, आदि
२४१-५१	य एक इच्छन्व्य	३६।१-११		६।२२।१-११		
२५२-६२	यस्तिमश्रद्धां	३७।१-११		७।१६।१-११		
२६३-६५	आ याहि सुषुमा	३८।१-३	२०।३।१-३; ४७।७-९	१।७।१-३		७०२।१।८; म० ४; पू० ३।१।५
२६६-६८	इन्द्रमिदं गाथि	३८।४-६	२०।४७।४-६; ९			
२६९	इन्द्र वो विश्वत	३९।१	२०।७०।१-६	१।७।१०		
२७०-५३	व्यंरन्तरिचम	३९।२-५	२०।२८।१-४			
२७४-७५	इन्द्रेण सं हि हवसे	४०।१-२	२०।७०।३-४	१।६।७-८		म० १; उ० २।२।७
२७६	आदह स्वधाम	४०।३	२०।६९।१-२	१।६।४		७०२।२।७
२७७-७९	इन्द्रो दधीचो	४१।१-३		१।८।१३-१५		७०३।१।८; म० १; पू० २।४।५; म० ३; पू० २।६।३
२८०-८२	वाचमष्टावदी	४२।१-३		८।७६।१२, ११, १०		७०३।२।९
२८३-८५	मिन्ध्र-विश्वा	४३।१-३		८।४५।४०-४२		७०४।१।८; म० १; पू० २।४।५; म० २; पू० ३।२।३
२८६-८८	प्र संभ्राजं	४४।१-३		८।१६।१-४		म० १; पू० २।५।१०
२८९-९१	अथमु ने समत	४५।१-३		१।३८।४-६		७०७।३।१५; म० १; पू० २।६।६
२९२-९४	प्रणेतारं वस्थो	४६।१-३		८।१६।१०-१२		
२९५-९७	तमिन्द्रं वाज	४७।१-३	२०।१३७।१२-१४	८।९३।७-९		७०५।१।१०; म० १।पू० २।३।५
२९६-३००	इन्द्रमिदं गाथिनो	४७।४-६	२०।३८।४-६; ७०।			

३०१-०३	मा याहि सुषु	४७। ७-६	२०। ३। १-३, ३, ३। ६।	७-६	३०। २। १। १३, म० १-५० ३। ५। ३
३०४-०६	युजान्ति ब्रह्म	४७। १०। १-२	२०। २। ३। ६, ६। ६। १। १।	१-३	३०। २। २। १२, म० १-५० ३। ७। ६
३०७-१५	उदुत्यं जातवेद्	४७। १३-२१	१३। २। १-६-२४	१-३	३०। २। २। १५, म० १-५० ३। १। ५
३१६-१८	आयं गौः	४८। ४-६	६। ३१। १-३	१-३	३०। २। २। १५, म० १-५० ३। १। ५
३१८-२२	त वो दस्म	४८। ४-७	१०। ६। १-४	१-४	३०। २। २। १५, म० १-५० ३। १। ५
३२३-२४	कन्नव्यो अत	५०। १-२			३०। २। २। १५, म० १-५० ३। १। ५
३२५-१६	अमि म वः सु	५१। १-२			३०। २। २। १५, म० १-५० ३। १। ५
३२७-२८	म सु श्रुतं	५२। ३-४			३०। २। २। १५, म० १-५० ३। १। ५
३२८-३१	वयं घ त्वा	५२। १-३	२०। ५। १। ६		३०। २। २। १५, म० १-५० ३। १। ५
३२९-३४	क ई वेद सुते	५३। १-३	२०। ५। १। २-३		३०। २। २। १५, म० १-५० ३। १। ५
३३५-३७	विशवाः पृतना	५४। १-३			३०। २। २। १५, म० १-५० ३। १। ५
३३८-४०	तमिन्द्रं जाह्नवीमि	५५। १-३			३०। २। २। १५, म० १-५० ३। १। ५
३४१-४६	इन्द्रो मदाय	५६। १-६			३०। २। २। १५, म० १-५० ३। १। ५
३४७-४८	सुरूपकृत्तु	५७। १-३	२०। ६। १-३		३०। २। २। १५, म० १-५० ३। १। ५
३५०-५६	शुभित्तमं न	५७। ४-१०	२०। २०। १-७		३०। २। २। १५, म० १-५० ३। १। ५
३५७-५८	क ई वेद सुते	५७। ११-१३	२०। ५। १-३		३०। २। २। १५, म० १-५० ३। १। ५
३६०-६२	वयं घ त्वा	५७। १४-१६	२०। ५। २। ३		३०। २। २। १५, म० १-५० ३। १। ५
३६३-६४	भायन्त इव	५८। १-२			३०। २। २। १५, म० १-५० ३। १। ५
३६५-६६	वणमर्हौ असि	५८। ३-४	म० ३। १। ३। २। ६	८। ६। ३-४	३०। २। २। १५, म० १-५० ३। १। ५

(३०)

२ अथर्ववेद काण्ड २० के मन्त्र अन्त्य वेदों में सम्पूर्णा वा कुछ भेद से ॥

मन्त्र संख्या	मन्त्र	अथर्ववेद, (काण्ड २०) सूक्त, मन्त्र	अथर्ववेद, (अन्यत्र) काण्ड, सूक्त, मन्त्र	ऋग्वेद, मण्डल, सूक्त, मन्त्र	यजुर्वेद, अध्याय, मन्त्र	सामवेद, पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक आदि
३६७-६८	उदित्ये मधु	५६। १-२	२०। १०। १-२	७। ३२। १२-१३.		उ० २। १। १८ म० १ पू० १। ४। १०
३६८-७०	उदित्वस्य	५६। ३-४		८। ६२। २८-३०		
३७१-७३	एवा ह्यसि वी	६०। १-३		१। ८। ८-१०		
३७४-७६	एवा ह्यस्य	६०। ४-६	२०। ७। ४-६	८। १५। ४-६		
३७७-७८	त ते मदं	६१। १-३		८। १५। १-३		
३८०-८२	तम्बभि प्र भायत	६१। ४-६	२०। ६२। ८-१०	८। १५। १-३		उ० ३। २। १८ म० १ पू० ३। ४। १०
३८३-८६	वयमु त्वाम	६२। १-४	२०। १४। १-४	८। १५। १-३		
३८७-८८	इन्द्राय साम	६२। ५-७	२०। ६१। ४-६	८। १६। १-३		
३८९-९२	तम्बभि प्रगा	६२। ८-१०	२०। १२४। ४-६	८। १६। १-३	२५। ४६	उ० ३। २। २२ म० ५ पू० ४। १०८
३९३-९५	इमा तु क भुव	६३। १-३		१०। १५७। १-५.		उ० ४। २। २३
३९६-९८	य एक इद्वि	६३। ४-६		१। ८४। ७-८		उ० ५। २। २२ म० ७ पू० ४। १०। ६
३९९-०१	य इन्द्रौम	६३। ७-९		८। १२। १-३		म० ७ पू० ५। १। ४
४०२-०४	एन्द्रो नो गधि	६४। १-३		८। १६। ४-६		उ० ५। १। १६ म० १ पू० ५। १। ३
४०५-०७	एतु मन्वो म	६४। ४-६		८। २४। १६-१८		उ० ८। २। १० म० ४ पू० ४। १०। ५
४०८-१०	एतो निवन्दं	६५। १-३		८। २४। १६-२१		म० १ पू० ४। १०। ७
४११-१३	स्तुहीन्द्रं व्य	६६। १-३		८। २४। २२-२४		
४१४	वतोति हि सु	६७। १		१। १३३। ७		

४१५	मो षु वो अस्म	६७।२		११.१३६।८	१५।४७	पू० ५।८।६७०६।१।१८
४१६	अग्निं होतारं	६७।३		१।१२७।१		
४१७-१६	यज्ञैः संमिश्रणाः	६७।४-६	२०।५७।१-३	२।३६।४.५		
४२०-२२	सुरूपकानु	६८।१-३		२।४।४-१०		
४२३-२६	परंदि विम	६८।४-१०		१।५।१२		
४३०-३१	।आ त्वेतानि	६८।११-१२		१।५।३-१०		
४३२-३६	सं धा नो योग	६९।१-८	२०।२६४-६			७०।२।१० म०१ पू०२।७।१०
४४०-४२	युक्तानि अग्	६९।९-११	" ४७।१०।१२			म० १ ७० १।२।१०
४४३	आदह स्वधामनु	६९।१२	२०।४०।३			म० १ ७० २।२।७
४४४-४६	वीक्षु त्विदार	७०।१-६		१।६५-१०		
४५०-५१	इन्द्रं ण सं हि	७०।३-५	२०।४०।१-२			
४५२-५४	इन्द्रमिदं नाथि	७०।७-९	२०।३८।४६			
४५५-६१	इन्द्रं चानेषु	७०।१०-१३	४७।४-६	१।७।४-१०		म० १० पू० ६।११।४७०२।१।८
४६२	इन्द्रं वयं महा	७०।११				पू० २।४।६
४६३	स नो दुष्णन्	७०।१२				७० ८।१।२
४६४	तुषा यूथेव	७०।१४				७० ८।१।२
४६५	इन्द्रं वो विश्व	७०।१६	२०।३६।१			म० १७ पू० २।४।५
४६६-६९	इन्द्रं सानसिं	७०।१७-२०		१।८।१-४		म० १ पू० २।८।२
४७०-७५	मह्यं इन्द्रः परमव	७१।१-६		२।८।५-१०		
४७१-७८	यवा ह्यस्यसु	७१।४-६	२०।६०।४-६			

(१००)

२-अथर्ववेद काण्ड २० के मन्त्र अन्य वेदों में सम्पूर्ण वा कुछ भेद से ॥

मन्त्र संख्या	मन्त्र	अथर्व वेद, (काण्ड २०) सूक्त, मन्त्र	अथर्व वेद, (अन्यत्र) काण्ड, सूक्त, मन्त्र	ऋग्वेद, मण्डल, सूक्त, मन्त्र	यजुर्वेद, अध्याय, मन्त्र	सामवेद, पुराचिक, उत्तरार्चिक आदि, मं ७ पू० २। ६। ६
४७६-८८	इन्द्रे हि मत्स्य	७१।७-१६		१।६।१-१०		
४८६-६१	विश्वेषु हि त्वा	७२।१-३		१।१३।२, ३, ६		
४६२	त्रि त्वा ततस्ते	७२।२	२०।७५।१			
४६३-६४	तुभ्येविमा सवना	७३।१-२		७।२२।७-८		
४६५	प्र वो महे महि	७३।३		७।३१।१०		
४६६-६८	यदा वषा हिर	७३।४-७		१०।२३।३-५		
४६६ ०५	यन्निचक्षि सत्य	७४।१-७		२।२६।१-७		
५०६-०८	वि त्वा ततस्ते	७५।१-३	मं१।२०।७२।२	१।१३१।३-५		
५०६-१६	वने न वायो	७६।१-८		१०।२६।१-८		
५१७-२४	आ सत्यो यातु	७७।१-८		४।१६।१-८		
५२५-२७	तदु वो गाय	७८।१-३	१८।३।६७	६।४५।२२-२४		३०८।२।४ मं१ पू० २।३।१
५२८	इन्द्र क्रतुं न आ	७६।१				
६५२	मा नो अक्षाता	७६।२		७।३२।२७		३०६।३।६
५३०-३१	इन्द्र ज्येष्ठं	८०।१-२		६।४६।५-६		मं१ पू० ६।१०।१
५३२-३३	यदु याव इन्द्र	८१।१-२	२०।६२।२०-२१	८।७०।५-६		३०२।२।११।मं१ पू०।६।६
५३४-३५	यदिन्द्र यावत्	८२।१-२		७।३२।१८-१९		३०६।२।६ मं१ पू० ४।०।८
५३६-३७	इन्द्र त्रिधातु	८३।१-२		६।४६।६-१०		मं१ पू० ३।८।४

५३८-४०	रुद्र याहि	८४। १-३		१। ६। ४-६	२०। ८७-८६	७०४। २। ५
५४१-४४	मा चिद्वन्द्वि	८५। १-४		८। १। २-४		म० १-२ ७० ६। १। ५ म० १ पु० ३। ५। १०
५४५	ब्रह्मणा ते ब्रह्म	८६। १		३। ३। ५। ४		
५४६-५२	अर्धवर्षो ऽर्षण	८७। १-७		७। ६८। १-७		
५५३	बृहस्पते युष	८७। ७	२०। १७। १२			
५५४-५६	वस्तस्तसम	८८। १-६		४। ५०। १-६		
५६०-७०	अस्तव सु प्रवर	८९। १-११		१०। ४२। १-११		
५७१-७२	उत प्रहामति	९०। १-१०	७। ५०। ६-७			
५८३ ७४	गोभिरमा	९०। १० १२	२०। १७। १२। १३। १०-११			
५७५	बृहस्पतिर्नो परि	९६। ११	७। ५१। १			
५७६-७८	यो अद्रिमित् प्र	९०। १-३		६। ७३। १-३		
५७९-६०	इमां धिय सप्त	९१। १-१२		१०। ६७। १-१२		
५८१-०५	अभि प्र गोपति	९२। १-१५	१-३-२०। २२। ४-६	८। ६६। ४ १८		
५०६	अर्चन आर्चत	९२। ५				पु० ४। ८। ३
५०७-१२	यो राजा चूर्ण	९२। १६-२१	म० १६-१७, २०। २०। ५। ४। ५	८। ७०। १-६		म० १६-१७। ७० ३। १। १५
६१३-१४	नक्तिट कर्मणा	९२। १८ १९	२०। ५२। १-२			म० १६। १० ३। १। १
६१५-१६	यद् द्याच रुद्र	९२। २० २१				म० १६। १० ३। १। १
६१७ १६	उत् त्वा मन्दन्तु	९३। १-३		८। ६४। १-३		म० १६। १० ३। १। १
६२०-२४	ईड्वयन्ती	९३। ४-८		१०। १५३। १-५		म० १६। १० ३। १। १
६२५ ३५	आ याचिन्द्रः	९४। १ ११		१०। ४४। १-११		

२—अथर्ववेद काण्ड २० के मन्त्र अन्य वेदों में सम्पूर्ण वा शुद्ध भेद से ॥

मन्त्र संख्या	मन्त्र	अथर्ववेद, (काण्ड २०) सूक्त, मन्त्र	अथर्ववेद, (अन्यत्र) काण्ड, सूक्त, मन्त्र	ऋग्वेद, मण्डल, सूक्त, मन्त्र	थञ्जवेद, अथाय, मन्त्र	सामवेद, पुराचिक, उत्तरार्चिक आदि
६३६-३७	गोमिष्टरेमा	६४। १०-११, २०। १७। १० ११। ८६। १०-११				
६३८	त्रिकण्डकेयु	६५। १		२। २२। १		५०। ५। ८। १; ७०। ६। ३। २०
६३९-४१	प्रोष्वस्मै पुरो	६५। २-४		१०। १३३। १-३		७०। ६। १। १४
६४२-४६	तीव्रस्याभि	६६। १-५		१०। १६०। १-५		
६४७-५०	सुञ्ज्यामि त्वा	६६। ६-९	३। ११। १-४			
६५१	आहार्यमविद्	६६। १०	८। १। २०			
६५२-५७	ब्रह्मण्यारिः	६६। ११-१६		१०। १६२। १-६		
६५८-६४	अक्षीभ्यां ते	६६। १७-२३	२। ३३। १-७			
६६५	अयेहि मनस	६६। २४				
६६६-६८	वेयसेनमिवा	६७। १-३		१०। १६४। १		७०। ८। २। १३ म०१ पू०३। ८। १०,
६६९-७०	त्वामिच्छि हना	६८। १-२		८। ६६। ७-९		७०। २। १। १२; म०१ पू०३। ५। २
६७१-७२	अग्नि त्वा पूर्व	६८। १-२		६। ४६। १-२		७०। ७। ३। १ म० १ पू०३। ७। ४
६७३-७५	अथा हीन्द्र	६८। १-२		८। ३। ७-८	२७। ३७-३८	७०। १। १। २३ म०१ पू० ५। २। ८
६७६-७८	अग्निं द्रुतं वृ	१००। १-३		८। ६८। ७-९		७०। २। १। १६ म०१ पू० १। १। ३
६७९-८१	ईलेन्यो नमस्य	१०१। १-३		१। १२। १-३		७०। ७। २। २
६८२	अग्निर्मलित्वा	१०२। १-३		२। २७। १३-१५		५०। १। ५। ६
		१०३। १		८। ७१। १-४		

२—अथर्ववेद काण्ड २० के मन्त्र अन्य वेदों में सम्पूर्णा वा कुछ भेद से ॥

मन्त्र संख्या	मन्त्र	अथर्ववेद, (काण्ड २०) सूक्त, मन्त्र	अथर्ववेद, (अन्यत्र) काण्ड, सूक्त, मन्त्र	ऋग्वेद, मण्डल, सूक्त, मन्त्र	यजुर्वेद, अध्याय, मन्त्र	सामवेद, पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक आदि
७३८-४०	पिबा सोममिन्द्र	११७।१-३		७।२२।१३		७०३।१।१३ म०१ पू० ५।६।८
७४१-४२	शग्ध्य रे सु	११८।१-२		८।६१।५-६		७०७।३।३ म०१ पू० ३।७।१
७४३-४४	इन्द्रमिन्द्र देवता	११८।३-४		८।३।५-६		७०७।३।८; म०३ पू० ३।६।७
७४५	अस्ताधि मान्म	११६।१		८।५२।६		७०८।२।७
७४६	तुरययवो मधु	११६।२		८।५१।१०		७०७।३।१६
७४७-४८	यदिन्द्र प्रागपा	१२०।१-२		८।४।१-२		७०५।१।१३ म० १ पू० ३।६।७
७४९-४९	अभि त्वा शूर नो	१२१।१-२		७।३२।२२-२३	२७।३५-३६	७०१।१।११, म०१ पू० ३।३।५
७५१-५२	रेवतीर्नः सधमा	१२२।१-२		१।३०।१३-१५		७०४।३।१४ म० १ पू० २।६।८
७५४-५५	तत् सूर्यस्य दे	१२३।१-२		१।११।५।४-५		
७५६-५८	कया नश्चित्र	१२४।१-३		४।३१।१-३	२७।३६-४१; ३६।४६	
७५६-६१	इमा तु कं सुवना	१२४।४-६	२०।६३।१-३			७०१।१।१२; म० १ पू० २।८।५
७६२-६८	अपेन्द्र प्राचो	१२५।१-७		१०।११३।१-७		
७६६	कुविदङ्ग यंघ	१२५।२			१०।३२; १६। ६; २३।३८	
७७०-७१	सुवं सुरामम	१२५।३-५			१०।३३-३४; २०।७६-७७	

७७२-७३	इन्द्रा सुत्रामा	१२५ ६-७	७ ६१-६२	१० ६६ १-२३	२३ २८	
७७४-६६	वि. हि सोतारख	१२६ १-२३			२३ २६	
७६७	यदस्या अहुमे	१३६ ४				
७६८	यद् देवासो लता	१३६ ४				
७६९	यद् मावीरज	१३७ १		१० १५५ ४		
८००	कपुत्रः कपुथ	१३७ २		१० १०१ १२		
८०१	वधिक्राव्यो अका	१३७ ३		४ ३६ ६	२३ ३२	५० ४ ७ ७
८०२-०४	सुतासो मधुमत्त	१३७ ४-६		६ १०१ ४-६		४० २ २ १५ म०४ ५० ६ ६ ३
८०५-०६	अथ इप्सो अशु	१३७ ७-११		८ ६६ १३-१७		म०७ ५०४ ४ १ म० १० ५० ४ ४ ४
८१०-१२	तमिन्ड वाजयाम	१३७ १२-१४	२० ४७ १-३			
८१३-१५	महो इन्द्रो य ओजसा	१३८ १-३		८ ६ १-३		
८१६-२०	आ नूनमश्विना	१३८ १-५		८ ६ १-५		
८२१-२५	यन्नासन्त्या भुर	१४० १-५		८ ६ ६-१०		
८२६-३०	यातं छुदिंपा	१४१ १-५		८ ६ ११-१५		
८३१-३६	अशुस्त्यु प्र दे	१४२ १-६		८ ६ १६-२१		
८७-४३	त वां रथे वयस	१४३ १-७		४ ४४ १-७		
	इहेह यद् वां	१४३ ७		४ ४३ ७		
	मधुमतीरोषत्री	१४३ ८		४ ५७ ३		
८४६	पनाय्यं तदश्विना	१४३ ९		८ ५७ ३		

॥ ओ३म् ॥

अथर्ववेदः ॥

विंशं काण्डम् ॥

प्रथमोऽनुवाकः ॥

सूक्तम् १ ॥

मन्त्राः १—३ ॥ १ इन्द्रः ; २ मरुतः ; ३ अग्निदेवता ॥ १, २ गायत्री ; ३ निचूड् गायत्री छन्दः ॥

राजप्रजाकर्तव्योपदेशः—राजा और प्रजा के कर्तव्य का उपदेश ॥ -

इन्द्रं त्वा वृषभं वयं सुते सोमे हवामहे ।

स पाहि मध्वो अन्धसः ॥ १ ॥

इन्द्रं । त्वा । वृषभम् । वयम् । सुते । सोमे । हवामहे ॥

सः । पाहि । मध्वः । अन्धसः ॥ १ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [अत्यन्त पेश्वर्य वाले राजन्] (वृषभम्) बलिष्ठ (त्वा) तुझ को (सुते) सिद्ध किये हुये (सोमे) पेश्वर्य वा ओषधियों के समूह में (वयम्) हम (हवामहे) बुलाते हैं । (सः) सो तू

१—(इन्द्र) हे परमेश्वर्यवान् राजन् (त्वा) त्वाम् (वृषभम्) बलिष्ठम् (वयम्) प्रजाजनाः (सुते) निष्पन्ने । सिद्धे (सोमे) पेश्वर्ये ओषधिगणे वा (हवामहे) आह्वयामः (सः) स त्वम् (पाहि) रक्षां कुरु (मध्वः) मधुरमुष-

(मन्त्रः) मधुर गुण से युक्त (अन्धसः) अन्न की (पाहि) रक्षा कर ॥ १ ॥

भावार्थ—प्रजाजन सत्कार के साथ ऐश्वर्य देकर धर्मात्मा राजा से अपनी रक्षा करावें, जैसे सद्बैद्य उत्तम ओषधियों से रोगी को अच्छा करता है । १ यह मन्त्र ऋग्वेद में है—३ । ४० । १ और आगे है—अथ० २० । सूक्त ६ । म० १ ॥

मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः ।

स सुगोपातमो जनः ॥ २ ॥

मरुतः । यस्य । हि । क्षये । पाथ । दिवः । वि-महसुः ॥

सः । सु-गोपातमः । जनः ॥ २ ॥

भावार्थ—(विमहसः) हे विविध पूजनीय (मरुतः) शूर विद्वानो ! (यस्य) जिस [राजा] के (क्षये) ऐश्वर्य में (दिवः) उत्तम व्यवहारों की (पाथ) तुम रक्षा करते हो, (सः हि) वही (सुगोपातमः) अच्छे प्रकार पृथिवी, का अत्यन्त पालने वाला (जनः) पुरुष है ॥ २ ॥

भावार्थ—विद्वान् प्रजागण बुद्धिमान् राजा का सहाय करके परस्पर ऐश्वर्य बढ़ावें, जिससे वह सर्वथा प्रजा की रक्षा कर सके ॥ २ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—१ । ८६ । १ और यजु० ८ । ३१ ॥

उक्षान्नाय वृशान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे ।

स्तोमैर्विधेसुग्रये ॥ ३ ॥

उक्ष-अन्नाय । वृशा-अन्नाय । सोम-पृष्ठाय । वेधसे ॥

स्तोमैः । विधेसु । सुग्रये ॥ ३ ॥

युक्तस्य (अन्धसः) अन्नस्य-निघ० २ । ७ ॥

२—(मरुतः) हे शूरविद्वांसः (यस्य) राज्ञः (हि) खलु (क्षये) क्षि निवासगत्योः, ऐश्वर्ये च-अच् । ऐश्वर्ये (पाथ) साहितिको दीर्घः । रक्षथ (दिवः) दिव्यव्यवहारान् (विमहसः) हे विविधपूजनीयाः (सः) स राजा (सुगोपातमः) अतिशयेन सुसु पृथिवीरक्षकः (जनः) पुरुषः ॥

भाषार्थ—(उत्ताप्ताय-) प्रबलों के अन्न दाता (वशाप्ताय) वशी भूत [निर्बल प्रजाओं] के अन्न दाता, (सोमपृष्ठाय) ऐश्वर्य के सींचने वाले (वेधसे) बुद्धिमान् (अन्नये) अग्नि [समान नेजस्वी राजा] की (स्तोमैः) स्तुति योग्य कर्मों से (विधेम) हम पूजा करें ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जिस प्रकार राजा अपने पराक्रम और धर्म नीति से प्रजा का उपकार करे, वैसे ही प्रजागण योग्य रीति से राजा की सेवा करते रहें ॥३॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—८ । ४३ । ११ और कुछ भेद से पहिले आबुका है—अ० ३ । २१ । ६ ॥

सूक्तम् २ ॥

१-४ ॥ १ मरुतः, २ अग्निः, ३ ब्रह्मा, ४ द्रविणोदा देवता ॥ १, २ आर्ची गायत्री, ३ साम्नी पङ्क्तिः, ४ आच्युष्णिक् ॥

विदुषां व्यवहारोपदेशः—विद्वानों के व्यवहार का उपदेश ॥

मरुतः पोत्रात् सुष्टुभः स्वर्कादुतुना सोमं पिबतु ॥ १ ॥

मरुतः । पोत्रात् । सु-स्तुभः । सु-अर्कात् । सु-तुना ।

सोमं । पिबतु ॥ १ ॥

भाषार्थ—(मरुतः) शूर विद्वान् लोग (सुष्टुभः) बड़े स्तुति योग्य; (स्वर्कात्) बड़े पूजनीय (पोत्रात्) पवित्र व्यवहार से (अतुना) अतु के

३—(उत्ताप्ताय) अ० ३ । २१ । ६ । श्वश्रुत्तन्पूषन्० । उ० १ । १५६ । उक्त सेचने वृद्धौ च-कनिन् । उक्ता महन्नाम-निघ० ३ । ३ । उक्तभ्यो महद्भ्यः प्रबलेभ्योऽन्नं यस्मात् तस्मै । प्रबलानां भोजनदाने (वशाप्ताय) वशिरण्योरु-पसंख्यानम् । वा० पा० ३ । ३ । ५८ । वश स्पृहायाम्, अप्, टाप् । वशाभ्यो वशीभूताभ्यः प्रजाभ्योऽन्नं यस्यात् तस्मै । निर्बलप्रजानां भोजनदाने (सोमपृष्ठाय) पूषु सेचने—थक् । ऐश्वर्यस्य सेचकाय वर्धकायः (वेधसे) प्रेषाविने-निघ० ३ । १५ (स्तोमैः) स्तुत्यकर्मभिः (विधेम) परिचरेम (अन्नये) अश्विचत्तेज-स्विने राधे ॥

१—(मरुतः) शूरविद्वान्सः (पोत्रात्) सर्वधातुभ्यः पून् । उ० ४ । १५६ । पूष् शोधने-पून् । पवित्रव्यवहारात् (सुष्टुभः) स्तोमतिरर्चतिषर्मा-निघ० ३ । १४, क्विप् । बहुस्तुतियोऽयात् (स्वर्कात्) बहुपूजनीयात् (अतुना) अतुना

अनुसार (सोमम्) उत्तम ओषधियों के रस को (पिबतु) पीवे ॥ १ ॥

भाषार्थ—मनुष्य उत्तम व्यवहारों से उत्तम ओषधि आदि का सेवन करके सदा सुख बढ़ावे ॥ १ ॥

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है— १ । १५ । २ ॥

अग्निराग्नीध्रात् सुष्टुभः स्वर्कादृतुना सोमं पिबतु ॥ २ ॥

अग्निः । आग्नीध्रात् । सु-स्तुभः । सु-अर्कात् । अृतुना ।
सोमंश्च । पिबतु ॥ २ ॥

भाषार्थ—(अग्निः) अग्नि [समान तेजस्वी पुरुष] (सुष्टुभः) बड़े स्तुति योग्य, (स्वर्कात्) बड़े पूजनीय (आग्नीध्रात्) अग्नि की प्रकाश विद्या को आभय में रखने वाले व्यवहार से (अृतुना) अतु के साथ (सोमम्) उत्तम ओषधियों के रस को (पिबतु) पीवे ॥ २ ॥

भाषार्थ—मनुष्य उत्तम अग्नि विद्या के उपयोग से सदा सुख सोमभी बढ़ावे ॥ २ ॥

इन्द्रो ब्रह्मा ब्राह्मणात् सुष्टुभः स्वर्कादृतुना सोमं पिबतु ॥ ३ ॥

इन्द्रः । ब्रह्मा । ब्राह्मणात् । सु-स्तुभः । सु-अर्कात् । अृतुना ।
सोमंश्च । पिबतु ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(इन्द्रः) परम ऐश्वर्य वाला (ब्रह्मा) ब्रह्मा [वेदज्ञाता पुरुष] (सुष्टुभः) बड़े स्तुति योग्य, (स्वर्कात्) बड़े पूजनीय (ब्राह्मणात्)

सह । अतुमनुसृत्यैत्यर्थः (सोमम्) सदोषधिरसम् (पिबतु) बहुवचनस्यै-
कवचनम् । पिबन्तु ॥

२—(अग्निः) अग्निवत्तेजस्वी पुरुषः (आग्नीध्रात्) अग्नि+इन्धी
दीप्तौ-किप्, नलोपः । अग्नीधः शरणे रञ् भञ्च । वा० पा० ४ । ३ । १२० ।
अग्नीध्-रञ्, भत्वाञ् जश् । अग्नीत् अग्निदीपनं यस्य शरण आभये तस्मात् ।
अग्निप्रकाशविद्याशरणयुक्तव्यवहारात् । शिष्टं पूर्ववत् ॥

३—(इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् (ब्रह्मा) वेदज्ञाता पुरुषः (ब्राह्मणात्)

ब्राह्मण [वेदोक्त ज्ञान] से (ऋतुना) ऋतु के अनुसार (सोमम्) उत्तम ओषधियों के रस को (पिवतु) पीवे ॥ ३ ॥

भावार्थ—वेदज्ञानी पुरुष वेदज्ञान से सदा सुख प्राप्त करे ॥ ३ ॥

देवो द्रविणोदाः पोत्रात् सुष्टुभः स्वर्कात्तुना सोमं पिवतु ॥४

देवः । द्रविणः-दाः । पोत्रात् । सु-स्तुभैः । सु-अर्कात् ।

ऋतुना । सोमंस् । पिवतु ॥ ४ ॥

भावार्थ—(देवः) विद्वान् (द्रविणोदाः) धन वा बल का दाता पुरुष, (सुष्टुभः) बड़े स्तुति योग्य, (स्वर्कात्) बड़े पूजनीय (पोत्रात्) पवित्र व्यवहार से (ऋतुना) ऋतु के अनुसार (सोमम्) उत्तम ओषधियों के रस को (पिवतु) पीवे ॥ ४ ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग सुपात्रों को योग्य दान देकर सुख को प्राप्त हों ॥ ४ ॥

सूक्तम् ३ ॥

१—३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छन्दः ॥

राजप्रजाकर्तव्योपदेशः—राजा और प्रजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

आ याहि सुषुमा हि तु इन्द्र सोमं पिबाम् इमम् ।

एदं बर्हिः सुदो मम ॥ १ ॥

आ । याहि । सुषुमा । हि । तु । इन्द्र । सोमंस् । पिबाम् ।

इमम् ॥ आ । इदम् । बर्हिः । सुदुः । मम ॥ १ ॥

वेदोक्तज्ञानात् । शिष्टं पूर्ववत् ॥

५—(देवः) विद्वान् (द्रविणोदाः) द्रविणशब्दस्य सकार उपजनः, ददातेरसुनि वाङ्मलकादाकारलोपः । द्रविणोदाः कस्माद्धनं द्रविणमुच्यते यदेन-दभिद्रवन्ति बल वा द्रविणं यदेनेनाभिद्रवन्ति तस्य दाता द्रविणोदाः—निहं० क. । १ । धनस्य बलस्य वा दाता । अन्यत् पूर्ववत् ॥

भाष्यार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (आ याहि) तू आ, (हि) क्योंकि (ते) तेरे लिये (सोमम्) सौम [उत्तम ओषधियों का रस] (सुषुम) हम ने सिद्ध किया है, (इमम्) इस [रस] को (पिब) पी, (मम) मेरे (इदम्) इस (बर्हिः) उत्तम आसन पर (आ सदः) बैठ ॥ १ ॥

भाष्यार्थ—लोग विद्वान् सद्बैद्य के सिद्ध किये हुये महौषधियों के रस से राजा को स्वस्थ बलवान् रख कर राजसिंहासन पर सुशोभित करें ॥ १ ॥

यह तूच ऋग्वेद में है—८। १७। १—३। और सामवेद—३०। १। १। तूच ६, मन्त्र १ सामवेद—पू० २। १०। ७ तथा आगे है—अ० २०। ३८। १—३ और ४७। ७—६ ॥

आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना ।

उप ब्रह्माणि नः शृणु ॥ २ ॥

आ । त्वा । ब्रह्म-युजा । हरी इति । वहताम् । इन्द्र ।
केशिना ॥ उप । ब्रह्माणि । नः । शृणु ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (ब्रह्मयुजा) धन के लिये जोड़े गये, (केशिना) सुन्दर केश [कन्धे आदि के धालों] वाले (हरी) रथ ले चलने वाले दो घोड़े [के समान बल और पराक्रम] (त्वा) तुम्हें को (आ) सब ओर (वहताम्) ले चलें । (नः) हमारे (ब्रह्माणि)

१—(आ याहि) आगच्छ (सुषुम) पुञ् अभिपद्ये—लिट्, छान्दसं रूपम्, साहितिको दीर्घः । वयमभिषुतवन्तः । निष्पादितवन्तः (हि) यस्मात् कारणात् (ते) तुभ्यम् (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् राजन् (सोमम्) सद्बैद्यिरसम् (पिब) पानं कुरु (इमम्) रसम् (इदम्) आस्तीर्णम् (बर्हिः) प्रवृद्धासनम् (आ सदः) लेटि, अडागमे, इतप्रच लोपे च कृते रूपम् । निपीद ॥

२—(आ) समन्तात् (त्वा) त्वाम् (ब्रह्मयुजा) ब्रह्म धननाम—निघ० २। १०। ब्रह्मणे धनाय शुल्यमानौ (हरी) रथस्य हारकावश्वाविष्व बलपराक्रमौ (वहताम्) प्रापयताम् (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् राजन् (केशिना) प्रशस्तकेशयुक्तौ स्करधादिष्व् क् ण् धालोपेतौ (उप) पूजायाम् (ब्रह्माणि) वेदज्ञानानि

वेदज्ञानों को (उप) आदर से (शृणु) वृ सुन ॥ २ ॥

भाषार्थ—जैसे उत्तम बलवान् घोड़े रथ को ठिकाने पर पहुंचाने हैं, वैसे ही राजा वेदोक्त मार्ग पर चल कर अपने बल और पराक्रम से राज्य भार उठाकर प्रजा पालन करे ॥ २ ॥

इस मन्त्र का मिलान करो—दयानन्दभाष्य यजु० ८। ३४, ३५ और अथ० २०। २६। २ ॥

ब्रह्मणास्तवा वयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः ।

सुतावन्तो हवामहे ॥ ३ ॥

ब्रह्मणाः । त्वा । वयम् । युजा । सोम-पाम् । इन्द्र ।

सोमिनः ॥ सुत-वन्तः । हवामहे ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (सोमपाम्) ऐश्वर्य के रक्षक (त्वा) तुझ को (युजा) मित्रता के साथ (ब्रह्मणाः) वेद जानने वाले, (सोमिनः) ऐश्वर्य वाले, (सुतवन्तः) उत्तम पुत्रादि [सन्तानों] वाले (वयम्) हम (हवामहे) बुलाते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जिस राजा के सुप्रबन्ध से प्रजागण ज्ञानवान्, धनवान् और सुशिक्षित सन्तान वाले होवें, उसको मित्र जान कर सदा स्मरण करें ॥ ३ ॥

सूक्तम् ४ ॥

१—३॥ इन्द्रो देवता ॥ १ गायत्री, २, ३ निचृद् गायत्री ॥

महौषधिरसपानोपदेशः—महौषधियों के रसपान का उपदेश ॥

आ नो याहि सुतावन्तोऽस्माकं सुष्टुतीरुप ।

(नः) अस्माकम् (शृणु) आकर्ण्य ॥

३—(ब्रह्मणाः) वेदज्ञानारः (त्वा) त्वाम् (वयम्) प्रजागणाः (युजा) सम्पदादिक्रिप् । संयोगेन । मित्रभावेन (सोमपाम्) ऐश्वर्यरक्षकम्—दयानन्द-भाष्ये, यजु० ८। ३४ (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् राजन् (सोमिनः) ऐश्वर्यवन्तः (सुतवन्तः) सुशिक्षितसन्तानयुक्ताः (हवामहे) आह्वयामः ॥

पिवा सु शिप्रिन्नन्धसः ॥ १ ॥

आ । नः । याहि । सुत-वतः । अस्माकम् । सु-स्तुतीः ।

उप ॥ पिब । सु । शिप्रिन् । अन्धसः ॥ १ ॥

भाषार्थ—[हे इन्द्र राजन् ।] (अस्माकम्) हमारी (सुष्टुतीः) सुन्दर स्तुतियों को (उप=उपेत्य) प्राप्त होकर (सुतवतः) उत्तम पुत्र आदि [सन्तानों] वाले (नः) हम लोगों को (आ याहि) आकर प्राप्त हो । (सुशिप्रिन्) हे दृढ़ जावड़े वाले । (अन्धसः) इस अन्न रस का (सु) भले प्रकार (पिब) पान कर ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्य सुन्दर महौपधियों के रस के सेवन से दृष्ट पुष्ट होवें ॥ १ ॥

यह त्व ऋग्वेद में है—५ । १७ । ४—६ ॥

आ ते सिञ्चामि कुक्ष्योरनु गात्रा वि धावतु ।

गुभाय जिह्वया मधु ॥ २ ॥

आ । ते । सिञ्चामि । कुक्ष्योः । अनु । गात्रा । वि ।

धावतु ॥ गुभाय । जिह्वया । मधु ॥ २ ॥

भाषार्थ—[हे राजन् ।] (ते) तेरी (कुक्ष्योः) दोनों कोखों में (मधु) मधुर पान को (आ) मली भांति (सिञ्चामि) मैं सींचना हूँ, वह (गात्रा अनु)

१—(आ) आगत्य (नः) अस्मान् (याहि) प्राप्नुहि (सुतवतः) उत्तमसन्तानयुक्तान् (अस्माकम्) (सुष्टुतीः) शोभनाः स्तुतीः (उप) उपेत्य (पिब) पानं कुरु (सु) सुष्टु (शिप्रिन्) स्फायितश्चिबुञ्चि० । ७० २ । १३ । शिप्रिं निशाने छेदने—रक्, पुक्, च, यडा सृष्ट गतौ—रक्, सुशब्दस्य शिभावः । शिप्रे हनू नासिके वा—निरु० ६ । १७ । हे दृढ़हनूयुक्त (अन्धसः) अन्नरसस्य ॥

२—(आ) समन्तात् (ते) तव (सिञ्चामि) अवनयामि । पूरयामि (कुक्ष्योः) सव्यदक्षिणपार्श्वयोः (अनु) प्रति (गात्रा) अङ्गानि (वि) विविधम् ।

[तेरे] अङ्गों में (वि धावतु) दौड़ने लगे, [रन् को] (जिह्वा) जीम से (गुमाय) ग्रहण कर ॥ २ ॥

भावार्थ—सङ्घैद्य रुधिरसंचारक ओषधियों का सेवन कराके मनुष्यों को पुष्ट रखें ॥ २ ॥

स्वादुष्टे अस्तु संसुदे मधुमान् तन्वे ३ तव ।

सोमः शमस्तु ते हृदे ॥ ३ ॥

स्वादुः । ते । अस्तु । सुम्-सुदे । मधु-मान् । तन्वे । तव ॥

सोमः । शम् । अस्तु । ते । हृदे ॥ ३ ॥

भावार्थ—[हे राजन् ।] (सोमः) सोम [उत्तम ओषधियों का रस] (ते) तेरे (संसुदे) स्वीकार करने के लिये (स्वादुः) स्वादु [रोचक] और (तव) तेरे (तन्वे) शरीर के लिये (मधुमान्) मधुर रस वाला (अस्तु) होवे और (ते) तेरे (हृदे) हृदय के लिये (शम्) शान्तिकारक (अस्तु) होवे ॥ ३ ॥

भावार्थ—मनुष्य ऐसी उत्तम ओषधियों का रस सेवन करें जो जाने में स्वादिष्ट हों, शरीर को पुष्ट और हृदय को शान्त करें ॥ ३ ॥

सूक्तम् ५ ॥

मन्त्राः १—७ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, २, ६ गायत्री; ३—५, ७ निचूड गायत्री छन्दः ॥

सोमसेवनोपदेशः—सोम रस के सेवन का उपदेश ॥

सर्वत्र (धावतु) प्रवहतु (गुमाय) इनः शायजादेशः, हस्य भः । गृहाण (जिह्वा) रसनया (मधु) मधुरपानम् ॥

३—(स्वादुः) रोचकः (ते) तव (अस्तु) (संसुदे) षूद आभुति-हृत्योः—क्विप्, छान्दसो ह्रस्वः, आभुतिरङ्गीकारः । सम्यक् स्वीकरणाय (मधु-मान्) माधुर्योपेतः (तन्वे) शरीराय (तव) (सोमः) सद्योषधिरसः (तन्वे) शरीराय (शम्) सुखकरः (अस्तु) (ते) तव (हृदे) हृदयाय ॥

अयम् त्वा विचर्षणे जनीरिवाभि संवृतः ।

प्र सोमं इन्द्र सर्पतु ॥ १ ॥

अयम् । ऊं इति । त्वा । वि-चर्ष-णे । जनीः-इव । अभि ।

सम्-वृतः ॥ प्र । सोमः । इन्द्र । सर्प-तु ॥ १ ॥

भाष्यार्थ—(विचर्षणे) हे दूरदर्शी (इन्द्र) इन्द्र ! [परम ऐश्वर्य वाले पुरुष] (अयम् उ) यही (अभि) सब प्रकार (संवृतः) यथाविधि स्वीकार किया हुआ (सोमः) सोम [महौषधियों का रस], (जनीः इव) कुलस्त्रियों के समान, (त्वा) तुम्हको (प्र) अच्छे प्रकार (सर्पतु) प्राप्त होवे ॥ १ ॥

भावार्थ—जैसे कुलस्त्रियाँ अपने सन्तान आदि का हिन करती हैं, वैसे ही अद्वैतों का सिद्ध किया हुआ महौषधियों का रस सुखदायक होता है ॥१॥

मन्त्र १-७ ऋग्वेद में हैं—॥ १७ । ६-१३ ॥

तुविग्रीवो वृषोदरः सुबाहु रन्धसो मदे ।

इन्द्रो वृत्राणि जिघ्रते ॥ २ ॥

तुवि-ग्रीवः । वृषा-उदरः । सु-बाहुः । अन्धसः । मदे ॥

इन्द्रः । वृत्राणि । जिघ्रते ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—(तुविग्रीवः) दढ़ गले वाला, (वृषोदरः) चर्बी से युक्त पेट वाला, (सुबाहुः) बलवान् भुजाओं वाला (इन्द्रः) इन्द्र [परम ऐश्वर्य

१—(अयम्) (उ) एव (त्वा) त्वाम् (विचर्षणे) कृषेरादेश्च चः । उ० २ । १०४ । वि + कृष विलेखनं—अनि, कस्य चः । विचर्षणिः पश्यतिकर्मा—
[निघ० ३ । ११ । हे विविधं द्रष्टः । दूरदर्शिन (जनीः) जनयः । कुलस्त्रियः (इव) । यथा, (अभि) अभितः । सर्वप्रकारेण (संवृतः) सम्यक् स्वीकृतः, (प्र) प्रकर्षेण (सोमः) महौषधिरसः, (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् पुरुष (सर्पतु), प्राप्नोतु ॥

२—(तुविग्रीवः) दढकरणः (वृषोदरः) वृषा वसा मेद उदरे यस्य सः (सुबाहुः) प्रभूतबलश्रुतः (अन्धसः) अन्तरस्य (मदे) हर्षे (इन्द्रः) परमै-

धाता पुरुष] (अन्धसः) अज्ञ रस के (मदे) आनन्द में (वृत्राणि) बैरियों को (जिघ्रते) मारे ॥ २ ॥

भावार्थ—मनुष्य उत्तम ओषधियों के यथावत् सेवन से पुष्ट और बलवान् होकर शत्रुओं का नाश करे ॥ २ ॥

इन्द्रं प्रोहि पुरस्त्वं विश्वस्येशानं ओजसा ।

वृत्राणि वृत्रहं जहि ॥ ३ ॥

इन्द्रं । प्र । इहि । पुरः । त्वस् । विश्वस्य । ईशानः ।

ओजसा ॥ वृत्राणि । वृत्र-हन् । जहि ॥ ३ ॥

भावार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [परम पेश्वर्य वाले राजन् !] (ओजसा) अपने बल से (विश्वस्य) सब का (ईशानः) स्वामी (त्वम्) तू (पुरः) सामने से (प्र इहि) आगे बढ़ । (वृत्रहन्) हे बैरियों के नाश करने वाले ! (वृत्राणि) बैरियों को (जहि) नाश कर ॥ ३ ॥

भावार्थ—मनुष्य महाबली होकर आगे बढ़ता हुआ सब विघ्नों को मिटावे ॥ ३ ॥

दीर्घस्ते अस्त्वङ्कुशो येना वसुं प्रयच्छसि ।

यजमानाय सुन्वते ॥ ४ ॥

दीर्घः । ते । अस्तु । अङ्कुशः । येन । वसुं । प्र-यच्छसि ।

यजमानाय । सुन्वते ॥ ४ ॥

श्वर्यवान् पुरुषः (वृत्राणि) शत्रून् (जिघ्रते) हन्तेर्लेट् । लेटोऽडादौ । पा० ३ । ४ । ६४ । अडागमः, शपः श्लुः । बहुलं छन्दसि । पा० ७ । ४ । ७८ । अभ्यासस्य इत्त्वम् । हन्यात् । मारयेत् ॥

३—(इन्द्र-) (प्र) प्रकर्षेण (इहि) गच्छ (पुरः) अग्रतः (त्वम्) (विश्वस्य) सर्वस्य (ईशानः) स्वामी (ओजसा) स्वबलेन (वृत्राणि) शत्रून् (वृत्रहन्) हे शत्रुनाशक (जहि) नाशय ॥

भाषार्य—[हे शूर !] (ते) तेरा (अक्रुशः) अक्रुश [दण्डसाधन] (दीर्घः) लम्बा (अस्तु) होवे, (येन) जिस के कारण से (सुन्वते) तत्त्व रस निचोड़ने वाले (यजमानाय) यजमान [दाता पुरुष] को (वसु) धन (प्रयच्छसि) तू देता है ॥ ४ ॥

भाषार्य—राजा दुष्टों के दण्ड देने में निष्पत्त और प्रचण्ड होकर सज्जनों का मान बढ़ावे ॥ ४ ॥

अयं तं इन्द्र सोमो निपूतो अधि बर्हिषि ।

एहीमस्य द्रवा पिब ॥ ५ ॥

अयम् । ते । इन्द्र । सोमः । नि-पूतः । अधि । बर्हिषि ॥

आ । इहि । ईम् । अस्य । द्रव । पिब ॥ ५ ॥

भाषार्य—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [परम ऐश्वर्य वाले राजन् !] (ते) तेरे लिये (अयम्) यह (निपूतः) छाना हुआ (सोमः) सोम [महौषधियों का रस] (बर्हिषि अधि) बढ़िया आसन के ऊपर [है] । (आ इहि) तू आ, (ईम्) अब (द्रव) दौड़ और (अस्य) इस का (पिब) पान कर ॥ ५ ॥

भाषार्य—उत्तम सोम रस उत्तम आसन पर बैठ कर रुचि से पीना चाहिये ॥ ५ ॥

यह मन्त्र सामवेद में है—पृ० २। ७। ५ और मन्त्र ५-७ सामवेद में हैं—उ० १। २। तृच ५ ॥

शार्विणो शार्विपूजनाय रणाय ते सुतः ।

आखंयडलु म हूयसे ॥ ६ ॥

४—(दीर्घः) आयतः । विस्तृतः (ते) तव (अस्तु) (अक्रुशः) वक्राग्रो लौहास्त्रभेदः । दण्डसाधनम् (येन) कारणेन (वसु) धनम् (प्रयच्छसि) ददासि (यजमानाय) दानिने पुरुषाय (सुन्वते) तत्त्वरसं निष्पादयते ॥

५—(अयम्) (ते) तुभ्यम् (इन्द्र) (सोमः) सद्यौषधिरसः (निपूतः) नितरां शोधितः (अधि) उपरि (बर्हिषि) प्रवृद्धासने (इहि) आगच्छ (ईम्) इदानीम् (अस्य) सोमस्य (द्रव) त्वया आगच्छ (पिब) पानं कुरु ॥

शाचिगो इति शाचि-गो । शाचि-पूजन । अयम् । रणाय ।
ते । सुतः ॥ आखण्डल । प्र । ह्यसे ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(शाचिगो) हे स्पष्ट वाणियों वाले । (शाचिपूजन) हे प्रसिद्ध सत्कार वाले । (अयम्) यह [सोमरस] (ते) तेरे लिये (रणाय) रण जीतने को (सुतः) सिद्ध किया गया है । (आखण्डल) हे [शत्रुओं के] खण्ड खण्ड करने वाले ! (प्र ह्यसे) तू आवाहन किया जाता है ॥ ६ ॥

भावार्थ—मनुष्य सत्यवक्ता, सत्य कीर्ति वाले पुरुष का सत्कार उत्तम पदार्थों से करे ॥ ६ ॥

यस्ते शृङ्गवृषो नपात् प्रणपात् कुरडुपाय्यः ।

न्यस्मिन् दध्न आ मनः ॥ ७ ॥

यः । ते । शृङ्ग-वृषः । नपात् । प्रणपादिति प्र-नपात् ।

कुरडु-पाय्यः ॥ नि । अस्मिन् । दध्ने । आ । मनः ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(शृङ्गवृषः) हे तेज की वृष्टि करने वाले [शूर पुरुष] के (नपात्) न गिराने वाले [राजन् !] (ते) तेरा (यः) जो (प्रणपात्) अतिशय करके न गिराने वाला (कुरडुपाय्यः) रक्षा करने वाले [सोमरस]

६—(शाचिगो) वसिष्ठपियजि० । उ० ४ । १२५ । शच व्यक्तायां वाचि-
इम् । गौरिति षाड्नाम—निघ० १ । ११ । शाचयः स्पष्टा गावो यस्य स
शाचिगुः । हे स्पष्टवाक् (शाचिपूजन) हे प्रख्यातसत्कार (अयम्) सोमरसः
(रणाय) रणं युद्धं जेतुम् (ते) तुभ्यम् (सुतः) संस्कृतः, (आखण्डल)
मङ्गेरलच् । उ० ५ । ७० । आङ् + खण्डि भेदने-अलच् । हे शत्रूणां सर्वथा खण्ड-
यितः (प्र) प्रकर्षेण (ह्यसे) आहूतोऽसि ॥

७—(यः) (ते) तव (शृङ्गवृषः) शृणुतेर्ह्रस्वश्च । उ० १ । १२६ । शृ-
हिंसायाम्—गन्, जुडागमः + वृषु सेचने-क्विप् । शृङ्गाणि ज्वलतो नाम—निघ०
१ । १७ । शृङ्गस्य तेजसो वर्षकस्य शूरस्य (नपात्) हे न पातयितः । रक्षक
(शृङ्गवृषो नपात्) सुवामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे । पा० २ । १ । २ । इतिष्य-
न्तस्य शृङ्गवृषस्य पराङ्गवद् भावेनामन्त्रितानुपवेशात् समुदायस्याष्टमिकं
सर्वादिदात्तस्य (प्रणपात्) प्रकर्षेण न पातयिता रक्षिता (कुरडु-

पीने का व्यवहार है। (अस्मिन्) उस में (मनः) मन को (नि) निरन्तर (आ दध्ने) मैं धारण करता हूँ ॥ ७ ॥

भावार्थ—जो राजा शूर वीर लोगों का उत्साह देने वाला और सोम यज्ञ करके अन्न आदि से प्रजा की रक्षा करे, विद्वान् जन उस राजा के उत्तम कामों से प्रसन्न हों ॥ ७ ॥

सूक्तसु ६ ॥

१—६ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १—४, ६—६ गायत्री ; ५ निचृद् गायत्री ॥

राजप्रजाविषयोपदेशः - राजा और प्रजा के विषय का उपदेश ॥

इन्द्रं त्वा वृषभं वृयं सुते सोमं हवामहे ।

स पाहि मध्वो अन्धसः ॥ १ ॥

इन्द्रं । त्वा । वृषभम् । वृयम् । सुते । सोमं । हवामहे ॥

सः । पाहि । मध्वः । अन्धसः ॥ १ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र-। [अत्यन्त पेश्वर्य वाले राजन्] (वृषभम्) वलिष्ठ (त्वा) तुझ को (सुते) सिद्ध किये हुये (सोमे) सोम [पेश्वर्य वा ओपधियों के समूह] में (वयम्) हम (हवामहे) जुलाते हैं । (सः) सो वृ (मध्वः) मधुरगुण से युक्त (अन्धसः) अन्न की (पाहि) रक्षा कर ॥ १ ॥

भावार्थ—प्रजाजन सत्कार के साथ पेश्वर्य देकर धर्मात्मा राजा से अपनी रक्षा करावें, जैसे सद्बुद्धि उत्तम ओपधियों से रोगी को अच्छा करता है ॥ १ ॥

पाठ्यः) कुडि रक्षणे-अच् । क्रतौ कुरडपाठ्यसंचार्यौ । पा० ३ । १ । १३० ।
कुरड + पा पाने—यत्, युगागमः । कुण्डो रक्षकः सोमः पातव्यो यस्मिन् स व्यवहारः । क्रतुः कर्मनाम-निघ० २ । १ (नि) नितराम् (अस्मिन्) कुरड-
ण्ये व्यवहारे (आ दध्ने) बहुलं छन्दसि । पा० ७ । १ । ८ । इति रुडागमः ।
अहमाद्धे । समन्ताद् दधामि धारयामि ॥

१-अयं मन्त्रो न्याख्यातः-अ० २० । १ । १ ॥

यह मन्त्र आचुका है—अ० २०।१।१। यह सूक्त ऋग्वेद में है—३।
४०।१—६ ॥

इन्द्रं क्रतुविदं सुतं सोमं हर्यं पुरुष्टुत ।

पिबान्वृषस्वतातृपिम् ॥ २ ॥

इन्द्रं । क्रतु-विदंम् । सुतम् । सोमंम् । हर्यं । पुरु-स्तुत ॥

पिबं । आ । वृषस्व । ततृपिम् ॥ २ ॥

भाषार्थ—(पुरुष्टुत) हे बहुतों से बड़ाई किये गये (इन्द्र) इन्द्र !
[बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (क्रतुविदम्) बुद्धि के प्राप्त कराने वाले, (ततृपिम्)
तृप्त करने वाले, (सुतम्) सिद्ध किये हुये (सोमम्) सोम [महीषधियों के
रस] की (हर्यं) इच्छा कर, (पिब) पी (आ) और (वृषस्व) बलवान् हो ॥२॥

भाषार्थ—राजा बल और बुद्धि बढ़ाने वाले खान पान के भोजन से
तृप्त होकर स्वस्थ रहे ॥ २ ॥

यह मन्त्र आगे है—अ० २०।७।४ ॥

इन्द्रं प्रं तिरं धितवानं युञ्जं विश्वेभिर्देवेभिः ।

तिरं स्तवानं विशपते ॥ ३ ॥

इन्द्रं । प्र । नः । धित-वानम् । युञ्जम् । विश्वेभिः । देवेभिः ॥

तिरं । स्तवान् । विशपते ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(स्तवान) हे बड़ाई किये गये । (विशपते) हे प्रजापालक !

२—(इन्द्र) हे परमेश्वर्यवान् राजन् (क्रतुविदम्) प्रज्ञाप्रापकम् (सुतम्)
सस्कृतम् (सोमम्) महीषधिरत्नम् (हर्यं) कामयस्व (पुरुष्टुत) हे बहुभिः
प्रशंसित (पिब) (आ) समुच्चये (वृषस्व) बलिष्ठो भव (ततृपिम्)
किंकिनाबुत्सर्गश्छन्दसि सदादिभ्यो दर्शनात् । वा० पा० ३।२।१७१। तृप
प्रीयाने—किन्, साहितिको दीर्घः । तर्पकम् । प्रीययितारम् ॥

२—(इन्द्र) (प्र तिर) वर्धय (नः) अस्मभ्यम् (धितवानम्) धि

(इन्द्र) हे इन्द्र । [बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] - (विश्वेभिः) सब (देवेभिः) विद्वानों के साथ (नः) हमारे लिये (धिनवानम्) सेवनीय धन धारण कराने वाले (यज्ञम्) यज्ञ [विद्वानों के सत्कार, सत्संग और दान] को । प्र तिर) बड़ा ॥ ३ ॥

भावार्थ—प्रजापालक राजा विद्वानों के साथ विद्या आदि श्रेष्ठ कर्मों की उन्नति कर के प्रजा का पेश्वर्य बढ़ावे ॥ २ ॥

इन्द्र सोमाः सुता इमे तव प्र यन्ति सत्पते ।

क्षयं चन्द्रासु इन्द्रवः ॥ ४ ॥

इन्द्र । सोमाः । सुताः । इमे । तव । प्र । यन्ति । सत्-पते ॥

क्षयम् । चन्द्रासुः । इन्द्रवः ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(सत्पते) हे सत्पुरुषों के पालन करने वाले (इन्द्र) इन्द्र ! [सम्पूर्ण पेश्वर्य वाले राजन्] (इमे) यः (चन्द्रासुः) आनन्द कारक, (इन्द्रवः) गीले [रसीले], (सुताः) सिद्ध किये हुये (सोमाः) सोम [महौषधियों के रस] (तव) तेरे (क्षयम्) रहने के स्थान को (प्र यन्ति) पहुंचते हैं ४

भावार्थ—राजा विद्वानों द्वारा उत्तम उपयोगी पदार्थों का संग्रह करके प्रजा को पाले ॥ ४ ॥

धृतौ-क + वन सेवने—घञ् । धितो धृतो वानः सेवनीयं धनं यस्मात् तम् (यज्ञम्) देवपूजासंगतिकरणदानव्यवहारम् (विश्वेभिः) सर्वैः (देवेभिः) विद्वद्भिः (स्तवान्) ण्डुञ् स्तुतौ—शानच्, छान्दसं रूपम्, कर्मणि कर्तृप्रत्ययः । हे स्तूयमान (विश्वेभिः) हे प्रजापालक ॥

४—(इन्द्र) (सोमाः) महौषधिरसाः (सुताः) सस्कृताः (इमे) (तव) (प्र) प्रकर्षेण (यन्ति) प्राप्नुवन्ति (सत्पते) सतां सत्पुरुषाणां पालक (क्षयम्) निवासस्थानम् (चन्द्रासुः) यदि आह्लादने दीप्तौ च—एक्, असु-गागमः । आह्लादकाः (इन्द्रवः) इन्देरिचवादेः । उ० १ । १२ । इन्दी क्लेदने—उ । १ । १ । उ कारश्च इकारः । क्लिप्ताः । न जज्ञाः । रसात्प्रकाः ॥

दधिष्वा जुठरे सुतं सोमसिन्द्र वरेण्यम् ।

तव द्युक्षासु इन्द्रवः ॥ ५ ॥

दधिष्वा । जुठरे । सुतम् । सोमम् । इन्द्र । वरेण्यम् ॥

तव । द्युक्षासुः । इन्द्रवः ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र । [सम्पूर्ण पेश्वर्य वाले राजन्] (वरेण्यम्) अग्नीकार करने योग्य (सुतम्) सिद्ध किये हुये (सोमम्) सोम [अन्न आदि महौषधियों के रस] को (जुठरे) पेट में (दधिष्वा) घर, (द्युक्षासुः) व्यवहार में रहने वाले (इन्द्रवः) रसीले पदार्थ (तव) तेरे [ही हैं] ॥ ५ ॥

भाषार्थ—राजा आदि श्रेष्ठ जन उत्तम पदार्थों के सेवन से बल और बुद्धि बढ़ावें ॥ ५ ॥

गिर्वणः प्राहि नः सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे ।

इन्द्र त्वादातुमिद् यशः ॥ ६ ॥

गिर्वणः । प्राहि । नः । सुतम् । मधोः । धाराभिः । अज्यसे ॥

इन्द्र । त्वा-दातम् । इत् । यशः ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(गिर्वणः) हे वाणियों से सेवने योग्य ! (नः) हमारे (सुतम्) पेश्वर्य की (प्राहि) रक्षा कर, (मधोः) मधुर रस की (धाराभिः) धाराओं करके (अज्यसे) तू प्राप्त किया जाता है । (इन्द्र) हे इन्द्र ! [परम पेश्वर्य

५—(दधिष्वा) दधातेर्लोट्, साहितिको दीर्घः । धस्व । धस्व (जुठरे) उदरे (सुतम्) संस्कृतम् (सोमम्) अन्नादिमहौषधिरसम् (इन्द्र) (वरेण्यम्) अ० ७ । १४ । ४ । वृञ् वरणे-परण । स्वीकरणीयम् (तव) तवैव (द्युक्षासुः) दिव् + क्षि निवासगतयोः-डप्रत्ययः, असुगानमः । दिवि व्यवहारे निवासशीलाः (इन्द्रवः) म० ४ । सजलाः । रसात्मकाः पदार्थाः ॥

६—(गिर्वणः) गृ शब्दे—क्विप् + वन संभक्तौ-असुन् । गिर्वणा देवो भवति गीर्भिरेन वनयन्ति—निरु० ६ । १४ । हे गीर्भिर्वाणीभिः सेवनीय (प्राहि) रक्ष (नः) अस्माकम् (सुतम्) तु पेश्वर्ये-क । पेश्वर्यम् (मधोः) मधुररसस्य (धाराभिः) प्रवाहैः (अज्यसे) प्राप्यसे (इन्द्र) (त्वादातम्) त्वा + दाहातेः

वाले राजन्] (त्वादानम्) नेरा दिया हुआ [वा शोवा हुआ] (इत्) ही (यशः) [हमारा] यश है ॥ ६ ॥

भावार्थ—प्रजागण धर्मात्मा राजा का यथा योग्य धनादि से सत्कार करके अपना पेश्वर्य और यश बढ़ावें ॥ ६ ॥

यह मन्त्र सामवेद में भी है—पृ० ३।१।२ ॥

अभि द्युम्नानि वृनिन् इन्द्रं सचन्ते अक्षिता ।

पीत्वी सोमस्य ववृधे ॥ ७ ॥

अभि । द्युम्नानि । वृनिन्ः । इन्द्रम् । सचन्ते । अक्षिता ॥

पीत्वी । सोमस्य । ववृधे ॥ ७ ॥

भावार्थ—(वनिनः) सेवक लोग (अक्षिता) न घटने वाले (द्युम्नानि) धनों [वा यशों] को (अभि = अभिलक्ष्य) देखकर (इन्द्रम्) [बड़े पेश्वर्य वाले राजा] से (सचन्ते) मिलने हैं । वह (सोमस्य) सोम [अन्न आदि महौषधियों का रस] (पीत्वी) पीकर (ववृधे) बढ़ा है ॥ ७ ॥

भावार्थ—जो पराक्रमी धर्मात्मा राजा अक्षय धन और कीर्ति प्राप्त करता है, प्रजागण उससे प्रीति करते हैं ॥ ७ ॥

क, छान्दसं रूपम्, यद्वा दैव् शोधने-क । त्वादातम् = त्वया दानव्यम्—निरु० ४।४। त्वया वृत्तं शोधितं विशङ्कोक्तं वा (इत्) एव (यशः) अस्माकं कीर्तिः ॥

७—(अभि) अभिलक्ष्य (द्युम्नानि) धापृवस्यज्यतिभ्यो नः । उ० ३। ६। द्युत दीप्तौ-नप्रत्ययः, तकारस्य मकारः । द्युम्नं धननाम-निघ० २।१०। द्युम्नं द्योततेर्यशो वाङ्गं वा-निरु० ५।५। धनानि । यशांसि (वनिनः) वन संमक्तौ-अच् । अत इनिठनौ । पा० ५।२।१५। वन-इति । संभजमानाः । सेवकाः (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं राजानम् (सचन्ते) पच समवाये । संगच्छन्ते (अक्षिता) अक्षीणानि (पीत्वी) ज्ञात्वयाद्यश्च । पा० ७।१।४६। इति त्वीभावः । पीत्वा । पान कृत्वा (सोमस्य) अन्नादिमहौषधिरसस्य (ववृधे) प्रवृद्धो बभूव ॥

अर्वावितो नु आ गहि परावतश्च वृत्रहन् ।

इमा जुषस्व नो गिरः ॥ ८ ॥

अर्वा-वतः । नुः । आ । गहि । परा-वतः । च । वृत्र-हन् ॥

इमाः । जुषस्व । नुः । गिरः ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(वृत्रहन्) हे धन के पाने वाले ! (अर्वावतः) समीप देश से (च) और (परावतः) दूर देश से (नः) हम में (आ गहि) आ । और (नः) हमारी (इमाः) इन (गिरः) वाणियों का (जुषस्व) सेवन कर ॥ ८ ॥

भावार्थ—राजा धनवान् होकर समीप और दूर से प्रजा की पुकार सुनकर सदा रत्ना करे ॥ ८ ॥

इस मन्त्र का पूर्वार्ध कुछ भेद से आगे है—अ० २० । २० । ४ और ५७ । ८ ॥

यदन्तरा परावतमर्वावितं च हुयसे ।

इन्द्रे ह तत् आ गहि ॥ ८ ॥

यत् । अन्तरा । परा-वतम् । अर्वा-वतम् । च । हुयसे ॥

इन्द्र । इह । ततः । आ । गहि ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (यत्) जब कि (परावतम्) दूर देश (च) और (अर्वावतम्) समीप देश के (अन्तरा) बीच में (हुयसे) तू पुकारा जाता है, (ततः) इस लिये (इह) यहाँ पर

८—(अर्वावतः) अर्वाचीनात् । समीपदेशात् (नः) अस्मान् (आ गहि) आगच्छ (परावतः) दूरदेशात् (च) समुच्चये (वृत्रहन्) वृत्रं धननाम-निघ० २ । १० । हन् हिंसागत्योः—किप् । यो वृत्र धनं हन्ति प्राप्नोति स वृत्रहा तत्सम्बुद्धौ (इमाः) उच्चार्यमाणाः (जुषस्व) सेवस्य (नः) अस्माकम् (गिरः) वाचः ॥

४—(यत्) यदा (अन्तरा) मध्ये । अन्तरान्तरेण युक्ते । पा० २ । ३ । ४ । इति द्वितीया (परावतम्) दूरदेशम् (अर्वावतम्) समीपदेशम् (च) (हुयसे) आहूतो ऋषि (इन्द्र) (इह) अत्र (ततः) तस्मात् कारणात् (आ

(आ गहि) तू आ ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो न्यायी राजा योग्य अधिकारियों द्वारा सब स्थान में प्रजा को पाले, सब लोग उस से प्रीति करें ॥ ६ ॥

सूक्तम् ७ ॥

१-४ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ विराडाधी गायत्री ; २, ३ निचद् गायत्री ; ४ गायत्री ॥

सेनापतिलक्षणोपदेशः—सेनापति के लक्षणों का उपदेश ॥

उद्धेदुभि श्रुतामघं वृषभं नर्यापसम् ।

अस्तारमेषि सूर्य ॥ १ ॥

उद् । घृ । इत् । अ॒भि । श्रु॒त-म॑घम् । वृ॒ष॒भ॒म् । न॒र्य॑-अ॒प॒स॒म् ॥

अस्तारम् । सु॒षि॒ । सूर्य॑ ॥ १ ॥

भावार्थ—(सूर्य) हे सूर्य ! [सर्वव्यापक वा सर्वभेदक परमेश्वर] (श्रुतमघम्) विख्यात धन वाले, (वृषभम्) बलवान्, (नर्यापसम्) मनुष्यों के हितकारी कर्म वाले, (अस्तारम् अभि) शत्रुओं के गिराने वाले पुरुष को (इत्) ही (घ) निश्चय करके (उद् एषि) तू उदय होता है ॥ १ ॥

भावार्थ—परमपिता जगदीश्वर पुरुषार्थी सर्वहितकारी शूर पुरुष का सदा सहाय करता है ॥ १ ॥

गहि) आगच्छ ॥

१—(उद् एषि) ऊर्ध्वं गच्छसि (घ) अवश्यम् (इत्) एव (अभि) प्रति (श्रुतमघम्) प्रख्यातधनयुक्तम् (वृषभम्) बलवन्तम् (नर्यापसम्) अपः कर्मनाम-निघ० २।१।तस्मै हितम् । पा० ५।१।५। इति नर-यत् । नरेभ्यो हितकर्माणम् (अस्तारम्) अस्तु क्षेपणे—तृन् । रधादिभ्यश्च । पा० ७।२।४५। इति इङ्शिकल्पः । शत्रूणां निरसितारम् । क्षेत्तारम् (सूर्य) सृ गतौ यद्वा घृ प्रेरणे यद्वा, सु + ईर गतौ—क्यप् । सूर्यः सतेर्वा सुवतेर्वा स्वीर्यतेर्वा—निघ० १२।१४। हे सर्वव्यापक सर्वभेदक वा परमेश्वरः ॥

मन्त्र १—३ ऋग्वेद में हैं—८। ६३ [सायणभाष्य ८२] । १-३ । मन्त्र १
साम० पू० २। ४। १, मन्त्र १-३ साम० ङ० ६। ३। तुच ४ ॥

नवु यो नवुतिं पुरो विभेदं ब्राह्मोजसा ।

अहिं च वृत्रहावधीत् ॥ २ ॥

नवु । यः । नवुतिम् । पुरः । विभेदं । ब्राह्म-जसा ॥

अहिम् । च । वृत्र-हा । अवधीत् ॥ २ ॥

स न इन्द्रः शिवः सखाश्ववद् गोमद् यवमत् ॥

उरुधारेव दोहते ॥ ३ ॥

सः । नः । इन्द्रः । शिवः । सखा । अश्व-वत् । गो-मत् ।

यव-मत् ॥ उरुधारा-इव । दोहते ॥ ३ ॥

भाषार्थ— (यः) जिस (वृत्रहा) शत्रुनाशक [सेनापति] ने (ब्राह्म-
जसा) अपने बाहु बल से (नव नवतिम्) नौ नव्वे [९ + ९० = ९९ अथवा ९ ×
१० = ९०, अर्थात् असंख्य] (पुरः) दुर्गों को (विभेद) तोड़ा है (च) और
(अहिम्) सर्प [सर्प समान हिंसक शत्रु] को (अवधीत्) मारा ॥ २ ॥

(सः) वह (शिवः) सुखदायक (सखा) मित्र (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े
पेश्वर्य वाला सेनापति] (उरुधारा इव) बहुत दूध वाली [गौ] के समान
(नः) हमारे लिये (अश्ववत्) उत्तम घोड़ों वाला, (गोमत्) उत्तम गौओं

२—(यः) इन्द्रः (नव नवतिम्) नव च नवतिं च, यद्वा नवगुणितां
नवतिं दशोत्तराणि अष्टाशतानि एतत् सख्याकाः । असंख्याः (पुरः) दुर्गाणि (विभेद)
मिश्रवान् (ब्राह्मोजसा) भुजबलेन (अहिम्) आडि भिहनिभ्यां ह्रस्वश्च । ङ०
४ । १३८ । आङ् + हन हिंसागत्योः-इण् स च ङित् । आहन्तरं सर्पमिव हिंसकं
शत्रुम् (च) (वृत्रहा) शत्रुहन्ता (अवधीत्) हतवान् ॥

३—(सः) पूर्वोक्तः (नः) अस्मभ्यम् (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् सेनापतिः
(शिवः) सुखप्रदः (सखा) मित्रभूतः (अश्ववत्) उत्तमाश्वैर्युक्तम् (गोमत्)
उत्तमगोभिरेपेतम् (यवमत्) उत्तमाशुक्तं घनम् (उरुधारा) प्रभूतक्षीरधारा-

वाला और (यवमत्) उत्तम भ्रज वाला [धन] (दोहते) दुहे [पूर्ण करे] ॥३॥

भावार्थ—जो शूर सेनापति अनेक अधर्मी दुष्टों को नाश करे, वही भ्रजा को धनवान् करता है ॥ २, ३ ॥

मन्त्र २ का मिलान करो—ऋक्० १ । ८४ । १३ ॥

इन्द्रं क्रतुविदं सुतं सोमं हर्यं पुरुष्टुत ।

पिबा वृषस्व तातृपिम् ॥ ४ ॥

इन्द्रं । क्रतु-विदं । सुतम् । सोमं । हर्यं । पुरु-स्तुत ॥

पिबं । आ । वृषस्व । ततृपिम् ॥ ४ ॥

भावार्थ—(पुरुष्टुत) हे बहुतों से बड़ाई किये गये (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले सेनापति] (क्रतुविदम्) बुद्धि प्राप्त कराने वाले, (तृ-पिम्) वृष कराने वाले, (सुतम्) सिद्ध किये हुये (सोमम्) ; सोम [महौषधियों के रस] की (हर्यं) इच्छा कर, (पिब) पी (आ) और (वृषस्व) बलवान् हो ॥ ४ ॥

भावार्थ—सेनापति बल और बुद्धि बढ़ाने वाले ज्ञान पान के भोजन से तृप्त रह कर स्वस्थ रहे ॥ ४ ॥

यह मन्त्र आ चुका है—ऋ० २० । ६ । २ ॥

युक्तम् ८ ॥

१—३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ त्रिष्टुप्, २, ३ निचृत् त्रिष्टुप् ॥

मनुष्यकर्तव्योपदेशः— मनुष्य के कर्तव्य का उपदेश ॥

सुवा पीहि मुत्नया मन्दतु त्वा शुधि ब्रह्म वावुधस्वोत ग्रीर्भिः ।
आविःसूर्यं कृणुहि पीपिहीषो जहि शत्रूं रभि गा इन्द्र तृन्धिश्
सुष । पाहि । मुत्न-या । मन्दतु । त्वा । शुधि । ब्रह्म ।

युक्ता गीः (इव) यथा (दोहते) लेटि, अडागमः । पूरयेत् ॥

४—अयं मन्त्रो व्याख्यातः—ऋ० २० । ६ । २ ॥

वृधस्व । उत । गीः-भिः ॥ आविः । सूर्यम् । कृणुहि ।
पीपिहि । इषः । जहि । शत्रून् । अभि । गाः । हुन्द्र ।
तृन्धि ॥ १ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले पुरुष] (प्रलया) पहिले के समान (एव) ही [हमारी] (पाहि) रक्षा कर, (ब्रह्म) ईश्वर वा वेद (त्वा) तुझे (मन्दतु) हर्षित करे, [उसे] (श्रुधि) सुन (उत) और (गीर्भिः) वेद वाणियों से (वृधस्व) बढ़ । (सूर्यम्) सूर्य [सूर्य समान विद्या प्रकाश] को (आविः कृणु) प्रकट कर, (इषः) अन्नो को (पीपिहि) प्राप्त हो, (शत्रून्) शत्रुओं को (जहि) मार और [उसकी] (गाः) वाणियों को (अभि) सर्वथा (तृन्धि) मिटा दे ॥ १ ॥

भाषार्थ—मनुष्य ईश्वर और वेद में श्रद्धा कर के विद्य । और पुरुषार्थ द्वारा अन्न आदि से परिपूर्ण होकर शत्रुओं का नाश कर उनकी कुमर्यादाओं को हटावे ॥ १ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—६ १७।३ ॥

सुर्वाङ्गेहि सोमकामं त्वाहुर्यं सुतस्तस्य पिबु मदीय ।
उरुव्यचा जुठ् आ वृषस्व पितेर्व नः शृणुहि हुयमानः ॥ २ ॥
सुर्वाङ् । आ । इ हि । सोम-कामम् । त्वा । आहः । अयम् ।

१—(एव) अवधारणे (पाहि) रक्ष, अस्मान् (प्रलया) प्रलपूर्व विश्वेमात्थाल् छन्दसि । पा० ५ । ३ । १११ । इवार्थे थाल्प्रत्ययः । पूर्वं यथा- (मन्दतु) आमोदयतु । हर्षयतु (त्वा) त्वाम् (श्रुधि) शृणु (ब्रह्म) परमेश्वरो वेदो वा (वृधस्व) शपः श्लुः । वर्धस्व (उत) अपिच (गीर्भिः) वेदवाणीभिः (आविः) प्राकट्ये (सूर्यम्) सूर्यवद् विद्याप्रकाशम् (कृणुहि) कुरु (पीपिहि) पि गतौ—शपः श्लुः । तुजादित्वादभ्यासस्य दीर्घश्च । प्राणुहि (इषः) अन्नानि (जहि) नाशय (शत्रून्) (अभि) सर्वथा (गाः) शत्रूणां वाचः (इन्द्र) हे परमेश्वर्यवन् पुरुष (तृन्धि) उत्तुदिर् हिंसानादरयोः । हिन्धि । नाशय ॥

सुतः । तस्य । पिब । मदाय ॥ उरु-व्यचाः । जठरे । आ ।
वृषस्व । पिता-इव । नः । शृणुहि । ह्यमानः ॥ २ ॥

भाषार्थ—[हे समाध्यक्ष !] (अर्वाङ्) सामने (आ इहि) आ,
(त्वा) तुझ को (सोमकामम्) पेश्वर्य चाहने वाला (आहुः) वे कहते हैं,
(अयम्) यह (सुतः) सिद्ध किया हुआ [सोमरस] है, (मदाय) हर्ष के
लिये (तस्य) उस का (पिब) पान कर । (उरुव्यचाः) बड़े सत्कार वाला
तू (जठरे) अपने पेट में [उसे] (आ वृषस्व) सींच ले, (पिता इव) पिता
के समान (ह्यमानः) दुकारा गया तू (नः) हमारी [बात] (शृणुहि)
सुन ॥ २ ॥

भावार्थ—प्रजागण समापति आदि महापुरुषों को पिता के समान
उत्तम पदार्थों और हित वचनों से प्रसन्न रखें और प्रधान पुरुष भी प्रजाजनों
को पुत्र के समान पालें ॥ २ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—१ । १०४ । ६ ॥

आपूर्णा अस्य कुलशः स्वाहा सेक्तेवु कोशं सिंसिचे पिबंध्यै ।
समुं प्रिया आर्ववृत्रन् मदाय प्रदक्षिणित्भि सोमासु इन्द्रसु ॥३
आ-पूर्णाः । अस्य । कुलशः । स्वाहा । सेक्ता-इव । कोशम् ।
सिंसिचे । पिबंध्यै ॥ समु । जं इति । प्रियाः । आ । अव-
वृत्रन् । मदाय । प्र-दक्षिणित् । अभि । सोमासः । इन्द्रसु ३ ॥

भाषार्थ—(अस्य) इस [महा पुरुष] का (कुलशः) कुलस (आपूर्णाः)

२—(अर्वाङ्) अभिमुखः (आ इहि) आगच्छ (सोमकामम्) पेश्वर्य
कामयमानम् (त्वा) त्वाम् (आहुः) कथयन्ति विद्वांसः (अयम्) (सुतः)
निष्पादितः सोमरसः (तस्य) (पिब) पानं कुरु (मदाय) हर्षाय (उरुव्यचा)
उरु + वि + अञ्चु गतिपूजनयोः—असुन् । उरु बहुविधं व्यचो विद्वांसं पूजनं
सत्करणं वा यस्य सः (जठरे) उदरे (आ) समन्तात् (वृषस्व) सिञ्चस्व (पिता)
(इव) यथा (नः) अस्माकं वार्ताम् (शृणुहि) शृणु (ह्यमानः) कृताह्वानः ॥

३—(आपूर्णाः) समन्तात् पूरितः (अस्य) इन्द्रस्य (कुलशः) कुम्भः

मुंहासुं ह भरा है, (स्वाहा) सुन्दर वाणी के साथ (सेक्ता इव) भरने वाले के समान मैंने (कोशम्) वर्तन को (पिबध्यै) पीने के लिये (सिसिचे) भरा है । (प्रियाः) प्रियारे (प्रदक्षिणित्) दाहिनी ओर को प्राप्त होने वाले (सोमासः) सोम [महौषधियों के रस] (मदाय) हर्ष के लिये (इन्द्रम् अग्नि) इन्द्र [परम ऐश्वर्य वाले प्रधान] को (उ) ही (सम्) यथाधिधि (आ) सब ओर (अववृत्रन्) वर्तमान हुये हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ—विद्वान् सद्गुणैश्च उत्तम उत्तम अन्न आदि ओषधियों के रस से आदर करके प्रधान पुरुष को हृष्ट पृष्ट रक्खें ॥ ३ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है ३।३२।१५ ॥

सूक्तम् ८ ॥

१—४ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ पथ्यावृहती, २, ४ सतः पङ्क्तिः, ३ निचवृद्धती छन्दः ।

ईश्वरोपासनोपदेशः—ईश्वर की उपासना का उपदेश ॥

तं वो दुस्मसृतीषहं वसोमन्वानमन्धसः ।

अभि वृत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीर्भिर्नवामहे ॥ १ ॥

तस् । वः । दुस्मस् । वृत्ति-सहस् । वसोः । मन्वानस् ।

अन्धसः ॥ अभि । वृत्सस् । न । स्वसरेषु । धेनवः । इन्द्रस् ।

गीः-भिः । नवामहे ॥ १ ॥

(स्वाहा) सुवाण्या (सेक्ता) पूरकः (इव) यथा (कोशम्) पात्रम् (सिसिचे) पित्त क्षरणे—लिट् । अहं लिक्तवानस्मि (पिबध्यै) तुमर्थे सेसेवले० । पा० ३ । ४ । ६ । पा पाने—शध्यैन्, शिस्वात् पिवादेशः, नित्वादाद्युदात्तः । पानं कर्तुम् (सम्) सम्बन्ध (उ) अवधारणे (प्रियाः) कमनीयाः (आ) समन्तत् (अववृत्रन्) वृत्तु वर्तने—लङ्, परस्मैपदम्, शपः श्लुः, रुडागमः । वर्तमाना अभवन् (मदाय) हर्षाय (प्रदक्षिणित्) प्रदक्षिण + इण् गतौ—क्विप् । शकन्धादित्वात् पररूपम् । सुपां सुलुक् ० । पा० ७ । १ । ३६ । इति जसः सुः । प्रदक्षिणेतः । दक्षिणपाश्वं गन्तारः (अग्नि) प्रणि (सोमासः) महौषधिरसाः (इन्द्रम्) परमैश्वर्यन्तं प्रधानम् ॥

भाषार्थ—[हे मनुष्यो ।] (वः) तुम्हारे लिये (तम्) उस (दस्मम्) दर्शनीय, (ऋतीषहम्) यजुषों के हीराने वाले, (वसोः) धनसे और (अन्धसः) अज्ञ से (मन्वानम्) आनन्द देने वाले (इन्द्रम्) इन्द्र [परम पेश्वर्य वाले परमात्मा] को (गीर्भिः) वाणियों से (अभि) सब प्रकार (नवामहे) हम सराहते हैं, (न) जैसे (धेनवः) गौयें (स्वसरेषु) घरों में [वर्तमान] (वत्सम्) बछड़े को [हिङ्कारती हैं] ॥ १ ॥

भाषार्थ—जो परमात्मा अनेक धन और अन्न आदि देकर हमें तृप्त करता है, उसे ऐसी प्रीति से हम स्मरण करें, जैसे गौयें दोहने के समय घर में बन्धे छोटे बच्चों को पुकारती हैं ॥ १ ॥

मन्त्र १, २ ऋग्वेद में हैं—८।८८ [सायणभाष्य ७७] । १, २, साम० ४० १।१।१३, मन्त्र १ यजु० २६।११ और साम० पू० ३।५।४ और मन्त्र १—४ आगे हैं—अ० २०।४४।४—७ ॥

द्यूक्षं सुदानं तविषीभिरावृतं गिरिं न पुरुभोजसम् ।

क्षुमन्तं वाजं श्रुतिनं सहस्त्रिणं मधू गोमन्तमीमहे ॥ २ ॥

द्यूक्षम् । सु-दानम् । तविषीभिः । आ-वृतम् । गिरिम् । न । पुरु-भोजसम् ॥ क्षु-मन्तम् । वाजम् । श्रुतिनम् । सहस्त्रिणम् । मधु । गो-मन्तम् । ई-महे ॥ २ ॥

१—(तम्) प्रसिद्धम् (वः) शुभदर्थम् (दस्मम्) इपियुधीन्धिदसि० । ४० १।१४५ । दस्य दर्शनसंर्दशनयोः—मक् । दर्शनीयम् (ऋतीषहम्) सांहित्तिको दीर्घः । ऋतयो वाचकाः शत्रवः, तेषामभिभवितारम् (वसोः) वसुनः । मन्वात् (मन्वानम्) सम्यामच् स्तुवः । ३० २।६० । मदि स्तुतिमोद-मंदादिषु—आनच् । आमोदयितारम् (अन्धसः) अज्ञात् (अभि) सर्वतः (घासम्) शिशुम् (न) इव, (स्वसरेषु) स्व—ख गतौ—पञ्चाद्यच् । स्वेन आरभन्ता सरन्ति गच्छन्ति यत्र । स्वसराणि गृह्णाम—निघ० ३।४।गृहेषु । गोप्येषु (धेनवः) मात्रः (गीर्भिः) वाणीभिः (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं परमात्मानम् (नवामहे) एव स्तुतौ—लट् । स्तुमः ॥

भाषार्थ—(द्युत्तम्) व्यवहारों में गति वाले, (सुदानुम्) बड़े शानी, (त्रिषीमिः) सेनाओं से (आवृतम्) भरपूर (गिरिम् न) मेघ के समान (पुरुभोजसम्) बहुत प्रालन करने वाले, (क्षुमन्तम्) अन्न वाले, (वाजम्) बल वाले, (शनिम्) सैकड़ों उत्तम पदार्थों वाले (सहस्रिणम्) सहस्रों श्रेष्ठ गुण वाले, (गोमन्तम्) उत्तम गौओं वाले [शूर पुरुष] को (मक्षु) शीघ्र [इन्द्र परमात्मा से] (ईमहे) हम मांगते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—मनुष्य परमात्मा से प्रार्थना कर के प्रयत्न करें कि वे अपने सन्तानों, अधिकारियों और प्रजाजनों सहित शूरी होकर व्यवहार कुशल हों ॥ २ ॥

तत् त्वां यामि सुवीर्यं तद् ब्रह्मं पूर्वचित्तये ।

येना यतिभ्यो भृगवे धने हिते येन प्रस्कण्वमाविय ॥ ३ ॥

तत् । त्वा । यामि । सु-वीर्यम् । तत् । ब्रह्मं । पूर्व-चित्तये ॥

येन । यति-भ्यः । भृगवे । धने । हिते । येन । प्रस्कण्वम् ॥

आविय ॥ ३ ॥

भाषार्थ—[हे परमात्मन !] (त्वा) तुझ से (तत्) वह (सुवीर्यम्)

३—(द्युत्तम्) दिव्य व्यवहारे—दिवि + ति निवासगत्योः—इप्रत्ययः । द्युत्तु व्यवहारेषु गन्तारम् (सुदानुम्) महादानिनम् (त्रिषीमिः) तु वृद्धौ पूर्तौ च—टिषन्, डीप् । त्रिषी बलनाम—निघ० २ । ६ । बलैः । सेनाभिः (आवृतम्) आच्छादितम् । प्रपूर्णम् (गिरिम्) गिरिर्मेघनाम—निघ० १ । १० । मेघम् (न) इव (पुरुभोजसम्) बहुपालकम् (क्षुमन्तम्) आङ्परयोः खनिशुभ्यां द्विव्च । उ० १ । ३३ । दु क्षु शब्दै, ति निवासगत्योः, ऐप्रत्यये च—कुप्रत्ययः स च द्वित् । क्षु अन्ननाम—निघ० २ । ७ । अन्नवन्तम् (वाजम्) अर्श आद्यच् । वाजवन्तम् । बलवन्तम् (शनिम्) असंख्यश्रेष्ठपदार्थयुक्तम् (सहस्रिणम्) तपःसहस्राभ्यां विनीनी । पा० ५ । २ । १०२ । सहस्र—इनि । असंख्यश्रेष्ठगुणोपेतम् (मक्षु) शीघ्रम् (गोमन्तम्) प्रशस्तबोमियुक्तम् (ईमहे) याचामहे—निघ० ३ । १६ ॥

३—(तत्) तादृक् (त्वा) त्वाम् (यामि) अथापि वर्णलोपो भवति तत्त्वा यामीति—निघ० २ । १ । याचामि । याचे (सुवीर्यम्) महद्वीरत्वम्

बड़ा वीरत्व और (तत्) वह (ब्रह्म) बढ़ता हुआ अन्न (पूर्वचित्तये) पहिले ज्ञान के लिए (यामि) मैं मांगता हूँ । (येन) जिस [वीरत्व और अन्न] से (धने हिते) धन के स्थापित होने पर (यतिभ्यः) यतियों [यज्ञशीलों] के लिये (भृगवे=भृगुम्) परिपक्व ज्ञानी को और (येन) जिस से (प्रस्कणवस्) बड़े बुद्धिमान् पुरुष को (आविथ) तू ने बध्नाया है ॥ ३ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को परमात्मा की उपासना कर के पुरुषार्थ के साथ प्रथम भेषी के पराक्रमी, अन्नवान् और धनी होना चाहिये, जिसके अनुकरण से प्रयत्नशील पुरुष सुरक्षित रहें ॥ ३ ॥

मन्त्र ३, ४ ऋग्वेद में है — ८ । ३ । ६, १० ॥

येना समुद्रमसृजो महीरुपस्तदिन्द्र वृष्णि ते शवः ।

सद्यः सो अस्य महिमा न सं नशे यं क्षीणीरनुचक्रुदे ॥ ४ ॥

येन । समुद्रम् । असृजः । महीः । अपः । तत् । इन्द्र ।
वृष्णि । ते । शवः ॥ सद्यः । सः । अस्य । महिमा । न । सु-
नशे । यम् । क्षीणीः । अनु-चक्रुदे ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(येन) जिस [वल्ल] से (समुद्रम्) समुद्र में (महीः) शक्तिशाली (अपः) जलों को (असृजः) तू ने उत्पन्न किया है, (इन्द्र) हे इन्द्र ! [परम पेश्वर्यवान् जगदीश्वर] (तत्) वह (ते) तेरा (वृष्णि) परा-

(तत्) (ब्रह्म) प्रवृद्धम् अन्नम्—निघ० २ । ७ (पूर्वचित्तये) चिती संज्ञाने-किन् प्रथमज्ञानाय (येन) सुवीर्येण ब्रह्मणा च (यतिभ्यः) सर्वधातुभ्य इन् । ७० ४ । ११८ । यती प्रयत्ने-इन् । प्रयत्नशीलेभ्यः (भृगवे) प्रथिन्नदिभ्रस्जां सम्प्रसारणं सलोपश्च । ७० १ । २८ । असृज पाके-कु । द्वितीयार्थे चतुर्थी । भृगुम् । परिपक्व-ज्ञानिनम् (धने) (हिते) स्थापिते (येन) (प्रस्कणवम्) प्रकृष्टश्वास्त्रौ कण्ठो मेधावी च तं यथा दयानन्दभाष्ये, ऋ० १ । ४४ । ६ (आविथ) अव-रक्षणे-तिद् । त्वं ररक्षिथ ॥

४—(येन) शवसा । वलेन (समुद्रम्) जलौघम् (असृजः) त्वं सृष्टवान् (महीः) महतीः । शक्तिशालिनीः (अपः) जलानि (तत्) तादृक् (इन्द्र) हे परमेश्वर्यवान् जगदीश्वर (वृष्णि) पराक्रमयुक्तम् (ते) तव (शवः) बलम्

क्रम युक्त (शवः) बल है । (सद्यः) अब भी (अस्य) उस [परमात्मा] की (स०) वह (महिमा) महिमा [हम से] (न) नहीं (संनशे) पाने योग्य है, (यम्) जिस [परमात्मा] को (क्षोणीः) लोकों ने (अनुचक्रदे) निरन्तर पुकारा है ॥ ४ ॥

भावार्थ—जिस परमात्मा ने मेघ मण्डल में और पृथिवी पर जल आदि पदार्थ और सब लोकों को उठपन्न कर के अपने वश में रक्खा है, उसकी महिमा की सीमा को सृष्टि में कोई भी नहीं पा सकता है ॥ ४ ॥

सूक्तम् १० ॥

१—२ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ पथ्या बृहती; २ निचृदार्षी पङ्क्तिः ॥

ईश्वरोपासनोद्देशः—ईश्वर की उपासना का उपदेश ॥

उद् तु त्ये मधुमत्तमा गिरु स्तोमांस ईरते ।

सुत्राजितो धनुसा अक्षितोतयो वाजुयन्तो रथा इव ॥ १ ॥

उत् । ऊं इति । त्ये । मधुमत्-तमाः । गिरः । स्तोमांसः ।

ईरते ॥ सुत्राजितः । धनु-साः । अक्षित-उतयः । वाजु-यन्तः ।

रथाः-इव ॥१ ॥

भाषार्थ—(त्ये) वे (मधुमत्तमाः) अतिमधुर (स्तोमांसः) स्तोत्र (उ) और (गिरः) वाणियां (उत् ईरते) ऊंची जाती हैं । (इव) जैसे

(सद्यः) इदानीमपि (सः) (अस्य) इन्द्रस्य । परमेश्वरस्य (महिमा) महस्वम् (न) निषेधे (संनशे) नशत्, व्याप्तिकर्मा—निघ० २ । १८ । कृत्यार्थे तथैकेनकेन्यत्वनः । पा० ३ । ४ । १४ । नश व्याप्ती—केनप्रत्ययः । सम्यक् प्रापणीयः (यम्) इन्द्रम् (क्षोणीः) वीज्याज्वरिभ्योनिः । उ० ४ । ४८ । इक्षु शब्दे—नि, डीष् । क्षोणी पृथिवीनाम—निघ० १ । १ । क्षोण्यः । पृथिव्यः । कोकाः (अनुचक्रदे) निरन्तरं क्रन्दन्ति स्म ॥

१—(उत्) ऊर्ध्वम् (उ) चार्थे (त्ये) ते (मधुमत्तमाः) अतिशयेन मधुराः(गिरः) वाणयः (स्तोमांसः) स्तोत्राणि (ईरते) गच्छन्ति (सुत्राजितः) सत्रा सत्यनाम—निघ० ३ । १० । सत्रा सत्येन जेतारः(धनुसाः) जनसनसन-

(सत्राजितः) सत्य से जीतने वाले, (धनसाः) धन देने वाले, (अन्नितोत्तयः) अन्नय रक्षा करने वाले, (वाजयन्तः) ब्रह्म प्रकट करते हुये (रथाः) इत्थ [आगे बढ़ते हैं] ॥ १ ॥

भावार्थ—जैसे शूर वीरों के रथ रण क्षेत्र में विजय पाने के लिये उभंग से चलते हैं, वैसे ही मनुष्य दोषों और दुष्टों को वश में करने के लिये परमात्मा की स्तुति को बड़े आनन्द से किया करें ॥ १ ॥

मन्त्र १, २ ऋग्वेद में हैं—८।३।१५, १६, साम० उ० ६।१।६ और आगे हैं—अ० २०।५६।१, २ तथा म० १ साम० पू० ३।६।६ में भी है ॥

कववा इव भृगवः सूर्या इव विश्वमिद् धीतमानशुः ।

इन्द्रं स्तोमेभिर्महयन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन् ॥ २ ॥

कववाः-इव । भृगवः । सूर्याः-इव । विश्वम् । इत् । धीतम् ।

आनुशुः ॥ इन्द्रम् । स्तोमेभिः । महयन्तः । आयवः । प्रिय-
मेधासः । अस्वरन् ॥ २ ॥

भाषार्थ—(कववाः इव) बुद्धिमानों के समान और (सूर्याः इव) सूर्यों के समान [तेजस्वी], (भृगवः) परिपक्व ज्ञान वाले, (महयन्तः) पूजते हुये, (प्रियमेधासः) युद्ध को प्रिय जानने वाले (आयवः) मनुष्यों ने (विश्वम्) व्यापक, (धीतम्) ध्यान किये गये (इन्द्रम्) इन्द्र [परमात्मा] को (इत्)

क्रमगमो विट् । पा० ३।२।६७। षण् संभक्तौ—विट् । विश्वतो रनुनास्त्रि-
कस्यान् । प्रा० ६।४।४१। इत्यात्वम् । धनानां संभक्ताः । धनप्रदाः (अन्नितो-
त्तयः) अक्षीणरक्षणाः (वाजयन्त) वाज—क्यच्, शतृ । वाजं ब्रह्मिच्छन्तः
(रथाः) युद्धयानान्ति (इत्) यथा ॥

२—(कववाः) मेधाविनः (इव) यथा (भृगवः) सू० ६।३। परिपक्व-
ज्ञानिनः (सूर्याः) प्रकाशमानाः सूर्यलोकाः (इव) यथा (विश्वम्) व्यापकम्
(इत्) एव (धीतम्) ध्यतम् (आनुशुः) प्रापुः (इन्द्रम्) परमात्मानम्
(स्तोमेभिः) स्तोत्रैः (महयन्तः) पूजयन्तः (आयवः) मनुष्याः—निघ० ३।
३ (प्रियमेधासः) मिथु मेथु संगमे हिंसामेधयोश्च-प्रणु असुक् च । मेधो क्व-

हो (एतोमेभिः) एतोमै लै (आनष्टुः) पाया है और (अस्वरन्) उच्चारण है ॥ २ ॥

भाषार्थ—मनुष्य बुद्धिमानों और सूर्यो के समान प्रतापी हो कर परमात्मा के गुणों को गाते हुये आत्मोन्नति करें ॥ २ ॥

सूक्तम् ११ ॥

१—११ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, २, ११ त्रिष्टुप्; ३, ६, ६ विर/डाषी त्रिष्टुप् ४, ५, ७, १० निचृत् त्रिष्टुप्, = भूरिक् पङ्क्तिः ॥

राज्यजाकर्तव्योपदेशः— राजा और प्रजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

इन्द्रः पूभिर्दातिरुद्दासमुकैर्विद्वसुर्दयमानो वि शत्रून् ।
ब्रह्मजुतस्तन्वा वावृधानो भूरिदात्र अपृणह रोदसी उभे ॥ १ ॥
इन्द्रः । पूः-भित् । आ । अतिरत् । दासम् । अकैः । विदत्-
वसुः । दयमानः । वि । शत्रून् ॥ ब्रह्म-जुतः । तन्वा । वृ-
धानः । भूरि-दात्रः । आ । अपृणत् । रोदसी इति । उभे इति १

भाषार्थ—(विद्वसुः) ज्ञानी श्रेष्ठ पुरुषों से युक्त (पूभिर्) [शत्रु-
ओं के] गदों को तोड़ने वाले, (शत्रून्) बैरियों को (वि) विविध प्रकार
(दयमानः) मारते हुये (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले राजा] ने (अकैः)
पूजनीय विचारों से (दासम्) दास [सेवक] को (आ अतिरत्) बढ़ाया है ।

नाम—निघ ० ३ । १७ । मेधा यज्ञाः प्रिया येयां ते (अस्वरन्) शब्दम् अकुर्वन् ।
व्यारितवन्तः ॥

१—(इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् राजा (पूभिर्) शत्रूणां पुरां दुर्गाणां भेत्ता
(आ अतिरत्) प्रावर्धयत् (दासम्) दास दाने—वसु । सेवकम् (अकैः)
अर्चनीयैर्मन्त्रैर्विचारैः (विद्वसुः) विद्वान् ज्ञाने शत्रु । विदन्तो जानन्तो वसवः
श्रेष्ठपुरुषा यस्य सः (दयमानः) दय दाने गतिरक्षणादिति सादानेषु—शानच् ।
विद्वसुर्दयमानो विशत्रूनि हि साकर्मा—निरु ० ४ । १७ । हिंसन् । नाशयन्
(वि) विविधम् (शत्रून्) (ब्रह्मजुतः) ब्रह्मभिर्महाविद्वद्भिः प्रेरितः (तन्वा)

(ब्रह्मजुतः) ब्रह्माओ [महाविद्वानों] से प्रेरणा किये गये, (तन्वा) उपकार शक्ति से (वावृधानः) बढ़ते हुये, (भूरिदानः) बहुत से अस्त्र शस्त्र वाले [शूर] ने (उभे) दोनों (रोदसी) आकाश और भूमि को (आ) भले प्रकार (अपृ- णान्) तृप्त किया है ॥ १ ॥

भावार्थ—जिस राजा की समा में विद्वान् लोग सम्मति दाता होते हैं, वह राजा शत्रुओं का नाश और प्रजा का पालन कर के विद्वान् द्वारा पृथिवी और आकाश को वश में करके लक्षार को सुखी करता है ॥ १ ॥

यह पूरा सूक्त ऋग्वेद में है—३ । ३४ । १—११ ॥

सुखस्य ते तविषस्य प्र जूतिमियमि वाचमसृताय भूषन् ।
इन्द्रं क्षितीनामसि मानुषीणां विशां दैवीनामुत पूर्वयावा ॥२॥
सुखस्य । ते । तविषस्य । प्र । जूतिम् । इयमि । वाचम् ।
असृताय । भूषन् ॥ इन्द्रं । क्षितीनाम् । असि । मानुषीणाम् ।
विशास् । दैवीनाम् । उत । पूर्व-यावा ॥ २ ॥

भाषार्थ—(असृताय) अविनाशी सुख के लिये (वाचम्) अपनी वाणी को (भूषन्) शोभित करता हुआ मैं (ते) तेरे (तविषस्य) बड़े (सुखस्य) यज्ञ के (जूतिम्) वेग को (प्र इयमि) प्राप्त होता हूँ । (इन्द्र) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्] तू (क्षितीनाम्) भूमियों का (उत) और (मानुषीणाम्)

उपकृत्या (वावृधानः) वर्धमानः (भूरिदानः) दादिभ्यश्छन्दसि । उ० ४ । १७० । दाप् लवने—त्रन् । भूरीणि बहूनि दानाणिच्छेदनसाधनानि शस्त्रास्त्राणि यस्य सः । प्रभूतायुधः (आ) समन्तात् (अपृणत्) पृण प्रीणने—तड् । तर्पितवान् (रोदसी) घावापृथिव्यौ । आकाशभूमी (उभे) द्वे ॥

२—(सुखस्य) यज्ञस्व—निघ० ३ । १७ (ते) तव (तविषस्य) महतः निघ० ३ । ३ (प्र) प्रकर्षेण (जूतिम्) वेगम् (इयमि) प्राप्नोमि (वाचम्) स्ववाणीम् (असृताय) अविनाशिने सुखाय (भूषन्) अलंकुर्वन् (इन्द्र) हे परमै- श्वर्यवन् राजन् (क्षितीनाम्) पृथिवीनाम्—निघ० १ । १ (असि) (मानुषीणाम्)

मनुष्यसम्बन्धी (दैवीनाम्) उत्तम गुण वाली (विशाम्) प्रजाओं का (पूर्व-यावा) अग्रगामी (अलि) है ॥ २ ॥

भावार्थ—प्रजाजनों को चाहिये कि धर्मज्ञ राजा को आज्ञा का पालन करते रहें कि जिस से वह सब खेती आदि पदार्थों और मनुष्यों की रक्षा कर सके ॥ २ ॥

इन्द्रो वृत्रमवृणोच्छर्धनीतिः प्र मायिनीममिनाद् वर्षणीतिः ।
अहन् व्यंसमशधुग् वनेषुविधेना अकृणोद् राम्याणां ॥३॥

इन्द्रः । वृत्रम् । अवृणोत् । शर्ध-नीतिः । प्र । मायिनीम् ।
अमिनात् । वर्ष-नीतिः ॥ अहन् । वि-अंसम् । उशधक् ।
वनेषु । आविः । धेनाः । अकृणोत् । राम्याणां ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(शर्धनीतिः) सेना के नायक (इन्द्रः) इन्द्र [प्रतापी राजा] ने (वृत्रम्) शत्रु को (अवृणोत्) घेर लिया, (मायिनाम्) कपटी लोगों का (वर्षनीतिः) कपटी नेना (प्र अमिनात्) अत्यन्त घबराया । (उशधक्) हिंसकों के जलाने वाले ने (वनेषु) बनों में [छिपे] (व्यंसम्) विविध पीड़ा देने वाले को (अहन्) मारा, और (राम्याणाम्) आनन्द देने वाले

मनुष्यसम्बन्धिनीनाम् (विशाम्) प्रजानाम् (दैवीनाम्) दिव्यगुणयुक्तानाम् (उत) अपि च (पूर्वयावा) या गतिप्रापणयोः—वनिप् । अग्रगामी ॥

३—(इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् राजा (वृत्रम्) शत्रुम् (अवृणोत्) आच्छा-दितवान् (शर्धनीतिः) शर्धति कृत्साहार्थः—घञ् + णीञ् प्रापणे—क्त्विच् । शर्धा-बलनाम—निघ० २ । ६ । वृत्रस्य सैन्यस्य नायकः (प्र) प्रकर्षेण (मायिनाम्) कपटिनाम् (अमिनात्) मीञ् हिंसायाम्—जङ् । कर्तृप्रयोगः कर्मण्यर्थे । हिंसितो दुःखितोऽभूत् (वर्षनीतिः) जल्पशिल्पशष्प० । उ० ३ । २८ । वृञ् आच्छादने—पप्रत्ययः + णीञ् प्रापणे—क्त्विच् । वर्ष आवरकः कपटी नीतिनेता (अहन्) अवधीत् (व्यंसम्) अमेः सन् । उ० ५ । २१ । अम पीडने—सन् । विविधपीडकम् (उशधक्) उष वधे—क + दह दाहे—क्त्विच्, षस्य शः । हिंस-कानां दाहकः (वनेषु) जङ्गलेषु (आविः) प्राकट्ये (धेनाः) वाचः (अकृ-णोत्) कृवि हिंसाकरणयोः—लङ् । अकरोत् (राम्याणाम्) आदितोऽप्यर्थत् । पा०

पुरुषों की (धेनाः) वाणियों को (आविः अकृणोत्) प्रकट किया ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—जब शूर सेनापति दुष्टों को मारकर प्रजा को सुखी करता है, तब लोग आनन्द मर्नाते हुये विविध प्रकार उन्नति करते हैं ॥ ३ ॥

यह मन्त्र यजुर्वेद में भी है—३३। २६ ॥

इन्द्रः स्वर्षा जनयन्नहानि जिगायोऽशिशुः पृतना अभिष्टिः ।
प्ररोचयन्मनवे केतुमह्नामविन्दुज्ज्योतिर्वृहते रणाय ॥ ४ ॥

इन्द्रः । स्वः-साः । जनयन् । अहानि । जिगाय । उशिक्ष-
भिः । पृतनाः । अभिष्टिः ॥ प्र । अरोचयत् । मनवे । केतुम् ।
अह्नाम् । अविन्दत् । ज्योतिः । वृहते । रणाय ॥ ४ ॥

भाष्यार्थ—(अहानि) दिनों [दिनों के कर्मों] को (जनयन्) प्रकट करते हुये, (स्वर्षाः) सुख देने हारे (अभिष्टिः) सब ओर मेल करने वाले, (इन्द्रः) इन्द्र [तेजस्वी सेनापति] ने (उशिशुः) प्रीति युक्त बुद्धिमानों के साथ (पृतनाः) सङ्ग्रामों को (जिगाय) जीता है। उसने (मनवे) मनन करने वाले मनुष्य के लिये (अह्नाम्) दिनों के (केतुम्) ज्ञान को (प्र अरोचयत्) प्रकाशित कर दिया है और (वृहते) बड़े (रणाय) रण के जीतने के लिये (ज्योतिः) तेज (अविन्दत्) पाया है ॥ ४ ॥

३। १। १२४। रमु कीडायाम्, एयर्षाद् एयत् । कृत्वल्मुदो बहुलम् । पा० ३। ३।
१। ३। इति कर्त् प्रत्ययः । रमयन्ति आनन्दयन्ति तेषाम्—दयानन्दभाष्ये, यजु०
३३। २६। रमयितृणां रामाणाम् आनन्दयितृणां पुरुषाणाम् ॥

४—(इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् सेनापतिः (स्वर्षाः) अ० ५। २। ३। स्वः+
ण् देने—विद्, आत्वं पचं च । सुखस्य दाना (जनयन्) प्रकटयन् (अहानि)
दिनानि । दिनकर्माणि (जिगाय) जि जये—तिद् । जितवान् (उशिशुः)
वशेः कित् । उ० २। ७१। वश कान्तौ—इजिप्रत्ययः । उशिशो मेधाविनाम-निघ०
३। १५। कामयमानैर्मेधाविभिः (पृतनाः) सङ्ग्रामान्-निघ० २। १७ (अभिष्टिः)
यज्ञ संगतिकरणैः—किन् । अमितः संगतिकर्ता (प्र) प्रकर्षेण (अरोचयत्) अदी-
पयत् (मनवे) मननशीलाय मनुष्याय (केतुम्) प्रज्ञाम् (अह्नाम्) दिनामाम्
(अविन्दत्) अलभत (ज्योतिः) तेजः (वृहते) महते (रणाय) रणं सङ्ग्रामं जेतुम् ॥

भावार्थ—शूर सेनापति दुष्टों की बुराई और शिष्टों की भलाई जताकर शत्रुओं का नाश करे और न्याय की पताका फैलाकर प्रजा को कष्ट से छुड़ावे ॥ ४ ॥

इन्द्रस्तुजो बर्हणा आ विवेश नृवद् दधानो नर्या पुरुषि ।
अचेतयद् धिय इमा जरित्रे प्रेमं वर्णमतिरच्छुक्रमासाम् ॥५॥

इन्द्रः । तुजः । बर्हणाः । आ । विवेश । नृ-वत् । दधानः ।
नर्या । पुरुषि ॥ अचेतयत् । धियः । इमाः । जरित्रे । प्र ।
इमम् । वर्णम् । अतिरत् । शुक्रम् । आसाम् ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(नृवत्) नरों [नेताओं के समान] (पुरुषि) बहुत से (नर्या) नरों के योग्य कर्मों को (दधानः) धारण करते हुये (इन्द्रः) इन्द्र [महाप्रतापी राजा] ने (बर्हणाः) बढ़ती हुयी (तुजः) स्तुति करने वाली सेनाओं में (आ विवेश) प्रवेश किया । (इमाः) इन (धियः) बुद्धियों को (जरित्रे) स्तुति करने वाले के लिये (अचेतयत्) चेताया, और (आसाम्) इन [प्रजाओं] के बीच (इमम्) इस (शुक्रम्) शुद्ध (वर्णम्) स्वीकार करने योग्य यश को (प्र अतिरत्) बढ़ाया ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो शूर सेनापति आगे बढ़ती हुयी शत्रु सेना में घुसकर सङ्ग्राम जीतता है, वही ससार में कीर्ति पाता है ॥ ५ ॥

सुहो सुहानि पनयन्त्यस्येन्द्रस्य कर्म सुकृता पुरुषि ।

वृजनेन वृजिनान्त्सं पिपेष मायाभिर्दस्यैरुभिभूत्योजाः ॥ ६ ॥

५—(इन्द्रः) महाप्रतापी राजा (तुजः) तुज हिंसायाम्—किप् । हिंसिकाः शत्रुसेनाः (बर्हणाः) बृंहि बृद्धौ—युच् । वर्धमानाः (आ विवेश) प्रविष्टवान् (नृवत्) नेतृवत् (दधानः) धारयन् (नर्या) तत्र साधुः । पा० ४। ४। ६८ । नर—यत् । नरयोग्यानि कर्माणि (पुरुषि) बहूनि (अचेतयत्) अज्ञापयत् (धियः) ध्यै विन्तायाम्—किप् । प्रज्ञाः (जरित्रे) स्तोत्रे (इमेम्) (वर्णम्) स्वीकरणीयं यशः (प्र अतिरत्) प्रावर्धयत् (शुक्रम्) शुद्धम् (आसाम्) प्रजानां मध्ये ॥

महः । महानि । पनयन्ति । अस्य । इन्द्रस्य । कर्म । सु-
कृता । पुरुणि ॥ वृजनेन । वृजिनान् । सम् । पिपेष ।
मायाभिः । दस्यून् । अभिभूति-ओजाः ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ—(महः) महान् लोग (अस्य) इस (इन्द्रस्य) इन्द्र [महा-
प्रतापी राजा] के (सुकृता) धर्म से किये हुये (पुरुणि) बहुत से (महानि)
महान् [पूजनीय] (कर्म) कर्मों को (पनयन्ति) सराहते हैं । (अभि-
भूत्योजाः) हरा देने वाले बल से युक्त [शूर] ने (वृजिनान्) पापी (दस्यून्)
साहसी चोरो को (वृजनेन) बल के साथ (मायाभिः) बुद्धियों से (सं पि-
पेष) पीस डाला ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ—जिस प्रतापी धर्मात्मा राजा की कीर्ति को बड़े बड़े लोग
गाते हों, वह राजा अपनी कीर्ति स्थिर रखने के लिये दुराचारियों का नाश
कर के प्रजा को सुखी रखे ॥ ६ ॥

युधेन्द्रो महा वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्पतिश्चर्षणिमाः ।
द्विधस्वतः सद्ने अस्य तानि विप्रो बुधेभिः वृवयो गृणन्ति ॥
युधा । इन्द्रः । महा । वरिवः । चकार । देवेभ्यः । सत्-
पतिः । चर्षणि-माः ॥ द्विधस्वतः । सद्ने । अस्य । तानि ।

६—(महः) मह पूजायाम्—क्विप् । महान्तः पुरुषाः (महानि) मह
पूजायाम्—अप् । महान्ति (पनयन्ति) छान्दसो ह्रस्वः । पनायन्ति । स्तुवन्ति
(अस्य) प्रसिद्धस्य (इन्द्रस्य) महातेजस्विनः पुरुषस्य (कर्म) कर्माणि
(सुकृता) धर्मेण सम्पादितानि (पुरुणि) बहूनि (वृजनेन) कृपवृजिभन्दि-
निधावः कथुः । उ० २ । ८१ । वृजी वर्जने—कथु । वलेन—निघ० २ । ६ (वृजि-
नान्) वृजेः क्विच्च । उ० २ । ४७ । वृजी वर्जने—इनच् । वृजिन—अर्श
आद्यच् । वृजन पापं तद्वतः । पापिनः पुरुषान् (सं पिपेष) पिप्ल संचूर्णने—
लिट् । सम्यक् दृर्णाच्चकार (मायाभिः) प्रहाभिः—निघ० ३ । ६ (दस्यून्)
साहसिकान् । वत्कोचकान् । चोरान् (अभिभूत्योजाः) अभिभूति पराजयकर-
मोजो बलं यस्य सः ॥

विप्राः । उक्थेभिः । कवयः । गृणन्ति ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(सत्पतिः) सत् पुरुषों के पालने वाले, (चर्षणिप्राः) मनुष्यों के मनोरथ पूरण करने वाले (इन्द्रः) इन्द्र [महाप्रतापी पुरुष] ने (युधा) युद्ध के साथ (महा) अपनी महिमा से (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये (धरिचः) सेवनीय धन (चकार) किया है । (विवस्वतः) (विविध निवासों वाले [धनी मनुष्य] के (सदाने) घर में (अस्य) इस [पुरुष] के (तानि) उन [कर्मों] को (विप्राः) बुद्धिमान् (कवयः) ज्ञानी पुरुष (उक्थेभिः) अपने वचनों से (गृणन्ति) सराहते हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य परोपकारी होकर बड़े कष्ट उठाकर सत्पुरुषों का पालन करते हैं, वे ही संसार में बड़े गिने जाते और कीर्तिमान् होते हैं ॥ ७ ॥

सुत्रासाहं वरैश्वर्यं सहोदां संसुवांसं स्वरुपश्च देवीः ।

सुसानु यः पृथिवीं द्यामुतेसामिन्द्रं मनुन्त्यनु धीरणासः ॥ ८ ॥

सुत्रा-सहम् । वरैश्वर्यम् । सहुः-दाम् । सुसु-वांसम् । स्वः ।

अपः । च । देवीः ॥ सुसानं । यः । पृथिवीम् । द्याम् । उत ।

इसाम् । इन्द्रम् । मनुन्ति । अनु । धी-रणासः ॥ ८ ॥

७—(युधा) युद्धेन (इन्द्रः) महातेजस्वी पुरुषः (महा) धापुषस्य-ज्यतिभ्यो नः । उ० ३ । ६ । मह पूजायाम्—नप्रत्ययः । महिम्ना (धरिचः) वृश्वरणे यद्भुक्ति, असुन् । ऋतश्च । पा० ७ । ४ ६२ । अभ्यासस्य रिगा-गमः, टिलोपः । धरिचो धननाम—निघ० २ । १० । वरणीयं धनम् (चकार) उरपादयामास (देवेभ्यः) विदुषामर्थम् (सत्पतिः) सतां पादकः (चर्षणिप्राः) प्रा पूरणे—विच् । मनुष्याणां मनोरथपूरकः (विवस्वतः) वि+वस निवासे—क्विप्, मनुप् । विवस्वतो मनुष्यनाम—निघ० २ । ३ । बहुनिवासयुक्तस्य धन्निः पुरुषस्य (सदाने) गृहे (अस्य) इन्द्रस्य (तानि) प्रसिद्धानि कर्माणि (विप्राः) मेधाधिनः (उक्थेभिः) उक्थेभिः (कवयः) विद्वान्सः (गृणन्ति) स्तुवन्ति ॥

भाषार्थ—(यः) जिस [वीर] ने (इमाम्) इस (पृथिवीम्) पृथिवी (उत) और (द्याम्) आकाश को (ससान) सेवा है, [उस] (सत्रासाहम्) सत्त्यों के सहने वाले, (वरेण्यम्) स्वीकार करने योग्य, (सहोदाम्) बल के देने वाले, (स्वः) सुख (च) और (देवीः) उत्तम (अपः) प्राणों के (ससवांसम्) दान करने वाले, (इन्द्रम्) इन्द्र [महाप्रतापी वीर] के (अनु) पीछे (धीरणासः) उत्तम बुद्धियों के लिये युद्ध करने वाले लोग (मदन्ति) सुख पाते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ—जो विद्वान् पुरुष पृथिवी और आकाश के पदार्थों से विद्या द्वारा उपयोग लेता है, उसी सत्यवादी र के पीछे चलकर सब सत्यकर्मी वीर लोग आनन्द पाते हैं । ८ ॥

सुसानात्प्याँ उत सूर्यं ससानेन्द्रः ससान पुरुभोजसं गाम् ।
 हिरण्ययमुतभोगं ससान हृत्वी दस्युन् प्रार्यं वर्यमावत् ॥८॥
 सुसानं । अत्यान् । उत । सूर्यस् । ससान् । इन्द्रः । ससान् ।
 पुरु-भोजसम् । गाम् ॥ हिरण्ययम् । उत । भोगम् । ससान् ।
 हृत्वी । दस्युन् । प्र । आर्यम् । वर्यम् । आवत् ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(इन्द्रः) इन्द्र [महाप्रतापी पुरुष] ने (अत्यान्) घोड़ों को

८—(सत्रासाहम्) यः सत्रा सत्यानि सहते तम् (वरेण्यम्) स्वीकरणीयम् (सहोदाम्) बलस्य दातारम् (ससवांसम्) षण्णु दाने—कृत्तु । दस्यन्तम् (स्वः) सुखम् (अपः) प्राणान् (च) (देवीः) दिव्याः (ससान) षण्णु सम्भक्तौ—लिट् । सेवितवान् । उपयुक्तवान् (यः) इन्द्रः (पृथिवीम्) भूमिम् । भूमिस्थपदार्थानित्यर्थः (द्याम्) आकाशम् । आकाशस्थपदार्थानित्यर्थः (उत) अपि च (इमाम्) दृश्यमानाम् (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं पुरुषम् (मदन्ति) दृश्यन्ति (अनु) अनुसृत्य (धीरणासः) धीः प्रज्ञानाम—निघ० ३ । ६ । रणः संप्रामनाम—निघ० २ । १७ । असुगागमः । धीभ्यः प्रशस्तप्रज्ञाभ्यो रणः सङ्ग्रामो येषां ते ॥

६—(ससान) म० ८ । सेवितवान् । उपयुक्तवान् (अत्यान्) अत्याद-

(सप्तान) सेवा है (उत) और (सूर्यम्) सूर्य [समान प्रतापी वीर] को (सप्तान) सेवा है, (पुरुभोजसम्) बहुत पालन करने वाली (गाम्) पृथिवी [वा गौ] को (सप्तान) सेवा है । (हिरण्ययम्) सुवर्ण (उत) और (भोगम्) भोग [उत्तम पदार्थों के उपयोग] को (सप्तान) सेवा है, (दस्यून्) साहसी चोरों को (हत्वी) मारकर (वर्णम्) स्वोकार करने योग्य (आर्यम्) आर्य [श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष] की (प्र भावत्) रक्षा की है ॥ ६ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य उत्तम घोड़ों, श्रेष्ठ वीर पुरुषों, राज्य, सुवर्ण आदि धन, और अन्न आदि भोगों के रखने में समर्थ होता है, वही दुष्टों का नाश कर शिष्टों की रक्षा करता है ॥ ६ ॥

इन्द्र ओषधीरसनेादहानि वनस्पतीं रसनोदन्तरिक्षम् ।

विभेदं वुलं नुनुदे विवाचोऽथाभवद् दमिताभिक्रतूनाम् ॥१०॥

इन्द्रः । ओषधीः । असनेात् । अहानि । वनस्पतीन् । असनेात् । अन्तरिक्षम् ॥ विभेदं । वुलम् । नुनुदे । वि-वाचः । अथं । अभवत् । दमिता । अभि-क्रतूनाम् ॥ १० ॥

भाषार्थ—(इन्द्रः) इन्द्र [महाप्रतापी पुरुष] ने (अहानि) दिनों को और (ओषधीः) ओषधियों [सोम अन्न आदि] को (असनेात्) सेवा है, (वनस्पतीन्) वनस्पतियों [पीपल आदि] और (अन्तरिक्षम्) आकाश

यश्च । उ०४ । १२२ । अत सातत्यगमने—यक् । अत्योऽश्वनाम—निघ० १ । १४ । अश्वान् (उत) अपि च (सूर्यम्) सूर्यमिव प्रतापिन वीरम् (सप्तान) (इन्द्रः) महाप्रतापी पुरुषः (सप्तान) (पुरुभोजसम्) बहुपालयित्रीम् (गाम्) भूमिं धेनुं वा (हिरण्ययम्) सुवर्णादिधनम् (उत) (भोगम्) उत्तमपदार्थोपयोगम् (हत्वी) स्नात्क्यादयश्च । पा ० ७ । १ । ४६ । इति ईकारः । हत्वा (दस्यून्) साहसिकान् । चोरान् (प्र) प्रकर्षेण (आर्यम्) श्रेष्ठं धार्मिकम् (वर्णम्) वरणीयम् (भावत्) अथ रक्षणे—लङ् । अरक्षत् ॥

१०—(इन्द्रः) महाप्रतापी पुरुषः (ओषधीः) सोमान्नादिपदार्थान् (असनेात्) षण् संभक्तौ—लङ् । सेवितवान् (अहानि) दिनानि (वनस्पतीन्) पिंपलादिवृक्षान् (असनेात्) सेवितवान् (अन्तरिक्षम्) आकाशम् (विभेदं)

को (असनोत्) सेवा है । उसने (बलम्) धरने वाले शत्रु को (विभेद्) छिन्न
भिन्न किया और (विवाचः) विरुद्ध बोलने वालों को (जुबुदे) निकाल दिया
(अथ) फिर (अभिक्रतूनाम्) विरुद्ध कर्म वालों [अभिमानो दुष्टा] का
(दमिता) दमन करने वाला (अभवत्) हुआ है ॥ १० ॥

भाषार्थ—राजा को योग्य है कि सदा समय पर ध्यान रखकर पृथिवी
और आकाश के पदार्थों को उपयोगी करके विरोधी दुष्टों को निकाल देवे ॥१०

शुनं हुवेम सुघवान्मिन्द्रं अस्मिन् भरे नृतमं वाजसातौ ।

शृण्वन्तमुग्रमुतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितुं धनानाम् ॥११

शुनम् । हुवेमु । सुघ-वानम् । इन्द्रम् । अस्मिन् । भरे ।

नृ-नमम् । वाज-सातौ ॥ शृण्वन्तम् । उग्रम् । ऊतये । समत्-

सु । घ्नन्तम् । वृत्राणि । सम्-जितम् । धनानाम् ॥ ११ ॥

भाषार्थ—(शुनम्) सुन्न देने वाले (मघवानम्) बड़े धनी, (अस्मिन्)
इस (भरे) युद्ध के बीच (वाजसातौ) अन्न के पाने में (नृतमम्) बड़े नेता,
(शृण्वन्तम्) सुनने वाले, (उग्रम्) तेजस्वी, (समत्सु) संख्याओं में (वृत्राणि)
शत्रुओं को (घ्नन्तम्) मारने वाले, (धनानाम्) धनों के (संजितम्) जीत लेने
वाले (इन्द्रम्) इन्द्र [महाप्रतापी जन] को (ऊतये) रक्षा के लिये (हुवेम)

मिन्नवान् (बलम्) बल संवरणे—अच् । आवरकं दैत्यम् (जुबुदे) शुद्ध प्रेरणे—
लिट् । निराचकार (विवाचः) विरुद्धवाग्युक्तान् (अथ) अपि च (अभवत्)
(दमिता) दमु उग्रशमे—तृच् । नियन्ता (अभिक्रतूनाम्) अभि आभिमुख्येन
क्रानवः कर्त्ता ये रां तेषाम् । विरुद्ध कर्म णाम् । अभिमानितां दुष्टानाम् ॥

११—(शुनम्) सुन्नप्रदम् (हुवेम) आह्वयेम (मघवानम्) महाधनिनम्
(इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं पुरुषम् (अस्मिन्) वर्तमाने (भरे) संग्रामे—निघ०
२॥ १७ (नृतमम्) अतिशयेन नेतारम् (वाजसातौ) अन्नस्य लाभे (शृण्वन्तम्)
भोतारम् (उग्रम्) प्रचण्डम् (ऊतये) अघनाय । रक्षणाय (समत्सु) सम् +
अद् भक्षणे, यद्वा, सम् + मदी हर्षे—क्विप् । समदः समदो वाक्तेः सम्मदो वा
मदतेः—निरु० ६।१७ । संग्रामेषु—निघ० २।१७ (घ्नन्तम्) नाशयन्तम् (वृत्राणि)

हम बुलावें ॥ ११ ॥

भावार्थ—प्रजागण न्यायकारी, प्रतापी, शत्रुनाशक, शूर राजा का सदा आदर करें ॥ ११ ॥

यह मन्त्र कुछ भेद से सामवेद में है—उ० ४।४।७। और विना भेद ऋग्वेद में चौदह [१४] बार है—म० ३। सू० ३०, ३१, ३२, ३४, ३५, ३६, ३८, ३९, ४३, ४८, ४९, ५०, म० १०। सू० ८६, १०४ के अन्त में ॥

सूक्तम् १२ ॥

१—७ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ६ भुरिगार्गी पङ्क्तिः; २, ३ विराद् त्रिष्टुप्; ४ स्वराडार्गी पङ्क्तिः; ५ निचृत् त्रिष्टुप् ७ त्रिष्टुप् ॥

सेनापतिकर्तव्योपदेशः—सेनापति के कर्तव्य का उपदेश ॥

उद ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द्रं समुर्ये महया वसिष्ठ ।

आ यो विश्वानि शर्वसा तुतानोपश्रोता स ईवतो वचांसि ॥१॥

उत् । ऊँ इति । ब्रह्माणि । ऐरुत् । श्रवस्या । इन्द्रम् । स-

मुर्ये । महय । वसिष्ठ ॥ आ । यः । विश्वानि । शर्वसा ।

तुतानं । उप-श्रोता । मे । ईवतः । वचांसि ॥ १ ॥

भाषार्थ—(श्रवस्या) यश के लिये हितकारा (ब्रह्माणि) वेदज्ञानों को (उ) ही (उत् षेरत्) उन [विद्वानो] ने उच्चारण किया है, (वसिष्ठ) हे अतिश्रेष्ठ ! (इन्द्रम्) इन्द्र [महाप्रतापी सेनापति] को (समुर्ये) युद्ध में (महय) पूज । (यः) जिस (उपश्रोता) आदर से सुनने वाले [शूर] ने

शत्रून् (सजितम्) सम्यग् जेतारम् (धनानाम्) सुवर्णादीनाम् ॥

१—(उत् षेरत्) ईर गतौ—लृङ् । ते विद्वान् उदीरितवन्तः । उच्चारितवन्तः (उ) एव (ब्रह्माणि) वेदज्ञानानि (श्रवस्या) श्रवस्—यत् । भवो-धनम्—निघ० २।१०। श्रवसे यशसे हितानि (इन्द्रम्) महाप्रतापिनं सेनापतिम् (समुर्ये) मर्यो मनुष्यनाम—निघ० २।३। सह शब्दस्य समावः । समुर्ये संग्रामनाम—निघ० २।७। मर्योमनुष्यैः सह वर्तमानेऽयुद्धे (महय) पूजय (वसिष्ठ) वसु—इष्टम् । हे अतिशयेन वसो श्रेष्ठ (आ) समन्तात् (यः)

(ईवतः) उद्योगी (मे) मेरे (विश्वानि) सब (वचांसि) वचनों को (शषसा) बल के साथ (आ) अच्छे प्रकार (नतान) फैलाया है ॥ १ ॥

भवार्थ—विद्वान् लोग उपदेश करें कि सब श्रेष्ठ पुरुष शूरीर धर्मात्मा जन का सन्कार करें, जिस से वह उद्योगी पुरुषों की शिक्षा को संसार में फैलावे ॥ १ ॥

मन्त्र १—६ ऋग्वेद में हैं—७।२३।१—६ ॥

अयामि घोष इन्द्र देवजामिरिर्ज्यन्तु यच्छुरुधो विवाचि ।
नहि स्वमायुश्चिकित्ते जनेषु तानीदं ह्यस्यति पर्ष्यस्मान् ॥२॥
अयामि । घोषः । इन्द्र । देव-जामिः । इर्ज्यन्तु । यत् ।
शुरुधः । वि-वाचि ॥ नहि । स्वम् । आयुः । चिकित्ते ।
जनेषु । तानि । इत् । अंहसि । अति । पर्षि । अस्मान् ॥२॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी वीर] (देवजामिः) विद्वानों को प्राप्त होने वाला (घोषः) शब्द (अयामि) ऊंचा किया गया है, (यत्) जिस [शब्द] को (शुरुधः) शीघ्र रोकने वाले पुरुष (विवाचि) विविध वाणियों से युक्त व्यवहार [वा संग्राम] में (इर्ज्यन्तु) सेवते हैं । (स्वम्) अपने (आयुः) जीवन काल को (जनेषु) मनुष्यों में (नहि) किसी ने नहीं

इन्द्रः सेनापतिः (विश्वानि) सर्वाणि (शषसा) बलेन (नतान) विस्तार-यामास (उपश्रोता) आदरेण श्रवणकर्ता (मे) मम (ईवतः) ईङ् गतौ—किप्, ईर्गतिः—मत्तुप् । गनियुक्तस्य । उद्योगिनः पुरुषस्य (वचांसि) वचनानि ॥

२—(अयामि) यमु उपरमे कर्मणि लुङ् । उद्यतः । उच्चैर्गतः (घोषः) शब्दः (इन्द्र) हे महाप्रतापिन् वीर (देवजामिः) वसिष्ठपियजि० । ३० ४ । १२५ । जमु अदने गतौ च—इङ् । जमतिर्गतिकर्मा—निघ० २ । १४ । यो देवान् विदुषः पुरुषान् जमति प्राप्नोति सः (इर्ज्यन्तु) लटि रूपम् । इर्ज्यतिः परिचरण—कर्मा—निघ० ३ । ५ । इर्ज्यन्ति । सेवन्ते (यत्) य घोषम् (शुरुधः) शु गतौ—ङु + रुधिर् आवरणे—किप् । शवतिर्गतिकर्मा—निघ० २ । १४, परिचरण-कर्मा—निघ० ३ । ५ । आशु इति च शु इति च क्षिप्रनामनी भवतः—निघ० ६ । १ । शीघ्ररोधनशीलाः (विवाचि) विवाक् संग्रामनाम—निघ० २ । १७ । विविधवाणीयुक्ते व्यवहारे संग्रामे वा (नहि) न कोऽपि (स्वम्) स्वकीयम्

(चिकित्ते) जाना है, (तानि) उन (अंहासि) पापों को (इत्) ही (अति) लांघ कर (अस्मान्) हमें (पर्षि) पाल ॥ २ ॥

भाषार्थ—मनुष्य वेद वचनों को भली भाँति मानता हुआ और मृत्यु को सदा अपने पाँच जानता हुआ पापों को छोड़ धर्म करने में शीघ्रता करता रहे ॥ २ ॥

युजे रथं गवेषणं हरिभ्यामुप ब्रह्माणि जुजुषाणमस्थुः ।

वि बाधिष्ट स्य रोदसी महित्वेन्द्रो वृत्राण्यमृती जघन्वान् ३॥

युजे । रथम् । गो-एषणम् । हरि-भ्याम् । उप । ब्रह्माणि ।

जुजुषाणम् । अस्थुः ॥ वि । बाधिष्ट । स्यः । रोदसी इति ।

महि-त्वा । इन्द्रः । वृत्राणि । अमृति । जघन्वान् ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(गवेषणम्) भूमि प्राप्त कराने हारे (रथम्) रथ को (हरि-भ्याम्) दो घोड़ों से (युजे=युयुजे) उस [सेनापति] ने जोता, (जुजुषाणम्) उस हर्ष करते हुये को (ब्रह्माणि) अनेक धन (उप अस्थुः) उपस्थित हुये । (स्यः) उस (इन्द्रः) इन्द्र [महाप्रतापी सेनापति] ने (वृत्राणि) शत्रु-दलों को (अमृति) बिना रोक (जघन्वान्) मार डाल कर (महित्वा) अपने महत्त्व से (रोदसी) देशों आकाश और भूमि को (वि) विविध प्रकार (बाधिष्ट) बिलोया [मथा] है ॥ ३ ॥

(आयुः) जीवनकालम् (चिकित्ते) कित ज्ञाने—लिट् । ज्ञातवान् (जनेषु) मनुष्येषु (तानि) प्रसिद्धानि (इत्) एव (अंहासि) पापानि (अति) अनीत्य उल्लङ्घ्य (पर्षि) पृ पालनपूरणयोः—लोट् । पालय (अस्मान्) ॥

३—(युजे) युजिर् योगे—लिट् । स युयुजे । योजिनवान् (रथम्) यानम् (गवेषणम्) गां भूमिं प्रापकम् (हरिभ्याम्) शत्रुनाशनप्रजापालनरूपाभ्यां तुरङ्गाभ्याम् (उप अस्थुः) उपतिष्ठन्ते सेवन्ते स्म (ब्रह्माणि) धनानि (जुजुषाणम्) जुष तर्के, जुषी प्रीतिसेवनयोः—कानच् । हृष्यन्तं सेनापतिम् (वि) विविधम् (बाधिष्ट) अबाधिष्ट । बिलोडितवान् (स्यः) सः (रोदसी) आकाशभूमी (महित्वा) महत्त्वेन (इन्द्रः) महाप्रतापी सेनापतिः (वृत्राणि) शत्रुसैन्यानि (अमृति) यथा मर्षितः तथा । प्रातिकूल्यस्य विघ्नस्य राहित्येन (जघन्वान्) हन हिंसागण्योः—कसु । नाशितवान् ॥

भावाय—जो राजा दो घोड़ों के समान वर्तमान शत्रु के नाश और प्रजा के पालनरूप गुणों से राज्य को चलाता है, वह निर्विघ्न होकर भूमि और आकाश के पदार्थों से उपकार लेता है ॥ ३ ॥

आपश्चित् पिप्यु स्तुर्यो न गावो नक्षत्रुतं जरितारस्त
इन्द्र । याहि वायुर्न नियुतो नो अच्छा त्वं हि धीभिर्दयसे
वि वाजान् ॥ ४ ॥

आपः । चित् । पिप्युः । स्तुर्यः । न । गावः । नक्षत्रुतम् ।
जरितारः । ते । इन्द्र ॥ याहि । वायुः । न । नियुतः ।
नः । अच्छ । त्वम् । हि । धीभिः । दयसे । वि । वाजान् ॥४॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी सेनापति] (स्तुर्यः) फैले हुये (आपः चित्) जलों के समान और (गावः न) किरणों के समान (ते) तेरे (जरितारः) स्तुति करने वाले (पिप्युः) बढ़े हैं, और (ऋतम्) सत्य को (नक्षत्रुतम्) प्राप्त हुये हैं । (वायुः न) पवन के समान (नियुतः) वेग आदि गुणों को, (त्वम्) तू (अच्छ) अच्छे प्रकार से (नः) हमें (याहि) प्राप्त हो, (हि) क्योंकि (धीभिः) अपनी बुद्धियों वा कर्मों से (वाजान्) विज्ञानियों पर (वि) विविध प्रकार (दयसे) तू दया करता है ॥ ४ ॥

भावाय—जो पुरुष फैलते हुये जल और किरणों के समान बढ़कर

४—(आपः) जलानि (चित्) उपमार्थे—निरु० १।४। (पिप्युः) ओ
प्यायी वृद्धौ—लिट् । अभिवृद्धौ षभूवुः (स्तुर्यः) अवितृस्तृतन्निभ्य ईः । उ०
३ । १५८ । स्तृन् आच्छादने—ईप्रत्ययः । विस्तारशीलाः (न) इव—निरु० १।४।
(गावः) किरणाः (नक्षत्रुतम्) ऐक्ष गतौ—लङ्, अडभावः । प्राप्तवन्तः (ऋतम्)
सत्यम् (जरितारः) स्तोतारः (ते) तव (इन्द्र) महाप्रतापिन् सेनापते
(याहि) प्राप्नुहि (वायुः) पवनः (न) इव (नियुतः) नि + यु मिश्रणामिश्र-
णयोः—क्लिप् । नियुतो वायोरदिष्टोपयोजनानि—निघ० १।१५। वेगादिगुणान्
(नः) अस्मान् (अच्छ) सुष्ठु (त्वम्) (हि) यतः (धीभिः) प्रज्ञाभिः कर्म-
भिर्वा (दयसे) दय दानगतिरक्षणहिसादानेषु । दयां करोषि (वि) विविधम्,
(वाजान्) विज्ञानवतः ॥

उपकारी होवें, महासेनापति वायु के समान शीघ्रता करके उन उपकारी सज्जनों को सन्तुष्ट करे ॥ ४ ॥

यह मन्त्र यजुर्वेद में भी है—३३।१८ ॥

ते त्वा मदा इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणं तुविराधसं जरित्रे ।

एको देवत्रा दयसे हि मर्तान् अस्मिन् शूरु सर्वने मादयस्व ॥ ५ ॥

ते । त्वा । मदाः । इन्द्र । मादयन्तु । शुष्मिणम् । तुवि-राध-
सम् । जरित्रे ॥ एकः । देव-त्रा । दयसे । हि । मर्तान् ।

अस्मिन् । शूरु । सर्वने । मादयस्व ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी सेनापति] (ते) वे (मदाः) आनन्द करते हुये वीर (शुष्मिणम्) महाबली और (तुविराधसम्) बड़े धनी (त्वा) तुझको (जरित्रे) स्तुति करने वाले के लिये (मादयन्तु) हर्षित करें । (देवत्रा) विद्वानों में (एकः हि) अकेला ही तू (मर्तान्) मनुष्यों पर (दयसे) दया करता है, (शूर) हे शूर ! (अस्मिन्) इस (सर्वने) प्रेरणा में [सब को] (मादयस्व) आनन्दित कर ॥ ५ ॥

भावार्थ—सब सैन्यदल अपने पराक्रमों से मुख्य सेनापति को प्रसन्न करें और वह सेनापति भी उन सबों पर पूर्ण दया करे, जिस से शत्रुओं का नाश और प्रजा की रक्षा होवे ॥ ५ ॥

एवेदिन्द्रं वृषणं वज्रबाहुं वसिष्ठासो अभ्यर्चन्त्यर्कैः । स न
स्तुतो वीरवद् धातु गोमद् यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥
एव । इत् । इन्द्रम् । वृषणम् । वज्र-बाहुम् । वसिष्ठासः ।

५—(ते) प्रसिद्धाः (त्वा) त्वाम् (मदाः) आनन्दयुक्ताः सुमदाः—
दयानन्दभाष्ये, ऋ० ७।२३।५ (इन्द्र) (मादयन्तु) हर्षयन्तु (शुष्मिणम्)
बलिष्ठम् (तुविराधसम्) बहुधनयुक्तम् (जरित्रे) स्तोत्रे (एकः) अद्वितीयः
(देवत्रा) विद्वत्सु (दयसे) म० ४।दया करोषि (हि) एष (मर्तान्)
मनुष्यान् (अस्मिन्) वर्तमाने (शूर) निर्भय (सर्वने) प्रेरणे (मादयस्व)
आनन्दयस्व सर्वानिति शेषः ॥

अभि । अर्चन्ति । अर्कैः ॥ सः । नः । स्तुतः । वीर-वत् ।
धातु । गो-मत् । यूयम् ॥ पातु । स्वस्ति-भिः । सदा । नः ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(पव इत्) इस प्रकार ले ही (वसिष्ठासः) अत्यन्त वसु [श्रेष्ठ विद्वान् लोग] (वृषणम्) बलवान्, (वज्रवाहुम्) वज्र [शस्त्र अस्त्रों] को भुजा पर रखने वाले (इन्द्रम्) इन्द्र [महाप्रतापी सेनापति] को (अर्कैः) पूजनीय विचारों से (अभि अर्चन्ति) यथावत् पूजते हैं। (स्तुतः) स्तुति किया गया (सः) वह (नः) हमारे लिये (वीरवत्) वीरों से युक्त (गोमत्) उत्तम गौओं वाले [राज्य] को (धातु) धारण करे, [हे वीरो !] (यूयम्) तुम सब (स्वस्तिभिः) सुखों से (सदा) सदा (नः) हमें (पात) रक्षित रक्खो ॥ ६ ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग विजयी सेनापति को सदा प्रसन्न रक्खें और ऐसा प्रबन्ध होवे कि सब लोग शस्त्र अस्त्र विद्या में निपुण होकर राज्य की रक्षा करें ॥ ६ ॥

यह मन्त्र यजुर्वेद में भी है—२०।५४। और चौथा पाद आगे है—
अथ० २०।१७।१२; ३७।११; ८७।७ ॥

ऋजीषी वृज्री वृषभस्तुराषाट्शुष्मी राजा वृत्रहा सोमपावा ।
युक्त्वा हरिभ्यामुप यासद्वर्वाङ् माध्यदिने सर्वने मत्सुदिन्द्रः ॥ ७ ॥
ऋजीषी । वृज्री । वृषभः । तुराषाट् । शुष्मी । राजा ।
वृत्र-हा । सोम-पावा ॥ युक्त्वा । हरि-भ्याम् । उप । यासत् ।
अर्वाङ् । माध्यदिने । सर्वने । मत्सुत् । इन्द्रः ॥ ७ ॥

६—(पव) पवम् (इत्) अपि (इन्द्रम्) महाप्रतापिनं सेनापतिम् (वृषणम्) बलवन्तम् (वज्रवाहुम्) शस्त्रास्त्रपाणिम् (वसिष्ठासः) वसु—इन्द्र, असुक्। अतिशयेन वसवः श्रेष्ठविद्वांसः (अभि) सर्वतः (अर्चन्ति) सत्कुर्वन्ति (अर्कैः) सुविचारैः (सः) (नः) अस्मान् (स्तुतः) प्रशंसितः (वीरवत्) वीरैर्युक्तम् (धातु) दधातु (गोमत्) प्रशस्तधेनुभिर्युक्तं राज्यम् (यूयम्) (पात) रक्षत (स्वस्तिभिः) सुखैः (सदा) (नः) अस्मान् ॥

भाषार्थ—(ऋजीपी) महाधनी, (वज्री) वज्र धारी [शस्त्र अर्थात् घाला], (वृषभः) बलवान्, (तुराषाट्) हिंसक शत्रुओं का हराने वाला, (शुष्मी) बलवान् सेना वाला, (राजा) राजा, (वृत्रहा) बैरियों का मारने-वाला, (सोमपावा) सोम [महौषधियों के रस] का पीने वाला (इन्द्रः) इन्द्र [महाप्रतापी सेनापति] (हरिभ्याम्) दो घोड़ों से [रथ को] (युक्त्वा) जोन कर (अर्वाङ्) सामने (उप यासत्) आगे और (माध्यन्दिने) मध्याह्न में (सवने) यज्ञ के बीच (मत्सत्) आनन्द पावे ॥ ७ ॥

भाषार्थ—राजा महाधनी, प्रतापी, शस्त्रधारी होकर शत्रुओं का नाश कर के प्रजा की रक्षा करे और दोपहर [दिन के समान] लोहा में आनन्द का प्रकाश करे ॥ ७ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—५।४०।४ ॥

सूक्तम् १३ ॥

१—४ ॥ १ इन्द्रावृहस्पती देवते; २ मरुतो देवताः; ३, ४ अग्निदेवता ॥ १ भुरिक् त्रिष्टुप्; २ जगती; ३ निचृज् जगती, ४ त्रिष्टुप् ॥

राजविद्वद्गुणोपदेशः—राजा और विद्वानों के गुणों का उपदेश ॥

इन्द्रश्च सोमं पिवतं बृहस्पतेऽस्मिन् युञ्जे मन्दसाना वृषयवसू ।
आ वा विशुन्तिवन्दवः स्वाभुवोऽस्मे रयिं सर्ववीरं नि यच्छतम् १
इन्द्रः । च । सोमम् । पिवतम् । बृहस्पते । अस्मिन् । युञ्जे ।

७—(ऋजीपी) अर्जर्जज च । उ० ४ । २८ । अर्ज अर्जने—ईषन्, कित्, ऋजादेशश्च । ऋजोषं धनमस्यास्तीति—इति । महाधनी (वज्री) शस्त्रधारी भूत् (वृषभः) बलिष्ठः (तुराषाट्) तुर हिंसाग्याम्—क + षह अभिभवे—इति, अन्येषामपि दृश्यते । पा० ६ । ३ । १३७ । इति दीर्घः । तुराणां हिंसक-शत्रूणामभिभवना (शुष्मी) शुष्म बलिष्ठं सैन्यं विद्यते यस्य सः (राजा) शासकः (वृत्रहा) शत्रुहन्ता (सोमपावा) श्रेष्ठौषधिरसस्य पानकर्ता (युक्त्वा) योजयित्वा (हरिभ्याम्) अश्वाभ्याम् (उप यासत्) आगच्छेत् (अर्वाङ्) अग्रेसरः (माध्यन्दिने) मध्याह्ने (सवने) यज्ञमध्ये (मत्सत्) आनन्देत् (इन्द्र) महाप्रतापी सेनापतिः ॥

मन्दसाना । वृषण्-वसु इति वृषण्-वसु ॥ आ । वास् ।
विशन्तु । इन्द्रवः । सु-आभुवः । अस्मे इति । रयिस् ।
सर्व-वीरम् । नि । यच्छतम् ॥ १ ॥

भाषार्थ—(बृहस्पते) हे बृहस्पति ! [बड़ी वेदवाणी के रत्नक विद्वान्]
(च) और (इन्द्रः) हे इन्द्र ! [अत्यन्त पेश्वर्य वाले राजन्] (मन्दसानौ)
आनन्द देने वाले, (वृषणवसु) बलवान् वीरों को निवास कराने वाले तुम
दोनों (सोमम्) सोम [उत्तम ओषधियों के रस] को (अस्मिन्) इस (यज्ञे)
यज्ञ [राज्यपालन व्यवहार] में (पिबन्तम्) पीओ । (स्वाभुवः) अच्छे
प्रकार सब ओर होने वाले (इन्द्रवः) पेश्वर्य (वाम्) तुम दोनों में (आ
विशन्तु) प्रवेश करें, (अस्मे) हम को (सर्ववीरम्) सब को धीर बनाने
वाला (रयिम्) धन (नि) नियम पूर्वक (यच्छतम्) तुम दोनों दो ॥ १ ॥

भाषार्थ—विद्वान् लोग और राजा राज्य के पालन और प्रजा के धन-
वान् बनाने में आनन्द पावें ॥ १ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—४।५०।१० ॥

आ वो वहन्तु सप्तयो रघुष्यदो रघुपत्वानुः प्रजिगात ब्राहुभिः ।
सीदता बृहिरुरु वः नदस्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्वो अन्धसः २
आ । वः । वहन्तु । सप्तयः । रघु-स्यदः । रघु-पत्वानः । प्र
जिगातु । ब्राहु-भिः ॥ सीदत । आ । बृहिः । उरु । वः ।

१—(इन्द्रः) हे परमेश्वर्यवान् राजन् (च) (सोमम्) सद्योषधिरसम्
(पिबन्तम्) (बृहस्पते) हे बृहत्या वेदवाण्या रत्नक विद्वान् (अस्मिन्) (यज्ञे)
पूजनोये राज्यपालनव्यवहारे (मन्दसानौ) अ० १४।२।६। मदि आमोद-
स्तुतिदोष्यादिषु—असानच् आमोदधितारौ (वृषणवसु) यौ वृष्णो वलवतः
वीगन् वासयन्तौ (वाम्) युजाम् (आविशन्तु) प्रविशन्तु । प्राप्नुवन्तु
(इन्द्रवः) पेश्वर्याणि (स्वाभुवः) सुष्ठु सर्वतो भवन्तः (अस्मे) अस्मभ्यम्
(रयिम्) धनम् (सर्ववीरम्) सर्वे वीरा यस्मात्तम् (नि) नियमेन (यच्छ-
तम्) दत्तम् ॥

सदः । कृतम् । मादयध्वम् । सुसुतुः । मध्वः ॥ अन्धसः ॥३॥

भाषार्थ—(मरुतः) हे विद्वान् शूरो ! (वः) तुम को (रघुष्यदः) शीघ्रगामी (सप्तयः) घोड़े (आ) सब ओर (वहन्तु) ले चलें, (रघुपत्वानः) शीघ्रगामी तुम (बाहुभिः) भुजाओं [हस्तक्रियाओं] से (प्र जिगात) आगे बढ़ो । और (उरु) चौड़े (बर्हिः) आकाश में (आ सीदत) आओ/जाओ, (वः) तुम्हारे लिये (सदः) स्थान (कृतम्) बनाया गया है, (मध्वः) मधुर (अन्धसः) अन्न से (मादयध्वम्) [सब को] तृप्त करो ॥ २ ॥

भाषार्थ—विद्वान् लोग क्रियाकुशल होकर, शिल्पविद्या से यान विमान आदि द्वारा जल धल और आकाश में जाना आना करके अन्न आदि उत्तम पदार्थों की प्राप्ति से सब को प्रसन्न करें । मरुत् लोगों के विषय में—अथ० १ । २० । १ देखो ॥ २ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है— १ । ८५ । ६ ॥

इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया ॥
भद्रा हि नः प्रसतिरस्य सं सद्यग्ने सुख्ये मा रिषामा वयं तव ॥
इमम् । स्तोमम् । अर्हते । जात-वेदसे । रथम्-इव । संम् ।
महेम । मनीषया ॥ भद्रा । हि । नः । प्र-सतिः । अस्य ।

२—(आ) समन्तात् (वः) युष्मान् (वहन्तु) नयन्तु (सप्तयः) वसेस्तिः । उ० ४ । १८० । षय समवाये—तिप्रत्ययः, यद्वा सुप्लु गतौ—तिप्रत्यये गुणे च रेफलोपः । सप्तेः सरणस्य—निरु० ६ । ३ । अरवाः—निघ० १ । १४ (रघुष्यदः) रधि गतौ—उप्रत्ययो नकारलोपश्च + स्यन्दू प्रस्रवणे—किप् । रघु शीघ्र स्थन्दमामा वेगेन गच्छन्तः (रघुपत्वानः) अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते । पा० ३ । २ । ७५ । रघु + पत्वं गतौ—वनिप् । रघु शीघ्र पतन्तो गच्छन्तो धूमम् (प्र) प्रकर्षेण (जिगात) गा स्तुतौ जुहोत्यादिकः । जिगातीति गतिकर्मा—निघ० २ । १४ । गच्छन्तं (बाहुभिः) भुजैः । हस्तक्रियाभिः (आसीदत) गमनागमनं कुरुत (बर्हिः) अन्तरिक्षम्—निघ० १ । ३ (उरु) विस्तीर्णम् (वः) युष्मभ्यम् (सदः) स्थानम् (कृतम्) रचितम् (मादयध्वम्) तर्पयत सर्वान् (मरुतः) अ० १ । २० । १ । हे विद्वांसः शूराः (मध्वः) मधुरात् (अन्धसः) अज्ञात् ॥

सुम्-सदि । अग्ने । सुख्ये । मा । रिषाम् । वयम् । तव ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(अर्हते) योग्य, (जातवेदसे) उत्पन्न पदार्थों के जानने हारे [पुरुष] के लिये (इमम्) इस (स्तोमम्) गुणकीर्तन को (रथम् इव) रथ के समान (मनीषया) बुद्धि से (सम्) यथावत् (महेमः) हेम बढ़ावें । (हि) क्योंकि (अस्य) इस [विद्वान्] की (प्रमतिः) उत्तम समझ (संसदि) सभा के बीच (नः) हमारे लिये (भद्रा) कल्याण करने वाली है । (अग्ने) हे अग्नि ! [तेजस्वी विद्वान्] (ते) तेरी (सुख्ये) मित्रता में (वयम्) हम (मा रिषाम्) न दुखी हों ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जैसे उत्तम बने हुये यान विमान आदि की चाल और योग्यता से उपकार लेकर मनुष्य गुण गाने हैं, वैसे ही लोग विद्वान के आविष्कार करने वाले विद्वान के गुणों से उपकार लेकर सुख प्राप्त करें ॥ ३ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—१ । ६४ । १ और सामवेद पू० १ । ७ । ४ तथा ४० ४ । ११७ ॥

ऐभिरग्ने सुरथं याह्वर्वाङ् नानारथं वा विभवो अशवाः ।

पत्नीवत्स्त्रिशतं त्रींशु देवाननुष्वधमा वह सादयस्व ॥ ४ ॥

आ । एभिः । अग्ने । सु-रथम् । याहि । अर्वाङ् । नाना-
रथम् । वा । वि-भवः । हि । अशवाः ॥ पत्नी-वतः । त्रि-श-
तम् । त्रीन् । च । देवान् । अनु-स्वधम् । आ । वह् ।
सादयस्व ॥ ४ ॥

३—(इमम्) प्रत्यक्षम् (स्तोमम्) गुणकीर्तनम् (अर्हते) योग्याय (जातवेदसे) जातानामुत्पन्नानां वेदित्रे (रथम्) रमणसुप्रानविमानादियानम् (इव) यथा (सम्) सम्यक् (महेम) पूजयेम । सत्कुर्याम (मनीषया) मन्त्रया (भद्रा) कल्याणकारिणी (हि) यतः (नः) अस्मभ्यम् (प्रमतिः) प्रकृष्टा बुद्धिः (अस्य) विदुषः पुरुषस्य (संसदि) परिषदि । सभायाम् (अग्ने) हे तेजस्विन् विद्वान् (सुख्ये) मित्रभावे (मा रिषाम्) हिंसिता मा भूम (वयम्) (तव) ॥

भाषार्थ—(अग्ने) हे अग्नि ! [तेजस्वी विद्वान्] (एभिः) इन [षोडों] से (सरथम्) एक से रथों वाले (वा) और (नानारथम्) नानाप्रकार के रथों वाले [मार्गं] को (अर्वाङ्) सामने होकर (आ याहि) आ, (हि) क्योंकि [तेरे] (अश्वाः) घोड़े (विभवः) प्रयत्न हैं । और (पत्नीवतः) पालनशक्तियों [सूक्ष्म अवस्थाओं] से युक्त (त्रिंशतम्) तीस (च) और (त्रीन्) तीन [तेतीस अर्थात् आठ वसु आदि] (देवान्) दिव्य पदार्थों को (अनुष्वधम्) अन्न के लिये (आ) यथावत् (वह) प्राप्त हो, और [सब को] (मादयस्व) हर्षित कर ॥ ४ ॥

भावार्थ—तेतीस देवता वा दिव्य पदार्थ यह हैं—अग्नि पृथिवी आदि आठ वसु, प्राण, अपान आदि ग्यारह रुद्र, चैत्र आदि चारह आदित्य वा महीने, एक इन्द्र वा विजुली, एक प्रजापति वा यज्ञ—देखो अथर्ववेद—६। १३६। १। भाव यह है कि विद्वानी शिल्पी पुरुष इन तेतीस दिव्य पदार्थों के बाहिरी आकार और भीतरी सूक्ष्म शक्तियों को भली भाँति समझ कर अद्भुत यान विमान आदि बनाकर संसार को सुख पहुँचावें ॥ ४ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—३। ६। ६ ॥

इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

४—(आ याहि) आगच्छ (एभिः) अश्वैः (अग्ने) हे तेजस्विन् विद्वान् (सरथम्) समानस्यच्छन्दस्यमूर्द्धप्रभृत्युदकेषु । पा० ६। ३। ८४। समानस्य सभावः । समानाः सदृशा रथा यस्मिंस्तं मार्गम् (अर्वाङ्) अभिमुखः (नानारथम्) बहुविधा रथा यस्मिंस्तं मार्गम् (वा) समुच्चये (विभवः) प्रभवः । प्रयत्नाः (हि) यतः (अश्वाः) तुरङ्गाः (पत्नीवतः) पालनशक्तिभिः सूक्ष्मावस्थाभिर्युक्तान् (त्रिंशतम्) (त्रीन्) (च) (देवान्) अ० ६। १३६। १। अष्टवस्वादीन् दिव्यपदार्थान् (अनुष्वधम्) स्वधेत्यक्षनामं—निघ० २। ७। स्वधाम् अन्नम् अनुलक्ष्य (आ) यथावत् (वह) प्राप्नुहि (मादयस्व) आनन्दय सर्वान् ॥

अथ द्वितीयोऽनुवाकः ॥

सूक्तम् १४ ॥

१—४ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ विराडाप्युष्णिक्; २ भुरिगार्गी बृहती; ३ ककु-
बुष्णिक्; ४ विराडापी पङ्क्तिः ॥

राजप्रजाकर्तव्योपदेशः— राजा और प्रजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

वयम् त्वाम्पूर्य स्थुरं न कच्चिद् भरन्तोऽवस्यवः ।

वाजे चित्रं हवामहे ॥ १ ॥

वयम् । ऊं इति । त्वाम् । अपूर्य् । स्थुरम् । न । कत् ।

चित् । भरन्तः । अवस्यवः ॥ वाजे । चित्रम् । हवामहे ॥ १ ॥

भाषार्य—(अपूर्य्य) हे अनुपम ! [राजन्] (कत् चित्) कुछ भी
(स्थुरम्) स्थिर (न) नहीं (भरन्तः) रक्षते हुये, (अवस्यवः) राजा चाहने
वाले (वयम्) हम (वाजे) संग्राम के बीच (चित्रम्) विचित्र स्वभाव
वाले (त्वाम्) तुझ को (उ) ही (हवामहे) बुलाते हैं ॥ १ ॥

भाषार्य—जब दुष्ट चोर डाकू लोग अत्यन्त सतावें, प्रजागण भी
राजा की शरण ले कर रक्षा करें ॥ १ ॥

मन्त्र १, २ ऋग्वेद में हैं—म। २१। १, २। मन्त्र १ सामवेद में है—
पू० ५। २। १० तथा मन्त्र १, २ उ० १। १। २२ और मन्त्र १—४ आगे हैं—
अथ० २०। ६२। १—४ ॥

१—(वयम्) प्रजाः (उ) अवधारणे (त्वाम्) (अपूर्य्य)-स्वार्थे
यत् । नास्ति पूर्वंः श्रेष्ठो यस्मात् सः, अपूर्वः, अपूर्य्यः । हे अनुपम (स्थुरम्),
स्थः किञ्च । उ० ५। ४। ष्टा गतिनिवृत्तौ—ऊरन्, कित् । स्थिरम् (न)
निषेधे (कच्चिद्) किमपि (भरन्तः)- धरन्तः (अवस्यवः) अवस—क्यच्,
उ । रक्षाकामाः (वाजे) संग्रामे—निघ० २। १७ (चित्रम्) अद्भुतस्वभावम्
(हवामहे) आह्वयामः ॥

उप त्वा कर्मन्नुतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो धृषत् ।
त्वामिद्धयवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानुसिम् ॥ २ ॥

उप । त्वा । कर्मन् । ऊतये । सः । नः । युवा । उग्रः ।
चक्राम् । यः । धृषत् ॥ त्वाम् । इत् । हि । अवितारम् ।
ववृमहे । सखायः । इन्द्र । सानुसिम् ॥ २ ॥

भाषार्थ—(कर्मन्) कर्म के बीच (नः) हमारी (ऊतये) रक्षा के लिये (सः) उस (यः) जिस (युवा) स्वभाव से बलवान्, (उग्रः) तेजस्वी और (धृषत्) निर्भय पुरुष ने (चक्राम) पैर बढ़ाया है, (इन्द्र) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्] (अवितारम्), उस रक्षक और (सानुसिम्) दानी (त्वा) तुझ को, (त्वाम्) तुझ को (हि) ही (इत्) अवश्य (सखायः) हम मित्र लोग (उप) आदर से (ववृमहे) चुनते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ—जो पुरुष, प्रजा रक्षण में बड़ा पराक्रमी हो, प्रजागण सब लोगों में से उसी को राजा बनावें ॥ २ ॥

यो न इदमिदं परा प्र वस्यं आनिनाय तसु व स्तुषे ।
सखाय इन्द्रमुतये ॥ ३ ॥

यः । नः । इदम्-इदम् । पुरा । प्र । वस्यः । आ-निनाय ।
तसु । ऊ इति । वः । स्तुषे ॥ सखायः । इन्द्रम् । ऊतये ॥ ३ ॥

२—(उप) आदरेण (त्वा) त्वाम् (कर्मन्) कर्मणि । व्यवहारे (ऊतये) रक्षायै (सः) (नः) अस्माकम् (युवा) निसर्गबलवान् (उग्रः) प्रचण्डः (चक्राम) क्रमु पादविक्षेपे—लिट् । अग्रे जगाम (यः) (धृषत्) संश्वत्-वृषद्वेहत् । उ० २ । ८५ । जि धृषा प्रागल्भ्ये—अतिप्रत्ययः । प्रगल्भः । निर्भयः (त्वाम्) (इत्) एव (हि) (अवितारम्) रक्षकम् (ववृमहे) वृणीमहे । स्वीकुर्मः (सखायः) । मित्रभृता वयम् (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् (सानुसिम्) सानुसिर्वर्षसिपर्णसि० । उ० ४ । १०७ । षण् दाने—असि, उपधां-बुद्धिः । दातारम् ॥

भाषार्थ—(यः) जो [पराक्रमी] (नः) हमारे लिये (इदमिदम्) इस-इस (वस्यः) उत्तम वस्तु को (पुरा) पहिले (प्र) अरुद्धे प्रकार (आनिनाय) लाया है, (तम् उ) उस ही (इन्द्रम्) इन्द्र [महाप्रतापी वीर] को, (सखायः) हे मित्रो ! (वः) तुम्हारी (ऊतये) रक्षा के लिये (स्तुवे) मैं सराहता हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो पुरुष पहिले से ही धीर वीर होवे, लोग उस की बड़ाई करके गुण ग्रहण करें ॥ ३ ॥

मन्त्र ३, ४ ऋग्वेद में है—८ । २१ । ६, १० । मन्त्र ३ सामवेद में है—७० ५ । २ । २ ॥

हर्यश्वं सत्पतिं चर्षणीसहं स हि ऽमा यो अमन्दत ।
आ तु नः स वयति गव्यमश्वयं स्तोतृभ्यो मघवा श्रुतम् ॥४॥
हरि-अश्वम् । सत्-पतिम् । चर्ष-णि-सहम् । सः । हि । स्म ।
यः । अमन्दत ॥ आ । तु । नः । सः । वयति । गव्यम् ।
अश्वम् । स्तोतृ-भ्यः । मघ-वा । श्रुतम् ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(सः) वह (हि) ही (स्म) अवश्य [मनुष्य है]; (यः) जिस ने (हर्यश्वम्) ले चलने वाले घोड़ों से युक्त, (सत्पतिम्) सत्पुरुषों के रक्षक, (चर्षणीसहम्) मनुष्यों को नियम में रखने वाले [राजा] को,

३—(यः) पराक्रमी (नः) अस्मभ्यम् (इदमिदम्) बहुनिर्दिष्टम् (पुरा) अग्रे (प्र) प्रकर्षण (वस्यः) वस्तु—इयसुन्, ईकारलोपः । वसीयः प्रशस्तं वस्तु (आनिनाय) आनीतवान् (तम्) (उ) अवधारणे (वः) युष्माकम् (स्तुवे) लडर्थे लेडुत्तमैकवचने । सिब् बहुलं लेटि । पा० ३ । १ । ३४ । इति सिप् । स्तुवे । स्तोमि (सखायः) हे सुहृदः (इन्द्रम्) महाप्रतापिनं वीरम् (ऊतये) रक्षायै ॥

४—(हर्यश्वम्) हरयो हरणशीला अश्वा यस्य तम् । शीघ्रंगामितुरङ्गवन्तम् (सत्पतिम्) सतां कर्मश्रेष्ठानां पालकम् (चर्षणीसहम्) चर्षणीनां मनुष्याणां सोढारम् अभिभवितारं नियन्तारम् (सः) हि (स्म) अवश्यम् (यः) पुरुषः (अमन्दत) यदि स्तुतिमोदमदस्वप्रकान्तिर्गतिषु-लक्ष्

(अमन्दत) प्रसन्न किया है । (सः) वह (मघवा) महाधनी (तु) तौ (नः) हम (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वालों को (शतम्) सौ [बहुत] (गव्यम्) गौओं का समूह और (अश्व्यम्) घोड़ों का समूह (आ वयति) लाता है ॥ ४ ॥

भाषार्थ—सब प्रजागण आज्ञा मानकर शूर धर्मात्मा राजा को प्रसन्न रखें, जिस से वह उत्तम प्रबन्ध के साथ प्रजा का पेश्वर्य बढ़ावे ॥ ४ ॥

सूक्तम् १५ ॥

१—६ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, २, ४ जगती; ३, ६ निचृज्जगती; ५ भुरिगार्गी त्रिष्टुप् ॥

सभाध्यक्षगुणोपदेशः—सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश ॥

प्र मंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये सत्यशुष्माय तवसे मतिं भरे ।
अपामिव प्रवणे यस्य दुर्धरं राधो विश्वायु शवसे अपवृतम् ॥
प्र । मंहिष्ठाय । बृहते । बृहत्-रये । सत्य-शुष्माय । तवसे ।
मतिम् । भरे ॥ अपाम्-इव । प्रवणे । यस्य । दुः-धरम् ।
राधः । विश्व-आयु । शवसे । अप-वृतम् ॥ १ ॥

भाषार्थ—(मंहिष्ठाय) अत्यन्त दानी, (बृहते) महागुणी, (बृहद्रये) महाधनी, (सत्यशुष्माय) सच्चे बलवान् [सभाध्यक्ष] के लिये (तवसे) बल पाने को (मतिम्) बुद्धि (प्र) उत्तम रीति से (भरे) मैं

आमोदितवान् । तर्पितवान् (आ वयति) वी गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसन-खादनेषु—लट्, छान्दसः शप् । आगमयति । प्रापयति (तु) अवधारणे । नियोगे (नः) अस्मभ्यम् (सः) (गव्यम्) गौसमूहम् (अश्व्यम्) अश्वसमूहम् (स्तोतृभ्यः) (मघवा) महाधनी (शतम्) बहु ॥

१—(प्र) प्रकृषेण (मंहिष्ठाय) मंहतेर्दानकर्मा—निघ० ३ । २० । महि बृद्धौ दाने च—तृच्, मंहितृ—इष्टन्, तृलोपः । दातृत्वाय (बृहते) गुणै-मंहते (बृहद्रये) रैशब्दस्य षेकारस्य षकारः । प्रभूतधनाय (सत्यशुष्माय) अविशयवत्त्वाय (तवसे) अ० ४ । २२ । ३ । बलप्राप्तये (मतिम्) बुद्धिम् (भरे)

धारण करता हूँ । (प्रवयो) ढालू स्थान में (अपाम् इव) जलों के [प्रवाह के] समान, (यस्य) जिस [समाध्यक्ष] का (दुर्धरम्) बेरोक, (विश्वायु) सब को जीवन देने वाला (राधः) धन (शवसे) बल के लिये (अपावृतम्) फैला हुआ है ॥ १ ॥

भावार्थ—जो समाध्यक्ष सुपात्रों को दान देकर प्रजा को सुशिक्षित बलवान् बनाता है, उसके उपकारों की महिमा ऐसी सुखदायक होती है, जैसे जल ढालू स्थानों में बह कर खेती आदि बढ़ाकर आनन्द देता है ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—१।५७।१—६ ॥

अधं ते विश्वमनु हासदिष्ट्यु आपो निम्नेव सर्वना हुविष्मतः ।
यत् पर्वते न समशीत हर्यत इन्द्रस्य वज्रः शनयिता हिरण्ययः २
अधं । ते । विश्वम् । अनु । हु । असुत् । इष्ट्ये । आपः ।
निम्ना-इव । सर्वना । हुविष्मतः ॥ यत् । पर्वते । न । सम-
शीत । हर्यतः । इन्द्रस्य । वज्रः । शनयिता । हिरण्ययः ॥ २ ॥

भाषार्थ—(अध) फिर (विश्वम्) सब जगत् (हुविष्मतः) दान योग्य पदार्थों वाले (ते) तेरे (सर्वना अनु) ऐश्वर्यों के पीछे- (इष्ट्ये) अभीष्ट सिद्धि के लिये (ह) निश्चय करके (असत्) होवे, (आपः) जल (निम्ना-इव) जैसे नीचे स्थानों के [पीछे बह चलते हैं] । (यत्) जब (इन्द्रस्य) इन्द्र [अत्यन्त ऐश्वर्य वाले समाध्यक्ष] का (हर्यतः) कर्मनीय, (शनयिता) चूर चूर

'अधं धरे (अपाम्) जलानां प्रवाहः (इव) यथा (प्रवयो) अवनतदेशे (यस्य) समाध्यक्षस्य (दुर्धरम्) दुःखेन धरणीयं निवारणीयम् (राधः) धनम् (विश्वायु) विश्वस्मै सर्वस्मै आयुर्जीवन यस्मान् तन् (शवसे) बललाभाय (अपावृतम्) छान्दसो दीर्घः । अपगनावरण व्यावृतं वर्तते ॥

२—(अध) अथ । अनन्तरम् (विश्वम्) सर्वं जगत् (अनु) अनुसृत्य (ह) निश्चयेन (असत्) भवेत् (इष्ट्ये) अभीष्टसिद्धये (आपः) जलानि (निम्ना) निम्नानि स्थलानि अनुसृत्य (इव) यथा (सर्वना) ऐश्वर्याणि (हुविष्मतः) हवींषि दानयोग्यानि वस्तूनि यस्य (यत्) यदा (पर्वते) शैले (न) यथा (समशीत) शीङ्क्षणे—तद् गुणामावः । अशेत । सम्यग् वर्तमानोऽभूत् (हर्यतः) कर्मनीयः (इन्द्रस्य) परमैश्वर्यवतः समाध्यक्षस्य (वज्रः)

करने वाला, (हिरण्ययः) तेजोमय (वजूः) वजू [हथियारों का कुण्ड]
(पर्वने न) जैसे पहाड़ पर, (सम्—अशीत) वर्तमान हुआ है ॥ २ ॥

भाषार्थ—जैसे जल ऊंचे स्थान से नीचे स्थान में फैलकर संसार का
उपकार करता है, वैसे ही राजा धन का संग्रह करके प्रजा पालन करे, और
शत्रुओं को मारने में ऐसा हठ उपाय करे, जैसे पहाड़ काटने के लिये हठ हथियार
आवश्यक होते हैं ॥ २ ॥

अस्मै भीमाय नमसा समध्वर उषो न शुभ्रे आ भूरा पनी-
यसे । यस्य धाम अवसे नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो
नार्यसे ॥ ३ ॥

अस्मै । भीमाय । नमसा । सम् । अध्वरे । उषः । न ।
शुभ्रे । आ । भूर । पनीयसे ॥ यस्य । धाम । अवसे । नाम ।
इन्द्रियम् । ज्योतिः । अकारि । हरितः । न । अर्यसे ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(शुभ्रे) हे चमकीली (उषः) उषा ! [प्रभात वेला के
समान सुखदायक पुरुष] (न) अव (अस्मै) इस (भीमाय) भीम [भयङ्कर],
(पनीयसे) अत्यन्त व्यवहार कुशल [सभाध्यक्ष] के लिये (अध्वरे) हिंसा
रहित कर्म में (नमसा) सत्कार के साथ (सम्) अच्छे प्रकार (आ भर)
भरपूर हो । (यस्य) जिस [सभाध्यक्ष] का (धाम) धाम [न्यायालय आदि

आयुधसमूहः (शनयिता) शनय हिंसायाम्—रुन , निष्वादासुदात्तः । हिंसिता ।
संपेष्टा (हिरण्ययः) तेजोमयः ॥

३—(अस्मै) प्रसिद्धाय (भीमाय) भयङ्कराय (नमसा) सत्कारेण
(सम्) सम्यक् (अध्वरे) हिंसारहिते कर्मणि (उषः) पादादिष्वाद् निष्वाता-
भावः । हे प्रभातवेले (न) सम्प्रति—निरु० ७ । ३१ (शुभ्रे) स्फाषितंश्चि० ।
७० २ । १३ । शुभ दीप्तौ—रक् टाप् । हे दीप्यमाने (आ) समन्तात् (भर)
धृतः पूरितो भव (पनीयसे) पन व्यवहारे स्तुतौ च—तृच्, ईयसुन्, तृतोपः ।
अत्यन्तव्यवहारकुशलाय सभाध्यक्षाय (यस्य) सभाध्यक्षस्य (धाम)

स्थान], (नाम) नाम [यश], (इन्द्रियम्) पेश्वर्य और (ज्योतिः) प्रताप (भवसे) अन्न के लिये (अकारि) बनाया गया है, (हरितः न) जैसे दिशायें (अयसे) चलने के लिये [बनी] हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जैसे प्रातःकाल में अन्धकार के नाश से आनन्द होता है, वैसे ही मनुष्य योग्य सभाध्यक्ष के सत्कार करने में सुखी होवे, और वह भी अपना सर्वस्व प्रजा को सुख देने में सब ओर लगावे ॥ ३ ॥

इमे ते इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभुवसो ।
नहि त्वदन्यो गिर्वणी गिरः सचत् सुोणीरिव प्रति नो हर्य
तद् वचः ॥ ४ ॥

इमे । ते । इन्द्र । ते । वयम् । पुरु-स्तुतु । ये । त्वा । आ-
रभ्य । चरामसि । प्रभुवसो इति प्रभु-वसो ॥ नहि । त्वत् ।
अन्यः । गिर्वणः । गिरः । सचत् । सुोणीः-इव । प्रति ।
नुः । हर्य । तत् । वचः ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(पुरुष्टुत) हे बहुत स्तुति किये गये । (प्रभुवसो) हे अधिक धन वाले (इन्द्र) इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्] (इमे) यह लोग और (ते) वे लोग (वयम्) हम सब (ते) तेरे हैं, (ये) जो हम (त्वा आरभ्य) तेरा सहारा लेकर (चरामसि) विचरते हैं । (गिर्वणः) हे स्तुतियों से सेवने

यालयादि स्थानम् (भवसे) अन्नलाभाय (नाम) यशः (इन्द्रियम्) इन्द्रियं धननाम—निघ० २ । १० । इन्द्रलिङ्गम् । पेश्वर्यम् (ज्योतिः) प्रतापः (अकारि) कृतम् (हरितः) हरितो दिङ्नाम—निघ० १ । ६ । दिशः (न) इव (अयसे) अय गतौ—असुन् । गमनाय ॥

४—(इमे) समीपवर्तिनः (ते) तव (इन्द्र) हे महाप्रतापिन् राजन् (ते) इववर्तिनः पुरुषाः (वयम्) सर्वे (पुरुष्टुत) हे बहुप्रकारं स्तुत (ये) (त्वा) त्वाम् (आरभ्य) आश्रित्य (चरामसि) विचरामः (प्रभुवसो) हे प्रभूश्रय (नहि) निषेधे (त्वत्) तव सकाशात् (अन्यः) मित्रपुत्रः ।

योग्य ! (त्वत्) तुझ से (अन्यः) दूसरा पुरुष (गिरः) [हमारी] वाणियों को (नहि) नहीं (सघत्) सह सकता, (क्षोणीभ्रव) धूम्रधियों के समान तू (नः) हमारे (तत्) उस (वचः) वचन में (प्रति) निश्चय करके (हर्य) प्रीति कर ॥ ४ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों के बीच अद्वितीय पराक्रमी धर्मज्ञ राजा निकटवर्ती और दूरवर्ती प्रजा की पुकार सुनकर रक्षा करे, जैसे पृथिवी सब उत्पन्न मात्र की रक्षा करती है ॥ ४ ॥

यह मन्त्र सामवेद में भी है—पू० ४।६।३ ॥

भूरि त इन्द्र वीर्यं तव स्मस्यस्य स्तोतुमीच वन् काममा पृण ।
अनु ते द्यौर्बृहती वीर्यं मम इयं च ते पृथिवी नेम ओजसे ॥५॥
भूरि । ते । इन्द्र । वीर्यं । तव । स्मसि । अस्य । स्तोतुः ।
सुव-वन् । कामम् । आ । पृण ॥ अनु । ते । द्यौः । बृहती ।
वीर्यम् । ममे । इयम् । च । ते । पृथिवी । नेमे । ओजसे ॥५॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्] (ते) तेरा (वीर्यम्) पराक्रम (भूरि) बहुत है, हम (ते) तेरे [प्रजा] (स्मसि) हैं, (मघवन्) हे महाधनी ! (अस्य) इस (स्तोतुः) स्तुति करने वाले की (कामम्) कामना को (आ) सब ओर से (पृण) तृप्त कर । (ते) तेरे (वीर्यम् अनु) पराक्रम के पीछे (बृहती) बड़ा (द्यौः) आकाश (ममे) नापा

(गिर्वणः) गृ शब्दे—क्विप्+सर्वधातुभ्योऽसुन् । उ० ४ । १८६ । वन संभक्तौ—असुन् । गिर्वणा देवो भवति गीर्भिरेनं वनयन्ति—निरु० ६ । १४ । हे गीर्भिः स्तुतिभिर्वननीय सेवनीय (गिरः) वाणीः (सघत्) सहैर्लौटि, अडागमः, हस्य घः । सहेत । स्वीकुर्वात् (क्षोणीः) पृथिव्यः (इव) यथा (प्रति) निश्चयेन (नः) अस्माकम् (हर्य) कामवस्त्र (तत्) (वचः) वचनम् ॥

५—(भूरि) बहु (ते) तव (इन्द्र) हे प्रतापिन् राजन् (वीर्यम्) पराक्रमः (ते) तव (स्मसि) बर्यं प्रजाः स्मः (अस्य) (स्तोतुः) गुणप्रकाशकस्य (मघवन्) हे बहुधन (कामम्) अभिलाषम् (पृण) पृण प्रीणने । तर्पय (अनु) अनुसृत्य (ते) तव (द्यौः) आकाशः (बृहती) महती (वीर्यम् पराक्रमम् (ममे) माङ् माने शब्दे च—सिद् । परिमित्त बभूव (इयम्)

गया है, (च) और (ते) तेरे (ओजसे) बल के लिये (इयम्) यह (पृथिवी) पृथिवी (नेमे) झुकी है ॥ ५ ॥

भाष्यार्थ—जो विद्वानी राजा प्रजा को प्रसन्न रखकर विद्वानों का उचित सत्कार करता है, वह वायु विमान आदि से आकाश को, तथा स्थल और जल यान आदि से पृथिवी को वश में कर के राज्य की उन्नति करता है ॥५॥

त्वं तमिन्द्र पर्वतं महामरुं वज्रेण वज्रिन् पर्व शश्वत्कर्तिथ । अवा-
सृजो निवृताः सर्तवा अपः सत्रा विश्वं दधिषे केवलं सहः ।
त्वम् । तम् । इन्द्र । पर्वतम् । महाम् । उरुम् । वज्रेण ॥
वज्रिन् । पूर्व-शः । चकर्तिथ ॥ अवा । असृजः । नि-वृताः ।
सर्तवै । अपः । सत्रा । विश्वम् । दधिषे । केवलम् । सहः ॥५॥

भाष्यार्थ—(वज्रिन्) हे वज्रधारी (इन्द्र) इन्द्र । [महाप्रतापी राजन्] (त्वम्) तू ने (तम्) उस (महाम्) बड़े, (उरुम्) चौड़े (पर्वतम्) पहाड़ को (वज्रेण) वज्र [हथियारों के झुण्ड] से (पर्वशः) टुकड़े टुकड़े करके (चकर्तिथ) काट डाला है । और (निवृतः) रोके हुये (अपः) बलों को (सर्तवै) बहने के लिये (अवा असृजः) छोड़ दिया है, (सत्रा) सत्य रूप से (विश्वम्) सम्पूर्ण, (केवलम्) असाधारण (सहः) बल को (दधिषे) तू ने धारण किया है ॥ ६ ॥

दृश्यमाना (च) (ते) तव (पृथिवी) भूमिः (नेमे) एम प्रहृत्वे—सिट् ।
प्रह्री नम्रा वभूव (ओजसे) बलाय ॥

६—(त्वम्) (तम्) प्रसिद्धम् (इन्द्र) महाप्रतापिन् राजन् (पर्वतम्) शैलम् (महाम्) नकारतकारयोर्लोपः । महान्तम् (उरुम्) विस्तीर्णम् (वज्रेण) आयुधसमूहेन (वज्रिन्) हे शस्त्रालधारिन् (पर्वशः) खण्डशः (चकर्तिथ) कृती छेदने—सिट् । छिन्नवानसि (अवासृजः) मुक्तवानसि (निवृताः) निवारिताः । निवृत्ताः (सर्तवै) सरतेः कृत्यार्थे तवैप्रत्ययः । सरणाय । बहनाय (अपः) जलानि (सत्रा) सत्यरूपेण (विश्वम्) सर्वम् (दधिषे) धारितवानसि (केवलम्) असाधारणम् (सहः) बलम् ॥

भाषार्थ—जो वीर पराक्रमी राजा पहाड़ों को काटकर घाटों पर एकत्र हुये जल को पृथिवी पर लाकर खेती आदि में उपयुक्त करे वह संसार के बीच कीर्तिमान् होवे ॥ ६ ॥

सूक्तम् १६ ॥

१—१२ ॥ बृहस्पतिर्देवता ॥ १, ३, ५, ६ निचृत् त्रिष्टुप्; २, ६—८, १०, ११ त्रिष्टुप्; ४ भुरिगार्धी त्रिष्टुप्, १२ विराट् त्रिष्टुप् ॥

विद्वद्गुणोपदेशः—विद्वानों के गुणों का उपदेश ॥

उद्मुतो न वयो रक्षमाणा वावदतो अभ्रियस्येव घोषाः ।
गिरिभ्रजो नोर्मयो मदन्तो बृहस्पतिमभ्यर्का अनावन् ॥१॥
उद्-मुतः । न । वयः । रक्षमाणाः । वावदतः । अभ्रियस्य-इव ।
घोषाः ॥ गिरि-भ्रजः । न । ऊर्मयः । । मदन्तः । बृहस्पतिम् ।
अभि । अर्काः । अनावन् ॥ १ ॥

भाषार्थ—(उद्मुतः) जल को प्राप्त हुये, (रक्षमाणाः) अपनी रक्षा करते हुये (वयः न) पक्षियों के समान, (वावदतः) बार बार गरजते हुये (अभ्रियस्य) वादल के (घोषाः इव) शब्दों के समान, (गिरिभ्रजः) पहाड़ों से गिरते हुये, (मदन्तः) तृप्त करते हुये (ऊर्मयः न) जल के प्रवाहों के समान, (अर्काः) पूजनीय पण्डितों ने (बृहस्पतिम्) बृहस्पति [बड़ी वेदवाणी के रक्षक महाविद्वान्] को (अभि) सब ओर से (अनावन्) सराहा है ॥ १ ॥

भाषार्थ—जैसे पक्षीगण जलाशय में पान स्नान करके तृप्त होते, जैसे

१—(उद्मुतः) प्रुङ् गतौ—क्विप् । उदकं प्राप्ताः (न) यथा (वयः) पक्षिणः (रक्षमाणाः) आत्मानं पालयन्तः (वावदतः) वदेर्यङ्लुकि शतृ । पुनः पुनः शब्दायमानस्य (अभ्रियस्य) स्वार्थे घप्रत्ययः । अभ्रियस्य मेघस्य—निघ० १ । १० (इव) यथा (घोषाः) ध्वनयः (गिरिभ्रजः) भ्रशु अधःपतने—क्विप् । शस्य जः । शैलेभ्यः सकाशादधःपतन्तः (न) यथा (ऊर्मयः) जलप्रवाहाः (मदन्तः) तर्पयन्तः (बृहस्पतिम्) बृहत्या वेदवाण्या रक्षकं विद्वांसम् (अभि) सर्वतः (अर्काः) पूजनीयाः पण्डिताः (अनावन्) एव स्तुतौ—लङ्, छान्दसः शप् । अस्तुवन् ॥

वरसते हुये मेघ अपनी गर्जन से प्रसन्न करते हैं, और जैसे पहाड़ों से बहती हुई नदियां अन्न आदि उत्पन्न करती हैं, वैसे ही बुद्धिमान् लोग वेदाभ्यासी पुरुष के गुणों को गाकर, आनन्द बढ़ाते हैं ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—१०। ६८। १—१२ ॥

सं गोभिराङ्गिरसो नक्षमाणो भगं हुवेदर्यमणं निनाय । जनै
मित्रो न दम्पती अनक्ति बृहस्पतेवाजयाशून्-इव । आजौ ॥ २ ॥

सम् । गोभिः । आङ्गिरसः । नक्षमाणः । भगः-इव । इत् ।
अर्यमणम् । निनाय ॥ जनै । मित्रः । न । दम्पती इति दम्प-
पती । अनुक्ति । बृहस्पते । वाजय । आशून्-इव । आजौ ॥ २

भाषार्थ—(आङ्गिरसः) विज्ञान वाला पुरुष, (भगः इव) पेश्वर्यवान् के समान (अर्यमणम्) श्रेष्ठों के मान करने वाले जन को (इत्) ही (नक्ष-
माणः) पाता हुआ (गोभिः) वाणियों से (सम्) यथावत् (निनाय) लाया है । (जने) मनुष्यों में (मित्रः न) मित्र के समान वह (दम्पती) दोनों स्त्री पुरुष को (अनक्ति) शोभावमान करता है, (बृहस्पते) हे बृहस्पति । [वेद-
वाणी के रक्षक] (आजौ) सङ्ग्राम में (आशून् इव) घोड़ों के समान (वाजय) [हमें] वेन वाता कर ॥ २ ॥

भावार्थ—जैसे विज्ञानी पुरुष विद्वानों को पाकर गृहस्थियों को गुणी बनाते आये हैं, और जैसे संग्राम वा घुड़दौड़ के लिये घोड़े शीघ्रगामी होते हैं,

२—(सम्) सम्यक् (गोभिः) वाग्भिः (आङ्गिरसः) अङ्गिरस्—अण् ।
अङ्गिरो विज्ञानं यस्यास्तीति स महाविद्वान् (नक्षमाणः) प्राप्नुवन् (भगः)
पेश्वर्यवान् (इव) यथा (इत्) एव (अर्यमणम्) अ० १। ११। १। अर्य +
माङ् माने—कनिन् । अर्याणां श्रेष्ठानां मानकर्तारम् (निनाय) आनीतवान्
(जने) मनुष्यसमूहे (मित्रः) सुहृत् (न) इव (दम्पती) जायापती
(अनक्ति) अञ्जू व्यक्त्यादिषु । शोभावमानौ करोति (बृहस्पते) हे बृहस्पति
वेदवाण्या रक्षक (वाजय) वेगयुक्तान् कुरु अस्मान् (आशून्) व्यापकान्
अश्वान् (इव) यथा (आजौ) अज्यतिभ्वां च । ३०४। १३१। अज गति-
श्लेषणयोः—इण् । सङ्ग्रामे—निघ० २। १७ ॥

जैसे ही मनुष्य विद्वानों के सत्संग से धर्म में शीघ्रकारी होंगे ॥ २ ॥

साध्वर्या अतिथिनीरिषिरा स्पार्हाः सुवर्णा अनवद्यरूपाः ।

बृहस्पतिः पर्वतेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊपे यवमिष स्थिविभ्यः ॥३

साधु-अर्याः । अतिथिनीः । इषिराः । स्पार्हाः । सु-वर्णाः ।

अनवद्य-रूपाः ॥ बृहस्पतिः । पर्वतेभ्यः । वि-तूर्यै । निः ।

गाः । ऊपे । यवम्-इष । स्थिवि-भ्यः ॥ ३ ॥

भावार्थ—(साध्वर्याः) साधुओं से पाने योग्य, (अतिथिनीः) अतिथियों को प्राप्त कराने वाली, (इषिराः) वेग वाली, (स्पार्हाः) चाहने योग्य (सुवर्णाः) सुन्दर रीति से स्त्रीकार योग्य, (अनवद्यरूपाः) अनिन्दित स्वभाव वाली (गाः) घाणियों को (बृहस्पतिः) बृहस्पति [बड़ी वेदवाणी के रक्षक महाविद्वान्] ने (वितूर्य) शीघ्रता करके (पर्वतेभ्यः) पर्वतों [के समान उड़-चित्तों] के लिये, (स्थिविभ्यः) कोठियों [के भरने] के लिये (यवम् इष) जैसे अन्न को, (निः ऊपे) फैलाया है ॥ ३ ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग उत्तम वेदवाणियों का प्रचार करके सब को ऐसा प्रसन्न करें, जैसे किसान लोग बीज बोकर अधिक अन्न प्राप्त करके आनन्दित होते हैं ॥ ३ ॥

आमुषायन् मधुन ऋतस्य योनिमवक्षिपन्नर्क उल्कामिव द्योः ।

बृहस्पतिरुद्धरन्नश्मने गा भूम्या उहनेव वि त्वचं विभेद ॥४

आ-मुषायन् । मधुना । ऋतस्य । योनिम् । अव-क्षिपन् ।

३—(साध्वर्याः) साधुभिः सज्जनैः प्राप्तव्याः (अतिथिनीः) अतिथि + णीम् प्रापणे —किप् । अतिथिनां प्रापयित्रीः । (इषिराः) वेगशीलाः (स्पार्हाः) तस्येदम् । पा० ४ । ३ । १२० । स्पृहा—अण् । स्पृहणीयाः । कमनीयाः (सुवर्णाः) सुष्ठु धरणीयाः (अनवद्यरूपाः) अनिन्दितस्वभावाः (बृहस्पतिः) (पर्वतेभ्यः) शैलतुल्यदृढस्वभावानां हिताय (वितूर्य) वि + तुर् त्वरणे—ह्यप् । क्विचिद्वेग कृत्वा (निः) निष्चयेन (ऊपे) डुबप बीजसन्ताने-लिट् । विस्तारितवान् (यवम्) अन्नम् (इष) यथा (स्थिविभ्यः) स्थवयः शूङ्गलाः, तान् भर्तुं पूरयितुम् ॥

अर्कः। उल्काम्-इव। द्योः॥ बृहस्पतिः। उद्धरन्। अश्मनः।
गाः। भूम्याः। उद्दना-इव। वि। त्वचम्। विभेद् ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(मधुना) ज्ञान के साथ (ऋतस्य) सत्य के (योनिम्) घर [वेद] को (आप्रुषायन्) सब प्रकार सींचते हुये और (द्योः) आकाश से (उल्काम् इव) उल्का [गिरते हुये चमकते तारे] के समान (अवक्षिपन्) फैलाते हुये और (उद्धरन्) ऊंचे धरते हुये, (अर्कः) पूजनीय (बृहस्पतिः) बृहस्पति [बड़ी वेदविद्या के रक्षक महाविद्वान्] ने (अश्मनः) व्यापक [परमात्मा] की (गाः) वाणियों को (वि विभेद्) फैलाया है, (उद्दना इव) जैसे जल से (भूम्याः) भूमि की (त्वचम्) त्वचा को [फैलाते हैं] ॥ ४ ॥

भावार्थ—महाविद्वान् पुरुष विचार के साथ वेदविद्या को बढ़ावे और आकाश से गिरते चमकते तारे के समान प्रकाशमान करे और उच्चभाव के साथ उसे विविध प्रकार फैलावे जैसे पृथिवी ङल से फैलकर उपकारी होती है ४
अपु ज्योतिषा तमो अन्तरिक्षाद्दुहनः शीपालमिव वातं आजत्।
बृहस्पतिरनुमृश्या वलस्याभ्रमिव वात आ चक्र आ गाः ॥५॥
अप । ज्योतिषा । तमः । अन्तरिक्षात् । उद्दनाः । शीपालम्-
इव । वातः । आजत् ॥ बृहस्पतिः । अनु-मृश्य । वलस्य ।
अभ्रस्-इव । वातः । आ । चक्रे । आ । गाः ॥ ५ ॥

४—(आप्रुषायन्) प्रुष स्नेहनसेवनपूरणेषु—शत्, विकरणस्य शायजा-
देशः। सर्वतः लिङ्चन् (मधुना) फलिपादिनमिमनिजनां० । उ० १ । १८ । मनं
धाते—उप्रत्ययः, नस्य धः । ज्ञानेन (ऋतस्य) सत्यस्य (योनिम्) गृहम् ।
वेदम् (अवक्षिपन्) विस्तारयन् (अर्कः) पूजनीयः (उल्काम्) रेखाकारे गग-
नात् पतत्तेजःपुञ्जम् (इव) यथा (द्योः) आकाशात् (बृहस्पतिः) (उद्धरन्)
ऊर्ध्वं स्थापयन् (अश्मनः) अशिशकिभ्यां छन्दसि । उ० ४ । १४७ । अशू
व्याप्तौ—मनिन् । व्यापकस्य परमेश्वरस्य (गाः) वाणीः (भूम्याः) पृथिव्याः
(उद्दना) उदकेन (इव) यथा (त्वचम्) उपरिदेशम् (वि विभेद्) विस्तार-
यामास ॥

भाषार्थ—[जैसे सूर्य] (ज्योतिषा) ज्योति के साथ (अन्तरिक्षात्) आकाश से (तमः) अन्धकार को, और (इव) जैसे (वातः) पवन (उद्गनः) जल पर से (शीपालम्) सेवार घास को, और (इव) जैसे (वातः) पवन (अन्नम्) बादल को, [वैसे ही] (बृहस्पतिः) बृहस्पति [बड़ा वेदविद्या के रक्षक महाविद्वान्] ने (अनुमृश्य) बार बार विचारकर (वलस्य) हिंसक असुर को (अप आजत्) निकाल दिया है, (आ) ओर (गाः) वेदवाणियों को (आ चक्रे) स्वीकार किया है ॥ ५ ॥

भाषार्थ—जैसे सूर्य अन्धकार का, और जैसे पवन सेवार, कमल आदि, और मेघ को हटा देना है, वैसे ही विद्वान् पुरुष दुराचारियों को हटाकर वेद को आज्ञा का पालन करे ॥ ५ ॥

यदा वलस्य पीयंतो जसुं भेद् बृहस्पतिरग्नितापोभिरुक्तेः ।
दृद्धिर्न जिह्वा परिविष्टमाददाविर्निधीरकृणोदुस्त्रियाणां ॥६॥

यदा । वलस्य । पीयंतः । जसुं । भेत् । बृहस्पतिः । अग्नि-
तापः-भिः । उक्तेः ॥ दृत्-भिः । न । जिह्वा । परि-विष्टम् ।
आदत् । आविः । नि-धीन् । अकृणोत् । उस्त्रियाणां ॥६॥

भाषार्थ—(यदा) जब (बृहस्पतिः) बृहस्पति [बड़ी वेदवाणी के रक्षक महाविद्वान्] ने (अग्नितापोभिः) अग्नि समान तेज वाले (उक्तेः)

५—(अप) दूरीकरणे (ज्योतिषा) प्रकाशेन सह (तमः) अन्धकारम् (अन्तरिक्षात्) आकाशात् सूर्यो यथा (उद्गनः) उदकात् (शीपालम्) शीङ्गे धुक्लक्वलञ्चालनः । उ० ४ । ३८ । शीङ् स्वप्ने — चालन् , स च कित, वस्य पः । शीपालम् । उदके लतारूपमुत्पन्नं तृणविशेषम् । जलनीलीम् (इव) यथा (वातः) पवनः (आजत्) अज गनिक्षेपणयोः—लङ् । अगमयत् (बृहस्पतिः) बृहत्या वेदवाण्या रक्षक (अनुमृश्य) निरन्तरं विचार्य (वलस्य) द्वितीतार्थे पठ्ठी । हिंसकं दैत्यम् (अन्नम्) मेघम् (इव) (वातः) (आ) समुच्चये (आ चक्रे) स्वीकृतवान् (गाः) वेदवाणीः ॥

६—(यदा) यस्मिन् काले (वलस्य) दुष्टस्य । दैत्यस्य (पीयतः) हिंसकस्य (तस्य) तस्य ताडने हिंसायां च—उप्रत्ययः । आयुधम् (भेत्) अमेत् ।

पूजनीय परिडतों के साथ (पीयतः) हिंसक (बलस्य) असुर के (जसुम्) हथियार को (मेत्) तोड़ डाला, (न) जैसे (दद्भिः) दातों से (परिविष्टम्) घेरे हुये [भांजन] को (जिह्वा) जीभ ने (आदत्) खाया हो, और (उस्त्रियाणाम्) निवास करन वाली [प्रजाओं] के (निधीन्) निधियों [सुवर्ण आदि के कोशों] को (आविः अकृणोत्) खोल दिया ॥ ६ ॥

भावार्थ—जैसे जीभ दातों से घेरे हुये अन्न को खाकर सब अन्नों को पुष्ट करती है, वैनेही विद्वान् पुरुष प्रतापी शूर युद्धपरिडतों के साथ दुष्टों को मारकर प्रजा के धनों को बढ़ाकर राज्य में उन्नति करे ॥ ६ ॥

बृहस्पतिरमत् हि त्यदासां नाम स्वरीणां सद्ने गुहा यत् ।
आरडेव भित्वा शकुनस्य गर्भमुदुस्त्रियाः पर्वतस्य त्मनाजत् ॥ ७ ॥

बृहस्पतिः । अमत् । हि । त्यत् । आसाम् । नाम । स्वरीणां ।
सद्ने । गुहा । यत् ॥ आरडा-इव । भित्वा । शकुनस्य ।
गर्भम् । उत् । उस्त्रियाः । पर्वतस्य । त्मना । आजत् ॥ ७ ॥

भावार्थ—(बृहस्पतिः) बृहस्पति [बड़ी वेदवाणी के रत्नक महा-विद्वान्] ने (हि) ही (आसाम्) इन (स्वरीणाम्) शब्द करती हुई [वेदवाणियों] के (त्यत्) उस (नाम) यश को (अमत्) जाना है, (यत्) जो (गुहा) हृदय के भीतर (सद्ने) घर में है । (इव) जैसे (आरडा) अण्डों को

अभिनत् (बृहस्पतिः) (अग्नितपाभिः) अग्निवत्तेजस्विभिः (अकैः) पूजनीयैः परिडतैः सह (दद्भिः) दन्तशब्दस्य दद्भावाः । दन्तः (न) यथा (जिह्वा) रसना (परिविष्टम्) विप्लु व्याप्तौ—क्त । वेष्टितम् । परिगृहीतं भांजनम् (आदत्) अद् भक्षणे—लङ् । अमन्त्रयन् (आविरकृणोत्) स्पष्टोक्तवान् (निधीन्) सुवर्णादि-कोशान् (उस्त्रियाणाम्) स्फायिनश्चिचवश्चिच० । उ० २ । १३ । वस निवासे—रक्, स्वार्थे अप्रत्ययः, टाप् । निवासशीलानां प्रजानाम् ॥

७—(बृहस्पतिः) बृहत्या वेदवाण्या रत्नकः (अमत्) मनु अवबोधने—लुङ् । आनवान् (हि) निश्चयेन (त्यत्) प्रसिद्धम् (आसाम्) प्रसिद्धानाम् (नाम) यशः । कोर्तिम् (स्वरीणाम्) अवितृस्तृनृत्रिभ्य ईः । उ० ३ । १५ । स्तृ शब्दोपतापयोः—ईप्रत्ययः । शब्दायमानानां वेदवाणीनाम् (सद्ने)

(भित्वा) तोड़कर (शकुनस्य) पक्षी के (गर्भम्) बच्चे को, [वैसे ही] उस [महाविद्वान्] ने (उन्नियाः)-निवास करने वाली [प्रजाओं] को (पर्वतस्य) पर्वत [समान दृढ़ स्वभाव वाले मनुष्य] के (त्मना) आत्मा से (उत् आजत्) उदय किया है ॥ ७ ॥

भाषार्थ—विद्वान् पुरुष अपने हृदय में प्राप्त वेदशाणियों के गुणों को जान-कर संसार में इस प्रकार प्रकट करे, जैसे अ-डों के पककर फूटने पर पक्षियों के बच्चे निकलते हैं ॥ ७ ॥

मन्त्र ७ और ८ का पाठ ऋग्वेद, निरु० १० । १२, तथा अथर्ववेद संहिता गवर्नमेन्ट बुकडिपो बम्बई, और प० सेवकलाल कृष्णदास बम्बई के पुस्तकों के अनुसार लिया है, वैदिक यन्त्रालय अजमेर के पुस्तक का पाठ विचारणीय है कि कदापि छपने में मन्त्र का अङ्क [७] चौथे पाद पर लगने के स्थान पर दूसरे पाद पर लग गया है, क्योंकि उस में मन्त्र ७ दो पाद का और मन्त्र ८ छह पाद का छपा है ॥

अशनापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मत्स्यं न द्वीन उदनि क्षियन्तस्।
निष्टज्जभार चमसं न वृक्षाद् बृहस्पतिर्विरुवेणा विकृत्य ॥८॥
अशना । अपि-नद्धम् । मधु । परि । अपश्यत् । मत्स्यम् ।
न । द्वीने । उदनि । क्षियन्तस् ॥ निः । तत् । जुभार । चम-
सम् । न । वृक्षात् । बृहस्पतिः । वि-रुवेणा । वि-कृत्य ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(बृहस्पतिः) बृहस्पति [बड़ी वेदवाणी के रक्षक महा-विद्वान्] ने (अशना) फैले हुये [अज्ञान] से (अपिनद्धम्) ढके हुये (मधु)

गृहे (गुहा) गुहायाम् । हृदये (यत्) (आण्डा) अण्डानि (भित्वा)
विदार्य (शकुनस्य) पक्षिणः (गर्भम्) बालकम् (उत्) ऊर्ध्वम् (उन्नियाः)
म० ६ । निवासशीलाः प्रजाः (पर्वतस्य) शैलतुल्यदृढस्वभावस्य पुरुषस्य
(त्मना) आत्मना (आजत्) म० ५ । अगमयत् ॥

८—(अशना) अश्मना । व्यापकेन अज्ञानेन (अपिनद्धम्) पिहितम्
(मधु) म० ४ । ज्ञानम् (परि) सर्वतः (अपश्यत्) अद्राक्षीत् (मत्स्यम्) जल-

ज्ञान को, (दीने) थोड़े (उदनि) जल में (क्षियन्तम्) रहती हुई (मत्स्यम् न) मछली के समान, (परि) सब ओर से (अपश्यत्) देखा, और (वृक्षात्) वृक्ष से (चमसम् न) अन्न के समान, (तत्) उस [ज्ञान] को (विरवेण) विशेष ध्वनि के साथ (विकृत्य) हल चल करके (निः प्रभार) बाहिर लाया ॥ ८ ॥

भाष्यार्थ—विद्वान् पुरुष जब संसार में अज्ञान के कारण से ज्ञान के फैलाव में ऐसी रोक देखे जैसे मछली थोड़े जल में नहीं चल फिर सकती है, वह पुरुष विशेष प्रयत्न कर के ज्ञान का विस्तार करे जैसे वृक्ष से अन्न अर्थात् फल लेकर उपकार करते हैं ॥ ८ ॥

मन्त्र ७ की टिप्पणी देखो ॥

उषामविन्दुत् स स्वः१ः सो अग्निं सो अर्केण वि बवाधे
तमांसि । बृहस्पतिर्गोवपुषो वृलस्य निर्मुज्जानं न पर्वणो
जभार ॥ ८ ॥

सः । उषाम् । अविन्दुत् । सः । स्व१रिति स्वः । सः ।
अग्निम् । सः । अर्केण । वि । बवाधे । तमांसि ॥ बृहस्पतिः ।
गो-वपुषः । वृलस्य । निः । मुज्जानम् । न । पर्वणः । जुभारः ॥ ८ ॥

भाष्यार्थ—(सः) उस (बृहस्पतिः) बृहस्पति [बड़ी वेदविद्या के रक्षक महाविद्वान्] ने (उषाम्) उषा [प्रभात वेला के समान प्रकाशवती बुद्धि] को, (सः) उस ने (स्वः) सुख को, (सः) उस ने

जन्तुविशेषम् (न) यथा (दीने) क्षीणे । अल्पे (उदनि) उदके (क्षियन्तम्) निवसन्तम् (निर्जभार) निर्जहार । बहिश्चकार (चमसम्) अन्नम् । फलम् (न) यथा (वृक्षात्) तरुसकाशत् (बृहस्पतिः) महाविद्वान् पुरुषः (विरवेण) विशेषध्वनिना (विकृत्य) विकारं गत्वा ॥

६—(सः) पूर्वोक्तः (उषाम्) उष दाहे—क, टाप् । (प्रभातवेलावत् प्रकाशवती बुद्धिम् (अविन्दुत्) विदूत् लाभे—लङ् । अलभत (सः) (स्वः) सुखम् (सः) (अग्निम्) अग्निवत्प्रतापम् (सः) (अर्केण) पूजनीयेन विचा-

(अग्निम्) अग्नि [समान तेज] को (अविन्दत्) पाया है, (नः) उस ने (अर्केण) पूजनीय विचार से (तमांसि) अन्धकारों को (वि बवाधे) हटा दिया है । उस ने (गोवपुषः) वज्र समान दृढ़ शरीर वाले (वलस्य) हिंसक असुर के (पर्वणः) जोड़ से (मज्जानम्) मींग को (न) अब (निः जभार) निकाल डाला है ॥ ६ ॥

भावार्थ—विद्वान् पुरुष उत्तम बुद्धि प्राप्त करके सुख के साथ तेजस्वी होकर अज्ञान का नाश कर दुष्टों को मिटावे ॥ ६ ॥

हिमेव पूर्णा मुषिता वनानि बृहस्पतिनाकृपयद् वृलो गाः ।
अननुकृत्यमपुनश्चकार यात् सूर्यामासां मिथ उच्चरातः ॥ १० ॥

हिमा-इव । पूर्णा । मुषिता । वनानि । बृहस्पतिना । अकृ-
पयत् । वलः । गाः ॥ अननु-कृत्यम् । अपुनरिति । चकार ।
यात् । सूर्यामासां । मिथः । उत्-चरातः ॥ १० ॥

भाषार्थ—(हिमा इव) जैसे हिम [महाशीत] से (मुषिता) उजाड़े गये (पूर्णा) पत्तों को (वनानि) वृक्ष, [वैसेही] (बृहस्पतिना) बृहस्पति [महाविद्वान्] के कारण से (वलः) हिंसक दुष्ट ने (गाः) वेदवाणियों को (अकृपयत्) माना । (अननुकृत्यम्) दूसरों से न करने योग्य, (अपुनः)

रेण (वि) विशेषेण (बवाधे) बाधितवान् । निराचकार (तमांसि) अन्ध-
कारान् (बृहस्पतिः) बृहत्या वेदवाण्याः रत्नकः (गोवपुषः) गौर्वज्रः । वज्रतुल्य-
दृढशरीरस्य (निः) वहिर्भावे (मज्जानम्) अ० १ । ११ । ४ । अस्थिसारम्
(न) संप्रति (पर्वणः) सन्धिप्रदेशात् (जभार) जहार । निनाय ॥

१०—(हिमा) हिमेन । महाशीतेन (इव) यथा (पूर्णा) पूर्णानि ।
वृक्षपत्राणि (मुषिता) मुषितानि । नाशितानि (वनानि) वृक्षाः (बृहस्पतिना)
महाविदुषः पुरुषस्य कारणेन (अकृपयत्) कृप चिन्तने—लङ् । अचिन्त-
यत् । कल्पितवान् (वलः) हिंसको दुष्टः (गाः) वेदवाणीः (अननुकृत्यम्)
सांहितिको दीर्घः । अननुकरणीयम् । अन्यैः कर्तुम् अशक्यम् (अपुनः) प्रात-
तेररन् । उ० ५ । ५६ । पन स्तुतौ—अरन्, अस्य उत्त्वम् । नास्ति पुनः स्तुत्यं

सब से बढ़कर कर्म (चकार) उस [महाविद्वान्] ने किया है, (यात्) जैसे (सूर्यामाना) सूर्य और चन्द्रमा (मिथः) आपस में (उच्चरानः) उत्तमता से चलते हैं ॥ १० ॥

भावार्थ—जैसे जाड़े के मारे वृक्ष सूख जाते हैं, वैसे ही विद्वान् पुरुष वेदवाणी के प्रभाव से दुष्टों को मार कर अनुपम कर्म करता हुआ सूर्य और चन्द्रमा के समान सन्मार्ग पर चलता रहे ॥ १० ॥

अभि श्यावं न कृशनेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो द्यामपिंशन् ।
रात्र्यां तमो अदधुज्योतिरहन् बृहस्पतिभिर्नदद्रि विदद् गाः११

अभि । श्यावस् । न । कृशनेभिः । अश्वम् । नक्षत्रेभिः ।
पितरः । द्याम् । शृपिंशुन् ॥ रात्र्याम् । तमः । अदधुः ।
ज्योतिः ॥ अहन् । बृहस्पतिः । भिनत् । अद्रिम् । विदत् । गाः ॥ ११ ॥

भाषार्थ—(कृशनेभिः) सुवर्णों से (न) जैसे (श्यावम्) शीघ्रगामी (अश्वम्) घोड़े को, [वैसे ही] (पितरः) पालने वाले [ईश्वर नियमों] ने (नक्षत्रेभिः) तारों से (द्याम्) आकाश को (अभि) सब ओर से (अपिंशन्) सजाया है । और (रात्र्याम्) रात्रि में (तमः) अन्धकार को और (अहन्) दिन में (ज्योतिः) प्रकाश को (अदधुः) रक्खा है, [उसी प्रकार] बृहस्पतिः)

यस्मात् तत् । अत्यन्तस्तुत्यं कर्म (चकार) कृतवान् (यात्) छान्दसो दीर्घः ।
यत् । यथा (सूर्यामासा) माङ् माने असुन् । मस्यते परिमीयते स्वकलावृद्धि-
हानिभ्यामिति माश्चन्द्रमाः । सूर्याचन्द्रमसौ (मिथः) परस्परम् (उच्चरानः)
उत्तमतया चरतः, गच्छतः ॥

११—(अभि) सर्वतः (श्यावम्) अ० ५ । ५ । ८ । श्यैङ् गतौ-वप्रत्ययः ।
शीघ्रगामिनम् (न) यथा (कृशनेभिः) कृपवृजिमन्दिनिधाजः क्युः । ३० २ ।
८ १ । कृश तनूकरणे—क्यु । कृशनैः सुवर्णालङ्कारैः—निघ० १ । २ (अश्वम्)
तुरङ्गम् (नक्षत्रेभिः) तारागणैः (पितरः) पालकाः परमेश्वरनियमाः (द्याम्)
आकाशम् (अपिंशन्) पिश अचयवे दीपनायां च—लङ् । अदीपयन् । अलम-
दुर्वन् (रात्र्याम्) निशि (तमः) अन्धकारम् (अदधुः) धारितवन्तः (ज्योतिः)

बृहस्पति [बड़ी वेदवाणी के रक्षक महाविद्वान्] ने (अद्रिप्) पहाड़ [के समान भारी अज्ञान] को (भिनत्) तोड़ डाला और (गाः) वेद वाणियों को (विदत्) प्राप्त कराया है ॥ ११ ॥

भाष्यार्थ—जैसे नक्षत्र, दिन, रात्रि आदि ईश्वर के अटल नियमों पर चलते हैं, विद्वान् जन दृढ चित्त से अज्ञान मिटा कर अचल वेदवाणी को फैलावे ॥ ११ ॥

इदमकर्म नमो अभियाय यः पूर्वीरन्वानोनवीति । बृहस्पतिः
स हि गोभिः सा अश्वैः स वीरेभिः स नृभिर्नो वयो धात् ॥१२

इदम् । अकर्म । नमः । अभियाय । यः । पूर्वीः । अनु ।
आ-नोनवीति ॥ बृहस्पतिः । सः । हि । गोभिः । सः ।
अश्वैः । सः । वीरेभिः । सः । नृ-भिः । नुः । वयः । धात् ॥१२

भाष्यार्थ—(इदम्) यह (नमः) नमस्कार (अभियाय) गति में रहने वाले [पुरुषार्थी मनुष्य] को (अकर्म) हम ने किया है, (यः) जो [विद्वान्] (पूर्वीः) पहिली [वेदवाणियों] को (अनु) लगातार (आनोनवीति) सब ओर सराहता रहता है । (सः हि) वही (बृहस्पतिः) बृहस्पति [बड़ी वेद-विद्या का रक्षक महाविद्वान्] (गोभिः) गौश्रों के साथ, (सः) वही (अश्वैः)

प्रकाशम् (अहन्) अह्नि । दिने (बृहस्पतिः) महाविद्वान् पुरुषः (भिनत्) अभिनत् । विदारितवान् (अद्रिम्) शैलतुल्यदृढाज्ञानम् (विदत्) विद्वल्लभाभे—लुङ् । अन्तर्गतयथः । अविदत् । प्रापितवान् (गाः) वेदवाणीः ॥

१२—(इदम्) (अकर्म) अकार्षम् । वय क्वनवन्तः (अभियाय) नन्दि-ग्रहपचादिव्यो ल्युणिन्यचः । पा० ३ । १ । १३ । अन्न गतौ—पचाद्यच् । अन्नं मेघः—निघ० १ । १० । समुद्राम्नाद् घः । पा० ४ । ४ । ११ ८ । अन्न—घप्रत्ययो भवार्थे । अन्ने गतौ भवाय वर्तमानाय । पुरुषार्थिने (यः) विद्वान् (पूर्वीः) आद्या वेदवाणीः (अनु) निरन्तरम् (आनोनवीति) एतु स्तुतौ यङ्लुकि । समन्ताद् अत्यर्थं नौति स्तौति (बृहस्पतिः) बृहत्या वेदवाण्या रक्षको महा-विद्वान् (सः) (हि) एव (गोभिः) धेनुभिः (सः) (अश्वैः) तुरङ्गैः (सः)

घोड़ों के साथ, (सः) वही (वीरेभिः) वीरों के साथ, (सः) वही (नृभिः) नेता लोगों के साथ (नः) हमें (वयः) अन्न (घात्) देवे ॥ १२ ॥

भावार्थ—सब लोग उस महाविद्वान् का सदा सत्कार करें जो सदा वेदवाणियों का गुण गाकर मनुष्यों को सम्पत्तियों, वीरों और पराक्रमियों से युक्त करके पुष्कल अन्न प्राप्त करावें ॥ १२ ॥

सूक्तम् १७ ॥

१—१२ ॥ १—११ इन्द्रः ; १२ इन्द्रावृहस्पती देवते ॥ १, ६ निचृज्जगती; २, ११ त्रिष्टुप्; ३, ६ जगती, ४ विराड् जगती; ५, ७, ८ विराडापीं जगती; १०, १२ निचृत् त्रिष्टुप् ॥

राजप्रजाकर्तव्योपदेशः—राजा और प्रजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

अच्छा म इन्द्रं मतयः स्वर्विदः सुध्रीचीर्विश्वा उशुतीरनुषत।
परि ष्वजन्ते जनयो यथा पति मर्यं न शुन्ध्युं सुघवानमृतये १
अच्छं । मे । इन्द्रम् । मतयः । स्वः-विदः । सुध्रीचीः ।
विश्वाः । उशुतीः । अनुषत ॥ परि । स्वजन्ते । जनयः ।
यथा । पतिम् । मर्यम् । न । शुन्ध्युम् । सुघ-वानम् । ऊतये १

भावार्थ—(स्वर्विदः) सुख पहुँचाने वालों, (सध्रांचीः) आपस में मिली हुयी, (उशुतीः) कामना करनी हुयी, (विश्वाः) सब (मे) मेरी (मतयः) बुद्धियों ने (इन्द्रम्) इन्द्र [महाप्रतापी राजा] को (अच्छं) अच्छे प्रकार से (अनुषत) सराहा है और (ऊतये) रक्षा के लिये [ऐसं, उसे]

(वीरेभिः) वीरैः (सः) (नृभिः) नेतृभिः (नः) अस्मभ्यम् (वयः) वि गतिव्या-
प्तिप्रजनकान्त्यसनलादनेषु, यद्वा वय गतौ असुन् । अन्नम्—निघ० २ । ७
(घात्) दध्यात् ॥

१—(अच्छं) सुष्ठु (मे) मम (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं राजानम्
(मतयः) बुद्धयः (स्वर्विदः) सुखस्य लम्भयिष्यः (सध्रीचीः) अञ्चु गति-
पूजनयोः—किन्, डीप् । सहाञ्चनाः । परस्परं संगताः (विश्वाः) सर्वाः
(उशुतीः) कामयमानाः (अनुषत) शु स्तुती—लुङ् । आत्मनेपदत्वम् उकरस्य
दीर्घत्वं च छान्दसम् । अस्तुवन् (परि) सर्वतः (स्वजन्ते) आलिङ्गन्ति । वैष्टन्ते

(परि प्वजन्ते) सब और घेरती है, (यथा) जैसे (जनयः) पत्नियां (पतिम्) [अपने अपने] पति को, और (न) जैसे (शुन्ध्युम्) शुद्ध आचार वाले, (मघवानम्) महाधनी (मर्यम्) मनुष्य को [लोग घेरते हैं] ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि धर्मात्मा पराक्रमी मनुष्य का आश्रय लेकर रक्षा करें, जैसे स्त्रियां अपने पतियों का, और सब लोग सदाचारी कमाऊ जन का आश्रय लेते हैं ॥ १ ॥

मन्त्र १—११ ऋग्वेद में है—१०।४३।१—११ ॥

न घा त्वद्रिगप वेति मे मनुस्त्वे इत् कामं पुरुहूत शिश्रय ।
राजैव दस्म नि षुदोऽधि बर्हिष्यस्मिन्तसु सोमैऽवपानमस्तु ते २
न । घ । त्वद्रिक् । अप । वेति । मे । मनः । त्वे इति । इत् ।
कामम् । पुरु-हूत् । शिश्रय ॥ राजा-इव । दस्म । नि ।
सुदुः । अधि । बर्हिषि । अस्मिन् । सु । सोमैः । अव-पानम् ।
अस्तु । ते ॥ २ ॥

भाषार्थ—(पुरुहूत) है बहुत प्रकार से बुलाये गये । (त्वद्रिक्) तेरी ओर गया हुआ (मे) मेरा (मनः) मन (न घ) न कभी (अप वेति) भटकता है, (त्वे) तुझमें (इत्) ही (कामम्) [अपनी] आशा को (शिश्रय) मैंने उहाराया है । (दस्म) हे दर्शनीय ! (राजा इव) राजा के समान (बर्हिषि)

(जनयः) पत्नयः (यथा) (पतिम्) स्वस्वभर्तारम् (मर्यम्) मनुष्यम् (न) यथा (शुन्ध्युम्) अ० १३ । २ । २४ । शुन्ध विशुद्धौ—युच् । शुद्धाचारवन्तम् (मघवानम्) महाधनिनम् (ऊतये) रक्षणाय ॥

२—(न घ) न कदापि (त्वद्रिक्) युष्मद् + अञ्चु गतिपूजनयोः—किन् । विष्वग्देवयोश्च टेरद्रथञ्चतावप्रत्यये । पा० ६ । ३ । ६२ । इति सर्वनास्रःटेः अद्रि इत्यादेशः । अचः । पा० ६ । ४ । १३८ । लुप्तनकारस्याञ्चतेर्भस्य अकारस्य लोपः । त्वां गच्छन् (अप वेति) अपगच्छति (मे) मम (मनः) चित्तम् (त्वे) शे इत्यादेशः । त्वयि (इत्) एव (कामम्) आशाम् (पुरुहूत) हे बहुविधाहूत (शिश्रय) श्रिम् सेवायाम्—निद् । अहमाधि स्वान् स्थापितवानस्मि (राजा) (इव)

उत्तम आसन पर (अधि) अधिकार पूर्वक (नि षदः) तू बैठ, और (अस्मिन्) इस (सोमे) ऐश्वर्य में (ते) तेरा (अवपानम्) निश्चित रक्षा कर्म (सु) सुन्दर रीति से (अस्तु) होवे ॥ २ ॥

भाषार्थ—प्रजागण पूर्ण राजभक्ति से उचित उपहार देकर धर्मात्मा राजा को प्रसन्न रखे ॥ २ ॥

विषुवृदिन्द्रो अमतेरुत क्षुधः स इद्रायो मघवा वस्व ईशते ।
तस्येदिमे प्रवणेसप्त सिन्धवो वयो वर्धन्ति वृषभस्य शुष्मिणः ३
विषु-वृत् । इन्द्रः । अमतेः । उत । क्षुधः । सः । इत् । रायः ।
मघ-वा । वस्वः । ईशते ॥ तस्य । इत् । इमे । प्रवणे । सप्त ।
सिन्धवः । वयोः । वर्धन्ति । वृषभस्य । शुष्मिणः ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(इन्द्रः) इन्द्र [महाप्रनापी राजा] (अमतेः) कंगाल का (उत) और (क्षुधः) भूख का (विषुवृत्) सर्वथा हटाने वाला है, (सः इत्) वही (मघवा) महाधनी (रायः) धनका और (वस्वः) वस्तु का (ईशते-) स्वामी है । (तस्य इत्) उसी हा (वृषभस्य) श्रेष्ठ (शुष्मिणः) महावली के (प्रवणे) सेवनीय लवे राज्य में (इमे) यह (सप्त सिन्धवः) बहते हुये सात

(दस्म) इषियुधीन्धिदसि ० । उ० ४ । १४५ । दसु उपक्षये, यद्वा, दस दसि दर्शनसन्दशनयोः—मक् । हे दर्शनीय (नि षदः) लेटि रूपम् । निपीद (अधि) अधिकारपूर्वकम् (बर्हिषि) उत्तमासने (अस्मिन्) (सु । सुष्टु (सोमे) ऐश्वर्य (अवपानम्) निश्चितरक्षणम् (अस्तु) (ते) तव ॥

३—(विषुवृत्) विषु + वृत्तु वर्तने—क्लिप् । सर्वथा निवर्तयिता (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् (अमतेः) अमेरतिः । उ० ४ । ५६ । अम पीडने—अति । दारिद्र्यस्य (क्षुधः) बुभुक्षायाः (सः) (इत्) एव (रायः) धनस्य (मघवा) महाधनी (वस्वः) वस्तुनः । वस्तुनः (ईशते) छान्दस. शप् । ईष्टे । ईश्वरो भवति (तस्य) (इत्) (इमे) प्रत्यक्षाः (प्रवणे) वन समकौ—अच् । सेवनीये । आयते दीर्घे राज्ये (सप्त) सप्तसंख्याकानि शीर्षण्यानि चिह्नद्राणि । कर्णा-विमौनासिके चजणी मुसम्—अथर्व० १० । २ । ६ (सिन्धवः) स्यन्द्रमानानि

समुद्ररूपद्वेद [हमारे दो कान दो नथने, दो आँखें और एक मुख अथर्व० १० । २ । ६] (वयः) अन्न को (वर्धन्ति) बढ़ाते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ—धार्मिक प्रतापी, धनी राजा की सुनीति से प्रजागण जितेन्द्रिय होकर विद्यावृद्धि करके धनवान् और अन्नवान् होंगे ॥ ३ ॥

वये। न वृक्षं सुपलाशमासुदन्त्सोमासु इन्द्रं मन्दिनश्चमूषदः ।

प्रैषामनीकं शवसा दविद्युतद् विदत् स्वः मनवे ज्योतिरार्यम् ॥४

वयः । न । वृक्षम् । सु-पलाशम् । आ । असदन् । सोमासः ।

इन्द्रम् । मन्दिनः । चमू-षदः ॥ प्र । एषाम् । अनीकम् ।

शवसा । दविद्युतत् । विदत् । स्वः । मनवे । ज्योतिः ।

आर्यम् ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(वयः न) जैसे पक्षी गण (सुपलाशम्) सुन्दर पत्तों वाले (वृक्षम्) वृक्ष को, [वैसे ही] (मन्दिनः) आनन्द देने वाले, (चमूषदः) सेनाओं में ठहरने वाले (सोमानः) ऐश्वर्यवान् पुरुष (इन्द्रम्) इन्द्र [महा-प्रतापी सेनापति] को (आ असदन्) आकर प्राप्त हुये हैं । (शवसा) बल के साथ (एषाम्) इन [ऐश्वर्यवानों] के (दविद्युतत्) अत्यन्त चमकते हुये (अनीकम्) सेनादल ने (मनवे) मनुष्य के लिये (आर्यम्) उत्तम (स्वः)

समुद्ररूपाणि चिद्राणि (वयः) अन्नम् (वर्धन्ति) वर्धयन्ति (वृषभस्य) श्रेष्ठस्य (शुष्मणः) महाबलवतः ॥

४—(वयः) पक्षिणः (न) यथा (वृक्षम्) (सुपलाशम्) सुपल्ववितम् (आ) आगत्य (असदन्) प्राप्नुवन् (सोमासः) ऐश्वर्यवन्तः पुरुषाः (इन्द्रम्) महाप्रतापिनं राजानम् (मन्दिनः) प्रजोरिनिः । पा० ३ । २ । १५६ । मदि स्तुति-मोदमदस्वप्नकान्तिपु—इति प्रत्ययो बाहुलकात् । आनन्दयितारः (चमूषदः) चमूषु सेनासु सीदन्ति तिष्ठन्ति ये ते (प्र) प्रकर्षेण (एषाम्) ऐश्वर्यवताम् (अनीकम्) अन्न प्राणने—ईकन् । सैन्यम् (शवसा) बलेन (दविद्युतत्) दाध-र्तिवर्धति० । पा० ७ । ४ । ६५ । द्युत दीप्तौ—यद्भुक्ति शतरि रूपसिद्धिः । भृशं वीर्यमानम् (विदत्) अविदत् । अलभन (स्वः) सुखम् (मनवे) मनुष्याय

सुख और (ज्योतिः) तेज को (प्र) अच्छे प्रकार (विदत्) पाया है ॥ ४ ॥

भाष्यार्थ—जैसे सुन्दर फल पुष्प और छाया वाले वृक्ष पर पक्षी आकर रहते हैं, वैसे ही तीक्ष्ण हथियार वाले धीरवीर लोग महाप्रतापी राजा का आश्रय लेकर प्रजा को सुख देते और प्रकाश का मार्ग खोलते हैं ॥ ४ ॥

कृतं न श्वघ्नी वि चिनोति देवने संवर्गं यन्मघवा सूर्यं
जयत् । न तत् ते अन्यो अनु वीर्यं शक्नु पुराणो मघवन् नीत
नूतनः ॥ ५ ॥

कृतम् । न । श्व-घ्नी । वि । चिनोति । देवने । सु-वर्गम् ।
यत् । मघ-वा । सूर्यम् । जयत् ॥ न । तत् । ते । अन्यः ।
अनु । वीर्यम् । शक्नु । न । पुराणः । मघ-वन् । न । उत ।
नूतनः ॥ ५ ॥

भाष्यार्थ—(न) जैसे (श्वघ्नी) धन नाश करने वाला जुआरी (कृतम्) जीते धनको (देवने) जुये में (वि चिनोति) बटोर लेता है, [वैसे ही] (यत्) जब (मघवा) महाधनी [राजा] (सूर्यम्सूर्यस्य) प्रेरणा करने वाले [प्रधान] के (संवर्गम्) रोकने वाले [शत्रु] को (जयत्) जीतता है, (तत्) तब (मघवन्) हे महाधनी ! [राजन्] (अन्यः) कोई दूसरा (ते) तेरे (वीर्यम्) वीरपन को (न) नहीं (अनु शक्नु) पा सकता है, (न) न

(ज्योतिः) तेजः (आर्यम्) श्रेष्ठम् ॥

५—(कृतम्) द्यूते प्राप्तं धनम् (न) यथा (श्वघ्नी) स्व + हनं हिंसा-
गत्योः—घञर्थे कप्रत्ययः । अत इनिठनौ । पा० ५ । २ । ११५ । इनिप्रत्ययः,
लकारस्य शः । श्वघ्नी कितवो भवति स्व पुनराश्रितं भवति—निरु० ५ । २२ ।
स्वस्य धनस्य नाशकः । कितवः । द्यूतकारकः (वि चिनोति) विविधं संगृह्णाति
(देवने) द्यूते (संवर्गम्) वृजि वर्जने—घञ्, कृत्वम् । संवर्जयितारम् (यत्)
यदा (मघवा) महाधनी (सूर्यम्) पण्ड्यर्थे द्वितीया । सूर्यस्य । प्रेरकप्रधानस्य
(जयत्) जयति (न) निषेधे (तत्) तदा (ते) तब (अन्यः) इतरः (वीर्यम्)
वीरत्वम् (अनु शक्नु) अनुकर्त्तुं शक्नोति (न) निषेधे (पुराणः) प्राचीनः

तौ (पुराणः) कोई प्राचीन (उत) और (न) न (नूतन,) कोई नवीन जन ॥५॥

भावार्थ—वीर गजा अनुपम पराक्रम के साथ संग्राम में शत्रुओं को काँ जीत कर प्रजा का पलन करे ॥ ५ ॥

विंशंविंशं मघवा पर्यशायत् जनानां धेना अवचाकशत् वृषा ।

यस्याहं शक्रः सवनेषु रण्यति स तीव्रैः सोमैः सहते पृतन्यतः ॥६॥

विंशंस्-विंशम् । मघ-वा । परि । अशायत् । जनानास् ।

धेनाः । अव-चाकशत् । वृषा ॥ यस्य । अहं । शक्रः । सव-

नेषु । रण्यति । सः । तीव्रैः । सोमैः । सहते । पृतन्यतः ॥६॥

भावार्थ—(मघवा) महाधनी, (वृषा) बलवान् [सेनापति] (जनानाम्) मनुष्यों की (धेनाः) वाणियों को (अवचाकशत्) ध्यान से देखता हुआ (विंशंविंशम्) मनुष्य मनुष्य को (परि अशायत) पहुँचा है । (शक्रः) शक्तिमान् [सेनापति] (यस्य अहं) जिसके ही (सवनेषु) यज्ञों के बीच (रण्यति) पहुँचता है, (सः) वह [मनुष्य] (तीव्रैः) पौष्टिक (सोमैः) सोमों [ऐश्वर्यों] वा महौषधियों के रसों] से (पृतन्यतः) सेना चढाने वाले [शत्रुओं] को (सहते) हराता है ॥ ६ ॥

भावार्थ—चतुर सेनापति समस्त प्रजा की पुकार सुनकर ऐसे ऐसे उत्तम उपाय करे जिससे प्रजागण ऐश्वर्यवान् और बलवान् होकर शत्रुओं को जीते ६

(मघवन्) हे महाधनिन् (न) निषेधे (उत) अपि च (नूतनः) आधुनिकः ॥

६—(विंशंविंशम्) मनुष्यं मनुष्यम् (मघवा) महाधनी सेनापतिः (परि अशायत) शीघ्रं शयने णिचि—लङ् । प्राप्तवान् (जनानाम्) मनुष्याणाम् (धेनाः) वाणीः—निघ० १ । ११ (अवचाकशत्) अ० ६ । ८० । १ । अव + वाशु दीप्तौ यङ्लुकि ऋत् । भृशं पश्यन्—निघ० ३ । ११ । (वृषा) महाबली (यस्य) पुरुषस्य (अहं) एव (शक्रः) शक्तिमान् (सवनेषु) यज्ञेषु (रण्यति) रण्य गतौ शब्दे च दिवादिः । गच्छति । प्राप्नोति (सः) मनुष्यः (तीव्रैः) तीव्रैश्चैत्यै—रक् । रथुलैः । पौरुषैः (सोमैः) ऐश्वर्यैः । सदैषधिरसैः (सहते) अभिमघति (पृतन्यतः) पृतनां सेनामात्मन इच्छतः शत्रून् ॥

आपो न सिन्धुमभि यत् समक्षरुन्त्सोमासु इन्द्रं कुल्या इव
हुदम् । वर्धन्ति विप्रा महो अस्य सदाने यवं न वृष्टिर्दिव्येन
दानुना ॥ ७ ॥

आपः । न । सिन्धुम् । अभि । यत् । सुम्-अक्षरन् । सोमास ।
इन्द्रम् । कुल्याः-इव । हुदम् ॥ वर्धन्ति । विप्राः । महः ।
अस्य । सदाने । यवम् । न । वृष्टिः । दिव्येन । दानुना ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(न) जैसे (आपः) नदियां (सिन्धुम् अभि) समुद्र का
और (इव) जैसे (कुल्याः) नाले (हुदम्) भील को [मिल कर बह जाते
हैं], वैसे ही (यत्) जब (सोमासः) सोम [पेश्वर्य] (इन्द्रम्) इन्द्र
[महाप्रतापी पुरुष] को (समक्षरन्) मिल कर बह आये हैं, [तब] (विप्राः)
बुद्धिमान् लोग (अस्य) इस [शूर] की (महः) बड़ाई को (सदाने) समाज
के बीच (वर्धन्ति) बढ़ाते हैं, (न) जैसे (यवम्) अन्न को (वृष्टिः) बरसा
(दिव्येन) दिव्य आकाश से आये (दानुना) जलदान से [बढ़ाती है] ॥ ७ ॥

भाषार्थ—जो महाप्रतापी राजा सब प्रकार से पेश्वर्यवान् हो, विद्वान्
लोग उसके गुणों की प्रशंसा कर के उन्नति करें ॥ ७ ॥

वृषा न क्रुद्धः पतयद् रजःस्वा यो अर्यपत्नीरकृणोदिमां अपः ।
स सुन्वते मुघवा जीरदानवेऽविन्दुज्ज्योतिर्मनवे हुविष्मते ॥
वृषा । न । क्रुद्धः । पतयत् । रजः-सु । आ । यः । अर्य-पत्नीः ।

७ (आपः) जलवत्यो नद्यः (न) यथा (सिन्धुम्) समुद्रम् (अभि)
प्रति (यत्) यदा (समक्षरन्) मिलित्वा बहन्ति स्म (सोमासः) पेश्वर्याणि
(इन्द्रम्) महाप्रतापिनं पुरुषम् (कुल्याः) अल्पाः सरितः (इव) (हुदम्)
जलाशयम् (वर्धति) वर्धयन्ति (विप्राः) मेधाविनः (महः) मह पूजायाम्—
अस्य । महत्त्वम् (अस्य) शूरस्य (सदाने) समाजे (यवम्) अन्नम् (न)
यथा (वृष्टिः) जलवर्षणम् (दिव्येन) दिवि आकाशे भवेन (दानुना)
दाभाभ्यां तु । उ० ३ । ३२ । ददातेः—तु । जलदानेन ॥

अकृणोत् । इमाः । अपः ॥ सः । सुन्वते । मघवा । जीर-
दानवे । अविन्दत् । ज्योतिः । मनवे । हविष्मते ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(क्रुद्धः) क्रुद्ध (वृषा न) बैल के समान, (यः) जो [सेनापति] (रजःसु) देशों में (आ पतयत्) ऋपट पड़ता है, और [जिस ने] (इमाः) इन (अपः) प्रजाओं को (अर्यपत्नीः) स्वामी से रक्षित (अकृणोत्) किया है । (सः) उस (मघवा) महाधनी [सेनापति] ने (सुन्वते) तत्त्व निचेाडने वाले, (जीरदानवे) शीघ्रदानी और (हविष्मते) ग्राह्य पदार्थों वाले, (मनवे) मन्मथील पुरुष के लिये (ज्योतिः) प्रकाश को (अविन्दत्) पाया है ॥ ८ ॥

भाषार्थ—पराक्रमी सेनापति शत्रुओं को यथावत् दण्ड देकर प्रजा की रक्षा करे और राजभक्तों को यथोचित ऊंचा करके प्रतापी बनावे ॥ ८ ॥
उज्जायतां परशुज्योतिषा सह भुया ऋतस्य सुदुघा पुराणवत् ।
वि रोचतामरुषो भानुना शुचिः स्वर्णं शुक्रं शुशुचीत्
सत्पतिः ॥ ९ ॥

उत् । जायताम् । परशुः । ज्योतिषा । सह । भुयाः । ऋतस्य ।
सु-दुघा । पुराण-वत् ॥ वि । रोचताम् । अरुषः । भानुना ।
शुचिः । स्वर्णः । न । शुक्रम् । शुशुचीत् । सत्-पतिः ॥ ९ ॥

भाषार्थ—(परशुः) फरसा [कुलहाडा] (ज्योतिषा सह) प्रकाश के

८—(वृषा) बलीवर्दः (न) यथा (क्रुद्धः) कुपितः (पतयत्) पत-
यति पतति शीघ्रं धावति (रजःसु) देशेषु (आ) समन्तात् (यः) सेनापतिः
(अर्यपत्नीः) अर्येण स्वामिना पालिताः (अकृणोत्) अकरोत् (इमा)
दृश्यमानाः (अपः) प्राप्ताः प्रजाः (सः) (सुन्वते) तत्त्वस्य निष्पादयित्रे
(मघवा) महाधनी (जीरदानवे) अ० ७ । १८ । १ । शीघ्रदानिने (अविन्दत्)
अलभत (ज्योतिः) प्रकाशम् (मनवे) मननवते पुरुषाय (हविष्मते) ग्राह्य
पदार्थयुक्ताय ॥

९—(उत्) ऊर्ध्वम् (जायताम्) प्रादुर्भवतु (परशुः) कुठारः । वज्रः

साथ (उत् जायताम्) ऊंचा होवे, (ऋतस्य) सत्य की (सुदुघा) अच्छे प्रकार पूर्ण करने हारी [वेदवाणी] (पुराणवत्) पहिले के समान (भूयाः) वर्तमान होवे । (अरुषः) गतिमान्, (शुचिः) शुद्धाचारी, (सत्पतिः-) सत्पुरुषों का रक्षक पुरुष (भानुना) अपने प्रताश से (वि) विविध प्रकार (रोचताम्) प्रिय होवे, और (शुक्रम्) निर्मल (स्वः न) सूर्य के समान (शुशुचीत) चमकता रहे ॥ ६ ॥

भावार्थ—जब शूर सेनापति अपने उज्ज्वल तीक्ष्ण हथियारों से शत्रुओं को मारकर सत्य की स्थापना करना है, तब वह अपने उपकारों से सूर्य समान प्रतापी होकर सब को प्रिय लगता है ॥ ६ ॥

गोभिष्टुरेमासतिं दुरेवां यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम् ।

वयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥ १० ॥

गोभिः । तुरेम् । अमतिम् । दुः-एवाम् । यवेन । क्षुधम् ।

पुरु-हूत । विश्वाम् ॥ वयम् । राज-भिः । प्रथमाः । धनानि ।

अस्माकेन । वृजनेन । जयेम् ॥ १० ॥

भाषार्थ—(पुरुहूत) हे बहुतों से बुलाये गये ! [राजन्] (गोभिः) विद्याओं से (दुरेवाम्) दुर्गति वाली (अमतिम्) कुमति [वा कङ्काली] को और (यवेन) अन्न से (विश्वाम्) सब (क्षुधम्) भूख को (तरेम) हम हटावें । (वयम्) हम (राजभिः) राजाओं के साथ (प्रथमाः) प्रथम श्रेणी

(ज्योतिषा) प्रकाशेन (सह) (भूयाः) प्रथमस्य मध्यमपुरुषः । भूयात् (ऋतस्य) सत्यस्य (सुदुघा) दुह प्रपूरणे-कप्, टाप्, हस्य घः । सुष्टु पूरयित्री वेदवाणी (पुराणवत्) पूर्वं यथा (वि) विविधम् (रोचताम्) रोचकः प्रियो भवतु (अरुषः) अ० ३ । ३ । २ । पूनहिकलिस्य उषच् । उ० ४ । ७५ । ऋ गति-प्रापणयोः—उपच् । गतिशीलः (भानुना) स्वप्रकाशेन (शुचिः) शुद्धाचारी (स्वः) आदित्यः (न) यथा (शुक्रम्) शुक्लम् । निर्मलम् (शुशुचीत) शुच शोके—लिङि शपः श्लु । दीप्यताम् (सत्पतिः) सत्पुरुषाणां पालकः ॥

१०—अय मन्त्रो भेदेन गतः—अ० ७ । ५० । ७ (गोभि) विद्याभिः (तरेम) अभिमवेम (अमतिम्) म० ३ । दुर्बुद्धिम् । दारिद्र्यम् (यवेन) अन्नेन (क्षुधम्) बुभुक्षाम् (पुरुहूत) हे बहुभिराहूत (विश्वाम्) सर्वाम् (वयम्) (राजभिः)

वाले होकर (धनानि) अनेक धनों को (अस्माकेन) अपने (वृजनेन) बल से (जयेम) जीते ॥ १० ॥

भावार्थ—मनुष्य प्रयत्न करके विद्याओं द्वारा कुमति और निर्धनता हटाकर भोजन पदार्थ प्राप्त करें और अपने भुजबल से महाधनी होकर राजाओं के साथ प्रथम श्रेणी वाले हों ॥ १० ॥

यह मन्त्र कुछ भेद से ऊपर आशुका है—अ० ७।५०।७। और मन्त्र १०,११ आगे हैं—२०।८६।१०,११ तथा २०।६४।१०,११ ॥

बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुत्तरस्माद्धरादघ्रायोः । इन्द्रः
पुरस्तादुत्त मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ॥ ११ ॥
बृहस्पतिः । नः । परि । पातु । पश्चात् । उत्त । उत्-तरस्मात् ।
अधरात् । अघ-योः ॥ इन्द्रः । पुरस्तात् । उत्त । मध्यतः ।
नः । सखा । सखि-भ्यः । वरिवः । कृणोतु ॥ ११ ॥

भावार्थ—(बृहस्पतिः) बृहस्पति [बड़े शरों का रक्षक सेनापति] (नः) हमें (पश्चात्) पीछे से (उत्तरस्मात्) ऊपर से (उत्त) और (अधरात्) नीचे से (अघ्रायोः) बुरा चीरने वाले शत्रु से (परि पातु) सब प्रकार बचावे । (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेशवर्य वाला राजा] (पुरस्तात्) आगे से (उत्त) और (मध्यतः) मध्य से (नः) हमारे लिये (वरिवः) सेवनीय धन (कृणोतु) करे, (सखा) [जैसे] मित्र (सखिभ्यः) मित्रों के लिये [करता है] ॥ ११ ॥

भावार्थ—मनुष्य वीरों में महावीर और प्रतापियों में महाप्रतापी होकर दुष्टों से प्रजा की सदा रक्षा करें ॥ ११ ॥

यह मन्त्र कुछ भेद से ऊपर आशुका है—अ० ७।५१।१, मन्त्र १० की भी टिप्पणी देखो ॥

बृहस्पते युवमिन्द्रेशु वस्वो दिव्यस्येशायै उत्त पार्थिवस्य ।

नृपैः (प्रथमाः) मुख्याः (धनानि) (अस्माकेन) अ० ४।३३।३। अस्माकेन । आत्मीयेन (वृजनेन) बलेन (जयेम) कर्मण प्राप्नुयाम ॥

११—(वरिवः) अ० २०।११।३। बहुवरणीयं धनम् । अन्यत् पूर्ववत्—

अ० ७।५१।१ ॥

धुत्तं रुयिं स्तुवते कीरये चिद्युयं पात स्वस्तिभिःसदा नः । १२ ।
 बृहस्पते । युवम् । इन्द्रः । च । वस्वः । दिव्यस्य । ईशाथे
 इति । उत । पार्थिवस्य ॥ धुत्तम् । रुयिम् । स्तुवते । कीरये ।
 चित् । युयम् । पातु । स्वस्ति-भिः । सदा । नः ॥ १२ ॥

भाषार्थ—(बृहस्पते) हे बृहस्पति ! [बड़ी वेदवाणी के रक्षक विद्वान्]
 (च) और (इन्द्रः) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्] (युवम्) तुम दोनों
 (दिव्यस्य) आकाश के (उन) और (पार्थिवस्य) पृथिवी के (वस्वः)
 धन के (ईशाथे) स्वामी हो । (स्तुवते) स्तुति करते हुये (कीरये) विद्वान्
 को (रुयिम्) धन (चित्) अवश्य (धुत्तम्) तुम दोनों दो, [हे वीरो !]
 (युयम्) तुम सब (स्वस्तिभिः) सुखों के साथ (सदा) सदा (नः) हमें
 (पात) रक्षित रक्षो ॥ १२ ॥

भावार्थ—विद्वान् मन्त्री और पराक्रमी राजा और सब शूर पुरुष आका-
 शस्थ वायु वृष्टि आदि, और पृथिवीस्थ अन्न सुवर्ण आदि का सुप्रबन्ध करके
 प्रजा की रक्षा करें ॥ १२ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—७ । ६७ । १० और आगे है अथ० २० । ८७ । ७
 और चौथा पाद ऊपर आच्छुका है—२० । १२ । ६ और आगे है—२० । ३७ । ११ ॥

इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

१२—(बृहस्पते) हे बृहस्पति वेदवाण्या रक्षक विद्वान् (युवम्) युवाम् (इन्द्रः)
 हे महाप्रतापिन् राजन् (च) (वस्वः) वसुनः । धनस्य (दिव्यस्य) दिवि आकाशे
 भवस्य (ईशाथे) स्वामिनौ भवथः (उत) अपिच (पार्थिवस्य) पृथिव्यां भवस्य
 (धुत्तम्) दत्तम् (रुयिम्) धनम् (स्तुवते) स्तोत्रं कुर्वते (कीरये) कृणुशुपू० ।
 उ० ४ । १४३ । कृ क्षेपे-इप्रत्ययः, दीर्घश्छान्दसः, यद्वा कील बन्धने-इन्, लस्य रः ।
 कीरिः स्तोत्रनाम-निघ० ३ । १६ । किरति वाचा प्रेरयति स किरिः तस्मै विदुषे
 (चित्) अवश्यम् । अन्यद् गतम्—अ० २० । १२ । ६ ॥

अथ तृतीयोऽनुवाकः ॥

सूक्तम् १८ [सूक्तानि १८-२१ प्रथमः पर्यायः] ॥

१-६ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १-३ गायत्री, ४, ५ आर्च्युष्णिक, ६ निचूद् गायत्री ॥

राजप्रजाकर्तव्योपदेशः—राजा और प्रजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

वयसुं त्वा त्विदर्थ्या इन्द्रं त्वायन्तुः सखायः ।

कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥ १ ॥

वयस् । ऊं इति । त्वा । त्वित्-अर्थाः । इन्द्रं । त्वा-यन्तः ।

सखायः ॥ कण्वाः । उक्थेभिः । जरन्ते ॥ १ ॥

भावार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [परम ऐश्वर्य वाले राजन्] (त्विदर्थ्याः) उस तुझ से प्रयोजन रखने वाले [तेरे ही भक्त], (त्वायन्तः) तुझे चाहते हुये, (सखायः) मित्र, (कण्वाः) बुद्धिमान् लोग (वयस्) हम (त्वा) तुझको (उ) ही (उक्थेभिः) अपने वचनों से (जरन्ते = जरामहे) सराहते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—विद्वान् प्रजागण धर्मात्मा राजा से कृतज्ञ होकर गुणों का श्रवण करें ॥ १ ॥

मन्त्र १-३ ऋग्वेद में हैं—८ । २ । १६-१८ और सामवेद में हैं—३० । १ । २ ।
तृच ३, तथा मन्त्र १ सामवेद में है—पू० २ । ७ । ३ ॥

न धेमन्यदा पपनु वज्रिनुपसो नविष्टौ ।

तवेदु स्तोमं चिकेत ॥ २ ॥

न । धे । सु । इ । सु । अन्यत् । आ । सुपनु । वज्रिन् । अपसः ।

नविष्टौ ॥ तव । इत् । ऊं इति । स्तोमम् । चिकेत ॥ २ ॥

१—(वयस्) प्रजागणाः (उ) एव (त्वा) त्वाम् (त्विदर्थ्याः) स त्वमेव
अर्थः प्रयोजन येषां तादृशाः । तवैव भक्ताः (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् राजन् (त्वा-
'यन्तः) त्वामात्मन इच्छन्तः (सखायः) सखिभूताः (कण्वाः) मेधाविनः
(उक्थेभिः) कथनीयवचनैः (जरन्ते) उत्तमस्य प्रथमपुरुषः । जरामहे !
स्तुमः ॥

भाषार्थ—(वज्रिन्) हे वज्रधारी राजन् । (नविष्टौ) स्तुति की इच्छा में (अपसः) [तेरे] कर्म से (अन्वत्) दूसरे [कर्म] को (न व ईम्) कभी भी नहीं (आ पपन) मैं ने सराहा है । (त्व इत् उ) तेरे ही (स्तोमम्) स्तुति योग्य व्यवहार को (चिकेत) मैं ने जाना है ॥ २ ॥

भाषार्थ—प्रसागण स्तुति योग्य उपकारी कामों में प्रतापी धर्मात्मा राजा से सहायता लेते रहें ॥ २ ॥

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति ।

यन्ति प्रमादमत्तन्द्राः ॥ ३ ॥

इच्छन्ति । देवाः । सुन्वन्तं । न । स्वप्नाय । स्पृहयन्ति ॥

यन्ति । प्र-मादम् । अत्तन्द्राः ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(देवाः) विद्वान् लोग (सुन्वन्तम्) तत्त्व को निचोड़ने वाले को (इच्छन्ति) चाहते हैं, (स्वप्नाय) निद्रा को (न) नहीं (स्पृहयन्ति) चाहते हैं, और (अत्तन्द्राः) निरालसी होकर (प्रमादम्) भूल वाले को (यन्ति) दण्ड देते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ—दूरदर्शी विद्वान् पुरुष कर्म कुशल चौकसों लोगों से प्रसन्न रहें और द्विष्टर निकम्मों को दण्ड दें ॥ ३ ॥

२—(न) निषेधे (व) अवश्यम् (ईम्) एव (अन्यत्) भिन्नम् (आ) समन्तात् (पपन) पन स्तुतौ—एलि त्तिटि रूपम् । स्तुतवानस्मि (वज्रिन्) हे वज्रधारिन् (अपसः) कर्मणः सकाशात् (नविष्टौ) एव स्तुतौ—अप् + इष इच्छायाम्—चिन् । शकन्धादित्वात् प्ररूपम् । नवस्य स्तुतेः इष्टौ इच्छायाम् (त्व) (इत्) एव (उ) अवधारणे (स्तोमम्) स्तुत्यं व्यवहारम् (चिकेत) कित ज्ञाने—लिट् । अहं ज्ञातवानस्मि ॥

३—(इच्छन्ति) कामयन्ते (देवाः) विद्वांसः (सुन्वन्तम्) तत्त्वस्य निष्पादकम् (न) निषेधे (स्वप्नाय) स्पृहेरीषितः । पा० १ । ४ । ३६ । इति कर्मणि चतुर्थी । स्वप्नम् । आकाशम् (स्पृहयन्ति) इच्छन्ति (यन्ति) यम नियमने, अदादित्वात् इन्द्रचतुर्थीव घञ् नत्वात् च टु ऋरम् । यन्-यन्ति । निचययन्ति । दण्डयन्ति (प्रमादम्) अर्श आघञ् । प्रमादिनम् । अनवधानत्वम् (अत्तन्द्राः) अनलसाः ॥

वृयमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र नोनुमो वृषन् ।

विद्धी त्वेशस्य नो वसो ॥ ४ ॥

वृयम् । इन्द्र । त्वा-यवः । अभि । प्र । नोनुमः । वृषन् ॥

विद्धि । तु । अस्य । नः । वसो इति ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(वृषन्) हे महाबली ! (इन्द्र) इन्द्र [महाप्रतापी राजन्] (त्वायवः) तुझे चाहते हुये (वयम्) हम (अभि) सब ओर को (प्र) अच्छे प्रकार (नोनुमः) सराहते हैं । (वसो) हे बसाने वाले ! (नः) हमारे (अस्य) इस [कर्म] का (तु) शीघ्र (विद्धि) ज्ञान कर ॥ ४ ॥

भाषार्थ—जिस प्रकार प्रजागण धर्मात्मा राजा से प्रीति करें, वैसेही राजा भी धार्मिक प्रजा को चाहे ॥ ४ ॥

मन्त्र ४-६ ऋग्वेद में हैं—७ । ३१ । ४-६ और मन्त्र ४ सामवेद में है—
पू० २ । ४ । ८ ॥

मा नो निदे च वक्तव्येऽर्यो रुन्धीरराव्यो ।

त्वे अपि क्रतुर्मम ॥ ५ ॥

मा । नः । निदे । च । वक्तवे । अर्यः । रुन्धीः । अराव्यो ॥

त्वे इति । अपि । क्रतुः । मम ॥ ५ ॥

भाषार्थ—[हे राजन्] (अर्यः) स्वामी तू (नः) हमको (निदे)

४—(वयम्) (इन्द्र) (त्वायवः) मृगखादयश्च । उ० १ । ३७ । युष्मत्-
या प्रापये-कुप्रत्ययः । अद्वा । सुप आत्मनः वयच् । पा० ३ । १ । ८ । युष्मत्-
क्यच्, उपत्ययः । इत्ययोत्तरपदयोश्च । पा० ७ । २ । ६८ । मपर्यन्तरय
त्वादेश । त्वदित्यत्र तलोपः, इकारदीर्घं च छान्दसम् । त्वां प्राप्ताः ।
त्वां कामयमानाः (अभि) सर्वतः (प्र) प्रकर्षेण (नोनुमः) शु स्तुतौ—घड्लुक् ।
भृशं स्तुमः (वृषन्) हे बलवान् (विद्धि) ज्ञानं कुरु (तु) शीघ्रम् (अस्य)
कर्मणः (नः) अस्माकम् (वसो) हे वासयितः ॥

५—(मा) निषेधे (नः) अस्मान् (निदे) निन्दकाय (च) (वक्तवे)
सितनिगमि० । उ० १ । ६६ । वच परिभाषणे—तुन् । पठ्यभाषणे । वक्तवा-

निन्दक के, (च) और (वक्तवे) वक्त्रवादी (अराव्ये) अदानी पुरुष के (मा रन्धीः) वश में मत कर । (त्वे) तुझ में (अपि) ही (मम) मेरी (क्रतुः) बुद्धि है ॥ ५ ॥

भावार्थ—राजा प्रजा में श्रेष्ठ कर्मों का प्रचार करे और गुणों में दोष लगाने वाले निन्दकों को हटावे ॥ ५ ॥

त्वं वर्मासि सुप्रथः पुरोयोधश्च वृत्रहन् ।

त्वया प्रति ब्रुवे युजा ॥ ६ ॥

त्वम् । वर्म^१ । अस्मि । सु-प्रथः । पुरः-योधः । च । वृत्र-हन् ॥

त्वया । प्रति । ब्रुवे । युजा ॥ ६ ॥

भावार्थ—(वृत्रहन्) हे दुष्टनाशक ! (त्वम्) तू (सुप्रथः) चौड़े (वर्म) कवच [के समान] (च) और (पुरोयोधः) सामने से युद्ध करने वाला (अस्मि) है । (त्वया युजा) तुझ मिलनसार के साथ [वैरियों को] (प्रति ब्रुवे) मैं बतलाकरता हूँ ॥ ६ ॥

भावार्थ—धर्मात्मा वीर राजाके साथ होकर प्रजागण शत्रुओं को मारें॥

सूक्तम् १८ ॥

१-७ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ३, ७ निचूद् गायत्री; २, ४-६ गायत्री ॥

राजप्रजागुणोपदेशः—राजा और प्रजा के गुणों का उपदेश ॥

वार्त्विहत्यायु शर्वसे पृतनासहाय च । इन्द्र त्वा वर्तयामसि ॥ १ ॥

वार्त्वि-हत्याय । शर्वसे । पृतना-सहाय । च ॥ इन्द्र । त्वा ।

आ । वर्तयामसि ॥ १ ॥

दिने (अर्थः) स्वामी त्वम् (मा रन्धीः) रथ हिंसापाकयोः—लुङ् । रधिजमो-
रचि । पा० ७ । १ । ६१ । इति तुमागमः । रथ्यतिर्वशगमनेऽपि—निरु०-१० ।
४० ३ मा नाशय । मा वशीकुरु (अराव्ये) रा दाने—वनिप् । अदानिने (त्वे)
त्वयि (अपि) यव (क्रतुः) प्रश्नां (मम) ॥

६—(त्वम्) (वर्म) कवचमिञ् (अस्मि) (सुप्रथः) सविस्तारम् (पुरो-
योधः) इ प्रतो योद्धान् (च) (वृत्रहन्) हे दुष्टनाशक (त्वया) (प्रति ब्रुवे)
प्रत्यक्षं प्रतिकूलं वा कथयामि मत्संयामि (युजा) रूगन्ना । मिद्रेण ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [परम ऐश्वर्य वाले सेनापति] (वार्त्रहत्याय) बैरियों के मारने वाले (च) और (पृतनाषाहाय) सङ्ग्राम में हराने वाले (शवसे) बल के लिये (त्वा) तुझ को (आ वर्तयामसि) हम अपनी ओर घुमाते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ—युद्ध कुशल सेनापति सेनाजनों को उत्साही करके शत्रुओं को जीते ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेदमें है—३। ३७। १—७ और मन्त्र १ यजुर्वेद में है—१८। ६८ ॥

अर्वाचीनं सु ते मन उत चक्षुः शतक्रतो ।

इन्द्रं कृण्वन्तु वाघतः ॥ २ ॥

अर्वाचीनम् । सु । ते । मनः । उत । चक्षुः । शतक्रतो इति शत-क्रतो ॥ इन्द्रं । कृण्वन्तु । वाघतः ॥ २ ॥

भाषार्थ—(शतक्रतो) हे सैकड़ों कर्मों वा बुद्धियों वाले (इन्द्र) इन्द्र ! [परम ऐश्वर्यवान् राजन्] (वाघतः) निबाहने वाले बुद्धिमान् लोग (ते) तेरे (मनः) मन (उत) और (चक्षुः) नेत्र को (अर्वाचीनम्) हमारी ओर आने वाला (सु) आदर के साथ (कृण्वन्तु) करें ॥ २ ॥

भाषार्थ—बुद्धिमान् लोग चतुर पुरुषार्थी राजा को प्रजा पालन आदि शुभ गुणों में प्रवृत्त करते रहें ॥ २ ॥

१—(वार्त्रहत्याय) तस्येदम् । पा० ४ । ३ । १२० । इत्यण् । शत्रुहनननिमित्ताय (शवसे) बलाय (पृतनाषाहाय) शकिसहोश्च । पा० ३ । १ । ६६ । यह अभिभवे—यत्, षत्वं दीर्घत्वं च । सङ्ग्रामे पराभवसमर्थाय (च) (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् सेनापते (त्वा) त्वाम् (आ वर्तयामसि) आवर्तयामः । अभिमुखं कर्मः ॥

२—(अर्वाचीनम्) अस्मदभिमुखीगतम् (सु) पूजायाम् (ते) तव (मनः) चित्तम् (उत) अपि च (चक्षुः) नेत्रम् (शतक्रतो) क्रतुः कर्मनामनिघ० २ । १ । प्रज्ञानाम ३ । ६ । हे बहुकर्मन् । हे बहुप्रज्ञ (इन्द्र) (कृण्वन्तु) कर्वांतु (वाघतः) संश्वत्तृपद्वेहत् । उ० २ । ८५ । वह प्रापणे—अतिप्रत्ययः, उपधावृद्धिर्हस्य घः । निर्वाहकाः । मेधाविनः—निघ० ३ । १५ ॥

नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गीर्भिरीमहे ।

इन्द्राभिमातिपाह्ये ॥ ३ ॥

नामानि । ते । शतक्रतो इति शत-क्रतो । विश्वाभिः । गीः-

भिः । ईमहे ॥ इन्द्र । अभिमाति-पाह्ये ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(शतक्रतो) हे सै रुद्रों कर्मों वा बुद्धियों वाले (इन्द्र) इन्द्र । [परम ऐश्वर्यवाले राजन्] (ते) तेरे (नामानि) नामों को (विश्वाभिः) सम्पूर्ण (गीर्भिः) स्तुतियों के साथ (अभिमातिपाह्ये) अभिमानी शत्रुओं के हराने में (ईमहे) हम मांगते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो राजा अपने गुणों से नरपति अर्थात् मनुष्यों का पालने वाला, और भूपाल अर्थात् भूमि की रक्षा करने वाला इत्यादि नामों वाला होवे, वही शत्रुओं पर विजय पाता है ॥ ३ ॥

पुरुष्टुतस्य धामभिः शतेन महयामसि ।

इन्द्रस्य चर्षणीधृतः ॥ ४ ॥

पुरु-स्तुतस्य । धाम-भिः । शतेन । महयामसि ॥

इन्द्रस्य । चर्षणि-धृतः ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(शतेन) असंख्य (धामभिः) प्रभावों से (पुरुष्टुतस्य) बहुतों करके बड़ाई किये गये और (चर्षणिधृतः) मनुष्यों के पोषण करने वाले (इन्द्रस्य) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले राजा] का (महयामसि) हम सत्कार करते हैं ॥ ४ ॥

३—(नामानि) नरपतिभूपालादिसङ्घाः (ते) तव (शतक्रतो) बहुकर्मन् । बहुमह (विश्वाभिः) सर्वाभिः (गीर्भिः) स्तुतयो गिरो गृणातैः—निरु० १ । १० । स्तुतिभिः (ईमहे) याचामहे (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् राजन् (अभिमातिपाह्ये) अभिमातीनाम्, अभिमानिनां शत्रूणां सद्ये सहने पराजये ॥

४—(पुरुष्टुतस्य) बहुभिः स्तुतस्य (धामभिः) धारणसामर्थ्यैः । प्रभावैः (शतेन) असंख्यैः (महयामसि) पूजनं सत्कारं कुर्मः (इन्द्रस्य) परमैश्वर्यवान् राजन् (चर्षणिधृतः) चर्षणीनां मनुष्याणां धारकस्य पोषकस्य ॥

भावार्थ—राजा और प्रजा परस्पर उन्नति करके सुख बढ़ावें ॥ ४ ॥
इन्द्रं वृत्राय हन्तवे पुरुहुतमुपं ब्रुवे । भरेषु वाजसातये ॥ ५ ॥
इन्द्रम् । वृत्राय । हन्तवे । पुरु-हुतम् । उपं । ब्रुवे ॥ भरेषु ।
वाज-सातये ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(पुरुहुतम्) बहुतों से पुकारे गये (इन्द्रम्) इन्द्र [परम
पेश्वर्य वाले राजा] को (वृत्राय हन्तवे) शत्रु के मारने के लिये (भरेषु)
संग्रामों में (वाजसातये) धनों के पाने को (उप) समीप में (ब्रुवे) मैं
कहता हूँ ॥ ५ ॥

भावार्थ—सङ्ग्राम प्रवृत्त होने पर सब योधा लोग और सेनाध्यक्ष
पुरुष प्रयत्न करें कि शत्रुओं को हराकर सब प्रकार विजय होवे ॥ ५ ॥

वाजेषु ससहिर्भव त्वामीमहे शतक्रतो ।

इन्द्रं वृत्राय हन्तवे ॥ ६ ॥

वाजेषु । ससहिः । भव । त्वाम् । ईमहे । शतक्रतो इति

शतक्रतो ॥ इन्द्रं । वृत्राय । हन्तवे ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(शतक्रतो) हे सैकड़ों कर्मों वा बुद्धिधरों वाले (इन्द्र) इन्द्र !
[बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] तू (वाजेषु) सङ्ग्रामों में (ससहिः) विजयी
(भव) हो, (त्वा) तुझ से (वृत्राय हन्तवे) शत्रु को मारने के लिये (ईमहे)
हम प्रार्थना करते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—सब योधाजन प्रधान सेनापति की आज्ञा से अपने अपने पद
पर स्थिर रहकर शत्रुओं को जीतें ॥ ६ ॥

५—(इन्द्रम्) परमेश्वर्ययुक्तं राजानम् (वृत्राय) वृत्रं शत्रुम् (हन्तवे)
तवेन प्रत्ययः । हन्तुम् (पुरुहुतम्) बहुमिराहुतम् (उप) समीपे (ब्रुवे)
कथयामि (भरेषु) सङ्ग्रामेषु (वाजसातये) धनानां लाभाय ॥

६—(वाजेषु) सङ्ग्रामेषु (ससहिः) सह अभिमवे-किप्रत्ययः । अभि-
भविता । विजयी (भव) (त्वाम्) (ईमहे) प्रार्थयामहे (शतक्रतो) हे बहु-
कर्मि । बहुरह (इन्द्र) (वृत्राय) शत्रु (हन्तवे) म० ५ । हन्तुम् ॥

द्युम्नेषु पृतनाज्ये पृतसुतृषु अवंःसु च ।

इन्द्र साहवामिमातिषु ॥ ७ ॥

द्युम्नेषु । पृतनाज्ये । पृतसुतृषु । अवंः-सु । च ॥ इन्द्र ।

साहव । अभि-मातिषु ॥ ७ ॥

भाष्यार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (पृतनाज्ये) सेनाओं के चलने स्थान रणक्षेत्र में (पृतसुतृषु) सेनाओं में मारने वाले शूरों के बीच, (द्युम्नेषु) चमकने वाले धनों के बीच (च) और (अवंःसु) कीर्तियों के बीच (अभिमातिषु) अभिमानी बैरियों पर (साहव) जय पा ॥ ७ ॥

भावार्थ—प्रतापी सेनापति सङ्ग्राम जीतकर शूर योधाओं समेत बहुत साधन और यश प्राप्त करके विजय की घोषणा करे ॥ ७ ॥

सूक्तम् २० ॥

१—७ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १—३, ५, ६ गायत्री ; ४ अनुष्टुप् ; ७ निचृद् गायत्री ॥

राजप्रजाधर्मोपदेशः—राजा और प्रजा के धर्म का उपदेश ॥

शुष्मिन्तमं न जतये द्युम्निनं पाहि जागृविस् ।

इन्द्र सोमं शतक्रतो ॥ १ ॥

शुष्मिन्-तमम् । नुः । जतये । द्युम्निनम् । पाहि । जागृविस् ॥

इन्द्र । सोमम् । शतक्रतो इति शत-क्रतो ॥ १ ॥

७—(द्युम्नेषु) द्योतमानेषु धनेषु (पृतनाज्ये) अघ्न्यादयश्च । ७० ४ । ११२ । पृतना + अज गतिक्षेपणयोः—यक्प्रत्ययः । पृतनानां सेनानाम्, अजंन गमनं यत्र । रणक्षेत्रे (पृतसुतृषु) तुर हिंसायाम्—क्विप् । मांसपृतनासानूनां मांसपुर्तस्नवो वाचयाः । वा० पा० ६ । १ । ६३ । इति पृतना शब्दस्य पृत, अलुक् समासः । पृतसु पृतनासु सेनासु तृषु हिंसकेषु शूरेषु (अवंःसु) कीर्तिषु (च) (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवंन् राजन् (साहव) पह मर्षणे—लोट्, शपो लुक्, ढत्वकुत्वे, छान्दसो दीर्घः । सहस्व । अभिभव । विजय (अभिमातिषु) अभिमातिषु । शत्रुषु ॥

भाषार्थ—(शतक्रतो) हे सैकड़ों कर्मों वा बुद्धियों वाले (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (नः) हमारी (ऊतये) रक्षा के लिये (शुष्मिन्तमम्) अत्यन्त बलवान्, (द्युम्निनम्) अत्यन्त धनी वा यशस्वी और (जागृविम्) जागने वाले [चौकस] पुरुष की और (सोमम्) ऐश्वर्य की (पाहि) रक्षा कर ॥ १ ॥

भावार्थ—राजा धर्मात्मा शूर वीरों की और सबके ऐश्वर्य की यथावत् रक्षा करके प्रजा का पालन करे ॥ १ ॥

मन्त्र १—४ ऋग्वेद में हैं—३। ३७। ८—११ और पूरा सूक्त आगे है—
अथर्व० २०। ५७। ४—१० ॥

इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनैषु पञ्चसु ।

इन्द्र तानि तु आ वृणे ॥ २ ॥

**इन्द्रियाणि । शतक्रतो इति शत-क्रतो । या । ते । जनैषु ।
पञ्च-सु ॥ इन्द्र । तानि । ते । आ । वृणे ॥ २ ॥**

भाषार्थ—(शतक्रतो) हे सैकड़ों कर्मों वा बुद्धियों वाले (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (या) जो (ते) तेरे (इन्द्रियाणि) इन्द्र [ऐश्वर्य-वान्] के चिह्न धनादि (पञ्चसु जनैषु) पञ्च [मुख्य] लोगों में हैं । (ते) तेरे (तानि) उन [चिह्नों] को (आ) सब प्रकार (वृणे) मैं स्वीकार करता हूँ ॥ २ ॥

१—(शुष्मिन्तमम्) नादृघस्य । पा० ८ । २ । १७ । इति तुडागमः । अति-
शयेन बलवन्तम् (नः) अस्माकम् (ऊतये) रक्षायै (द्युम्निनम्) धनिनम् ।
यशस्विनम् (पाहि) (जागृविम्) जृश्वृस्तृजागृम्यः किन् । उ० ४ । ५४ ।
जागृ निद्राक्षये—किन् । जागरूकम् । साधधानम् (इन्द्र) (सोमम्) ऐश्वर्यम्
(शतक्रतो) हे बहुकर्मन् । बहुप्रह्वं ॥

२—(इन्द्रियाणि) इन्द्रियं धननाम—निघ० २। १० । इन्द्रस्य परमैश्वर्यवतः
पुरुषस्य लिङ्गानि धनादीनि (शतक्रतो) म० १ (या) यानि (ते) तव (जनैषु)
पुरुषेषु (पञ्चसु) पञ्च व्यक्तीकरणे—कनिन् । प्रधानेषु (इन्द्र) (तानि)
लिङ्गानि (ते) तव (आ) समन्तात् (वृणे) स्वीकरोमि ॥

भाषार्थ—बुद्धिमान् धार्मिक राजा बड़े बड़े अधिकारियों का आदर करके प्रजा की रक्षा करे ॥ २ ॥

अगंनिन्द्रु अवी बृहद् द्युम्नं दधिष्व दुष्टरम् ।

उत् ते शुष्मं तिरामसि ॥ ३ ॥

अगन् । इन्द्रु । अवीः । बृहत् । द्युम्नम् । दधिष्व् । दुष्टरम् ॥

उत् । ते । शुष्मम् । तिरामसि ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (बृहत्) बडा (अवीः) अन्न [हमको] (अगन्) प्राप्त हुआ है, (दुष्टरम्) दुस्तर [अजेय] (द्युम्नम्) चमकने वाले यश को (दधिष्व्) तू धारण कर । (ते) तेरे (शुष्मम्) बल को (उत् तिरामसि) हम बढ़ाते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जिस राजा के कारण बहुत अन्न आदि पदार्थ मिलें, प्रजांगण उसके बल बढ़ाने में सदा प्रयत्न करें ॥ ३ ॥

अर्वावतो नु आ गृह्यथो शक्र परावतः ।

उ लोको यस्तं अद्रिव इन्द्रे ह तत् आ गृहि ॥ ४ ॥

अर्वा-वतः । नुः । आ । गृहि । अथो इति । शक्र । परावतः ॥

ज इति । लोकः । यः । ते । अद्रि-वः । इन्द्र । इह ।

ततः । आ । गृहि ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(शक्र) हे समर्थ ! (अर्वावतः) समीप से (अथो) और

३—(अगन्) अ० २ । ६ । ३ । गमेर्लुङि छान्दसं रूपम् । अगमत् । प्राप्नोत्—अस्मानिति शेषः (अवीः) अन्नम् (बृहत्) महत् (द्युम्नम्) धापृवस्य-ज्यतिभ्यो नः । उ० ३ । ६ । द्युत दीप्तौ—नप्रत्ययः, तकारस्य मः । द्युम्नं द्योतते यशो वाऽन्नं वा—निर० ५ । ५-१ द्योतमानं यशः (दधिष्व्) धर (दुष्टरम्) दुःखेन तरणीयं जेयम् (ते) तव (शुष्मम्) बलम् (उत् तिरामसि) प्रवर्धयामः ॥

४—(अर्वावतः) समीपात् (नः) अस्मान् (आ गृहि) आगच्छ । प्राप्नुहि (अथो) अपि च (शक्र) हे शक्तिमन् (परावतः) दूरात् (उ) चार्थे (लोकः)

(परावतः) दूर से (नः) हमें (आ गहि) प्राप्त हो, (अद्रिवः) हे वज्रधारी (इन्द्र) इन्द्र । [वड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (उ) और (यः) जो (ते) तेरा (लोकः) स्थान है, (ततः) वहां से (इह) यहां पर (आ गहि) तू आ ॥ ४ ॥

भावार्थ—राजा अधिकारियों द्वारा समीप और दूर से प्रजा की सुधि रखे और उनको आप भी जाकर देखा करे ॥ ४ ॥

इस मन्त्र का पूर्वार्द्ध कुछ भेद से आ चुका है—अ० २० । ६ । ८ ।

इन्द्रो अङ्ग महद् भुयम्भी षट्प चुच्यवत् ।

स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥ ५ ॥

इन्द्रः । अङ्ग । महत् । भुयम् । अम्भि । सत् । षट्प । चुच्यवत् ॥

सः । हि । स्थिरः । वि-चर्षणिः ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(अङ्ग) हे विठान् । (इन्द्रः) इन्द्र [वड़े ऐश्वर्य वाले राजा] ने (महत्) वड़े और (अम्भि) सब ओर से (सत्) वर्तमान (भुयम्) भुय को (अष चुच्यवत्) हटा दिया है । (सः हि) वही (स्थिरः) दृढ़ और (विचर्षणिः) विशेष देखने वाला है ॥ ५ ॥

भावार्थ—राजा दृढ़स्वभाव और सावधान रहकर दुष्टों से प्रजा की रक्षा करे ॥ ५ ॥

मन्त्र ५—७ ऋग्वेद में है—२ । ४१ । १०—१२ और मन्त्र ५ सामवेद में है—पू० ३ । १ । ७ ॥

स्नानम् (यः) (ते) तव (अद्रिवः) अदिशदिभूशुभिभ्यः क्रिन् । उ० ४ । ६५ । अद् भक्षणे—क्रिन् । मतुवसो रु सम्बुद्धौ छन्दसि । पा० ८ । ३ । १ । इति रुत्वम् । अद्रिवः=अद्रिवन्, अद्रिराहणाल्येनेनापि वाचोः स्यात्—निरु० ४ । ४ । अस्ति शत्रून् भक्षयतीति, अद्रिर्वज्रस्तडन् (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् राजन् (इह) अत्र (ततः) तस्मात् स्थानात् (आ गहि) आगच्छ ॥

५—(इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् राजा (अङ्ग) सम्बोधने (महत्) अधिकम् (अम्भि) सर्वतः (सत्) अस भुवि—शतृ । भवत् । वर्तमानम् (अष) दूरे (चुच्यवत्) व्युङ्क्तो—लुङि गिलोपे, उपधाह्रस्वत्वम्, अर्द्धभावः । अपसारितवान् (सः) (हि) एव (स्थिरः) दृढः (विचर्षणिः) विशेषेण द्रष्टा—निघ० ३ । ११ ॥

इन्द्रश्च मूलयाति नो न नः पश्चाद्घं नशत् ।

भद्रं भवाति नः पुरः ॥ ६ ॥

इन्द्रः । च । मूलयाति । नः । न । नः । पश्चात् । अघम् ।

नशत् ॥ भद्रम् । भवाति । नः । पुरः ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला राजा] (च) निश्चय करके (नः) हमें (मूलयाति) सुखी करे, (अघम्) पाप (नः) हमेंको (पश्चात्) पीछे (न) न (नशत्) नाश करे । (भद्रम्) कल्याण (नः) हमारे लिये (पुरस्तात्) आगे (भवाति) होवे ॥ ६ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि धर्मात्मा राजा के प्रबन्ध में रहकर पापों से बचकर सुख भोगें ॥ ६ ॥

इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं करत् ।

जेता शत्रून् विचर्षणिः ॥ ७ ॥

इन्द्रः । आशाभ्यः । परि । सर्वाभ्यः । अभयम् । करत् ॥

जेता । शत्रून् । वि-चर्षणिः ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला राजा] (सर्वाभ्यः) सब (आशाभ्यः) आशाओं [गहरी इच्छाओं] के लिये (अभयम्) अमय (परि) सब ओर से (करत्) करे । वह (शत्रून् जेता) शत्रुओं को जीतने वाला और

६—(इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् राजा (च) अवधारणे (मूलयाति) डस्य लः । मूलयाति सुखयेत् (नः) अस्मान् (न) निषेधे (नः) अस्मान् (पश्चात्) पश्चात् काले (अघम्) पापम् (नशत्) नाशयेत् (भद्रम्) कल्याणम् (भवाति) भूयात् (नः) अस्मभ्यम् (पुरः) पुरस्तात् (अग्रे) ॥

७—(इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् राजा (आशाभ्यः) अभिलाषाणां सिद्धये (परि) सर्वतः (सर्वाभ्यः) (अभयम्) भयराहित्यम् (करत्) कुर्यात् (जेता) न लोकाध्ययनिष्ठास्रुथर्तुनाम् । पा० २।३ । ६५ । इति तृप्तन्तवात् षाड्यभावः ।

(विचर्षणिः) विशेष देखने वाला है ॥ ७ ॥

भावार्य—राजा अपने न्याययुक्त प्रबन्ध से विघ्नों को हटाकर प्रजा की उन्नति की गहरी इच्छाओं को पूरा करे ॥ ७ ॥

सूक्तम् २१ ॥

१—११ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ३ निवृज्जगती; २ भुरिग् जगती; ४ जगती; ५ -७ विण्डार्पी जगती; ८ त्रिण्डुप्; ९ आर्पी त्रिण्डुप्; १० भुरिक् त्रिण्डुप्, ११ सतः पङ्क्तिः ॥

मनुष्यकर्तव्योपदेशः—मनुष्यों के कर्तव्य का उपदेश ॥

न्यु३ पु वाचं प्र मुहे भरामहे गिर इन्द्राय सद्ने विवस्वतः।
 नू चिद्धिरत्नं ससतामिवाविद्वन्न दुष्टुतिर्द्रविणोदेषु शस्यते ॥१॥
 नि । जं । इति । सु । वाचंम् । प्र । मुहे । भुरामहे । गिरः ।
 इन्द्राय । सद्ने । विवस्वतः ॥ नु । चित् । हि । रत्नम् ।
 ससताम्-इव । अविदत् । न । दुः-स्तुतिः । द्रविणः-देषु ।
 शस्यते ॥ १ ॥

भाषार्य—(महे) पूजनीय (इन्द्राय) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] के लिये (सु) सुन्दर लक्षण वाली (वाचम्) वाणी और (गिरः) स्तुतियों के (विवस्वतः) विविध निवास वाले [धनी पुरुष] के (सद्ने) घर पर (नि उ) निश्चय करके ही (प्र भरामहे) हम धारण करते हैं । (हि) क्योंकि (ससताम्)

विजयन् (शत्रून्) (विचर्षणिः) म० ५ । विशेषद्रष्टा ॥

१—(नि) निश्चयेन (उ) एव (सु) शोभनाम् (वाचम्) वाणीम् (प्र) प्रकर्षेण (महे) महते । पूजनीयाय (भरामहे) धरामहे (गिरः) स्तुतीः निरु० १ । १० (इन्द्राय) परमैश्वर्यवते पुरुषाय (सद्ने) गृहे (विवस्वतः) अ० २० । ११ । ७ । बहुनिवासयुक्तस्य धनिनः पुरुषस्य (नु) शीघ्रम् (चित्) निश्चयेन (हि) यस्मात् कारणान् (रत्नम्) रमणीयं सुवर्णादिधनम् (ससताम्) स्वपतां पुरुषाणाम् (इव) अवधारणे (अविदत्) अलभत स चौरादिकः

सोने हुये मनुष्यों के (इव) ही (रत्नम्) रत्न [रमणीय धन] को (तु) शीघ्र (चित्) निश्चय करके (अविद्वत्) उस[चोर आदि]ने ले लिया है, (द्रविणोद्देशु) धन देनेवाले पुरुषों में (दुष्टुनिः) दुष्ट स्तुति (न शस्यते) श्रेष्ठ नहीं होती है ॥१॥

भावार्थ—धर्मरत्ना लोगों की स्तुति बड़े लोगों में होती है, आलसी निकम्मों के धन को चोर आदि ले जाते हैं, विद्वानों को श्रेष्ठों को बड़ाई ही सदा करनी चाहिये ॥ १ ॥

यह पूरा सूक्त ऋग्वेद में है—१। ५३। १—११ ॥

दुरो अश्वस्य दुर इन्द्र गोरमि दुरो यवस्य वसुन इनस्पतिः ।
शिक्षानुरः प्रदिवो अकामकर्शनः सखा सखिभ्यस्तमिदं गृणी-
मसि ॥ २ ॥

दुरः । अश्वस्य । दुरः । इन्द्र । गोः । असि । दुरः । यवस्य ।
वसुनः । इनः । पतिः ॥ शिक्षा-नुरः । प्र-दिवः । अकाम-
कर्शनः । सखा । सखि-भ्यः । तम् । इदम् । गृणीमसि ॥ २ ॥

भावार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] तू (अश्वस्य) घोड़े का (दुरः) देने वाला, (गोः) गौ [वा भूमि] का (दुरः) देनेवाला, (यवस्य) अन्न का (दुरः) देनेवाला, (वसुनः) धन का (इनः) स्वामी और (पतिः) रत्नक, (प्रदिवः) उत्तम व्यवहार को (शिक्षानुरः) शिक्षा पहुँचाने वाला,

(न) निषेधे (दुष्टुनिः) दुः स्तुतिः । दुष्टा स्तुतिः । असमीचीना प्रशंसा (द्रविणोद्देशु) अ० २० । २ । ४ । द्रुक्षिभ्यामिनन् । उ० २ । ५० । द्रु गतौ—
इनन् + ददाते—कप्रत्यय, पूर्वपदस्य सकार उपजनः । द्रविणं धननाम-निघ०
२ । १० । धनदातृषु (शस्यते) प्रशस्ता भवति ॥

२—(दुरः) मद्गुरादयश्च । उ० १ । ४१ । ड दाब् दाने—उरच्, कित्वा-
दाकारलोपः । दाता (अश्वस्य) नुरङ्गस्य (दुरः) (गोः) गवादिपशोः पृथिव्या
वा (असि) (दुरः) (यवस्य) अन्नस्य (वसुनः) धनस्य (इनः) इण-
सिब्जिदीङुष्यविभ्यो नक् । उ० ३ । २ । इण गतौ—नकप्रत्ययः । इन ईश्वरनाम—
निघ० २ । २२ । स्वामी (पतिः) रत्नकः (शिक्षानुरः) नृ नये-अच् । शिक्षा-
प्रापकः । विद्यादाता (प्रदिवः) दिव्य व्यवहारे—किप् । प्रकृप्यव्यवहारस्य । प्र दिवः

(अकामकर्म) अकामिणा [आकामिणा] का दुःखता करने वाला, और (सन्निभः) मित्रों के लिए (सन्ना) मित्र (अभि) है, (तम्) उन तुम को (इत्म्) यह [वचन] (गृणीमि) हम सोलते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ - राजा या कर्तव्य है कि प्रजा को उत्तम शिक्षा द्वारा उद्योगी बनाकर सब प्रकार सुखों स्वर्गों और सामग्री सुखों को दण्ड देता रहे ॥ २ ॥

शचीव इन्द्र पुरुकृत द्युमत्तम् तवेद्दिदम्भितश्चेकिते वसु ।
 सतः संगृभ्याभिभूत आ भूर मा त्वायतो जरितुःकाममूनयोः ३
 शची-वः । इन्द्र । पुरु-कृत । द्युमत्-तम् । तव । इत् । इदम् ।
 अभितः । चेकिते । वसु ॥ सतः । सुम्-गृभ्य । अभि-भूते ।
 आ । भूर । मा । त्वा-यतः । जरितुः । कामम् । ऊनयोः ॥३

भाषार्थ - शचीवः) है उत्तम पुत्रों वाले, (पुरुकृत) बहुत कर्मों वाले, (द्युमत्तम्) अत्यन्त प्रकाश वाले, (इन्द्र) इन्द्र । [घडे ऐश्वर्य वाले राजा] (तव इत्) तेरा ही (इदम्) यह (वसु) धन (अभितः) सब और से (चेकिते) जाना गया है, (सतः) हम काण्य से, (अभिभूते) है विजयी । (संगृभ्य) संभ्रम पर है (आ भूर) नू नाकर भूर, (त्वायतः) तेरी चाह करते

पुराणनाम-निघ० ३ । २७ (अकामकर्म) कृग ननूकरणे—त्यु । योऽकामान् अकामान् कर्मान् ननूकर्तानि तः । गलमानां दुर्बलीकर्ता (सखा) सुहृत् (सन्निभः) सुहृत्सामर्थम् । तम्) तः तं प्राप् (इत्म्) वचनम् (गृणीमि) गृ शब्दे । उच्यते । उच्यते ।

३—(शचीवः) शची-मनुष्य । इन्द्रसौर । पा० ८ । २ । १५ । मनुष्यो मस्य वः । मनुष्यो क म्भुदधी इन्द्रमि । पा० ८ । ३ । १ । इति कत्वम् । शची कर्मनाम-निघ० २ । २ । प्रधानाम-निघ० ३ । ६ । हे प्रशस्तप्रजावन (इन्द्र) परमैश्वर्य-वान् राजन् (पुरुकृत) पुरुणां यानां कामणा कर्तः (द्युमत्तम्) अतिशयेन प्रकाश-युक्त (तव) (इदम्) उपनिधत्तम् (अभि) सर्वतः (चेकिते) कित घाने—मिद् । ज्ञानं वर्तन (वसु) धनम् (अतः) अस्मात् कारणात् (संगृभ्य) संगृह्य (अभिभूते) हे अभिभूति । त्रितयिन् (आ) प्रातीय (भूर) धर (मा) निवेद्ये

हुये (जरितुः) स्तुति करने वाले की (कामम्) आशा को (मा ऊनयीः) मत घटा ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जो राजा राज्य के सब पदार्थों पर दृष्टि रखकर और उनका सुप्रयोग करके प्रजा की इष्ट सिद्धि करता है, वही प्रशंसनीय होता है ॥ ३ ॥

एभिर्द्युभिः सुमना एभिरिन्दुभिर्निरुन्धानो अमतिं गोभि-
रश्विना । इन्द्रेण दस्युं दुरयन्तु इन्दुभिर्युतद्वेषसुः समिषा
रभेमहि ॥ ४ ॥

एभिः । द्यु-भिः । सु-मनाः । एभिः । इन्दु-भिः । नि-रुन्धानः ।
अमतिम् । गोभिः । अश्विना ॥ इन्द्रेण । दस्युम् । दुरयन्तः ।
इन्दु-भिः । युत-द्वेषसः । ससु । इषा । रभेमहि ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(एभिः) इन (द्युभिः) तेजों से और (एभिः) इन (इन्दुभिः)
पेश्वर्यों से (सुमनाः) प्रसन्न मन वाला , और (गोभिः) गौओं से और
(अश्विना) घोड़ों से (अमतिम्) दरिद्रता को (निरुन्धानः) रोकने वाला,
वह है । (इन्द्रेण) उस इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले राजा] के साथ (इन्दुभिः)
पेश्वर्यों के द्वारा (दस्युम्) डाकू को (दुरयन्तः) दर डालने वाले और
(युतद्वेषसः) द्वेष से अलग रहने वाले हम (इषा) अन्न के साथ (सं रभेमहि)

(त्वायतः) त्वां कामयमानस्य (जरितुः) स्तोतुः (कामम्) अभिलाषम्
(ऊनयीः) ऊन परिहाणे—लुङ्, ऊनयेः ॥

४- (एभिः) प्रत्यक्षैः (द्युभिः) तेजोभिः (सुमनाः) प्रसन्नचित्तः (एभिः)
(इन्दुभिः) पेश्वर्यैः (निरुन्धानः) रुधिर आवरणे—शानच् । निवर्तयन् (अम-
तिम्) पीडकम् । दरिद्रयम् (गोभिः) धेनुभिः (अश्विना) अश्व-इनि । सुपां सुलुकण
पा० ७ । १ । ३६ । तृतीयाबहुवचनस्य आकारः । अश्वो मार्गव्याप्तिर्यस्यास्तीति
अश्वी, यथा स्वार्थे इनिः । अश्वैः । तुरङ्गैः (इन्द्रेण) परमैश्वर्यवता राज्ञा
(दस्युम्) वलात्कारेण परस्वहर्तारम् (दुरयन्तः) विदारयन्तः । नाशयन्तः
(इन्दुभिः) पेश्वर्यैर्द्वारा (युतद्वेषसः) यु मिश्रणामिश्रणयोः—क । युतानि
पृथग्भूतानि द्वेषांसि शत्रुकर्माणि येषां ते (इषा) अन्नेन (सं रभेमहि) सं-

संयुक्त होवें ॥ ४ ॥

भाषार्थ—तेजस्वी, परम ऐश्वर्यवान्, न्यायकारी राजा की सुनीति से दुराचारियों का नाश हाकर प्रजा के धन धान्य की बढ़ती होती है ॥ ४ ॥

समिन्द्र राया समिषा रभेमहि सं वाजेभिः पुरुश्चन्द्रैरभिव्युभिः।
सं देव्या प्रमत्या वीरशुष्मया गोअग्रयाश्ववत्या रभेमहि ॥५
सम् । इन्द्र । राया । सम् । इषा । रभेमहि । सम् । वाजेभिः।
पुरु-चन्द्रैः । अभिव्यु-भिः ॥ सम् । देव्या । प्र-मत्या । वीर-
शुष्मया । गो-अग्रया । अश्व-वत्या । रभेमहि ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [वडे ऐश्वर्य वाले राजा वा परमात्मा]
हम (राया) सम्पत्ति से (सम्) संयुक्त, (इषा) अन्न से (सम्) संयुक्त,
और (पुरुश्चन्द्रैः) बहुत सुवर्ण आदि वाले तथा (अभिव्युभिः) सब ओर से
व्यवहार वाले (वाजेभिः) विज्ञानों [वा बलों] से (सं रभेमहि) संयुक्त होवें ।
और (देव्या) दिव्य गुण वाली, (वीरशुष्मया) वीरों को बल देने वाली,
(गोअग्रया) श्रेष्ठ गौओं वा देशों वाली और (अश्ववत्या) वेग युक्त घोड़ों
वाली (प्रमत्या) उत्तम बुद्धि से (संरभेमहि) हम संयुक्त होवें ॥ ५ ॥

भाषार्थ—मनुष्य परमेश्वर की भक्ति और न्यायी राजा की सुनीति
से अनेक प्रकार विज्ञानी और बलवान् होकर श्रेष्ठ बुद्धि के साथ उन्नति करते
रहें ॥ ५ ॥

रन्धाः संगता भवेम ॥

५—(सम्) सम्भूय (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् राजन् परमात्मन् वा (राया)
सम्पत्त्या (इषा) अन्नेन (सं रभेमहि) संगता भवेम (सम्) (वाजेभिः)
विज्ञानैः । बलैः (पुरुश्चन्द्रैः) चन्द्रं हिरण्यनाम-निघ० १। २ । बहुसुवर्णादियुक्तैः
(अभिव्युभिः) सर्वतो व्यवहारोपेतैः (सम्) (देव्या) दिव्यगुणवत्या (प्रमत्या)
प्रकृष्टबुद्ध्या (वीरशुष्मया) वीरेभ्यः शुष्मं बलं यस्याः सकाशात् तथा
(गोअग्रया) सर्वत्र विभाषा गोः । पा० ६ । १ । १२२ । इति प्रकृतिभावः । गावो
धेनवः पृथिवीदेशा वाऽप्रा श्रेष्ठा यस्यां तथा (अश्ववत्या) वेगयुक्ततुरङ्गवत्या
(सं रभेमहि) ॥

ते त्वा मदा अमदन् तानि वृष्ण्या ते सोमासो वृत्रहत्येषु
सत्पते । यत् कारवे दश वृत्राण्यप्रति बर्हिष्मते नि सहस्राणि
बर्हयः ॥ ६ ॥

ते । त्वा । मदाः । अमदन् । तानि । वृष्ण्या । ते । सोमासः ।
वृत्र-हत्येषु । सत्-पते ॥ यत् । कारवे । दश । वृत्राणि ।
अप्रति । बर्हिष्मते । नि । सहस्राणि । बर्हयः ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ—(सत्पते) हे सत्पुरुषों के रक्षक ! [सेनापति] (ते)
उन (मदाः) आनन्द देने वाले शूरों ने, (तानि) उन (वृष्ण्या) वीरों के योग्य
कर्मों ने और (ते) उन (सोमासः) पेशव्यों ने (वृत्रहत्येषु) वैरियों के मारने
वाले संग्रामों में (त्वा) तुझ को (अमदन्) प्रसन्न किया है, (यत्) जब
(बर्हिष्मते) विद्वानी (कारवे) कर्म कर्ता के लिये (दश सहस्राणि) दस सहस्र
[असंख्य] (वृत्राणि) शत्रुदलों को (अप्रति) विना रोक (नि बर्हयः) तू ने
मार डाला है ॥ ६ ॥

भावार्थ—धार्मिक राजा सज्जनों की रक्षा के लिये दुष्टों का नाश करके
आनन्द के साथ वैभव बढ़ावे । ६ ॥

युधा युधमुप घेदेषि धृष्ण्या पुरा पुरं समिदं हंस्योजसा ।
नम्या यदिन्द्र सख्या परावति निवर्हये नमुचिं नाम सायिनम् ७

६—(ते) प्रसिद्धाः (त्वा) त्वाम् (मदाः) आनन्दयितारः शूराः
(अमदन्) हर्षितवन्तः (तानि) प्रसिद्धानि (वृष्ण्या) वृषन्-यत् । शैलोपः ।
धृष्णः इन्द्रस्य वीरस्य योग्यानि कर्माणि (ते) प्रसिद्धाः (सोमासः)
पेशव्याणि (वृत्रहत्येषु) वृत्राणां शत्रूणां हत्या हननं येषु तेषु संग्रामेषु (सत्पते)
हे सत्पुरुषाणां रक्षक (यत्) यदा (कारवे) कृवापा० । ३० १। १। करोतेः—उण् ।
कर्मकर्त्रे (दश सहस्राणि) असंख्यातानि (वृत्राणि) शत्रुसैन्यानि (अप्रति)
अ०००।१२।३। यथा तथा, प्रातिकूल्यस्य विघ्नस्य राहित्येन (बर्हिष्मते) विद्वान-
वते (नि बर्हयः) बर्हं प्राधान्ये हिसादिषु च-रुद्ध, अडभावश्छान्दसः । निवर्हय-
तिर्बलकर्मा-निघ० २ । १६ । नितरामघधोः ॥

युधा । युधम् । उप । घ । इत् । सुषि । धृष्णु-या । पुरा ।
पुरम् । सम् । इदम् । हंसि । ओजसा ॥ नम्या । यत् ।
इन्द्र । सख्या । परा-वति । नि-बर्हयः । नमुचिम् । नाम ।
मायिनम् ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले सेनापति] (युधा) एक युद्ध से (युधम्) दूसरे युद्ध को (घ) निश्चय करके (इत्) अथवा (धृष्णुया) निर्भयता से (उप एपि) तू चला चलता है, और (इदम्) अथ (पुरा) एक गढ़ के साथ (पुग्म्) दूसरे गढ़ को (ओजसा) बल से (स हंसि) तू नष्ट कर देता है । (यत्) क्योंकि (नम्या) नम्र [आशाकारी] (सख्या) मित्र के साथ (परावति) दूर देश में (नमुचिम्) न छुटने योग्य [दण्डनीय] (नाम) प्रसिद्ध (मायिनम्) छली पुरुष को (निबर्हयः) तू ने मार डाला है ॥ ७ ॥

भाषार्थ—राजा विनीति आशाकारी मित्रों के साथ कपटी शत्रुओं को और उनके दुर्गों को नाश करके सुख से राज्य करे ॥ ७ ॥

त्वं करञ्जमुत पुण्यं वधीस्तेजिष्ठयातिथिगवस्यं वर्तनी ।
त्वं श्रुता वङ्गदस्याभिनुत् पुरोऽनानुदः परिषूता ऋजिश्वना ८

७—(युधा) युद्धेन (युधम्) युद्धम् (उप) समीपे (घ) निश्चयेन (इत्) एव (एपि) गच्छसि । प्राप्नोषि (धृष्णुया) त्रसिगृधिधृषिपिः क्लुः । पा० ३। २। १४०। इति जि धृपा प्रागल्भ्ये-क्लुः । सुपां सुलुक्० । पा०७। १। ३६ । विभक्ते-र्याजादेशः । धृष्णुना । धर्पकेण प्रगल्भेन कर्मणा (पुरा) शत्रुदुर्गेण (पुरम्) शत्रुदुर्गम् (सम्) सम्यक् (इदम्) इदानीम् (हंसि) नाशयसि (ओजसा) बलेन (नम्या) एव प्रह्वत्वे—यत्, विभक्तेराकारः । नम्येन । नम्रेण । विनीतेन (यत्) यदा (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवन् सेनापते (सख्या) मित्रेण (परावति) दूरदेशे (निबर्हयः) म० ६ । नितरां नाशितवानसि (नमुचिम्) भुजेः किञ्च । ३०४। १४२। मुञ्चु मोचने—इप्रत्ययः कित् । न आणनपाञ्चवेदाना० । पा०६। ३। ७५। इति नमः प्रकृतिभाषः । अमोचनीयम् । दण्डनीयम् (नाम) प्रसिद्धम् (मायि-नम्) छलिनम् ॥

त्वम् । करञ्जम् । उत । पर्णयम् । वृधीः । तेजिष्ठया । अति-
थि-ग्वस्य । वर्तनी ॥ त्वम् । शता । वङ्गृदस्य । अभिनत् ।
पुरः । अनुनु-दः । परि-पूताः । ऋजिश्वना ॥ ८ ॥

भाषार्थ—[हे राजन् ।] (त्वम्) तू ने (करञ्जम्) हिंसक (उत)
और (पर्णयम्) पालन वस्तुओं को लेने वाले [चोर] को (अतिथिग्वस्य)
अतिथियों को प्राप्त होने वाले पुरुष के (तेजिष्ठया) अत्यन्त तेजस्वी (वर्तनी)
मार्ग से (वृधीः) मारा है । (त्वम्) तू ने (वङ्गृदस्य) मार्ग तोड़ने वाले
(अनुनुदः) अनुकूल न वर्तने वाले दुष्ट के (ऋजिश्वना) सरलस्वभाव पुरुषों
के बढ़ाने वाले [आप] करके (परिपूताः) घेरे हुये (शता) सैकड़ों (पुरः)
दुर्गों को (अभिनत्) तोड़ा है ॥ ८ ॥

८—(त्वम्) (करञ्जम्) कृ हिंसने—अञ्जन् औणादिक, प्रत्ययः । कृणाति हिन्-
स्तोति करञ्जस्तम् । हिंसकम् (उत) अपि च (पर्णयम्) धापृवस्यज्यतिभ्यो
नः । उ० ३ । ६ । पृ पालनपूरणयोः—नप्रत्ययः+या प्रापणे—कप्रत्ययः । पर्णानां
पालनवस्तूनां यातारं अहीतारं चोत्म् (वृधीः) हन्तेर्लुङि वधादेशोऽडभावश्च ।
अवधीः । इनवानसि (तेजिष्ठया) तेजस्विन्—इष्टन् । विभ्तोर्लुक् । पा० ५३ ।
६५ । इति चिनो लुक् । अतिशयेन तेजस्विन्या (अतिथिग्वस्य) अतिथि+
गमेः—औणादिको ड्वप्रत्ययः । अतिथीनां विदुषां पुरुषाणां प्रापकस्य (वर्तनी)
वृत्तु वर्तने—ल्युट्, ङीप् । सुपां सुलुक्० । पा० ७ । १३६ । इति विभक्तेः पूर्वसवर्ण-
दीर्घः । वर्तन्या पथा (त्वम्) (शता) शतानि (वङ्गृदस्य) दिवेर्ऋ । उ०
२ । ६६ । वगि गतौ—ऋप्रत्ययः+दो अवखण्डने—कप्रत्ययः । यो वङ्गृन् मार्गान्
यति खरडयतीति तस्य । सन्मार्गभेदकस्य (अभिनत्) भिदिर् विदारणे—
लङ् लिपि । इतश्च । पा० ३ । ४ । १०० । इकारलोपः । हलङ्यावभ्यो० । पा०
६ । १ । ६८ । इति सकारलोपः । दश्च । पा० ८ । २ । ७५ । इति क्त्वदकारयो-
र्विकल्पः । अभिनः । त्वं मिश्रवानसि (पुरः) शत्रुदुर्गान् (अनुनुदः) अनुनु +
ददातिः—किप् । योऽनुकूलं न ददाति तस्य (परिपूताः) पू प्रेरणे—क । परिवेष्टिताः
(ऋजिश्वना) इगुपधात् कित् । उ० ४ । १२० । ऋज आजवे—इन्, स च
कित् । श्वन्नुक्तनूपन० । उ० १ । १५६ । दु ओश्च गतिवृद्धयोः—कनिन् । ऋजीनां
न रक्षस्वभाषानां वर्धकेन त्वया ॥

भावार्थ—परोपकारी विद्वान् अतिथियों का सत्कार करने वाला राजा धार्मिक रीति से उपद्रवी दुष्टों का नाश करता रहे ॥ ८ ॥

त्वमेतां जनुराज्ञो द्विर्दशाबन्धुना सुश्रवसापजग्मुषः । षष्टिं
सहस्रां नवतिं नव श्रुतो नि चक्रेण रथ्या दुष्पदावृणक् ॥ ८ ॥

त्वम् । एतान् । जन-राज्ञः । द्विः । दश । अबन्धुना । सु-
श्रवसा । उप-जग्मुषः ॥ षष्टिम् । सहस्रां । नवतिम् । नव ।
श्रुतः । नि । चक्रेण । रथ्या । दुः-पदा । अवृणक् ॥ ८ ॥

भावार्थ—[हे राजन् !] (अबन्धुना) बन्धुहीन और (सुश्रवसा)
बड़ी कीर्ति वाले पुरुष के साथ, (श्रुतः) विख्यात (त्वम्) तू ने (एतान्) इन
(द्विःदश) दो बार दश [बीस] (जनराज्ञः) नीच लोगों के राजाओं को और
(षष्टिम् सहस्रां) साठ सहस्र (नव नवतिम्) नौ नब्बे [६ + ६० = ६६
अथवा ६ × ६० = ८१० अर्थात् ६००,६६ अथवा ६०,८१०] (उपजग्मुषः)
[उनके] साथियों को (दुष्पदा) न पकड़ने योग्य [अति शीघ्रगामी]
(रथ्या) रथ के पहिये के समान (चक्रेण) चक्र [हथियार विशेष] से
(नि अवृणक्) उलट पलट कर दिया है ॥ ६ ॥

भावार्थ—प्रतापी बलवान् राजा शरणागत अनाथों और धार्मिक
प्रसिद्ध पुरुषों की रक्षा करके बीसियों प्रधान शत्रुओं और उनकी सहस्रों

६—(त्वम्) (एतान्) उपस्थितान् (जनराज्ञः) जनानां पामंराणां
शासकान् (द्विर्दश) द्विगुणितान् दश । विंशतिसंख्याकान् (सुश्रवसा) बहुकी-
र्तिमता (उपजग्मुषः) गमेर्लिटः कसुः । उपगतान् । सहचरान् (षष्टिम्)
(सहस्रां) सहस्राणि (नवतिम् नव) नवोत्तरनवतिसंख्याकान् , यद्वा नवगुणित-
नवतिसंख्याकान् (श्रुतः) प्रख्यातः (नि) नीचैः (चक्रेण) आयुधविशेषेण
(रथ्या) रथाद् यत् । पा० ४ । ३ । १२१ । रथ—यत् । सुपां सुलुक् ० । पा०
७ । १ । ३६ । विभक्ते राकारः । रथस्येदं चक्रं तेन । रथाङ्गविशेषेण (दुष्पदा)
ईषद्दुःसुषु० । पा० ३ । ३ । १२६ । दुर्+पद गतौ—खल् । दुष्प्राप्तेण ।
अतिशीघ्रगामिना (अवृणक्) वृजी वर्जने—लडि मध्यमैकवचनम् । अव-
र्जयः । अनाशयः ॥

सेनाओं को अपने चक्र आदि हथियारों से उखाड़ दे, जैसे वेग चलने वाले रथ के पहियों से भूमि उखड़ जाती है ॥ ९ ॥

त्वमाविथ सुश्रवसं त्वीतिभिस्तव त्रामभिरिन्द्र तूर्वयाणम् ।
त्वमस्मै कुत्समतिथिग्वमायुं महे राज्ञे यूने अरन्धनायः ॥१०॥
त्वम् । आविथ । सु-श्रवसम् । तव । ऊ-ति-भिः । तव । त्राम-
भिः । इन्द्र । तूर्वयाणम् ॥ त्वम् । अस्मै । कुत्सम् । अतिथि-
ग्वम् । आयुम् । महे । राज्ञे । यूने । अरन्धनायः ॥ १० ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [वड़े पेश्वर्यवान् सेनापति] (त्वम्)
तू ने (सुश्रवसम्) बड़ी कीर्ति वाले, (तूर्वयाणम्) शत्रुओं को मारने वाले
शूरों के चलाने वाले वीर को (तव) अपनी (ऊतिभिः) रक्षाओं के साथ
और (तव) अपने (त्रामभिः) पालन साधनों के साथ (आविथ) बचाया
है । (त्वम्) तू (अस्मै) इस- (महे) पूजनीय, (यूने) स्वभाव से बलवान्
(राज्ञे) राजा के लिये (कुत्सम्) मिलनसार ऋषि, (अतिथिग्वम्) अति-
थियों को प्राप्त होने वाले (आयुम्) चलते हुये मनुष्य को (अरन्धनायः) पूरे
धनी के समान आचरण करता रहे ॥ १० ॥

१०—(त्वम्) (आविथ) ररत्तिथ (सुश्रवसम्) बहुकीर्तिमन्तं शुद्ध-
परिद्धतम् (तव) स्वकीयाभिः (ऊतिभिः) रक्षाभिः (तव) स्वकीयैः
(त्रामभिः) त्रैङ् पालने—मनिन् । पालनसाधनैः (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान्
सेनापते (तूर्वयाणम्) तूर्वी हिंसायाम्—अच + या गतौ—ल्युट् । तूर्वाणां
शत्रुहिंसकानां शूराणां यानं गमनं यस्मात् तं वीरम् (त्वम्) (अस्मै) युध्य-
मानाय (कुत्सम्) अ० ४ । २६ । ५ । कुस संश्लेषणे—सप्रत्ययः । सस्य न ।
संगतिशीलम् ऋषिम् (अतिथिग्वम्) म० ८ । अतिथीनां त्रिदुषां प्रापकम्
(आयुम्) इन्द्रसीणः । उ० १ । २ । इण् गतौ—उण् । आयत्रो मनुष्यनाम—
निघ० २ । ३ । गतिशीलं मनुष्यम् (महे) पूजनीयाय (राज्ञे) प्रधानशास-
काय (यूने) निसर्गबलवते (अरन्धनायः) अरन्धन—क्यङ्, लिङ्गिरूपम् ।
अरमलं धनं यस्य स इवाचरेः ॥

भाषार्थ—राजपुरुष सेनापति लोग अपने राजा के बचाने के लिये युद्ध परिडित उपकारी वीरों की सदा रक्षा करते रहें ॥ १० ॥

य उद्दृचीन्द्र देवगोपाः सखायस्ते शिवतमा असीम ।

त्वा स्तोषाम् त्वया सुवीरा द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः ॥११

ये । उद्-ऋचि । इन्द्र । देव-गोपाः । सखायः । ते । शिव-
तमाः । असीम ॥ त्वाम् । स्तोषाम् । त्वया । सु-वीराः ।
द्राघीयः । आयुः । प्र-तरम् । दधानाः ॥ ११ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (उद्दृचि)
उत्तम स्तुति के बीच (देवगोपाः) विद्वानों से रक्षा किये गये (ये) जो हम
(ते) तेरे (सखायः) मित्र होकर (शिवतमाः) अत्यन्त आनन्द युक्त
(असीम) हों । (त्वया) तेरे साथ (सुवीराः) बड़े वीरों वाले और
(द्राघीयः) अधिक लम्बे और (प्रतरम्) अधिक श्रेष्ठ (आयुः) जीवन को
(दधानाः) रखते हुये वे हम (त्वाम्) तुम्हें (स्तोषाम्) सराहते रहें ॥ ११ ॥

भाषार्थ—राजा और प्रजा आपस में प्रीति करके प्रयत्न करें कि सब
मनुष्य पुरुषार्थी वीर होकर सुख के साथ पूर्ण आयु भोगें ॥ ११ ॥

इति तृतीयेऽनुवाके प्रथमः पर्यायः ॥

सूक्तम् २२ ॥ [सूक्तानि २२-२५ द्वितीयः पर्यायः ॥]

१-६ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ४, ५ निचृद् गायत्री; २, ३, ६ गायत्री ॥

राजप्रजाधर्मोपदेशः—राजा और प्रजा के धर्म का उपदेश ॥

११—(ये) वयम् (उद्दृचि) अ० ६ । ४= । १ । उत्तमायां स्तुतौ
(इन्द्र) हे परमैश्वर्यवन् राजन् (देवगोपाः) विद्वद्भिः पालिताः (सखायः)
सुहृदः सन्तः (ते) तव (शिवतमाः) अतिशयेन कल्याणयुक्ताः (असीम)
अस भुवि—लोट् । भवाम् (त्वाम्) (स्तोषाम्) स्तौतेलोडि सिबा-
गमश्चान्दसः । वयं स्तवाम् (त्वया) (सुवीराः) श्रेष्ठवीरोपेताः (द्राघीयः)
दीर्घतरम् (आयुः) जीवनम् (प्रतरम्) प्रकृष्टतरम् (दधानाः) धरन्तः ॥

अभि त्वा वृषभा सुते सुतं सुजामि पीतये ।

तुम्पा व्यश्नुही मदम् ॥ १ ॥

अभि । त्वा । वृषभ् । सुते । सुतम् । सुजामि । पीतये ॥

तुम्प । वि । अश्नुहि । मदम् ॥ १ ॥

भाषार्थ—(वृषभ) हे वीर ! (सुते) निचोड़ने पर (सुतम्) निचोड़े हुये [सोम रस] को (पीतये) पीने के लिये (त्वा अभि) तुझे (सुजामि) मैं देता हूँ । (तुम्प) तू तृप्त हो और (मदम्) आनन्द को (वि अश्नुहि) प्राप्त हो ॥ १ ॥

भाषार्थ—जैसे राजा सड़ू वैद्यों द्वारा सोम आदि उत्तम औषधियों के सेवन से प्रसन्न रहे, वैसे ही मनुष्य वेद आदि सत्य शास्त्रों का तत्त्व ग्रहण कर के आनन्द पावे ॥ १ ॥

मन्त्र १—३ । ऋग्वेद में हैं—= । ४५ । २२—२४ तथा सामवेद में हैं—
७० १ । २ तृच ७ तथा मन्त्र १ सामवेद में है—पू० २ । ७ । ७ ॥

मा त्वा मुरा अविष्यवी उपहस्वान् आ दभन् ।

माकीं ब्रह्मद्विषो वनः ॥ २ ॥

मा । त्वा । मुराः । अविष्यवः । मा । उप-हस्वानः । आ ।

दभन् ॥ माकींम् । ब्रह्म-द्विषः । वनः ॥ २ ॥

भाषार्थ—(त्वा) तुझ को (मा) न तौ (मुराः) मूढ़ (अविष्यवः) हिंसा चाहने वाले और (मा) न (उपहस्वानः) ठट्ठा करने वाले लोग

१—(अभि) प्रति (त्वा) त्वाम् (वृषभ) हे वीर । हे इन्द्र (सुते) अभिषुते । संस्कृते (सुतम्) अभिषुतं संस्कृतं सोमम् (सुजामि) त्यजामि । ददामि (पीतये) पानाय (तुम्प) तुम्प तृप्ती । तृप्नो भव (वि) विविधम् (अश्नुहि) अशु व्याप्तौ—परस्मैपदम् । अश्नुष्व । प्राप्नुहि (मदम्) हर्षम् ॥

२—(मा) निषेधे (त्वा) त्वाम् (मुराः) मूढाः—निर्दो-६ । ८ (अविष्यवः) अ० ११ । २ । २ । अत्र हिंसायाम्—इति, क्यञ्च, उपस्ययः । पर-हिंसेच्छवः (मा) निषेधे (उपहस्वानः) उप+हसतेः—वृत्ति । उपहास-

(आ दभन्) कमी दवावें । तू (ब्रह्मद्विषः) वेद के वैरियों को (माकीम्) मत (वनः) सेवन कर ॥ २ ॥

भावार्थ—विद्वान् राजा सदा श्रेष्ठ कर्म करे, जिस से कोई दुष्ट उसका उपहास आदि न कर सके ॥ २ ॥

इह त्वा गोपरीणसा मुहे मन्दन्तु राधसे ।

सरो गौरो यथा पिब ॥ ३ ॥

इह । त्वा । गो-परीणसा । मुहे । मन्दन्तु । राधसे ॥

सरः । गौरः । यथा । पिबु ॥ ३ ॥

भावार्थ—(इह) यहां पर (त्वा) तुझ को (गोपरीणसा) भूमि की प्राप्ति से (मुहे) बड़े (राधसे) धन के लिये (मन्दन्तु) लोग प्रसन्न करें । तू [आनन्द रस को] (पिब) पी, (यथा) जैसे (गौरः) गौर हरिण (सरः) जल [पीता है] ॥ ३ ॥

भावार्थ—राजा राज्य पाकर प्रजा जनों को उन्नति के साथ प्रसन्न करके प्रसन्न होवे, जैसे प्यासा हरिण जल पी कर आनन्द पाता है ॥ ३ ॥

शुभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्च यथा विदे ।

सुनुं सुत्यस्य सत्पतिम् ॥ ४ ॥

शुभि । प्र । गो-पतिम् । गिरा । इन्द्रम् । अर्च । यथा ।

विदे ॥ सुनुम् । सुत्यस्य । सत्-पतिम् ॥ ४ ॥

कर्तारः (आ) समन्तात् (दभन्) दम्भु दम्भे—लुङ् । हिंसन्तु (माकीम्) निषेधे । मा शब्दार्थे (ब्रह्मद्विषः) वेदद्वेषुन् (वनः) वन संभक्तौ—लुङ् । भजेयाः ॥

३—(इह) अत्र राज्ये (त्वा) त्वाम् (गोपरीणसा) एष कौटिल्ये गतौ च—किप् । नसत इति गतिकर्मा—निघ० २ । १४ । भूमिप्राप्त्या (मुहे) पूजनीयाय । महते (राधसे) धनाय (सरः) जलम् (गौरः) गौरमृगः (यथा) (पिब) आनन्द रसस्य पानं कुरु ॥

भाष्यार्थ—[हे मनुष्य !] (गोपतिम्) पृथिवी के पालक, (सत्यस्य) सत्य के (सूनुम्) प्रेरक, (सत्पतिम्) सत्पुरुषों के रक्षक (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले राजा] को, (यथा) जैसा (विदे) वह है, (गिरा) स्तुति के साथ (अभि) सब ओर से (प्र) अच्छे प्रकार (अर्च) तू पूज ॥ ४ ॥

भावार्थ—जैसे राजा उत्तम गुण वाला हो, वैसे ही मनुष्यो को उसकी यथार्थ बड़ाई करनी चाहिये ॥ ४ ॥

मन्त्र ४—६ ऋग्वेद में हैं—८। ६६ [सायणभाष्य पृ८]। ४—६ और सामवेद में हैं—३० ७। १। तृच १ और मन्त्र १ सामवेद में है—पू० २। ८। ४। तीनों मन्त्र आगे हैं—अथर्व० २०। ६२। १—३ ॥

आ हरयः ससृज्जिरेरुषीरधि बर्हिषि ।

यत्राभि संनवामहे ॥ ५ ॥

आ । हरयः । ससृज्जिरे । अरुषीः । अधि । बर्हिषि ॥

यत्र । अभि । सुम्-नवामहे ॥ ५ ॥

भाष्यार्थ—(हरयः) दुख हरने वाले मनुष्य (अरुषीः) गति शील [उद्योगी] प्रजाओं को (बर्हिषि) बढ़ती के स्थान में (अधि) अधिकार पूर्वक (आ ससृज्जिरे) लाये हैं, (यत्र) जहां पर [तुम्हें राजा को] (अभि) सब ओर से (संनवामहे) हम मिलकर सराहते हैं ॥ ५ ॥

४—(अभि) सर्वतः (प्र) प्रकर्षेण (गोपतिम्) भूपालम् (गिरा) स्तुत्या (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं राजानम् (अर्च) पूजय (विदे) विद सत्तायाम्, लडर्ये लिट्, छान्दसं रूपम् । विविदे । विद्यते स इन्द्रः (सूनुम्) अ० ६। १। २। षू प्रेरणे—नु । प्रेरकम् । प्रचारकम् (सत्यस्य) यथार्थज्ञानस्य (सत्पतिम्) सत्पुरुषाणां रक्षकम् ॥

५—(हरयः) हरयो मनुष्यनाम—निघ० २। ३। दुःखंहतरि विद्वांसः (आ ससृज्जिरे) सृज विसर्गे—लिट्, रुडागमः । आ ससृजिरे । आनीतवन्तः (अरुषीः) अ० २०। १७। ६। ऋ गतौ—उपच्, डीप् । गतिशीलाः । उद्योगिनीः प्रजाः (अधि) अधिकारपूर्वकम् (बर्हिषि) बृह वृद्धौ—इसुन् । वृद्धिस्थाने (यत्र) यस्मिन् स्थाने (अभि) सर्वतः (संनवामहे) एव स्तुतौ । राजानं त्रय मिलित्वा स्तुमः ॥

भावार्थ—जिस राजा की सुनीति से विद्या द्वारा उन्नति होवे, प्रजा सहित विद्वान् जन उसके गुणों का गान करें ॥ ५ ॥

इन्द्राय गावं आशिरं दुदुहे वृज्रिणे मधुं ।

यत् सीमुपहूरे विदत् ॥ ६ ॥

इन्द्राय । गावंः । आ-शिरम् । दुदुहे । वृज्रिणे । मधुं ॥

यत् । सीम् । उप-हूरे । विदत् ॥ ६ ॥

भावार्थ—(वृज्रिणे) वृज्रधारी (इन्द्राय) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले राजा] के लिये (गावंः) वेदवाणियों ने (आशिरम्) सेवने वा पकाने योग्य पदार्थ [दूध, दही, घी आदि] को और (मधु) मधुविद्या [यथार्थ ज्ञान] को (दुदुहे) भर दिया है । (यत्) जब कि उसने [उन वेदवाणियों] को (उपहूरे) अपने पास (सीम्) सब प्रकार (विदत्) पाया ॥ ६ ॥

भावार्थ—ऐश्वर्यवान् पुरुष वेदवाणियों से सुशिक्षित होकर दूध आदि भोग्य पदार्थ प्राप्त करके यथार्थ ज्ञान बढ़ावे ॥ ६ ॥

सूक्तम् २३ ॥

१—६ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १—७, ६ गायत्री ; = निचूद् गायत्री छन्दः ॥

राजप्रजाकर्तव्योपदेशः—राजा और प्रजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

६—(इन्द्राय) परमैश्वर्यवते राज्ञे (गावंः) वेदवाण्यः (आशिरम्) अपस्पृधेथामानृचु० । पा० ६ । १ । ३६ । आङ् + श्रिञ् सेवायां शीञ् पाके वा—किप्, धातोः शिर इत्यादेशः । यद्वा । अशेर्नित् । ङ० १ । ५२ । आङ् + अश भोजने अश व्याप्तौ वा—किरन् नित् । आशीराश्रयणाद् वाश्रयणाद् वा, अशे-यमितराशीराशास्तेः—निर० ६ । = । आश्रययोग्यं परिपाकयोग्यं वा दुग्ध-वधिघृतादिपदार्थम् (दुदुहे) दुह प्रपूरणे लिटि रुट् । दुदुहिरे । पूरितवत्यः (वृज्रिणे) वृज्रधारिणे (मधु) मधुविद्याम् । यथार्थज्ञानम् (यत्) यदा (सीम्) अचित्तृस्तृ० तु० ३ । १५६ । शिञ् बन्धने—ईप्रत्ययः । सीमिति परिग्रहार्थीयो वा पदपूरणो वा सर्वत इति वा—निर० १ । ७ । सर्वतः (उपहूरे) उप + ह्वृ कौटिल्ये—अप् । निङ्गटे । शुद्धे (विदत्) विद्वत् लाभे—लुङ् । प्राप्तवान् स इन्द्र-स्ता वाणीः ॥

आ तू न इन्द्र मद्रथग्धुवानः सोमपीतये ।

हरिभ्यां याह्यद्रिवः ॥ १ ॥

आ । तु । नः । इन्द्र । मद्रथक् । हुवानः । सोम-पीतये ॥

हरि-भ्याम् । याहि । अद्रि-वः ॥ १ ॥

भाष्यार्थ—(अद्रिवः) हे वज्रधारी (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (सोमपीतये) पदार्थों की रक्षा के लिये (हुवानः) बुलाया गया, (मद्रथक्) मुझ को प्राप्त होता हुआ तू (हरिभ्याम्) दो घोड़ों [के समान व्यापक बल और पराक्रम] से (नः) हम को (तु) शीघ्र (आ-याहि) प्राप्त हो ॥ १ ॥

भावार्थ—राजा अपनी प्रजा के पदार्थों की रक्षा के लिये बल और पराक्रम के साथ शीघ्र उपाय करे ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—३ । ४१ । १—६ ॥

सुतो होता न ऋत्विग्यस्तिस्तुरे बृहिरानुषक् ।

अयुञ्जन् प्रातरद्रयः ॥ २ ॥

सुतः । होता । नः । ऋत्विग्यः । तिस्तुरे । बृहिः । आनुषक् ॥

अयुञ्जन् । प्रातः । अद्रयः ॥ २ ॥

१—(आ याहि) आगच्छ (तु) शीघ्रम् (नः) अस्मान् (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवन् राजन् (मद्रथक्)- ऋत्विग्धृक्० । पा० ३ । २ । ५६ । अस्मत् + अञ्चु गतिपूजनयोः—किन् । प्रत्ययोत्तरपदयोश्च । पा० ७ । २ । ६८ । अस्म-ञ्चुब्दस्यैकवचने मपर्यन्तस्य म इत्यादेशः । विष्वग्देवयोश्च टेरद्रथञ्चताव-प्रत्यये । पा० ६ । ३ । ६२ । इति टैः अद्रि इत्यादेशः । मास् अञ्चति प्राप्नोति यः सः (हुवानः) ह्यमानः (सोमपीतये) अ० १७ । १ । १० । सोमानां पदार्थानां पीती रक्षयां यस्मिन् व्यवहारे तस्मिन्—दयानन्दभाष्य ऋक्० १ । २१ । ३ (हरिभ्याम्) अश्वसदृशाभ्यां व्यापकाभ्यां बलपराक्रमाभ्याम् (अद्रिवः) अ० २० । २० । ४ । हे वज्रिन् ॥

भाषार्थ—(नः) हमारा (होता) ग्रहण करने वाला, (ऋत्विजः) सब ऋतुओं में प्राप्त होने वाला [राजा] (सत्तः) बैठा है, (बर्हिः) उत्तम आसन (आनुषक्) निरन्तर [यथाविधि] (तिस्तिरे) बिछाया गया है, (अद्रयः) मेघ [के समान उपकारी पुरुष] (प्रातः) प्रातः काल में (अयुजन्) जुड़ गये हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग एकत्र होकर प्रजापति के राजा का उत्तम आसन आदि से सत्कार कर के हित के लिये निवेदन करें ॥ २ ॥

इमा ब्रह्मं ब्रह्मवाहः क्रियन्तु आ बर्हिः सीद ।

वीहि शूर पुरोलाशम् ॥ ३ ॥

इमा । ब्रह्मं । ब्रह्म-वाहः । क्रियन्ते । आ । बर्हिः । सीदु ॥

वीहि । शूर । पुरोलाशम् ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(ब्रह्मवाहः) हे अन्न पहुंचाने वाले ! (इमा) यह (ब्रह्म) वेद ज्ञान (क्रियन्ते) किये जाते हैं, (बर्हिः) उत्तम आसन पर (आ सीद) बैठ । (शूर) हे शूर । [दुष्ट नाशक] (पुरोलाशम्) अच्छे बने हुए अन्न का

२—(सत्तः) षड्लु विशरणगत्यत्रसादनेषु—क । निषण्णोऽस्ति (होता) आदाता (नः) अस्माकम् (ऋत्विजः) अ० ३ । २० । १ । सर्वकालेषु प्राप्तेनः (तिस्तिरे) स्तृञ् आच्छादने—कर्मणि लिट् । ऋत इद्गधातोः । पा० ७ । १ । १०० । इति इत्वम्, द्विर्वचनम् । शपूर्वाः खयः । पा० ७ । ४ । ६१ । इति तकारस्य शेषः । लिट्स्तम्भयोरेशिरेच् । पा० ३ । ४ । ८१ । इति षश् इत्यादेशः । आच्छादितं अभूव । (बर्हिः) उत्तममासनम् (आनुषक्) अ० ४ । ३२ । १ । निरन्तरम् । यथाविधि (अयुजन्) सगता अभूवन् (प्रातः) प्रातःकाले (अद्रयः) अद्रिर्मेघनाम—निघ० १ । १० । मेघा इवोपकारिणः पुरुषाः ॥

३—(इमा) इमानि (ब्रह्म) ब्रह्माणि । वेदज्ञानानि (ब्रह्मवाहः) वसे र्षित् । उ० ४ । २१८ । वह-प्रापये—असुन् णित् । ब्रह्म अन्ननाम—निघ० २ । ७ । हे अन्नप्रापक । अन्नदातः (क्रियन्ते) अनुष्ठीयन्ते (बर्हिः) उत्तमासनम् (आसीद) उपविश (वीहि) भक्षय (शूर) हे दुष्टनाशक (पुरोलाशम्) •

(वीहि) भोजन कर ॥ ३ ॥

भाषार्थ—प्रजागण अन्नदाता राजा को उत्तम आसन पर बैठा कर और उत्तम पदार्थ भेट कर के वेद अनुकूल निवेदन करें ॥ ३ ॥

रुरन्धि सर्वनेषु ण सुषु स्तोमेषु वृत्रहन् ।

उक्थेष्विन्द्र गिर्वणः ॥ ४ ॥

रुरन्धि । सर्वनेषु । नः । सुषु । स्तोमेषु । वृत्र-हन् ॥

उक्थेषु । इन्द्र । गिर्वणः ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(वृत्रहन्) हे धन रखने वाले । (गिर्वणः) हे स्तुतियों से सेवनीय (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (ण) इन (सर्वनेषु) पेश्वर्यों में, (स्तोमेषु) यडाइयों में और (उक्थेषु) वचनों में (नः) हमें (रुरन्धि) रमा ॥ ४ ॥

भाषार्थ—राजा प्रयत्न करे कि सब लोग मन, वचन, कर्म से पुरुषार्थ करके सुखी रहें ॥ ४ ॥

मतयः सोमपामुरुं रिहन्ति शवसुस्पतिम् ।

इन्द्रं वृत्सं न मातरः ॥ ५ ॥

मतयः । सोम-पाम् । उरुम् । रिहन्ति । शवसः । पतिम् ॥

इन्द्रम् । वृत्सम् । न । मातरः ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(मतयः) बुद्धिमान् लोग (सोमपाम्) पेश्वर्य के रक्षक

अ० २।२।२२। सुसंस्कृतमक्षम् ॥

४—(रुरन्धि) रमतेलोटि शपः श्लुः, हेर्धिः, अन्तर्गतण्यर्थः । रमय (सर्वनेषु) पेश्वर्येषु (नः) अस्मान् (ण) (स्तोमेषु) प्रशंसासु (वृत्रहन्) वृत्रं धन नाम—निघ० २।१०। हन्तिर्गतिकर्मा—निघ० २।१४। हे धनप्रापक (उक्थेषु) वचनेषु (इन्द्र) हे परमेश्वर्यवन् राजन् (गिर्वणः) अ० २०।१५। ४। हे स्तुतिभिः सेवनीय ॥

५—(मतयः) मेधाविनः—निघ० ३।१५ (सोमपाम्) पेश्वर्यरक्षकम्

(उरुम्) महान्, (श्वसः) वन के (पतिम्) पालने वाले (इन्द्रम्) इन्द्र [वडे ऐश्वर्यवान् राजा] को (रिहन्ति) पियार करते हैं; (न) जैसे (मातरः) मातायें [गौर्यें] (वत्सम्) बछड़े को ॥ ५ ॥

भावार्थ—जैसे गौर्यें अपने बछड़ों से प्रीति करती हैं, वैसे ही बुद्धिमान् लोग न्यायकारी राजा से प्रीति करें ॥ ५ ॥

स मन्दस्वा ह्यन्धसो राधसे तुन्वा मुहे ।

न स्तोतारं निदे करः ॥ ६ ॥

सः । मन्दस्व । हि । अन्धसः । राधसे । तुन्वा । मुहे ॥

न । स्तोतारम् । निदे । करः ॥ ६ ॥

भाषार्थ—[हे राजन् ।] (सः) सो तू (हि) ही (तन्वा) अपने शरीर के साथ (महे) बडे (राधने) धन के लिये (अन्धसः) अन्न से (मन्दस्व) आनन्द कर, और (स्तोतारम्) स्तुति करने वाले विद्वान् को (निदे) निन्दा के लिये (न) मत (करः) कर ॥ ६ ॥

भावार्थ—शरीर और आत्मा की उन्नति चाहने वाला पुरुष विद्वानों को निन्दा कभी न करे ॥ ६ ॥

वृथमिन्द्र त्वाययो ह्यविष्मन्तो जरामहे ।

उत त्वमस्मयुषसो ॥ ७ ॥

वृथम् । इन्द्र । त्वा-यवः । ह्यविष्मन्तः । जरामहे ॥

उत । त्वम् । अस्म-युः । वृषो इति ॥ ७ ॥

(उरुम्) महान्तम् (रिहन्ति) रिहतिरर्चनिकर्मा—निघ० ३ । १४ । कामयन्ते (श्वसः) बलस्य (पतिम्) पालकम् (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं राजानम् (वत्सम्) गोशिशुम् (न) इव (मातरः) जनन्यो गावः ॥

६—(सः) स त्वम् (मन्दस्व) आनन्द (हि-) अवश्यम् (अन्धसः) अन्नात् (राधसे) संसाधकाय धनाय (तन्वा) शरीरेण (महे) महते (न) निषेधे (स्तोतारम्) स्तावकं विद्वांसम् (निदे) रिदि कुत्सायाम्—किप्, लुभभावः । निन्दायै (करः) करोतेर्लेटि, अडागमः । कुर्याः ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] (त्वायवः) तुम्हें चाहने वाले (उत) और (हविष्मन्तः) देने योग्य वस्तुओं वाले (वयम्) हम [तुम्हें को] (जरामहे) सराहते हैं । (वसो) हे वसु ! [श्रेष्ठ वा निर्वास कराने वाले] (त्वम्) त् (अस्मयुः) हमें चाहने वाला है ॥ ७ ॥

भाषार्थ—राजा और प्रजा प्रीति कर के उन्नति के साथ सुखी रहें ॥ ७ ॥

मारे अस्मद् वि मुमुचो हरिप्रियार्वाङ् याहि ।

इन्द्र स्वधावो मत्स्वेह ॥ ८ ॥

मा । आरे । अस्मत् । वि । मुमुचुः । हरि-प्रिय । अर्वाङ् ।
याहि ॥ इन्द्र । स्वधा-वुः । मत्स्व । इह ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(हरिप्रिय) हे मनुष्यों के प्रिय ! [अपने को] (अस्मत्) हम से (आरे) दूर (मा वि मुमुचुः) कभी न छोड़, (अर्वाङ्) इधर चलता हुआ (याहि) चल । (स्वधावः) हे बहुत अन्न वाले (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (इह) यहाँ (मत्स्व) आनन्द कर ॥ ८ ॥

७—(वयम्) (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवन् राजन् (त्वायवः) सुप आत्मनः क्यच् । पा० ३ । १ । ८ । युष्मद्—क्यच् । प्रत्ययेत्तरपदयोश्च । पा० ७ । २ । ६८ । मपर्यन्तस्य त्वादेशः । कयाच्छन्दसि । पा० ३ । २ । १७० । इति उप्रत्ययः । त्वां कामयमानाः (हविष्मन्तः) दानव्यवस्तूपेताः (जरामहे) स्तुमः—त्वाम् (उत) अपि च (त्वम्) (अस्मयुः) अस्मद्—क्यच्चि उप्रत्ययो दकारलोप-शङ्खन्दिंसः । अस्मान् कामयमानः (वसो) हे श्रेष्ठ । निवासयितः ॥

८—(मा) निषेधे (आरे) दूरे (अस्मत्) अस्मत्तः (वि) वियुज्य (मुमुचुः) मुच्ल मोक्षणे एयन्तस्य छान्दसे लुङि चङि रूपम्, अभ्यासस्य दीर्घाभावः, माङ्योगेऽडभावः । मौच्य—आत्मानम् (हरिप्रिय) हरयो मनुष्य—नाम—निघ० २ । ३ । हरीणां मनुष्याणां प्रिय हितकर (अर्वाङ्) अभिमुखं गच्छन् (याहि) गच्छ (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवन् राजन् (स्वधावः) बह्वन्नघन् (मत्स्व) आनन्द (इह) अन्न ॥

भावार्थ—जहां पर राजा और प्रजा प्रीति के साथ रहते हैं और कोई किसी को नहीं छोड़ते, उस राज्य में अन्न आदि बढ़ते रहते हैं ॥ ८ ॥

अर्वाञ्चं त्वा सुखे रथे वहतामिन्द्र केशिना ।

घृतस्नू बर्हिः आसदे ॥ ८ ॥

अर्वाञ्चम् । त्वा । सु-खे । रथे । वहताम् । इन्द्र । केशिना ॥

घृतस्नु इति घृत-स्नू । बर्हिः । आ-सदे ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (सुखे) सुख देने वाले [सब ओर चलने वाले] (रथे) रथ में (आसदे) बैठने के लिये (केशिना) प्रकाश [अग्नि] वाले और (घृतस्नू) जल को भाप से टपकाने वाले [दो पदार्थ] (अर्वाञ्चम्) नीचे चलते हुये (त्वा) तुम्हें (बर्हिः) आकाश में (वहताम्) पहुंचावे ॥ ८ ॥

भावार्थ—विद्वान् राजा विद्वानी शिल्पियों द्वारा अग्नि और जल से चलने वाले विमान को पृथिवी से आकाश में और आकाश से पृथिवी पर जाने के लिये बनवावे ॥ ८ ॥

सूक्तम् २४ ॥

१—६ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ४—७ गायत्री, २, ३, ८, ६ त्रिचूद्र गायत्री ॥

विद्वद्गुणोपदेशः—विद्वानों के गुणों का उपदेश ॥

उप नः सुतमा गहि सोममिन्द्र गर्वाशिरम् ।

६—(अर्वाञ्चम्) अधोगच्छन्तम् (त्वा) त्वाम् (सुखे) सुखकरे सर्वदिक्षु गमनशीले (रथे) रमणीये याने विमाने (वहताम्) द्विकर्मकः । प्रापयताम् (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवन् राजन् (केशिना) (अ० ६ । १० । २६ । काश्ट दीप्तौ—अच् घञ् वा, इति, काशी सन् केशी । केशी केश रश्मयस्तैस्तद्वान् भवति काशनाद् वा प्रकाशनाद् वा—निर० १२ । २५ । प्रकाशवन्तौ । अग्नि-युक्तौ (घृतस्नू) घृतम् उदकनाम—निघ० १ । १२ । षण् प्रसवणे—किप् । घृतस्य जलस्य स्नु वाष्पेण स्रवणं ययोस्तौ पदार्थौ (बर्हिः) अन्तरिक्षं प्रति—निघ० १ । ३६ (आसदे) कृत्यार्थे तवैकेन्यत्वनः । पा० ३६ । १४ । सीदतेः केन्-प्रत्ययः कृत्यार्थे । आसादनायः उपवेशनाय ॥

हरिभ्यां यस्ते अस्मयुः ॥ १ ॥

उप । नः । सुतम् । आ । गृहि । सोमम् । इन्द्र ।
गो-आशिरम् ॥ हरि-भ्याम् । यः । ते । अस्म-युः ॥ १ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [वड़े पेश्वर्य वाले विद्वान्] (नः) हमारे (सुतम्) सिद्ध किये हुये, (गवाशिरम्) पृथिवी पर फैले हुये (सोमम्) पेश्वर्य को (उप) समीप में (आ गृहि) सब ओर से प्राप्त हो, (यः) जो (ते) तेरा [पेश्वर्य] (हरिभ्याम्) दो घोड़ों [के समान व्यापक बल और पराक्रम] से (अस्मयुः) हमें चाहने वाला है ॥ १ ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग पृथिवी के सब वैभवों को एक दूसरे के लिये-
उपयोगी बनावें ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—३। ४२। १—६ ॥

तमिन्द्र मदमा गृहि बर्हिष्ठां ग्रावभिः सुतम् ।

कुविन्नुवस्य तृष्णवः ॥ २ ॥

तम् । इन्द्र । मदम् । आ । गृहि । बर्हिः-स्याम् । ग्राव-भिः ।

सुतम् ॥ कुवित् । नु । अस्य । तृष्णवः ॥ २ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [वड़े पेश्वर्य वाले विद्वान्] तू (ग्रावभिः)
परिडतों करके (सुतम्) सिद्ध किये हुये, (बर्हिष्ठाम्) उत्तम आसन पर

१—(उप) समीपे (नः) अस्माकम् (सुतम्) संस्कृतम् (आ)
समन्तात् (गृहि) प्राप्नुहि (सोमम्) पेश्वर्यम् (इन्द्र) हे परमेश्वर्यवान्
विद्वान् (गवाशिरम्) अ० २० । २२ । ६ । अशेर्नित् । उ० १ । ५२ । गो + आङ् +
अश्नु व्याप्तौ—किरन् । पृथिव्यां व्याप्तम् (हरिभ्याम्) । अ० २० । २३ । १ ।
अश्वसदृशाभ्यां व्यापकाभ्यां बलपराक्रमाभ्याम् (यः) सोमः । पेश्वर्यम् (ते)
तव (अस्मयुः) अ० २० । २३ । ७ । अस्मान् कामयमानः ॥

२—(तम्) प्रसिद्धम् (इन्द्र) (मदम्) मदी हर्षे—अच् । कल्याणकरे
पदार्थम् (आ) समन्तात् (गृहि) प्राप्नुहि (बर्हिष्ठाम्) बर्हिस् + ष्ठा गति-

रक्षणे हुये (तम्) उस (मदम्) कल्याणकारक पदार्थ को (तु) शीघ्र (आ) सब प्रकार (गहि) प्राप्त हो, ये [परिदृत लोग] (कुवित्) बहुत प्रकार से (अस्य) इस [कल्याण कारक पदार्थ] का (तृणवः) इर्ष पाने वाले हैं ॥२॥

भावार्थ—विद्वान् लोग प्रीति के साथ एक दूसरे को उत्तम पदार्थों का दान कर के आनन्द पावें ॥ २ ॥

इन्द्रमित्था गिरु ममाच्छागुरिषिता इतः ।

आवृते सोमपीतये ॥ ३ ॥

इन्द्रम् । इत्था । गिरः । मम । अच्छ । अगुः । इषिताः ।

इतः ॥ आ-वृते । सोम-पीतये ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(इत्था) इस प्रकार से (मम) मेरी (इषिताः) प्रेरणा की गयी (गिरः) वाणियों (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले पुरुष] को (सोमपीतये) सोमरस [उत्तम ओषधि] पीने के लिये (आवृते) घूमने को (अच्छ) अच्छे प्रकार (इतः) यहां से (अगुः) गयी हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग विद्वानों का सत्कार उत्तम रीति से करते रहें ॥ ३ ॥

इन्द्रं सोमस्य पीतये स्तोमैरिह हवामहे ।

उक्थेभिः कुविदागमत् ॥ ४ ॥

निवृत्तौ—किप् । वहिषि उत्तमासने स्थितम् (आवभिः) अ० ३ । १० । ५ । गृ विज्ञापने स्तुतौ च—कनिप् । शास्त्रविज्ञापकैः परिदृतैः (सुतम्) सस्कृतम् (कुवित्) बहुनाम-निघ० ३ । १ । बहुप्रकारेण (तु) क्षिप्रम् (अस्य) कल्याणकरस्य पदार्थस्य (तृणवः) असिगृधिधृषिपिः क्तुः । पा० ३ । २ । १४० । तृप प्रीयने—कत्तु । तृप्तिशीलाः ॥

३—(इन्द्रम्) परमेश्वर्यवन्तं पुरुषम् (इत्था) अनेन प्रकारेण (गिरः) वाणयः (मम) (अच्छ) सुरीत्या (अगुः) इण् गतौ—लुङ् । अगमन् । प्राप्ताः (इषिताः) प्रेरिताः (इतः) अस्मात् स्थानात् (आवृते) वृत्तु वर्तने-सम्पदादिः किप् । आजर्तनाय । आगमनाय (सोमपीतये) महौषधिरसस्य पानाय ॥

इन्द्रम् । सोमस्य । पीतये । स्तोमैः । इह । हवामहे ॥
उक्थेभिः । कुवित् । आ-गमत् ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(इन्द्रम्) इन्द्र [वड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] को (सोमस्य) सोमरस [महौषधि] के (पीतये) पीने के लिये (स्तोमैः) स्तुतियों के साथ (इह) यहां (हवामहे) हम बुलाते हैं । वह (उक्थेभिः) अपने उपदेशों के साथ (कुवित्) बहुत बार (आगमत्) आत्रे ॥ ४ ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग विद्वानों के बुलाने से प्रसन्न होकर जाया आया करें ॥ ४ ॥

इन्द्र सोमाः सुता इमे तान् दधिष्व शतक्रतो ।
जठरे वाजिनीवसो ॥ ५ ॥

इन्द्र । सोमाः । सुताः । इमे । तान् । दधिष्व । शतक्रतो
इति शत-क्रतो ॥ जठरे । वाजिनीवसो इति वाजिनी-वसो ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(शतक्रतो) हे सैकड़ों कर्मों चा बुद्धियों वाले, (वाजिनी-वसो) अन्नयुक्त क्रियाओं में बसाने वाले । (इन्द्र) इन्द्र । [वड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] (जठरे) प्रसिद्ध हुये जगत् में (इमे) यह (सोमाः) पदार्थ (सुताः) उत्पन्न हुये हैं, (तान्) उनको (दधिष्व) धारण कर ॥ ५ ॥

४—(इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं पुरुषम् (सोमस्य) महौषधिरसस्य (पीतये) पीनाय (स्तोमैः) स्तोत्रैः (इह) अत्र (हवामहे) आह्वयामः (उक्थेभिः) कथनीयोपदेशैः (कुवित्) म० २ । बहुवारम् (आगमत्) गमेल्लेति अडागमः । आगच्छेत् ॥

५—(इन्द्र] हे परमैश्वर्यवन् (सोमाः) पदार्थाः (सुताः) निष्पन्नाः (इमे) दृश्यमानाः (तान्) (दधिष्व) धत्स्व । धर (शतक्रतो) हे बहुकर्मन् । बहुप्रज्ञ (जठरे) जनेररष्ट च । उ० ५ । ३८ । जनी प्रादुर्भावि—अरप्रत्ययः; उश्चान्तादेशः । प्रादुर्भूते जगति । जातेऽस्मिन् जगति दयानन्दभाष्ये (वाजिनीवसो) वाजोऽन्नम्—निघ० २ । ७ । तस्माद्—इति, डीप् । हे अन्नयुक्तासु क्रियासु वासयितः ॥

भावार्थ—मनुष्य सृष्टि के पदार्थों की विद्या जानकर पेश्वर्यवान् होवे ॥ ५ ॥

विद्या हि त्वा धनंजयं वाजेषु दधुषं कवे ।

अधा ते सुम्नमीमहे ॥ ६ ॥

विद्या । हि । त्वा । धनम्-जयम् । वाजेषु । दधुषम् । कवे ॥

अध । ते । सुम्नम् । ईमहे ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(कवे) हे विद्वान् ! (त्वा) तुझ को (हि) ही (धनंजयम्) धन जीतने वाला और (वाजेषु) सङ्ग्रामों में (दधुषम्) अत्यन्त निर्भय (विद्या) हम जानते हैं । (अध) इस लिये (ते) तेरे लिये (सुम्नम्) सुख की (ईमहे) हम प्रार्थना करते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य धनी, शूर और परोपकारी होवे, उसके लिये सुख पहुंचाने को सब प्रयत्न करें ॥ ६ ॥

इमसिन्द्रु गवाशिरं यवाशिरं च नः पिब ।

आगत्या वृषभिः सुतम् ॥ ७ ॥

इमम् । इन्द्रु । गो-आशिरम् । यव-आशिरम् । च । नः ।

पिब ॥ आ-गत्य । वृष-भिः । सुतम् ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले पुरुष] (नः) हमारे (इमम्) इस (वृषभिः) बलवानों करके (सुतम्)-सिद्ध किये गये (गवाशिरम्) पृथिवी पर फैले हुये (च) और (यवाशिरम्) अन्न के भोजन वाले

६—(विद्या) वयं जानीमः (हि) एव (त्वा) त्वाम् (धनंजयम्) अ० ३ । १४ । २ । धनस्य जेतारम् (वाजेषु) सङ्ग्रामेषु (दधुषम्) जि धृषा प्रागल्भ्ये यङ्लुकि पचाद्यच् । अतिप्रगल्भम् (कवे) हे मेधाविन्—निघ० ३ । १५ (अध) अध । अतः (ते) तुभ्यम् (सुम्नम्) सुखम् (ईमहे) याचामहे ॥

७—(इमम्) (इन्द्र) हे परमेश्वर्यवान् (गवाशिरम्) म० १ । पृथिव्यां व्याप्तम् (यवाशिरम्) अशेर्नित् । उ० १ । ५२ । यव + आङ् + अश, भोजने—किरन् । अन्नभोजनयुक्तं पदार्थम् (च) (नः) अस्माकम् (पिब) (आगत्य)

पदार्थको (आगत्य) आकर (पिव) पी ॥ ७ ॥

भावार्थ—मनुष्य संसार के बीच उत्तम पदार्थों का भोजन पान कर के बलवान् होवें ॥ ७ ॥

तुभ्येदिन्द्र स्व ओक्थे इ सोमं चोदामि पीतये ।

एष ररन्तु ते हृदि ॥ ८ ॥

तुभ्यं । इत् । इन्द्र । स्वे । ओक्थे । सोमम् । चोदामि ।

पीतये ॥ एषः । ररन्तु । ते । हृदि ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले जन] (तुभ्य) तेरे लिये (इत्) ही (स्वे) अपने (ओक्थे) घर में (पीतये) पीने को (सोमम्) सोमरस [महौषधि] (चोदयामि) भेजता हूँ । (एषः) यह (ते) तेरे (हृदि) हृदय में (ररन्तु) अन्यन्त रमे ॥ ८ ॥

भावार्थ—मनुष्य उत्तम उत्तम पदार्थों को रुचि के साथ खावें जिससे हृदय में उत्तम रस उत्पन्न होकर सब शरीर में फैले और बल बढ़े ॥ ८ ॥

त्वां सुतस्य पीतये मृतमिन्द्र हवामहे ।

कुशिकासो अवस्यवः ॥ ९ ॥

त्वाम् । सुतस्यं । पीतये । मृतम् । इन्द्र । हवामहे ॥

कुशिकासः । अवस्यवः ॥ ९ ॥

अस्मान् प्राप्य (वृषभिः) बलवद्भिः (सुतम्) साधितम् ॥

८—(तुभ्य) सुपां सुलुक्० । पा० ७ । १ । ३६ । विमकेर्लुक् । तुभ्यम् (इत्) एव (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवन् (स्वे) स्वकीये (ओक्थे) ऋहलोरर्थत् । पा० ३ । १ । १२४ । उच्च सनवाये—एयत् कृत्वं च । ओकसि । गृहे (सोमम्) महौषधिरसम् (चोदामि) प्रेरयामि (पीतये) पानाय (एषः) सोमः (ररन्तु) इमु क्रीडायाम्—यङ्लुकि लोट्, तुमभावश्छान्दसः साहितिको दीर्घः । भृशं रमताम् (ते) तव (हृदि) हृदये ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले पुरुष] (त्वां प्रत्नम्) तुझ पुराने को (सुतस्य) सिद्ध किये हुये रस के (पीतये) पीने के लिये (कुशिकासः) मिलने वाले, (अवस्यवः) रक्षा चाहने वाले हम (हवामहे) बुलाते हैं ॥ ६ ॥

भाषार्थ—मनुष्य अनुभवी पुराने बुद्धिमानों से आदर करके शिखा लेवें ॥ ६ ॥

सूक्तम् २५ ॥

१—७॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ३—५ निचृज् जगती ; २ जगती ; ६ आर्षी त्रिष्टुप् ; ७ विराडार्षी त्रिष्टुप् ॥

विद्वत्कर्तव्योपदेशः—विद्वानों के कर्तव्य का उपदेश ॥

अश्वावति प्रथमो गोषु गच्छति सुप्रवीरिन्द्र मर्त्यस्तषो-
तिभिः । तमित् पूणक्षि वसुना भवीयसा सिन्धुमापो यथा-
मितो विचेतसः ॥ १ ॥

अश्व-वति । प्रथमः । गोषु । गच्छति । सुप्र-अवीः । इन्द्र ।
मर्त्यः । तव । जति-भिः ॥ तस् । इत् । पूणक्षि । वसुना ।
भवीयसा । सिन्धुस् । आपः । यथा । अमितः । वि-चेतसः ॥१

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले परमेश्वर वा राजन्] (मर्त्यः) मनुष्य (तव) तेरी (जतिभिः) रक्षाओं से (अश्वावति) उत्तम

६—(त्वाम्) (सुतस्य) सस्कृतस्य रसस्य (पीतये) पानाय (प्रत्नम्) नश्च पुराणे प्रात् । वा० पा० ५ । ४ । २५ । प्र-त्नप्रत्ययः । पुराणम्—निघ० ३ । २७ । अनुभविपुरुषम् (इन्द्र) (हवामहे) आह्वयामः (कुशिकासः) वृश्चिक्कस्योः किकन् । उ० २ । ४० । कुश सश्लेषणे—किकन्, असुगागमः । कुशिको राजा, बभूव क्रोशतेः शब्दकर्मणः क्रंशतेर्वा स्यात् प्रकाशयतिकर्मणः साधुविक्रोशयितार्थानामिति वा—निरु० १ । २५ । सगन्तारो वयम् (अवस्यवः) अ० २० । १४ । १ । रक्षाकामाः ॥

१—(अश्वावति) मन्त्रे सोमाश्वे० । पा० ६ । ३ । १३१ । इति दीर्घः । ओष्ठाश्वैर्युं के सैन्ये (प्रथमः) मुख्यः (गोषु) भूमिदेशेषु (गच्छति) चलति (प्रावीः) अविद्वत्स्वतन्त्रिभ्य ईः । उ० ३ । १५८ । अथ रक्षणे-ईप्रत्ययः । सुरक्षकः

घोड़ों वाले [सेनादल] में (प्रथमः) पहिला [प्रधान] (प्रावीः) बड़ा रक्षक होकर (गोषु) भूमियों पर (गच्छति) चलता है। (तम् इत्) उसको ही (भवीयसा) अति अधिक (वसुना) धन से (पृणक्षि) तू भर देना है, (यथा) जैसे (अभितः) सब ओर से (विचेतसः) विविध प्रकार जाने गये (आपः) जल समूह (सिन्धुम्) समुद्र को [भरते हैं] ॥ १ ॥

भावार्थ—जो राजा और सेनापति आदि कार्यकर्ता परमेश्वर में विश्वास करके एक दूसरे को रक्षा और सत्कार करते हैं, वे सब देशों में विजयी होकर बहुत धनी होते हैं ॥ १ ॥

मन्त्र १—६ ऋग्वेद में हैं—१। ८३। १—६ ॥

आपो न देवीरुपं यन्ति होत्रियमवः पश्यन्ति विततं यथा
रजः । प्राचैर्देवासुः प्र णयन्ति देवयुं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते
वुरा इव ॥ २ ॥

आपः । न । देवीः । उपं । यन्ति । होत्रियम् । अवः ।
पश्यन्ति । वि-ततम् । यथा । रजः ॥ प्राचैः । देवासुः । प्र ।
नयन्ति । देव-युम् । ब्रह्म-प्रियम् । जोषयन्ते । वुराः-इव ॥ २

भावार्थ—(आपः न) व्याप्त जलों के समान [उपकारी] (देवासुः) विद्वान् लोग (देवीः) दिव्य गुण वाली [विद्याओं] को (उप) आदर से (यन्ति) पाते हैं, और (होत्रियम्) देने लेने योग्य (अवः) रक्षा को (यथा

(इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् परमेश्वर राजन् वा (मर्त्यः) मनुष्यः (तव) (ऊनिभिः) रक्षाभिः (तम्) मनुष्यम् (इत्) एव (पृणक्षि) पृची सम्पर्क । संयोजयसि । पूरयसि (वसुना) धनेन (भवीयसा) भवितृ—ईयसुन् । तुरि-ष्टेमेयःसु । पा० ६ । ४ । १५४ । इति तुलोपः, अत्यधिकेन । भूयसा (सिन्धुम्) समुद्रम् (आपः) जलानि (यथा) येन प्रकारेण (अभितः) सर्वतः (विचेतसः) विविधानि चेतांसि ज्ञानानि यासां ताः । विविधज्ञातव्याः ॥

२—(आपः) व्याप्तानि जलानि (न) यथा (देवीः) दिव्यगुणवतीः सुविद्याः (उप) पूजायाम् (यन्ति) प्राप्नुवन्ति (होत्रियम्) इयामाशुभ-सिन्धुसुन् । उ० ४ । १६८ । इ दातादातादनेषु—अन् । तस्येदम् । पा० ४ । ३ ।

रजः) रज [धूलि] के समान (विततम्) फैला हुआ (पश्यन्ति) देखते हैं । और (वराः इव) श्रेष्ठ पुरुषों के समान वे (प्राचैः) पुराने व्यवहारों के साथ (देवयुम्) उत्तम गुण चाहने वाले, (ब्रह्मप्रियम्) ईश्वर और वेद में प्रीति करने वाले पुरुष को (प्र णयन्ति) आगे बढ़ाते हैं और (जोषयन्ते) सेवा करते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग उत्तम उत्तम विद्यार्थें प्राप्त करके संसार के प्रत्येक पदार्थ से उपकार लेते हैं और श्रेष्ठ धर्मात्मा ईश्वरभक्त को अगुआ बनाकर उसकी आज्ञा में चलते हैं ॥ २ ॥

अधि द्वयोरदधा उक्थ्यं वचो यतस्तुचा मिथुना या संपर्यतः । असंयत्तो व्रते ते क्षेति पुष्यति भद्रा शुक्तिर्यजमानाय सुन्वते ॥ ३ ॥

अधि । द्वयोः । अदधाः । उक्थ्यम् । वचः । यत-स्तुचा । मिथुना । या । संपर्यतः ॥ असं-यत्तः । व्रते । ते । क्षेति । पुष्यति । भद्रा । शुक्तिः । यजमानाय । सुन्वते ॥ ३ ॥

भाषार्थ—[हे विद्वान् !] (द्वयोः अधि) उन दोनों के ऊपर (उक्थ्यम्) बड़ाई के योग्य (वचः) वचन को (अदधाः) तू ने धारण किया है, (या) जो (यतस्तुचा) चमचा [भोजन साधन] लिये हुये (मिथुना) दोनों

१२० । होत्र—घप्रत्ययः । होत्राणामिदम् । दानव्यादातव्यम् (अवः) रक्षणम् (पश्यन्ति) प्रेक्षन्ते (विततम्) विस्तृतम् (यथा) येन प्रकारेण (प्राचैः) प्र + अञ्चतेः—घञर्थे कप्रत्ययः । प्राचीनैर्व्यवहारैः (देवासः) विद्वांसः (प्र) प्रकर्षेण । अग्ने (नयन्ति) प्रापयन्ति (देवयुम्) देव-क्यच्, उ । देवान् दिव्य-गुणान् कामयमानम् (ब्रह्मप्रियम्) ईश्वरो वेदो वा प्रियो यस्य तम् (जोषयन्ते) लुषी प्रीतिलेखनयोः—स्वार्थे णिच् । सेवन्ते (वराः) श्रेष्ठाः पुरुषाः (इव) यथा ।

३—(अधि) उपरि (द्वयोः) स्त्रीपुरुषयोः (अदधाः) धारितवानसि (उक्थ्यम्) कथनीयं स्तुत्यम् (वचः) वचनम् (यतस्तुचा) यमु उपरमे—क । चिक् च । उ० २ । ६२ । स्तु गती—चिक् । यता नियताः स्तुचः चमसा भोजनसाधनानि याभ्यां तौ (मिथुना) क्षुधिपिशिमिधम्यः कित् । उ० ३ ।

मिलनसार स्त्री पुरुष (सपर्यतः) सेवा करते हैं । वह [स्त्री वा पुरुष] (ते) तेरे (व्रते) नियम में (असंयत्तः) वे रोक [स्वतन्त्र] होकर (क्षेति) रहता है भ्रू (पुण्यति) पुष्ट होता है, (भद्रा) कल्याण करने हारी (शक्तिः) शक्ति (यजमानाय) यजमान [सत्कार, संगति और दान करने हारे] (सुन्वते) ऐश्वर्यवान् पुरुष के लिये [होती है] ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—सब स्त्री पुरुष विद्वानों के उपदेश और मार्ग पर चलकर स्वाधीनता के साथ भोजन आदि से आप सुख पाने और सब को सुख देते हैं ॥ ३ ॥
 आदङ्गिराः प्रथमं दधिरे वयं दुग्धग्रयः शम्या ये सुकृत्यया ।
 सर्वं पुण्योः समविन्दन्तु भोजनमश्वान्तु गोमन्तुमा पशुं नरः ४
 आत् । अङ्गिराः । प्रथमम् । दधिरे । वयः । दुग्ध-ग्रयः ।
 शम्या । ये । सु-कृत्यया ॥ सर्वम् । पुण्योः । सम् । अविन्दन्तु ।
 भोजनम् । अश्व-वन्तम् । गो-मन्तम् । आ । पशुम् । नरः ४ ॥

भाष्यार्थ—(ये) जिन (इन्द्राग्रयः) अग्नि के प्रकाश करने वाले (अङ्गिराः) अङ्गिराओं [ज्ञानी ऋषियों] ने (प्रथमम्) श्रेष्ठ (वयः) जीवन को (सुकृत्यया) सुन्दर रीति से करने योग्य (शम्या) शान्तिदायक कर्म से (दधिरे) धारण किया था, (आत्) तब ही (नरः) उन नेताओं ने (पुण्यः)

५५ । मिथु मेथु संगमे वधे मेघायां च—उन्, कित् । मिलितौ स्त्रीपुरुषौ (या) यौ (सपर्यतः) सपर पूजायाम्—कण्ठ्वादित्वाद् यक् । सपर्यतिः परिचरणकर्मा—निघ० ३ । ५ । परिचरतः । सेवेतं (असंयत्तः) । नञ् + सम् + यती प्रयत्ने—क । अनायत्त । अवशीभूतः । स्वतन्त्रः (व्रते) नियमे (ते) तव (क्षेति) क्षि निवासगत्योः विकरणस्य लुक् । क्षियति । निवसति (पुण्यति) पुण्यो भवति (भद्रा) कल्याणी (शक्तिः) समर्थता (यजमानाय) पूजासंगति-दानशीलाय (सुन्वते) सु ऐश्वर्ये—शत्, स्वादिन्त्वं छान्दसम् । ऐश्वर्यवते ॥

४—(आत्) अनन्तरम् (अङ्गिराः) अ० १६ । ३४ । ५ । अग्नि गतौ—किरच् नित् । विद्वानिनः । ऋषयः (प्रथमम्) श्रेष्ठम् (दधिरे) (धारितवन्तः (वयः) जीवनम् (इन्द्राग्रयः) प्रकाशिताग्रयः । अङ्गिर्विद्याकुशलाः (शम्या) शमु उपशमे—इन्, डीप् । शान्तिप्रदेन कर्मणा—निघ० २ । १ (ये) (सुकृत्यया)

उद्यम से (सर्वम्) सबे (भोजनम्) भोजन [पालन साधन धन अन्न आदि],
- (अश्वावन्तम्) उत्तम घोड़ों वाले (आ) और (गोमन्तम्) उत्तम गौओं
वाले (पशुम्) पशु समूह को (सम्) अच्छे प्रकार (अविन्दन्त) पाया है ॥४॥

भावार्थ—जो अग्नि विद्या में कुशल, पुरुषार्थी, विज्ञानी लोग धार्मिक
कर्म कर के उत्तम जीवन बनाते हैं, वे ही उद्योग कर के सब प्रकार से सुख
पाते हैं ॥ ४ ॥ -

यच्चैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततःसूर्या ब्रतपा वेन आजनि । आ
गा आजदुशना काव्यः सचा यमस्य जातमृतं यजामहे ॥५॥
यज्ञैः । अथर्वा । प्रथमः । पथः । तते । ततः । सूर्यः । ब्रत-
पाः । वेनः । आ । अजनि ॥ आ । गाः । आजत् । उशना ।
काव्यः । सचा । यमस्य । जातम् । अमृतम् । यजामहे ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(प्रथमः) सब से पहिले वर्तमान (अथर्वा) निश्चल
परमात्मा ने (यज्ञैः) संगति कर्मों [परमाणुओं के मेलों] से (पथः) मार्गों
को (तते) फैलाया, (ततः) फिर (ब्रतपाः) नियम पालने वाला, (वेनः)
पियारा (सूर्यः) सूर्य लोक (आ) सब ओर (अजनि) प्रकट हुआ । (उशना)

शोभनकर्तव्ययुक्तया (सर्वम्) (पथैः) पथ व्यवहारे स्तुतौ च—इन् । उद्यो-
गात् (सम्) सम्यक् (अविन्दन्त) अन्नमन्त (भोजनम्) धननाम—निघ० २।
१०। भोजनसाधनं धनाज्जादिकम् (अश्वावन्तम्) म०१। प्रशस्ततुरङ्गयुक्तम् (गोम-
न्तम्) उत्तमधेनुयुक्तम् (आ) समुच्चये (पशुम्) पशुसमूहम् (नरः) नेतारः॥

५—(यज्ञैः) संगतिकरणैः । परमाणुनां संगमैः (अथर्वा) अ० ४ । १ ।
७ । नञ् + थर्व चरणे = गतौ—वनिप्, वलोपः । निश्चलः परमेश्वरः (प्रथमः)
सर्वेषामादिः (पथः) मार्गान् (तते) तत्र विस्तारे—लिट्, छान्दसं रूपम् ।
तेने । विस्तारितवान् (सूर्यः) सवितृलोकः (ब्रतपाः) नियमपालकः (वेनः)
कमनीयः (आ) समन्तात् (अजनि) जनी प्रादुर्भवि—लुङ् । प्रादुरभूत् (आ)
समन्तात् (गाः) गमनशीलान् पृथिव्यादिलोकान् (आजत्) अज गतिक्षेप-
णयोः—लुङ् । प्रक्षिप्तवान् । आकर्षणे धारितवान् (उशना) वशेः क्रासि । इ०

पियारे, (काव्यः) बड़ाई योग्य उस [सूर्य] ने (गाः) पृथिवियों [चलते हुये लोकों] को (आ) सब ओर (आजत्) खींचा है, (यमस्य) उस नियम कर्ता परमेश्वर के (सचा) मेल से (जातम्) उत्पन्न हुये (अमृतम्) अमरण [मोक्ष सुख वा जीवन सामर्थ्य] को (यजामहे) हम पाते हैं ॥ ५ ॥

भाषार्थ—जिस परमात्मा ने आकाश, सूर्य, पृथिवी आदि लोक बनाकर हमें जीवन दिया है, उस बड़े जगदीश्वर की उपासना से विद्वान् लोग आत्मिक बल बढ़ाकर मोक्ष सुख भोगें ॥ ५ ॥

बृहिवृ यत् स्वपत्याय वृज्यतेऽर्कं वा श्लोकं आघोषते दिवि ।
ग्रावा यत्र वदति कारुक्यः १ स्तस्येदिन्द्रो अभिपित्वेषु
रगयति ॥ ६ ॥

बृहिः । वा । यत् । सु-अपत्याय । वृज्यते । अर्कः । वा ।
श्लोकम् । आ-घोषते । दिवि ॥ ग्रावा । यत्र । वदति ।
कारुः । उक्त्यः । तस्य । इत् । इन्द्रः । अभि-पित्वेषु । रगयति ६

भाषार्थ—(यत्) जब (बृहिः) उत्तम आसन (स्वपत्याय) गुणी सन्तान के लिये (वा) विचार पूर्वक (वृज्यते) छोड़ा जाता है, (वा) अथवा (अर्कः) पूजनीय विद्वान् (श्लोकम्) अपनी वाणी को (दिवि) व्यवहार के

४ । २३६ । वश कान्तौ—ऋत्वि, सम्प्रसारणं च । ऋदुशनस् पुरुदंशोऽनेहसां च । पा० ७ । १ । ६४ । अनङ् आदेशः । सर्वनामस्थाने चा० पा० ६ । ४ । ८ । उप-धादीर्घः । हल्ङ्याभ्यो० । पा० ६ । १ । ६८ । सुलोपः । नलोपः प्रातिपदि-कान्तस्य । पा० ८ । २ । ७ । नलोपः । कमनीयः (काव्यः) अ० ४ । १ । ६ । क्वृ स्तुतौ-रयत् । स्तुत्यः सूर्यः (सचा) षत्र समवाये—किप् । सम्मेलनेन (यमस्य) सर्वनियन्तुः परमेश्वरस्य (जातम्) उत्पन्नम् । प्रसिद्धम् (अमृतम्) अमरणम् । मोक्षसुखं जीवनसामर्थ्यं वा (यजामहे) संगच्छामहे । प्राप्नुमः ॥

६—(बृहिः) उत्तमासनम् (वा) वेति विचारणार्थं—निरु० १ । ४ । विचारपूर्वकम् (यत्) यदा (स्वपत्याय) गुणिने सन्तानाय (वृज्यते) वृजी वर्जने । त्यज्यते । दीयते (अर्कः) पूजनीयः परिहृतः (वा) अथवा (श्लोकम्) वाणीम् (आघोषते) घृष्व् विशब्दने । उरुचारयति (दिवि) व्यवहारे (ग्रावा)

बीच (आघोषते) कह सुनाता है । और (यत्र) जहां (प्रावा) मेघ [के समान उपकारी], (उक्थ्यः) प्रशंसनीय (कारुः) शिल्पी विद्वान् (वदति) बोलता है, (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला पुरुष] (तस्य) इस [सब] के (इत्) ही (अभिपित्वेषु) सङ्ग्रामों में (रण्यति) आनन्द पाता है ॥ ६ ॥

भावार्थ—जिस स्थान में विद्वान् गुणी सन्तानों का आदर होता है और जहां पर बड़े विज्ञानी शिल्पी लोग उत्तम उत्तम विद्याओं का आविष्कार करते हैं, वहां पर सब प्राणियों को सुख मिलता है ॥ ६ ॥

मोग्रां प्तीतिं वृष्णं इयमि सुत्यां प्रयै सुतस्य हर्यश्व तुभ्यम् ।
इन्द्र धेनाभिरिह मादयस्व धीभिर्विश्वाभिः शच्यां गृणानः ॥
प्र । उग्राम् । पीतिम् । वृष्णे । इयमि । सुत्याम् । प्र-यै ।
सुतस्य । हरि-श्व । तुभ्यम् ॥ इन्द्र । धेनाभिः । इह ।
मादयस्व । धीभिः । विश्वाभिः । शच्यां । गृणानः ॥ ७ ॥

भावार्थ—(हर्यश्व) हे वायु समान फुरतीले घोड़ों वाले ! (वृष्णे तुभ्यम्) तुम्ह महाबली को (प्रयै) आगे चलने के लिये (सुतस्य) निचोड [-सिद्धान्त] का (उग्राम्) तीव्र, (सत्याम्) सत्यगुण वाला (पीतिम्) घूंट (प्र इयमि) आगे रखता हूं । (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले विद्वान्]

मेघनाम—निघ० १ । १० । मेघ इवोपकारी (यत्र) यस्मिन् देशे (वदति) उपदिशति (कारुः) शिल्पकर्ता विद्वान् (उक्थ्यः) प्रशंसनीयः (तस्य) पूर्वोक्तस्य सर्वस्य (इत्) एव (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् पुरुषः (अभिपित्वेषु) जनिदाच्यु० । उ० ४ । १०४ । पि गतौ—त्वन् प्रत्ययः । अभिप्राप्तिषु । संगमेषु (रण्यति) रमु क्रीडायाम्—छान्दसः श्यन् परस्मैपदं मकारस्य नत्व च । रमते । आनन्दितो भवति ॥

७—(उग्राम्) तीव्राम् (पीतिम्) पानम् (वृष्णे) महाबलवते (प्र इयमि) अत्र गतौ जुहोत्यादिः । प्रेरयामि । अत्रे धरामि (सत्याम्) यथार्थगुणयुक्ताम् (प्रयै) प्रयै रोहिष्यै अव्यधिष्यै । पा० ३ । ४ । १० । प्र + या गतिप्रापणयोः—कैप्रत्ययः, तुमर्थे । प्रयातुम् । अत्रे गन्तुम् (सुतस्य) (संस्कृतस्य) सिद्धान्तस्य (हर्यश्व) अ० ५ । ३ । ६ । इज् प्रापणस्वोकारस्त्येयनाक्षनेषु—इन् + अश्

(धेनाभिः) वेदवाणियों द्वारा (इह) यहां पर (विश्वाभिः) समस्त (धीभिः) बुद्धियों से और (शक्या) कर्म से (गृणानः) उपदेश करता हुआ तू (माद-यस्व) आनन्द दे ॥ ७ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य फुरतीली सेना वाला ज्ञानवान् और बलवान् हो, सब लोग आदर करके उस बुद्धिमान् कर्मकुशल की वैदिक शिक्षाओं से आनन्द पावें ॥ ७ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—१०।१०४।३ और आगे है—अ०२०।३३।२ ॥

इति तृतीयेऽनुवाके द्वितीयः पर्यायः ॥

सूक्तम् २६ ॥ [सूक्तानि २६-३३ तृतीयः पर्यायः ॥]

१-६ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, २, ४, ६ गायत्री, ३ निचृद् गायत्री; ५ त्रिराङ् गायत्री ॥

१-३ सेनाध्यक्षलक्षणोपदेशः—१-३ सेनाध्यक्ष के लक्षण का उपदेश;

४-६ परमेश्वरगुणोपदेशः—४-६ परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥

योगेयोगे त्वस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमुतये ॥१॥

योगे-योगे । त्वः-तरम् । वाजे-वाजे । हवामहे ॥ सखायः ।

इन्द्रम् । जुतये ॥ १ ॥

भाषार्थ—(योगेयोगं) अवसर अवसर पर और (वाजेवाजे) सङ्ग्राम सङ्ग्राम के बीच (त्वस्तरम्) अधिक बलवान् (इन्द्रम्) इन्द्र [परम-पेश्वर्यवान् पुरुष] को (जुतये) रक्षा के लिये (सखायः) मित्र लोग हम (हवामहे) पुकारते हैं ॥ १ ॥

व्याप्तौ—कन् । हरी इन्द्रस्य—निघ० २।१।। हरिर्वायुः । हे हरिभिर्वायुतु-ल्यैः शीघ्रगामिभिस्तुरङ्गैर्युक्त (तुभ्यम्) (इन्द्र) हे परमेश्वर्यवान् विद्वन् (धेनाभिः) घेष्ट इत्थ । उ०३ । ११ । घेष्ट् पाने—नपत्ययः, ताप् । धेना वाङ्नाम—निघ० १ । ११ । वेदवाणीभिः (इह) अत्र (मादयस्व) आनन्दय (धीभिः) प्रज्ञाभिः (विश्वाभिः) सर्वाभिः (शक्या) अ०५ । ११ । २ । शक्यव्यक्तायां वाचि—इन्, डीप् । कर्मणा—निघ० २।१ (गृणानः) उपदिशंस्त्वम् ॥

—१—अयं मन्त्रो व्याख्यातः—अ० १६ । २४ । ७ ॥

सू० २६ [६१४] विंशं काण्डम् ॥ २० ॥ (३, ८८९)

भावार्थ—सब प्रजागण विद्वान् पुरुषार्थी राजा के साथ मित्रता करके शत्रु से अपनी रक्षा का उपाय करें ॥ १ ॥

यह मन्त्र ऊपर आच्युका है—अ० १४।२४।७ ॥

आ घं गमुद् यदि अवंत्सहस्रिणीभिरुतिभिः ।

वाजेभिरुपं नो हवस् ॥ २ ॥

आ । घ । गमुत् । यदि । अवंत् । सहस्रिणीभिः । ऊतिभिः ॥

वाजेभिः । उपं । नः । हवस् ॥ २ ॥

भावार्थ—(यदि) जो वह (आ गमत्) आवे, (घ) तो वह (सहस्रिणीभिः) सहस्रों उत्तम पदार्थ पहुंचानेवाली (ऊतिभिः) रक्षाओं से (वाजेभिः) अर्पणों के साथ (नः) हमारी (हवम्) पुकार को (उप) आदर से (अवंत्) सुने ॥ २ ॥

भावार्थ—सेनाध्यक्ष को यहिये कि दूरदर्शी होकर आवश्यक अन्न आदि पदार्थों का संग्रह करके खब की यथावत् रक्षा करे ॥ २

मन्त्र २, ३ ऋग्वेद में है— १।३०।८, ६, और सामवेद में है—३०।१।२।

तुच ११ ॥

अनुं प्रत्नस्यैकसो हुवे तुविप्रति नरंम् ।

यं ते पूर्वं पिता हुवे ॥ ३ ॥

अनुं । प्रत्नस्यै । ओकसः । हुवे । तुवि-प्रतिम् । नरंम् ॥ यम् ।

ते । पूर्वम् । पिता । हुवे ॥ ३ ॥

भावार्थ—[हे मनुष्य !] (प्रत्नस्य) पुराने (ओकसः) घर के

२—(आ गमत्) गमेर्लेटि अडागमः । आगच्छेत् (यदि) चेत् (अवंत्) शृणोतेर्लेटि अडागमः । शृणुयात् (सहस्रिणीभिः) प्रशस्तार्थ इति । सहस्राणि प्रशस्तानि पदार्थप्राप्त्यानि यासु ताभिः (ऊतिभिः) रक्षाभिः (वाजेभिः) अन्नैः (उप) पूजायाम् (नः) अस्माकम् (हवम्) आह्वानम् ॥

३—(अनु) निरन्तरम् (प्रत्नस्य) अ० २०।२४।६ । प्राचीनस्य (ओकसः) गृहस्य (हुवे) द्वेज् स्पर्धायां शब्दे च— लटि क्वात्सं रूपम् । अहं ह्ये । अहं गामि

[उत्पन्न हुये] (तुविप्रतिम्) बहुत पदार्थों के प्रत्यक्ष गृह्यमाने जाने (नरम्) पुरुष को (अनु हुवे) मैं पु नारनारहताह, (यम्) जिन [पुरुष] को (पूर्वम्) पहिले काल में (ते) तेरा (पिता) पिता (हुवे) बुनाता था ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो को प्रतिष्ठित घगने का पुरुष अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाकर उपकार करे, उस को लोग आदर करके बुलावे ॥ ३ ॥

४—६ । परमेश्वरगुणोपदेशः । ४—६ परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥

युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः ।

रोचन्ते रोचना दिवि ॥ ४ ॥

युञ्जन्ति । ब्रध्नम् । अरुषम् । चरन्तम् । परि । तस्थुषः ॥

रोचन्ते । रोचना । दिवि ॥ ४ ॥

भावार्थ—(तस्थुषः) मनुष्यादि प्राणियों और लोको में (परि) सब ओर से (चरन्तम्) व्यापे हुये, (ब्रध्नम्) महान् (अरुषम्) हिंसा रहित [परमात्मा] को (रोचना) प्रकाशमान पदार्थ (दिवि) व्यवहार के बीच (युञ्जन्ति) ध्यान में रखते और (रोचन्ते) प्रकाशित होते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ—परमाणुओं से लेकर सूर्य आदि लोक और सब प्राणी सर्व-व्यापक, सर्वनियन्ता परात्मा की आज्ञा को मानते हैं, उसी की उपासना से मनुष्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके आत्मा की उन्नति करें ॥ ४ ॥

(तुविप्रतिम्) विनाऽपिप्रत्ययेन पूर्वोत्तरपदयोर्विभाषा लोपो वक्तव्यः । वा० पा० ५ । ३ । ३३ । इति गमयित् शब्दस्य लोपः । तुवीनां बहूनां पदार्थानां प्रति-गमयितारं प्रत्यक्षेण प्रापकम् (नरम्) नेतारम् (यम्) समाभ्यक्षम् (ते) तव (पूर्वम्) पूर्वकाले (पिता) जनकः (हुवे) ह्येज्—लिटि छान्दस ऋणम् । जुहुवे । आहूतवान् ॥

४—(युञ्जन्ति) युज समाधौ । ध्यायन्ति (ब्रध्नम्) अ० ७ ।

२२ । २ । महान्तम्—निघ० ३ । ३ (अरुषम्) रुष हिंसायाम्—ऋप्रत्ययः । अहिंसकम् (चरन्तम्) व्याप्तुवन्तम् (परि) सर्वतः (तस्थुषः) तिष्ठतेः कत्रसुः शक्ति रूपम् । तस्थुष इति मनुष्यनाम—निघ० २ । ३ । मनुष्यादिप्राणिनो लोकांश्च (रोचन्ते) प्रकाशन्ते (रोचना) रुच दीप्तावभिप्रीतौ च—युच्, शौर्लोः । रोचनानि । प्रकाशमानानि वस्तूनि (दिवि) व्यवहारे ॥

मन्त्र ४—६ ऋग्वेद में है—१। ६। १—३, सामवेद में—३० ६। ३। तुच
१४ और आगे है—अ० २०। ४७। १०—१२ तथा ६६। ६—११। मन्त्र ४, ५
यजुर्वेद में है— २३। ५, ६ और मन्त्र ४ महर्षि दयानन्द कृत ऋग्वेदादि भाष्य-
भूमिका उपामना विषय में व्याख्यात है ॥

युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे ।

शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥ ५ ॥

युञ्जन्ति । अस्य । काम्या । हरी इति । वि-पक्षसा । रथे ॥

शोणा । धृष्णू इति । नृ-वाहसा ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(अस्य) इस [परमात्मा—म० ४] के (काम्या) चाहने
योग्य, (विपक्षसा) विविध प्रकार ग्रहण करने वाले, (शोणा) व्यापक,
(धृष्णू) निर्भय, (नृवाहसा) नेताओं [दूसरों के चलाने वाले सूर्य आदि
लोकों] के चलाने वाले (हरी) दोनों धारण आकर्षण गुणों को (रथे) रम-
णीय जगत् के बीच (युञ्जन्ति)वे [प्रकाशमान पदार्थ—म०४]ध्यान में रखते हैं५

भावार्थ—जिस परमात्मा के धारण आकर्षण सामर्थ्य में सूर्य आदि
पिण्ड ठहर कर अन्य लोकों और प्राणियों को चलाते हैं, मनुष्य उन सब
पदार्थों से उपकार लेकर उस ईश्वर को धन्यवाद दे ॥ ५ ॥

केतुं कण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे ।

समुषद्भिरजायथाः ॥ ६ ॥

५—(युञ्जन्ति) समाधौ कुर्वन्ति तानि रोचनानि—म० ४ (अस्य)
परमेश्वरस्य—म० ४ (काम्या) कमु कान्तौ—एयत् । सुपां सुलुक्० । पा० ७ ।
१। ३६ । इत्यत्र सर्वत्र विभक्तेराकारः । कमनीयौ (हरी) हरणशीणलौ धारणा-
कर्षणगुणौ (विपक्षसा) पक्ष परिग्रहे—असुन् । विविधग्रहणशीलौ (रथे)
रमणीये जगति (शोणा) शोणृ वर्णगत्योः—यञ् । व्यापकौ । (धृष्णू) जिधृषा
प्रागल्भ्ये—क्तु । धर्षकौ । निर्भयौ (नृवाहसा) बहिहाधाज्भ्यश्कुन्दसि ।
उ० ४। २२१ । वह प्रापये—असुन् णित् । नृणां नेतृणां सूर्यादिलोकानां गमयि-
तारौ ॥

केतुम् । कृण्वन् । अकेतवे । पेशः । मर्याः । अपेशसे ॥

सम् । उपद्भिः । अजायथाः ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(मर्याः) इहे मनुष्यो ! (अकेतवे) अज्ञान हटाने के लिये (केतुम्) ज्ञान को और (अपेशसे) निर्धनता मिटाने के लिये (पेशः) सुवर्णा आदि धन को (कृण्वन्) उत्पन्न करना हुआ वह [परमात्मा—मन्त्र० ५, ६] (उपद्भिः) प्रकाशमान गुणों के साथ (सम्) अच्छे प्रकार (अजायथाः) प्रकट हुआ है ॥ ६ ॥

भावार्थ—मनुष्य प्रयत्न करके परमात्मा को विचारते/ हुये सृष्टि के पदार्थों से उपकार लेकर ज्ञानी और धनी होवे ॥ ६ ॥

यह मन्त्र यजुर्वेद में भी है—२६ । ३७ और महर्षि दयानन्दकृत ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका पृष्ठ ३०७ ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य विषय में भी व्याख्यात है ॥

सूक्तम् २७ ॥

१—६ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ विराडर्षी गायत्री; २, ४, ५ निचूद् गायत्री; ३, ६ गायत्री ॥

राजसूक्तोपदेशः—राजा के सूक्तों का उपदेश ।

यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत् ।

स्तोता मे गोसखा स्यात् ॥ १ ॥

यत् । इन्द्र । अहम् । यथा । त्वम् । ईशीय । वस्वः । इत् ॥

स्तोता । मे । गो-सखा । स्यात् ॥ १ ॥

६—(केतुम्) केतुरिति प्रज्ञानाम—निघ० ३ । ६ । प्रज्ञानम् (कृण्वन्) कृषि हिंसाकरणयोः—शतृ । कुर्वन् सन् सः परमेश्वरः—म० ५, ६ (अकेतवे) क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः । पा० २ । ३ । १४ । इति तुमुनः कर्मणि चतुर्थी । अज्ञानं नाशयितुम् (पेशः) पिश गतौ—अवयवे दीपनायां च—असुन् । पेश इति हिरण्यनाम—निघ० १ । २ । पेश इति रूपनाम पिशतेर्विपशितं भवति निरु० २ । ११ । सुवर्णादिधनं रूप वा (मर्याः) मनुष्याः (अपेशसे) निर्धनतां नाशयितुम् (सम्) सम्यक् (उपद्भिः) उप दाहं—शतृ । प्रकाशमानैर्गुणैः (अजायथाः) प्रथमपुरुषस्य मध्यमपुरुषः । अजायत । प्रादुरभवत् ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (यत्) जब (यथा) जैसे जैसे (एकः) अद्वितीय (त्वम्) तू (इत्) ही (मे) मेरा [स्वामी होंवे], (अहम्) मैं (वस्वः) धन का (ईशीय) स्वामी हो जाऊं, और (स्तोता) गुणों का व्याख्यान करने वाला [प्रत्येक पुरुष] (गोसक्ता) पृथिवी [अर्थात् तेरे राज्य] का मित्र (स्यात्) हो जावे ॥ १ ॥

भावार्थ—अद्वितीय प्रतापी राजा विद्वान् गुणी पुरुषों का आदर करता रहे, जिस से सब लोग राज्य की वृद्धि में लगे रहें ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—८। १४। १—६ मन्त्र १—३ सामवेद में हैं—८० २। ६। ८, और मन्त्र १ सामवेद में है—पू० २। ३। ७ ॥

शिक्षेयमस्मै दित्सेयं शचीपते मनीषिणे ।

यद्दुहं गोपतिः स्याम् ॥ २ ॥

शिक्षेयम् । अस्मै । दित्सेयम् । शची-पते । मनीषिणे ॥

यत् । अहम् । गो-पतिः । स्याम् ॥ २ ॥

भाषार्थ—(शचीपते) हे बुद्धि के स्वामी ! [राजन्] (अस्मै) इस (मनीषिणे) बुद्धिमान् [ब्रह्मचारी] को (शिक्षेयम्) मैं शिक्षा करूँ और (दित्सेयम्) दान दूँ, (यत्) जो (अहम्) मैं (गोपतिः) विद्या का स्वामी (स्याम्) हो जाऊँ ॥ २ ॥

भावार्थ—बुद्धिमान् राजा आदि धनी लोग प्रबन्ध करें कि ब्रह्मचारी लोग निश्चिन्त होकर उत्तम शिक्षकों से उत्तम विद्या पावें ॥ २ ॥

१—(यत्) यदा (इन्द्र) हे परमेश्वर्यवन् राजन् (अहम्) (यथा) येन येन प्रकारेण (त्वम्) ईशिषे—इति शेषः (ईशीय) ईश्वरः स्वामी स्याम् (वस्वः) धनस्य (इत्) एव (एकः) अद्वितीयः (स्तोता) गुणानां व्याख्याता (मे) मम् (गोसक्ता) गोः पृथिव्यास्तवराज्यस्य मित्रभूतः (स्यात्) भवेत् ॥

२—(शिक्षेयम्) शिक्षां दद्याम् (अस्मै) उपस्थिताय (दित्सेयम्) दा दाने—सन् प्रत्ययः । दातुमिच्छेयम् (शचीपते) अ० ३। १०। १२। शच व्यक्तायां वाचि—इन्, ङीष् । शची प्रज्ञानाम—निघ० ३। ६। हे बुद्धिस्वामिन् (मनीषिणे) बुद्धिमते ब्रह्मचारिणे (यत्) यदि (अहम्) पुरुषः (गोपतिः) गोविधायीः स्वामी (स्याम्) भवेयम् ॥

धेनुं इन्द्रं सुनृता यजमानाय सुन्वते ।
गामश्वं पिप्युषीं दुहे ॥ ३ ॥

धेनुः । ते । इन्द्र । सुनृता । यजमानाय । सुन्वते ॥
गाम् । अश्वम् । पिप्युषीं । दुहे ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] (ते) तेरी (धेनुः) बाणी (सुनृता) धारी और सच्ची और (पिप्युषी) यदृती करने वाली होकर (सुन्वते) तत्त्व निचोडने वाले (यजमानाय) यजमान [विद्वानों का सत्कार, सत्संग और विद्या आदि दान करने वाले] के लिये (गाम्) भूमि, विद्या वा गौओं और (अश्वम्) घोड़ों को (दुहे) भर पूर करती है ॥३

भावार्थ—सत्यवादी ऐश्वर्यवान् राजा सत्कार करके विद्वानों की उन्नति करके राज्य की उन्नति करे ॥ ३ ॥

न ते वृतास्ति राधसु इन्द्रं देवो न मर्त्यः ।
यद् दित्संसि स्तुतो मुचम् ॥ ४ ॥

न । ते । वृता । अस्ति । राधसः । इन्द्रं । देवः । न । मर्त्यः ॥
यत् । दित्संसि । स्तुतः । मुचम् ॥ ४ ॥

भाष्यार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (ते) तेरे (राधसः) ऐश्वर्य का (वृता) रोकने वाला, (न) न तौ (देवः) विद्वान् पुरुष और (न) न (मर्त्यः) सामान्य पुरुष (अस्ति) है, (यत्) जब कि

३—(धेनुः) वाक् - निघ० ८। ११ (ते) तव (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् राजन् (सुनृता) अ० ३। १२। २ प्रियसत्यात्मिका (यजमानाय) देवपूजा-संगनिकरणविद्यादिदानकारकाय (सुन्वते) तत्त्वनिष्पादनं कुर्वते (गाम्) भूमि विद्यां गोसमूहं वा (अश्वम्) अश्वसमूहम् (पिप्युषी) ओ ध्यायी वृद्धौ, कसु, डीप् । वर्धयित्री (दुहे) तलोपः । दुग्धे । प्रपूरयति ॥

४—(न) निषेधे (ते) तव (वृता) निवारकः (अस्ति) (राधसः) ऐश्वर्यस्य (इन्द्र) (देवः) विद्वान् पुरुषः (न) निषेधे (मर्त्यः) सामान्यो मनुष्यः (यत्)

(स्तुतः) स्तुति किया गया तू (मघम्) धन (दित्सलि) देना चाहता है ॥ ४ ॥

भाषार्थ—राजा अपने उत्तम गुणों से अनुपम होकर सुपात्रों को दान देकर उन्नति करे ॥ ४ ॥

यज्ञ इन्द्रमवर्धयद् यद् भूमिं व्यवर्तयत् ।

चक्राण ओपशं द्विवि ॥ ५ ॥

यज्ञः । इन्द्रम् । अवर्धयत् । यत् । भूमिम् । वि । अवर्तयत् ॥

चक्राणः । ओपशम् । द्विवि ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(यज्ञः) यज्ञ [विद्वानों के सत्कार, सत्सग और विद्या आदि दान] ने (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] को (अवर्धयत्) बढ़ाया है, (यत्) जब कि (द्विवि) व्यवहार के बीच (ओपशम्) पूरा उद्योग (चक्राणः) कर चुकते हुये उसने (भूमिम्) भूमि को (वि अवर्तयत्) व्याख्यात किया है ॥ ५ ॥

भाषार्थ—जब मनुष्य पृथिवी पर प्रत्येक काम को योग्यता से करता है, तब वह उन्नति करके कीर्ति पाता है ॥ ५ ॥

यह मन्त्र सामवेद में है पू० २ । ३ । ७ तथा उ० ८ । १ । ६ ॥

वृधुधानस्य ते वृयं विश्वा धनानि जिग्युषः ।

जुतिमिन्द्रा वृणीमहे ॥ ६ ॥

वृधुधानस्य । ते । वृयम् । विश्वा । धनानि । जिग्युषः ॥

जुतिम् । इन्द्र । आ । वृणीमहे ॥ ६ ॥

यदा (दित्सलि) दानुमिच्छसि (स्तुतः) (मघम्) मंहनीयं धनम् ॥

५—(यज्ञः) देवपूजासगतिकरणविद्यादिदानव्यवहारः (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं पुरुषम् (अवर्धयत्) वर्धितवान् (यत्) यदा (भूमिम्) (वि अवर्तयत्) विवृतां व्याख्यातां कृतवान् (चक्राणः) करोतेः—कानच् । कृतवान् सन् (ओपशम्) अ० ६ । १३८ । १ । आङ् + उप + शीङ् शयने—ड । ओपशः = उपशयः = उपयोगः । समन्तादुपयोगम् (द्विवि) व्यवहारे ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (ववृधानस्य) बढ़ते हुये और (विश्वा) सब (धनानि) धनों को (जिग्युषः) जीत चुकने वाले (ते) तेरी (ऊतिम्) रक्षा को (वयम्) हम (आ) सब और से (वृणीमहे) मांगते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—जब राजा पराक्रमी और धनी होता है, तब प्रजागण सुरक्षित रह कर उस राज्य की वृद्धि चाहते हैं ॥ ६ ॥

सूक्तम् २८ ॥

१—४ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निचृद् गायत्री, २—४ गायत्री ॥

परमेश्वरोपसनो पदेशः—परमेश्वर को उपासना का उपदेश ॥

व्यं१न्तरिक्षमतिरुन्मदे सोमस्य रोचना ।

इन्द्रो यदभिनद् वलम् ॥ १ ॥

वि । अन्तरिक्षम् । अतिरुत् । मदे । सोमस्य । रोचना ॥

इन्द्रः । यत् । अभिनत् । वलम् ॥ १ ॥

भाषार्थ—(इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा] ने (सोमस्य) ऐश्वर्य के (मदे) आनन्द में (रोचना) प्रीति के साथ (अन्तरिक्षम्) आकाश को (वि अतिरुत्) पार किया है, (यत्) जब कि उस ने (वलम्) हिंसक [विघ्न] को (अभिनत्) तोड़ डाला ॥ १ ॥

भावार्थ—सब से यहाँ और पूजनीय परमेश्वर की उपासना से सब मनुष्य उन्नति करें ॥ १ ॥

६—(ववृधानस्य) वर्धमानस्य (ते) तव (वयम्) प्रजाजनाः (विश्वा) सर्वाणि (धनानि) (जिग्युषः) जि जये—कसु । जिह्वत. (ऊतिम्) रक्षाम् (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् राजन् (आ) समन्तान् (वृणीमहे) याचामहे ॥

१—(वि) विविधम् (अन्तरिक्षम्) आकाशम् (अतिरुत्) पारं कृतवान् (मदे) आनन्दे (सोमस्य) ऐश्वर्यस्य (रोचना) विभक्तेराकारः । रोचनया । प्रीत्या (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् परमात्मा (यत्) यदा (अभिनत्) व्यदारयत् (वलम्) हिंसकं विघ्नम् ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—= १४ । ७—१० और आगे है—अ० २० ।
३९ । २—५ । मन्त्र १, २ सामवेद में है—उ० = १ । तृच ६ ॥

उद्गा आजुर्ङ्गिरोभ्य आविष्कुरवन् गुहा सुतीः ।
अर्वाञ्च नुनुदे वलम् ॥ २ ॥

उत् । गाः । आजुन् । अङ्गिः-भ्यः । आविः । कुरवन् ।
गुहा । सुतीः ॥ अर्वाञ्चम् । नुनुदे । वलम् ॥ २ ॥

भाषार्थ—(गुहा) गुहा [गुप्त अवस्था] में (सुतीः) वर्तमान
(गाः) घाणियों को (आविः कुरवन्) प्रकट करते हुये उस [परमेश्वर] ने
(अङ्गिरोभ्यः) विज्ञानो पुरुषों के लिये (उन् आजत्) ऊंचा पहुंचाया और
(वलम्) हिंसक [विघ्न] को (अर्वाञ्चम्) नीचे (नुनुदे) हटाया है ॥ २ ॥

भावार्थ—प्रलय के पीछे परमात्मा ने वेदों का उपदेश करके हमारे
सब विघ्न मिटाये हैं ॥ २ ॥

इन्द्रेण रोचना दिवो दृहानि दृंहितानि च ।

स्थिराणि न पराणुदे ॥ ३ ॥

इन्द्रेण । रोचना । दिवः । दृहानि । दृंहितानि । च ॥

स्थिराणि । न । परा-नुदे ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(इन्द्रेण) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले परमात्मा] करके
(दिवः) व्यवहार के (स्थिराणि) ठहाराऊ (रोचना) प्रकाश (न, पराणुदे)

२—(उत्) ऊर्ध्वम् (गाः) घाणीः । विद्याः (आजत्) अज गतिक्षोप-
णयोः—लङ् । अगमयत् (अङ्गिरोभ्यः) अ० २ । १२ । ४ । विज्ञानिभ्यः (आवि-
ष्कुरवन्) प्रकटयन् (गुहा) गुहायाम् । गुप्तावस्थायाम् (सुतीः) विद्यमानाः
(अर्वाञ्चम्) अधोगतम् (नुनुदे) प्रेरितवान् (वलम्) हिंसकं विघ्नम् ॥

३—(इन्द्रेण) परमैश्वर्यवता परमात्मना (रोचना) रोचनानि ।
प्रकाशाः (दिवः) व्यवहारस्य (दृहानि) दृह वृद्धौ—क । दृढीकृतानि
(दृंहितानि) दृहि वृद्धौ—क । वर्धितानि । विस्तारितानि (च) (स्थिराणि)

न हटने के लिये (दृहृतानि) पक्रे किये गये (च) और (दंहितानि) बढ़ाये गये [फैलाये गये] हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—परमात्मा ने अपने अटल नियमों से सब संसार को सुख दिया है ॥ ३ ॥

अपामूर्मिर्मदन्निव स्तोम इन्द्राजिरायते ।

वि ते मदा अराजिषुः ॥ ४ ॥

अपाम् । ऊर्मिः । मदन्-इव । स्तोमः । इन्द्र । अजिर-यते ॥

वि । ते । मदाः । अराजिषुः ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले परमात्मन्] (ते) नेरी (स्तोमः) बढ़ाई (अपाम्) जलों की (मदन्) हर्ष बढ़ाने वाली (ऊर्मिः इव) लहर के समान (अजिरायते) वेग से चलती है, और (मदाः) आनन्द (वि अराजिषुः) विराजते हैं [विविध प्रकार पेश्वर्य बढ़ाते हैं] ॥ ४ ॥

भावार्थ—न्यायकारी जगदीश्वर की उत्तम नीति को मानकर सब लोग आनन्द पाकर शीघ्र पेश्वर्य बढ़ावें ॥ ४ ॥

सूक्तम् २८ ॥

१—५ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ विराडाषी गायत्री; २—४ गायत्री; ५ निचृद् गायत्री ॥

राजधर्मोपदेश—राजा के धर्म का उपदेश ॥

स्थितिशीलानि (न) निषेधे (पराणुदे) परा + णुद प्रेरणे—क्विप् । परानौद-
नाय । दूरे प्रेरणाय ॥

४—(अपाम्) जलानाम् (ऊर्मिः) तरङ्गः । (मदन्) आनन्दयन् (इव) यथा (स्तोमः) स्तुतिः (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवन् (अजिरायते) अजिरशि-
शिरशियिल० उ० १ । ५३ । अज गतिक्षेपणयोः—क्विच् । अजिर क्षिप्रनाम—
निघ० २ । १५ । तत्करोतीत्युपसंख्यान सूत्रयत्याद्यर्थम् । वा० पा० । ३ । १ । २६ ।
अजिर—क्विच्, साहितिको दीर्घः । अजिरं क्षिप्रं करोति । शीघ्रं गच्छति (वि)
विविधम् (ते) तव (मदाः) आनन्दाः (अराजिषुः) लडर्थे लुङ् । राजनीति
पेश्वर्यकर्मा—निघ० २ । २१ । पेश्वर्यं वर्धयन्ति । शोभन्ते ॥

त्वं हि स्तोमवर्धन इन्द्रास्युक्थवर्धनः ।

स्तोतृणामुत-भद्रकृत् ॥ १ ॥

त्वम् । हि । स्तोम-वर्धनः । इन्द्र । असि । उक्थ-वर्धनः ॥

स्तोतृणाम् । उत । भद्र-कृत् ॥ १ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [यज्ञे पेश्वर्य वाले राजन्] (त्वम्) तू (हि) ही (स्तोमवर्धनः) स्तुतियों से बढ़ाने योग्य और (उक्थवर्धनः) यथार्थ बचनों से सराहने योग्य (उत) और (स्तोतृणाम्) गुण व्याख्या-ताओं का (भद्रकृत्) कल्याण करने वाला (असि) है ॥ १ ॥

भावार्थ—राजा ऐसा उत्तम गुणी और पराक्रमी होवे कि सब लोग उसके गुणों से सुखी होवें ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—= । १४ । ११—१५ ॥

इन्द्रमित् केशिना हरी सोमपेयाय वसुतः ।

उप यज्ञं सुरार्धसम् ॥ २ ॥

इन्द्रम् । इत् । केशिना । हरी इति । सोम-पेयाय । वसुतः ॥

उप । यज्ञम् । सु-रार्धसम् ॥ २ ॥

भाषार्थ—(केशिना) सुन्दर केशों [कन्धे आदि के बालों] वाले (हरी) रथ ले चलने वाले दो घोड़े [के समान बल और पराक्रम] (सुरार्ध-

१—(त्वम्) (हि) एव (स्तोमवर्धनः) कृत्यल्युटो बहुलम् । पा० ३ । ३ । ११३ । स्तोम + वृधु वर्धने-अर्हार्थे ल्युट् । स्तुतिभिर्बद्धनीयः (इन्द्र) हे पर-मैश्वर्यवन् राजन् (असि) (उक्थवर्धनः) ल्युट् पूर्ववत् । यथार्थवचनैर्वर्धनीयः (स्तोतृणाम्) गुणव्याख्यातृणाम् (उत) अपि च (भद्रकृत्) कल्याणस्य कर्ता ॥

२—(इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं पुरुषम् । (इत्) एव (केशिना) प्रशस्त-केशयुक्तौ । स्वन्धादिचिकणवालोपेतौ (हरी) रथस्य बाहकावशवाविव बल-

सम्) महाधनी (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] को (इत्) ही (सोमपेयाय) ऐश्वर्य की रक्षा के लिये (यज्ञम् उप) यज्ञ [पूजनीय व्यवहार] की ओर (वक्षतः) लावें ॥ २ ॥

भावार्थ—मनुष्य उत्तम उत्साही पुरुष का श्रेष्ठ वस्तुओं से आदर करके उसके योग्य प्रबन्ध से सुखी होवें ॥ २ ॥

इस मन्त्र का मिलान करो—अ० २० । ३ । २ ॥

अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तयः ।

विश्वा यदजय स्पृधः ॥ ३ ॥

अपास् । फेनेन । नमुचेः । शिरः । इन्द्र । उत् । अवर्तयः ॥

विश्वाः । यत् । अजयः । स्पृधः ॥ ३ ॥

भावार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले सेनापति] (अपाम्) जलों के (फेनेन) फेन [भाग के समान हलके तीक्ष्ण शस्त्र विशेष] से (नमुचेः) न छुटने योग्य [दण्डनीय पापी] के (शिरः) शिर को (उत् अवर्तयः) तुने उछाल दिया है, (यत्) जब कि (विश्वाः) सब (स्पृधः) झगड़ने वाली सेनाओं को (अजयः) तुने जीता है ॥ ३ ॥

भावार्थ—सेनापति पानी के भाग के समान हलके तीक्ष्ण चक्र आदि हथियारों से शत्रु का शिर काटकर उसकी सेना का जीने ॥ ३ ॥

यह मन्त्र यजुर्वेद में भी है—१६ । ७१ तथा सामवेद—पू० ३ । २ । ८

पराक्रमौ (सोमपेयाय) अत्रो यत् पा० ३ । १ । ६७ । सोम+पा रक्षणे-यत् । ईद्यति । पा० ६ । ४ । ६५ । आकारस्य ईकारः । ऐश्वर्यस्य-रक्षणाय (वक्षतः) वह प्रापणे—लेट् । वहताम् । प्रापयनाम् (उप) प्रति (यज्ञम्) पूजनीय व्यवहारम् (सुराधसम्) बहुधनवन्तम् ॥

३—(अपाम्) जलानाम् (फेनेन) फेनबहुघुनीक्षणशस्त्रविशेषेण (नमुचेः) अ० २० । २१ ७ । अमोचनीयस्य दण्डनीयस्य पापिनः (शिरः) (इन्द्र) परमैश्वर्यवन् सेनापते (उदवर्तयः) ऊर्ध्वं गमितवानसि (विश्वाः) सर्वाः (यत्) यदा (अजयः) जितवानसि (स्पृधः) स्पृध संघर्षे—क्रिये, रक्षस्य ऋकारः अकारलोपश्च । स्पृधमानाः । युध्यमानाः शत्रुसेनाः ॥

मायाभिसृत्सिषुप्सत् इन्द्रं व्यामूरुक्षतः ।

अथ दस्यूँ रधूनुथाः ॥ ४ ॥

मायाभिः ॥ उत्-सिषुप्सतः । इन्द्रं । व्याम् । आ-रुक्षतः ॥

अथ । दस्यून् । अधूनुथाः ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्यवाले सेनापति] (उत्सि-
सृप्सतः उछलते हुये और (व्याम्) आकाश को (आरुक्षतः) चढ़ते हुये
(दस्यून्) डाकुओं को तू ने (मायाभिः) अपना बुद्धियों से (अथ अधू-
नुथाः) ओंघा गिरा दिया है ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो शत्रु लोग विमान आदि से आकाश में चढ़ कर
उपद्रव मचावें, युद्ध कुशल सेनापति विमान आदि में चढ़ कर उन्हें
गिरावे ॥ ४ ॥

असुन्वामिन्द्रं संसदं विषूचीं व्यनाशयः ।

सोमपा उत्तरो भवन् ॥ ५ ॥

असुन्वाम् । इन्द्रं । सस-सदम् । विषूचीम् । वि । अनाशयः ॥

सोम-पाः । उत्-तरः । भवन् ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्यवाले सेनापति] (सोमपाः)
पेश्वर्य का रक्षक और (उत्तरः) बड़ा विजयी (भवन्) हो कर तूने, (असुन्वाम्)

४—(मायाभिः) प्रज्ञाभिः (उत्सिसृप्सतः) सृष्ट गतौ—सनि शतृ ।
उत्सर्पणेच्छून् । ऊर्ध्वगमनेच्छून् (इन्द्र) हे परमेश्वर्यवान् सेनापते (व्याम्)
आकाशम् (आरुक्षतः) रुह प्रादुर्भावे—सनि शतृ । आरोहणेच्छून् (अथ)
अधोमुखम् (दस्यून्) उपक्षेप्तृन् । दुष्टान् । चीरान् (अधूनुथाः) धूम-
कल्पने—लङ् । कम्पितवान् प्रेरितवानसि ॥

५—(असुन्वाम्) पुञ् अमिषवे—शानच्, स्वादिभ्यः श्नुः, ततष्ठाप्, अमि-
कृते नकारलोपः । असुन्वानाम् । अमिषव बलि राजप्राह्मं भाग न वदसीम्
(इन्द्र) (ससदम्) जनसहतिम् (विषूचीम्) नानागतिम् (वि) विदंषेय (अना-

भेंट न देनी हुई (विषूचीम्) इतर विनर चलती हुयी (संसदम्) भीड़ का (वि अनाशयः) विनाश कर दिया है ॥ ५ ॥

भावार्थ—विजयी सेनापति कट्टर लुटेरे शत्रुओं का नाश करके पेश्वर्य बढावे ॥ ५ ॥

सूक्तम् ३० ॥

१—५॥ इन्द्रो देवता ॥ १ जगती; २—४ निचृज्जगती; ५ आर्षी त्रिष्टप् ॥

बलपराक्रमोपदेशः—बल और पराक्रम का उपदेश ॥

प्र ते महे विदथे शंसिषु हरी प्र ते वन्वे वनुषो हर्यतं
मदम् । घृतं न यो हरिभिश्चारु सेचत आ त्वा विशन्तु हरि-
वर्षसु गिरः ॥ १ ॥

प्र । ते । महे । विदथे । शंसिषुम् । हरी इति । ते । वन्वे ।
वनुषः । हर्यतम् । मदम् ॥ घृतम् । न । यः । हरि-भिः ।
चारु । सेचते । आ । त्वा । विशन्तु । हरि-वर्षसुम् । गिरः ॥ १ ॥

भाषार्थ—[हे शूर !] (महे) बड़े (विदथे) समाज के बीच (ते)
तरे (हरी) दुख हरने वाले दोनो बल और पराक्रम की (प्र शंसिषुम्) मैं
प्रशंसा करता हूँ, और (वनुषः ते) तुझ शूर के (हर्यतम्) कामना योग्य
(मदम्) आनन्द को (प्र वन्वे) मांगता हूँ । (यः) जो आप (हरिभिः) वीर

शयः) नाशितवानसि (सोमपाः) पेश्वर्यरत्नकः (उत्तरः) उत् + तृ अभिभवे-
अप् । उत्कर्षेण विजयी (भवन्) सन् ॥

१—(प्र) (ते) तव (महे) मह पूजायाम्—अथर्थे क् । महति (विदथे)
अ० १ । १३ । ४ । विद् ज्ञाने—अथप्रत्ययः । समाजे (शंसिषुम्) शंसु स्तुतौ—
लडथे लुङ्, अडभावः । स्तौमि (हरी) दुःखहरणशीलौ बलपराक्रमौ (प्र
(ते) तव (वन्वे) वनु याचने-लट् । अहं याचे (वनुषः) जनेरुसि । उ० २ ।
११५ । वन हिंसायाम्—उसि । शत्रुहिंसकस्य शूरस्य (हर्यतम्) भृमृदशि-
यजि० । उ० ३ । ११० । हर्य कान्तौ—अतच् । कमनीयम् (मदम्)
आनन्दम् (घृतम्) उद्भूतम् (न) इव (यः) भवान् (हरिभिः)

पुरुषों के साथ (घृतम् न) जल के समान (चारु) रमणीय धन को (सेचते) बरसाते हैं, (हरिवर्षसम्) सिंहरूप (त्वा) उस तुम्हें (गिरः) स्तुतियां (आ) सब ओर से (विशन्तु) प्रवेश करें ॥ १ ॥

भावार्थ—बली, पराक्रमी, धनी दानी पुरुष ससार में बडाई पाता है ॥१

यह सूक्त ऋग्वेद में है—१० । ६६ । १-५ ।

इस सूक्त का मिलान करो ऋग्वेद—म० ३ । सू० ४३ ॥

हरिं हि योनिम्भि ये सुमस्वरन् हिन्वन्तो हरी दिव्यं यथा
सदः । आ यं पूणन्ति हरिभिर्न धेनव इन्द्राय शुषं हरिवन्त-
मर्चत ॥ २ ॥

हरिम् । हि । योनिम् । अभि । ये । सुम्-अस्वरन् । हिन्वन्तः ।
हरी इति । दिव्यम् । यथा । सदः ॥ आ । यम् । पूणन्ति ।
हरि-भिः । न । धेनवः । इन्द्राय । शुषम् । हरि-वन्तम् ।
अर्चत ॥ २ ॥

भाषार्थ—(हरी) दुख हरने वाले दोनों बल और पराक्रम को (हिन्व-
न्तः) बढाते हुये (ये) जो लोग (दिव्यम्) दिव्य गुण वाले (सदः यथा)
समाज के समान (हरिम्) दुख मिटाने वाले [सेनापति] को (हि) निश्चय
करके (योनिम् अभि) न्याय घर में (समस्वरन्) अछड़े प्रकार सराहते हैं,

वीरमनुष्यैः (चारु) रमणीय धनम् (सेचते) सिञ्चति । वर्षयति (आ)
समन्तात् (त्वा) त्वाम् (विशन्तु) प्रविशन्तु । प्राप्तुवन्तु (हरिवर्षसम्) वृद्ध
शीर्ष्या रूपस्वाङ्गयोः पुट् च । उ० ४ । २०१ । वृद्ध वरयो-अणुन् पुट् च । वर्षो
रूपनाम—निघ० ३ । ७ । हरेः सिंहस्य रूपमिव रूपं यस्य तम् । महाबलवन्तम्
(गिरः) स्तुतयः ॥

२—(हरिम्) दुःखहर्तारि सेनापतिम् (हि) निश्चयेन (योनिम्)
न्यायगृहम् (अभि) प्रति (ये) पुरुषाः (समस्वरन्) स्वृ शब्दोपताययो—
लङ्थे लङ् । सभ्यक् स्तुवन्ति (हिन्वन्तः) हि गतिवृद्धयोः—शतृ । यथयन्तः
(हरी) दुःखहर्तारौ बक्षपराक्रमौ (दिव्यम्) उत्तमगुणविशिष्टम् (यथा)

और (यम्) जिस [सेनापति] को (हरिभिः) शूर पुरुषों सहित (धेनवः न) गौश्रों के समान [जो] (आ) सब भोर से (पृणन्ति) तृप्त करते हैं, (इन्द्राय) ऐश्वर्य के लिये (शूषम्) मुखसे (हरिवन्तम्) उस शूर पुरुषों वाले [सेनापति को (अर्चत) तुम पूजो ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—प्रजागण न्यायकारी वीर राजा को शूर विद्वानों के सहित प्रसन्न करके आनन्दित रहें ॥ २ ॥

सो अस्य वज्रो हरितो य आयुषो हरिर्निकामो हरिरा गर्भ-
स्तयोः । द्युम्नी सुशिप्रो हरिमन्युसायक इन्द्रे नि रूपा
हरिता मिमिक्षिरे ॥ ३ ॥

सः । अस्य । वज्रः । हरितः । यः । आयुषः । हरिः । नि-
कामः । हरिः । आ । गर्भस्तयोः ॥ द्युम्नी । सु-शिप्रः । हरि-
मन्यु-सायकः । इन्द्रे । नि । रूपा । हरिता । मिमिक्षिरे ॥३॥

भाष्यार्थ—(अस्य) इस [सेनापति] का (सः) वह (हरितः) शत्रुनाशक, (आयुषः) लोहे का बना (वज्रः) इज्र [शस्त्र] है, (यः) जो (गर्भस्तयोः) दोनों भुजाओं पर (निकामः) बड़ा प्रिय, (हरिः) सिंह [के समान] (आ) और (हरिः) सूर्य [के समान] (द्युम्नी) तेजस्वी, (सुशिप्रः)

(सदः) समाजः (आ) समन्नात् (यम्) सेनापतिम् (पृणन्ति) पृण तर्पणे । तर्पयन्ति (हरिभिः) शूरमनुष्यैः सह (न) यथा (धेनवः) गावः (इन्द्राय) ऐश्वर्याय (शूषम्) शूषं सुखनाम—निघ० ३ । ६ । सुखेन (हरिवन्तम्) शूरपुरुषै युक्तम् (अर्चत) पूजयत ॥

३—(सः) प्रसिद्धः (अस्य) सेनापतेः (वज्रः) दण्डशस्त्रम् (हरितः) हृश्याभ्यामितम् । उ० ३ । १२३ । दृग् नाशने—इतम् । इश्वशत्रुनाशकः (यः) वज्रः (आयुषः) लोहनिर्मितः (हरिः) सिंह इव (निकामः) नितरां कमनीयः प्रियः (हरिः) सूर्य इव (आ) समुच्चये (गर्भस्तयोः) गर्भ्यने ज्ञायते इति गः विषयः, गर्भ-इ, तं वभस्वि भास्वन्ति दीपयतीति । क्विक्त्वा च । पा० ३।३।७। भस् दीपनौ—क्विक् । गर्भस्ती वाहनाम—निघ० २।४। भुजयोः (द्युम्नी) अ०

बहुत काटने वाला [बड़ा कटीला वा दन्तीला] और (हरिमन्युसायकः) सर्प [के समान शत्रु] के क्रोध का नाश करने वाला है। (इन्द्रे) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले सेनापति] में (हरिता) स्वीकार करने योग्य (रूपा) रूप [सुन्दरपन] (नि) दृढ करके (मिमिक्षिरे) सींचे गये हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ—सेनापति दृढ़ तीक्ष्ण हथियारों से शत्रुओं का नाश करके अपने उच्चम गुणों से प्रजा का पालन करे ॥ ३ ॥

दिवि न केतुरधि धायि हर्यतो विव्यचद् वज्रो हरितो न
रंहा । तुददहिं हरिशिमो य आयुसः सुहस्रशोका अभ-
वद्धारिभुरः ॥ ४ ॥

दिवि । न । केतुः । अधि । धायि । हर्यतः । विव्यचत् ।
वज्रः । हरितः । न । रंहा ॥ तुदत् । अहिम् । हरि-शिमः ।
यः । आयुसः । सुहस्र-शोकाः । अभवत् । हरिम्-भुरः ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(न) जैने (हर्यतः) रमणीक (केतुः) प्रकाश (दिवि) आकाश में (अधि) ऊपर (धायि) रफला गया है, (वज्रः) वह वज्रधारी (रक्षा) वेग के साथ (हरितः न) सिंह के समान (विव्यचत्) व्याप गया,

६।३५।३। द्युत दीप्तौ—नप्रत्ययः, कित्, तस्य मः, द्युम्न-इनि । दीप्तिमान् (सुशिमः)
अ०२०।४।१। शिञ् निशाने छेदने—रक् पुक् च । बहुच्छेदकः । बहुकण्टकः । बहुदन्तः
(हरिमन्युसायकः) हरेः सर्पस्यैव शात्रोः क्रोधस्य नाशकः (इन्द्रे) परमैश्व-
र्यवन्ति सेनापतौ (नि) निनराम् (रूपा) सौन्दर्याणि (हरिता) इन् स्वीकारे-
इतन् । स्वीकरणीयानि (मिमिक्षिरे) मिह सेचने—सन्—कर्मणि लडर्थे लिट् ।
मेदु सेकुम् इष्टानि भवन्ति । सिक्तानि सन्ति ॥

४—(दिवि) प्रकाशे (न) यथा (केतुः) प्रज्ञापकः प्रकाशः (अधि)
उपरि (धायि) अघायि । निहितो वर्तने (हर्यतः) कमनीयः (विव्यचत्)
व्यच व्याप्तीकरणे मेदे उग्रमतौ—णिचिलुङ् शब्दभावः । व्याप्तोत् (वज्रः) अर्श
आय्यत् । वज्रवान् (हरितः) सिंहः (न) इव (रक्षा) रहयेन वेगेन (तुदत्)
अतुदत् । हिंसितवान् (अहिम्) आहन्तारं सर्पमिन्न शत्रुम् (हरिशिमः) स्फा-

और (आयसः) लोहे के बने हुये [अति दृढ़], (हरिशिरः) सिंह के समान मुख वाले (यः) जिस ने (अहिम्) सर्प [समान शत्रु] को (तुदत्) छेदा, वह (सहस्रशोकाः) सहस्रों प्रकाश वाला होकर (हरिंभरः) मनुष्यों का पालने वाला (अभवत्) हुआ है ॥ ४ ॥

भावार्थ—तेजस्वी न्यायकारी राजा दुष्ट पापियों को शोधू दण्ड देकर अनेक प्रकार से प्रजा का पालन करे ॥ ४ ॥

त्वंत्वमहर्षया उपस्तुतः पूर्वैभिरिन्द्र हरिकेशु यज्वभिः । त्वं
हर्षसि त्व विश्वमुक्थ्यं ससामि राधो हरिजात हर्षतम् ॥५॥
त्वम्-त्वम् । अहर्षयाः । उप-स्तुतः । पूर्वैभिः । इन्द्र । हरि-
केशु । यज्व-भिः ॥ त्वम् । हर्षसि । त्वं । विश्वम् ।
उक्थ्यम् । असामि । राधः । हरि-जात । हर्षतम् ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(हरिकेश) हे सूर्य समान तेज वाले (इन्द्र) इन्द्र । [बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (पूर्वैभिः) समस्त (यज्वभिः) यह करने वालों करके (उपस्तुतः) आदर से स्तुति किया गया (त्व-त्वम्) तू ही तू (अहर्षया.) प्रिय हुआ है । (हरिजात) हे मनुष्यों में

यितश्चिञ्चि० उ० २।१३ शिञ् निशाने छेदने—रक्, पुक् च । शिप्रेहनूनासिके वा—निर० ६।१७। हरेः सिंहस्य मुखमिव मुखं यस्य सः (य.) (आयसः) लोहनिर्मितः । अतिदृढ़ः (सहस्रशोकाः) गतिकारकोपपदयाः पूर्वपदप्रकृति-स्वरत्वं च। उ० ४।२२७। सहस्र+ई शुचिर् पूतीभावे—असि । सहस्रप्रकाशः (अभवत्) (हरिंभरः) संक्षार्या भूतवृजि० पा० ३।२५६। हरि+भृञ् भरणे-खच्, मुमागमः । हरयो मनुष्याः निघ० ३।२। मनुष्याणां पोषकः ॥

५—(त्वंत्वम्) त्वमेव (अहर्षयाः) अकामयथाः । प्रियोऽभवः (उपस्तुतः) आदरेण प्रशंसितः (पूर्वैभिः) समस्तैः (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवन् राजन् (हरिकेश) केशा रश्मयः काशनाद् वा प्रकाशनाद् वा—निर० १२। २५ । हे सूर्यवत् प्रकाशवन् (यज्वभिः) सुयजोर्ध्वनिप् । पा० ३। २। १०३ । यज् देवपूजाविषु कृतिप् । यज्कर्त्भिः (त्वम्) (हर्षसि) कामयसे (त्वं) (विश्वम्) सर्वम्

प्रसिद्ध ! (त्वम्) तू (हयसि) प्रीति करता है, (विश्वम्) सब (उक्थ्यम्) पढ़ाई योग्य वस्तु और (असामि) न समाप्त होने वाला [अनन्त] (हर्यतम्) चाहने योग्य (राधः , धन (नद्य) तेरा है ॥ ५ ॥

भावार्थ—शुभ गुणों के कारण जिस राज सं सब विद्वान् प्रीति करते हैं और जो सबने प्रीति करता है, उसके राज्य में बहुत सम्पत्ति और धन होता है।

सूक्तम् ॥ ३१ ॥

१—५ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ विराडापी जगती; २, ३ जगती; ४, ५ निचूज् जगती ॥

पुरुषार्थप्रयोगपदेशः—पुरुषार्थ करने का उपदेश ॥

ता वृज्जिणं मुन्दिनं स्तोम्यं मदे इन्द्रं रथे वहतो हर्यता हरी।
पुरुषयस्मै सर्वानानि हर्यतु इन्द्राय सोमा हरयो दधन्वरे ॥१॥

ता । वृज्जिणम् । मुन्दिनम् । स्तोम्यम् । मदे । इन्द्रम् । रथे ।
वहतः । हर्यता । हरी इति ॥ पुरुषि । अस्मै । सर्वानानि ।
हर्यते । इन्द्राय । सोमाः । हरयोः । दधन्वरे ॥ १ ॥

भावार्थ—(ता) वे दोनों (हर्यता) प्यारे (हरी) दुख हर्ने वाले दोनों बल और पराक्रम (वृज्जिणम्) वृज्जिधारी, (मुन्दिनम्) आनन्दकारी, (स्तोम्यम्) स्तुति योग्य (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले पुरुष] को (मदे) सुग्न के लिये (रथे) रमण साधन जगत् में (वहतः) ले चलते हैं ।

(उक्थ्यम्) प्रशस्यम् (असामि) भुवः कित् । उ० ४ । ४५ । पो अन्तकर्मणि—
मिप्रत्ययः । अनामि नामिप्रतिपिद्ध सामि ह्यनेः " असुसमाप्तम्—निक०
६ । २३ । असमाप्तम् । अनन्तम् (राधः) धनम् (हरिजान) हे हरिषु मनुष्येषु
प्रसिद्ध (हर्यतम्) कमनीयम् ॥

१—(ता) तौ प्रसिद्धौ (वृज्जिणम्) वृज्जिधारिणम् (मुन्दिनम्) अ०
२० । १७ । ४ । मोदयितारम् (स्तोम्यम्) स्तुतियोग्यम् (मदे) आनन्दाय
(इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं पुरुषम्—(रथे) रमणसाधने जगति (वहतः)
प्रापयतः । गमयतः (हर्यता) हर्य वान्तौ—अतच् । हर्यतौ कमनीयौ (हरी)
दुःखहर्तारौ बलपराक्रमौ (पुरुषि) बहूनि (अस्मै) (सर्वानानि) पेश्वर्याणि

(सोमाः) शान्त स्वभाव वाले (हरयः) मनुष्यों ने अम्भे) इस (हर्यते) प्यारे (इन्द्राय) इन्द्र [वड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] के लिये (पुरुषि) बहुत से (सवनानि) ऐश्वर्य (दधन्वरे) प्राप्त किये हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य धर्म के साथ बल और पराक्रम करके संसार को आनन्द देता है, सब लोग मान आदर करके उस का ऐश्वर्य बढ़ाते हैं ॥१॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—१०। ६६। ६—१० ॥

अरुं कामाय हरयो दधन्वरे स्थिराय हिन्वन् हरयो हरी तुरा।
अर्वद्भिर्यो हरिभिर्जोषमीयते सो अस्य कामं हरिवन्तमानशेरे
अरम् । कामाय । हरयः । दधन्वरे । स्थिराय । हिन्वन् ।
हरयः । हरी इति । तुरा ॥ अर्वद्-भिः । यः । हरि-भिः ।
जोषम् । ईयते । सः । अस्य । कामम् । हरि-वन्तम् ।
आनुञ्चे ॥ २ ॥

भाषार्थ—(हरयः) सिंह [समान बलवान्] (हरयः) दुःख हरने वाले मनुष्यों ने (कामाय) कामना पूरी करने के लिये (तुरा) शीघ्रकारी (हरी) दुःख हरने वाले दोनों बल और पराक्रम को (स्थिराय) दृढ़ स्वभाव वाले [सेनापति] के निमित्त (अरम्) पूरा पूरा (दधन्वरे) प्राप्त किया और (हिन्वन्) बढ़ाया है । (यः) जो मनुष्य (अर्वद्भिः) घोड़ों [के समान

(हर्यते) वर्तमाने पृषद्बृहन् महज्०। उ० २ । ८४ । हर्य कान्तौ—अति-प्रत्ययः । कमनीयाय (इन्द्राय) परमैश्वर्यवते पुरुषाय (सोमाः) शान्तस्व-भावाः (हरयः) मनुष्याः (दधन्वरे) धवि गतौ—लिट्, , आत्मनेपदम् । प्राप्तवन्तः ॥

२—(अरम्) अलम् । पर्याप्तम् (कामाय) कामनां पूरयितुम् (हरयः) सिंहसमाना बलवन्तः (दधन्वरे) म० १ । प्राप्तवन्तः (स्थिराय) दृढाय सेनापतये (हिन्वन्) हि गतिवृद्ध्योः—ऊङ् । वर्द्धितवन्तः (हरयः) दुःख-हर्तारो मनुष्याः (हरी) दुःखहर्तारौ बलपराक्रमौ (तुरा) वेगे—क । वेग-वन्तौ (अर्वद्भिः) अरणवद्भिः अश्वतुत्यैवंगवद्भिः (यः) (हरिभिः) दुःख-

शीघ्रगामी] (हरिभिः) दुःख हरने वाले मनुष्यों के साथ (जोषम्) प्रीति (ईयते) प्राप्त करता है, (सः) उस में ही (हरिवन्तम्) श्रेष्ठ मनुष्यों वाली (अस्य) अपनी (कामम्) कामना का (आनशे) फैलाया है ॥ २ ॥

भावार्थ—जहाँ पर विद्वान् लोग राजा के लिये बल और पराक्रम करते हैं और राजा विद्वानों से प्रीति करता है, वहाँ सब उत्तम कामनायें पूरी होकर आनन्द बढ़ता है ॥ २ ॥

हरिश्मशारुर्हरिकेश आयसस्तुरस्पेये यो हरिपा अवर्धत ।
अर्वद्भिर्यो हरिभिर्वाजिनीवसुरति विश्वाद्दुरिता पारिषुद्धरीः

हरि-श्मशारुः । हरि-केशः । आयसः । तुरः-स्पेये । यः । हरि-
पाः । अवर्धत ॥ अर्वद्-भिः । यः । हरि-भिः । वाजिनी-वसुः ।
अति । विश्वा । दुः-द्विता । परिषत् । हरी इति ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(हरिश्मशारुः) सिंह के शरीर को छेदने वाला, (हरिकेशः)
सूर्य समान तेज वाला, (आयसः) लोहे का बना हुआ [अति दृढ] (यः) जो
(हरिपाः) मनुष्यों का रक्षक [सेनापति] (तुरस्पेये) शीघ्र रक्षा करने में
(अवर्धत) बढ़ा है, और (यः) जो (अर्वद्भिः) घोड़ों [क समान शीघ्रगामी]
(हरिभिः) दुःख हरने वाले मनुष्यों के साथ (वाजिनीवसुः) अन्न युक्त

हर्तुभिर्मनुष्यैः सह (जोषम्) प्रीतिम् (ईयते) गच्छति । प्राप्नोति (सः)
सेनापतिः (अस्य) स्वकीयस्य (कामम्) अमिलाषाम् (हरिवन्तम्) श्रेष्ठ-
पुरुषैर्युक्तम् (आनशे) अशु व्याप्तौ—लिट् । व्याप्तवान् । विस्तारितवान् ॥

३—(हरिश्मशारुः) हज्ज् नाशने—इन् + शीङ् स्वप्ने—मनिन्, डिञ्च +
प्रोरश्चलः । उ० १ । ५ । ६ शू हिंसायाम्—उञ् । श्म शरीरम्—निक० ३ । ४ ।
हरेः सिंहस्य श्मनः शरीरस्य शारुच्छेदकः (हरिकेशः) सूर्यवत् ऽकाशमानः
(आयसः) लोहनिर्मितः । अतिदृढः (तुरस्पेये) भूरजिभ्यां कित् । उ० । ४ ।
२१७ । तुर वेगे—असुन्, कित् । क्वो यत् । पा० ३ । १ । ६७ । पा रक्षणे—यत् ।
ईद्यति । पा० ६ । ४ । ६५ । आकारस्य ईकारः । तुरसा वेगेन रक्षणे (यः)
सेनापतिः (हरिपाः) हरीणां मनुष्याणां रक्षकः (अवर्धत) वर्द्धितवान्
(अर्वद्भिः) म० २ । अर्द्धतुर्वैवेणवद्भिः (यः) (हरिभिः) म० २ (वाजिनी-

क्रियाओं में बसने वाला है, वह (विश्वा) सब (दुर्गिता) विघ्नों को (अति) लांघकर (हरी) दुःख हाने वाले दोनों बल और पराक्रम का (पारिषत्) भरपूर करे ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य अति बलवान् और तेजस्वी होकर कष्ट से प्रजा की रक्षा करना है और सत्कार पूर्वक शूर वीर विद्वानों का अन्न आदि देता है, वही अपने बल और पराक्रम से कीर्ति पाता है ॥ ३ ॥

स्रुवेव यस्य हरिणी विपेततुः शिमे वाजाय हरिणी दविध्वतः ।
प्र यत् कृते चमसे मर्मजद्धरी पीत्वा मदस्य हर्य तस्यान्धसः ४

स्रुवा-इव । यस्य । हरिणी इति । वि-पेततुः । शिमे इति ।
वाजाय । हरिणी इति । दविध्वतः ॥ प्र । यत् । कृते ।
चमसे । मर्मजत् । हरी इति । पीत्वा । मदस्य । हर्य तस्य ।
अन्धसः ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(वाजाय) अन्न के लिये (यस्य) जिस [सेतापति] के (हरिणी) स्वीकार करने योग्य (शिमे) दोनों जावड़े (स्रुवा इव) दो चम-चाओं के समान (विपेततुः) विविध प्रकार चलते हैं, [उसके राज्य में] (हरिणी) सुख हरने वाली [अविद्या और कुनीति] दोनों (दविध्वतः) सर्वथा मिट जाती हैं । (यत्) क्योंकि वह (चमसे कृते) भोजन सिद्ध होने

वसुः) वाजिनीषु अन्नयुक्तासु क्रियासु निवासशीलः (अति) अतीत्य (विश्वा) सर्वाणि (दुर्गिता) विघ्नान् (पारिषत्) पृ पूरणे-णिच्, लोट् । पूरणेत् (हरी) दुःखहर्तारौ बलपराक्रमौ ॥

४—(स्रुवा) स्रुवौ । चमसौ (इव) यथा (यस्य) सेनापतेः) (हरिणी) ह्र् स्वीकारे—इनच्, उ० २ । ४६ । स्वीकरणीये (विपेततुः) लडर्थे लिट् । विविधं पततश्चलतः (शिमे) अथर्व—२० । ४ । १ । शिञ् निशाने छेदने—रक् पुक्च, टाप् । शिमे हनू नासिके वा—निरु० ६ । १७ । हनू (वाजाय) अन्नाय (हरिणी) हन् नाशने—इनच् । सुखनाशिके अविद्याकुनीती (दविध्वतः) दाधर्तदधर्ति० । पा० ७ । ४ । ६५ । ध्व कौटिल्ये यङ् लुकि लट् द्विवचनान्तः ।

पर (मद्स्य) आनन्द दायक, (हर्यतस्य) कामना योग्य (अन्धसः) अन्न का (पीत्वा) पान कर के (हरी) बल और पराक्रम दोनों को (प) अच्छे प्रकार (मर्मजत्) शुद्ध करता है ॥ ४ ॥

भावार्थ—जैसे अन्न खाने से भूख मिटती है और खुरा से अग्नि में धी डालने से धुआँ नष्ट हो जाता है, वैसे ही जो राजा विद्या और सुनीति के फैलाने से अविद्या और कुनीति मिटाना है, वह अन्न के भोजन से बल और पराक्रम बढ़ाना है ॥ ४ ॥

उत स्म सद्य ह्यृतस्य पस्त्योर्त्त्यो न वाजं हरिवां अचिक्रदत् । मही चिद्धि धिषणाह्यदोजसा बृहद् वयो दधिषे ह्यृतश्चिदा ॥ ५ ॥

उत । स्म । सद्य । ह्यृतस्य । पस्त्योः । अत्यः । न । वाजं । हरि-वान् । अचिक्रदत् ॥ मही । चित् । हि । धिषणा । अह-र्यत् । ओजसा । बृहत् । वयः । दधिषे । ह्यृतः । चित् । आ॥५॥

भाषार्थ—(हर्यतस्य) कामना योग्य [उल पूर्वोक्त पुरुष] का (सद्य) घर (उत स्म) अवश्य ही (पस्त्योः) आकाश और पृथिवी में [हुआ है] और (हरिवान्) उत्तम पुरुषों वाले [उस पुरुष] ने (अत्यः न) घोड़े के समान (वाजम्) अन्न को (अचिक्रदत्) पुकाया है—(मही) पूज-

धरति वधकर्मा—निघ० २ । १६ । सर्वथा विनश्यतः (प्र) प्रकर्षेण (यत्) यत. (कृते) संस्कृते (चमसे) भोजने (मर्मजत्) मृजू शुद्धौ - लद् । माष्टि । शोधयति (हरी) दुःखहर्तारौ बलपराक्रमौ (पीत्वा) पान कृत्वा (मद्स्य) आनन्दकस्य (हर्यतस्य) कामनीयस्य (अन्धसः) अन्नस्य ॥

५—(उत) अवश्यम् (स्म) एव (सद्य) गृहम् (हर्यतस्य) कामनीयस्य (पस्त्योः) जनेर्यक् । उ० ४ । १११ । पस वाधे ग्रन्थे च—यक् तुगागमः । पस्त्यगृहनाम—निघ० ३ । ४ । द्यावापृथिव्योर्मध्ये (अत्यः) अ० २० । ११ । ६ । अश्वः (न) यथा (वाजम्) अन्नम् (हरिवान्) हरयो मनुष्यनाम—निघ० २ । ३ । उत्तम मनुष्योपेतः (अचिक्रदत्) अ० ३ । ३ । १ । कदि

नाथ (धियणा) वेदवाणी ने (चित्) अवश्य (हि) ही (भोजसा) बल के साथ [यह] (अह्यन्) कामना की है । [इसी से] (हर्यतः) कामना योग्ये तू ने (चित्) भी (बृहत्) बड़े (वयः) जीवन को (आ) सब ओर से (दधिषे) धारण किया है ॥ ५ ॥

भाषार्य—जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार से वेदवाणी को मानकर बलवान् और पराक्रमी होना है वही आकाश और भूमि पर राज्य करके बहुत अन्न प्राप्त करता है, वैसा ही प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन बनाना चाहिये ॥ ५ ॥

सूक्तम् ॥ ३२ ॥

१—३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निचृदार्षीं त्रिष्टुप्; २. ३ त्रिष्टुप् ॥

राजकर्तव्योपदेश.—राजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

आ रोदसी हर्यमाणो महित्वा नव्यं नव्यं हर्यसि मन्मनु प्रियम् ।

प्र पुस्त्यंसुर हर्यतं गोराविष्कृधि हरये सूर्याय ॥ १ ॥

आ । रोदसी इति । हर्यमाणः । महित्वा । नव्यम्-नव्यम् ।

हर्यसि । मन्म । नु । प्रियम् ॥ प्र । पुस्त्यम् । असुर ।

हर्यतम् । गोः । आविः । कृधि । हरये । सूर्याय ॥ १ ॥

भाषार्य—[हे शूर !] (महित्वा) अपने महत्त्व से (रोदसी) आकाश और भूमि को (आ हर्यमाणः) प्राप्त कर लेता हुआ तू (नव्यं नव्यम्)

आह्वाने—गयन्नात् लुङ्, नुमभावः । आह्वानवान् (मही) पूजनीया (चित्) अवश्यम् (हि) (धियणा) धृषेर्धिष च सञ्ज्ञायाम् । उ० २ । ८२ । इति त्रि धृषा प्रागल्भ्ये—क्यु, धिषादेश्च । यद्वा, धिष शब्दे—क्यु. टाप्, धिषणा वाङ्नाम—निघ० १ । ११ । वेदवाणी (अह्यन्)-अकामयत (भोजसा) बलेन (बृहत्) महत् (वयः) जीवनम् (दधिषे) दधातेः—लिट् । त्वं धारि-नवानस्ति (हर्यत) कसनीयः (चित्) अपि (आ) समन्तात् ॥

१—(आ) समन्तात् (रोदसी) अ० ४ । १ । ४ । रुधेः—असुन् धस्य दः, डीप् । विभक्तेः पूर्व सवर्णदीर्घः । सर्वभूतरोधघियिड्यौ द्याषापृथिव्यौ—निघ० ३ । ३० (हर्यमाणः) हर्य गतिकान्त्योः—शानच् । प्राप्नुवन् (महित्वा)

नवे नवे (प्रियम्) प्रिय (मन्म) ज्ञान को (जु) शीघ्र (हर्यसि) पाता है ।
(असुर हे बुद्धिमान् ! (गो) विद्या के (हर्यनम्) पाने योग्य (पस्त्यम्)
घर को (हरये) दुःख हरने वाले (सूर्याय) सूर्य [के समान प्रेरक विद्वान्]
के लिये (प्र) अच्छे प्रकार (आविः रुचिः) प्रकट कर ॥ १ ॥

भावाय—गजा को चाहिये कि पूर्ण विद्वान् होकर प्रकाश और
भूमि के तत्त्वों को जानकर नवीन नवीन विद्याओं के आविष्कार करे और
विद्वान् आचार्य और ब्रह्मचारियों के लिये विद्यामन्दिर आदि स्थान
बनावे ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—१०।६६।११—१३ ॥

आ त्वा हर्यन्तं प्रयुजो जनानां रथे वहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र ।
पिवा यथा प्रतिभृतस्य मध्वो हर्यन् युजं सुधुमादे दशोणिम् २
आ । त्वा । हर्यन्तम् । प्र-युजः । जनानाम् । रथे । वहन्तु ।
हरि-शिप्रम् । इन्द्र ॥ पिब । यथा । प्रति-भृतस्य । मध्वः ।
हर्यन् । युजम् । सुधु-मादे । दश-ओणिम् ॥ २ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] (जनानाम्)
मनुष्यों की (प्रयुजः) प्रार्थनायें (हरिशिप्रम्) सिंह के समान मुख वाले
(हर्यन्तम्) कामना योग्य (त्वा) तुझ को (रथे) रथ पर (आ वहन्तु)
लावें । (यथा) जिनसे (मध्वमादे) उत्सव के बीच (दशोणिम्) दस

महत्त्वेन (नव्यनव्यम्) नवीन नवीनम् (हर्यसि) प्राप्तेऽपि (मन्म) मन
ज्ञाने—मनिन् । ज्ञानम् (जु) क्षिप्रम् (प्रियम्) हितकरम् (पस्त्यम्) अ० २० ।
३१ । ५ । गृहम् (असुर) अतुङ्गि प्रज्ञानामास्यत्यनर्थान्—निर० १० । ३४ ।
रो मत्वर्थीयः । हे प्रज्ञावान् (हर्यनम्) प्रापणीयम् (गोः) विद्यायाः (आविष्कृधि)
प्रकटीकृत (हरये) दुःखनाशकाय (सूर्याय) सूर्यवत् प्रेरकाय विदुषे ॥

२—(आ वहन्तु) आनयन्तु (त्वा) त्वाम् (हर्यन्तम्) कामनीयम्
(प्रयुजः) युजिस्व योगे—क्षिप् । प्रयोजनाः । प्रार्थनाः (जनानाम्) मनुष्या-
णाम् (रथे) रथसाधने याने (हरिशिप्रम्) अ० २० । ३० । ४ सिंहसमान-
मुखयुक्तम् (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् पुरुष (पिब) पानं कुरु (यथा) येन

दिशाओं में क्लेश मिटाने वाले (यज्ञम्) यज्ञ [पूजनीय व्यवहार] को (हर्यन्) चाहता हुआ तू (प्रतिभृतस्य) प्रत्यक्ष रक्खे हुये (मध्वः) ज्ञान का (पिव) पान करे ॥ २ ॥

भावार्थ—राजा सभा के बीच प्रजा की प्रार्थनाओं को सुन कर उनके दुखों को मिटाकर राज्य की उन्नति का विचार करे ॥ २ ॥

अपाः पूर्वेषां हरिवः सुतानामथो इदं सर्वन् केवलं ते ममृद्धि
सोमं मधुमन्तमिन्द्र सुत्रा वृषं जुठर आ वृषस्व ॥ ३ ॥

अपाः । पूर्वेषाम् । हरि-वः । सुतानाम् । अथो इति । इदम् ।
सर्वन्म् । केवलम् । ते ॥ ममृद्धि । सोमम् । मधु-मन्तम् ।
इन्द्र । सुत्रा । वृषन् । जुठर । आ । वृषस्व ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(हरिवः) हे उत्तम मनुष्यों वाले ! [राजन्] तू ने (पूर्वेषाम्) पहिले महात्माओं के (सुतानाम्) निचोड़ों [सिद्धान्तों] का (अपाः) पान किया है, (अथो) इसी लिये (इदम्) यह (सर्वन्म्) ऐश्वर्य (केवलम्) केवल (ते) तेरा है । (इन्द्र) हे इन्द्र ! [वडे ऐश्वर्य वाले राजन्] (मधुमन्तम्) ज्ञानयुक्त (सोमम्) ऐश्वर्य को (ममृद्धि) तृप्त कर और (वृषन्) हे बलवान् ! (सुत्रा) सत्य रीति से (जुठरे) प्रसिद्ध हुये जगत् के

प्रकारेण (प्रतिभृतस्य) प्रत्यक्षभृतस्य (मध्वः) मधुनः । ज्ञानस्य (हर्यन्)
कामर्यमानः (यज्ञम्) पूजनीयं व्यवहारम् (सधमादे) सहमोदस्थाने । उत्सवे
(दशोणिम्) सर्वधातुभ्य इन् । ३० ४ । ११८ । दश + ओण् अपनयने—इन्,
पृषोदरादिरूपम् । दशसु दिक्षु क्लेशानामपनेतारं नाशयितारम् ॥

३—(अपाः) पीतवानसि (पूर्वेषाम्) पूर्वमहात्मनाम् (हरिवः)
अ० २० । ३१ । ५ । हे श्रेष्ठमनुष्ययुक्त (सुतानाम्) निष्पादितानां सिद्धान्ता-
नाम् (अथो) अपि च (इदम्) दृश्यमानम् (सर्वन्म्) ऐश्वर्यम् (केवलम्)
अक्षाधारणम् । विशेषम् (ते) तव (ममृद्धि) मदी आमोदे—शपःश्लुः ।
हर्षष । तर्पय (सोमम्) ऐश्वर्यम् (मधुमन्तम्) ज्ञानयुक्तम् (इन्द्र) हे
परमैश्वर्यवन् राजन् (सुत्रा) निघ० ३ । १० । सत्येन (वृषन्) हे महाबलवन्

बीच (आ) सब ओर से (वृषस्व) बरसा ॥ ३ ॥

भावार्थ—राजा पूर्व महात्माओं के सिद्धान्तों पर चल कर ऐश्वर्य प्राप्त करे और उस का सत् प्रयोग करके संसार को सुख देवे ॥ ३ ॥

सूक्तिसु ३३ ॥

१—३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ त्रिष्टुप्; २, ३ विराहापीं त्रिष्टुप् ॥

राजधर्मोपदेशः -राजा के धर्म का उपदेश ॥

अप्सु धूतस्य हरिवः पिवेह नृभिः सुतस्य जुठरं पृणस्व ।

मिमिक्षुर्यमद्रय इन्द्र तुभ्यं तेभिर्वर्धस्व मदमुक्थवाहः ॥ १ ॥

अप्-सु । धूतस्य । हरि-वः । पिवे । इह । नृ-भिः । सुतस्य ।

जुठरंम् । पृणस्व ॥ मिमिक्षुः । यम् । अद्रयः । इन्द्र ।

तुभ्यंम् । तेभिः । वर्धस्व । मदम् । उक्थ-वाहः ॥ १ ॥

भाषार्थ—(हरिवः) हे श्रेष्ठ मनुष्यों वाले ! (अप्सु . प्रजाओं के बीच (नृभिः) नरों [नेताओं] करके (धूतस्य) शोधे हुये। (सुतस्य) निचोड़ [सिद्धान्त] का (इह) यहां पर (पिवे) पान कर और (जुठरम्) प्रसिद्ध हुये जगत् को (पृणस्व) सन्तुष्ट कर । (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] (अद्रयः) मेघों [के समान उपकारी पुरुषों] ने (तुभ्यम्) तेंरे लिये (यम्) जिस [आनन्द] को (मिमिक्षुः) सींचना चाहा है, (उक्थवाहः)

(जुठरे) अ० २० । २४ । ५ । प्रादुर्भूते जगति (आ) समन्तात् (वृषस्व) वर्षय ॥

१—(अप्सु) आपः, आप्ताः प्रजाः, इयानन्दभाष्ये—६ । २७ । प्रजासु (धूतस्य) धातु गतिशुद्ध्योः—क्त । छान्दसं रूपम् । धौतस्य । शोधितस्य (हरिवः) हे श्रेष्ठमनुष्ययुक्त (पिवे) पानं कुरु (इह) अत्र (नृभिः) नेतृभिः सह (सुतस्य) अभिपुत्रस्य शोधितस्य सिद्धान्तस्य (जुठरम्) अ० २० । २४ । ५ । प्रादुर्भूत सलारम् (पृणस्व) तर्पय (मिमिक्षुः) मिह सेचने—सन्, लिट् मेढुं सेकुमैच्छन् (यम्) आनन्दम् (अद्रयः) अद्रिर्मेघनाम—निघ० १ । १० । मेघसमानोपकारिणः पुरुषाः (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् राजन् (तुभ्यम्) (तेभिः) तैः पुरुषैः (वर्धस्व) वर्धय (मदम्) आनन्दम् (उक्थवाहः)

हे वचनों पर चलने वाले ! [सत्यवादी] तेभिः) उन [पुरुषों] के साथ (मदम्) उस आनन्द को (वर्धस्व) तू बढ़ा ॥ १ ॥

भावार्थ—जो राजा विद्वानों के संशोधित सिद्धान्तों को मानकर प्रजा को प्रसन्न रखता है, प्रजा भी उसे आनन्द देती है ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—१० । १०४ । २—४ ॥

प्रोग्रां पीतिं वृष्णं इयमिं सुत्यां प्रयै सुतस्य ह्यश्व तुभ्यम् ।
इन्द्र धेनाभिरिह सादयस्व धीभिर्विश्वाभिः शच्या गृणानः ॥२
प्र । उग्राम् । पीतिम् । वृष्णै । इयमिं । सुत्याम् । प्र-यै ।
सुतस्य । हरि-अश्व । तुभ्यम् ॥ इन्द्र । धेनाभिः । इह ।
सादयस्व । धीभिः । विश्वाभिः । शच्या । गृणानः ॥ २ ॥

भाषार्थ—(ह्यश्व) हे वायु समान फुरतीले घोड़ों वाले ! (वृष्णे तुभ्यम्) तुम्हें महाधली को (प्रयै) आगे चलन के लिये (सुतस्य) निचोड़ [सिद्धान्त] का (उग्राम्) तीव्र, (सत्यम् सत्यगुण वाला (पीतिम्) घूंट (प्र इयमिं) आगे रखता हूँ । (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले विद्वान्] (धेनाभिः) वेदवाणियों द्वारा (इह) यहाँ पर (विश्वाभिः) समस्त (धीभिः) बुद्धिधरों से और (शच्या) कर्म से (गृणानः) उपदेश करता हुआ तू (सादयस्व) आनन्द दे ॥ २ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य फुरतीली सेना वाला ज्ञानवान् और बलवान् हो, सब लोग आदर करके उस बुद्धिमान् कर्मकुशल को वैदिक शिक्षाओं से आनन्द पावें ॥ २ ॥

यह मन्त्र ऊपर आ चुका है—अ० । २० । २५ । ७ ॥

जुती शचीवस्तव वीर्येषु वयै दधाना उशिजं ऋतुज्ञाः ।

प्रजावदिन्द्रं मनुषो दुरोणे तस्युर्गुणन्तः सधुमाद्यासः ॥ ३ ॥

गतिकारकोपपदयोः पूर्वपठप्रकृतिस्वरन्तं च । ३०४ । २ ७ उक्थ+वह प्रापणे-
असि, णित् । हे उक्थेषु वचनेषु वहनशील । सत्यवादिन ॥

३—अयं मन्त्रो व्याख्यातः—अ० २० । २५ । ७ ॥

ऊ॒ती । शु॒चो-वः । तव । वी॒र्येण । वयः । दधा॑नाः । उ॒शिजः ।
 ऋ॒त-ज्ञाः ॥ प्र॒जा-वत् । इन्द्र । मनु॑षः । दु॒रीणे । त॒स्थुः ।
 गृ॒णन्तः । सु॒ध-मा॒द्यासः ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(शचीवः) हे बुद्धिमान् (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] (तव) तेरी (ऊती) रक्षा मे और (वीर्येण) वीरता से (प्रजावत्) उत्तम प्रजा वाले (वयः) जीवन का (दधानाः) धारण करने हुये, (उशिजः) प्रीति युक्त बुद्धिमान् (ऋतज्ञाः) सत्य शास्त्र जानने वाले (मनुषः) मननशील मनुष्य (दुरीणे) धर्मके वीच (गृणन्तः) गुण बढानते हुये (सधमाद्यासः) मिलकर आनन्द मनाने हुये (तस्थुः) ठहरते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—बुद्धिमान् जितन्द्रिय प्रधान पुरुष अपनी नीति कुशलता से ऐसा प्रबन्ध करे कि सब मनुष्य विद्वान् होकर उत्तम सन्तान और भृत्य प्रादि सहित आनन्द से रहें ॥ ३ ॥

॥ इति तृतीयेऽनुवाके तृतीयः पर्यायः ॥

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥

सूक्तम् ३४ ॥

१—१८ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १—४, १३—१५, १८ त्रिष्टुप् ; ५; १२ आर्षी त्रिष्टुप्; ६—८, ११, १७ निचृत् त्रिष्टुप्; ६ भुरिक् त्रिष्टुप्; १० विराडार्षी त्रिष्टुप्; १६ आर्षी पङ्क्तिः ॥

परमेश्वरगुणोपदेशः—परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥

३—(ऊती) ऊत्या । रक्षणेन (शचीवः) अ० २० । २१ । ३ । हे प्रशस्त-प्रज्ञावन् (तव) (वीर्येण) धीरकर्मणा (वयः) जीवनम् (दधानाः) धारयन्तः (उशिजः) अ० २० । ११ । ४ । कामयमाना मेधाविनः (ऋतज्ञाः) सत्यशास्त्रस्य ज्ञानारः (प्रजावत्) उत्तमप्रजायुक्तम् (इन्द्र) (मनुषः) जनेरसि । उ० २ । ११५ । मन ज्ञाने—उसि । मननशीला मनुष्याः (दुरीणे) अ० ५ । २ । ६ । गृहे—निघ० ३ । ४ (तस्थुः) लडर्थे लिट् । तिष्ठन्ति (गृणन्तः) स्तुवन्तः । गुणान् विज्ञापयन्तः (सधमाद्यासः) मद हर्षे—एवम् । सह हृष्यन्तः ॥

यो ज्ञात सुव प्रथुमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत् ।
यस्य शुष्माद् रोदसी अभ्यसेतां नृमणस्य मुहा स जनासु
इन्द्रः ॥ १ ॥

यः । ज्ञातः । सुव । प्रथुमः । मनस्वान् । देवः । देवान् ।
क्रतुना । परि-अभूषत् ॥ यस्य । शुष्मात् । रोदसी इति ।
अभ्यसेताम् । नृमणस्य । मुहा । सः । जनासुः । इन्द्रः ॥ १ ॥

भाषार्थ—(ज्ञातः एव) प्रकट होने ही (यः) जिस (प्रथमः) पहिले
(मनस्वान्) मननशील (देवः) प्रकाशमान [परमेश्वर] ने (केतुना) अपनी
बुद्धि से (देवान्) चलते हुये [पृथिवी आदि लोकों] को (पर्यभूषत्) सब ओर
सजाया है । (यस्य) जिसके (शुष्मात्) बल से (नृमणस्य) मनुष्यों को
भुक्ताने वाले सामर्थ्य की (महना) महिमा के कारण (रोदसी) दोनों आकाश
और भूमि (अभ्यसेताम्) भय को प्राप्त हुये हैं, (जनासुः) हे मनुष्यो ! (सः)
वह (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर] है ॥ १ ॥

भावार्थ—जिस अनादि पुरुष ने अपने अनन्त ज्ञान और सामर्थ्य से
पृथिवी आदि लोकों को रचकर नियम में रक्खा है, उस परमेश्वर के गुण
विचार कर मनुष्य अपना सामर्थ्य बढ़ावे ॥ १ ॥

१—(यः) इन्द्रः (ज्ञातः) प्रकटः सन् (एव) (प्रथमः) आदिमः
(मनस्वान्) मननवान् (देवः) प्रकाशमानः परमेश्वरः (देवान्) दिवु गतौ—
पचाधच् । गच्छतः पृथिव्यादिलोकान् (क्रतुना) प्रज्ञया—निघ० ३ । ६
(पर्यभूषत्) भूप अलङ्कारे लङ् । परितो भूषितवान् (यस्य) (शुष्मात्)
बलात् (रोदसी) अ० ४ । १ । ४ । द्यावापृथिव्यौ (अभ्यसेताम्) भ्यस मये-
लङ् । अविभीताम्—निरु० १० । १० (नृमणस्य) अ० ४ । २४ । ३ । नृ + णम
प्रहन्त्वे शब्दे च—पचाधच्, आद्यन्त विपर्ययोऽलोपश्च । नृन् शत्रुभूतान् नमयति
प्रदीकरोतीति नृमणं बलम्—निघ० २ । ६ । मनुष्याणां नमयितुः सामर्थ्यस्य
(महना) महिम्ना (सः) पूर्वोक्तः (जनासुः) हे मनुष्याः (इन्द्रः) परमैश्वर्य-
वान् परमेश्वरः ॥

यह सूक्त मन्त्र १२, १६ और १७ को छोड़ कर ऋग्वेद में है—
२। १२।१—१५ ॥

यः पृथिवीं व्यथमानामदृहद् यः पर्वतान् प्रकुपितान् अरम्णात् ।
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तभ्नात् स जनासु
इन्द्रः ॥ २ ॥

यः । पृथिवीम् । व्यथमानाम् । अदृहद् । यः । पर्वतान् । प्र-
कुपितान् । अरम्णात् ॥ यः । अन्तरिक्षम् । वि-ममे । वरीयः ।

यः । द्याम् । अस्तभ्नात् । सः । जनासुः । इन्द्रः ॥ २ ॥

— भाषार्य—(यः) जिस [परमेश्वर] ने (व्यथमानाम्) चलती
इई (पृथिवीम्) पृथिवी को (अदृहद्) दृढ किया है, (यः) जिस ने
(प्रकुपितान्) क्रोध करते हुये (पर्वतान्) मेघों को (अरम्णात्) ठहराया है ।
(यः) जिस ने (वरीयः) अधिक चौड़े (अन्तरिक्षम्) आकाश को (विममे) नाप
डाला है, (यः) जिस ने (द्याम्) सूर्य को (अस्तभ्नात्) खम्भे समान खड़ा किया
है, (जनासः) हे मनुष्यो! (सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्यवाला
परमेश्वर] है ॥ २ ॥

भावार्थ—जो परमात्मा सूर्य के आकर्षण से पृथिवी को ठहराना,
किरणों से खींचे हुये पानी को बरसाना, और आकाश के बीच सूर्य को खम्भे
के समान बनाकर अनेक लोकों को उसके आकर्षण में सब और घुमाना, है, उस
परमेश्वर की उपासना से आत्मबल बढ़ाओ ॥ २ ॥

यो हुत्वाहि सरिणात् सुप्त सिन्धुन् यो गा उदाजदपथा वलस्ये ।

२—(यः) परमेश्वरः (पृथिवीम्) विस्तीर्णा भूमिम् (व्यथमानाम्) चलन्तीम्
(अदृहद्) दृढीकृतवान् । सूर्यस्याकर्षणे धृतवान् (यः) पर्वतान्) मेघान् (प्रकुपि-
तान्) प्रक्रुद्धान् (अरम्णात्) रमु क्रीडायाम् शनाप्रत्ययः, अन्तर्गतएयर्थः । स्थापित
वान् सूर्याकर्षणे (यः) (अन्तरिक्षम्) आकाशम्) (विममे) माङ् माने—लिट् ।
विशेषण मानं कृतवान् (वरीयः) उरुतरम् (यः) (द्याम्) सूर्यमण्डलम् (अस्तभ्नात्)
स्तम्भं यथा स्थापितवान् । अन्यद् गतम् ॥

यो अश्मनोरुन्तरग्निं जुजानं संवृक् समत्सु स जनसु इन्द्रः ३
 यः । हत्वा । अहिम् । अरिणात् । सप्त । सिन्धून् । यः । गाः ।
 उत्-आजत् । अप-धा । वलस्य ॥ यः । अश्मनोः । अन्तः ।
 अग्निम् । जुजानं । सुम्-वृक् । समत्-सु । सः । जनासुः ।
 इन्द्रः ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—(यः) जिस [परमेश्वर] ने (अहिम्) सब ओर चलने वाले
 मेघ में (हत्वा) व्यापकर (सप्त) सात (सिन्धून्) बहते हुये समुद्रों [अर्थात्
 भूर्भुवः आदि सात अवस्था वाले सब लोकों] को (अरिणात्) चलाया है, (वलस्य)
 बल [सामर्थ्य] के (अपधा) हर्ष से धारण करने वाले (यः) जिसने (गा) पृथि-
 वियों को (उदाजत्) उत्तमता से चलाया है । (समत्सु) संग्रामों के बीच (संवृक्)
 शत्रुओं के रोकने वाले (य) जिसने (अश्मनोः) दो व्यापक मेघों वा पत्थरों के
 (अन्तः) बीच (अग्निम्) अग्नि [बिजुली] को (जुजान) उत्पन्न किया है, (जनासुः)
 हे मनुष्यों ! (सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला परमेश्वर] है ॥ ३ ॥

भावार्थ—भूर्, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य, सात लोक संसार की
 अवस्था विशेष हैं । परमेश्वर मेघ आदि पदार्थों और सात अवस्था वाले
 समस्त संसार में व्याप कर पृथिवी आदि लोकों का आकर्षण में रखकर, मेघ

३—(यः) इन्द्रः (हत्वा) हन हिंसागत्योः । गत्वा । व्याप्य (अहिम्) आङि
 अहिनिभ्यां ह्रस्वश्चः । उ० ४ । १३८ आङ्+हन हिंसागत्योः—इण्, डित् ।
 आदन्तोरम् । समन्ताद् गन्तारं मेघम्—निघ० १।२० (अरिणात्) री गतिरेषणयोः—
 लङ् । अगमयत् (सप्त) सप्तसंख्याकान् (सिन्धून्) स्यन्दमानान् समुद्रान् इव
 भूर्भुवः स्वर्महा जनस्तपः सत्यमिति सप्तलोकान् ससारस्य अवस्थाविशेषान्
 (यः) (गाः) पृथिवीः (उदाजत्) अज गतिक्षेपणयोः— लङ् । उत्तमनया चालित-
 वान् (अपधा) आतश्चोप सर्गे । ण० ३ । १ । १३६ । अप+दधातेः— कप्रत्ययः ।
 सुपां सुलुक् ० पा० ७।१३६। विभक्तेर्डा । अपधः । हर्षेण धारकः वलस्य) साम-
 र्थ्यस्य (यः) (अश्मनोः) व्यापकयो मेघयोः पाषाणयोर्वा (अन्तः) मध्ये (अग्निम्)
 विद्युत्म् (जुजान) उत्पादयामास (संवृक्) वृजी वर्जने—क्विप् । संवर्जकः । शत्रूणां
 निवारकः (समत्सु) अ० २० । ११ । ११ । सङ्ग्रामेषु । अन्यद् गतम् ॥

सू० ३४ [६२२] विंशं कारुडम् ॥ २० ॥ (४,०२३)

पाषाण आदि सब वस्तुओं में विजुली धारण करके परमाणुओं के संयोग
थियोग से अनन्त रचना करता है, उस को जानकर मनुष्य वृद्धि करें ॥ ३ ॥

इस मन्त्र का मिलान करो—अथर्व—२० । ६१ । १२ ॥

येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वर्णमधरं गुहाकः ।
श्वघ्नीषु यो जिगीवां लक्षमाददर्यः पुष्टानि स जनासु इन्द्रः ४
येन । इमा । विश्वा । च्यवना । कृतानि । यः । दासम् ।
वर्णम् । अधरम् । गुहा । अकरित्यकः ॥ श्वघ्नी-इव । यः ।
जिगीवान् । लक्षम् । आदत् । अर्यः । पुष्टानि । संः ।
जनासुः । इन्द्रः ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(येन) जिस [परमेश्वर] करके (इमा) यह (विश्वा) सब
(च्यवना) चलते हुये लोक (कृतानि) बनाये गये हैं, (यः) जिसने (दासम्)
देने योग्य (वर्णम्) रूप को (गुहा) गुहा [गुप्त अवस्था] में (अधरम्) नीचे (अकः)
किया है । (यः) जो, (इव) जैसे (श्वघ्नी) वृद्धि पाने वाला (जिगीवान्), विजयी
पुरुष (लक्षम्) लक्ष्य [जीते पदार्थ] को, (अर्यः) बैरी के (पुष्टानि) बड़े हुये,
धनों को (आदत्) ले लेता है, (जनासुः) हे मनुष्यो ! (सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र-
[बड़े पेश्वर्य वाला परमेश्वर] है ॥ ४ ॥

४—(येन) परमेश्वरेण (इमा) इमानि दृश्यमानानि (विश्वा) सर्वाणि
(च्यवना) च्युङ् गतौ—च्युट् । शेलुक् । गच्छन्ति जगन्ति । लोकान् (कृतानि)
रचितानि (यः) (दासम्) दातव्यम् (वर्णम्) रूपम् (अधरम्) निम्नम् (गुहा)
गुहायाम् । गुप्तावस्थायाम् (अकः) करोतेलुङ् छान्दसं रूपम् । अकार्षीत्
(श्वघ्नी) अ० २० । १७ । ४ । श्वन्नुत्तनपूषन्० । उ० १५ । १५६ । दुम्रो शिव
गतिवृद्ध्योः—कनिन्+हन हिसागत्योः—घञर्थे कप्रत्ययः । श्वघ्न-इनि । शुनो
वृद्धेर्ः प्राप्तिर्यस्य सः । वृद्धिं गतः (इव) यथा (यः) (जिगीवान्) जि जीवे
क्वसु, छान्दसो दीर्घः । विजयी पुरुषः (लक्षम्) लक्ष्यम् । जितपदार्थम् (आदत्)
आदत्ते (अर्यः) अर्यैकवचने छान्दसो यथादेशः । अरेः । शत्रोः (पुष्टानि)
समृद्धानि धनानि । अन्यद् गतम् ॥

भाषार्य—जो सब घूमते हुये लोकों को बनाता है और पदार्थों के रूपों को बीज के भीतर छिपा रखता है और जो दुष्टों को दण्ड देता है, मनुष्य उस परमेश्वर के गुणों को ग्रहण करें ॥ ४ ॥

यं स्मर्त्तुं पृच्छन्ति कुह सेति घोरमुतेमाहुर्नैषो अस्तीत्येनम् ।
 सो अर्यः पुष्टीर्विजं हुवा मिनाति अस्मै धत्त स जनासु इन्द्रः ५
 यम् । स्म । पृच्छन्ति । कुह । सः । इति । घोरम् । उत ।
 ईम् । आहुः । न । एषः । अस्ति । इति । एनम् ॥ सः ।
 अर्यः । पुष्टीः । विजः-इव । आ । मिनाति । अत् । अस्मै ।
 धत्त । सः । जनासुः । इन्द्रः ॥ ५ ॥

भाषार्य—(यम्) जिस (घोरम्) भयानक को [कोई कोई] (सः) वह (स्म) निश्चय करके (कुह) कहां है, (इति) ऐसा (पृच्छन्ति) पूछते हैं, (उत) और [कोई कोई] (एनम्) इसको, (एषः) वह (अस्ति ईम्) है ही (न) नहीं, (इति) ऐसा (आहुः) कहते हैं । (सः) वह (विजः) विवेकी (इव) ही (अर्यः) बैरी के (पुष्टीः) बड़े हुये धनों को (आ) सब और से (मिनाति) नष्ट करता है, (अस्मै) उसके लिये तुम (धत्त) सत्य [श्रद्धा] (धत्त) धारण करो, (जनासुः) हे मनुष्यो ! (सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला परमेश्वर] है ॥ ५ ॥

५—(यम्) (स्म) एव (पृच्छन्ति) जिज्ञासन्ते (कुह) क (सः) (इति) अनेन प्रकारेण । (सेति) सोऽपि लोपे चेत् पादपूरणम् । पा० ६।१। १३४ । इति सोऽपि गुणः । (घोरम्) भयङ्कर परमेश्वरम् (उत) अपि च (ईम्) सर्वतः । निश्चयेन (आहुः) कथयन्ति (न) निषेधे (एषः) (अस्ति) वर्तते (इति) (एनम्) इन्द्रम् (सः) (अर्यः) म० ४ । अर्यः (पुष्टीः) पोष्टानि धनानि (विजः) विजिर् पृथग्भावे—रप्रत्ययः । विवेकी (इव) एवार्थे (आ) समन्तात् (मिनाति) मीड् हिंसायाम् । मीनाते—निगमे । पा० ७। ३। ८१ । इति ह्रस्वः । नाशयति (अत्) सत्यम् । अस्मै (अस्मै) (धत्त) धरत । अन्यद् गतम् ॥

भावार्थ—जिस परमात्मा की विवेचना मनुष्य अनेक प्रकार करते हैं, और जो सब का आधार है, वही परमेश्वर सब का उपास्य देव है ॥ ५ ॥

यो र॒ध्रस्य॑ चोदिता यः कृ॒शस्य॑ यो ब्र॒ह्मणी॑ नाध॒मानस्य॑ कीरेः।
यु॒क्तग्रा॑व्णो योऽवि॒ता सु॑शि॒मः सु॒तसो॑मस्य॒ स ज॑नासु इन्द्रः॥६॥
यः । र॒ध्रस्य॑ । चोदि॒ताः । यः । कृ॒शस्य॑ । यः । ब्र॒ह्मणः॑ ।
नाध॒मानस्य॑ । कीरेः ॥ यु॒क्त-ग्रा॑व्णः । यः । अ॒वि॒ता । सु॒-
शि॒मः । सु॒त-सो॑मस्य । सः । ज॒नासुः॑ । इन्द्रः ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(यः) जो [परमेश्वर] (रध्रस्य) धनी का, और (यः) जो (कृशस्य) दुर्बल का, (यः) जो (नाधमानस्य) ऐश्वर्य वाले, (कीरेः) गुणों के व्याख्याता (ब्रह्मणः) ब्रह्मा [ब्रह्मज्ञानी] का (चोदिता) आगे बढ़ाने वाला है । (यः) जो (युक्तग्रावणः) योगाभ्यासी परिद्धत का और (सुतसोमस्य) मोक्ष पा लेने वाले का (सुशिमः) बड़ा सेवनीय (अविता) रक्षक है, (जनासः) हे मनुष्यो ! (सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर] है ॥ ६ ॥

भावार्थ—मनुष्य उस परमात्मा की उपासना से सदा उत्तम कर्म करें, जो सब को श्रेष्ठ कर्म द्वारा उन्नति के लिये आज्ञा देता है ॥ ६ ॥

यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे

६—(यः) परमेश्वरः (रध्रस्य) स्फायितञ्चिच्च० । उ० २ । १३ ।
रध्रं हिंसासंराद्धयोः—रक् । समृद्धस्य । धनिकस्य (चोदिता) प्रेरकः
(यः) (कृशस्य) दुर्बलस्य (यः) (ब्रह्मणः) वेदज्ञानिनः पुरुषस्य (नाध-
मानस्य) नाधु याञ्जोपतापैश्वर्याशीःषु—शानच् । ऐश्वर्ययुक्तस्य (कीरेः) अ०
२० । १७ । १२ । गुणव्याख्यातुः (युक्तग्रावणः) युज समाधौ—क्त । अभ्ये-
भ्येऽपि दृश्यन्ते । पा० ३ । २ । ७५ । गृ शब्दे विज्ञापे स्तुतौ च—कनिप् ।
अभ्यस्तयोगस्य परिद्धतस्य (यः) (अविता) रक्षकः (सुशिमः) स्फायित-
ञ्चिच्चि० । उ० २ । १३ । शिव् सेवायाम्—रक्, पृषोदरादि त्वाद् रूपसिद्धिः ।
सुसेवनीयः (सुतसोमस्य) पु गतौ प्रसवैश्वर्ययोश्च—क्त, सोमो मोक्षः ।
प्राप्तमोक्षस्य । अभ्यत् गतम् ॥

रथासः । यः सूर्यं य उषसं जुजानु यो अपां नेता स जनासु
इन्द्रः ॥ ७ ॥

यस्य । अश्वासः । प्र-दिशि । यस्य । गावः । यस्य । ग्रामाः ।
यस्य । विश्वे । रथासः ॥ यः । सूर्यम् । यः । उषसम् । जुजानु ।
यः । अपाम् । नेता । सः । जनासुः । इन्द्रः ॥ ७ ॥

भाष्यार्थ—(यस्य) जिसकी (प्रदिशि) वडी आजा में (अश्वासः)
घाड़े, (यस्य) जिसकी [आजा में] (गावः) गाय बैल आदि पशु, (यस्य)
जिसकी [आजा में] (ग्रामाः) गाम [मनुष्य समूह] और (यस्य) जिसकी
[आजा में] (विश्वे) सब (रथासः) विहार कराने वाले पदार्थ है ।
(यः) जिस ने (सूर्यम्) सूर्य को, (यः) जिस ने (उषसम्) प्रभात वेला को
(जुजानु) उत्पन्न किया है, और (यः) जो (अपाम्) जलों का (नेता)
पहुँचाने वाला है, (जनासुः) हे मनुष्यो ! (सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र
[वड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर] है ॥ ७ ॥

भावार्थ—जिस परमात्मा के अनन्त सामर्थ्य से सब उपकारी जीव
और पदार्थ उत्पन्न हुये हैं, उस जगदीश्वर की उपासना करके मनुष्य उपकार
करे ॥ ७ ॥

यं क्रन्दसी संयती विह्वयेते परेऽवर उभयां अमित्राः । सुमानं
चिद्रथमातस्थिवांसु नाना हवेते स जनासु इन्द्रः ॥ ८ ॥

यम् । क्रन्दसी इति । संयती इति सु-यती । विह्वयेते इति
वि-ह्वयेते । परे । अवरे । उभयाः । अमित्राः ॥ सुमानम् ।

७—(यस्य) परमेश्वरस्य (अश्वासः) तुरङ्गाः (प्रदिशि) प्रकृष्टाया—
माहायाम् (यस्य) (गावः) धेनुवृषमादयः पशवः (यस्य) (ग्रामाः) मनुष्य—
समूहाः (यस्य) (विश्वे) (रथानः) विहारमाधनाः पदार्थाः (यः)
(सूर्यम्) सवितृमण्डलम् (यः) (उषसम्) प्रथूपकालम् (जुजानु) उत्पा-
दितवान् (यः) (अपाम्) जलानाम् (नेता) प्रापकः । इन्द्र गतम् ॥

चित् । रथम् । आतस्थि-वांसा । नाना । हवेते इति । सः ।
जनासुः । इन्द्रः ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(यम्) जिसको (संयती) आपस में जुटी हुयी (क्रन्दसी) ललकारती हुयी दो सेनायें (विह्वयेते) विविध प्रकार पुकारती हैं, (परे) ऊचे [जीतने वाले] और (अचरे) नीचे [हारने वाले] (उभयाः) दोनों पक्ष (अमित्राः) शत्रुदल [पुकारते हैं] । और [जिसको] (समानम्) एक (चित्) ही (रथम्) रथ में (आतस्थिवांसा) चढ़े हुये दोनों [योधा और सारथी] (नाना) बहुत प्रकार से (हवेते) बुलाते हैं, (जनासुः) हे मनुष्यो ! (सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर] है ॥ = ॥

भावार्थ—जिस इष्टदेव परमात्मा का स्मरण करके सब मनुष्य उत्साही होकर आगे बढ़ते हैं, उसकी उपासना सबको करनी चाहिये ॥ = ॥

यस्मात् ऋते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अक्षे ह्वन्ते ।
यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत् स जनासु
इन्द्रः ॥ ८ ॥

यस्मात् । न । ऋते । वि-जयन्ते । जनासः । यम् । युध्यमानाः ।
अक्षे । ह्वन्ते ॥ यः । विश्वस्य । प्रति-मानम् । बभूव ।
यः । अच्युत-च्युत् । सः । जनासुः । इन्द्रः ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(यस्मात् ऋते) जिस के बिना (जनासः) मनुष्य (न)

८—(यम्) परमेश्वरम् (क्रन्दसी) अ० २ । ४ । १ । क्रदि आह्वाने—असुन्, डीप्, पूर्वभवादीर्घः । क्रन्दस्यौ । आह्वयस्यौ द्वे सेने (संयती) इण् गतौ-शतृ-। संगच्छमाने (विह्वयेते) विविधमाह्वयतः प्रतिभटान् (परे) प्रकृष्टाः । जेनारः (अचरे) निकृष्टाः । पराजिताः (उभयाः) उभयपक्षाः (अमित्राः) शत्रवः (समानम्) एकम् (चित्) एव (रथम्) यनिम् (आतस्थिवांसा) अंधिनिष्ठन्तौ (नाना) अनेकधा (हवेने) आह्वयतः । अन्यद् गतम् ॥

९—(यस्मात्) परमेश्वरात् (न) निषेधे (ऋते) बिना (विजयन्ते)

नहीं (विजयन्ते) विजय पाते हैं. (यम्) जिसको (युध्यमानाः) लड़ते इये लोग (भवसे) रक्षा के लिये (हवन्ते) पुकारते हैं। (यः) जो (विश्वस्य) संसार का (प्रतिमानम्) प्रत्यक्ष नापने का साधन और (यः) जो (अच्युतच्युत्) नहीं हिलने वालों का हिलाने वाला (बभूव) है, (जनासः) हे मनुष्यो ! (सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला परमेश्वर] है ॥ ६ ॥

भावार्थ—जिस जगदीश्वर की उपासना से ही मनुष्य युद्ध में जय पाते हैं, जो सब संसार को ठीक ठीक जानता और जो अत्यन्त से अत्यन्त उद स्वभाव वालों को बश में रखता है, उसकी उपासना सब करें ॥ ६ ॥

यः शश्वतो मह्येना दधानानमन्यमानान् शर्वा जुघान् । यः शर्धते नानुददाति शृध्यां यो दस्यो हुन्ता स जनासु इन्द्रः ॥ १० ॥

यः । शश्वतः । महि । एनः । दधानान् । अमन्यमानान् । शर्वा । जुघान् ॥ यः । शर्धते । न । अनुददाति । शृध्याम् । यः । दस्योः । हुन्ता । सः । जनासुः । इन्द्रः ॥ १० ॥

भावार्थ—(यः) जिस ने (महि) बड़े (एनः) पाप को (दधानान्) धारण करने वाले (शश्वतः) बहून से (अमन्यमानान्) अज्ञानियों को (शर्वा) शाननरूपी वज्र से (जुघान्) मारा है। (यः) जो (शर्धते) अपमान करने वाले को (शृध्याम्) उरसाह (न) नहीं (अनुददाति) कभी देता है, और (यः)

विजयं प्राप्नुवन्ति (जनासः) मनुष्याः (यम्) (युध्यमानाः) युद्धं, कुर्वाणाः (भवसे) रक्षणाय (हवन्ते) आह्वयन्ति (यः) (विश्वस्य) संसारस्य (प्रतिमानम्) प्रत्यक्षमानसाधनम् (बभूव) लडर्ये लिङ् । भवति (यः) (अच्युतच्युत्) अच्युतानाम्, अच्यवयितव्यानां स्यावरादीनां च्यावयिता प्रेरयिता । अन्यद् गतम् ॥

१०—(यः) परमेश्वरः (शश्वतः) बहून्—निघ० ३ । १ (महि) महत् (एनः) पापम् (दधानान्) धरतः (अमन्यमानान्) अज्ञानिनः । शठान् (शर्वा) बुद्धभावः । शरणा । शासनरूपवज्रेण (जुघान्) नाशितवान् (यः) (शर्धते) शत्रु शब्दकुत्सायाम्, अपमाने उत्साहे च—शत्रु । अपमानं कुर्वते (न) निषेधे (अनुददाति) आनुकूल्येन प्रयच्छति (शृध्याम्) शत्रु उरसाहे—कथं । शर्वा

जो (दस्योः) डाकू का (हन्ता) मारने वाला है, (जनासः) हे मनुष्यो ! (सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर] है ॥ १० ॥

भाषार्थ—जो परमात्मा पापियों, निन्दकों और डाकूओं को बिना दण्ड दिये नहीं छोड़ता, अर्थात् दरडनीय को दण्ड ही देता है, उसी को न्यायकारी जगदीश्वर जानो ॥ १० ॥

यः शम्बरं पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां शूरान्वविन्दत् ।
 अज्जायमानं यो अहिं जुघानु दानुं शयानं स जनासु इन्द्रः ॥११
 यः । शम्बरम् । पर्वतेषु । क्षियन्तम् । चत्वारिंश्याम् ।
 शूरदि । अनु-अविन्दत् ॥ अज्जायमानम् । यः । अहिम् ।
 जुघानं । दानुम् । शयानम् । सः । जनासुः । इन्द्रः ॥ ११ ॥

भाषार्थ—(यः) जिस ने (पर्वतेषु) वादलों में (क्षियन्तम्) रहते हुये (शम्बरम्) चलने वाले पानो को (चत्वारिंश्याम्) भिन्ना नाश करने वाले (शूरदि) वर्ष में (अन्वविन्दत्) निरन्तर पहुँचाया है । (यः) जिसने (अज्जायमानम्) अत्यन्त बल करते हुये, (दानुम्) छेदने वाले, (शयानम्) पडे हुये (अहिम्) सय ओर से नाश करने वाले [विघ्न] को (जघान) नष्ट किया है,

बलनाम—निघ० २ । ६ । उत्साहम् (यः) (दस्योः) परपदार्थापहारकस्य (हन्ता) घातकः । अन्यद् गतम् ॥

११—(यः) इन्द्रः परमेश्वरः (शम्बरम्) कोरन् । उ० ४ । १५५ । शम्बरं सम्बन्धने गतौ च-अरन्, यद्वा शम्+वृञ् धरणे-अप्, वस्य वः । शम्बरं मेघः—निघ० १।१०। शम्बरमुदकम्—१।१२। शम्बरं बलम् २। ६ । गतिशीलं जलम् (पर्वतेषु) मेघेषु (क्षियन्तम्) निवसन्तम् (चत्वारिंश्याम्) अशुप्रुषित्ति० । उ० १। १५१। चत याचने-कन्, टाप्+रिश् हिंसायाम्-क, गौरादित्वाद् ङीष्, छान्दसो जुम् । चत्वाया भिन्नाया रिश्यां नाशिकायाम् (शूरदि) वत्सरे (अन्वविन्दत्) अन्तर्गतपर्ययः । निरन्तरं प्रापितवान् (अज्जायमानम्) कर्तुः क्यङ् सलापश्च । पा० ३ । १।११। अज्जस्-क्यङ् अजसोऽप् सरसो नित्यमितरेषां विमाषया। वा० पा० ३।१।११। सकारलापः । अजो बलम्, वद्वदाचरन्तम् । अतिशयितबल-शुक्लम् (वः) (अहिम्) म० ३। आहन्तारं सम्मन्ताद् नाशयितारं विघ्नम् (जघान)

(जनोंसे) हे मनुष्यो ! (यः, वर इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर] है ॥ ११ ॥

भावार्थ—जो परमात्मा सूखा के समय अकाल में मेह बरसाकर अन्न उत्पन्न करता और क्लेशों का नाश करके शारीरिक और आत्मिक सुख पहुंचाता है, उसी की उपासना किया करो ॥ ११ ॥

यः शम्बरं पुर्यतरुत् कसीभिर्योऽचारुकास्नापिबत् सुतस्य । अन्त-
गिरौ यजमानं बहुं जनं यस्मिन्नासूर्च्छत् स जनासु इन्द्रः ॥ १२

[सूचना—मन्त्र १२, १६, १७ ऋग्वेद आदि अन्य वेदों में नहीं हैं, और इन का पदपाठ गवर्तमेन्ट बुकडिपो बम्बई के पुस्तक में भी नहीं दिया। हम स्वामी विश्वेश्वरानन्द नित्यानन्द कृत पदसूची से संग्रह करके स्वरो को यथा-सम्भव शोधकर यहां लिखने हैं, बुद्धिमान् जन विचार लें]

यः । शम्बरम् । परि । अतरुत् । कसीभिः । यः । अचारु ।
कास्ना । अपिबत् । सुतस्य ॥ अन्तः । गिरौ । यजमानम् ।
बहुम् । जनम् । यस्मिन् । आसूर्च्छत् । सः । जनासुः ।
इन्द्रः ॥ १२ ॥

भाषार्थ—(यः) जिसने (शम्बरम्) मेघ [के समान उपकारी पुरुष] को (कसीभिः) ज्ञानों के साथ (परि) सबप्रकार (अतरत्) तराया है, (यः) जिस (अचारु) अचालु [निश्चल] ने (कास्ना) प्रकाश के साथ (सुतस्य) तस्व का (अपिबत्) पान कराया है। और [जिसने] (यस्मिन्) जिस (गिरौ अन्तः)

नाशितवान् (दानुम्) दाभाभ्यां नुः । उ० ३ । ३२ । दाप् लघने-नु । छेत्तारम् (शयानत्) कृत्तशयनमिव वर्तमानम् । अन्यद् गतम् ॥

१२—(यः) इन्द्रः (शम्बरम्) म० ११ । मेघमिवोपकारिणम् (परि) नर्वतः (अतरत्) तृ तरणे—लङ् । पारं कृतवान् (कसीभिः) अचित्स्वृतन्—विभ्य ईः । उ० ३ । १५८ । कल गतिशासनयोः—ईप्रत्यय । कसतोनि गतिकर्मा—निघ० २ । १४ । ज्ञानैः (यः) (अचारु) चर गतौ—उण् । विभक्तोर्लुक् । अचारुः । अचालुः । निश्चलः (कास्ना) रास्नासास्ना० । उ० ३ । १५ कास्य शब्दे दीप्तौ च-नप्रत्ययः, दाप्, विभक्तोराकारः । कासनया दीप्त्या (अपिबत्) अन्तर्गत-

तत्र ज्ञान के भीतर (बहुम्) बहुत से (यजमानम्) यज्ञ करने वाले (जनम्) लोगों कां (आमूर्च्छन्) सब प्रकार बढ़ाया है, (जनासः) हे मनुष्यो (सः ' वह (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर] है ॥ १२ ॥

भावार्थ—परमात्मा उपकारी ज्ञानी पुरुषों को दुख से पार करता और वैदिक तत्त्वों पर चलने वालों को बढ़ाता है, हम उस परमेश्वर की भक्ति करें ॥ १२ ॥

यः सप्त-रश्मि-वृष-भस्त्वु-विष्मान्-वा-सृ-जत् सतवे सप्त सिन्धून् ।
 यो रौहिणमस्फुरद् वज्रवाहुर्दामारोहन्तं स जनासु इन्द्रः ॥ १३ ॥
 यः । सप्त-रश्मिः । वृष-भः । तु-विष्मान् । अव-सृ-जत् ।
 सतवे । सप्त । सिन्धून् ॥ यः । रौहिणम् । अस्फुरत् । वज्र-
 वाहुः । द्याम् । आ-रोहन्तम् । सः । जनासुः । इन्द्रः ॥ १३ ॥

भाषार्थ—(सप्तरश्मिः) सात प्रकार की [शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र] किरणों वाले सूर्य के समान (यः) जिस (वृषभः) सुख की बरसा करने वाले, (तुविष्मान्) बलवान् ने (सप्त) सात (सिन्धून्) बहते हुये समुद्रों [के समान भूर् आदि सात लोकों] को (सतवे) चलने के लिये (अवामृजत्) विमुक्त किया है । और (यः) जिस (वज्रवाहुः) वज्र

एवार्थः । पानमकारयत् (सुप्तस्य) निष्पादितस्य तत्रस्य (अन्तः) मध्ये (गिरौ) कृगशुपु० । उ० ४ । १४३ । गृ विज्ञापने—इप्रत्ययः । तत्रज्ञाने (यज-मानम्) (बहुम्) बहुमख्याकम् (जनम्) मनुष्यसमूहम् (यस्मिन्) ज्ञाने (आमूर्च्छत्) आङ्+मूर्च्छा मोहसमुच्छ्राययोः—लङ् । समन्ताद् वर्धितवान् । अन्यद् गतम् ॥

१३—(यः) इन्द्रः (सप्तरश्मिः) अ० ६ । ५ । १५ । सप्त आदित्यरश्मयः-निर० ४ । २६ । शुक्लनीलपीतादिवर्णाः सप्तकिरणाः सन्ति यस्य सः । सूर्यलोक इव । (वृषभः) सुखस्य वर्धिता (तुविष्मान्) बलवान् (अवामृजत् विमुक्त-वान् (सतवे) गन्तुम् (सप्त) (सिन्धून्) म० ३ । स्यन्दमानान् समुद्रान् इव भूर् आदिसप्तलोकान्, ससारस्यावस्थाविशेषान् (यः) (रौहिणम्) कहेश्च ।

समान भुजाओं वाले [दृढ़ शरीर वाले वीर सदृश] ने (धाम्) आकाश को (आरोहन्तम्) चढ़ने हुये (रौहिणम्) उपजाने वाले वादल को- (अस्फुरत्) घुमड़ाया है [घेरा करके चलाया है], (जनासः) हे मनुष्यो ! (सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर] है ॥ १३ ॥

भावार्थ—भूर् आदि लोकों के लिये मन्त्र ३ का भाषार्थ देखो। जैसे सूर्य अपनी परिधि के लोकों को आकर्षण में रखकर ठहराता है, वैसे ही परमेश्वर सूर्य आदि लोकों को नियम में रखकर चलाता है, और अनावृष्टि हटाकर मेह बरसा कर अन्न आदि उत्पन्न करता है, हे मनुष्यो ! उस परमेश्वर की आज्ञा में चलो ॥ १३ ॥

द्यावां चिदस्मै पृथिवी नमेते शुष्माच्चिदस्य पर्वता भयन्ते ।
यः सोमपा निचितो वज्रबाहुर्यो वज्रहस्तः स जनासु इन्द्रः ॥१४
द्यावा । चित् । अस्मै । पृथिवी इति । नमेते इति । शुष्मात् ।
चित् । अस्य । पर्वताः । भयन्ते । यः । सोम-पाः । नि-चितः ।
वज्रबाहुः । यः । वज्र-हस्तः । सः । जनासुः । इन्द्रः ॥ १४ ॥

भावार्थ—(द्यावा पृथिवी) आकाश और भूमि (चित्) भी (अस्मै) इस [परमेश्वर] के लिये (नमेते) झुकते हैं, (अस्य) इस के (शुष्मात्) बल से (चित्) ही (पर्वताः) मेघ (भयन्ते) डरते हैं । (यः) जो (निचितः) भर पूर, (सोमपाः) ऐश्वर्य का रक्षक, (वज्रबाहुः) वज्रसमान भुजाओं वाला

४०२। ५५। रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च—इन्द्र, प्रज्ञादि-वाद्यु । रौहिणो मेघनाम—निघ० १। १०। उत्पादनशीलं मेघम् (अस्फुरत्) स्फुर संवृत्तने । संचालितवान् (वज्रबाहुः) वज्रवत् सारभूताभ्या वाहुभ्यामुपेतः शूरपुरुष इव (धाम्) आकाशम् (आरोहन्तम्) अधितिष्ठन्तम् । अन्यद् गतम् ॥

१४—(द्यावां पृथिवी) छान्दसं व्यवधानम् । आकाशभूमिलोकौ (चित्) अपि (अस्मै) परमेश्वराय (नमेते) प्रहीभवतः (शुष्मात्) घलात् (चित्) एव (अस्य) परमेश्वरस्य (पर्वताः) मेघाः (भयन्ते) छान्दसः शब्द आत्मने पदं च । विभक्ति (यः) (सोमपाः) ऐश्वर्यरक्षकः—दयानन्दभ ये. यजु०

[दृढ शरीर वाले वीर सदृश] है और (यः) जो (वज्रहस्तः) वज्रहाथ में रखने वाले [दृढ हथियार वाले शूर सदृश] है, (जनासः) हे मनुष्यो ! (सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर] है ॥ १४ ॥

भाषार्थ—जिस परमात्मा के नियम में सब बड़े बड़े और छोटे छोटे पदार्थ रहते हैं, वही महाबली हमारे ऐश्वर्य का रक्षक है, उसकी शरण में रहकर हम अपना कर्तव्य करें ॥ १४ ॥

यः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शशमानमुती ।
यस्य ब्रह्म वर्धनं यस्य सोमो यस्येदं राधः स जनासु इन्द्रः ॥१५

यः । सुन्वन्तम् । अवति । यः । पचन्तम् । यः । शंसन्तम् ।
यः । शशमानम् । ऊती ॥ यस्य । ब्रह्म । वर्धनम् । यस्य ।
सोमः । यस्य । इदम् । राधः । सः । जनासुः । इन्द्रः ॥ १५ ॥

भाषार्थ—(यः) जो [परमेश्वर] (सुन्वन्तम्) तत्त्व निचोड़ते हुये को, (यः) जो (पचन्तम्) पके करते हुये को, (यः) जो (शंसन्तम्) गुण बखानते हुये को, (यः) जो (शशमानम्) उद्योग करते हुये को (ऊती) अपनी रक्षा से (अवति) पालता है । (यस्य) जिसका (ब्रह्म) वेद, (यस्य) जिसका (सोमः) मोक्ष और (यस्य) जिसका (इक्ष्म) यह (राधः) धन (वर्धनम्) वृद्धिरूप है, (जनासुः) हे मनुष्यो ! (सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर] है ॥ १५ ॥

८ । ३४ (निचितः) चिञ् चयने—क्त । नितरां राशीकृतः । पूरितः (वज्रबाहुः) म० १३ (यः) वज्रहस्तः) वज्रो दृढशर्त्तु हस्तयोर्यस्य स शूर इव । अन्यद् गतम् ॥

१५—(यः) परमेश्वरः (सुन्वन्तम्) तत्त्वं निष्पादयन्तम् (अवति) पालयति (यः) (पचन्तम्) परिपकं कुर्वन्तम् (यः) (शंसन्तम्) गुणान् वर्णयन्तम् (यः) (शशमानम्) शश सुतगतौ-शानच् । उद्योगं कुर्वन्तम् (ऊती) रक्षया (यस्य) (ब्रह्म) वेदः (वर्धनम्) वृद्धिरूपम् (यस्य) (सोमः) मोक्षः (यस्य) (इदम्) (राधः) धनम् । अन्यद् गतम् ॥

भावार्थ—जो परमात्मा वेद द्वारा सब मनुष्यों को तत्त्वदर्शी बनाने वनाने का उपदेश करता है, और संसार के सब पदार्थ जिसका ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं, उसका ध्यान करके सब लोग उन्नति करें ॥ १५ ॥

जातो व्यख्यत् पित्रोरुपस्थे भुवो न वेद जनितुः परस्य ।
स्तुविष्यमाणो नो यो अस्मद् ब्रूता देवानां स जनासु इन्द्रः १६

[सूचना-पद पाठ के लिये सूचना मन्त्र १२ देखो ।]

जातः । वि । अख्यत् । पित्रोः । उपस्थे । भुवः । न । वेदुः ।
जनितुः । परस्य ॥ स्तुविष्यमाणः । नो इति । यः । अस्मत् ।
ब्रूता । देवानाम् । सः । जनासुः । इन्द्रः ॥ १६ ॥

भावार्थ—(यः) जो (जातः) प्रकट होकर (पित्रोः) [हमारे] माता पिता के (उपस्थे) समीप में (वि अख्यत्) व्याख्यात हुआ है, और (परस्य) [अपने से] दूसरे (जनितुः) जनक और (भुवः) जननी को (न) नहीं (वेद) जानता है, और (देवानाम्) विद्वानों का (स्तुविष्यमाणः) स्तुति किया गया [जो] (नो) अभी ही (अस्मत्) हमारे (ब्रूता) कर्मों को [जानता है], (जनासुः) हे मनुष्यो ! (सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर] है ॥ १६ ॥

भावार्थ—जो अनादि होने से हमारे पूर्वजों का पूर्वज है, और अजन्मा होने से जिसके माता पिता नहीं हैं, और सर्वज्ञ होने से सब के कर्मों को जानता है, हम उस जगदीश्वर को उपासना करके अपना सामर्थ्य बढ़ावें ॥ १६ ॥

१६—(जातः) प्रकटः सन् (वि अख्यत्) वि अख्यातोऽभवत् (पित्रोः) अस्माकं मातापित्रोः (उपस्थे) समीपे (भुवः) भू सत्तायाम्-किप् । भवन्ति उत्पद्यन्ते सन्ताना यस्यां सा भूः । द्वितीयार्थे पृष्ठी । भुवम् । जननीम् (न) निषेधे (वेद) जानाति (जनितुः) जनितारम् । जनकम् (परस्य) परम् । स्वस्माद् मिश्रम् (स्तुविष्यमाणः) लुटः सद् वा । पा० ३।३।१४। षुञ् स्तुतौ—लुटः शानच्, कर्मणि प्रयोगः । स्तूयमान्, (नो) न—ड । न इति सम्प्रत्यर्थे—निरु० ७।३१ । ड एवार्थे । इदानीमेव (यः) परमेश्वरः (अस्मत्) षष्ठ्यर्थे षञ्चमी । अस्माकम् (ब्रूता) ब्रूतानि । इति—निरु० ३।१ (देवानाम्) विद्वानां मध्ये । अन्यत् पूर्ववत् ॥

यः सोमकामो हर्यश्वः सुरिर्यस्माद् रेजन्ते भुवनानि विश्वा ।
यो जुघान शम्बरं यश्च शुष्णं य एकवीरः स जनासु इन्द्रः १७

[सूचना-पद पाठ के लिये सूचना मन्त्र १२ देखो ।]

यः । सोम-कामः । हरि-अश्वः । सुरिः । यस्मात् । रेजन्ते ।
भुवनानि । विश्वा ॥ यः । जुघान । शम्बरम् । यः । च ।
शुष्णम् । यः । एक-वीरः । सः । जनासुः । इन्द्रः ॥ १७ ॥

भाषार्थ—(य,) जो [परमेश्वर] (सोमकामः) ऐश्वर्य चाहने वाला,
(हर्यश्वः) मनुष्यों में व्यापक, (सुरिः) प्रेरक, विद्वान् है, (यस्मात्) जिससे
(विश्वा) सब (भुवनानि) लोक (रेजन्ते) थरथरते हैं । (यः) जो (शम्बरम्) मेघ
में (च) और (यः) जो (शुष्णम्) सूर्य में (जुघान) व्यापा है, (यः) जो
(एकवीरः) एकवीर [अकेला शूर] है, (जनासुः) हे मनुष्यो ! (सः) वह
(इन्द्रः) इन्द्र- [बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर] है ॥ १७ ॥

भावार्थ—सर्वव्यापक सर्वज्ञ परमात्मा परम ऐश्वर्यवान् होकर सब
को ऐश्वर्यवान् बनाता है और जो एकवीर होकर सब ससार को नियम में
रखता है, उस इष्ट देव की महिमा विचार कर हम ऐश्वर्य बढ़ावें ॥ १७ ॥

यः भुन्वते पचते दुध्न आ चिद् वाजं दर्शयिषि स किलापि सुत्यः ।
वयं तं इन्द्र विश्वहं मिथासः सुवीरासो विद्युमा वदेम ॥१८

१७—(यः) परमेश्वरः (सोमकामः) ऐश्वर्य कामयमानः (हर्यश्वः)
हरयो मनुष्याः—निघ० २।३+अश्व व्याप्तौ-कन् । मनुष्येषु व्यापकः (सुरिः) अ०
२।१।४। षू प्रेरणे—क्रि-उ० ४। ६४। प्रेरको विद्वान् (यस्मात्) परमेश्वरात् (रेज-
न्ते) रेजत इति भयवेपनयो.—निघ० ३।२१। कम्पन्ते (भुवनानि) लोकाः (विश्वा)
सर्वाणि (यः) (जुघान,) हन हिंसागत्योः—लिट् । जगाम । व्याप्तवान्
(शम्बरम्) म० १२ । मेघम्—निघ० १ । १० (यः) (च) (शुष्णम्) वृषिः-
विरसिभ्यः कित् । उ० ३ । १२ । शुष शोषे—नप्रत्ययः कित् । रसशोषकं सूर्यम्
(यः) (एकवीरः) अ० १६ । १३ । २ । अद्वितीयशूरः । अन्यद् गतम् ॥

यः । सुन्वते । पचते । दुध्नः । आ । चित् । वाजम् । दर्दधि ।
 सः । किल । अस्ति । सत्यः ॥ वयम् । ते । इन्द्र । विश्वह ।
 प्रियासः । सु-वीरासः । विदथम् । आ । वदेम ॥ १८ ॥

भाष्य—(यः) जो तू (दुध्नः) पूर्ण होकर (चित्) ही (सुन्वते)
 तत्त्व निचोडते हुये और (पचते) परिपक्व करते हुये के लिये (वाजम्) अन्न
 [वा बल] (आ दर्दधि) फाड़ कर देता है, (सः) सो तू (किल) निश्चय
 करके (सत्यः) सच्चा (अस्ति) है । (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले
 परमेश्वर] (वयम्) हम (ते) तेरे (प्रियासः) प्यारे हो कर (सुवीरासः)
 सुन्दर वीरों वाले (विश्वह) सब दिनों (विदथम्) ज्ञान का (आ) सब ओर
 (वदेम) उपदेश करें ॥ १८ ॥

भाष्य—परिपूर्ण सत्यस्वरूप परमात्मा इतश्वदर्शी परिपक्व ज्ञानियों
 को धनवान् और बलवान् करता है, उसी के गुणों को विचार कर हम उसम
 वीरों वाले होवें ॥ १८ ॥

सूक्तम् ३५ ॥

१—१६ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, १६ विराडार्षी त्रिष्टुप्; २, ७, ६ निष्पृत्
 त्रिष्टुप्; ३, ५, १५ विराट् पङ्क्तिः; ४, १० पङ्क्तिः; ६, १२ आर्षी पङ्क्तिः; ८,
 ११ भुरिक् पङ्क्तिः; १३ निष्पृदार्षी पङ्क्तिः; १४ विराट् त्रिष्टुप् ॥

सभापतिलक्षणोपदेशः—सभापति के लक्षणों का उपदेश ॥

अस्मा इदु म तुवसे तुराय मयो न हर्मि स्तोमं माहिनाम ॥

१८—(यः) परमेश्वरः (सुन्वते) तत्त्वं निष्पाद्यते (पचते) परि-
 पक्वं कुर्वते (दुध्नः) स्फायितश्चिषश्चि० । उ० २ । १३ । दुह प्रवूरसे-रक्, हस्ये
 थः । पूर्णः सन् (आ) समन्तात् (चित्) अपि (वाजम्) अन्नम् । बलम्
 (दर्दधि) वृ विदारणे—यङ्लुकि लट् । भृशं विदयासि । अत्यन्तं वदासि (सः)
 (किल) निश्चयेन (अस्ति) (सत्यः) यथार्थस्वरूपः (वयम्) (ते) तव (इन्द्र)
 हे परमेश्वर्यवन परमात्मन् (विश्वह) अकारलोपो विभक्तोलुक् च । विश्वेषु
 अहःसु दिनेषु (प्रियासः) प्रियाः सन्तः (सुवीरासः) शोभनवीरोपेताः (विद-
 थम्) ज्ञानम् (आ) समन्तात् (वदेम) उपदिशेम ॥

ऋचीषमायाभिगव ओहृमिन्द्राय ब्रह्माणि राततमा ॥ १ ॥

अस्मै । इत् । ऊं इति । प्र । तवसे । तुराय । प्रयः । न ।
हृमि । स्तोमम् । माहिनाय ॥ ऋचीषमाय । अभि-गवे ।
ओहृम् । इन्द्राय । ब्रह्माणि । रात-तमा ॥ १ ॥

भाषार्थ—(अस्मै) इस [संसार] के हित के लिये (इत्) ही (उ)
विचार पूर्वक (तवसे) बल के निमित्त, (तुराय) फुरनीले, (माहिनाय)
पूजनीय, (ऋचीषमाय) स्तुति के समान गुण वाले, (अभिगवे) बेरोक गति
वाले, (इन्द्राय) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले सम्राट] के लिये (स्तोमम्)
स्तुति को, (ओहृम्) पूरे विचार को और (राततमा) अत्यन्त देने योग्य
(ब्रह्माणि) धनों को (प्रयः न) नृत्ति करने वाले अन्न के समान (प्र हृमि) मैं
आगे जाता हूँ ॥ १ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि पूजनीय, उत्तम गुण वाले, अति
बुद्धिमान् राजा आदि प्रधान पुरुषों का धन आदि से सत्कार करें और प्रधान

१—(अस्मै) परिदृश्यमानस्य ससारस्य हिताय (इत्) एव (उ)
वितर्कं । विचारे (प्र) (तवसे) अ० ४ । ३२ । ३ । वलार्थम् (तुराय) तुर त्वरणे-
कप्रत्ययः । वेगवते (प्रयः) सर्वधातुभ्य असुन् । उ० ४ । १८६ । प्रीन् तर्पणे—
असुन् । प्रीनिकरम् अन्नम्—निघ० २ । ७ (न) यथा (हृमि) शपो लुक् ।
हरामि । नयामि (स्तोमम्) स्तुतिम् (माहिनाय) महेरिण् च । उ० २ ।
५६ । मह पूजायाम्—इण् । पूजनीयाय (ऋचीषमाय) इगुपधात् कित् । उ०
४ । १२० । ऋच स्तुतौ—इन्, कित् ङीप् + षम अवैकल्ये—अच् । ऋचीषम
ऋचा समः—निरु० ६ । २३ । ऋचा स्तुत्या तुल्याय । स्तुतितुल्यगुणवते (अभि-
गवे) भुजेः किल्व । उ० ४ । १४२ । नञ् + धृञ् धारणे—इप्रत्ययः कित् । गो
क्षियोरुपसर्जनस्य । पा० १ । २ । ४८ । इति ह्रस्वः । अभिगुः, अधूनगमनः,
इन्द्रोऽप्यभिगुरुच्यते—निरु० ५ । ११ । अभिः अधृतोऽन्येनानिवारितो गौर्ग—
मनं यस्य तस्मै । अनिवारितगतये (ओहृम्) आ + ऊह वितर्क—घञ् । पूर्ण-
विचारम् (इन्द्राय) परमैश्वर्यवते सेनापतये (ब्रह्माणि) प्रवृद्धानि धनानि
निघ० २ । १० (राततमा) रा दाने —ऊ, तमप् । अतिशयेन दातव्यानि ॥

लोग भी इसी प्रकार उनका आदर करें ॥ १ ॥

यह सूक्त—ऋग्वेद में है—१।६१।१—१६ ॥

अस्मा इदु प्रय इव प्र यंसि भराभ्याङ्गुषं बाधे सुवृत्ति ।
इन्द्राय हृदा मनसा मनीषा प्रत्नाय पत्ये धिये मर्जयन्त ॥२॥
अस्मै । इत् । ऊँ इति । प्रयः-इव । प्र । यंसि । भरामि ।
आङ्गुषम् । बाधे । सु-वृत्ति ॥ इन्द्राय । हृदा । मनसा ।
मनीषा । प्रत्नाय । पत्ये । धियः । मर्जयन्त ॥ २ ॥

भाषार्थ—[हे विद्वान् !] (अस्मै) इस [संसार के हित के लिये (इत्) ही (उ) विचार पूर्वक, (प्रयः इव) तृप्ति करने वाले अन्न, के समान (आङ्गुषम्) प्राप्ति योग्य स्तुति को (प्र यंसि) तू देना है और (बाधे) बाध रोकने के लिये (सुवृत्ति) सुन्दर ग्रहण करने योग्य कर्म को (भरामि) मैं पुष्प करता हूँ । (प्रत्नाय) प्राचीन (पत्ये) स्वामी, (इन्द्राय) इन्द्र [बड़े पेश्वर वाले सभापति] के लिये (हृदा) हृदय से, (मनसा) मनन से और (मनीषा) बुद्धि से (धियः) कर्मों को (मर्जयन्त) मनुष्य शुद्ध करें ॥ २ ॥

भावार्थ—सग मनुष्य मिलकर परस्पर हितके लिये सुपरीक्षित विद्वान् उपकारी पुरुष को सभापति बनाकर उसके लिये प्रिय आचरण करें ॥ २ ॥

अस्मा इदु त्यमुपुसं स्वर्षा भराभ्याङ्गुषन्नात्येन ।

२—(अस्मै) संसारहिताय (इत्) एव (उ) वितर्के (प्रयः) म० १ ।
प्रोतिकरमन्नम् (इव) यथा (प्र यंसि) यमु उपरमे-शपो लुक् । प्रयच्छसि ।
इदासि हे विद्वान् (भरामि) पुष्णामि (आङ्गुषम्) पीयेरुषन् । उ० ५ । ७६ ।
आङ्+अङ् गतौ-ऊभन् । आङ्गुष स्तोम आघोषः-निरु० ५ । ११ । प्रापणीय
स्तोमम् (बाधे) बाधु विलोडने-क्विप् । क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्था-
नितः । पा० २ । ३ । १४ । इति तुमुनः कर्मणि चतुर्थी । बाधं बाधां व्यथां निवार-
यितुम् (सुवृत्ति) सु+वृक् आदाने-क्विन् । सुष्ठु ग्राह्यं कर्म (इन्द्राय) म० १
(हृदा) हृदयेन (मनसा) मननेन (मनीषा) विभक्तेर्डा । मनीषया बुद्ध्या
(प्रत्नाय) प्राचीनाय (पत्ये) स्वामिने (धियः) कर्माणि-निरु० २ । १ (मर्जयन्त)
सृज् शुद्धौ-जोड्ये लङ् अहभावश्च । मर्जयन्तु शोधयन्तु ॥

मंहिष्ठमच्छोक्तिभिर्मतोनां सुवृत्तिभिः सुरिं वावृधध्यै ॥ ३ ॥
 अस्मै । इत् । जं इति । त्यस् । उप-मस् । स्वः-सास् ।
 भरामि । आङ्गुषम् । आस्येन ॥ मंहिष्ठम् । अच्छोक्ति-भिः ।
 मतोनाम् । सुवृत्ति-भिः । सुरिम् । वृधध्यै ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(अस्मै) इस [संसार] के हित के लिये (इत्) ही (उ)
 विचार पूर्वक (त्यम्) उस (उपमम्) उपमा योग्य, (स्वर्षाम्) सुख देने
 वाली, (आङ्गुषम्) प्राप्ति योग्य स्तुति को (आस्येन) [अपने] मुख से
 (मतोनाम्) बुद्धिमानों में (अच्छोक्तिभिः) अच्छे वचनों वाली (सुवृत्तिभिः)
 सुन्दर प्रहण योग्य क्रियाओं के साथ (मंहिष्ठम्) उस अत्यन्त उदार, (सुरिम्)
 प्रेरक विद्वान् के (वृधध्यै) बढ़ाने के लिये (भरामि) मैं धारण करता
 हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य अपने शुभ लक्षणों से सब में श्रेष्ठ गुणी विद्वान्
 हो, उस को आदर पूर्वक सभापति बनावे ॥ ३ ॥

अस्मा इदु स्तोमं सं हिनोमि रथं न तष्टेवृ तत्सिनाय ।
 गिरश्चु गिर्वाहसे सुवृत्तोन्द्राय विश्वमिन्वं मेधिराय ॥ ४ ॥
 अस्मै । -इत् । जं इति । स्तोमम् । सम् । हिनोमि ।
 रथम् । न । तष्टी-इव । तत्-सिनाय ॥ गिरः । चु । गिर्वा-
 हसे । सु-वृत्ति । इन्द्राय । विश्वम्-इन्वम् । मेधिराय ॥ ४ ॥

३—(अस्मै) (इत्) (उ) म० १ (त्यम्) तम् (उपमम्) दृष्टान्त-
 योग्यम् (स्वर्षाम्) अ० ५ । २ । ८ । स्वः + वणु दाने—विट् । सुखस्य दाता-
 रम् (भरामि) धरामि (आङ्गुषम्) म० २ । प्रापणीयं स्तोमम् (मंहिष्ठम्)
 अ० २० । १५ । १ दातृनमम् (अच्छोक्तिभिः) श्रेष्ठवचनयुक्तभिः (मनीनाम्)
 मेधाविनाम—निघ० ३ । १ (सुवृत्तिभिः) म० २ । सुष्ठु प्राह्यामिः क्रियामिः
 (सुरिम्) म० २ । ११ । ४ । प्रेरकं विद्वान्मम् (वृधध्यै) तुमर्थे सेसेनसे० ।
 पा० ३ । ४ । ६ । वृधु वृद्धौ—कस्यैप्रत्ययः, अन्तर्गतएवर्थः, कित्वाद् गुणाभावः,
 द्विर्भावश्चान्दसः । वर्धयितुम् । स्तोतुम् ॥

भाषार्थ—(अस्मै) इस [संसार] के हित के लिये (इत्) ही (उ) विचार पूर्वक (गिर्वाहसे) विद्याओं के पहुंचाने वाले, (मेधिराय) बुद्धिमान (इन्द्राय) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले सभापति] के लिये (सुवृक्ति) सुन्दर प्रहण करने योग्य क्रियाओं के साथ (विश्वमिन्वम्) सथ में फैलने वाले (स्तोमम्) स्तुति योग्य व्यवहार (च) और (गिरः) वेदवाणियों को (सम्) यथा-वत् (हिनेमि) में बढ़ाता हूं, (रथम्) रथ को (तष्टा इव) जैसे विश्वकर्मा [बड़ा खाती बढ़ई] (न) अथ (तत्सिनाय) उस [रथ] से अन्न के लिये बढ़ाता है] ॥ ४ ॥

भाषार्थ—जैसे विद्वान् शिली कला यन्त्र लगाकर सुन्दर रथ बनाकर उस से अन्न आदि पदार्थ प्राप्त करता करता है। वैसे ही मनुष्य बुद्धिमान् पुरुष से आदर के साथ उत्तम गुण प्रहण करके आनन्द पावे ॥ ४ ॥

अस्मा इदु सप्तमिष अवस्येन्द्रायार्क जुह्वा३ समञ्जे ।

वीरं दानौकसं वुन्दध्यै पुरां गुर्तश्रवसं दुर्माणम् ॥ ५ ॥

अस्मै । इत् । ऊं इति । सप्तिसु-इव । अवस्यया । इन्द्राय ।

अर्कम् । जुह्वा । सम् । अञ्जे ॥ वीरम् । दान-ओकसम् ।

४—(अस्मै) संसारहिनाय (इत्) एव (उ) वितर्क (स्तोमम्) स्तुत्यं व्यवहारम् (सम्) सम्यक् (हिनेमि) हि गतिवृद्ध्योः । वर्धयामि । स्तोमि (रथम्) रमणीयं यानम् (न) सम्प्रति (तष्टा) तद् तनूकरणे—तुन्, ऊदित्वात्पक्षे इडभाषः । तक्षकः । विश्वकर्मा । शिली (इव) यथा (तत्सिनाय) इण्तिञ्जि० । उ० ३ । २ । पिञ् वन्धने—नक् । सिनमर्षं भवति सिनाति भूतानि—निरु० ५ । ५ । तेन रथेन सिनस्य अन्नस्य प्राप्तये (गिरः) वेदवाणीः (च) (गिर्वाहसे) सर्वधातुभ्य असुन् । उ० ४ । १८६ । गिर्+वह प्राण्ये—असुन्, धातोर्दीर्घश्चान्दसः । गिरां विद्यानां प्रापकाय (सुवृक्ति) म० २ । सुं+वृक् आदाने—क्तिन् । विभक्ते लुंक् । सुष्ठु प्राणाभिः क्रियाभिः (इन्द्राय) परमैश्वर्यवने सभापतये (विश्वमिन्वम्) इवि व्याप्तौ-पचायच्, विभक्त्यलुक् । सर्वव्यापकम् (मेधिराय) मेधोरथाभ्यामिरभिरौ हलव्यां । वा० पा० ५ । २ । १०६ । मेधा—इरन् । मेधाविने ॥

वृन्दधै । पुराम् । गुर्त-अवसम् । दुर्माणाम् ॥ ५ ॥

भाषार्य—(अस्मै) इस [ससार] के हित के लिये (इत्) ही (उ) विचार पूर्वक (इन्द्राय) ऐश्वर्य के अर्थ (भवस्या) कीर्ति की इच्छा से (जुहा) देने लेने वाली क्रिया के साथ (सप्तित् इव) जैसे फुरतीले घोड़े को [वैसे] (अर्कम्) पूजनीय (वीरम्) वीर, (दानौकसम्) दान के घर [यड़े दानो], (गुर्तभवसम्) उद्यम युक्त यश वाले, (पुराम्) शत्रुओं के गढ़ों के (दर्माणम्) ढाने वाले [सभापति] को (वृन्दधै) सत्कार करने के लिये (मम्) अच्छे प्रकार (अञ्जे) मैं चाहता हूँ ॥ ५ ॥

भाषार्य—जैसे फुरतीले घोड़े को चढ़ने और रथ आदि से चलने के लिये चाहते हैं, वैसे ही मनुष्य शुभ गुण वाले महा कीर्तिमान् पुरुषार्थी जन को संसार के हित के लिये आदर से चाहते हैं ॥ ५ ॥

अस्मा इदु त्वष्टा तसुद् वज्रं स्वपस्तमं स्वयं रणाय ।
वृत्रस्यं विद् विदद् येन मम तुजनीशानस्तुजता कियेधाः ॥६

५—(अस्मै) ससारहिताय (इत्) एव (उ) वितर्क (सप्तित्) वसेस्ति । उ० ४ । १८० । इति पय सप्तवाये-ति । सप्तिरिति अश्वनाम—निघ० १ । १४ । शोघना मिनम् अश्वम् (इव) यथा (भवस्या) सुप आत्मनः ण्यच् । पा० ३ । १ । ८ । भवस्—ण्यच् । तस्मात् अपत्ययः, टाप् । तृतीयायां ङादेशः । कीर्तीच्छ्रया (इन्द्राय) परमैश्वर्यप्राप्तये (अर्कम्) अर्चनीयम् (जुहा) अ० १८ । ४ । ५ । इ दानादानादनेषु—क्लिप्, तृतीयैकवचनम् । दाना-दानक्रियया (सम्) सम्यक् (अञ्जे) अञ्जु व्यक्तिप्रक्षणकान्तिगतिषु—आत्मनेपदं छान्दसम् । अहं कामये (वीरम्) शूरम् (दानौकसम्) दानस्व युद्धम् । महादानिनम् (वृन्दधै) तुमर्थे सेसेनसे० । पा० ३ । ४ । ६ । वदि अभिवादनस्तुत्योः—कथ्यै । वन्दितुम् । सत्कर्तुम् (पुराम्) शत्रूणां पुराणां दुर्माणाम् (गुर्तभवसम्) नसत्तनिषत्ताऽनुचप्रतूर्त्सूर्तगूर्तानिच्छन्दसि । पा० ८ । २ । ६१ । गुरी उद्यमने—क्त; नत्वाभावः । गूर्णम् उद्योगयुक्तं भवो यशो यस्य तम् (दर्माणम्) सर्वधातुभ्यो मनिन् । उ० ४ । १४५ । इ विदारणे—मनिन् । विदारयितारम् ॥

अस्मै । इत् । जं इति । त्वष्टा । तुष्टुत् । वज्रम् । स्वपः-
 तमम् । स्वयम् । रणाय ॥ वृत्रस्य । चित् । विदत् । येन ।
 मर्म । तुजन् । ईशानः । तुजता । कियेधाः ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ—(अस्मै) इस [संसार] के हित के लिये (इत्) ही
 (उ) विचारपूर्वक (त्वष्टा) सूक्ष्म करने वाले [सूक्ष्मदर्शी विश्वकर्मा सभा-
 पति] ने (स्वपस्तमम्) अत्यन्त सुन्दर रीति से काम सिद्ध करने वाला,
 (स्वयम्) सुख देने वाला (वज्रम्) वज्र [विजुली आदि शस्त्र] (रणाय)
 रण जीतने को (तत्तत्) तीक्ष्ण किया है। (तुजना येन) जिस काटने वाले
 [वज्र] से (वृत्रस्य) वैरी के (मर्म) मर्म [जीवन स्थान] को (चित्) ही
 (तुजन्) छेद कर (ईशानः) ऐश्वर्यवान्, (कियेधाः) कितने [अर्थात्
 बड़े बल] के धारण करने वाले [उस सभापति] ने (विदत्) पाया है ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ—सभापति राजा तीक्ष्ण तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों से शत्रुओं को
 दण्ड देकर प्रजा को आनन्द देवे ॥ ६ ॥

इस मन्त्र का मिलान करो—अ० २।५।६ ॥

अस्येदुं मातुःसवनैषु सद्यो महःपितुंर्पिवां चार्वन्ना । मुषायद्
 विष्णुः पचतं सहीयान् विध्यद् वराहं त्रिरो अद्रिमस्ता ॥०

६—(अस्मै) संसारहिताय (इत्) एव (उ) वितर्के (त्वष्टा) अ० २।
 ५।६। त्वक्षू तनूकरणे—तृत् । व्यवहाराणां तनूकर्ता सूक्ष्मदर्शी विश्वकर्मा
 (तत्तत्) तक्षू तनूकरणे—लङ् । अनक्षत् । तीक्ष्णमकरोत् (वज्रम्) विद्युदादि-
 शस्त्रसमूहम् (स्वपस्तमम्) अपः कर्मनाम—निघ० २।१। सुष्टु अपांसि-
 कर्माणि यस्मात् तम् (स्वयम्) अ० २।५।६। स्वः—यत् । सुखे साधुम्
 (रणाय) रणं युद्धं जेतुम् (वृत्रस्य) शत्रोः (चित्) एव (विदत्) विद्वद्
 लामे—लुङ् । अविदत् । लब्धवान् (येन) वज्रेण (मर्म) अ० ५।८। ४।
 सन्धिस्थानं जीवस्थानम् (तुजन्) तुज हिंसायाम्—शत्, शपि प्राप्ते
 छान्दसः शः । हिंसन्/ ईशानः) ऐश्वर्यवान् (तुजता) छेदकेन (कियेधाः)
 कियत्+दधातेर्बिच्, कियतः किये भावः । कियेधा. कियद्दधा इति वा क्रममा-
 णधा इति वा—निघ० ६।२०। कियतो महतो बलस्य धारकः ॥

अस्य । इत् । जं इति । मातुः । सवनेषु । सुद्यः । सुहः ।
 पितुम् । पपि-वान् । चारुं । अन्ना ॥ मुषायत् । विष्णुः ।
 पचतम् । सहीयान् । विध्यत् । वराहम् । तिरः । अद्रिम् ।
 अस्ता ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(अस्य) इस [जगत्] के (इत्) ही (उ) विचारपूर्वक
 (महः) बड़े (मातुः) निर्माता [बनाने वाले परमेश्वर] के (सवनेषु) पेश्वरों
 में (सद्यः) तुरन्त (चारु) सुन्दर (पितुम्) पीने योग्य रस को और (अन्ना)
 अन्नों को (पपिवान्) खाने पीने वाला, (पचतम्) परिपक [बैरी के अन्न
 वा धन] को (मुषायत्) लूटता हुआ, (विष्णुः) विद्याओं में व्यापक, (सही-
 यान्) विजयी, (अद्रिम्) वज्र का (अस्ता) चलाने वाला [सेनापति]
 (वराहम्) वराह [सूअर के समान अच्छे पदार्थ नाश करने वाले शत्रु] को

७—(अस्य) संसारस्य (इत्) एव (उ) वितर्कं (मातुः) निर्मातुः ।
 रचकस्य परमेश्वरस्य (सवनेषु) पेश्वर्येषु (सद्यः) समाने दिने । इदानीम्
 (महः) मह पूजायाम्—विद् । महतः । पूजनीयस्य (पितुम्) अ० ४ । ६ । ३
 पा पाने रक्षणे वा—तुप्रत्ययो धातोः पिभावः । पितुरित्त्वञनाम पातेर्वा पिबते-
 र्वा व्यायतेर्वा—निरु० ६ । २४ । पानीयं रसम् (पपिवान्) अ० ७ । ६७ । ३ ।
 पिबतेः कसु । पीतवान् । आदितवान् (चारु) विभक्तोर्लुक् । सुन्दरम् (अन्ना)
 अन्नानि (मुषायत्) मुष स्तये—धञर्थे कविधानम् । सुप आत्मनः कथच् ।
 पा० ३ । १ । ५ । मुष-ञच् । नञ्कुन्स्यपुत्रस्य । पा० ७ । ४ । ३५ । ईत्वसद्
 दीर्घस्यापि प्रतिषेधे छान्दसो दीर्घः । अस्मात् कथञ्जात् शच्, जुमभावः ।
 आत्मनः स्तेवमिच्छन् अपहरन् (विष्णुः) विद्यासु व्यापनशीलः (पचतम्)
 भृशुदृशिबजिपर्विपचमि० । उ० ३ । ११० । पचतेः—अतच् । शत्रूणां परि-
 पकमन्नं धनं वा (सहीयान्) सोढुं—ईयसुन् । अतिशयेन अभिभविता,
 विजेता (विध्यत्) विध्यति । ताडयति (वराहम्) वृज्-वरणे—अप् अन्ये-
 ष्वपि दृश्यते । पा० ३ । २ । १०१ । वर+आङ्+इच् नाशने वा हन हिंसा-
 गत्योः—उप्रत्ययः । वरस्य उन्कृष्टस्य पदार्थस्य आहर्तारम् आहृत्तारं नाश-
 यितारं शूकरमिव शत्रुम् । वराहो मेघो भवति वराहार, “अथमपीतरो वराह
 यतस्मादेव । ब्रह्मि भूकानि, वरं वरं मूलं वृद्धीति वा, अङ्गिरसोऽपि वाराहा

(तिरः) आर पार (विष्यत्) छेदता है ॥ ७ ॥

भाष्यार्थ—जो परमेश्वर के बनाये ऐश्वर्ययुक्त गदायों का ठीक-ठीक उपयोग कर के जङ्गली सूअर के समान उपद्रवी शत्रुओं, का नाश करे, वही पुण्य सभापति सेनापति होवे ॥ ७ ॥

अस्मा इदु ग्राश्चिद् देवपत्नोरिन्द्रायार्कमहिहत्यं ऊवुः ।
परि व्यावापृथिवी जभ्र उर्वी नास्य ते महिमानं परि वृः ॥८
अस्मै । इत् । ऊं इति । ग्राः । चित् । देव-पत्नीः । इन्द्राय ।
अर्कम् । अहि-हत्ये । ऊवुरित्सूवुः ॥ परि । व्यावापृथिवी
इति । जभ्रे । उर्वी इति । न । अस्य । ते इति । महिमा-
नम् । परि । स्तु इति स्तः ॥ ८ ॥

भाष्यार्थ—(अस्मै) इस [संसार] के हित के लिये (इत्) वी
(उ) विचारपूर्वक (देवपत्नीः) विद्वानों से पालने योग्य (ग्राः) वेद-
वाणियों ने (चित्) भी (अहिहत्ये) सब ओर से नाश करने वाले [विप्र]
के मिटने पर (इन्द्राय) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा] के लिये (अर्कम्)
पूजनीय व्यवहार को (ऊवुः) बुना है [फैलाया है] । उस [परमात्मा]
ने (उर्वी) चौड़े (व्यावापृथिवी) सूर्य और पृथिवी को (परि) सब ओर से

उच्यन्ते—निरु० ५ । ४ (तिरः) तिरस्कृत्य (अद्रिम्) वज्रम् (अस्ता)
असु क्षेपणे-वृत्, इडभाषः । नलोकाव्ययनिष्ठा० । पा० २ । ३ । ६६ । पष्ठी-
प्रतिषेधः । प्रक्षेपता ॥

इ—(अस्मै) संसारहिताय (इत्) एव (उ) वितर्कैः (ग्राः) अ०
७ । ४६ । २ । गमेर्नप्रत्ययः, डाप्, टिलोपः । ग्ना वाङ्नाम—निरु० १-११ ।
वेदवाण्यः (चित्) अपि (देवपत्नीः) विद्वद्भिः पालनीयाः (इन्द्राय)
परमैश्वर्यवते परमात्मने (अर्कम्) अर्चनम् । पूजनम् (अहिहत्ये) अहेराहन्तुः
कमन्ताद् नाशकस्य विप्रस्य हत्यायां नाशने (ऊवुः) वेम् तन्तुसन्ताने—तिद् ।
विस्तारयामासुः अतःषत (परि) सर्वतः (व्यावापृथिवी) सूर्यभूलोकौ (जभ्रे)

(जज्ञे) अहण किया है, (ते) वे दोनों (अस्य) इस [परमात्मा] की (महिमानम्) महिमा को (न) नहीं (परि अस्तः) पहुंच सकते हैं ॥ ८ ॥

भाषार्थ—जैसे सब से बड़े परमात्मा ने प्रलय के अन्धकार आदि क्लेश मिटाकर सूर्य पृथिवी आदि लोक रच कर वेदद्वारा अपनी महिमा फैलायी है, वैसे ही सभापति आदि पुण्य कठिनाइयों को झेठकर सब को आनन्द देवें ॥ ८ ॥

अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षात् ।
स्वरातिन्द्रो दम् आ विश्वगूर्तः स्वरिरमत्रो ववक्षे रणाय ॥८॥
अस्य । इत् । एव । प्र । रिरिचे । महि-त्वम् । दिवः ।
पृथिव्याः । परि । अन्तरिक्षात् ॥ स्व-राट् । इन्द्रः । दमे ।
आ । विश्व-गूर्तः । सु-अरिः । अमत्रः । ववक्षे । रणाय ॥८॥

भाषार्थ—(अस्य) इस [परमेश्वर] का (इत्) ही (महित्वम्) महत्त्व (एव) निश्चय करके (दिवः) सूर्य से, (पृथिव्याः) पृथिवी से और (अन्तरिक्षात्) आकाश से (परि) सब प्रकार (प्र रिरिचे) अधिक बड़ा है । (स्वराट्) स्वयं राजा, (विश्वगूर्तः) सब को डचम में लगाने वाला, (स्वरिः)

इजो तित् । इत्य भः । अह्ने । गृहीतवान् (उर्वी) विस्तृते (न) निषेधे (अस्य) परमेश्वरस्य (ते) उमे (महिमानम्) महत्त्वम् (परि अस्तः) पराभवतः । प्राप्नुतः ॥

१—(अस्य) सर्वत्र व्यापकस्य परमेश्वरस्य (इत्) एव (एव) निश्चयेन (प्र)-प्रकषेण (रिरिचे) रिचिर् विरेचने—तित् । अधिकं यभूव (महित्वम्) महत्त्वम् (दिवः) सूर्यलोकात् (पृथिव्याः) भूलोकात् (परि) सर्वतः (अन्तरिक्षात्) आकाशात् (स्वराट्) राज् वीप्तो पेश्वर्ये च—किप् । स्वयं राजा शासकः (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् परमात्मा (दमे) दम् उपशमे-वज् । शासने (विश्वगूर्तः) गृही डचमे—क । नसत्तनिषसाऽनुच प्रतूर्त्सूर्त्गूर्त्तानिच्छन्दसि । पा० ८ । २ । ३१ । निष्ठानावाभाषः । विश्वं सर्वं जगद् गूर्णम् डचतम् डचमे कर्तव्येन सः (स्वरिः) अथ इ । ७० ४ । १३६ । सु + अ गतिप्रपणयोः—

बड़ा प्रेरक, (अमत्रः) ज्ञानवान् (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला परमात्मा] (दमे) शासन के बीच (रणाय) रण मिटाने के लिये (आ ववस्व) क्रोधित हुआ है ॥ ६ ॥

भाषार्थ—जैसे परमात्मा सब से बड़ा होकर सूर्य आदि सब बड़ों से बड़ों को शासन में रखता है, वैसे ही सब से अधिक गुणी पुरुष प्रधान हो कर प्रजा का पालन करे ॥ ६ ॥

अस्येदेव शवसा शुषन्तं वि वृश्चद् वज्रेण वृत्रमिन्द्रः ।

गा न ब्राणा अवनीरमुञ्चदुभि अबो दावने सचेताः ॥ १० ॥

अस्य । इत् । एव । शवसा । शुषन्तम् । वि । वृश्चत् ।

वज्रेण । वृत्रम् । इन्द्रः ॥ गाः । न । ब्राणाः । अवनीः ।

अमुञ्चत् । अभि । अबः । दावने । स-चेताः ॥ १० ॥

भाषार्थ—(इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले सेनापति] ने (अस्य) इस [परमेश्वर] के (इत् एव) ही (शवसा) बल से (शुषन्तम्) सुखाने वाले (वृत्रम्) बैरी को (वज्रेण) वज्र [बिजुली आदि शस्त्र] द्वारा (वि वृश्चत्) छेद डाला । और (अबः अभि) कीर्ति के निमित्त (दावने) सुख दान के लिये (सचेताः) चिन्तित वाला होकर (ब्राणाः) धिरी हुयी (अवनीः) रक्षा योग्य

इप्रत्ययः । सुप्रेरकः (अमत्रः) अमिनक्षियजि० । उ० ३ । १०५ । अम गत्यादिषु अत्रन् । ज्ञानवान् (अवन्ते) वक्ष रोपसंघातयोः—लिट्, आत्मनेपदं छान्दसम् । रोषं चकार (रणाय) रण युद्ध नाशयितुम् ॥

१०—(अस्य) परमेश्वरस्य (इत् एव) (शवसा) बलेन (शुषन्तम्) सुख शोषणे—श्यनि प्राप्ते शः । शुष्यन्तम् । शोषकम् (वि) विविधम् (वृश्चत्) अच्छिन्नत् (वज्रेण) विद्युदादिशस्त्रेण (वृत्रम्) आवरकं शत्रुम् (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् सेनापतिः (गाः) धेनूः (न) इव (ब्राणाः) वृत्र् वरणे—कर्मणि शानच्, यको लुक्, गुणाभावे यणादेशः । आवृताः (अवनीः) अर्धिसृष्टधूम्यश्ववितृभ्योऽनिः । उ० २ । १०२ । अथ रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यव-
गमप्रवेशसम्बन्धस्वाम्यर्थयाचनक्रियेच्छादीन्स्वाम्यानिज्ञान हिंसादानभागवृत्तिभु-

भूमियों को (गाः न) गौश्रां के समान (अमुञ्चत्) छुड़ाया ॥ १० ॥

भावार्थ—राजा परमेश्वर का आश्रय लेकर दुखदायी शत्रुओं का नाश करके प्रजा को कष्ट से छुड़ाकर और कीर्ति पाकर सुख का दान करे, जैसे ग्वाला गौश्रां को बन्धन से खोलकर सुखी करके वन में चराना है ॥ १० ॥

अस्येदु त्वेषसा रन्तु सिन्धवः परि यद् वज्रेण सीमयच्छत् ।

ईशानकृद् दाशुषे दशस्यन् तुर्वीतये गाधं तुर्वणिः कः ॥ ११ ॥

अस्य । इत् । ऊं इति । त्वेषसा । रन्तु । सिन्धवः । परि ।

यत् । वज्रेण । सीम् । अयच्छत् ॥ ईशान-कृत् । दाशुषे ।

दशस्यन् । तुर्वीतये । गाधम् । तुर्वणिः । कुरिति कः ॥ ११ ॥

भाषार्थ—(अस्य) इय [समापति] के (इत्) हो (उ) निश्चय करके (त्वेषसा) तेज [पराक्रम] से (सिन्धवः) नदियों [नाले वरहा आदि] (रन्तु) रमे हैं [बहे हे], (यत्) क्योंकि उस ने (वज्रेण) वज्र [बिजुली फटुआ आदि शस्त्रों] से (सीम्) बन्ध [बांध आदि] जो (परि) सब ओर से (यच्छत्) बांधा है : (दाशुषे) दानी मनुष्य को (ईशानकृत्) देश्वर्यवान् करने वाले, (दशस्यन्) कवच [रक्षासाधन] के समान काम करते हुये, (तुर्वणिः) शास्त्रता सेवन करने वाले [समाध्यक्ष] ने (तुर्वीतये) शीघ्रता

-अनिपत्ययः । भूमिदेशान् (अमुञ्चत्) अमोचयत् (अमि) अमिलक्ष्य (अयः) कीर्तिम् (दावने) आतो मनिक्रानिब्वनिपश्च । पा० ३ । २ । ७४ । ददातेर्ब निप् । अहोपाभावश्छान्दसः । सुखदानाय (सञ्चेता) चेतसा ज्ञानेन सह वर्तमानः ॥

११—(अस्य) समाध्यक्षस्य (इत् उ) शवधारणे (त्वेषसा) तेजसा । पराक्रमेण (रन्तु) रमु क्रीडायाम्—उडि शपोलुक् । अरमन्त (सिन्धवः) नद्यः (परि) सर्वतः (यत्) यतः (वज्रेण) बिजुदादिभूज्जनशरत्रेण (सीम्) अ० २० । २० । ६ । पिञ् बन्धने—ईप्रत्ययः । बन्धम् (अयच्छत्) यमु उपरमे—लङ् । नियमितवान् । अयच्छवान् (ईशानकृत्) देश्वर्यशुकस्य कर्ता (दाशुषे) दानिने मनुष्याय (दशस्यन्) दंश दंशने—अमुन, सच्च कित् । उपमानादाचारे । पा० ३ । १ । १० । दशसू-श्वच्, शत् । दश कवच इवाचरन् (तुर्वीतये) । तुर वेगे-किप् + वी गतौ-क्तिन् । तुरा शीघ्रकारिणां गतये गमनाय (गाधम्) गाधु

करने वालों के चलने के लिये (गाधम्) उथले स्थान [घाटि आदि] को (कः) बनाया है ॥ १ ॥

भाष्यार्थ—प्रधान राजा, को चाहिये कि पहाड़ों से बड़े बड़े नाले काटकर पृथिवी पर जल लाकर खेती आदि करावे, और यात्रियों के लिये सेतु [पुल] घाट आदि बनावे ॥ ११ ॥

श्रुस्मा इद्दु प्र भर्ता तूतुजानो वृत्राय वज्रमीशानः क्रियेधाः ।
गोर्न पर्व वि र्दा तिरश्चेष्ट्यन्नर्णीस्युपां चुरध्वै ॥ १२ ॥

श्रुस्मै । इत् । ऊं इति । प्र । भर्तु । तूतुजानः । वृत्राय ।
वज्रम् । ईशानः । क्रियेधाः ॥ गोः । न । पर्व । वि । र्दु ।
तिरश्चा । इष्ट्यन् । अर्णीसि । श्रुपाम् । चुरध्वै ॥ १२ ॥

भाष्यार्थ—(मस्मै) इस [संसार] के निमित्त (इत्) ही (उ) विचार पूर्वक (तूतुजानः) शीघ्रता करता हुआ, (ईशानः) पेश्वर्यवान्, (क्रियेधाः) किन्ने[अर्थात् बड़े बल]का धारण करने वाला तू (वृत्राय) वैरी के लिये (वज्रम्) वज्र [बिजुली आदि शस्त्र] को (प्र) अच्छे प्रकार (भर) धारण कर । और (तिरश्चा) तिरछी चाल के साथ (अर्णीसि) अपनी चालों को (इष्ट्यन्) चलता हुआ तू (श्रुपाम्) प्रजाओं के (चुरध्वै) चलने के लिये (पर्व)

प्रतिष्ठापाम—श्रु । नमस्पर्शस्थानम् । अवतरणस्थानम् (तुर्वणिः) तुर् + धन संभक्तौ—इन् । शीघ्रत्वस्य चेतस्य संगत्ता (कः) करोतेलुङ् क्वान्दसं रूपम् । अकार्यीत् ॥

१२—(मस्मै) संसारहिताय (इत्) पद्य (उ) वितर्क (प्र) प्रकर्ष (भर) धर (तूतुजानः) तुम्हें हिंसाश्लाघाननिकेतनेषु—कानच् । तुजा-दीनां दीर्घोऽभ्यासस्य । पा० ६ । १ । ७ । इति दीर्घः । तूतुजानः क्षिप्रनाम-निघ० २ । १५ । स्वरमाण- (ईशानः) पेश्वर्यवान् (क्रियेधाः) म० ६ । कियतो महतो बलस्य धारकः (गोः) पृथिव्याः (न) इव (पर्व) पर्वणि (वि) विविधम् (र्दु) र्दु बिलेखने । विदारय (तिरश्चा) श्रुत्विग्दधृक्० । पा० ३ । २ । ५६ । तिरश्च + श्रुत्विग्दधृक्० गतिपूजनयोः—किन् । निर्यग्गत्या (इष्ट्यन्) गच्छन् (अर्णीसि) इष्ट्ये इष्ट्यत् । इ० ५ । १७ । श्रु गतिप्राप्तयोः—अस्तुन् तुह् च । गमनानि

[बैरी के] जोड़ों को (वि रद) चीर डाल, (गोः न) जैसे भूमि के [जोड़ों को किसान चीरते हैं] ॥ १२ ॥

भावार्थ—जैसे किसान पृथिवी को जोतकर, घास आदि काट कर एक-सा करके अन्न उत्पन्न कर सुख देते हैं, वैसे ही नभाध्वस्त राजा शत्रुओं को विन्न भिन्न कर के प्रजा को सुखी करे ॥ १२ ॥

अस्येद् प्र ब्रूहि पुर्व्याणि तुरस्य कर्माणि नव्यं उक्थैः । युधे यदिष्णान आयुधान्पृष्टायमाणो निरिणाति शत्रून् ॥ १३ ॥

अस्य । इत् । ऊं इति । प्र । ब्रूहि । पुर्व्याणि । तुरस्यं । कर्माणि । नव्यः । उक्थैः ॥ युधे । यत् । इष्णानः । आयुधानि । पृष्टायमाणः । नि-रिणाति । शत्रून् ॥ १३ ॥

भाषार्थ—(अस्य) उस (इत्) ही (उ) विचारपूर्वक (तुरस्य) शीघ्रता करने वाले [सभापति] के (पुर्व्याणि) पहिले किये हुये (कर्माणि) कामों को (प्र) अच्छे प्रकार (ब्रूहि) तू कह, (उक्थैः) कहने योग्य वचनों से (नव्यः) स्तुति योग्य होकर, (युधे) युद्ध के लिये (आयुधानि) हथियारों को (इष्णानः) बार बार चलाता हुआ और (पृष्टायमाणः) बढ़ता हुआ [बैरीक चक्रता हुआ] (यत्) जो [सभापति]

(अपाम्) आपः, आप्ताः प्रजाः—दयानन्दभाष्ये यजु० ६ । २७ । प्रजानाम् (वरध्वै) तुमर्थे सेसेन से० । पा० ३ ४ । ६ । चरतेः—अध्वैप्रत्ययः । चरितुम् । गन्तुम् ॥

१३—(अस्य) सभापतेः (इत्) (उ) (प्र) प्रकर्षेण (ब्रूहि) कथय (पुर्व्याणि) पुर्व्यं पुराणनाम—निघ० ३ । २७ । पुराणानि (तुरस्य) तुरमाणस्य (कर्माणि) वीरकर्माणि (नव्यः) अ० २ । ५ । २ । अचो यत् । पा० ३ । १ । ६७ । ए स्तुतौ-यत् । स्तुत्यः (उक्थैः) पातृनुदिवचि० । उ० २ । ७ । वच परिभाषये यक् । वक्तुं योग्यैर्वचनैः (युधे) युद्धाय (यत्) यः सेनापतिः (इष्णानः) इष आभीषण्ये—शानच् । वारं वारं प्रेरयन् (आयुधानि) शस्त्राणि (पृष्टायमाणः) रगुपधवाप्रीकरः कः । पा० ३ । १ । १३५ । अशु वृद्धौ-क. घस्य वः । लोहितादिवाजुभ्यः क्यच् । पा० ३ । १ । १३ । अश्व—भवत्यर्थ—क्यच्, शानच् । अश्व अशो वृद्धो भवतीति । प्रवर्धमानः । अप्रतिहतगतिः (निरिणाति) री गति-

(शत्रून्) वैरिणो को (निरिणति) मारता जाता है ॥ १३ ॥

भाष्यार्थ—जो मभाध्यक्ष सेनापति शत्रु अस्त्र-विद्या में चतुर और विजयी शूर होंवे, विद्वान् लोग उसके विद्या, विनय, वीरता आदि गुणों की बढाई करके उन्नत मान और उत्साह बढावे ॥ १३ ॥

अस्येहुं भिया गिरयश्च दृह्ला द्यावा च भूमौ जनुषस्तुजेते ।
उपो वेनस्य जोगुवान् शोणिं हृद्यो भुवद् वीर्याय नेाधाः ॥१४॥
अस्य । इत् । ऊं इति । भिया । गिरयः । च । दृह्लाः ।
द्यावा । च । भूमौ । जनुषः । तुजेते इति ॥ उपो इति ।
वेनस्य । जोगुवानः । शोणिम् । हृद्यः । भुवत् । वीर्याय ।
नेाधाः ॥ १४ ॥

भाष्यार्थ—(अस्य) इस (जनुषः) उत्पन्न करने वाले [परमेश्वर] के (इत्) ही (उ) निश्चय करके (भिया) भय से (गिरयः) पहाड़ (च) भी (दृह्लाः) दृढ़ हैं, (च) और (द्यावा भूम) सूर्य और भूमि (तुजेते) बलवान् हैं । (वेनस्य) प्यारे [वा बुद्धिमान् परमेश्वर] के (शोणिम्) दुख मिटाने को

रेपणयोः शना । प्वाङ्गीनां ह्रस्वः । पा० ७ । ३ । ८० । इति ह्रस्वः । निरन्तरं
हिनस्ति (शत्रून्) वैरिणो दुष्टान् ॥

१४—(अस्यः) सर्वत्र वर्तमानस्य (इत्) एव (उ) निश्चयेन (भिया)
भयेन (गिरयः) पर्वताः) (च) अपि (दृह्लाः) स्थिराः सन्ति (द्यावा भूम)
दिवो द्यावा । पा० ६ । ३ । २५ । दिव्शब्दस्य द्यावा इत्यादेशः । सुपां सुलुक्० ।
पा० ७ । १ । ३५ । विभक्तेर्डा आदेशः, देवता इन्द्रेण । पा० ६ । २ । १४१ । इत्युभ-
यपदप्रकृतिस्वरत्वम्, अत्वम् पदपाठे विचारणीयम्, चकारेण व्यवधानं सांहि-
तिकम् । द्यावाभूमौ । सूर्यपृथिव्यौ (च) समुच्चये (जनुषः) जनेरुस्ति । उ०
२ । ११५ । जन-जनने—उस्ति । जनपितुः परमेश्वरस्य (तुजेते) तुज हिंसाबला-
दाननिकेतनेषु-लद्, सुरादिस्थाने तुदादित्वम् । तोजयतः । बलवत्यौ भवतः
(उपो) समीप एव (वेनस्य) अ० २ । १ । १ । कमनीयस्य । मेधाविनः पर-
मेश्वरस्य (जोगुवानः) शुब् अव्यक्ते शब्दे यडलुकि शानच् । भृशं कथयन्

(जोगुवानः) बार बार कहना हुआ (नोधाः) नेताओं [वस्तुतियों] का धारण करने वाला [सभापति] (सद्यः) तुरन्त (वीर्याय) पराक्रम सिद्ध करने के लिये (उपो) समीप ही (भुवत्) होवे ॥ १४ ॥

भावार्थ—जो परमात्मा अपने अनन्त सामर्थ्य से सब लोकों को नियम-पूर्वक अपने अपने काम के लिये समर्थ बनाता है, सभाध्यक्ष आदि उस जगदीश्वर का आश्रय लेकर अपना सामर्थ्य बढ़ावे ॥ १४ ॥

अस्मै इदु त्यदनु दाय्येषामेक्षो यद् वव्ने भूरेरीशानः ।
प्रैतशं सूर्ये पस्पृधानं सौवश्वे सुष्विमावदिन्द्रः ॥ १५ ॥

अस्मै । इत् । ऊं इति । त्यत् । अनु । दायि । एषाम् ।
एकः । यत् । वव्ने । भूरेः । ईशानः ॥ प्र । एतशम् । सूर्ये ।
पस्पृधानम् । सौवश्वे । सुष्विम् । आवत् । इन्द्रः ॥ १५ ॥

भावार्थ—(अस्मै) उस [मनुष्य] को (इत्) ही (उ) निश्चय कर के (त्यत्) वह [वस्तु] (अनु) निरन्तर (दायि) दी गयी है, (यत्) जो [वस्तु] (एषाम्) इन [मनुष्यों] के बीच (एकः) अकेले (भूरेः) बहुत

(आशिम्) अ० ७ । १४ । १ । आणु अपनयने—इत् । दुःखस्य अपनयन नाशनम् (सद्यः) शीघ्रम् (भुवत्) भवेत् (वीर्याय) पराक्रमसम्पादनाय (नोधाः) गमेर्दोः । उ० २ । ६७ । णीञ् प्रापणे, यद्वा णु स्तुतौ—डोप्रत्ययः । गतिकारको-पपदयोः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्व च । उ० ४ । २२७ । नो+हुधाञ् धारणपोषणयोः असि । नोधा ऋषिर्भवति नवन दधाति—निरु० ४ । १६ । नेतृणां स्तुतीनां वा धारकः ॥

१५—(अस्मै) तस्मै मनुष्याय (इत्) एव (उ) निश्चयेन (त्यत्) तद् वस्तु (अनु) निरन्तरम् (दायि) अदायि । दत्तमस्ति (एषाम्) मनुष्याणां मध्ये (एकः) असहायः । केवलः (यत्) वस्तु (वव्ने) वनु याचने—लिट्, उपधातोपः । वव्ने । ययाच्चे (भूरेः) प्रभूतस्य राज्यस्य (ईशानः) अधिपतिः (प्र) प्रकर्षण (एतशम्) इणस्तशन्तशसुनौ । उ० ३ । १४६ इण् गतौ—तशन् । एतशः, अश्वनामि—निरु० १ । १७ । गमनशीलम् । ब्राह्मणम् । ब्रह्मज्ञानिनं उभा-

[रात्र्य] के (ईशानः) स्वामी ने (वध्ने) मांगी है । (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्यवाले परमेश्वर] ने (सौवश्ये) फुरतीके घोड़ों वाले संग्राम के बीच (सूर्ये) सूर्य के प्रकाश में [जैसे स्पष्ट रीति से] (पस्पृधानम्) भगड़ते हुये (सुष्विम्) ऐश्वर्यवान् (एतश्म) ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञानी सभापति] को (प्र) अच्छे प्रकार (आवत्) बचाया है ॥ १५ ॥

भावार्थ—जो आत्मविश्वासी मनुष्य शुद्ध मन्तःकरण से दुष्टों को जीतने में प्रयत्न करता है, परमात्मा अवश्य उसकी रक्षा करता है ॥ १५ ॥

सुवा ते हारियोजना बुवृत्तीन्द्र ब्रह्माणि गोतमासो अक्रन् ।
सैवु विश्वपेशसु धियं धाः प्रातर्मसू धियावसुर्जगम्यात् ॥१६॥

सुव । ते । हारि-योजन । सु-वृत्ति । इन्द्र । ब्रह्माणि ।
गोतमासः । अक्रन् ॥ आ । सुषु । विश्व-पेशसु । धियं ।
धाः । प्रातः । मसू । धिया-वसुः । जगम्यात् ॥ १६ ॥

भावार्थ—(हारियोजन) हे घोड़ों के जोतने वाले ! (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्यवाले पुरुष] (ते) तेरे लिये (एष) ही (गोतमासः) अत्यन्त ज्ञानी

पतिम् (सूर्ये) सूर्यप्रकाशे यथा । अतिस्पष्टरीत्या (पस्पृधानम्) स्पर्ध संघर्ष-
कानच् । शर्पूर्वाः खयः । पा० ७ । ४ । ६ । इत्यभ्यासस्य प्रकारः शिष्यते, धात्व-
कारस्य लोपो रेफस्य सम्प्रसारणं च पृषोदरादित्थात् । स्वर्धमानम् । मत्सरं
कुर्वन्तम् (सौवश्ये) गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च । पा० ५ । ४ । १२४ ।
सश्व-व्यञ् । नश्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वो तु ताभ्यामैच् । पा० ७ । ३ । ३ ।
वकारात् पूर्वम् औकारागमः । शोभना वेगवन्तोऽश्वास्तुरङ्गाः स्वश्वाः, तेषां
कर्मणि । वेगवदश्वयुक्ते सङ्ग्रामे (सुष्विम्) किकिनावृत्सगंश्छन्दसि सदादि-
भ्यो दर्शनात् । वा० । पा० ३ । २ । १७१ । पु प्रसवैश्वर्ययोः—किन्, यथादेशः उच-
कादेशाभावश्छान्दसः । ऐश्वर्यवन्तम् (आवत्) अरत्तत् (इन्द्र) परमैश्वर्यवान्
परमात्मा ॥

१६—(एष) निश्चयेन (ते) तुभ्यम् (हारियोजन) वसिष्ठपियत्रि० ।
४० ४। १२५ । इम् प्रापणे-इञ् + युजिर् योग-ल्यु । हे हारीणां हरीयाम् अश्वानां
योजक (सुवृत्ति) म० २ । विमहेर्लुक् । सुवृत्तीनि । सुब्राह्मणि (इन्द्र) हे

[ऋषियों] ने (सुवृत्ति) अरुद्धे प्रकार प्रश्न करने योग्य (ब्रह्माणि) वेदज्ञानों को (अकन्) किया है [बताया है] । (धियावसुः) बुद्धि और कर्म के साथ रहने वाला त् (एषु) इन [ज्ञानों] में (विश्वपेशसम्) सब रूपों वाली (धियम्) निश्चल बुद्धि को (आ) सब ओर से (धाः) धारण कर और (प्रातः) प्रातःकाल (मद्यु) शीघ्र (जगम्यात्) [उस बुद्धि को] प्राप्त हो ॥ १६ ॥

भावार्थ—विद्वान् पुरुष सभापति आदि का सदा वेदशास्त्रों का उपदेश करें और प्रधान आदि जन भक्तःकरण से प्रहण कर के परोपकार करते रहें ॥ १६ ॥

सूक्तम् ३६ ॥

१—११ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ७ भूरिक् पङ्क्तिः ; २, ४, ५ त्रिष्टुप्, ३ स्वराडावी पङ्क्तिः ; ६, विराद् त्रिष्टुप् ; ६, ११ निचृत् त्रिष्टुप्, १० आषी पङ्क्तिः ॥

मनुष्यवर्तव्योपदेशः—मनुष्य के कर्तव्य का उपदेश ॥

य एङ् इन्द्रव्यं चर्षणीनामिन्द्रं तं गीर्भिरुभ्यर्च आभिः । यः
पत्यंते वृषभो वृष्ययावान्सुत्यः सत्वा पुरुमायः सहस्वान् ॥ १ ॥

यः । एकं । इत् । हव्यः । चर्षणीनाम् । इन्द्रम् । तस् ।
गीः-भिः । आभिः । अर्चं । आभिः ॥ यः । पत्यंते । वृषभः ।
वृष्ययं-वान् । सुत्यः । सत्वा । पुरु-मायः । सहस्वान् ॥ १ ॥

परमैश्वर्यवान् पुरुष (ब्रह्माणि) वेदज्ञानानि (गोनमाम) गमेडोः । उ० २ ।
६७ । गम्बु गतो यद्वा गै गाने—डो प्रत्ययः, तमप्, असुक् च । गौरिति स्तोत्र
नाम—निघ० ३ । १६ । अतिशयेन ज्ञानिनः । महर्षयः (अकन्) अ० ० । २६ ।
७ । करोतेर्लुङ् छान्दसं रूपम् । अकार्षुः(आ) समस्तात् (एषु) ब्रह्मसु । वेदज्ञानेषु
(विश्वपेशसम्) सर्वरूपोपेताम् (धियम्) धारणावतीं प्रहाम् (धाः) दधाते-
लुङ् लोड्ये । धेहि । धर (प्रातः) प्रातःकाले (मद्यु) शीघ्रम् (धियावसुः)
प्रहाकर्मर्षां सह निवासी (जगम्यात्) अ० ७ । २६ । २ । गमेः शपः ष्लुः,
विभिदिङ्, मध्यमपुंसस्य प्रथमः । मध्यमः । प्राप्यः ॥

भाषार्थ—(तम्) उस (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा] को (आभिः) इन (गीर्भिः) वाणियों से (अभि) सब प्रकार (अर्चै) मैं पूजता हूँ । (यः) जो (एकः) अकेला (इन्) ही (चर्पणीनाम्) मनुष्यों के बीच (हव्यः) ग्रहण करने योग्य है और (यः) जो (वृषभः) श्रेष्ठ, (वृष्यवान्) पराक्रम वाला, (सत्यः) सच्चा, (सत्वा) वीर, (पुरुमायः) बहुत बुद्धि वाला और (सहस्वान्) महाबलवान् (पत्यते) स्वामी है ॥ १ ॥

भाषार्थ—सब मनुष्यों को सर्वशक्तिमान्, महापराक्रमी जगदीश्वर की उपासना करके श्रेष्ठ गुणी होना चाहिये ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—६।२२।१—११ ॥

तस्मिं नः पूर्वं पितरो नवग्वाः सुप्त विप्रसो अभि वाजयन्तः ।
नृक्षुद्दुभं ततुरिं पर्वतेष्ठासद्रौघवाचं सुतिभिःश्रविष्ठम् ॥ २ ॥
तस्मिं । जं इति । नः । पूर्वं । पितरः । नवग्वाः । सुप्त ।
विप्रसः । अभि । वाजयन्तः ॥ नृक्षुत्-दुभम् । ततुरिम् ।
पर्व-ते-स्याम् । अद्रौघ-वाचम् । सुति-भिः । श्रविष्ठम् ॥२॥

भाषार्थ—(नवग्वाः) स्तुति योग्य चरित्र वाले, (सप्त) सात (विप्रसः) [स्वच्छा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन, और बुद्धि] व्यापन शील

१—(यः) परमेश्वरः (एकः) अद्वितीय, (इन्) एव (हव्यः) हूँ अदाने—यत् । ग्राह्य, (चर्पणीनाम्) मनुष्याणां मध्ये (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं परमात्मानम् (तम्) (गीर्भिः) वाग्भिः । स्तुतिभिः (अभि) सर्वतः (अर्चै) पूजयामि (आभिः) (यः) (पत्यते) यद्वृत्तान्तित्यम् । पा० ८ । १ । ६६ । इति निघातप्रतिषेधः । ईष्टे । स्वामी भवति (वृषभः) श्रेष्ठ, (वृष्यवान्) अ० ४ । ४ । ३ । वृषन्—यत्, मतुप् । पराक्रमयुक्त (सत्यः) यथार्थस्वभावः (सत्वा) अ० ५ । २० । ८ पद्लु विशरणगत्यवमादनेषु—कनिप् दस्य तः । वीरः (पुरुमायः) माया प्रजानाम्—निघ० ३ । ६ । बहुप्रज्ञः (सहस्वान्) महाबलवान् ॥

२—(तम्) प्रसिद्धम् (उ) एव (पूर्वं) प्राचीनाः (पितरः) पालक-तनाः विद्वांसः (नवग्वाः) अ० १५ । १ । ५६ । सु स्तुतौ—अप् + गम्भ् गतौ-

इन्द्रियों के समान (नः) हमारे (पूर्वे) पहिले (पितरः) पितृजन (तम्) उस (उ) ही (नक्षद्दाभम्) व्याप्त दोषों के नाश करने वाले, (ततुरिम्) दुर्बों से तारने वाले, (पर्वतेष्ठाम्) मेघ में वर्तमान [विजुली के समान शुद्ध स्वरूप], (अद्रोघवाचम्) द्रोह रहित वाणी वाले, (मतिभिः) बुद्धियों के साथ (शविष्ठम्) अत्यन्त बली [परमात्मा] को (अभि) सब ओर से (वाज-यन्तः) जताते हुये हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ—जिस अनादि शनन्त परमात्मा की उपासना योगी जन सदा करते हैं, उसका ध्यान करके सब मनुष्य आनन्द पावें ॥ २ ॥

तमीमह इन्द्रमस्य रायः पुंरुवीरस्य नृवतः पुरुक्षोः । यो
अस्कृधोयुरजरुः सर्व्वान् तमा भर हरिवो सादुयध्यै ॥ ३ ॥

तम् । ईसुहे । इन्द्रम् । अस्यु । रायः । पुंरु-वीरस्य ।
नृवतः । पुरु-क्षोः ॥ यः । अस्कृधोयुः । अजरः । सर्व्व-वान् ।
तम् । आ । भरु । हरि-वः । सादुयध्यै ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(तम्) उस (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले परमात्मा]

इवप्रत्ययः । स्तोतव्यचरित्राः (सप्त) सप्तसंख्याकाः (विप्रासः) विप्राणां
व्यापनकर्मणामिन्द्रियाणाम्—निरु० १४ । १२ । व्यापनकर्माणीन्द्रियाणि यथा ।
त्वक्चक्षुःश्रवणरसनाघ्राणमनोबुद्धयः । सप्त ऋषयः—अ० ४ । ११ । ६ (अभि)
सर्वतः (वाजयन्तः) वाजयन्तः लन्ति (नक्षद्दाभम्) नक्षतिर्व्याप्तिकर्मा—
निघ० २ । १८—शतृ, दध्नोतीति वधकर्मा—निघ० २ । १६ । नक्षत् + दम्मु
दम्भे हनने—अण्, नलोपश्छान्दसः । व्याप्तवतां दोषाणां नाशकम् (ततुरिम्)
आष्टगमहनजनः किफिनौ लिट् च । पा० ३ । २ । १७१ । तृ सवनतरणयोः,
अन्तर्गतस्यर्थः—किन् । बहुलं छन्दसि । पा० ७ । १ । १०३ । इत्युत्वम् । दुःखे-
भ्यस्तारयितारम् (पर्वतेष्ठाम्) पर्वते मेघे स्थितां विद्युतमिव शुद्धस्वरूपम्—
इति दयानन्दभाष्ये (अद्रोघवाचम्) अ० ६ । १ । २ । द्रोहरहितवाग्युकम् ।
कल्याणवाणीम् (मतिभिः) बुद्धिभिः (शविष्ठम्) अतिशयेन बलवन्तम् ॥

३—(तम्) (ईमहे) याचना कुर्मः (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं परमात्मा-
नम् (अस्य) (रायः) धनस्य (पुंरुवीरस्य) बहुवीरप्रापकस्य (नृवतः)

से (अस्य) इस (पुरुवीरस्य) बहुत वीरों के प्राप्त कराने वाले, (नृवतः) श्रेष्ठ मनुष्यों वाले, (पुरुज्ञोः) बहुत ऐश्वर्य वा अन्न वाले (रायः) धन की (ईमहे) हम मांग करते हैं । और (यः) जो [परमात्मा] (अस्कृधोयुः) अपनी छोटाई न चाहने वाला, (अजरः) निर्बल न होने वाला, (स्वर्वान्) बहुत सुख वाला है, (हरिवः) हे उत्तम मनुष्यों वाले ! [विद्वान् पुरुष] त् (मादयध्वै) आनन्दित करने के लिये (तम्) उस [परमात्मा] को (आ) सब प्रकार (भर) धारण कर ॥ ३ ॥

भावार्थ—सब मनुष्य विज्ञान और ऐश्वर्य आदि बढ़ाने के लिये परमात्मा से प्रार्थना करके सदा प्रयत्न करें ॥ ३ ॥

तन्नो वि वोचो यदि ते पुरा चिज्जरितारं आनुशुः सुस्नमिन्द्र।
कस्ते भागः किं वयो दुध्र खिद्वः पुरुहूत पुरुवसोऽसुरघ्नः ॥४॥
तत् । नुः । वि । वोचुः । यदि । ते । पुरा । चित् । जरितारः ।
आनुशुः । सुस्नम् । इन्द्र ॥ कः । ते । भागः । किम् । वयः ।

श्रेष्ठमनुष्ययुक्तस्य (पुरुज्ञोः) आङ्परयोः खनिशुभ्यां डिच्च । उ० १ । ३३ ।
इ तु शब्दे, ति निवासगतयोः, ऐश्वर्ये च—कु प्रत्ययः, सचडित् । तु अन्ननाम-
निघ० २ । ७ । बह्वैश्वर्ययुक्तस्य । बहन्नोपेतस्य (यः) परमात्मा (अस्कृधोयुः)
पृभिदिव्यधिगृधिधृपिहृषिभ्यः । उ० १ । २३ । कृती छेदने—कु, तकारस्य धः ।
कधु ह्रस्वनाम—निघ० ३ । २ । सुप आत्मनः क्यच् । पा० ३ । १ । ८ । अकधु-
क्यच् । क्याच्छन्दसि । पा० ३ । २ । १७० । उप्रत्ययः, यद्वा, मृगयद्वादयश्च ।
उ० १ । ३७ । अकधु+या प्रापणे—कु । संकार उपजनः, धुशब्दस्य धोभावः ।
अस्कृधोयुरकध्वायुः कृष्विति ह्रस्वनाम निकृत्तं भवति—निरु० ३ । ३ । य
आत्मनः कधु ह्रस्वत्वं नेच्छतीति—दयानन्दभाष्ये—अक्० ६ । ६७ । ११ (अजरः)
अरारहितः । अनिर्बलः । इडः (स्वर्वान्) सुखवान् (तम्) परमात्मानम् (आ)
समन्तात् (भर) धर (हरिवः) हरयो मनुष्याः—निघ० २ । ३ । हे प्रशस्त—
मनुष्ययुक्त (मादयध्वै) तुमर्थे सेसेनसे० । पा० ३ । ५ । ६ । मादयतेः—अध्वै
प्रत्ययः । मादयितुमानन्दयितुम् ॥

दुध् । खिद्वः । पुरु-हूत । पुरुवसो इति पुरु-वसो ।
असुर-घ्नः ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [वडे पेशवर्ग वाले पुरुष] (तत्)
यद् वात (नः) हल कां (वि) विशेष करके (वचः) नृ वता—(यदि) यदि
(ते) तेरे (जरितारः) गुण वसानने वालों ने (पुरा चित्) पहिले भी
(सुम्नम्) सुख के (शानशुः) पाया है । (दुध्) हे पूर्ण ! (खिद्वः) हे शत्रुओं
के खेद देने वाले ! (पुरुहूत) हे बहुतों से घुलाये गये ! (पुरुवसो) हे बहुत धन
वाले (ते) तेरा (कः) कौन सा (असुरघ्नः) असुरों [दुष्टों का] नाश करने
वाला (भागः) भाग है और (किम्) कौन (वयः) जीवन है ॥ ४ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के उपदेशों को ग्रहण करके
सदा सुख प्राप्त करें ॥ ४ ॥

तं पृच्छन्ती वज्रहस्तं रथे ष्ठामिन्द्रं वेपी वक्त्री यस्य नू गीः ।

तुविश्राभं तुविकुर्मि रभोदां गा तुमिपे नक्षते तुम्रच्छ ॥ ५ ॥

तम् । पृच्छन्ती । वज्र-हस्तम् । रथे-स्थाम् । इन्द्रम् । वेपी ।

वक्त्री । यस्य । नु । गीः ॥ तुवि-श्राभम् । तुवि-कुर्मिम् ।

रभुः-दाम् । गा-तुम् । इपे । नक्षते । तुम्रम् । अच्छ ॥ ५ ॥

४—(तत्) वक्ष्यमाणम् (नः) अस्मान् (वि) विशेषेण (वचः) लोढर्थे
सुद्ध् । ब्रूहि (यदि) (ते) तव (पुरा) पूर्वम् (चित्) अपि (जरितारः)
गुणस्तोतारः (शानशुः) अशु व्याप्तौ—लिट् । प्रापुः (सुम्नम्) सुखम् (इन्द्र)
हे परमेश्वर्यवन पुरुष (कः) (ते) तव (भागः) अंशः (किम्) (वयः)
जीवनम् (दुध्) अ० २० । ३४ । १८ । हे पूर्ण (खिद्वः) खिद्व दैन्ये, अन्त-
र्गतण्यर्थः—कस्य । वस्वेकाजाद्घसाम् । पा० ७ । २ । ६७ । इडभावः । द्विर्वचन-
प्रकरणे छन्दसि वेति वक्तव्यम् । वा० पा० ६ । १ । ८ । इत्यन्भ्यासः । मतुवसो रु
सम्बुद्धौ छन्दसि । पा० ८ । ३ । १ । इति रुत्वम् । आमन्त्रितनिघातः । हे शत्रुणां
खेदयितः (पुरुहूत) हे बहुमिराडन (पुरुवसो) हे बहुधन (असुरघ्नः) कप्र-
करणे मूलधिभुजादिभ्य उपसंख्यानम् । वा० पा० ३ । २ । ५ । असुर + हन
हिंसागत्योः— कप्र.वयः । दुष्टानां हन्ता नाशकः ॥

भाषार्थ—(यस्य) जिस [पुरुष] की (गीः) वाणी (तु) निश्चय करके (वेपी) हिलने वाली [वे रोक चलने वाली] और (वकरी) बोलने की शक्ति वाली है, (तम्) उस (वज्रहस्तम्) वज्र [हथियार] हाथ में रखने वाले (रथेष्ठाम्) रथ में बैठे हुये, (तुविग्रामम्) बहुतों को सहारा देने वाले, (तुविकूर्मिम्) बहुत से काम करने वाले, (रमोदाम्) वेगयुक्त चल देने वाले, (गातुम्) वेदों के गाने वाले, (तुप्रम्) विघ्नों के मिटाने वाले (इन्द्रम्) इन्द्र [वड़े पेश्वर्य वाले पुरुष] को (इषे) अन्न आदि के लिये (पृच्छन्ती) पूँछती हुयी [छी] (अच्छ) अच्छे प्रकार (नक्षते) प्राप्त होती है ॥ ५ ॥

भाषार्थ—ब्रह्मचारिणी कन्या भली भाँति निश्चय करके शुभ गुण वाले पेश्वर्यवान् पुरुष को विवाह के लिये स्वीकार करे ॥ ५ ॥

अथा हू त्वं मायया घोषुधानं सुनोजुवा स्वतवः पर्वतेन ।
अच्युता चिद् वीलिता स्वौजो रुजो वि दूह्ला धृषुता
विरप्तिन् ॥ ६ ॥

५—(तम्) पुरुषम् (पृच्छन्ती) जिज्ञासमाना (वज्रहस्तम्) आयुधपाणिम् (रथेष्ठाम्) रथाकूढम् (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं पुरुषम् (वेपी) वेपु कम्पने पचायच् । गौरादित्वाद् डीप् । कम्पनशीला । चेष्टायमाना (वकरी) वचेर्वनिप् । धनो र च । पा० ४ । १ । ७ । डीवरेफौ । यद्वा, कृगृशृ दृम्यो वः । उ० १ । १५५ । वचेर्वप्रत्ययः, रो मत्वर्थे, डीप् । न्यङ्कादीनां च । पा० ७ । ३ । ५३ । इति धाहलकात् कुत्वम् । वचनशक्तिमती (यस्य) पुरुषस्य (तु) निश्चयेन (गीः) वाक् (तुविग्रामम्) ग्रह उपादाने-अण् हस्य भः । बहूनां अ हीतारं सहायकम् (तुविकूर्मिम्) अर्त्तच्छच । उ० ४ । ४४ । हु कृञ् करणे-मिप्रत्ययः ऊञ् । बहुकर्माणम् (रमोदाम्) रमसो वेगयुक्तवल्स्य दातारम् (गातुम्) कर्मिभिल्लनिगाभायाद्विभ्यश्च । उ० १ । ७३ । वेदानां गायनं गायकम् (इषे) अन्नाचाय-दयानन्दभाष्ये—अकृ० ६ । २२ । ५ (नक्षते) प्राप्नोति । नक्षतिर्गतिकर्म-निय० २ । १४ (तुप्रम्) तुमिराहननार्थः—सायणभाष्ये—अकृ० ३ । ५० । १ । सुसूत्राभ्युधिभ्यः क्रन् । उ० २ । २४ । इति क्रन् प्रत्ययः । विघ्नानां नाशकम् (अच्छ) सुच्छ ॥

अया । ह । त्यम् । मायया । वृधुधानम् । मनुः-जुवा । स्व-तवः ।
पर्वतेन ॥ अच्युता । चित् । वीलिता । सु-ओजः । रुजः ।
वि । दृहृहला । धूपता । विरुग्णिन् ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(स्वतवः) हे अपने बल वाले । (स्वोजः) हे बड़े पराक्रम वाले । (विरुग्णिन्) हे महागुणी पुरुष । (अया) इस (ह) ही (मायया) [अपनी] बुद्धि और (मनोजुवा) मन के समान वेग के साथ (पर्वतेन) पहाड़ [के तुल्य दृढ एथियार] से और (धूपता) दौठपन से (त्यम्) उस (वृधुधानम्) बढ़ते हुये [बैरी] को और (अच्युता) न हिलने वाले, और (वीलिता) ठहकाऊ और (दृहृ) दृढ़ [पदार्थों] को (चित्) भी (वि रुजः) तू ने चूर चूर कर दिया है ॥ ६ ॥

भाषार्थ—जो स्त्री पुरुष बड़े बड़े विघ्नों और कष्टों को सह सके, वे ही गृह स्थापन आदि बड़े बड़े काम चला सकते हैं ॥ ६ ॥

तं वो धिया नव्यस्या शविष्ठं मूलं मूलवत् परितंसुयध्यै । स
नो वक्षदनिमानः सुवलेन्द्रो विश्वान्यति दुर्गहाणि ॥ ७ ॥

तम् । वः । धिया । नव्यस्या । शविष्ठम् । मूलम् । मूल-वत् ।
परि-तंसुयध्यै ॥ सः । नः । वक्षत् । अन्ति-मानः । सु-वला ।
इन्द्रः । विश्वानि । अति । दुः-गहानि ॥ ७ ॥

६—(अया) अनया (ह) एव (त्यम्) तम् (मायया) प्रकया (वृधु-
धानम्) वर्धमानम् (मनोजुवा) जु गती-क्विप् । मनोवद् वेगेन (स्वतवः) तवो-
बलम्—निघ० २ । ६ । हे स्वकीयबलयुक्त (पर्वतेन) शैलतुल्यदृढशस्त्रेण
(अच्युता) च्युङ् गतीं—क । अचेष्टायमानानि (चित्) अपि (वीलिता)
वीलयतिः संस्तम्भकर्मा—निरु० ५ । १६ । संस्तम्भितानि । स्थिराणि (स्वोजः)
हे महापराक्रमिन् (रुजः) अरुजः । भग्नवानसि (वि) विशेषेण (दृहृ)
दृढानि वस्तूनि (धूपता) संश्चतृत्पद्वेदत् । उ० २ । ८५ । नि धूषा प्रागल्भ्ये-
अति प्रत्ययः । प्रागल्भ्येन (विरुग्णिन्) अ० ५ । २६ । १३ । हे महागुणिन् ॥

भाषार्य—[हे मनुष्यो !] (वः) तुम्हारे लिये (तम्) उस (शविष्ठम्) अत्यन्त बली और (प्रत्नम्) पुराने [अनुभवी पुरुष] को (नव्यस्या) अधिक नवीन (धिया) बुद्धि वा कर्म से (प्रत्नवत्) पुराने लोगों के समान (परितं-सयध्वै) हम शोभायमान करें । (सः) वह (अनिमानः) बिना परिमाण वाला, (सुवह्ना) बड़ा नायक (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला पुरुष] (विश्वानि) सब (दुर्गहानि) अन्यन्त कठिन स्थानों को (अति) पार करके (नः) हम को (वक्तृ) चलावे ॥ ७ ॥

भाषार्य—जो पुरुष सब मनुष्यों के बीच अनुपम, बलवान्, बुद्धिमान्, परोपकारी होवे, उसी को विद्वान् लोग अपना प्रधान बनावें ॥ ७ ॥

आ जनाय द्रुह्वणे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोऽन्तरिक्षा । तप
वृषन् विश्वतः शोचिषा तान् ब्रह्मद्विषे शोच्य क्षामुपरच ॥८
आ । जनाय । द्रुह्वणे । पार्थिवानि । दिव्यानि । दीपयुः ।
अन्तरिक्षा ॥ तप । वृषन् । विश्वतः । शोचिषा । तान् ।
ब्रह्म-द्विषे । शोच्य । क्षाम् । अपः । च ॥ ८ ॥

भाषार्य—(वृषन्) हे बलिष्ठ ! [पुरुष] (दिव्यानि) श्रेष्ठ गुण वाले (पार्थिवानि) पृथिवी पर उत्पन्न हुये और (अन्तरिक्षा) आकाश वाले पदार्थों

७—(तम्) (वः) युष्मभ्यम् (धिया) प्रज्ञया कर्मणा वा (नव्यस्या) नव-ईयसुन्, ईकारलोपः. ङीप् नवीयस्या । नवतरया (शविष्ठम्) अतिशयेन बलवन्तम् (प्रत्नम्) प्राचीनम् । अनुभविन् पुरुषम् (प्रत्नवत्) पुराणाः पुरुषो यथा (परितंसयध्वै) तिङां तिङो भवन्ति । वा० पा० ७ । १ । ३६ । तसि अलङ्कारे-तुमधे अन्धैप्रत्ययो लिङ्गर्थे । अलङ्कार्यामि (सः) (नः) अस्मान् (वक्तृ) वहतेत्तद् । वहेत् । नयेत् (अनिमानः) अपरिमाणाः (सुवह्ना) सर्वघातम्यो मनिन् । उ० ४ । १४५ । वह प्रापणे—मनिन् । सुष्टु वोढा । महानायकः (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् पुरुषः (विश्वानि) सर्वाणि (अति) अतीत्य । उल्लङ्घ्य (दुर्गहा-नि) गह गहने दुर्गमने-अच् । दुर्गमानि । अतिकठिनानि वस्तूनि ॥

८—(आ) समन्तात् (जनाय) पुरुषाय (द्रुह्वणे) अ० ४ । २६ । १ । द्रुह्विषांक्षायाम्-कनिप् द्रोगर्धे (पार्थिवानि) पृथिव्यां सवानि (दिव्यानि)

को (आ) सब ओर से (दीपयः) प्रकाशित कर, और (तान्) हिंसक चोरों को (शोचिषा) तेज से (विश्वतः) सब प्रकार (तप) तपादे, और (ब्रह्मद्विषे) ईश्वर और वेद के द्वेषी, (द्रुहणे) अनिष्ट चाहने वाले (जनाय) जनके लिये (क्षाम्) पृथिवी (च) और (अयः) जलों को (शोचय) शोकयुक्त कर ॥ ८ ॥

भाषार्थ—विद्वान् लोग पृथिवी आदि पदार्थों के तत्त्वज्ञान को फैलाकर दुष्टों को सन्ताप और सत्पुरुषों को आनन्द देवें ॥ ८ ॥

भुवो जनस्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जगत्स्त्वेषसंदृक् ।
धिष्व वज्रं दक्षिण इन्द्र हस्ते विश्वा अजुर्य दयसे वि मायाः ८
भुवः । जनस्य । दिव्यस्य । राजा । पार्थिवस्य । जगत् ।
स्वेष-संदृक् ॥ धिष्व । वज्रम् । दक्षिणे । इन्द्र । हस्ते ।
विश्वाः । अजुर्य । दयसे । वि । मायाः ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(त्वेषसंदृक्) हे प्रकाश के दिखाने वाले ! तू (दिव्यस्य) कामना योग्य (जनस्य) मनुष्य का और (पार्थिवस्य) पृथिवी पर हुये (जगतः) संसार का (राजा) राजा (भुवः) है । (अजुर्य) हे जरा रहित [प्रबल] (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (दक्षिणे) दाहिने (हस्ते) हाथमें (वज्रम्) वज्र [हथियार] (धिष्व) धारण कर । और

दिव्यगुणयुक्तानि (दीपयः) अदीपयः—लोडर्थे ऋड् । प्रकाशय (अन्तरिक्षा) अर्शआद्यच् । अन्तरिक्षसम्बन्धीनि वस्तूनि (तप) दह (वृषन्) हे वलिष्ठ (विश्वतः) सर्वतः (शोचिषा) तेजसा (तान्) तर्द हिंसायाम्—डप्रत्ययः । चोरान् (ब्रह्मद्विषे) ईश्ववेदयोर्द्वेष्टे (शोचय) शोक प्रापय (क्षाम्) पृथिवीम् (अयः) जलानि (च) ॥

६— (भुवः) छान्दस रूपम् । भवसि (जनस्य) पुरुषस्य (दिव्यस्य) कमनीयस्य (राजा) (पार्थिवस्य) पृथिव्यां भवस्य (जगतः) संसारस्य (त्वेषसंदृक्) हे प्रकाशस्य सम्यग् दर्शयितः (धिष्व) सुधितवसुधित नेम धित धिष्वधिपीय च । पा० ७ । ४ । ५५ । दधातेः इत्वम् । धत्स्व । धर (वज्रम्) शस्त्रम् (दक्षिणे) (इन्द्र) (हस्ते) (विश्वाः) सर्वाः (अजुर्य) अ० ५ । १ । ४ । जूरी हिंसावयोहान्योः—यक् । हे जरारहित प्रबल (दयसे) दय दानादिषु ।

(विश्वाः) समस्त (मायाः) बुद्धियों को (वि) विशेष करके (दयसे) दे ॥६॥

भावार्थ—वही मनुष्य राजा होना चाहिये जो शरीर और आत्मा से प्रबल होकर संसार की रक्षा और विद्याओं का प्रचार करे ॥ ६ ॥

आ खं यतसिन्द्र णः स्वस्तिं शत्रुतूर्याय बृहतीममृधाम् ।

यया दासान्यार्याणि वृत्रा करो वज्रिन्सुतुका नाहुषाणि ॥१०॥

आ । खं-यतस् । इन्द्र । नः । स्वस्तिम् । शत्रु-तूर्याय ।

बृहतीम् । अमृधाम् ॥ यया । दासानि । आर्याणि । वृत्रा ।

करः । वज्रिन् । सु-तुका । नाहुषाणि ॥ १० ॥

भावार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [वड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (नः) हमारे लिये (शत्रुतूर्याय) शत्रुओं के मारने को (संयतम्) बहुत दृढ, (बृहतीम्) पढती हुयी, (अमृधाम्) अज्ञय (स्वस्तिम्) सुत्र सामग्री (आ) सब ओर से (करः) तू कर । (यया) जिस [सुख सामग्री] से (वज्रिन्) हे वज्र-धारी । (दासानि) शत्रु के कुल (आर्याणि) द्विजकुल [होवें] और (नाहुषाणि) मनुष्यों के (वृत्राणि) धन (सुतुका) बहुत बढ़ने वाले [होवें] ॥१०॥

भावार्थ—राजा लिखादान और सत्य उपदेश से शत्रुओं को भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनाकर शत्रुओं के नाश के लिये मनुष्यों में धन और सुख की वृद्धि करे ॥ १० ॥

लोडर्थे लट् । देहि (वि) विशेषेण (मायाः) प्रज्ञाः ॥

१०—(आ) समन्तात् (संयतम्) यम नियमने—किप् तुक् च । सम्यग् नियमिताम् । सुहृदाम् (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् राजन् (नः) असमभ्यम् (स्वस्तिम्) सुसत्ताम् । सुखसामग्रीम् (शत्रुतूर्याय) तूरी गतित्वरणहिंसनयोः—क्यप् । शत्रूणां हिंसनाय (बृहतीम्) महतीम् (अमृधाम्) स्फायितञ्चिवञ्चि० । उ० २ । १३ । मृधु आर्द्धीभावे हिंसायां च—रक्, टाप । अहिंसिताम् । अक्षीणाम् । (यया) स्वस्त्या (दासानि) शत्रुकुलानि (आर्याणि) द्विजकुलानि (वृत्राणि) धनानि (करः) कुरु (वज्रिन्) शस्त्रधारिन् (सुतुका) सृष्टभूषणिसुपिभ्यः कक् । उ० १ । ४१ । तु गतिवृद्धि-द्विसामु — ऋक् । सुवर्धनानि (नाहुषाणि) मनुष्यसम्बन्धीनि ॥

स नो नियुद्भिः पुरुहूत वेधो विश्ववाराभिरा गहि प्रयज्यो ।
 न या अदेवो वरते न देव आभिर्याहि तूयमा मद्र्यद्रिक् ॥११
 सः । नः । नियुत्-भिः । पुरु-हूत । वेधः । विश्व-वाराभिः ।
 आ । गहि । प्रयज्यो इति प्र-यज्यो ॥ न । याः । अदेवः ।
 वरते । न । देवः । आ । आभिः । याहि । तूयम् । आ ।
 मद्र्यद्रिक् ॥ ११ ॥

भावार्थ—(पुरुहूत) हे बहुतों से पुकारे गये ! (वेधः) हे बुद्धिमान् (प्रयज्यो) हे अच्छे प्रकार यज्ञ करने वाले ! (सः) वह तू (नः) हम को (विश्ववाराभिः) सब से स्वीकार करने योग्य (नियुद्भिः) निश्चित मिलने और विछुडने की रीतों से (आ गहि) प्राप्त हो । (याः) जिन [मिलने विछुडने की रीतों] को (अदेवः) अविद्वान् जन (देवः न) विद्वान् के समान (न) नहीं (आ) अच्छे प्रकार (वरते) मानता है, (आभिः) उन [रीतों] के साथ (मद्र्यद्रिक्) मेरी ओर दृष्टि करता हुआ तू (तूयम्) शीघ्र (आ याहि) आ ॥ ११ ॥

भावार्थ—राजा उत्तम उत्तम रीतों को स्वीकार कर के विद्वानों से स्वीकार करावे, क्योंकि मूर्ख जन उत्तम बातों को तुरन्त ठीक नहीं समझते ॥११॥

११—(सः) स त्वम् (नः) अस्मान् (नियुद्भिः) यु मिश्रणामिश्रणयोः—किप् । निश्चितसंयोगवियोगरीतिभिः (पुरुहूत) हे बहुभिराहूत (वेधः) मेधाचिन् । (विश्ववाराभिः) सर्वैः स्वीकरणीयाभिः (आगहि) प्राप्नुहि (प्रयज्यां) यज्ञिमनिशुन्धि० । उ० ३ । २० । यज्ञ देवपूजासंगतिकरण—दानेषु—युच् । हे प्रकर्षण यज्ञकर्ताः (न) निवेधे (याः) नियुतः (अदेवः) अविद्वान् (वरते) वृज् वरणे, भ्वादिः । स्वीकरोति (न) यथा (देवः) विद्वान् (आ समन्तात् (आभिः) नियुद्भिः (याहि) गच्छ (तूयम्) अघ्न्याद्यञ्च । उ० ४ । ११२ । तत्रतेवृद्धिकर्मणः—निरु० ६ । २५—यक्, छान्दसो दीर्घः । शीघ्रम्—निघ० २ । १५ (मद्र्यद्रिक्) मद्र्यच्—अथर्व० २० । २३ । १+ दशिर् प्रेक्षणे—किप्, पृषुपोदरादिरुपम् । मद्रिमिमुञ्जदृष्टिः सन् ॥

सूक्तम् ३७ ॥

१—११ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ५ त्रिष्टुप् ; २ आर्षी पङ्क्तिः ; ३, ६ निचृत् त्रिष्टुप् ; ४ पङ्क्तिः ; ७, ८, १० विराडार्षी त्रिष्टुप् ; = भुरिगार्षी पङ्क्तिः ; ११ भुरिक् पङ्क्तिः ॥

राजाप्रजाधर्मोपदेशः—राजा और प्रजा के धर्म का उपदेश ॥

यस्तिग्मशृङ्गो वृषभो न भीम एकःकृष्टीश्च्यावयति प्र विश्वाः।
यः शश्वतो अदाशुषो गयस्य प्रयन्तासि सुष्वितराय वेदः ॥१
यः । तिग्म-शृङ्गः । वृषभः । न । भीमः । एकः । कृष्टीः ।
च्यावयति । प्र । विश्वाः ॥ यः । शश्वतः । अदाशुषः । गयस्य ।
प्र-यन्ता । असि । सुष्वि-तराय । वेदः ॥ १ ॥

भाषार्थ—(एकः) अकेला [वही] (विश्वा) सब (कृष्टीः) मनुष्य प्रजाओं को (प्र) अच्छे प्रकार (च्यावयति) चलाता है, (यः) जो (तिग्म-शृङ्गः न) तीखी किरणों वाले सूर्य के समान (भीमः] भयङ्कर और (वृषभः) बरसा करने वाला है । और (यः) जो (शश्वतः) निरन्तर (अदाशुषः) न देने वाले के (गयस्य) घर का (वेदः) धन (सुष्वितराय) अधिक ऐश्वर्य वाले व्यवहार के लिये (प्रयन्ता) देने वाला (असि) है ॥ १ ॥

भाषार्थ—जैसे सूर्य अपने ताप से जल खींच बरसा करके उपकार करता है, वैसे ही राजा कुदानी वा कंजूसों से धन लेकर विद्या आदि शुभ कर्मों में लगावे ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—७ । १६ । १—११ ॥

१—(यः) पुरुषः (तिग्मशृङ्गः) तिग्मानि तेजःस्वीनि शृङ्गानि किरणा यस्य स सूर्यः (वृषभः) वृष्टकरः (न) इव (भीमः) भयङ्करः (एकः) अद्वितीयः (कृष्टीः) मनुष्यप्रजाः (च्यावयति) चालयति (प्र) प्रकर्षेण (विश्वाः) सर्वाः (यः) (शश्वतः) निरन्तरस्य । सदा वर्तमानस्य (अदाशुषः) अदातुः पुरुषस्य (गयस्य) गृहस्य (प्रयन्ता) नियमयिता । प्रदाता (असि) अस्ति (सुष्वितराय) अ० २० । ३५ । १५ । अधिकैश्वर्यवते व्यवहाराय (वेदः) धनम्—निघ० २ । १० ॥

त्वं ह्येत्यदिन्द्र कुत्समावः शुश्रूषमाणस्तन्वा समुर्ये । दासं
यच्छुष्णं कुर्यवं न्यस्मा अरन्धय अर्जुनेयाय शिक्षन् ॥ २ ॥

त्वम् । ह्य । त्यत् । इन्द्र । कुत्सम् । आवः । शुश्रूषमाणः ।
तन्वा । सु-मुर्ये ॥ दासम् । यत् । शुष्णम् । कुर्यवम् । नि ।
अस्मै । अरन्धयः । अर्जुनेयाय । शिक्षन् ॥ २ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (शुश्रूषमाणः)
सुनने की इच्छा करते हुये [वा सेवा करते हुये] (त्वम्) तू ने (ह्य) ही (त्यत्)
तब (कुत्सम्) मिलनसार ऋषि [वा वज्रधारा शूर] को (तन्वा) शरीर से
(समुर्ये) सङ्ग्राम में (आवः) घनाया है । (यत्) जब कि (दासम्) नाश
करने वाले, (शुष्णम्) सुखाने वाले, (कुर्यवम्) अश्वों के बिगाड़ देने वाले
[बैरी] को (अस्मै) उस (अर्जुनेयाय) विद्या प्राप्ति कराने वाली [विदुषी-
स्त्री] के पुत्र के लिये (शिक्षन्) शिक्षा देते हुये तू ने (नि अरन्धयः) वश में
कर लिया है ॥ २ ॥

भाषार्थ—जो राजा प्राजा की पुकार सुनता और विद्वानों का सत्कार
करता है और शत्रुओं का नाश करके विद्या फैलाता है, वह स्थिर पेश्वर्य को
प्राप्त होता है ॥ २ ॥

२—(त्वम्) (ह्य) निश्चयेन (त्यत्) तदा (इन्द्र) हे परमेश्वर्यधन्
राजन् (कुत्सम्) अ० २० । २१ । १० । संगतिशीलम् । ऋषिम् । कुत्सो वज्रनाम-
निघ० २ । २० । अर्शभाद्यच् । वज्रधारिणम् (आवः) अरक्षः (शुश्रूषमाणः)
भोतुमिच्छन् । सेवां कुर्वाणः (तन्वा) शरीरेण (समुर्ये) मर्या मनुष्यनाम-
निघ० २ । ३ । मनुष्यैर्युक्ते सङ्ग्रामे (दासम्) वसु उपक्षये—घञ् । नाशायिता-
रम् (यत्) यदा (शुष्णम्) शोषकम् (कुर्यवम्) कु कुत्सिता नाशिता यवा
अन्नानि येन तं शत्रुम् (नि) निरन्तरम् (अस्मै) (अरन्धयः) अ० १० । ४ । १० ।
वशीकृतवानसि (अर्जुनेयाय) अर्जेर्यिलुक् च । उ० ३ । ५८ । अर्जं संचये—णिच्-
उनन् येश्च लुक्, गौरादित्वाद् ङीप् । स्त्रीभ्यो ढक् । पा० ४ । १ । १२० । अर्जुनी-
ढक् । अर्जयति विद्याः सा अर्जुनी । अर्जुन्या विदुष्याः पुत्राय (शिक्षन्)
शिक्षां कुर्वन् ॥

त्वं धृष्णो धृषता वीतहव्यं प्रावो विश्वाभिरुतिभिः सुदासम्
 प्र पौरकुत्सि वसदस्युमावः क्षेत्रसाता वृत्रहत्येषु पुरुम् ॥ ३ ॥
 त्वम् । धृष्णो इति । धृषता । वीत-हव्यम् । प्र । आवः ।
 विश्वाभिः । ऊति-भिः । सु-दासम् ॥ प्र । पौर-कुत्सिम् ।
 वसदस्युम् । आवः । क्षेत्र-साता । वृत्र-हत्येषु । पुरुम् ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(धृष्णो) हे निडर पुरुष ! (त्वम्) तू ने (धृषता) निडर-
 पन से (विश्वाभिः) सब (ऊतिभिः) रक्षाओं के साथ (वीतहव्यम्) पाने
 योग्य पदार्थ के पाने वाले, (सुदासम्) बड़े दाता को (प्र) अच्छे प्रकार (आवः)
 बचाया है । और (पौरकुत्सिम्) बहुत बज्र आदि हथियारों के जानने वाले
 के सन्तान, (वसदस्युम्) डाकुओं के डराने वाले (पुरुम्) मनुष्य को (क्षेत्र-
 साता) रणक्षेत्र के विभाग में (वृत्रहत्येषु) शत्रुओं के मारने वाले-सङ्ग्रामों के
 बीच (प्र) अच्छे प्रकार (आवः) तृप्त किया है ॥ ३ ॥

भावार्थ—राजा लोग सङ्ग्राम में शत्रुओं को जीतने वाले, शस्त्र विद्या
 में चतुर वीरों का सत्कार करके सुखी हों ॥ ३ ॥

त्वं नृभिर्नृमिणो देववीतौ भूरीणि वृत्रा हर्यश्व हंसि ।

त्वं नि दस्युं चुसुरिं धुनिं चास्वापयो द्भीतये सुहन्तु ॥४॥

३—(त्वम्) (धृष्णो) अ० १ । १३ । ४ । त्रिधृषा प्रागल्भ्ये—कनु । हे
 निर्मेय (धृषता) अ० २० । ३६ । ६ । प्रागल्भ्येन (वीतहव्यम्) अ० ६ । १३७ । १ ।
 प्राप्तप्राप्तव्यपदार्थम् (प्र) प्रकर्षेण (आवः) रक्षितवानसि (विश्वाभिः)
 सर्वाभिः (ऊतिभिः) रक्षाभिः (सुदासम्) बहुदातारम् (प्र) (पौरकुत्सिम्)
 अत इम् । पा० ४ । १ । ६५ । पुरुकुत्स-इम् । पुरुकुत्सस्य बहुवज्रादिशस्त्रात्
 विदः पुरुषस्य सन्तानम् (वसदस्युम्) वसी उद्भवेने—अच् । वसा उद्भविना
 मयभीता दस्यवः साहसिका यस्मात् तम् (आवः) अव तृप्ती । तर्पितवानसि
 (क्षेत्रसाता) क्षेत्रसाती । रणक्षेत्रविभागे (वृत्रहत्येषु) अ० २० । २१ । ६ ।
 शत्रुहनेषु सङ्ग्रामेषु (पुरुम्) पृमिदिव्यधि० । उ० १ । २३ । पूरी आप्यायने-
 क् । मनुष्यम्-निघ० २ । ३ ॥

त्वम् । नृ-भिः । नृ-मनः । देव-वीतौ । भूरीणि । वृत्रा ।
हरि-श्वम् । हंसि ॥ त्वम् । नि । दस्युम् । चुमुरिम् ।
धुनिम् । च । अस्वापयः । दभीतये । सु-हन्तु ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(नृमणः) हे नरों के समान मन वाले ! (हर्यश्व) हे वायु
समान फुरतीले घोड़ों वाले ! (त्वम्) तू (नृभिः) नरों के साथ (देववीतौ)
दिव्यगुणों की प्राप्ति में (भूरीणि) बहुत (वृत्राणि) धनां को (हंसि) पाना
है । (च) और (त्वम्) तू ने (चुमुरिम्) हिमाकाली, (धुनिम्) कंपाने वाले
(दस्युम्) डाकू को (दभीतये) जामन के लिये (सुहन्तु) अच्छे प्रकार मारने
वाले हथियार ने (नि) नीचे (अस्वापयः) सुलाया है ॥ ४ ॥

भावार्थ—राजा धन आदि पदार्थ प्राप्त कर के वीर सेनाध्यक्षों के साथ
शत्रुओं का नाश करके प्रजा पालन करे ॥ ४ ॥

तव च्योत्नानि वज्रहस्तु तानि नव यत् पुरो नवतिं च सुद्यः ।
निवेशने शततसाविवेपीरहं च वृत्रं नमुचिसुताहन् ॥ ५ ॥
तव । च्योत्नानि । वज्र-हस्तु । तानि । नव । यत् । पुरः ।
नवतिम् । च । सुद्यः ॥ नि-वेशने । शत-तसा । अ-विवेपीः ।
अहन् । च । वृत्रम् । नमुचिम् । उत । अहन् ॥ ५ ॥

५—(त्वम्) (नृभिः) नंतुभिः (नृमणः) अ० १६।३। ५। ने-
वृत्तुल्यमनस्क (देववीतौ) दिव्यगुणानां प्राप्तां (भूरीणि) बहुत (वृत्राणि)
धनानि—निघ० २। २० (हर्यश्व) अ० २०। २५। ७। हे हरिभिर्वायुतुल्यैः
शीघ्रगामिभिस्तुरङ्गै युक्त (हंसि) गच्छसि । प्राप्नोषि (त्वम्) (नि) नीचेः
(दस्युम्) साहसिकम् (चुमुरिम्) चुवि वक्त्रसंयोगे हिंसायां च—उरिम्,
बलोपः । हिंसकम् (धुनिम्) सुवृषिभ्यां कित् । उ० ४। ४६। धुम् कम्पने—
निप्रत्ययः कित् । कम्पयितारम् (च) (अस्वापयः) स्वापितवानसि । नाशित-
धानमि (दभीतये) वसेस्तिः । उ० ४। १८०। दम प्रेरणे—तिप्रत्ययः, ईकार
उपजनः । प्रणाय । शासनाय (सुहन्तु) विभक्तुक् । सुहानुना । सुहननसा-
धनेन शस्त्रेण ॥

भाषार्थ—(वज्रहस्त) हे हाथों में वज्र रखने वाले ! (ते) तेरे (तानि) वे (च्यौत्तानि) बल हैं, (यत्) कि (सद्यः) तुरन्त (नव) नव (च) और (नवतिम्) नव्ने [निन्नावे] (पुरः) नगरों में और (निवेशने) छावनी के बीच (शततमा) सौवें [नगर] में (अविशेषीः) नू व्याप गया है, (च) और (वृत्रम्) रोकने वाले शत्रु को (अहन्) तू ने मारा है (उत) और (नमुचिम्) न छोड़ ने योग्य डाकू को (अहन्) मारा है ॥ ५ ॥

भाषार्थ—राजा अपनी उत्तम सेना के द्वारा वैरी के सब नगरों और राजधानी को अर्घांत कर के शत्रुओं को मारे ॥ ५ ॥

सना ता त इन्द्र भोजनानि रातहव्याय द्वाशुषे सुदासे । वृष्णे
ते हरि वृषणा युनजिम् व्यन्तु ब्रह्माणि पुरुशाक् वाजम् ॥ ६ ॥

सना । ता । ते । इन्द्र । भोजनानि । रात-हव्याय । द्वाशुषे ।
सु-दासे ॥ वृष्णे । ते । हरि इति । वृषणा । युनजिम् ।
व्यन्तु । ब्रह्माणि । पुरु-शाक् । वाजम् ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (ता) वे (ते) तेरे (भोजनानि) पालन साधन (रातहव्याय) पाने योग्य पदार्थ के

५—(नव) (च्यौत्तानि) जनिदाच्युसुवृ० । उ० ४ । १०४ । च्युक्-
गतौ—स्नण्प्रत्ययः । बलानि—निघ० २ । ६ (वज्रहस्त) हे शस्त्रपाणे (तानि)
प्रसिद्धानि (नवतवतिम्) एकौनशतसंख्याकाः (पुरः) नगर्यः (च) (सद्यः)
शीघ्रम् (निवेशने) निवेशे । सेनास्थितिस्थाने (शततमा) निन्यं शतादिमासार्धं
पा० ५ । २ । ५७ । इटस्नमडागमः । शततमीम् । शतसंख्यापूरिकां पुरीम्
(अविशेषीः) विप्लु व्याप्तौ—यङ्लुगन्ताल् लुङि । व्याप्तवानसि (अहन्)
मध्यमपुरुषस्यप्रथमपुरुषः । अहः । हतवानसि (च) (वृत्रम्) आवरकं
शत्रम् (नमुचिम्) अ० २० । २१ । ७ । अमोचनीयम् । दण्डनीयम् (उत) अपि
च (अहन्) हतवानसि ॥

६—(सना) पण संभक्तौ—अप् । सनानि सनातनानि । विशजनीयानि
(ता) प्रसिद्धानि (ते) नव (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवन् राजन् (भोजनानि)

पाने वाले, (सुदासे) बड़े उदार (दाशुषे) दाता के लिये (सना) सेवनीय हैं ।
(पुरुशाक) हे महाबली ! (वृष्णे ते) तुम बलवान् के लिये (वृषणा) दो
बलवान् (हरी) घोड़ों [के समान बल और पराक्रम] को (युनज्मि) मैं
जोड़ता हूँ, वे [प्रजा जन] (ब्रह्माणि) अनेक धनों को और (वाजम्) बल
को (व्यन्तु) प्राप्त होवें ॥ ६ ॥

भावार्थ—राजा लोग कर देने वाले राज भक्तों का पालन करके बल
और पराक्रम के साथ प्रजाजनों की सब प्रकार उन्नति करें ॥ ६ ॥

मा ते अस्यां सहसावन् परिष्टावृधाय भूम हरिवः परादै ।
त्रायस्व नोऽवृकेभिर्वरूथैस्तव म्रियासः सुरिषु स्याम ॥ ७ ॥

मा । ते । अस्याम् । सहसा-वन् । परिष्टौ । अघाय । भूम ।
हरि-वः । परा-दै ॥ त्रायस्व । नः । अवृकेभिः । वरूथैः ।
तव । म्रियासः । सुरिषु । स्याम् ॥ ७ ॥

भावार्थ—(सहसावन्) हे बहुत बल वाले ! (हरिवः) हे प्रशसनीय
मनुष्यों वाले ! [राजन्] (ते) तेरी (अस्याम्) इस (परिष्टौ) सब और
से इष्ट सिद्धि में (परादै) छोड़ने योग्य (अघाय) पाप करने के लिये (मा
भूम) हम न होवें । (नः) हम को (अवृकेभिः) चोर न होने वाले (वरूथैः)

पालनसाधनानि (रातहव्य) रा दानादानयोः—क । प्राप्तप्राप्तव्यपदार्थाय (दाशुषे)
दात्रे (सुदासे) दासु दाने—विट् । महादानिने । उदाराय (वृष्णे) बलवते
(हरी) अश्वसमानौ बलपराक्रमौ (वृषणा) बलवन्तौ (युनज्मि) योजयामि
(व्यन्तु) अ० ७ । ४६ । २ । वी गत्यादिषु । प्राप्नुवन्तु (ब्रह्माणि) धनानि
(पुरुशाक) शकल शकौ—घञ् । हे बहुशक्तिमन् (वाजम्) बलम् ॥

७—(मा) निषेधे (ते) तव (अस्याम्) उपस्थितायाम् (सहसावन्)
मध्ये तृतीयाविभक्तिश्लान्दसी । हे सहस्वन् । बहुबलयुक्त (परिष्टौ)
शकन्नादित्वात् पररूपम् । परित इष्टलिङ्घौ (अघाय) पापकरणाय (भूम)
भवेम (हरिवः) अ० २० । ३१ । ५ । प्रशस्तमनुष्ययुक्त (परादै) प्रयै रोहिष्यै
अव्यथिष्यै । पा० ३ । ४ । १० । परा + ददातेः—कै प्रत्ययस्तुमर्थे । परादानाय

श्रेष्ठों के द्वारा (त्रायस्व) बचा, (सूरिषु) प्रेरक नेताओं के बीच हम लोग (ते) तेरे (प्रियासः) प्यारे [प्रसन्न करने वाले] (स्याम) हों ॥ ७ ॥

भाषार्य—जैसे प्रजागण-धर्मात्मा राजा की उन्नति के लिये प्रयत्न करें, वैसे ही वह भी उत्तम उत्तम विद्याओं और बड़े बड़े अधिकारों के देने से प्रजा को प्रसन्न करे ॥ ७ ॥

प्रियास इत् ते मघवन्नभिष्टौ नरो मदेम शरणे सखायः ।

नि तुर्वशं नि याद्वं शिशीह्वतिथिग्वायु शंस्यं करिष्यन् ॥८॥

प्रियासः। इत् । ते मघ-वन् । अभिष्टौ । नरः। मदे-म् । शरणे । सखायः ॥ नि । तुर्वशम् । नि । याद्वम् । शिशीहि । अति-थि-ग्वायु । शंस्यम् । करिष्यन् ॥ ८ ॥

भाषार्य—(मघवन्) हे महाधनी ! (अभिष्टौ) सब प्रकार इष्ट-सिद्धि में (नरः) हम नेता लोग (ते इत्) तेरे ही (प्रियासः) प्यारे (सखायः) मित्र होकर (शरणे) शरण में [रह कर] (मदेम) प्रसन्न हों । (शंस्यम्) बड़ाई योग्य कर्म (करिष्यन्) करता हुआ तू (तुर्वशम्) हिंसकों को वश में करने वाले (याद्वम्) प्रयत्नशील मनुष्य को (अतिथिग्वायु) अतिथियों

त्यागाय । त्यक्तव्याय—इति दयानन्दभाष्ये (त्रायस्व) पाहि (नः) अस्मान् (अवृकेभिः) अचौरैः (वरुथै) वरैः । श्रेष्ठैः (तव) (प्रियासः) प्रीताः (सूरिषु) प्रेरकेषु नेतृषु (स्याम) भवेम ॥

८—(प्रियासः) प्रीताः (इत्) एव (ते) तव (मघवन्) महाधनिन् (अभिष्टौ) पररूपम् । अभित इष्टसिद्धौ (नरः) नेतारः (मदेम) आनन्देम (शरणे) शरणागतपालने कर्मणि (सखायः) सुहृदः सन्तः (नि) निश्चयेन (तुर्वशम्) तुर तूर त्वरणहिसनयोः—किप्+वशिरण्योरुपसंख्यानम् । वा० पा० ३ । ३ । ५८ । वश कान्तौ—अप् । तुरां हिंसकानां वशयितारम् (नि) नित्यम् (याद्वम्) इण्शिभ्या वन् । उ० १ । १५२ । यती प्रयत्ने वा यत ताडने-वन्, णित्, तस्य दः । यद्वेो मनुष्यनाम—निघ० २ । ३ । प्रयत्नवन्तं मनुष्यम् (शिशीह्व) अ० ५ । २ । ७ । शो तनूकरणे—श्यनः श्लुः, लोट् । बहुलं छन्दनि । पा० ७ । ४ । ७८ । अभ्यासस्य इत्वम् । ई हल्ययोः । पा० ६ ।

[विद्वानों] को मात्ति के लिये (नि) निश्चय करके (नि) नित्य (शिशीहि) तीक्ष्ण कर ॥ ८ ॥

भावार्थ—राजा अपनी और प्रजा की बढ़ती के लिये शान्ति स्थापित कर के सब को प्रसन्न रखे, जिससे विद्वान् लोग बे रोक आ जाकर उन्नति का उपदेश करते रहें ॥ ८ ॥

सुव्यञ्चिन्तु ते मघवन्नुभिष्टौ नरः शंसन्त्युक्थशासं उक्था ।
 ये ते हवेभिर्वि पृणीं रदाशन्नुस्मान् वृणीष्व युज्याय तस्मै ॥८॥
 सुव्यः । चित् । नु । ते । सुव्य-वन् । अभिष्टौ । नरः ।
 शंसन्ति । उक्थ-शासंः । उक्था ॥ ये । ते । हवेभिः । वि ।
 पृणीन् । अदाशन् । अस्मान् । वृणीष्व । युज्याय । तस्मै ॥८॥

भाषार्थ—(मघवन्) हे बड़े पूजनीय ! (ये) जो (उक्थशासः) प्रशंसनीय अर्थों का उपदेश करने वाले (नरः) नर [नेता लोग] (ते) तेरी (अभिष्टौ) सब प्रकार इष्ट सिद्धि में (सव्यः) शीघ्र (चित्) ही (नु) निश्चय कर के (उक्था) कहने योग्य वचनों को (शंसन्ति) कहते हैं । और (ते) तेरे (हवेभिः) बुलावों से (पृणीन्) व्यवहारों का (वि) विविध प्रकार (अदाशन्) दान करते हैं, [उन] (अस्मान्) हम को (तस्मै) उस (युज्याय) योग्य व्यवहार के लिये (वृणीष्व) तू स्वीकार कर ॥ ६ ॥

४।११३। आल ईत्वम् । तीक्ष्णीकुरु (अतिथिगवाय) अ० २०।२१। ८।
 अनिथीनां विदुषां गमनाय (शंस्यम्) प्रशंसनीयं कर्म (करिष्यन्)
 कुर्वन् ॥

६—(सव्यः) शीघ्रम् (चित्) अपि (नु) निश्चयेन (ते) तव (मघवन्) हे महापूज्य (अभिष्टौ) अभीष्टसिद्धौ (नरः) नेतारः (शंसन्ति) कथयन्ति (उक्थशासः) उक्थानां प्रशंसनीयार्थानां वक्तारः (उक्था) कथनीयानि वचनानि (ये) (ते) तव (हवेभिः) आह्वानैः (वि) विविधम् (पृणीन्) व्यवहारान् (अदाशन्) लब्धये लब्ध् । ददति (अस्मान्) (तान्) तथाविधान् (वृणीष्व) स्वीकुरु (युज्याय) युजिद् योगे—व्यपू । योग्य-प्यवधाराय (तस्मै) ॥

भाष्यार्थ—जो मनुष्य राज्य की भलाई का उपदेश करें और अवसर होने पर उत्तम उपाय करें, राजा उनका सदा सन्मान करे ॥ ६ ॥

सुते स्तोमां नृरां नृत्तम् तुभ्यमस्मद्भ्यञ्चो ददतो मुघानि ।
 तेषामिन्द्र वृत्रहृत्यै शिवो भूः सखा च शूरोऽविता च नृणाम् १०
 सुते । स्तोमाः । नृराम् । नृ-त्तम् । तुभ्यम् । अस्मद्भ्यञ्चः ।
 ददतः । मुघानि ॥ तेषाम् । इन्द्र । वृत्र-हृत्यै । शिवः । भूः ।
 सखा । च । शूरः । अविता । च । नृणाम् ॥ १० ॥

भाष्यार्थ—(नराम्) नरों के बीच (नृत्तम्) हे बड़े नर ! [नेता]
 (पते) यह (अस्मद्भ्यञ्चः) हमको मिलने वाले (स्तोमाः) प्रशंसनीय
 विद्वान् लोग (तुभ्यम्) तेरे लिये (मुघानि) धनों को (ददतः) देते हुये हैं । (इन्द्र)
 हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले राजन् !] (वृत्रहृत्यै) शत्रुओं के मारने वाले
 संग्राम में (तेषाम्) उन (नृणाम्) नरों का (शिवः) मङ्गलकारी (सखा)
 मित्र (च च) और (शूरः) शूर (अविता) रक्षक (भूः) तू हो ॥ १० ॥

भाष्यार्थ—राजा विद्वानों द्वारा धन आदि बढ़ाकर शत्रुओं का नाश
 कर के प्रजा की रक्षा करे ॥ १० ॥

नू इन्द्र शूर स्तवमान् कुती ब्रह्मजुतस्तन्वा वावृधस्व । उप
 नेा वाजान् मिमीह्युप स्तीन् युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ११

१०—(पते) (स्तोमाः) प्रशंसनीयाः पुरुषाः (नराम्) नृ नये—विद् ।
 नेतृणां मध्ये (नृत्तम्) नयतेर्दिञ्च । उ० २ । १०० । णीञ् प्रापणे—ऋप्रत्ययो-
 षित्, तमप् । हे अतिशयेन नायक (तुभ्यम्) (अस्मद्भ्यञ्चः) अस्मद्+अञ्चु
 गतिपूजनयोः—किन् । विष्वग्देशयोश्च ढेरद्भ्यञ्चतावेप्रत्यये । पा० ६ । ३ ।
 ६२ । अस्मद् शब्दस्य ढेरद्भि । अस्मान् अञ्चन्तः प्राप्नुवन्तः (ददतः)
 प्रयच्छन्तः सन्ति (मुघानि) धनानि (तेषाम्) हे परमैश्वर्यवन् राजन् (वृत्र-
 हृत्यै) वृत्राणां शत्रूणां हृत्या हननं यस्मिंस्तस्मिन्, सङ्ग्रामे (शिवः) मङ्गल
 'कारी' (भूः) अमूः । भद (सखा) सुहृत् (च) (शूरः) निर्भयः (अविता)
 रक्षकः (च) (नृणाम्) नेतृणाम् ॥

नु । इन्द्र । शूर । स्तवमानः । ऊती । ब्रह्म-जुतः । तुन्वा ।
 वृधस्व ॥ उप । नः । वाजान् । मिमीहि । उप । स्तीन् ।
 युयम् । पातु । स्वस्तिभिः । सदा । नः ॥ ११ ॥

भावार्थ—(शूर) हे शूर (इन्द्र) इन्द्र । [बड़े पेशवर्य वाले राजन्]
 (नु) शीघ्र (स्तवमानः) उत्साह देता हुआ और (ब्रह्मजुतः) धन वा अन्न को
 प्राप्त होता हुआ तू (ऊती) रक्षा के साथ (तुन्वा) शरीर से (वावृधस्व)
 अत्यन्त बढ़ । (नः) हमारे (वाजान्) बलों को और (स्तीन्) घरों को (उप)
 आदर से (उप मिमीहि) उपमा योग्य [बड़ाई योग्य] कर । [हे वीरो !]
 (युयम्) तुम सब (स्वस्तिभिः) सुखों के साथ (सदा) सदा (नः) हमें
 (पातु) रक्षित रखो ॥ ११ ॥

भावार्थ—राजा वीर पुरुषों को उत्साह देकर उनकी और अपनी बुद्धि
 करे और सब लोग उत्तम गुणों से उपमा योग्य प्रशंसनीय होकर परस्पर रक्षा
 करें ॥ ११ ॥

इस मन्त्र का चौथा पाद आ चुका है—अ० २०। १२। ६, और १७। १२,
 और आगे है—२०। २७। ७ ॥

इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अथ पञ्चमोऽनुवाकः ॥

सूक्तम् ३८ ॥

११—(नु) शीघ्रम् (इन्द्र) हे परमेश्वर्यवान् राजन् (शूर) निर्भय (स्त-
 वमानः) स्तुवन् । उत्साहयन् (ऊती) रक्षया (ब्रह्मजुतः) ब्रह्म धनम् अन्नं वा
 जुतः प्राप्तः (उप) पूजायाम्, (तुन्वा) शरीरेण (वावृधस्व) भृशं वर्धस्व (नः)
 अस्माकम् (वाजान्) पराक्रमान् (उप मिमीहि) माङ् माने शब्दे च । भृजा-
 मित् । । पा० ७ । ४ । ७६ । अभ्यासस्य इत्वम् । ई इत्यधीः । पा० ६ । ४ । ११३ ।
 इति आत ईत्वम् । मिमिन्व । उपमितान् उपमायोग्यान् स्तुत्यान् कुरु (स्तीन्)
 अन्न इः । उ० ४ । १३६ । ष्टै वेन्दने इप्रत्ययः । गृहान् । अन्यत् पूर्ववत्—अ० २०।
 १२। ६ ॥

१—६ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १—४, ६ गायत्री; ५ त्रिचूड्-गायत्री ॥
राजप्रजाकर्तव्योपदेशः—राजा और प्रजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

आ याहि सुषुमा हि त् इन्द्रु सोमं पिबं हुमस् ।

एदं बृहिः सदो मम ॥ १ ॥

आ । याहि । सुसुम । हि । ते । इन्द्र । सोमम् । पिबं ।
हुमस् ॥ आ । हुदस् । बृहिः । सुदुः । मम ॥ १ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (आ याहि)
तू आ, (हि) क्योंकि (ते) तेरे लिये (सोमम्) सोम [उत्तम ओषधियों
का रस] (सुषुम) हम ने सिद्ध किया है, (हुमस्) इस [रस] को (पिबं)
पी, (मम) मेरे (हुदस्) इस (बृहिः) उत्तम आसन पर (आ सदः) बैठ ॥१॥

भावार्थ—लोग विद्वान् सद्बुद्धि के सिद्ध किये हुये महौषधियों के रस
से राजा को स्वस्थ बलवान् रखकर राजसिंहासन पर सुशोभित करें ॥ १ ॥

मन्त्र १—३ आ चुके हैं—अ० २० । ३ । १-३ और आगे हैं—अ० २० ।
४७ । ७-६ ॥

आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना ।

उप ब्रह्मणि नः शृणु ॥ २ ॥

आ । त्वा । ब्रह्म-युजा । हरी इति । वहताम् । इन्द्र ।
केशिना ॥ उप । ब्रह्मणि । नः । शृणु ॥ २ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (ब्रह्मयुजा)
धन के लिये जोड़े गये, (केशिना) सुन्दर केशों [कन्धे आदि के वालों] वाले
(हरी) रथ ले चलने वाले दो घोड़ों [के समान बल और पराक्रम] (त्वा)
तुम्हें को (आ) सब ओर (वहताम्) ले चलें । (नः) हमारे (ब्रह्मणि)
वेदज्ञानों को (उप) आदर से (शृणु) तू सुन ॥ २ ॥

मन्त्राः १—३ व्याख्याताः—अ० २० । ३ । १—३ ॥

भावार्थ—जैसे उत्तम बलवान् घोड़े रथ को ठिकाने पर पहुँचाते हैं, वैसे ही राजा वेदोक्त मार्ग पर चल कर अपने बल और पराक्रम से राज्य भार उठा कर प्रजापालन करे ॥ २ ॥

ब्रह्माणस्तवा वयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः ।

सुतावन्तो हवामहे ॥ ३ ॥

ब्रह्माणः । त्वा । वयम् । युजा । सोम-पास् । इन्द्र । सोमिनः ॥

सुत-वन्तः । हवामहे ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (सोमपाम्) ऐश्वर्य के रक्षक (त्वा) तुझ को (युजा) मित्रता के साथ (ब्रह्माणः) वेद जानने वाले, (सोमिनः) ऐश्वर्य वाले, (सुतवन्तः) उत्तम पुत्र आदि सन्तानों वाले (वयम्) हम (हवामहे) बुलाते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—जिस राजा के सुप्रबन्ध से प्रजागण ज्ञानवान् धनवान् और सुशिक्षित सन्तान वाले हों, उसको मित्र जान कर सदा स्मरण करें ॥ ३ ॥

इन्द्रमिद् गायिनो बृहदिन्द्रमुर्केभिरुर्किणः ।

इन्द्रं वाणीरनुषत ॥ ४ ॥

इन्द्रस् । इत् । गायिनः । बृहत् । इन्द्रस् । अर्केभिः । अर्किणः ॥

इन्द्रस् । वाणीः । अनुषतु ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(गायिनः) गाने वालों और (अर्किणः) विचार करने वालों ने (अर्केभिः) पूजनीय विचारों से (इन्द्रम्) सूर्य [के समान प्रतापी], (इन्द्रम्) वायु [के समान फुरतीले] (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले राजा] को और (वाणीः) वाणियों [वेदवचनों] को (इत्) निश्चय कर के

४—(इन्द्रम्) सूर्यमिष प्रतापिनम् (इत्) निश्चयेन (गायिनः) उषि-
कुपिगर्त्तिभ्यस्थन् । उ० २ । ४ । गायते—थन्प्रत्ययः, टाप् । ब्रीह्यादिभ्यश्च ।
पा० ५ । २ । ११६ । गाया—इति । गानशीलाः (बृहत्) यथा भवति तथा ।
बृहद्भावेन (इन्द्रम्) वायुमिष शीघ्रगाभिनम् । उद्योगिनम् (अर्केभिः)
अ० ३ । ३ । २ । पूजनीयविचारैः (अर्किणः) विचारवन्तः (इन्द्रम्) पर-

(वृहन्) बड़े ढंग से (अनूपत) सराहा है ॥ ४ ॥

भावार्थ—मनुष्य सुनीतिज्ञ, प्रतापी, उद्योगी राजा के व्यवहारों और परमेश्वर की दी हुई वेदवाणी के गुणों को विचार कर सब के मुख के लिये यथावत् उपाय करें ॥ ४ ॥

मन्त्र ४—६ ऋग्वेद में हैं—१।७।१-३, सामवेद-३०।२।१।८ और आगे हैं—अ० २०।४७।४-६ तथा ७०।७-६ और मन्त्र ४ सामवेद—पृ० ३।१।५ ॥

इन्द्र इहृधर्योः सचा संमिश्रल आ वचोयुजा ।

इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥ ५ ॥

इन्द्रः। इत् । हर्योः । सचा । सम्-मिश्रलः। आ । वचः-युजा ॥

इन्द्रः । वज्री । हि-रण्ययः ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(वज्री) वज्रधारी, (हिरण्ययः) तेजोमय (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला राजा] (इत्) ही (इन्द्रः) वायु [के समान] (सचा) नित्य मिले हुये (हर्योः) दोनों संयोग वियोग गुणों का (संमिश्रलः) यथावत् मिलाने वाला (आ) और (वचोयुजा) वचन का योग्य बनाने वाला है ॥ ५ ॥

भावार्थ—जैसे पवन के आने जाने से पदार्थों में चलने, फिरने, ठहरने का और जीभ में बोलने का सामर्थ्य होता है, वैसे ही दण्डदाता प्रतापी

मैश्वर्यवन्तं राजानम् (वाणीः) वेदचतुष्टयीः (अनूपत) अ० २०।१७।१। स्तुतवन्तः ॥

५—(इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् राजा (इत्) सब (हर्योः) हज् स्वीकार-प्रापणयोः—इन् । संयोगवियोगयोः (सचा) वच समवाये—किप्, विभक्ते-राकारः । समवेतयोः (संमिश्रलः) सम् + मिश्रयतेः—वज् । कपिलादीनां संज्ञा-छन्दसोर्वा० । आ० पा० = । २ । १८ । रेफस्य लत्वम् । सर्वतो मिश्रयिता (आ) चार्थे (वचोयुजा) युजिर् योगे—किन्, विभक्तेराकारः । वचसो वच-नस्य योजयिता (इन्द्रः) वायुर्वि (इत्) वज्रधारी (हिरण्ययः) तेजोमयः ॥

राजा के न्याय से सब लोगों में शुभ गुणों का सयोग और दोषों का वियोग होकर वाणी में सत्यता होती है ॥ ५ ॥

इन्द्रो दीर्घाय चक्षु आ सूर्य रोहयद् दिवि ।

वि गोभिरद्रिमैरयत् ॥ ६ ॥

इन्द्रः । दीर्घाय । चक्षुसे । आ । सूर्यम् । रोहयत् । दिवि ॥

वि । गोभिः । अद्रिम् । ऐरयत् ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले परमात्मा] ने (दीर्घाय) दूर तक (चक्षुसे) देखने के लिये (दिवि) व्यवहार [वा आकाश] के बीच (गोभिः) वेदवाणियों द्वारा [वा किरणों और जलों द्वारा] (सूर्यम्) सूर्य [के समान प्रेरक] और (अद्रिम्) मेघ [के समान उपकारी पुरुष] को (आ रोहयत्) ऊंचा किया और (वि) विविध प्रकार (ऐरयत्) चलाया है ॥६॥

भावार्थ—जैसे परमेश्वर के नियम से सूर्य आकाश में चलकर ताप प्रायि गुणों से अनेक लोकों को धारण करता और किरणों द्वारा जल खींच कर फिर बरसाकर उपकार करता है, वैसे ही दूरदर्शी राजा अपने प्रताप और उत्तम व्यवहार से सब प्रजा को नियम में रखे और कर लेकर उनका प्रतिपालन करे ॥ ६ ॥

सूक्तम् ३८ ॥

१—५ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ , २ निचूद् गायत्री, ३—५ गायत्री ॥

परमेश्वरोपासनापदेशः—परमेश्वर की उपासना का उपदेश ॥

इन्द्रं वो विश्वतुस्परि हवामहे जनेभ्यः ।

अस्माकमस्तु केवलः ॥ १ ॥

६—(इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् परमात्मा (दीर्घाय) विस्तृताय (सूर्यम्) सूर्यलोकम् । सूर्यवत्प्रेरकम् (आरोहयत्) अधिष्ठापितवान् (दिवि) व्यवहारे । आकाशे (वि) विविधम् (गोभिः) वेदवाणीभिः । किरणैः । जलैः (अद्रिम्) मेघम् मेघतुल्योपकारिणम् (ऐरयत्) ईर गतो कल्पने च—यिच्, लङ् । प्रेरितवान् ॥

इन्द्रम् । वः । विश्वतः । परि । हवामहे । जनेभ्यः ॥
अस्माकम् । अस्तु । केवलः ॥ १ ॥

भाषार्थ—[हे मनुष्यो !] (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े पेश्वर्यवान् परमात्मा] को (वः) तुम्हारे लिये और (विश्वतः) सब (जनेभ्यः) प्राणियों के लिये (परि) सब प्रकार (हवामहे) हम बुलाते हैं । वह (अस्माकम्) हमारा (केवलः) सेवनीय (अस्तु) होवे ॥ १ ॥

भाषार्थ—सब मनुष्य सर्वहितकारी जगदीश्वर की आज्ञा में रहकर आनन्द पावें ॥ १ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—१ । ७ । १०, सामवेद—३० ८ । १ । २ और अग्रे है—अ० २० । ७० । १६ ॥

व्यंश्चान्तरिक्षमतिरुन्सद्दे सोमस्य रोचना ।

इन्द्रो यदभिनद् वलम् ॥ २ ॥

वि । अन्तरिक्षम् । अतिरुत् । मदे । सोमस्य । रोचना ॥

इन्द्रः । यत् । अभिनत् । वलम् ॥ २ ॥

भाषार्थ—(इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले परमात्मा] ने (सोमस्य) पेश्वर्य के (मदे) आनन्द में (रोचना) प्रीति के साथ (अन्तरिक्षम्) आकाश को (वि अतिरुत्) पाग क्रिया है, (यत्) जब कि उस ने (वलम्) हिंसक [विघ्न] को (अभिनत्) तोड़ डाला ॥ २ ॥

भाषार्थ—सब से जहान् और पूजनीय परमात्मा की उपासना से सब मनुष्य उन्नति करें ॥ २ ॥

मन्त्र २—५ आचुके हैं—अ० २० । २८ । १—४ ॥

१—(इन्द्रम्) परमेश्वर्यवन्त परमात्मानम् (वः) शुभभ्यम् (विश्वतः) सर्वभ्यः । सनेषां हिनाय (परि) सर्वतः (हवामहे) आह्वयाम् (जनेभ्यः) प्रादुर्भूतानां प्राणिनां हिनाय (अस्माकम्) मनुष्याणाम् (अस्तु) (केवलः) केवल सेवने—कलच् । सेवनीयः ॥

मन्त्राः २—५ व्याख्यानः—अ० २० । २८ । १—४ ॥

उद् गा आजुदङ्गितोभ्य आविष्कृण्वन् गुहा सुतीः । अर्वाञ्चं
नुनुदे वृलम् ॥ ३ ॥

उत् । गाः । आजुत् । अङ्गितः-भ्यः । आविः । कृण्वन् । गुहा ।
सुतीः ॥ अर्वाञ्चम् । नुनुदे । वृलम् ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(गुहा) गुहा [गुप्त अवस्था] में (सुतीः) वर्तमान
(गाः) वाणियों को (आविः कृण्वन्) प्रकट करने हुये उस [परमेश्वर] ने
(अङ्गितोभ्यः) विद्वानों पुरुषों के लिये (उत् आजुत्) ऊँचा पड़वाया और
(वृलम्) हिलक [विघ्न] को (अर्वाञ्चम्) नीचे (नुनुदे) हटाया ॥ ३ ॥

भावार्थ—प्रलय के पीछे परमात्मा ने वेदों का उपदेश कर के हमारे
सब विघ्न मिटाये हैं ॥ ३ ॥

इन्द्रेण रोचना दिवो दृह्लानि दृंहितानि च । स्थिराणि न
पराणुदे ॥ ४ ॥

इन्द्रेण । रोचना । दिवः । दृह्लानि । दृंहितानि । च ॥
स्थिराणि । न । परा-णुदे ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(इन्द्रेण) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा] कर के
(दिवः) व्यवहार के (स्थिराणि) ठहराऊँ (रोचना) प्रकाश (न पराणुदे)
न हटने के लिये (दृह्लानि) पक्के किये गये (च) और (दृंहितानि) बढ़ाये
गये [फैलाये गये हैं] ॥ ४ ॥

भावार्थ—परमात्मा ने अपने अटल नियमों से सब संहार को सुख
दिया है ॥ ४ ॥

अपामुर्मिसदंनिव स्तोमं इन्द्राजिरायते ।

वि ते मदी अराजिषुः ॥ ५ ॥

अपाम् । ऊर्मिः । मदी-इव । स्तोमः । इन्द्र । अजिरायते ॥

वि । ते । मदीः । अराजिषुः ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन्] (ते) तेरी (स्तोमः) बडाई (अपाम्) जलों की (मद्न्) हर्ष बढ़ाने वाली (ऊर्मिः इव) लहर के समान (अजिरायते) वेग से चलती है, और (मद्ः) आनन्द (वि अराजिषुः) विराजते हैं [विविध प्रकार ऐश्वर्य बढ़ाते हैं] ॥ ५ ॥

भावार्थ—न्यायकारी परमात्मा की उत्तम नीति को मानकर सब लोग आनन्द पाकर शीघ्र ऐश्वर्य बढ़ावें ॥ ५ ॥

सूक्तम् ४० ॥

१—३ ॥ १ मरुत इन्द्रश्च ; २, ३ मरुतो देवताः ॥ १ घायत्री ; २, ३ निचृद् गायत्री ॥

राजप्रजाधर्मोपदेशः—राजा और प्रजा के धर्म का उपदेश ॥

इन्द्रेण सं हि दृक्षसे संजग्मानो अविभ्युषा ।

मन्दू समानवर्चसा ॥ १ ॥

इन्द्रेण । सम् । हि । दृक्षसे । सम्-जग्मानः । अविभ्युषा ॥

मन्दू इति । समान-वर्चसा ॥ १ ॥

भाषार्थ—[हे प्रजागण !] (अविभ्युषा) निडर (इन्द्रेण) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले राजा] के साथ (हि) ही (संजामानः) मिलता हुआ तू (सम्) अच्छे प्रकार (दृक्षसे) दिखाई देता है । (समानवर्चसा) एक से तेज के साथ (मन्दू) तुम दोनों [राजा और प्रजा] आनन्द देने वाले हो ॥ १ ॥

भावार्थ—जिस राज्य में प्रजागण राजा से और राजा प्रजा से प्रसन्न रहते हैं, वही राज्य विद्या और धन में उन्नति करता है ॥ १ ॥

(मरुतः) अर्थात् मनुष्य वा प्रजागण देवता हैं, इसके लिये (मरुतः)

१—(इन्द्रेण) परमैश्वर्यवता राजा (सम्) सम्यक् (दृक्षसे) दृशेलेंद । त्वं दृश्येथाः (संजग्मानः) गमेः कानञ् । संगच्छामनः (अविभ्युषा) जिभी भये-कसु । निर्भयेण (मन्दू) भृमृशीङ् । उ० १ । ७ । मदि स्तुतिमोदमद-स्वप्नकान्तिगतिषु—उप्रत्ययः । आनन्दकौ (समानवर्चसा) समानेन तेजसा ॥

अद्विज—निघ० ३। १८; पद नाम—निघ० ५। ५ और अथर्व० १। २०। १
भी देखो ॥

मन्त्र १, २ ऋग्वेद में हैं—१। ६। ७, ८ और आगे हैं—अ० २०। ७०।
३, ४; मन्त्र १ सामवेद में है—उ० २। २। ७ ॥

अनवद्यैरभिव्युभिर्मखः सहस्वदर्चति । गणैरिन्द्रस्य काम्यैः
अनवद्यैः । अभिव्यु-भिः । मखः । सहस्वत् । अर्चति ॥
गणैः । इन्द्रस्य । काम्यैः ॥ २ ॥

भाषार्थ—(अनवद्यैः) निर्दोष, (अभिव्युभिः) सब ओर से प्रकाश-
मान और (काम्यैः) प्रीति के योग्य (गणैः) गणों [प्रजागणों] के साथ
(इन्द्रस्य) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले राजा] का (मखः) यज्ञ [राज्य व्यवहार]
(सहस्वत्) अति दृढ़ता से (अर्चति) सत्कार पाता है ॥ २ ॥

भावार्थ—सब राज काज उत्तम विद्वान् लोगों के मेल से अच्छे
प्रकार निदूध होते हैं ॥ २ ॥

आदह स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमैरिरे । दधाना नाम यज्ञियम् ॥
आत् । अह । स्वधाम् । अनु । पुनः । गर्भ-त्वम् ।
आ-ई रिरे ॥ दधानाः । नाम । यज्ञियम् ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(आत्) फिर (अह) अवश्य (स्वधाम् अनु) अपनी

२—(अनवद्यैः) निर्दोषैः (अभिव्युभिः) अभितः प्रकाशमानैः (मखः)
मख गतौ—घप्रत्ययः । यज्ञः—निघ० ३। १७। राज्यव्यवहारः (सहस्वत्)
यथास्यासथा । वल्लवत्त्वेन । अतिदृढत्वेन (अर्चति) अर्च्यते । सत्क्रियते
(गणैः) प्रजाजनैः (इन्द्रस्य) परमैश्वर्यवतो राज्ञः (काम्यैः) कामेर्णिङ् ।
पा० ३। १। ३०। कमु कान्तौ—णिङ् । अचोयत् । पा० ३। १. ६७। कामि-
यत् । कामयितव्यैः । प्रीतियोग्यैः ॥

३—(आत्) अनन्तरम् (अह) विनिग्रहे—निघ० १। १२। अवश्यम्
(स्वधाम्) स्वधारणशक्तिम् (अनु) अनुसृत्य (पुनः) अवधारणे (गर्भत्वम्)

धारण शक्ति के पीछे (यज्ञियम्) सत्कार योग्य (नाम) नाम [यश] को (दधानाः) धारण करते हुये लोगों ने (पुनः) निश्चय कर के (गर्भत्वम्) गर्भपन [ः सारपन, बड़े पद] को (परिरे) सब प्रकार से पाया है ॥ ३ ॥

भाषार्य—जहां पर पूर्वोक्त प्रकार से न्याययुक्त स्वतन्त्रता के साथ लोग कार्य करते हैं, वहां पर सब पुरुष बढ़ाई पाते हैं ॥ ३ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—१।६।४ ; सामवेद उ० २।२।७ और सामे है—अथ० २०।६६।१२ ॥

सूक्तम् ४१ ॥

१—३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ निचूद् गायत्री छन्दः ॥

राजकुलोपदेशः—राजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

इन्द्रो दधीचो अस्थमिद्विषायप्रतिष्कृतः । जुघानं नवुतीर्नवः ॥
इन्द्रः । दधीचः । अस्थ-भिः । वृत्राणि । अप्रति-स्कुतः ॥
जुघानं । नवुतीः । नवः ॥ १ ॥

भाषार्य—(अप्रतिष्कृतः) वे रोक गति वाले (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले सेनापति] ने (दधीचः) पोषण प्राप्त कराने वाले पुरुष की

अ० ३।१०।१२ । अर्चिगृभ्यां भन् । उ० ३ । १५२ । गृ शब्दे, विज्ञापने, स्तुतौ निगरणे च—भन् । गर्भो गृभेर्गृणात्यर्थे गिरत्यनर्थानिति वा—निरु० १०।२३ । शुणातिरर्चतिकर्मा—निघ० ३ । १४ । गर्भभावम् । स्तुत्यं पदम् (परिरे) आ+ईर गतौ—लिटो भस्व इरच् । समन्तात् प्राप्तवन्तः (दधानाः) धारयन्तः पुरुषाः (नाम) यशः । कीर्तिम् (यज्ञियम्) यज्ञार्हम् । पूजनीयम् ॥

१—(इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् सेनापतिः (दधीचः) भाषार्या धाम्बृज—सृजनिगमिनिभ्यः किकिनी षक्वर्णौ । धा० पा० ३।२।१७१ । दधातेः—कि प्रथयः, यद्वा सर्वर्वात्तुभ्य इन् । उ० ४ । ११८ । दध दाने धारणे च—इन् । अस्त्विग्दधृष्क्रुद्दशुष्टिष्क्वृष्ठां च । पा० ३।२।५६ । दधि+क्रुष्णु गतिपूजनयोः अन्तर्गतार्थः—ह्वन् । दधिं पोषणम् अश्नयति प्रापयातीति दधिश्च तस्य । पोषणं प्राप्नोति दधश्च प्रत्युत्थानमिति वा प्रत्युत्थानं प्राप्नोति धानमिति वा—निरु० ६२ । ३३ (करधमिः) अस्तिकुम्भजिभ्यां ध्वञ्च ।

(अस्थमिः) गतियों से (नव नवतीः) नौ नव्वे [६ × ६० = ३६० अर्थात् बहुत से] (वृत्राणि) रोकने वाले शत्रुओं को (जघान) मारा है ॥ १ ॥

भावार्थ—प्रतापी राजा प्रजापोषक वीरों के समान अनेक उपाय कर के शत्रुओं को मारे ॥ १ ॥

यह तुच ऋग्वेद में है—१। ८४। १३—१५; सामवेद—३०३। १। सुच न, मन्त्र १ साम० पू० २। ६। ५। और मन्त्र ३ पू० २। ६। ३ ॥

इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वते अपश्रितम् । तद् विदच्छर्य-
यावति ॥ २ ॥

इच्छन् । अश्वस्य । यत् । शिरः । पर्वतेषु । अप-श्रितम् ॥
तत् । विदत् । शर्यया-वति ॥ २ ॥

भावार्थ—(अश्वस्य) काम में व्यापने वाले बलवान् पुरुष का (यत्) जो (शिरः) शिर [मस्तक वा विचार सामर्थ्य] (पर्वतेषु) मेघों [के सामान उपकारी मनुष्यों] में (अपश्रितम्) आश्रित है, (तत्) उस [विचार सामर्थ्य] को (इच्छन्) चाहते हुये पुरुष ने (शर्ययावति) तीर चलाने के स्थान संग्राम में (विदन्) पाया है ॥ २ ॥

३०३। १५४। अस भुवि, गतिदीप्त्यादानेषु, यद्वा असु श्लेषणे-कथिन् । छन्द-
स्यपि दृश्यते । पा० ७। १। ७६। अनङ्गादेशः । गतिमिः । उपायैः (वृत्राणि)
आवरकान् शत्रून् (अप्रतिष्कृतः) स्कुञ् आप्रवणे आगमने—क । अप्रतिष्कृतो-
ऽप्रतिष्कृतोऽप्रतिष्कृतो वा—निरु० ६। १६। अप्रतिगतः । अनिरुद्धः
(जघान) नाशितवान् (नव नवतीः) नव चारं नवतीः । दशोत्तराण्यष्टशतानि ।
बहुसंख्याकानि ॥

२—(इच्छन्) कामयमानः (अश्वस्य) कर्मसु व्यापकस्य बलवतः
पुरुषस्य (यत्) (शिरः) मस्तकसामर्थ्यम् । विचारशक्तिम् (पर्वतेषु)
मेघेषु । मेघानुगतवर्तारहारिषु मनुष्येषु (अपश्रितम्) आश्रितम्
(तत्) मस्तकसामर्थ्यम् । विदत् । प्राप्तवान् (शर्ययावति)
मन्त्रादिभ्यश्च । पा० ४। २। ८३। शर्याणु—शर्याणु शर्याणु शर्याणु शर्याणु
इति रूपैश्च पृषोदरादिस्थात् शर्याणां तीराणां यानेन गमनेन युक्ते ऋद्ध्यामे ॥

भाषार्थ—जो पुरुष विद्वानों के समान अपनी विचार सामर्थ्य बढ़ाना चाहे, वह परिश्रम के साथ ऐसा प्रयत्न करे जैसे शूर सेनापति सङ्ग्राम में प्रयत्न करता है ॥ २ ॥

अत्राह गोरमन्वतु नाम त्वष्टु रपीच्यम् । इत्या चन्द्रमसो
गृहे ॥ ३ ॥

अत्र । अह । गोः । अमन्वतु । नाम । त्वष्टुः । अपीच्यम् ॥
इत्या । चन्द्रमसः । गृहे ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(अत्र) यहां [राज्य व्यवहार में] (अह) निश्चय करके (गोः) पृथिवी के, (इत्या) इसी प्रकार (चन्द्रमसः) चन्द्रमा के (गृहे) घर [लोक] में (त्वष्टुः) छेदन करने वाले सूर्य के (अपीच्यम्) भीतर रक्खे हुये (नाम) कुक्काव [आकर्षण] को (अमन्वत) उन्होंने ने जाना है ॥३॥

भाषार्थ—जैसे ईश्वर के नियम से सूर्य अपने प्रकाश और आकर्षण द्वारा पृथिवी-और चन्द्र आदि लोकों को उन के मार्ग में दृढ़ रखता है, वैसे ही राजा अपनी सुनीति से प्रजा को धर्म में लगावे ॥ ३ ॥

यह मन्त्र निरुक्त ४ । २५ में भी व्याख्यान है ॥

सूक्तम् ४२ ॥

१—३॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छन्दः ॥

मनुष्यकृत्योपदेशः—मनुष्य के कर्तव्य का उपदेश ॥

धाचमुष्टापदीमहं नवस्वत्तिमृतस्पृशम् । इन्द्रात् परि तुन्व
समे ॥ १ ॥

३—(अत्र) राज्यव्यवहारे (अह) निश्चयेन (गोः-) पृथिव्याः (अमन्वत) मनु अवबोधने—लङ् । अजानन् ते विद्वांसः (नाम) नामन्-सीमन्ब्योमन्० । उ० ४ । १५१ । नमतेः—मनिन् धातोर्मलोपो दीर्घश्च, नाम उक्कनाम—निघ० १ । १२ । नमनम् । आकर्षणम् (त्वष्टुः) छेदकस्य सूर्यस्य (अपीच्यम्) आ० १८ । १ । ३६ । अपि + अञ्जतेः—किन्, यत् । अन्तर्हितम्—निघ० ३ । २५ । (इत्या) अनेन प्रकारेण (चन्द्रमसः) चन्द्रस्य (गृहे) लोके ॥

वाचम् । अष्टा-पदीम् । अहम् । नव-सक्तिम् । ऋतु-स्पृशम् ॥
इन्द्रात् । परि । तन्वम् । ममे ॥ १ ॥

भाषार्थ—(अष्टापदीम्) आठ पद [छोटाई, हलकाई प्राप्ति, स्वतन्त्रता, बडाई, ईश्वरपन, जितेन्द्रियता और सत्य सङ्कल्प, आठ ऐश्वर्य] प्राप्त कराने वाली, (नवसक्तिम्) नौ [मन बुद्धि सहित दो कान, दो नथने, दो आँखें और एक मुख] से प्राप्ति योग्य, (ऋतुस्पृशम्) सत्य नियम की प्राप्ति कराने वाली, (तन्वम्) विस्तीर्ण [वा सूषम] (वाचम्) वेदवाणी को (इन्द्रात्) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा] से (अहम्) मैं ने (परि ममे) नापा है ॥ १ ॥

भावार्थ—परमात्मा ने अपनी वेदवाणी सब के हित के लिये दी है, उसके द्वारा मनुष्य इन्द्रियों की स्वतन्त्रता से [अणिमा लघिमा प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा । ईशित्वं च वशित्वं च तथा कामावसायिता ॥१॥] यह आठ ऐश्वर्य पाता है। हमलोग उचित प्रबन्ध से उसे विचार कर अपना जीवन सुधारें ॥१॥

इस मन्त्र का मिलान करो—अथर्व० १३ । १ । ४२ । यह सूक्त ऋग्वेद में है—८ । ७६ [सायणभाष्य ६५] । १२, ११, १० और कुछ भेद से सामवेद—४० ३ । २ । तृच ६ ॥

अनु त्वा रोदसी उभे क्रक्षमाणमकृपेताम् । इन्द्र यद्
दस्युहाभवः ॥ २ ॥

अनु । त्वा । रोदसी इति । उभे इति । क्रक्षमाणम् ।

अकृपेताम् ॥ इन्द्र । इन्द्र । यत् । दुस्यु-हा । अभवः ॥ २ ॥

१—(वाचम्) वेदवाणीम् (अष्टापदीम्) अ० १३ । १ । ४२ । अणिमा लघिमा प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा । ईशित्वं च वशित्वं च तथा कामावसायिता ॥ १ ॥ इत्यष्टैश्वर्याणि पदानि प्राप्तव्यानि यथा ताम् (अहम्) उपासकः (नवसक्तिम्) सक् सक्ति गतौ-क्तिम् । मनोबुद्धिसहितैः सप्तशीर्षण्य-क्लिष्टैः प्राप्तव्याम् । नवपदीम्—अ० १३ । १ । ४२ (ऋतुस्पृशम्) ऋतस्य सत्यनियमस्य स्पर्शयित्रीं प्रापयित्रीम् (इन्द्रात्) परमैश्वर्ययुक्तात् परमेश्वरात् (तन्वम्) विस्तृतां सूक्ष्मां वा (परि ममे) परिमापितवानस्मि । सर्वतो ज्ञात-वानस्मि ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन्] (क्रक्ष-
माणम्) आकर्षण करते हुये [वश में करते हुये] (त्वा अनु) तेरे पाँछे (उभे)
दोनों (रोदसी) आकाश और भूमि (अकृपेताम्) समर्थ हुये हैं, (यत्)
जबकि तू (दस्युहा) शत्रुओं [विघ्नां] का नाश करने वाला (अभवः)
हुआ ॥ २ ॥

भावार्थ—परमेश्वर ने अन्धकार आदि विघ्नों को हटा कर वायु, जल,
अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न कर के सब लोकों को धारण किया है, वैसे ही मनुष्य
अविद्या मिटाकर परस्पर रक्षा करें ॥ २ ॥

उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वी शिमे अवेपयः । सोममिन्द्र चसू
सुतम् ॥ ३ ॥

उत्-तिष्ठन् । ओजसा । सह । पीत्वी । शिमे इति । अवेपयः ॥
सोमम् । इन्द्र । चसू इति । सुतम् ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य] (ओजसा
सह) पराक्रम के साथ (उत्तिष्ठन्) उठते हुये तूने (चसू) चमचे में (सुतम्)
सिद्ध किया हुआ (सोमम्) सोम [अन्न आदि महौषधियों का रस] (पीत्वी)
पीकर (शिमे) दोनों जाबड़ों को (अवेपयः) हिलाया है ॥ ३ ॥

२—(अनु) अनुसृत्य (त्वा) त्वाम् (रोदसी) आकाशभूमी (उभे)
(क्रक्षमाणम्) रूप विलेखने आकर्षणे—लृट् । स्यनासी लृलुटोः । पा० ३ । १ ।
३३ । इति स्य । लृट्ः सद्वा । पा० ३ । ३ । १४ । लृट्ः शानच्, यकारलोपश्चा-
न्दसः । क्रक्षमाणम् । आकर्षन्तम् वशे कुर्वन्तम् (अकृपेताम्) कृपू सामर्थ्यै-
ल्लङ् । समर्थेऽभवताम् (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवन् परमात्मन् (यत्) यदा
(दस्युहा) शत्रूणां विघ्नानां नाशकः (अभवः) ॥

३—(उत्तिष्ठन्) ऊर्ध्वं गच्छन् (ओजसा) बलेन (सह) (पीत्वी)
अ० २० । ६ । ७ । पीत्वा (शिमे) अ० २० । ३१ । ४ । इन् (अवेपयः) अकम्पयः
चालितवानिति (सोमम्) अन्नादिमहौषधिरसम् (चसू) सुपां सुलुक्० ।
पा० ७ । १ । ३६ । सप्तम्याः पूर्वत्वर्थः । चम्बाम् । भोजनपात्रे । चमसे-
(सुतम्) सस्कृतम् ॥

भावार्थ—जैसे प्राणी दांतों को चलाकर अन्न आदि का आनन्द पाते हैं, वैसे ही मनुष्य बल पराक्रम कर के अभीष्ट फल प्राप्त करें ॥ ३ ॥

सूक्तम् ४३ ॥

१—६ ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छन्दः ॥

राजधर्मोपदेशः—राजा के धर्म का उपदेश ॥

मिन्धि विश्वा अप् ह्विषः परि बाधो जुही मृधः । वसु
स्पृहं तदा भर ॥ १ ॥

मिन्धि । विश्वाः । अप् । ह्विषः । परि । बाधः । जुहि ।
मृधः ॥ वसु । स्पृहम् । तत् । आ । भर ॥ १ ॥

भावार्थ—[हे राजन् !] (विश्वाः) सब (द्विषः) द्वेष करने वाली सेनाओं में (अप् मिन्धि) फूट डाल दे, और (बाधः) रोक डालने वाले (मृधः) संग्रामों को (परि) सब ओर से (जुहि) मिटा दे (तत्) उस (स्पृहम्) चाहने योग्य (वसु) धन को (आ भर) ले आ ॥ १ ॥

भावार्थ—राजा धर्मात्माओं की रक्षा के लिये शत्रुओं में फूट डालकर उन का नाश करे और उनका धन लेकर विद्यादान आदि धर्मकार्य में लगावे ॥ १ ॥

यह तृच् ऋग्वेद में है—८ । ४५ । ४०—४२; सामवेद—३० ४ । १ । तृच
८ । मन्त्र १—साम० पू० २ । ४ । १० और मन्त्र २ पू० ३ । २ । ३ ॥

यद् वीलाविन्द्रु यत् स्थिरे यत् पशनि पराभृतम् । वसु
स्पृहं तदा भर ॥ २ ॥

यत् । वीलौ । इन्द्रु । यत् । स्थिरे । यत् । पशनि । परा-

१—(मिन्धि) भेदेन कुरु (विश्वाः) सर्वाः (अप्) पृथग्भावे (द्विषः)
द्वेषीः सेनाः (परि) सर्वतः (बाधः) बाधु विक्रोडने—किप् । बाधिकाः
(जुहि) नाशय (मृधः) सङ्ग्रामान् (वसु) धनम् (स्पृहम्) अ० २० । १३ ।
३ । कमनीयम् (तत्) (आ भर) आहर । प्रायय ॥

भृतम् । ० ॥ २ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (यत्) जो [धन] (वीलौ) बल [वा सेना] में (यत्) जो [धन] (स्थिरे) दृढ़ स्थान में और (यत्) जो [धन] (पर्शानि) मेघ [बरसा] में (पराभृतम्) धरा हुआ है, (तत्) उस (स्पार्हम्) चाहने योग्य (वसु) धन को (आ भर) ले आ ॥ २ ॥

भाषार्थ—राजा को योग्य है कि शत्रुओं ने जो धन सेना में, दृढ़ कोश में, और जो जल आदि स्थान में रक्खा हो, उस सब को ले लेवे ॥ २ ॥

यस्य ते विश्वमानुषो भूरैर्दत्तस्य वेदति । वसुं स्पार्हं तदा भर ॥ ३ ॥

यस्य । ते । विश्व-मानुषः । भूरैः । दत्तस्य । वेदति ॥ वसुं । स्पार्हंम् । तत् । आ । भरु ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(विश्वमानुषः) संसार का प्रत्येक मनुष्य (यस्य ते) जिस तेरे (भूरैः) बड़े (दत्तस्य) दान का (वेदति) ज्ञान करे, (तत्) उस (स्पार्हंम्) चाहने योग्य (वसु) धन को (आ भर) ले आ ॥ ३ ॥

भाषार्थ—राजा को ऐसा दान करना चाहिये जिस से समस्त संसार को उपकार होवे ॥ ३ ॥

१—(यत्) धनम् (वीलौ) भृशुशीङ् ० । उ० १ । ७ । वीलयतिः संस्तम्भकर्मा—निरु० ५ । १६—उपत्ययः । वीलु बलनाम—निघ० २ । ६ । बले । सैन्ये (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवन् राजन् (यत्) (स्थिरे) दृढ़स्थाने (यत्) (पर्शानि) अ० ८ । ४ । ५ । परि + शू हिंसायाम्—आनच्, डित्, परे रिकार-लोपः । पर्शानो मेघः—टिप्पणी, निघ० १ । १० । मेघे । वर्षाजले (पराभृतम्) न्यस्तम् । अस्यत् पूर्ववत् ॥

३—(वसु) (ते) तव (विश्वमानुषः) विश्वस्य संसारस्य प्रत्येक-मनुष्यः (भूरैः) प्रभूतस्य (दत्तस्य) दानस्य (वेदति) लेटि रूपम् । ज्ञानं कुर्यात् । अस्यत् पूर्ववत् ॥

सूक्तम् ४४ ॥

१-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ गायत्री; २, ३ निचूद् गायत्री ॥

राजप्रजाकृत्योपदेशः—राजा और प्रजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

प्र सुम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोतु नव्यं गीर्भिः । नरं नृषाहं
मंहिष्ठम् ॥ १ ॥

प्र । सुम्-राजम् । चर्षणीनाम् । इन्द्रम् । स्तोतु । नव्यम् ।
गीः-भिः ॥ नरम् । न-सहम् । मंहिष्ठम् ॥ १ ॥

भावार्थ—[हे विद्वानो !] (चर्षणीनाम्) मनुष्यों के (सम्राजम्)
सम्राट् [राजाधिराज], (नव्यम्) स्तुति योग्य, (नरम्) नेता, (नृषहम्)
नेताओं को वश में रखने वाले, (मंहिष्ठम्) अत्यन्त दानी (इन्द्रम्) इन्द्र
[बड़े पेश्वर्य वाले राजा] को (गीर्भिः) वाणियों से (प्र) अच्छे प्रकार
(स्तोत) सराहों ॥ १ ॥

भावार्थ—विद्वान् प्रजागण अभिनन्दन आदि से उदार चित्त राजा के
बड़े बड़े उपकारी कामों की प्रशंसा करके सत्कार करें ॥ १ ॥

यह तृच ऋग्वेद में है—८।१६।१-३ । मन्त्र १.सामवेद—पू० २।

५।१० ॥

यस्मिन्नुकथानि रयन्ति विश्वानि च अवस्था । अपामवे
न समुद्रे ॥ २ ॥

यस्मिन् । उकथानि । रयन्ति । विश्वानि । च । अवस्था ॥
अपाम् । अवः । न । समुद्रे ॥ २ ॥

तं सुष्टुत्या विवासे ज्येष्ठराजं भरं कृत्स्नम् । मृहो वाजिनं

१—(प्र) प्रकर्षेण (सम्राजम्) राजराजेश्वरम् (चर्षणीनाम्) मनुष्या-
णाम् (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं राजानम् (स्तोत) स्तुत (नव्यम्) स्तुतम्
(गीर्भिः) वाणीभिः (नरम्) नेतारम् (नृषहम्) नेतृणामभिभवितारं वश-
यितारम् (मंहिष्ठम्) ऋ० २०।१५।१ । उदारतमम् ॥

सुनिभ्यः ॥ ३ ॥

तम् । सु-स्तुत्या । आ । विवासे । ज्येष्ठ-राजम् । भरे ।
कृत्तुम् ॥ महः । वाजिनम् । सुनि-भ्यः ॥ ३ ॥

भाषार्य—(यस्मिन्) जिस [पुरुष] में (विश्वानि) सब (उक्त्यानि) कहने योग्य वचन (च) और (भवस्था) धन'के लिये हितकारी कर्म (रण्यन्ति) पहुंचते हैं, (न) जैसे (समुद्रे) समुद्र में (अपाम्) जलों की (अवः) गति [पहुंचती है] ॥ २ ॥ (तम्) उस (ज्येष्ठराजम्) सब से बड़े राजा, (भरे) सङ्ग्राम में (कृत्तुम्) काम करने वाले, (वाजिनम्) महाबलवान् [पुरुष] की, (महः) महत्त्व के (सुनिभ्यः) दानों के लिये, (सुष्टुत्या) सुन्दर स्तुति के साथ (आ) सब प्रकार (विवासे) मैं सेवा करता हूं ॥ ३ ॥

भाषार्य—जैसे नदियां समुद्र में जाकर विश्राम पाती हैं, वैसे ही विद्वान् लोग पराक्रमी राजा के पास पहुंचकर अपना गुण प्रकाशित कर के धुल पावें ॥ २,३ ॥

सूक्तम्-४५ ॥

१-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १,३ गायत्री ; २ निचृद् गायत्री ॥

समाध्यक्षकृत्योपदेशः—सभापति के कर्तव्य का उपदेश ॥

अयमुं ते समंतसि कुपोत इव गर्भ धिम् । वचुस्तच्चिन्न ओहसे १

२—(यस्मिन्) पुरुषे (उक्त्यानि ; वक्तव्यानि वचनानि (रण्यन्ति) अ० २० । १७ । ६ । गच्छन्ति (विश्वानि) सर्वाणि (च) (भवस्था) अ० २० । १२ । १ । धनाय हितानि कर्माणि (अपाम्) जलानाम् (अवः) अव गतौ—अधुन् । गमनम् (न) यथा (समुद्रे) उदधौ ॥

३—(तम्) (सुष्टुत्या) शोभनया स्तुत्या (आ) समन्तात् (विवासे) विवासतिः परिचरणकर्मा—निघ० ३ । ५ । परिचरामि (ज्येष्ठराजम्) प्रश-
स्यतमं राजानम् (भरे) सङ्ग्रामे (कृत्तुम्) कृहनिभ्यां कृत् । उ० ३ । ३० ।
कपोतेः—कृत् । कार्यकर्तारम् (महः) मह पूजायाम्—किप् । महस्वस्य
(वाजिनम्) महाबलिनम् (सुनिभ्यः) दानेभ्यः ॥

अयम् । जं इति । ते । सम् । अतसि । कपोतः-इव ।
गर्भ-धिम् ॥ वचः । तत् । चित् । नः । ओहसे ॥ १ ॥

भाषार्थ—[हे सेनापति !] (अयम्) यह [प्रजा जन] (ते उ)
तेरा ही है, तू [उस प्रजा जन से] (सम् अतसि) सदा मिलता रहता है,
(इव) जैसे (कपोतः) कबूतर (गर्भधिम्) गर्भ रखने वाली कबूतरी से
[पालने को मिलता है], (तत्) इस लिये तू (चित्) ही (नः) हमारे
(वचः) वचन को (ओहसे) सब प्रकार विचारता है ॥ १ ॥

भाषार्थ—जब कबूतरी अण्डे सेवती और बच्चे देती है, कबूतर बड़े
प्रेम से उसको चारा लाकर खिलाता है, इसी प्रकार राजा सुनीति से प्रजा
का पालन करे और उन की पुकार सुने ॥ १ ॥

यह तृच ऋग्वेद में है—१ । ३० । ४—६ ; सामवेद—७० ७ । ३ । तृच
१५, तथा मन्त्र १—साम० पू० २ । ६ । ६ ॥

स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते । विभूतिरस्तु
सुनृता ॥ २ ॥

स्तोत्रम् । राधानाम् । पते । गिर्वाहः । वीर । यस्य । ते ॥
विभूतिः । अस्तु । सुनृता ॥ २ ॥

भाषार्थ—(राधानां पते) हे धनों के स्वामी ! (गिर्वाहः) हे विद्याओं
के पहुँचाने वाले ! (वीर) हे वीर ! (यस्य ते) जिस तेरी (स्तोत्रम्) स्तुति
है, [उस तेरी] (विभूतिः) विभूति [ऐश्वर्य] (सुनृता) प्यारी और सब्धी

१—(अयम्) प्रजाजनः (उ) एव (ते) तव (सम्) (अतसि)
सततं संगच्छसे (कपोतः) पारावतः (इव) यथा (गर्भधिम्) गर्भ+
धृधातेः—कि प्रत्ययः । गर्भधारिणीं कपोतीम् (वचः) वचनम् (तत्) तस्मात्
कारणात् (चित्) एव (नः) अस्माकम् (ओहसे) आ+ऊह वितर्के । सम-
न्ताद् विचारयसि ॥

२—(स्तोत्रम्) स्तुतिम् (राधानाम्) धनानाम् (पते) पालक
(गिर्वाहः) अ० २ । ३५ । ४ । हे गिरा विद्यानां प्रापक (वीर) हे निर्भय
(यस्य) (ते) तव (विभूतिः) ऐश्वर्यम् (अस्तु) (सुनृता) अ० ३ । १२ । २ ।

वाणी (अस्तु) होवे ॥ २ ॥

भाषार्थ—प्रधान पुरुष अनेक धनों को प्राप्त होकर उत्तम कर्मों से अपनी स्तुति बढ़ावे और हितकारी सच्ची बात बोलने को ही अपना पेश्वर्य समझे ॥ २ ॥

ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन् वाजे शतक्रतो । समन्येषु
ब्रवावहै ॥ ३ ॥

ऊर्ध्वः । तिष्ठ । नः । ऊतये । अस्मिन् । वाजे । शतक्रतो
इति शत-क्रतो ॥ सम् । अन्येषु । ब्रवावहै ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(शतक्रतो) हे सैकड़ों कर्मों वा बुद्धियों वाले (नः) हमारी (ऊतये) रक्षा के लिये (अस्मिन्) इस (वाजे) सङ्ग्राम में (ऊर्ध्वः) ऊपर (तिष्ठ) ठहर, (अन्येषु) दूसरे कामों पर (सम्) मिलकर (ब्रवावहै) हम दोनों बात करें ॥ ३ ॥

भाषार्थ—विद्वान् लोग प्रजापालक सेनापति से बात चीत करके कर्तव्य को करते हुये और अकर्तव्य को छोड़ते हुये युद्ध में विजय प्राप्त करें ॥ ३ ॥

सूक्तम् ४६ ॥

१--३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छन्दः ॥

सेनापतिलक्षणोपदेशः—सेनापति के लक्षण का उपदेश ॥

प्रणेतारं वस्ये अच्छा कर्तारं ज्योतिः सुमत्सु । सुसुह्रांसं
युधामित्रान् ॥ १ ॥

प्र-नेतारंम् । वस्येः । अच्छा । कर्तारम् । ज्योतिः । सुमत्-सु ।
सु-सु-ह्रांसंम् । युधा । मित्रान् ॥ १ ॥

प्रियसत्यात्मिका वाक् ॥

३—(ऊर्ध्वः) उन्नतः (तिष्ठ) (नः) अस्माकम् (ऊतये) रक्षायै
(अस्मिन्) (वाजे) संग्रामे (शतक्रतो) बहुकर्मन् । बहुप्रथ (सम्) मित्रिणा
(अन्येषु) युद्धाद् भिन्नविषयेषु (ब्रवावहै) आवां विचारयाम ॥

भाषार्थ—(वस्यः) श्रेष्ठ धन की ओर (प्रयेतारम्) लौ चलने वाले (समस्तु) संग्रामों में (ज्योतिः) प्रकाश (कर्तारम्) करने वाले (युधा) युद्ध से (अभिन्नान्) पीड़ा देने वाले बैरियों को (ससह्वासम्) हराने वाले [सेनापति] को (अच्छ) पाकर [हम बतें] ॥ १ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य प्रजा को धन प्राप्त करावे और संग्रामों में बैरियों को जीते, वह सेनापति होवे ॥ १ ॥

यह तुच ऋग्वेद में है—४ । १६ । १०-१२ ॥

स नः पप्रिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहुतः । इन्द्रो विश्वा
अति द्विषः ॥ २ ॥

सः । नः । पप्रिः । पारयाति । स्वस्ति । नावा । पुरु-हुतः ॥
इन्द्रः । विश्वाः । अति । द्विषः ॥ २ ॥

भाषार्थ—(सः) वह (पप्रिः) पूरण करने वाला, (पुरुहुतः) बहुत प्रकारा गया, (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला सेनापति] (विश्वाः) सब (द्विषः) द्वेष करने वाली सेनाओं को (अति) लांघ कर (नः) हम को (स्वस्ति) आनन्द के साथ (नावा) नाव से (पारयाति) पार लगावे ॥ २ ॥

भाषार्थ—युद्ध कुशल सेनापति शत्रुओं को मार कर प्रजा को कष्ट से छुड़ावे, जैसे नाव से समुद्र पार करते हैं ॥ २ ॥

१—(प्रयेतारम्) प्रापयितारम् (वस्यः) अ० २० । १४ । ३ । प्रशस्यं धनम् (अच्छ) अच्छामेराप्तुमिति शाकपूणिः—निह० ५ । २८ । प्राप्य (कर्तारम्) कारकम् (ज्योतिः) प्रकाशम् (समस्तु) सङ्ग्रामेषु (ससह्वासम्) सह अभिभवे—कसु, अभ्यासस्य दीर्घश्छोन्दसः । अभिभवितारम् (युधा) युद्धेन (अभिन्नान्) पीडकान् । शत्रून् ॥

२—(सः) (नः) अस्मान् (पप्रिः) अ० १२ । २ । ४७ । प्रा पूरणे—किन् । प्राता । पूरयिता (पारयाति) लोटि रूपम् । पारयेत् (स्वस्ति) क्षेमेण (नावा) नौकया (पुरुहुतः) बहुविधाहुतः (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् सेनापतिः (विश्वाः) सर्वाः (अति) अनीत्य । उत्तङ्ग्य (द्विषः) द्वेषीः सेनाः ॥

स त्वं न इन्द्र वाजेभिर्दशस्य च गातुया च । अच्छी च नः
सुम्नं नेषि ॥ ३ ॥

सः । त्वम् । नः । इन्द्र । वाजेभिः । दशस्य । च । गा-तु-या ।
च ॥ अच्छी । च । नः । सुम्नम् । नेषि ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(सः त्वम्) सो तू, (इन्द्र) हे इन्द्र ! [वड़े पेश्वर्य वाले सेनापति] (नः) हमारे लिये (वाजेभिः) पराक्रमों के साथ (दशस्य) कवच के समान काम कर, (च च) और (गातुया) मार्ग बता, (च) और (अच्छी) अच्छे प्रकार (नः) हमें (सुम्नम्) सुख की ओर (नेषि) ले चल ॥ ३ ॥

भावार्थ—राजा पराक्रम कर के प्रजा को अनेक प्रकार से सुख पाने के ढंग बतावे ॥ ३ ॥

सूक्तम् ४७ ॥

१-२१ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १-१०, १२-२१ गायत्री; ११ विराड् गायत्री, ॥

१-६ राजप्रजकर्तव्योपदेशः—राजा और प्रजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

तमिन्द्र वाजयामसि सुहे वृत्राय हन्तवे । स वृषा वृषुभो
भुवत् ॥ १ ॥

तम् । इन्द्रम् । वाजयामसि । सुहे । वृत्राय । हन्तवे ॥ सः ।
वृषा । वृषुभः । भुवत् ॥ १ ॥

३—(सः) तादृशः (त्वम्) (नः) अस्मभ्यम् (इन्द्र) सेनापते (वाजेभिः) सङ्ग्रामैः (दशस्य) अ० २०। ३५। ११। दशः कवच इवाचर (च) (गातुया) छन्दसि परेच्छायामपि । वा० पा० ३। १। ८। गातु—क्यच् । छान्दसो दीर्घः, अष्टवेदे [गातुय] इति पदपाठः । मार्गम् इच्छ (च) (अच्छी) सुष्ठु (च) (नः) अस्मान् (सुम्नम्) सुखं प्रति (नेषि) शपोलुक् । नयसि । नय । प्राययः ॥

भाषार्थ—(तम्) उस (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले राजा] को (महे) बड़े (वृत्राय) रोकने वाले बैरी को (हन्तवे) मारने को (वाज-यामसि) हम बलवान् करते हैं [उत्साही बनाने हैं], (सः) वह (वृषा) पराक्रमी (वृषभः) श्रेष्ठ वीर (भुवत्) होवे ॥ १ ॥

भावार्थ—प्रजागण राजा को शत्रुओं के मारने के लिये सहाय करें, और राजा भी प्रजा को भलाई के लिये प्रयत्न करे ॥ १ ॥

मन्त्र १—३ ऋग्वेद में हैं—८। ६३ [सायणभाष्य ८२] । ७—६; कुछ भेद से सामवेद—३०५। १ । तृच १०। मन्त्र १ पृ० २। ३। ५ और यह तृच आगे है—अथ० २०। १३७। १२—१४ ॥

इन्द्रः स दामने कृत ओजिष्ठः स मदे हितः । द्युम्नी श्लोकी स सोम्यः ॥ २ ॥

इन्द्रः । सः । दामने । कृतः । ओजिष्ठः । सः । मदे । हितः ॥
द्युम्नी । श्लोकी । सः । सोम्यः ॥ २ ॥

भाषार्थ—(सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला राजा] (दामने) दान करने के लिये और (सः) वह (मदे) आनन्द देने के लिये (ओजिष्ठः) महाबली और (हितः) हितकारी (कृतः) बनाया गया है, (सः) वह (द्युम्नी) अन्न वाला और (श्लोकी) कीर्ति वाला पुरुष (सोम्यः) ऐश्वर्य के योग्य है ॥ २ ॥

१—(तम्) प्रसिद्धम् (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्त राजानम् (वाजयामसि) बलवन्तं कुर्मः । उत्साहयामः (महे) द्वितीयार्थे चतुर्थी । महान्तम् (वृत्राय) आवरकं, शत्रुम् (हन्तवे) मारयितुम् (सः) (वृषा) पराक्रमी (वृषभः) श्रेष्ठो वीरः (भुवत्) भवेत् ॥

२—(इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् राजा (सः) (दामने) सर्वधातुभ्यो मनिन् । ३० ४ । १४५ । ददातेः—मनिन् । दानाय (कृतः) स्वीकृतः (ओजिष्ठः) ओजस्वितमः (सः) (मदे) आनन्ददानाय (हितः) हितकरः (द्युम्नी) अन्नवान् (श्लोकी) कीर्तिमान् (सः) (सोम्यः) ऐश्वर्ययोग्यः ॥

भाषार्थ—प्रजागण प्रतापी, गुणी पुरुष को इस लिये राजा बनावें कि वह प्रजा के उपकार के लिये दान कर के प्रयत्न करे और अन्न आदि पदार्थ बढ़ा कर कीर्ति पावे ॥ २ ॥

गिरा वज्रो न संभृतः सबलो अनपच्युतः । ववक्ष ऋष्वो
अस्तृतः ॥ ३ ॥

गिरा । वज्रः । न । सम्-भृतः । स-बलः । अनप-च्युतः ॥
ववक्षे । ऋष्वः । अस्तृतः ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(गिरा) वाणी से (संभृतः) पुष्ट किया गया, (सबलः) सबल, (अनपच्युतः) न गिरने योग्य, (ऋष्वः) गति वाला, और (अस्तृतः) वे रोक सेनापति (वज्रः न) विजुली के समान (ववक्षे) रिस होवे ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य अपनी बात में सच्चा, महाबली हो, वह सेनानी होकर शत्रुओं पर विजुली के समान क्रोध करे ॥ ३ ॥

इन्द्रमिद् गा यिनो , बहदिन्द्रसुर्केभिरुर्किणः । इन्द्रं वाणी-
रनूषत ॥ ४ ॥

इन्द्रम् । इत् । गा यिनः । बृहत् । इन्द्रम् । सुर्केभिः ।
सुर्किणः ॥ इन्द्रम् । वाणीः । अनूषत् ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(गाथिनः) गाने वालों और (सुर्किणः) विचार करने वालों ने (सुर्केभिः) पूजनीय विचारों से (इन्द्रम्) सूर्य [के समान प्रतापी], (इन्द्रम्) वायु के समान फुरतीले (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले राजा] को और (वाणीः) वाणियों [वेदवचनों] को (इत्)-निश्चय करके (बृहत्) बड़े ढंग से (अनूषत) सराहा है ॥ ४ ॥

३—(गिरा) वाण्या (वज्रः) विद्युत् (न) यथा (संभृतः) सम्यक् पोषितः (सबलः) बलसहितः (अनपच्युतः) परैरपरिच्युतः । अनभिगतः (ववक्षे) अ० २० । ३५ । ६ । लोडर्थे लिट् । रोषं कुर्यात् (ऋष्वः) अशः मुषित्ति० । उ० १ । १५१ । ऋषी गतौ—कन् । गतिमान् । महान्—निघ० ३ । ३ (अस्तृतः) अहिसितः । अनिवारितः ॥

४—६ । एते मन्त्रा व्याख्याताः—अ० २० । ३८ । ४—६ ॥

भावार्थ—मनुष्य सुनीतिर, प्रतापी, उद्योगी राजा के और परमेश्वर की दी हुई वेदवाणी के गुणों को विचार कर सब के सुख के लिये यथावत् उपाय करें ॥ ४ ॥

मन्त्र ४-६ आ चुके हैं—अ०२० । ३८ । ४-६ और आगे हैं—२० । ७० । ७-६ ॥

इन्द्र इद्ध्योः सचा संमिश्रु आ वचोयुजा । इन्द्रो वृज्री
हिरण्ययः ॥ ५ ॥

इन्द्र । इत् । ह्योः । सचा । सम्-मिश्रलः । आ । वृचुः-युजा ॥
इन्द्रः । वृज्री । हिरण्ययः ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(वृज्री) वृज्रधारी, (हिरण्ययः) तेजोमय (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला राजा] (इत्) ही (इन्द्रः) वायु [के समान] (सचा) नित्य मिले हुये (ह्योः) दोनों संयोग वियोग गुणों का (संमिश्रलः) यथावत् मिलाने वाला (आ) और (वचोयुजा) वचन का योग्य बनाने वाला है ॥ ५ ॥

भावार्थ—जैसे पवन के आने जाने से पदार्थों में चलने, फिरने, ठहरने का और जीम में बोलने का सामर्थ्य होता है, वैसे ही वृण्डवाता प्रतापी राजा के न्याय से सब लोगों में शुभ गुणों का संयोग और दोषों का वियोग होकर वाणी में सत्यता होती है ॥ ५ ॥

इन्द्रो दीर्घायु चक्षुसु आ सूर्य रोहयद् द्विवि । वि गोभिर-
द्रिमैरयत् ॥ ६ ॥

इन्द्रः । दीर्घायु । चक्षुसे । आ । सूर्यम् । रोहयत् । द्विवि ॥
वि । गोभिः । अद्रिम् । ऐरयत् ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले परमात्मा] ने (दीर्घायु) दूर तक (चक्षुसे) देखने के लिये (द्विवि) व्यवहार [वा आकाश] के बीच (गोभिः) वेदवाणियों द्वारा [वा किरणों वा जलों द्वारा] (सूर्यम्) सूर्य [के समान प्रेरक] और (अद्रिम्) मेघ [के समान उपकारी पुरुष] को (आ रोहयत्) ऊंचा किया और (वि) विविध प्रकार (ऐरयत्) चलाया है ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ—जैसे परमेश्वर के नियम से सूर्य आकाश में चलकर ताप आदि गुणों से अनेक लोकों को धारण करता और किरणों द्वारा जल खींचकर फिर वरसाकर उपकार करता है, वैसे ही दूरदर्शी राजा अपने प्रताप और उत्तम व्यवहार से सब प्रजा को नियम में रखे और कर लेकर उनका प्रतिपालन करे ॥ ६ ॥

आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबाम् इमम् । एदं बृहिः
सदो मम् ॥ ७ ॥

आ । याहि । सुसुम । हि । ते । इन्द्र । सोमम् । पिब ।
इमम् ॥ आ । इदम् । बृहिः । सदः । मम् ॥ ७ ॥

भाष्यार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र । [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (आ याहि)
तू आ, (हि) क्योंकि (ते) तेरे लिये (सोमम्) सोम [उत्तम ओषधियों का
रस] (सुषुम) हम ने सिद्ध किया है, (इमम्) इस [रस] को (पिब) पी,
(मम्) मेरे (इदम्) इस (बृहिः) उत्तम आसन पर (आ सदः) बैठ ॥ ७ ॥

भाष्यार्थ—लोग विद्वान् सद्रूच्य के सिद्ध किये हुये महौषधियों के
रस से राजा को स्वस्थ बलवान् रखकर राज सिंहासन पर सुशोभित करें ॥७॥

मन्त्र ७-४ आ लुके हैं—अ० २० । ३ । १—३ तथा ३८ । १—३ ॥

आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र के शिना । उप ब्रह्माणि
नः शृणु ॥ ८ ॥

आ । त्वा । ब्रह्म-युजा । हरी । इति । वहताम् । इन्द्र ।
के शिना ॥ उप । ब्रह्माणि । नः । शृणु ॥ ८ ॥

भाष्यार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (ब्रह्मयुजा)
धन के लिये जोड़े गये, (केशिना) सुन्दर केशों [कन्धे आदि के वालों] वाले
(हरी) रथ ले चलने वाले दो घोड़ों [के समान बल और पराक्रम] (त्वा)
तुम्हको (आ) सब ओर (वहताम्) ले चलें । (नः) हमारे (ब्रह्माणि)
वेद दानों को (उप) आदर से (शृणु) तू सुन ॥ ८ ॥

भावार्थ—जैसे उत्तम बलवान् घोड़े रथ को ठिकाने पर पहुँचाते हैं, वैसे ही राजा वेदोक्त मार्ग पर चलकर अपने बल और पराक्रम से राज्यभार उठाकर प्रजा पालन करे ॥ ८ ॥

ब्रह्माणस्त्वा वयं युजा सोमपासिन्द्रं सोमिनः । सुतावन्तो हवामहे ॥ ८ ॥

ब्रह्माणः । त्वा । वयम् । युजा । सोम-पास् । इन्द्र । सोमिनः । सुत-वन्तः । हवामहे ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (सोमपाम्) ऐश्वर्य के रक्षक (त्वा) तुझ को (युजा) मित्रता के साथ (ब्रह्माणः) वेद जानने वाले, (सोमिनः) ऐश्वर्य वाले, (सुतवन्तः) उत्तम पुत्र आदि सन्तानों वाले (वयम्) हम (हवामहे) बुलाते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—जिस राजा के सुप्रबन्ध से प्रजागण ज्ञानवान्, धनवान्, और सुशिक्षित सन्तान वाले हों, उस को मित्र जानकर सदा स्मरण करें ॥ ६ ॥

मन्त्राः १०—१२ परमेश्वर गुणोपदेशः—१०—१२ परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥

युञ्जन्ति ब्रह्मरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥ १० ॥

युञ्जन्ति । ब्रह्मम् । अरुषम् । चरन्तम् । परि । तस्थुषः ॥ रोचन्ते । रोचना । दिवि ॥ १० ॥

भाषार्थ—(तस्थुषः) मनुष्य आदि प्राणियों और लोकों में (परि) सब ओर से (चरन्तम्) व्यापे हुये, (ब्रह्मम्) महान् (अरुषम्) हिंसारहित [परमात्मा] को (रोचना) प्रकाशमान पदार्थ (दिवि) व्यवहार के बीच (युञ्जन्ति) ध्यान में रखते और (रोचन्ते) प्रकाशित होते हैं ॥ १० ॥

भावार्थ—परमात्माओं से लेकर सूर्य आदि लोक और सब प्राणी सर्व-

व्यापक, सर्वनियन्ता परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसी की उपासना से मनुष्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके आत्मा की उन्नति करें ॥ १० ॥

मन्त्र १०—१२ आच्युके हैं—अ० २० । २६ । ४—६ और आगे हैं—२० । ६६ । ६—११ ॥

युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । शोणा धृष्णू
नवाहसा ॥ ११ ॥

युञ्जन्ति । अस्य । काम्या । हरी इति । वि-पक्षसा । रथे ॥
शोणा । धृष्णू इति । नु-वाहसा ॥ ११ ॥

भाषार्थ—(अस्य) इस [परमात्मा-मन्त्र १०] के (काम्या) चाहने योग्य, (विपक्षसा) विविध प्रकार ग्रहण करने वाले, (शोणा) व्यापक (धृष्णू) निर्भय, (नवाहसा) नेताओं [दूसरों के चलाने वाले सूर्य आदि लोकों] के चलाने वाले (हरी) दोनों धारण आकर्षण गुणों को (रथे) रमणीय जगत् के बीच (युञ्जन्ति) वे [प्रकाशमान पदार्थ—मन्त्र १०] ध्यान में रखते हैं ॥ ११ ॥

भावार्थ—जिस परमात्मा के धारण आकर्षण सामर्थ्य में सूर्य आदि पिण्ड ढहर कर अन्य लोकों और प्राणियों को चलाते हैं, मनुष्य उन सब पदार्थों से उपकार ले कर उस ईश्वर को धन्यवाद दें ॥ ११ ॥

केतुं कृणवन्केतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुषद्भिरजायथाः १२
केतुम् । कृणवन् । अकेतवे । पेशः । मर्याः । अपेशसे ॥
सम् । उषत्-भिः । अजायथाः ॥ १२ ॥

भाषार्थ—(मर्याः) हे मनुष्यो ! (अकेतवे) अज्ञान हटाने के लिये (केतुम्) ज्ञान को और (अपेशसे) निर्धनता मिटाने के लिये (पेशः) सुवर्ण आदि धन को (कृणवन्) उत्पन्न करता हुआ वह [परमात्मा—मन्त्र १०, ११] (उषद्भिः) प्रकाशमान गुणों के साथ (सम्) अच्छे प्रकार (अजायथाः) प्रकट हुआ है ॥ १२ ॥

भावार्थ—मनुष्य प्रयत्न करके परमात्मा को विचारते हुये सृष्टि

के पदार्थों से उपकार लेकर ज्ञानी और धनी हों ॥ १२ ॥

मन्त्राः १३—२१ आध्यात्मोपदेशः ॥ १३—२१ परमात्मा और जीवात्मा के विषय का उपदेश ॥

उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम् १३
उत् । ऊ॒ ङीति । त्यम् । जात-वेदसम् । देवम् । वहन्ति ।
केतवः ॥ दृशे । विश्वाय । सूर्यम् ॥ १३ ॥

भाषार्थ—(केतवः) किरणों (त्यम्) उस (जातवेदसम्) उत्पन्न पदार्थों को प्राप्त करने वाले, (देवम्) चलते हुये (सूर्यम्) रविमण्डल को (विश्वाय दृशे) सब के देखने के लिये (उ) अवश्य (उत् वहन्ति) ऊपर ले चलती हैं ॥ १३ ॥

भावार्थ—जिस प्रकार सूर्य किरणों के आकर्षण से ऊंचा होकर सब पदार्थों को प्रकट करता है, वैसे ही मनुष्य विद्या और धर्म से उन्नति करके सब का उपकार करे ॥ १३ ॥

मन्त्र १३—२१ आ चुके हैं—अ० १३ । २ । १६—२४ ॥

अप त्थे त्वायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । सूराय
विश्वचक्षसे ॥ १४ ॥

अप । त्थे । त्वायवः । यथा । नक्षत्रा । यन्ति । अक्तु-भिः ॥
सूराय । विश्व-चक्षसे ॥ १४ ॥

भाषार्थ—(विश्वचक्षसे) सब के दिखाने वाले (सूराय) सूर्य के लिये (अक्तुभिः) रात्रियों के साथ (नक्षत्रा) तारा गण (अप यन्ति) भाग जाते हैं, (यथा) जैसे (त्थे) वे (त्वायवः) चोर [भाग जाते हैं] ॥ १४ ॥

भावार्थ—सूर्य के प्रकाश से रात्रि का अन्धकार मिट जाता है, मन्द चमकने वाले नक्षत्र छिप जाते हैं, और चोर लोग भाग जाते हैं, वैसेही वेद विज्ञान फैलने से अधर्म का नाश और धर्म की वृद्धि होती है ॥ १४ ॥

अदृशन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनान् अनु । भ्राजन्तो अग्रयो
यथा ॥ १५ ॥

अदृशन् । अस्य । केतवः । वि । रश्मयः । जनान् । अनु ॥
भ्राजन्तः । अग्रयः । यथा ॥ १५ ॥

भाषार्थ—(अस्य) इस [सूर्य] की (केतवः) जताने वाली
(रश्मयः) किरणों (जनान् अनु) प्राणियों में (वि) विविध प्रकार से
(अदृशन्) देखी गयी हैं, (यथा) जैसे (भ्राजन्तः) दहकते हुये (अग्रयः)
अंगारे ॥ १५ ॥

भावार्थ—जैसे सूर्य की किरणें धूप, बिजुली और अग्नि के रूप से
संसार में फैलती हैं, वैसेही सब मनुष्य शुभ गुण कर्म और स्वभाव से प्रकाश-
मान होकर आत्मा और समाज की उन्नति करें ॥ १५ ॥

तरणिर्विश्वदर्शनो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । विश्वमा भासि
रोचन ॥ १६ ॥

तरणिः । विश्व-दर्शतः । ज्योतिः-कृत् । असि । सूर्य ॥
विश्वम् । आ । भासि । रोचन् ॥ १६ ॥

भाषार्थ—(सूर्य) हे सूर्य ! तू (तरणिः) अन्धकार से पार करने वाला,
(विश्वदर्शतः) सब का दिखाने वाला, (ज्योतिष्कृत्) [चन्द्र आदि में]
प्रकाश करने वाला (असि) है । (रोचन) हे चमकने वाले ! तू (विश्वम्)
सब को (आ) भले प्रकार (भासि) चमकाता है ॥ १६ ॥

भावार्थ—जैसे यह सूर्य अग्नि, बिजुली, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि पर अपना
प्रकाश डाल कर उन्हें चमकीला बनाता है, वैसे ही परमात्मा अपने सामर्थ्य से
सब सूर्य आदि को रचना है और वैसे ही विद्वान्, लोग-विद्या के प्रकाश से संसार
को आनन्द देते हैं ॥ १६ ॥

प्रत्यङ् देवानां विश्वः प्रत्यङ्ङुर्देप्ति मानुषीः । प्रत्यङ् विश्वं
स्वर्दृशे ॥ १७ ॥

प्रत्यङ् । देवानाम् । विशः । प्रत्यङ् । उत् । एषि । मानुषीः॥
प्रत्यङ् । विश्वम् । स्वः । दृशे ॥ १७ ॥

भाषार्थ—[हे सूर्य !] (देवानाम्) गति शील [चन्द्र आदि लोकों] की (विशः) प्रजाओं को (प्रत्यङ्) सन्मुख होकर, (मानुषीः) मानुषी [मनुष्य-समूहों पार्थिव प्रजाओं] को (प्रत्यङ्) सन्मुख हो कर और (विश्वम्) सब जगत् को (प्रत्यङ्) सन्मुख होकर (स्वः) सुख से (दृशे) देखने के लिये (उत्) ऊँचा होकर (एषि) तू प्राप्त होना है ॥ १७ ॥

भाषार्थ—सूर्य गोल आकार बहुत बड़ा पिण्ड है, इस लिये वह सब लोकों के सन्मुख दीखना है, और सब लोक उस के आकर्षण प्रकाशन आदि से सुख पाते हैं, येते ही परमात्मा के सर्वव्यापी और सर्व शक्तिमान् होने से उसके नियम पर चलकर सब सुखी रहते हैं ॥ १७ ॥

येना पावकु चक्षसा भुरयन्तं जनान् अनु । त्वं वरुण पश्यसि १८
येन । पावकु । चक्षसा । भुरयन्तम् । जनान् । अनु ॥ त्वम् ।
वरुण । पश्यसि ॥ १८ ॥

वि द्यामेषु रजस्पृथ्वहृर्मिमानो अक्तुभिः । पश्यन् जन्मानि
सूर्य ॥ १९ ॥

वि । द्याम् । एषि । रजः । पृथु । अहः । मिमानः । अक्तुभिः ॥
पश्यन् । जन्मानि । सूर्यु ॥ १९ ॥

भाषार्थ—(एषक) हे पवित्र करने वाले ! (वरुण) हे उत्तम गुण वाले ! [सूर्य रविमण्डल] (येन) जिस (चक्षसा) प्रकाश से (भुरयन्तम्) धारण और पोषण करते हुये [पराक्रम] को (जनान् अनु) उत्पन्न प्राणियों में (त्वम्) तू (पश्यसि) दिखाता है ॥ १८ ॥ [उस प्रकाश से] (सूर्य) हे सूर्य ! [रविमण्डल] (अहः) दिन को (अक्तुभिः) रात्रियों के साथ (मिमानः) बनाना हुआ और (जन्मानि) उत्पन्न वस्तुओं को (पश्यन्) दिखाता हुआ तू (द्याम्) आकाश में (पृथु)—फैले हुये (रजः) लोक को (वि) विविध प्रकार (एषि) प्राप्त होता है ॥ १९ ॥

भावार्थ—जैसे सूर्य अपने प्रकाश से वृष्टि आदि द्वारा अपने घेरे के सब प्राणियों और लोकों को धारण पोषण करना है, वैसे ही मनुष्य सर्वोपरि विराजमान परमात्मा के ज्ञान से परस्पर सहायक होकर सुखी होंगे ॥ १८, १९ ॥

सुप्त त्वा हुरितो रथे वहन्ति देव सूर्य । शोचिष्केशं
विचक्षणम् ॥ २० ॥

सुप्त । त्वा । हुरितः । रथे । वहन्ति । देव । सूर्य ॥ शोचिः-
केशम् । वि-चक्षणम् ॥ २० ॥

भाषार्थ—(देव) हे चलने वाले (सूर्य) सूर्य ! [रविमण्डल] (सप्त) सात [शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र वर्ण वाली] (हरितः) आकर्षक किरणों (शोचिष्केशम्) पवित्र प्रकाश वाले (विचक्षणम्) विविध प्रकार दिखाने वाले (त्वा) तुझ को (रथे) रथ [गमन विधान] में (वहन्ति) ले चलती हैं ॥ २० ॥

भावार्थ—यह प्रकाशमान सूर्य लोक शुक्ल, नील, पीत आदि सात किरणों द्वारा अपनी धुरी पर अपने घेरे में घूमता है। इस नियम का बनाने वाला वह परमेश्वर है ॥ २० ॥

अयुक्त सुप्त शुन्ध्युवः सूरु रथस्य नुप्त्यः । ताभिर्याति
स्वयुक्तिभिः ॥ २१ ॥

अयुक्त । सुप्त । शुन्ध्युवः । सूरुः । रथस्य । नुप्त्यः ॥ ताभिः ॥
याति । स्वयुक्ति-भिः ॥ २१ ॥

भाषार्थ—(सूरुः) सूर्य [लोक प्रेरक रविमण्डल] ने (रथस्य) रथ [अपने चलने के विधान] की (नुप्त्यः) न गिराने वाली (सप्त) सात [शुक्ल, नील, पीत आदि—मन्त्र २०] (शुन्ध्युवः) शुद्ध किरणों को (अयुक्त) जोड़ा है। (ताभिः) उन (स्वयुक्तिभिः) धन से संयोग वाली [किरणों] के साथ (याति) वह चलता है ॥ २१ ॥

भावार्थ—जो सूर्य अपनी परिधि के लोकों को अपने आकर्षण में रखकर चलता है और जिस की किरणों रौंगों को हटा कर प्रकाश और वृष्टि आदि

से संसार को धनी बनानी हैं, उस सूर्य को जगदीश्वर परमात्मा ने बनाया है ॥ २१ ॥

सूक्तम् ४८ ॥

१—६॥ १—३ रन्द्रः, ४—६ सर्पराज्ञी सूर्यो वा देवता ॥ १, ४—६ गायत्री ; २, ३ निचृद् गायत्री ॥

१—३ आध्यात्मोपदेशः—१—३ परमात्मा और जीवात्मा के विषय का उपदेश ॥

अभि त्वा वर्चसा गिरः सिञ्चन्तीराचरुणवः । अभि वृत्सं न धेनवः ॥ १ ॥

[सूचना—मन्त्र १—३ ऋग्वेद आदि अन्य वेदों में नहीं हैं; और इनका पद पाठ भी गवर्नमेन्ट बुकडिपो बम्बई के पुस्तक में नहीं है। हम स्वामी विश्वेश्वरानन्द नित्यानन्द कृप पद सूची से संग्रह करके यहां लिखते हैं, बुद्धिमान् जन विचार लें। सूचना अथ० २० । ३४ । १२ भी देखें।]

अभि । त्वा । वर्चसा । गिरः । सिञ्चन्तीः । आचरुणवः ॥
अभि । वृत्सम् । न । धेनवः ॥ १ ॥

भाषार्थ—[हे परमेश्वर !] (आचरुणवः) सब ओर चलती हुई (गिरः) वाणियां (त्वा) तुझ की (वर्चसा) प्रकाश के साथे (अभि) सब प्रकार (सिञ्चन्तीः) सींचती हुई [हैं] । (न) जैसे (धेनवः) दुधे ल गायें (वृत्सम्) [अपने] बच्चे को (अभि) सब प्रकार [सींचती हैं] ॥ १ ॥

भावार्थ—सब मनुष्य प्रकाश स्वरूप परमात्मा की अनन्य भक्ति करके आनन्द पावें, जैसे गौर्यें अपने तुरन्त उत्पन्न हुये बच्चों से प्रीति करके सुखी होती हैं ॥ १ ॥

१—(अभि) सर्वतः (त्वा) (वर्चसा) तेजसा (गिरः) वाचः (सिञ्चन्तीः) सिञ्चन्त्यः । वर्धयन्त्यः (आचरुणवः) यजिमन्निशुन्धि० । उ० ३ । २० । आ + चरण गतौ—युच् । समन्ताद् गतिशीलाः (अभि) (वृत्सम्) शिशुम् (न) यथा (धेनवः) दोग्ध्र्यो गावः ॥

ता अर्षन्ति शुभ्रियः पृञ्चन्तीर्वर्चसा प्रियः । जातं जात्रीर्यथा
हृदा ॥ २ ॥

[सूचना—पद पाठ के लिये—मन्त्र १ देखो] ॥

ताः । अर्षन्ति । शुभ्रियः । पृञ्चन्तीः । वर्चसा । प्रियः ॥
जातम् । जात्रीः । यथा । हृदा ॥ २ ॥

भाषार्थ—(शुभ्रियः) शुद्ध (प्रियः) प्रीति करती हुई (ताः) वे
[वाणियाँ—मन्त्र १] (वर्चसा) प्रकाश के साथ (पृञ्चन्ती,) छूती हुई
[तुभको—मन्त्र १] (अर्षन्ति) ग्रहण करती हैं । (यथा जैसे (जात्रीः)
मातायें (जातम्) जने हुये बच्चों को (हृदा) हृदय से [ग्रहण करती हैं] ॥ २ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को एकाग्र चित्त होकर परमात्मा की उपासना
ऐसी रीति से करनी चाहिये, जैसे माता तुरन्त जनमे बालक से प्रीति करती
है ॥ २ ॥

वज्रापवसाध्यः कीर्तिर्म्रियमाणमावहन् । मह्यमायुर्घृतं पयः ॥ ३ ॥

[सूचना—पदपाठ के लिये—मन्त्र १ देखो] ॥

वज्रापवसाध्यः । कीर्तिः । म्रियमाणम् । आवहन् ॥ मह्यम् ।
आयुः । घृतम् । पयः ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(वज्रापवसाध्यः) शस्त्रों के शोधने वालों [उजले शस्त्र

२—(ताः) गिरः—म० १ (अर्षन्ति) ऋषी गतौ । प्राप्नुवन्ति । ग्रहणन्ति
(शुभ्रियः) अदिशदिभूशुभिभ्यः क्तिन् । उ० ४ । ६५ । शुभ शोभायायाम्—क्तिन्,
ङीप् । शुद्धाः (पृञ्चन्तीः) सम्पर्कं कुर्वन्त्यः (वर्चसा) तेजसा (प्रियः) प्रीम्,
तर्पणे कान्तौ च—क्तिप् । तर्पयिष्यः (जातम्) उत्पन्नं सन्तानम् (जात्रीः)
सर्वधातुभ्यः घृन् । उ० ४ । १५६ । जन लनने—घृन्, ङीष् । जनयिष्यः । जनन्यः
(यथा) (हृदा) हृदये ॥

३—(वज्रापवसाध्यः) वज्र + आ + पूञ् शोधने—अप् । ऋहलोऽर्थत् ।
पा० ३ । १ । १२४ । साध संहि ङी-रयत् । कृत्यत्पुटो बहुलम् । पा० ३ । ३ ।

वालों] की सिद्धि करने वाला, (कीर्तिः) कीर्तिरूप [बड़े ही यश वाला, परमेश्वर] (मह्यम्) मेरे लिये (भ्रियमाणम्) नष्ट होते हुये (आयुः) जीवन, (घृतम्) घी [वा जल] और (पयः) दूध [वा अन्न] को (आवहन्) यथावत् लाता हुआ है ॥ ३ ॥

भावार्थ—जब हम किसी विपत्ति से निर्बल होकर अति दुःखी होवें, तब हम उस जगत् पालक परमात्मा का आश्रय लेकर शस्त्र आदि कर्तव्य ठीक करके कार्य सिद्धि करें ॥ ३ ॥

- सूचना—पं० सेवक लाल कृष्ण दास परिशोधित संहिता के अनुसार इस मन्त्र का यह पाठ है—

उग्राय यशसे धियः कीर्तिमिन्द्रियमा वहान् ।

मह्यमायुर्घृतं पयः ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(यशसः) यशस्वी [परमेश्वर] (उग्राय मह्यम्) मुझ तेजस्वी के लिये (धियः) बुद्धियाँ (कीर्तिम्) कीर्ति [बडाई], (इन्द्रियम्) ऐश्वर्य, (आयुः) जीवन, (घृतम्) घी [वा जल] (पयः) दूध [वा अन्न] (आ) अच्छे प्रकार (वहान्) लावे ॥ ३ ॥

भावार्थ—मनुष्य परमेश्वर का आश्रय लेकर उत्तम विचारों पाकर आवश्यकिय पदार्थ पावे ॥ ३ ॥

मन्त्र ४—६ सूर्यस्य भूमेर्वा गुणोपदेशः—सूर्य वा भूमिके गुणों का उपदेश ॥

११३ । इति कर्तरि प्रत्ययः । साध्याः साधनात्—निरु० ८ । ४० । वज्राणा शस्त्राणाम् । आपवानां संशोधकानां साध्यः साधकः सिद्धिकर्ता (कीर्तिः) दशोरूपः परमेश्वरः (भ्रियमाणम्) विनश्यमानम् (आवहन्) आ समन्ताद् वहन् प्रापयन् वर्तते (मह्यम्) उपासकाय (आयुः) जीवनम् (घृतम्) आज्यं जलं वा (पयः) दुग्धमन्नं वा ॥

३—(उग्राय) तेजस्विने (यशसः) अर्शआद्यच् । यशस्वी परमात्मा (धियः) प्रज्ञा. (कीर्तिम्) यशः (इन्द्रियम्) ऐश्वर्यम् (आ) समन्तात् (वहान्) हेट् । वहेत् । प्रापयेत् (मह्यम्) उपासकाय । अन्यत् पूर्ववत् ॥

आयं गौः पृथिनरऋमीदसदन्मातरं पुरः । पितरं च
प्रयन्त्स्वः ॥ ४ ॥

आ । अयम् । गौः । पृथिनः । अऋमीत् । असदत् । मातरंस् ।
पुरः ॥ पितरंस् । च । प्र-यन् । स्वः ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(अयम्) यह (गौः) चलने वा चलाने वाला, (पृथिनः)
रसों वा प्रकाश का छूने वाला सूर्य (आ अऋमीत्) घूमता हुआ है, (च)
और (पितरम्) पालन करने वाले (स्वः) आकाश में (प्रयन्) चलता हुआ
(पुरः) सम्मुख होकर (मातरम्) सब की बनाने वाली पृथिवी माता को
(असदत्) व्यापा है ॥ ४ ॥

भावार्थ—यह सूर्य अन्तरिक्ष में घूमकर आकर्षण, वृष्टि आदि व्या-
पारों से पृथिवी आदि लोकों का उपकार करता है ॥ ४ ॥

मन्त्र ४—६ आचुके हैं—अ० ६ । ३१ । १—३, वहाँ सविस्तार अर्थ
देखो ॥

अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादपानतः । व्यख्यन्महिषः
स्वः ॥ ५ ॥

अन्तः । चरति । रोचना । अस्य । प्राणात् । अपानतः ॥
वि । व्यख्यत् । महिषः । स्वः ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(प्राणात्) भीतर के श्वास के पीछे (अपानतः) बाहर
को श्वास निकालने हुये (अस्य) इस [सूर्य] की (रोचना) रोचक
ज्योति (अन्तः) [जगत् के] भीतर (चरति) चलती है, और वह (महिषः)
बड़ा सूर्य (स्वः) आकाश को (वि) विविध प्रकार (व्यख्यत्) प्रकाशित
करता है ॥ ५ ॥

भावार्थ—जैसे सब प्राणी श्वास प्रश्वास से जीवित रहकर
चेष्टा करते हैं, वैसे ही सूर्य प्रकाश का ग्रहण और त्याग करके लोकों को
प्रकाशित करता है ॥ ५ ॥

त्रिंशद् धामा वि राजति वाक् पतङ्गो अशिश्रियत् । प्रति
वस्तोरहद्युभिः ॥ ६ ॥

त्रिंशत् । धाम । वि । राजति । वाक् । पतङ्गः । अशिश्रियत् ॥
प्रति । वस्तोः । अहः । व्यु-भिः ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(पतङ्गः) चलने वाला वापेश्वर्य वाला सूर्य (त्रिंशद् धामा)
तीस धामों पर [दिन रात्रि के तीस सुहृत्तों पर] (वस्तोः, अहः) दिन दिन
(व्युभिः) अपनी किरणों और गतियों के साथ (प्रति) प्रत्यक्ष रूप से (वि)
विविध प्रकार (राजति) राज करना वा चमकता है, (वाक्) इस वचन ने
[उस सूर्य में] (अशिश्रियत्) आश्रय लिया है ॥ ६ ॥

भावार्थ—यह बात स्वयं सिद्ध है कि यह सूर्य सर्वदा सब ओर
चमकता रहकर अपनी परिधि के सब लोकों को गमन, आकर्षण, विकर्षण,
वृष्टि, शीत, ताप आदि द्वारा स्थिर रखता है ॥ ६ ॥

सूक्तम् ४८ ॥

१-७ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १-३ गायत्री; ४ पथ्या वृहती; ५, ७ सत-
पङ्क्तिः, ६ निचृद् वृहती छन्दः ॥

ईश्वरोपासनोपदेशः—ईश्वर की उपासना का उपदेश ॥

यच्छुक्रा वाचुमारुहन्तृन्तरिक्षं सिषासथः । सं देवा अमदन्
वृषा ॥ १ ॥

[सूचना—मन्त्र १-३ ऋग्वेद आदि अन्य वेदों में नहीं है, और इन
का पदपाठ भी गवर्नमेन्ट बुकडिपो घम्बर्ड के पुस्तक में नहीं है, आगे
सूचना—सूक्त ४८ मन्त्र १-३ देखो ॥]

यत् । शुक्राः । वाचुस् । आरुहन् । अन्तरिक्षम् । सिषासथः ॥
सम् । देवाः । अमदन् । वृषा ॥ १ ॥

भाषार्थ—(यत्) जब (वृषा) बलवान् परमेश्वर (सिषासथः)

१—(यत्) यदा (शुक्राः) समर्थः (वाचुः) वाणीम् (आरुहन्)

दान को इच्छा करने वाला [इन्द्र] [तव] (शक्राः) समर्थ (देवाः) विद्वानों ने (वाचम्) वाणी [वद वाणी] को (अन्तरिक्षम्) हृदय आकाश में (आरुहन्) बोया और (सम्) ठीक रीति से (अमदन्) आनन्द पाया ॥ १ ॥

भावार्थ—परमात्मा को दी हुयी वेदवाणी को पाकर विद्वान् लोग समर्थ होकर आनन्द पावें ॥ १ ॥

सूचना—पं० सेवक लाल कृष्णदास परिशोधित संहिता में इस मन्त्र का यह पाठ है—

यच्छुक्रं वाच आरुहन्न्तरिक्षं सिषासतीः ।

सं देवो अमदुह वृषा ॥ १ ॥

भाषार्थ—(यत्) जब (अन्तरिक्षम्) हृदय आकाश को (सिषासतीः) सेवने की इच्छा करती हुई (वाचः) वाणियां (शक्रम्) समर्थ [जीव] को (आरुहन्) प्रकट हुई, [तव] (देवः) विजय चाहने वाले (वृषा) बलवान् पुरुष ने (सम्) ठीक ठीक (अमदत्) आनन्द पाया ॥ १ ॥

भावार्थ—जब मनुष्य हृदय के भाव प्रकट करने के लिये परमेश्वर नियम से बोलने की शक्ति पाता है, तब वह व्यवहारों की सिद्धि करके सुखी होना है ॥ १ ॥

शुक्रो वाचमधृष्टायैरुवाचो अधृष्णुहि । संहिष्ठु आ मदुर्दिवि

[सूचना—पदपाठ के लिये मन्त्र १ देखो] ॥

शुक्रः । वाचम् । अधृष्टाय । उरुवाचः । अधृष्णुहि ॥

वीजवत् स्थापितवन्तः (अन्तरिक्षम्) हृदयाकाशं प्रति (सिषासयः) शोङ्-शोपिरुगमि० । उ० ३।११३ । पणु दाने—सनि अधप्रत्ययः । दानेरुक्कः—आमीत् इति शेषः । (सम्) सम्यक् (देवाः) विद्वान्सः (अमदन्) आनन्दं प्राप्नुवन् (वृषा) बलिष्ठः परमेश्वरः ॥

१—(यत्) यदा (शक्रम्) समर्थं जीवम् (वाचः) वाणयः (आरुहन्) प्रादुरभवन् (अन्तरिक्षम्) हृदयाकाशम् (सिषासतीः) पणु सम्भक्तौ, सन्, शत्, डीप् । सेवितुमिच्छन्त्यः (सम्) सम्यक् (देवः) विजिगीषुः (अमदत्) हर्षं प्राप्नुवन् (वृषा) बलवान् पुरुषः ॥

मंहिष्ठः । आ । मदद्दिवि ॥ २ ॥

भाषार्थ—[हे विद्वान् ।] (शक्रः) शक्तिमान् तू (उरुवाचः) बहुत बड़ी वाणी वाले [परमेश्वर] की (वाचम्) वाणी को (अधृष्टाय) डरे हुये पुरुष के लिये (अधृष्टुहि) मन शक्तिहीन कर । वइ [परमेश्वर] (मदद्दिवि) दीनता जोनने में (आ) सब ओर से (मंहिष्ठः) अत्यन्त उदार है ॥ २ ॥

भावार्थ—विद्वान् पुरुष दीन होन पुरुषों के सुधार के लिये संकोच छोड कर शक्तिमती वेदवाणी का उपदेश करें, क्योंकि परमात्मा उद्योगी के लिये महादानी है ॥ २ ॥

सूचना—पं० सेवक लाल कृष्णादास परिशोधित संहिता, में इस मन्त्र का यह पाठ है—

शुक्रं वाचाभिष्टुहि घोरं वाचाभिष्टुहि ।

मंहिष्ठः आ मदद्दिवि ॥ २ ॥

भाषार्थ—[हे विद्वान् ।] (वाचा) वाणी से (शक्रम्) शक्तिमान् [परमेश्वर] की (अभिष्टुहि) सब ओर से बड़ाई कर, (वाचा) वाणी । से (घोरम्) भयङ्कर [विघ्ननाशक] की (अभिष्टुहि) सब प्रकार स्तुति कर । (मंहिष्ठः) वह अत्यन्त उदार (दिवि) जीतने की इच्छा में (आ) सब ओर से (मदत्) आनन्द दाता है ॥ २ ॥

२—(शक्रः) शक्तिमांस्त्वम् (वाचम्) वाणीम् (अधृष्टाय) अधृष्टाय प्रागल्भ्ये—क्त । अप्रगल्भाय । भयभीताय (उरुवाचः) विस्तीर्णवाणीयुक्तस्य परमेश्वरस्य (अधृष्टुहि) नञ् + धृष शक्तिबन्धे—लोट् । नञ् । पा० २ । २ । ६ । इति नञ् तत्पुरुषसमासः । नञो नलोपस्तिङ्क्षेपे । वा० । पा० २ । २ । ६ । तिङ्गा सह समासे नञो नलोपः । शक्तिहीनां मा कुरु (मंहिष्ठः) अतिशयेन दाता (आ) समन्तात् (मदद्दिवि) प्राततेररन् ७० ५ । ५६ । मदी हर्षग्लेपनयोः—अरन्, ग्लेपन।दैन्यम् + दिवु विजिगीषायाम्—डिवि । दैन्यस्य विजिगीषायाम् ॥

२—(शक्रम्) शक्तिमन्तं परमात्मानम् (वाचा) वाचया (अभिष्टुहि) सर्वतः प्रशंस (घोरम्) भयङ्करम् । विघ्ननाशकम् (वाचा) (अभिष्टुहि) (मंहिष्ठः) अतिशयेन दाता (आ) समन्तात् (मदत्) सर्वचतृपद्वेहत् । ७०२ । ८५ । मदी तर्पणे—प्रतिप्रत्ययः । आनन्दयिता (दिवि) विजिगीषायाम् ॥

भावार्थ—मनुष्य अनेक विचार्यै प्राप्त कर के जगदीश्वर परमात्मा के गुणों का ग्रहण करके संसार में विजयी होकर सुख पावे ॥ २ ॥

शुक्रो वाचुमधृष्णुहि धामधर्मन् वि राजति । विमदन्
बृहिरासरन् ॥ ३ ॥

[सूचना—पदपाठ के लिये मन्त्र १ देखो] ॥

शुक्रः । वाचुम् । अधृष्णुहि । धाम । धर्मन् । वि । राजति ॥
विमदन् । बृहिः । आसरन् ॥ ३ ॥

भाषार्थ—[हे मनुष्य !] (शुक्रः) शक्तिमान् तू (वाचुम्) वाणी [वेदवाणी] को (अधृष्णुहि) मत शक्तिहीन कर, वह [परमात्मा] (विमदन्) विशेष रीति से आनन्द करता हुआ, (बृहिः) उत्तम आसन (आसरन्) पाता हुआ (धाम) धाम धाम [जगद् जगद्] और (धर्मन्) धर्म धर्म [प्रत्येक धारण करने योग्य कर्तव्य व्यवहार] में (वि राजति) विराजता है ॥ ३ ॥

भावार्थ—समर्थ विद्वान् पुरुष वेदवाणी के उपदेश से शक्ति बढ़ावे, वह आनन्द स्वरूप परमात्मा अन्तर्यामी होकर सब को शक्ति देता है ॥ ३ ॥

सूचना—प० सेवकलाल कृष्णदास परिशोधित संहिता में इस मन्त्र का वह पाठ है—

शुक्रं वाचाभि ष्टुहि धामन्धामन् विराजति ।
विमदन् बृहिरा सन् ॥ ३ ॥

भाषार्थ—[हे मनुष्य !] (वाचा) वाणी से (शुक्रम्) शक्तिमान् [परमेश्वर] की (अभि ष्टुहि) सब ओर से बढ़ाई कर, वह [परमात्मा] (विमदन्)

३—(शुक्रः) शक्तिमास्त्वम् (वाचुम्) वेदवाणीम् (अधृष्णुहि) म०२ । शक्तिहीनां मा कुरु (धाम) धाम्नि धाम्नि । प्रत्येकस्थाने (धर्मन्) धर्मणि धर्मणि । प्रत्येकधारणीये कर्तव्ये व्यवहारे (वि) विविधम् (राजति) शोभते (विमदन्) विशेषेण हृष्यन् (बृहिः) उत्तमासनम् (आसरन्) प्राप्नुवन् ॥

४—(शुक्रम्) शक्तिमन्तं परमात्मानम् (वाचा) (अभि ष्टुहि) (धाम)

विशेष रीति से आनन्द करता हुआ (बर्हिः) उत्तम आसन पर (आ सदन) बैठा हुआ (धामन्धामन्) धाम धाम [जगह जगह] में (वि राजति) विराजता है ॥ ३ ॥

भाषार्थ—मनुष्य घट घट वासी परमात्मा को सदा ध्यान रख कर अपनी अवस्था सुधारता रहे ॥ ३ ॥

तं वो द्दस्मसृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धसः । अग्नि वृत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीर्भिर्नवासहे ॥ ४ ॥

तम् । वः । द्दस्मस् । ऋति-सहम् । वसोः । मन्दानम् । अन्धसः ॥ अग्नि । वृत्सम् । न । स्वसरेषु । धेनवः । इन्द्रम् । गीः-भिः । नवासहे ॥ ४ ॥

भाषार्थ—[हे मनुष्यो !] (वः) तुझारे लिये (तम्) उस (द्दस्मस्) दर्शनीय, (ऋतिषहम्) शत्रुओं के हराने वाले, (वसोः) धन से और (मन्धसः) अन्न से (मन्दमानम्) आनन्द देने वाले (इन्द्रम्) इन्द्र [परम पेश्वर्य वाले परमात्मा] को (गीर्भिः) वाणियों से (अग्नि) सब प्रकार (नवासहे) हमें सराहते हैं, (न) जैसे (धेनवः) गौयें (स्वसरेषु) घरों-में [वर्तमान] (वृत्सम्) बछड़े को [हिङ्गुकारती हैं] ॥ ४ ॥

भाषार्थ—जो परमात्मा अनेक धन और अन्न आदि देकर हमें तृप्त करता है, उसे ऐसी प्रीति से हम स्मरण करें, जैसे गौयें दोहने के समय घर में बंधे छोटे बच्चों को पुकारती हैं ॥ ४ ॥

मन्त्र ४-७ ऊपर आचुके हैं—अ० २०।६।१-४ ॥

द्यूक्षं सुदानुं तविषीभिरावृतं गिरिं न पुरुभीजसम् । क्षुमन्तं वाजं श्रुतिर्न सहस्त्रिणां सुक्षू गोमन्तमीमहे ॥ ५ ॥

धामन्) । धामनि धामनि । प्रत्येकस्थाने (वि) विशेषेण (राजति) शोभते (विमदन्) विशेषेण हृष्यन् (बर्हिः) उत्तमासनम् (आ सदन) आतिष्ठन् ॥

४-७ । एते मन्त्रा व्याख्याताः—अ० २०।६।१-४ ॥

द्युत्तम् । सु-दानुम् । तविषीभिः । आ-वृतम् । गिरिम् । न ।
पुरु-भोजसम् ॥ क्षु-मन्तम् । वाजम् । श्रुतिनम् । सहस्त्रिणम् ।
मक्षु । गो-मन्तम् । ई-महे ॥ ५ ॥

भाष्यार्थ—(द्युत्तम्) व्यवहारों में गति वाले, (सुदानुम्) बड़े दानी,
(तविषीभिः) सेनाओं से (आवृतम् , भरपूर, (गिरिम् न) मेघ के समान
(पुरुभोजसम्) बहुत पालन करने वाले, (क्षुमन्तम्) अन्न वाले, (वाजम्)
बल वाले, (श्रुतिनम्) सैकड़ों उच्चम पदार्थों वाले, (सहस्त्रिणम्) सहस्रों
श्रेष्ठ गुण वाले, (गोमन्तम्) उच्चम गौओं वालों [शर पुरुष] को (मक्षु)
शीघ्र [इन्द्र परमात्मा से] (ईमहे) हम मांगते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ—मनुष्य परमात्मा से प्रार्थना करके प्रयत्न करें कि वे अपने
सन्तानों अधिकारियों और प्रजाजनों सहित शर धीर होकर व्यवहार कुशल
होवें ॥ ५ ॥

तत् त्वां यामि सुवीर्यं तद् ब्रह्मं पूर्वचित्तये । येन यतिभ्यो
भृगवे धने हि ते येन प्रस्कण्वसाविथ ॥ ६ ॥

तत् । त्वा । यामि । सु-वीर्यम् । तत् । ब्रह्मं । पूर्व-चित्तये ॥
येन । यति-भ्यः । भृगवे । धने । हि ते । येन । प्रस्कण्वम् ।
आविथ ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ—[हे परमात्मन् !] (त्वा) तुझ से (तत्) वह (सुवीर्यम्)
बड़ा वीरत्व और (तत्) वह (ब्रह्म) बढ़ता हुआ अन्न (पूर्वचित्तये) पहिले
ज्ञान के लिये (यामि) मैं मांगता हूँ । (येन) जिस [वीरत्व और अन्न] से
(धने हिते) धन के स्थापित होने पर (यतिभ्यः) यतियों [यज्ञशीलों]
के लिये (भृगवे=भृगुम्) परिपक्व ज्ञानी को और (येन) जिस से (प्रस्कण्वम्)
बड़े बुद्धिमान् पुरुष को (आविथ) तू ने बचाया है ॥ ६ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को परमात्मा की उपासना कर के पुरुषार्थ के साथ
पराक्रमी, अन्नवान् और धनी होना चाहिये, जिसके अनुकरण-से प्रयत्न शील
पुरुष सुरक्षित रहें ॥ ६ ॥

सू० ५० [६३८] विश्वं काण्डम् ॥ २० ॥ (४, ११५)

येनां समुद्रमसृजो महीरुपस्तदिन्द्र वृष्णि ते शवः । सद्यः सो
अस्य महिमा न संनशे यं क्षीणीरनुचक्रुदे ॥ ७ ॥

येन । समुद्रम् । असृजः । महीः । अपः । तत् । इन्द्र ।
वृष्णि । ते । शवः ॥ सद्यः । सः । अस्य । महिमा । न ।
सम्-नशे । यम् । क्षीणीः । अनु-चक्रुदे ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(येन) जिस [वल] से (समुद्रम्) समुद्र में (महीः)
शक्ति वाले (अपः) जलों को (असृजः) तू ने उत्पन्न किया है, (इन्द्र)
हे इन्द्र ! [परम पेश्वर्यवान् जगदीश्वर] (तत्) वह (ते) तेरा (वृष्णि)
पराक्रम युक्त (शवः) बल है । (सद्यः) अभी (अस्य) उस [परमात्मा] की
(सः) वह (महिमा) महिमा [हम से] (न) नहीं (संनशे) पाने योग्य
है, (यम्) जिस [परमात्मा] को (क्षीणीः) लोकों ने (अनुचक्रुदे)
निरन्तर पुकारा है ॥ ७ ॥

भाषार्थ—जिस परमात्मा ने मेघमण्डल में और पृथिवी पर
जलादि पदार्थ और सब लोकों को उत्पन्न करके अपने वश में रक्खा है,
उस की महिमा की सीमा को सृष्टि में कोई भी नहीं पा सकता ॥ ७ ॥

सूक्तम् ५० ॥

१—२ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ आप्यनुष्टुप्, २ सतः पङ्क्तिः ॥

परमेश्वरस्य महिमोपदेशः—परमेश्वर की महिमा का उपदेश ॥

कन्न वयो अतुसीनां तुरो गृणीतु मर्त्यैः । नही न्वस्य महिमा-
नेमिन्द्रियं स्वर्गुणान्तं आनुशुः ॥ १ ॥

कत् । नव्यः । अतुसीनाम् । तुरः । गृणीतु । मर्त्यैः ॥ नहि ।

नु । अस्य । महिमानम् । इन्द्रियम् । स्वः । गुणान्तः ।

आनुशुः ॥ १ ॥

भाषार्थ—(अतसीनाम्) सदा चलती हुई [सृष्टियों] के (तुरः) वेग देने वाले [परमात्मा] के (नव्यः) अधिक नवीन कर्म को (मर्त्यः) मनुष्य (कत्) कैसे (गृणीत) बता सके ? (तु) क्या (अस्य) उस की (महिमानम्) महिमा और (इन्द्रियम्) इन्द्रपन [परम ऐश्वर्य] को (गृणन्तः) वर्णन करते हुये पुरुषों ने (स्वः) आनन्द (नहि) नहीं (आनशुः) पाया है ॥ १ ॥

भाषार्थ—यद्यपि अल्पज्ञ मनुष्य सब सृष्टियों के चलाने वाले जगदीश्वर के अनन्त गुणों को नहीं जान सकता, तो भी वह उसको महिमा और परम ऐश्वर्य को विचारते विचारते और पुरुषार्थ करते करते अवश्य आनन्द पाया है ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—८। ३। १३, १४ ॥

कदु॑ स्तुवन्त॑ ऋतयन्त॑ देवतु॑ ऋषिः॑ को विप्र॑ ओहते । कदा॑ हव॑ सधवन्निन्द्र॑ सुन्व॑तः॑ कदु॑ स्तुव॑त आ ग॑मः ॥ २ ॥

कत् । ज॒ इति॑ । स्तुवन्तः॑ । ऋत॒-यन्तु॑ । देवता॑ । ऋषिः॑ ।
कः । विप्रः॑ । ओह॑ते ॥ कदा॑ । हव॑स् । सध॒-वन् । इन्द्र॑ ।
सुन्व॑तः । कत् । ज॒ इति॑ । स्तुव॑तः । आ । ग॒मः ॥ २ ॥

भाषार्थ—(कत् उ) कैसे ही (स्तुवन्तः) स्तुति करने वाले लोगों ने

१—(कत्) कथम् (नव्यः) अ० २० । ३६ । ७ । नवीयः । नवतरं कर्म (अतसीनाम्) अत्यविचमितमि० । उ० ३ । ११७ । अत सातत्यगमने—असच्, गौरादित्वाद् डीष् । संततगामिनीनां सृष्टीनाम् (तुरः) तुर वेगे—क्लिप् । प्रेरकस्य परमेश्वरस्य (गृणीत) गृ विजापे—लिङ् । गारेयेत । वर्णयेत (मर्त्यः) मनुष्यः (नहि) न कदापि (तु) प्रश्ने (अस्य) परमेश्वरस्य (महिमानम्) महस्वम् (इन्द्रियम्) इन्द्रलिङ्गम् । परमैश्वर्यम् (स्वः) सुखम् (गृणन्तः) स्तुवन्तो जनाः (आनशुः) अश्नोतेर्लिटि परस्मैपदं छिन्दसम् । प्रापुः ॥

२—(कत्) कथम् (उ) पध (स्तुवन्तः) स्तुतिं कुर्वन्तः (ऋतयन्त) सुप आत्मनः पधच् । पा० ३ । १ । ८ । ऋत—पधच्, आत्मनेपदत्वम्, ईत्त्व दीर्घा

(ऋतयन्त) मत्स्य धर्म को चाहा है ? (देवता) विद्वानों में (कः) कौन (ऋषिः) ऋषि [धर्म का साक्षात् करने वाला], (विप्र) बुद्धिमान् पुरुष (ओदते) सव प्रकार से विचार करे ? (मघवन्) हे, अति पूजनीय ! (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले परमात्मन्] (सुन्वन्) तत्त्व निबोधने वाले, (स्तुवतः) स्तुति करने वाले को (हवम्) पुकार को (कदा) कब और (कन्) कैसे (उ) निश्चय कर के (आ) सव प्रकार से (गमः) तू पहुंचा है ॥ २ ॥

भावार्थ—जब ऋषि महात्मा भी परमात्मा को ठीक ठीक नहीं पहुंचते, तौ हम अल्पज्ञ होकर उस तक कैसे पहुंचे ? हम ऐसी शक्का करने लगते हैं । परन्तु परमात्मा अपनी शक्तिमत्ता से अपने भक्तों की पुकार सदा सुनता है, यह लोच कर हम अवश्य उस ते लिये पुरुत्रार्थ करें ॥ २ ॥

भगवान् यास्कमुनि ने कहा है—धर्म के साक्षात् करने वाले ऋषि हुये, उन्होंने ने छोटो, धर्म के साक्षात् न करने वालों को उपदेश द्वारा मन्त्र दिये थे—निरु० १ । २० ॥

सूक्तम् ५१ ॥

१—४ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ पथ्या बृहती, २ आर्षी पङ्क्तिः ३ निचृत् पथ्या बृहती; ४ सतः पङ्क्तिः ॥

परमेश्वरोपासनोपदेशः—परमेश्वर की उपासना का उपदेश ॥

अभि प्र वः सुरार्धसुमिन्द्रमर्च यथा विदे । यो जरितृभ्यो मघवा पुरुवसुः सुहस्रेणोवु शिक्षति ॥ १ ॥

भावोऽहभावश्च च्छान्दसः । अर्तीयन् । ऋतंसत्यधर्ममैच्छन् (देवता) देवतासु । विद्वत्सु (ऋषिः) मन्त्रार्थद्रष्टा । ऋषिर्दर्शनात्—निरु० १ । ११ । साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो वसूवुस्तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रा न्तसंप्रादुः—निरु० १ । २० (कः) (विप्रः) मेधावी (ओदते) समन्ताद्बृहते तर्कयति (कदा) कस्मिन् काले (हवम्) आह्वानम् (मघवन्) । हे बहुपूजनीय (इन्द्र) परमेश्वर्यवन् परमात्मन् (सुन्वतः) तत्त्वरस संस्कुर्वतः (कत्) कथम् (उ) एव (स्तुवतः) स्तुतिं कुर्वतः पुरुषस्य (आ) समन्तात् (गमः) अगमः । प्राप्तवानसि ॥

अभि । प्र । वः । सु-राधसम् । इन्द्रम् । अर्च । यथा ।
विदे ॥ यः । जरितृभ्यः । मघ-वा । पुरु-वसुः । सहस्रेण-इव ।
शिक्षति ॥ १ ॥

भाषार्थ—[हे विद्वान् ।] (सुराधसम्) सुन्दर धनों के देने वाले
(इन्द्रम्) इन्द्र [वडे ऐश्वर्य वाले परमेश्वर] को (अभि) सब ओर से (प्र)
अच्छे प्रकार (वः) स्वीकार कर ओर (यथा) जैसा (विदे) वह है
[वैसा उसे] (अर्च) पूज । (यः) जो (मघवा) पूजनीय, (पुरुवसुः) बड़ा
धनी [परमेश्वर] (जरितृभ्यः) स्तुति करने वालों को (सहस्रेण इव)
सहस्र प्रकार से (शिक्षति) देता है ॥ १ ॥

भावार्थ—जिस परमात्मा ने हमें अनेक सुख दिये हैं, उस के गुणों को
मनुष्य यथावत् जानकर उसकी सदा उपासना करे ॥ १ ॥

मन्त्र १, २ ऋग्वेद में हैं—८ । ४६ । १, २ [सायणभाष्य, परिशिष्ट,
वालखिल्य १ । १, २] । सामवेद—उ० २ । १ । १३ तथा मन्त्र १ पू० ३ । ५ । ३ ॥

शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे ।

गिरेरिव प्रा रसा अस्य पिन्वरे दत्राणि पुरुभोजसः ॥ २ ॥

शतानीका-इव । प्र । जिगाति । धृष्णु-या । हन्ति । वृत्राणि

दाशुषे ॥ गिरेः-इव । प्र । रसाः । अस्यु । पिन्वरे । दत्राणि ।

पुरु-भोजसः ॥ २ ॥

१—(अभि) सर्वतः (प्र) प्रकर्षेण (वः) वृञ् वरणे स्वीकरणे—
लोडर्थे लुङ् । मन्त्रे घस० । पा० २ । ४ । ८० । च्लेर्लुक् । बहुलं छन्दस्य-
माङ्गयोगेऽपि । पा० ६ । ४ । ७५ । अडभावः । वृणु । स्वीकुरु (सुराधसम्)
सु शोभनानि राधांसि धनानि यस्मात् तम् । बहुधनदातारम् (इन्द्रम्)
परमैश्वर्यवन्तं परमात्मानम् (अर्च) पूजय (यथा) येन प्रकारेण (विदे)
अ० २० । २२ । ४ । विद्यते सः (यः) परमेश्वरः (जरितृभ्यः) स्तोतृभ्यः
(मघवा) पूजनीयः (पुरुवसुः) प्रभूतधनः (सहस्रेण) बहुप्रकारेण (इव)
पादपूरणः (शिक्षति) ददाति—निघ० ३ । २० ॥

भाषार्थ—(शतानीका इव) सैकड़ों सेना वाले [सेनापति] के समान (धृष्णुया) निर्भय [परमेश्वर] (प्र जिगाति) आगे बढ़ता है और (वृत्राणि) शत्रुओं को (दाशुषे) दाना [आत्मदानी उपासक] के लिये (हन्ति) मारता है । (गिरेः) पहाड़ से (रसाः इव) जलों के समान (अस्य) हल (पुरुभोजन) बहुत भोजन वाले, [परमेश्वर] के (दत्राणि) दानों को (प्र पिन्विरे) सींचते रहते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ—मनुष्य परमात्मा में आत्म समर्पण कर के धन धान्य आदि बढ़ा कर आनन्द भोगें ॥ २ ॥

प्र सु श्रुतं सुरार्धसमर्चा शक्रसुभिष्टये । यः सुन्वते स्तुवते काम्यं वसुं सुहस्रैरेव मंहते ॥ ३ ॥

प्र । सु । श्रुतम् । सु-रार्धसम् । अर्चं । शक्रसु । अभिष्टये ॥ यः । सुन्वते । स्तुवते । काम्यम् । वसुं । सुहस्रैरेव-इव । मंहते ॥३॥

भाषार्थ—(सु श्रुतम्) बड़े विख्यात, (सुरार्धसम्) सुन्दर धनोके देने वाले, (शक्रम्) शक्तिमान् [परमेश्वर] को (अभिष्टये) अभीष्ट सिद्ध के लिये (प्र अर्च) अच्छे प्रकार पूज । (यः) जो [परमात्मा] (सुन्वते)

२—(शतानीका) विभक्तेराकारः । शतान्यनेकानि सेनादलानि यस्य स शतानीकः सेनापतिः (इव) यथा (प्र) (जिगाति) गच्छति—निघ० २ । १४ (धृष्णुया) सुगां सुलुक् । पा० ७ । १ । ३६ । विभक्तेर्याच । धृष्णुः । निर्भयः परमेश्वरः (हन्ति) नाशयति (वृत्राणि) आवरकान् । शत्रून् (दाशुषे) आत्मसमर्पकाय जनाय (गिरेः) पर्वतात् (इव) यथा (प्र) (रसाः) जलानि (अस्य) (पिन्विरे) पिवि प्रीणने सेचने च—लडर्थे लिट् । सिञ्चन्ति (दत्राणि) अमिच्चिमिशसिभ्यः क्त्रः । उ० ४ । १६४ । डु दाञ् दाने—क्त्र । दो दद् घोः । पा० ७ । ४ । ४६ । इति दद्भावः, यद्वा । दद् दाने—क्त्र । दानानि (पुरुभोजनः) बहुभोजनयुक्तस्य ॥

३—(प्र) प्रकर्षेण (सु) सुष्ठु (श्रुतम्) विख्यातम् (सुरार्धसम्) म० १ । बहुधनदातारम् (अर्च) (शक्रम्) शक्तिमन्तम् (अभिष्टये) अभीष्ट-सिद्धये (यः) परमेश्वरः (सुन्वते) तद्वं संस्कुर्वते (स्तुवते) स्तुतिं कुर्वते

तत्त्व निचोड़ने वाले, (स्तुत्रते) स्तुति करने वाले को (काम्यम्) मन भावना (वसु) धन (सहस्रेण इव) सहस्र प्रकार से (मंहते) देता है ॥ ३ ॥

भाषार्थ—परमात्मा अपने अनन्त भण्डार से अपने सेवकों की कामनायें पूरी करता है ॥ ३ ॥

मन्त्र ३, ४ ऋग्वेद में है—८ । ५० । १, २ [सायणभाष्य परिशिष्ट, वाल्मिल्य] । १, २ ॥

शुतानीका हेतयो अस्य दुष्टरा इन्द्रस्य समिषो महीः ।

गिरिर्न भुजमा मघवत्सु पिन्वते यदी सुता अमन्दिषुः ॥ ४ ॥

शुत-अनीकाः । हेतयः । अस्य । दुस्तराः । इन्द्रस्य । सु-इषः ।

महीः ॥ गिरिः । न । भुजमा । मघवत्-सु । पिन्वते ।

यत् । ईम् । सुताः । अमन्दिषुः ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(अस्य) इस (इन्द्रस्य) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले परमात्मा] की (महीः) पूजनीय (समिषः) यथावत् इच्छायें (शतानीकाः) सैकड़ों-सेना दलों में वर्तमान (हेतयः) वाणों के समान (दुष्टराः) दुस्तर [अजेय] हैं । (गिरिः न) मेघ के समान, वह [परमात्मा] (भुजमा) भोग्य पदार्थों को (मघवत्सु) गति वालों पर (पिन्वते) सींचता है, (यत्) जबकि (सुताः) पुत्र [के-समान उपासक] (ईम्) प्राप्ति योग्य [परमेश्वर] को (अमन्दिषुः) प्रसन्न कर चुकें ॥ ४ ॥

(काम्यम्) कामनीयम् । मनोहरम् (वसु) धनम् (सहस्रेण इव) म० १ (मंहते) ददाति—निघ० ३ । २० ॥

४—(शतानीकाः) शतेषु सैन्येषु वर्तमाना यथा (हेतयः) वाणाः (अस्य) (दुष्टराः) दुःखेन तरणीयाः । अजेयाः (इन्द्रस्य) परमेश्वरस्य (समिषः) सम्यग् इच्छाः (महीः) महत्यः (गिरिः) मेघः—निघ० १ । १० (न) यथा (भुजमा) इषियुधीन्धि० । उ० १ । १४५ । भुज पालनाभ्यवहारयोः—अक् । भुजानि । भोग्यवस्तूनि (मघवत्सु) मघ मघी गतौ आरभे च—अच् । गतिमत्सु । वयोनिषु (पिन्वते) सिञ्चति (यत्) यदा (ईम्) ई गतिकाभ्यादिषु—किप् । प्रातर्ब्य परमेश्वरम् (सुताः) पुत्रा इवोपसकाः (अमन्दिषुः) प्रसन्नं कृतवन्तः ॥

भावार्थ—परमात्मा की अनन्त शक्तियां दुष्टों वा दोषों को इस प्रकार नाश करती हैं, जैसे बड़े सेनापति के हथियार । और जो उद्योगी उपासक उसकी आज्ञा मानते हैं, उन को वह मेह के समान अवश्य अत्यन्त सुख देता है ॥ ४ ॥

सूक्तम् ५२ ॥

१—३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ पथ्या बृहती ॥

परमात्मोपासनापदेशः—परमात्मा की उपासना का उपदेश ॥

वयं घ त्वा सुतावन्तु आपो न वृक्तवर्हिषः ।

पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहुन् परि स्तोतार आसते ॥ १ ॥

वयम् । घ । त्वा । सुत-वन्तः । आपः । न वृक्त-वर्हिषः ॥

पवित्रस्य । प्र-स्रवणेषु । वृत्र-हुन् । परि । स्तोतारः । आसते १

भाषार्थ—(वृत्रहुन्) हे शत्रुनाशक ! [परमात्मन्] (सुतवन्तः) तत्त्व के धारण करने वाले, (वृक्तवर्हिषः) हिंसा त्यागने वाले [अथवा वृद्धि पाने वाले विद्वान्], (स्तोतारः) स्तुति करने वाले (वयम्) हम लोग (घ) निश्चय करके (त्वाम्) तुझ को (परि आसते) सेवते हैं, (पवित्रस्य) शुद्ध स्थान के (प्रस्रवणेषु) झरनों में (आपः न) जैसे जल [ठहरते हैं] ॥ १ ॥

भावार्थ—तत्त्वग्राही विद्वान् लोग उस परमात्मा के ही ध्यान में शान्ति पाते हैं, जैसे बहता हुआ पानी शुद्ध चौरस स्थान में आकर ठहर जाता है ॥१॥

यह तृच ऋग्वेद में है—८ । ३३ । १-३ ; सामवेद उ० २ । २ । तृच १२ और आगे है—अथर्व० २० । ५७ । १४-१६, तथा मन्त्र १ साम० पू० ३ । ७ । ६ ॥

१—(वयम्) उपासकाः (घ) एव (त्वा) त्वाम् (सुतवन्तः) तत्त्वस्य धारकाः (आपः) जलानि (न) यथा (वृक्तवर्हिषः) वृजी वर्जने-क्त । श्वीदितो निष्ठायाम्—इदं प्रतिषेधः । वृहेर्नलोपश्च । उ० २ । १०६ । बर्हि परिभाषणहिंसाच्छा-दनेषु—इति यद्वा वृक्त आदाने—क्त + वृहि वृद्धौ—इति, नलोपः । त्यक्तहिंसाः । प्राप्तवृद्धयः । ऋत्विजः—निघ० ३ । १८ (पवित्रस्य) शुद्धदेशस्य (प्रस्रवणेषु) निर्भरेषु (वृत्रहुन्) हे शत्रुनाशक (परि) सर्वतः (स्तोतारः) स्तावकाः (परि आसते) उत्तमपुरुषस्य प्रथमपुरुषः । उपास्महे । सेवामहे ॥

स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः ।

कदा सुतं तृषाण ओक् आ गम् इन्द्रं स्वब्दीव वंसगः ॥२॥

स्वरन्ति । त्वा । सुते । नरः । वसो इति । निरेके । उक्थिनः ॥

कदा । सुतम् । तृषाणाः । ओकः । आ । गम् । इन्द्रं ।

स्वब्दी-इव । वंसगः ॥ २ ॥

भावार्थ—(वसो) हे श्रेष्ठ । [परमात्मन्] (उक्थिनः) कहने योग्य वचनों वाले (नरः) नर [नेता लोग] (निरेके) निःशङ्क स्थान में (सुते) सार पदार्थ के निमित्त (त्वा) तुझ को (स्वरन्ति) पुकारते हैं—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन्] (कदा) कब (तृषाणः) व्यासे [के समान] तू (सुतम्) पुत्र को (ओकः) घर में (आ गमः) प्राप्त होगा, (स्वब्दी इव) जैसे सुन्दर जल देने वाला मेघ (वंसगः) सेवनीय पदार्थों का प्राप्त कराने वाला [होता है] ॥ २ ॥

भावार्थ—जब मनुष्य सार पदार्थ पाने के लिये परमात्मा की भक्ति निर्भय होकर करता है, परमात्मा उस को इस प्रकार चाहता है जैसे व्यास जल को, और जगदीश्वर इस प्रकार उस का उपकार करता है, जैसे सूखा के पीछे मेघ आनन्द देता है ॥ २ ॥

कण्वेभिर्धृष्णवा धुषहू वाजं दर्षि सहस्त्रिणाम् ।

पिशङ्गरूपं मघवन् विचर्षणे मुक्षू गोमन्तमीमहे ॥ ३ ॥

२—(स्वरन्ति) शब्दायन्ते । आह्वयन्ति (त्वा) त्वाम् (सुते) सार-पदार्थनिमित्ते (नरः) मनुष्याः (वसो) हे श्रेष्ठ (निरेके) रेक शङ्कायाम्—अच् । निःशङ्कस्थाने (उक्थिनः) वक्तव्यवचनोपेताः (कदा) (सुतम्) पुत्रम् (तृषाणः) युधिवुधिदशः किञ्च । उ० २ । ६० । जि तृषा पिपासा-याम्—आनच्, कित् । पिपासुरिव (ओकः) गृहम् (आ गमः) आगच्छेः (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवन् परमात्मन् (स्वब्दी) सु + अप् + ददातेः—क, स्वब्द—इति । सु शोभनानाम् अषां जलानां दानवान् मेघः (इव) यथा (वंसगः) अ० १८ । ३ । ३६ । वन संसर्गै—सप्रत्ययः + गमयतेर्ङः । सेवनीय-पदार्थानां प्रापयिता ॥

करवेभिः । धृष्णो इति । आ । धृषत् । वाजम् । दर्षि ।
सहस्त्रिणम् ॥ पिशङ्ग-रूपम् । मघ्न-वन् । वि-चर्षणे । मत्सु ।
गो-मन्तम् । ई-महे ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(धृष्णो) हे निर्भय । [परमात्मन्] (धृषत्) दृढ़ता से
(करवेभिः) बुद्धिमानों करके [क्रिये दृये] (सहस्त्रिणम्) सहस्रों आनन्द
वाले (वाजम्) वेग का (आ दर्षि) तू आदर करता है । (मघवन्) हे धन
वाले । (विचर्षणे) हे दृग्दर्शी । (पिशङ्गरूपम्) अवयवों को रूप देने वाले,
(गोमन्तम्) वेदवाणी वाले [तुभ्य] से (मत्सु) शीघ्र (ईमहे) हम प्रार्थना
करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—वह परमात्मा परमाणुओं से सूर्य आदि बड़े बड़े लोकों क
बनाने वाला है, उस निर्भय की उपासना से मनुष्य धर्मात्मा होकर निर्भय
होवे ॥ ३ ॥

सूक्तम् ५३ ॥

१—३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ पथ्या गृहती छन्दः ॥

सेनानीलक्षणोपदेशः—सेना पति के लक्षणों का उपदेश ॥

क ई वेद सुते सचा पिबन्तं कद् वयो दधे ।

श्रुयं यः पुरी विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिर्म्यन्धसः ॥ १ ॥

कः । ईम् । वेद् । सुते । सचा । पिबन्तम् । कद् । वयः ।

दधे ॥ श्रुयस् । यः । पुरः । वि-भिन्ति । ओजसा । मन्दानः ।

३—(करवेभिः) मेधाविभिः (धृष्णो) हे प्रगल्भ (आ) (धृषत्) वर्तमाने
पुपद्गृहन्महज्जगच्छतृचञ्च । ४० २ । ८४ । जिधृषा प्रागल्भ्ये—अति, विभक्ते-
र्लुक् । निर्भयत्वेन (वाजम्) वेगम् । पौरुषम् (दर्षि) दृढ आदरे— लट्, अदादित्वं
छान्दसम् । आद्रियसे । सत्कारेण गृह्यासि (सहस्त्रिणम्) सहस्रहर्षोपेतम् (पिशङ्ग-
रूपम् अ० ६ । ४ । २२ । पिश अवयवे—अङ्गत् रूप रूपकरणे—अच् ।
अवयवाना रूपकर्ताम् (मघवन्) हे धनवन् (विचर्षणे) अ० २० । ५ । १ ।
हे बहुदर्शिन (मत्सु) शीघ्रम् (गोमन्तम्) वेदवाणीशुक्तम् (ईमहे) याचामहे ॥

शुभ्री । अन्धसः ॥ १ ॥

भाषार्थ—(कः) कौन (सचा) नित्य मेल के साथ- (सुते) तत्त्व रस (पिवन्तम्) पीते हुये (ईम्) प्राप्ति योग्य [सेनापति] को (वेद) जानता है? (कत्) कितना (वयः) जीवन सामर्थ्य [पराक्रम] (दधे) वह रक्षता है? (श्रीयम्) यह (यः) जो (शुभ्री) दृढ़ जावड़े वाला, (अन्धसः) अन्न का (मन्दानः) आनन्द देने वाला [वीर] (ओजसा) बल से (पुरः) दुर्गों को (विभिनत्ति) तोड़ देता है ॥ १ ॥

भावार्थ—जिस पराक्रमी पुरुष के शरीर बल और बुद्धिबल की धाह सामान्य मनुष्य नहीं जानते, वह नीतिज्ञ अन्न आदि पदार्थ एकत्र करके वैरियों को जीतता है ॥ १ ॥

यह तृच ऋग्वेद में है—८।३३।७—६, सामवेद—३० ८।२। तृच १५, आगे है—अथ० २।५७।११—१३, मन्त्र १ सामवेद—पू० ४।१।५ ॥

दाना सृगो न वारुणः पुरुत्रा चरथं दधे ।

नकिष्ट्वा नि यस्मदा सुते गमो मुहांश्चरुस्थोजसा ॥ २ ॥

दाना । सृगः । न । वारुणः । पुरुत्रा । चरथम् । दधे ॥

नकिः । त्वा । नि । यस्त् । आ । सुते । गमः । मुहान् ।

चरुश्चि । ओजसा ॥ २ ॥

भाषार्थ—(न) जैसे (सृगः) जंगली (वारुणः) हाथी (दाना) मद के कारण (पुरुत्रा) बहुत प्रकार से (चरथम्) झपट (दधे) लगाता है ।

१—(कः) सामान्यपुरुषः (ईम्) प्राप्तव्यं सेनापतिम् (वेद) वेत्ति (सुते) सुतम् । तत्स्वरसम् (सचा) समवायेन । नित्यसम्बन्धेन (पिवन्तम्) (कत्) कियत् परिमाणम् (वयः) जीवनसामर्थ्यम् । पराक्रमम् (दधे) लडयें लिट् । धारयति (अयम्) (यः) (पुरः) नगरीणि । दुर्गाणि (विभिनत्ति) विशेषेण छिनत्ति (ओजसा) बलेन (मन्दानः) अ० २०।६।१ । आमोदयिता (शुभ्री) अ० २०।४।१ । दृढहनुः (अन्धसः) अन्नस्य ॥

२—(दाना) दानेन । मदजलेन (सृगः) वनचरः (न) यथा (वारुणः) गजः (पुरुत्रा) बहुप्रकारेण (चरथम्) शीघ्रशक्तिगामि । अ० ३ । १३३ । चरते ।

[वैसे ही] (नकिः) कोई नहीं (त्वा) तुझे (नि यमत्) रोक सकता, (सुते) तत्त्व रस को (आ गमः) दू प्राप्त हो, (महान्) महान् होकर दू (ओजसा) बल के साथ (चरसि) विचरता है ॥ २ ॥

भाषार्थ—जैसे वन का मदमत्त हाथी सब ओर बेरोक घूम कर उपद्रव मचाता है, वैसे ही नीतिज्ञ सेनापति तत्त्व विचार कर शत्रुओं को शीघ्र दबावे ॥ २ ॥

युग्रः सन्ननिष्ठृत स्थिरो रणाय संस्कृतः ।

यदि स्तोतुर्मघवा शृणवद्भवं नेन्द्रो योषत्या गमत् ॥ ३ ॥

यः । युग्रः । । सन् । अनिः-स्तृतः । स्थिरः । रणाय । संस्कृतः ॥

यदि । स्तोतुः । मघवा । शृणवत् । हवम् । न । इन्द्रः ।

योषति । आ । गमत् ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(यः) जो [वीर] (युग्रः) प्रचण्ड, (अनिष्ठृतः) कभी न हराया गया, (स्थिरः) दृढ़ (सन्) होकर (रणाय) रण के लिये (संस्कृतः) संस्कार किये हुये है । (यदि) यदि (मघवा) वह महाधनी (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला सेनापति] (स्तोतुः) स्तुति करने वाले की (हवम्) पुकार (शृणवत्) सुने, [तौ] (न योषति) वह अलग न रहे, [किन्तु] (आ गमत्) आता रहे ॥ ३ ॥

अथप्रत्ययः । संचरणम् (दधे) धरति (नकिः) न कोऽपि (त्वा) त्वाम् (नि यमत्) नियच्छति (आ) (सुते) तत्त्वरसम् (गमः) प्रामुहि (महान्) (चरसि) (ओजसा) ॥

३—(यः) वीरः (युग्रः) प्रचण्डः (सन्) भवन् (अनिष्ठृतः) अ+निः+स्तृञ् आच्छादने हि सायां च—क । स्तृणातिर्वधकर्मा—निघः० २ । १६ । न कदापि हिंसितः (स्थिरः) दृढः (रणाय) युद्धाय (संस्कृतः) कृतसंस्कारः । सन्नद्धः (यदि) सम्भावनायाम् (स्तोतुः) (मघवा) महाधनी (शृणवत्) शृणुयात् (हवम्) आह्वानम् (न) निषेधे (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् सेनापतिः (योषति) यु मिश्रणामिश्रणयोः—लेट् । पृथग् भवेन् (आ गमन्) आ गच्छेत् ॥

भावार्थ—प्रतापी अजेय, युद्ध कुशल सेनापति प्रजा की पुकार को सदा ध्यान देकर सुनता रहे ॥ ३ ॥

दूक्तम् ५४ ॥

१—३ ॥ इन्द्रो देवतां ॥ १ स्वराड् जगती; २, ३ निचृद् बृहती ॥

राजप्रजाधर्मोपदेशः—राजा और प्रजा के धर्म का उपदेश ॥

विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरं सजुस्ततक्षुरिन्द्रं जजनुश्च
राजसे । क्रत्वा वरिष्ठं वरं आमुरिसुतोयभोजिष्ठं त्वसं
तस्विनम् ॥ १ ॥

विश्वाः । पृतनाः । अभि-भूतरम् । नरम् । स-जूः । ततक्षुः ।
इन्द्रम् । जजनुः । च । राजसे ॥ क्रत्वा । वरिष्ठम् । वरं ।
आ-मुरिम् । उत । उग्रम् । भोजिष्ठम् । त्वसंम् ।
तस्विनम् ॥ १ ॥

भाषार्थ—(विश्वाः) सब (पृतनाः) सङ्ग्रामों के ; (अभिभूतरम्)
अत्यन्त मिटाने वाले, (क्रत्वा) अपनी बुद्धि से (वरे) श्रेष्ठ व्यवहार में
(वरिष्ठम्) अति श्रेष्ठ, (आमुरिम्) शत्रुओं के घेर लेने [वा मार डालने]
वाले, (उग्रम्) प्रचण्ड (भोजिष्ठम्) अत्यन्त पराक्रमी, (त्वसम्) महाबली
(उत) और (तस्विनम्) बड़े उत्साही (नरम्) नरों को (राजसे)
राज्य के लिये (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला राजा]को (सजूः) मिलकर

१—(विश्वाः) सर्वाः (पृतनाः) सङ्ग्रामान् (अभिभूतरम्) अभि-
भवतेः-किप, तरप् । अत्यर्थम् अभिभवितारं नाशयितारम् (नरम्) नेतारम्
(सजूः) संगत्य (ततक्षुः) तक्षनिः करोति कर्मा-निरु० ४ । १६ । कृत्वन्तः
(इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं राजानम् (जजनुः) जनी प्रादुभावे-लिट् । प्रादुष्कृत-
वन्तः (च) (राजसे) राज्ञ दीप्तौ ऐश्वर्यं च-अनुज् । राज्याय (क्रत्वा)
क्रतुना । प्रहया-निघ० ३ । ६ । (वरिष्ठम्) श्रेष्ठतमम् (वरे) श्रेष्ठव्यवहारे
(आमुरिम्) भुजेः क्विच् । उ० ४ । १४ २ । आ+मुर संवेष्टने यद्वा मृ हिंसायाम्-
इप्रत्ययः, कित् । उदोष्प्यपूर्वस्य । पा० ७ । १ । १०२ । इत्युत्वम् । आमिसुव्येन

(तनतु) उन्हीं ने [प्रजाजनों ने] बनाया (च) और (जजनुः) प्रसिद्ध किया है ॥ १ ॥

भावार्थ—प्रजागणों को उच्चि० है कि जो मनुष्य सब में श्रेष्ठ गुणी प्रतापी होंगे, उन्हीं को सब मिलकर रक्षा के लिये राजा बनावें ॥ १ ॥

यह तुत्र ऋग्वेद में है—= १. ६७ [सायणभाष्य ८६] । १०—१२ । कुष्ठ भेद से सामवेद—उ० ३ । १ । तुत्र १४ । तथा म० १—पू० ४ । ६ । १ ॥

समो^१ रेभासो^२ अस्वरुन्निन्द्रं^३ सोमस्य^४ पीतये^५ ।

स्वर्पतिं^६ यदा^७ वृधे^८ धृतव्रतो^९ होजसा^{१०} समुतिभिः^{११} ॥ २ ॥

सम् । ईम् । रेभासः । अस्वरुन् । इन्द्रम् । सोमस्य । पीतये ॥

स्वः—पतिम् । यत् । ईम् । वृधे । धृत-व्रतः । हि । होजसा ।

सम् । ऊति-भिः ॥ २ ॥

भावार्थ—(रेभासः) पुकारने वाले [प्रजागण] (सोमस्य) तत्त्व रस के (पीतये) पीने के लिये (यत्) जब (ईम् ईम्) अवश्य प्राप्ति के योग्य (स्वर्पतिम्) सुखके रक्षक (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले पुरुष] को (सम्) मिलकर (अस्वरुन्) पुकारने लगे, [तत्र] (वृधे) बढ़ती के लिये (धृतव्रतः) नियम धारण करने वाला [वह पुरुष] (हि) निश्चय करके (होजसा) बल से और (ऊतिभिः) रक्षाओं से (सम्) मित्रकर [उन्हें पुकारने लगा] ॥ २ ॥

वेष्टयिनारं मारयिनार वा शश्रूणाम् (उत) अपि च (उग्रम्) प्रचण्डम् (भोजिष्ठम्) भोजस्वितमम् (नवन्मम्) आशआद्यच् । बलवन्तम् (तरस्विनम्) वेगवन्तम् । परमोत्साहिनम् ॥

२—(सम्) संगत्य (ईम्) प्राप्तव्यम् (रेभासः) रेभु शब्दे-अच् असुक् च । शब्दाग्रमानाः प्रजाजनाः (अस्वरुन्) अशब्दयन् । आहूतवन्तः (इन्द्रम्) परमेश्वर्यवन्त पुरुषम् (सोमस्य) तत्त्वरसस्य (पीतये) पानाय (स्वर्पतिम्) सुखस्य रक्षकम् (यत्) यदा (ईम्) घोषलायां द्विर्वचनम् । प्राप्तव्यमेव (वृधे) वृद्धये (धृतव्रतः) स्वीकृतनियमः (हि) निश्चययेन (होजसा) बलेन (सम्) संगत्य (ऊतिभिः) रक्षाभिः ॥

भावार्थ—प्रजागण अपनी रक्षा के लिये राजा की सहायता चाहें, और राजा राज्य की रक्षा के लिये उन से सहायता ले, इस प्रकार राजा और प्रजा परस्पर प्रीति करके आनन्द भोगें ॥ २ ॥

नेमिं नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा अभिस्वरा ।

सुदीतयो वो अद्रुहोऽपि कर्णे तरस्विनः समृक्कभिः ॥ ३ ॥

नेमिम् । नमन्ति । चक्षसा । मेषम् । विप्राः । अभि-स्वरा ॥

सु-दीतयः । वः । अद्रुहः । अपि । कर्णे । तरस्विनः ।

सम् । ऋक्क-भिः ॥ ३ ॥

भाषार्थ—[हे मनुष्यो !] (विप्राः) बुद्धिमान् (सुदीतयः) बहुत प्रकाश वाले, (अद्रुहः) द्रोह न करने वाले, (तरस्विनः) बड़े उत्साह वाले पुरुष (वः) तुम्हारे लिये (कर्णे) कान में (अपि) ही (अभिस्वरा) सब प्रकार से वाणी के साथ (ऋक्कभिः) स्तुतिवाले कर्मों द्वारा (नेमिम्) नेता (मेषम्) सुख से सीचने वाले [वीर] को (चक्षसा) दर्शन के साथ (सम्) मिलकर (नमन्ति) शुकते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—उत्साही बुद्धिमान् लोग प्रजा के सुख के लिये राजा को सुन्दर नियमों और सत्कार के साथ धर्मपथ का निवेदन करें ॥ ३ ॥

सूक्तम् ५५ ॥

१—३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ अतिजगती; २ विराट् पंथ्या बृहती; ३ निचृत्पथ्या बृहती ॥

राजकृत्योपदेशः—राजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

३—(नेमिम्) नियोमिः । उ० ४ । ४३ । शीञ् प्रापणे—मि । नेतारम् (नमन्ति) नमस्कुर्वन्ति (चक्षसा) दर्शनेन (मेषम्) मिष सेचने—अच् । सुखस्य सेत्कारम् (विप्राः) मेधाविनः (अभिस्वरा) इष्ट शब्दोपतापयोः—विट् । अभिस्वरेण । सर्वतः शब्देन (सुदीतयाः) पलोपः । शोभनदीप्तयः (वः) शुष्मभ्यम् (अद्रुहः) अद्रोघारः (अपि) (कर्णे) श्रोत्रे (तरस्विनः) उत्सा-
हिनः (सम्) संगत्य (ऋक्कभिः) अ० १८ । १ । ४७ । ऋच् स्तुतौ—किप्, ऋचर्थे—वनिप् । स्तुतिमृक्भिः कर्मभिः ॥

तमिन्द्रं जोहवीमि मघवानमुग्रं सुत्रा दधानुमप्रतिष्कृतं
शवांसि । मंहिष्ठो गीर्भिरा च यज्ञियो ववर्तद् राये नो विश्वा
सुपथा कृणोतु वृज्री ॥ १ ॥

तम् । इन्द्रम् । जोहवीमि । मघ-वानम् । उग्रम् । सुत्रा ।
दधानम् । अप्रति-स्कृतम् । शवांसि ॥ मंहिष्ठः । गीः-भिः ।
आ । च । यज्ञियः । ववर्तत् । राये । नः । विश्वा । सु-पथा ।
कृणोतु । वृज्री ॥ १ ॥

भाषार्थ—(मघवानम्) अत्यन्त धनी, (उग्रम्) प्रचण्ड, (सुत्रा)
सच्चे (शवांसि) बलों के (दधानम्) धारण करने वाले (अप्रतिष्कृतम्) वे
रोक गति वाले (तम्) उस (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले राजा] को
(जोहवीमि) मैं बार बार पुकारता हूँ । (मंहिष्ठः) वह अत्यन्त उदार (यज्ञियः)
पूजा योग्य (च) और (वृज्री) वज्रधारी [शस्त्र अस्त्र वाला] (गीर्भिः)
हमारी वाणियों से (नः) हम को (राये) धन के लिये (आ) सब प्रकार,
(ववर्तत्) वर्तमान करे, और (विश्वा) सब कर्मों को (सुपथा) सुन्दर
मार्ग वाला (कृणोतु) बनावे ॥ १ ॥

भाषार्थ—राजा प्रजा को पुकार सुनकर उन्हें सुमार्ग में चलाकर धन
प्राप्त करावे ॥ १ ॥

यह त्वच ऋग्वेद में है—ऋ । ६७ [सायणभाष्य ८ ६] । १३, १, २, मन्त्र
१ सामवेद—पू० ५ । ८ । ४ और मन्त्र २ पू० ३ । ७ । २ ॥

१—(तम्) प्रसिद्धम् (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं राजानम् (जोहवीमि)
अ० २ । १२ । ३ । ह्येञ् आह्वाने, यङ्लुगन्तात्— लट् । पुनः पुनराह्वयामि (मघ-
वानम्) बहुधनवन्तम् (उग्रम्) प्रचण्डम् (सुत्रा) सत्यानि (दधानम्) धारयन्तम्
(अप्रतिष्कृतम्) अ० २० । ४१ । १ । अप्रतिगतम् (शवांसि) बलानि (मंहिष्ठः)
दातृतमः (गीर्भिः) अस्माकं वाणीभिः (आ) समन्तात् (च) (यज्ञियः)
पूजार्हः (ववर्तत्) वर्ततेत्यन्तस्य चङि रूपे लिङ्ङर्थे । वर्तयेत् (राये) धनाय
(नः) अस्मान् (विश्वा) सर्वाणि कर्माणि (सुपथा) सुपथानि । सुमार्गयुक्तानि
(कृणोतु) करोतु (वृज्री) शस्त्रास्त्रधारकः ॥

या इन्द्र भुज आभरः स्वर्वा असुरेभ्यः ।

स्तोतारुमिन्मघवन्नस्य वर्धय ये च त्वे वृक्तवर्हिषः ॥ २ ॥

याः । इन्द्र । भुजः । आ । अभरः । स्वः-वान् । असुरेभ्यः ॥

स्तोतारम् । इत् । मघ-वन् । अस्य । वर्ध-य- । ये । च ।

त्वे इति । वृक्त-वर्हिषः ॥ २ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (स्वर्वा)
आनन्द युक्त त् (याः) जिन (भुजः) भोग सामग्रियों को (असुरेभ्यः) दुष्ट
मनुष्यों से (आ अभरः) लाया है, (मघवन्) हे बड़े धनी ! (अस्य) उस
अपने (स्तोतारम्) स्तुति करने वाले को (इत्) अवश्य (वर्धय) बढ़ा (च)
और [उन्हें भी], (ये) जो (त्वे) तुझ में (वृक्तवर्हिषः) वृद्धि पाने वाले
हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—राजा दुष्टों का धन हरण करके शिष्टों का पालन करे ॥ २ ॥

यमिन्द्र दधिषे त्वमश्वं गां भागमव्ययम् ।

यजमाने बुन्दति दक्षिणावति तस्मिन् तं धेहि मा पुण्यी ॥३॥

यम् । इन्द्र । दधिषे । त्वम् । अश्वम् । गाम् । भागम् ।

अव्ययम् ॥ यजमाने । बुन्दति । दक्षिणा-वति । तस्मिन् ।

तम् । धेहि । मा । पुण्यी ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (यम्) जिस

२—(याः) (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् राजन् (भुजः) भोग्यसामग्रीः
(आ अभरः) आहतवानसि (स्वर्वा) सुखवास्तवम् (असुरेभ्यः) सुरविरो-
धिभ्यो दुष्टेभ्यः सकाशात् (स्तोतारम्) (इत्) एव (मघवन्) हे धनवन्
(अस्य) तादृशस्य त्वदीयस्य स्वकीयस्य (वर्धय) वृद्धिमत्तं कुरु (ये) (च)
(त्वे) त्वधि राजनि (वृक्तवर्हिषः) अ० २० । ५२ । १ । प्राप्त वृद्धयः ॥

३—(यम्) भागम् (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् राजन् (दधिषे) अर्धे

(अश्वम्) घोड़े को, (गाम्) गौ को और (अव्ययम्) अक्षय (भागम्) सेवनीय धन को (त्वम्) तू (दधिपे) धारण करता है, (तम्) उसको (तस्मिन्) उस (सुन्वति) तस्व निचोड़ने वाले, (दक्षिणावति) दक्षिणा [प्रतिष्ठा के दान] वाले (यजमाने) यजमान [यज्ञ श्रेष्ठ कर्म करने वाले] में (धेहि) धारण कर और (पणौ) कुव्यवहारी में (मा) नहीं ॥ ३ ॥

भाषार्थ—राजा को योग्य है कि अवसर विचार कर घोड़े, गीयें, सुवर्ण आदि धन दक्षिणा देकर सुपात्रों का सन्मान करे ॥ ३ ॥

सूक्तम् ५६ ॥

१—६ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, २, ४, ६ विगट् पङ्क्तिः, ३ निचतृ पङ्क्तिः, ५ विगाडार्पी पङ्क्तिः ॥

सभापतिलक्षणोपदेशः—सभापति के लक्षण का उपदेश ॥

इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः ।

तस्मिन्सहस्वाजिषुतेसर्भे हवामहे स वाजेषु म नोऽविषत् ॥१॥

इन्द्रः । मदाय । वावृधे । शवसे । वृत्रहा । नृभिः ॥ तम् । इत् । सहस्व-सु । आजिषु । उत । ईम् । सर्भे । हवामहे । सः । वाजेषु । म । नः । अविषत् ॥ १ ॥

भाषार्थ—(वृत्रहा) रोकने वाले शत्रुओं का नाश करनेवाला (इन्द्रः) इन्द्र [वड़े ऐश्वर्य वाला सभापति] (मदाय) आनन्द और (शवसे) वल के लिये (नृभिः) नरों [नेताओं] के साथ (वावृधे) बढ़ा है । (तम् ईम्)

लिट् । धस्से । धरसि (त्वम्) (अश्वम्) गाम्) धेनुम् (भागम्) सेवनीय धनम् (अव्ययम्) अक्षयम् (यजमाने) श्रेष्ठकर्मकर्तार (सुन्वति) तस्वरसं संस्कृवाणे (दक्षिणावति) प्रतिष्ठाधनयुक्ते (तस्मिन्) (तम्) (भागम् (धेहि) धारय (मा) निषेधे (पणौ) कुव्यवहारिणे असुरे ॥

१—(इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् सभाध्यक्षः (मदाय) आनन्दाय (वावृधे) लिटि रूपम् । प्रवृद्धो बभूव (शवसे) बलाय (वृत्रहा) आघरकार्णां शत्रूणां नाशकः (नृभिः) नेतृभिः पुरुषैः (तम्) सेनापतिम् (इत्) एव (महत्सु)

उस प्राप्ति योग्य जो (इत्) ही (महत्सु) बड़े (आजिषु) संग्रामों में (उन) और (अर्भे) छोटे [संग्राम] में (हवामहे) हम बुलाते हैं, (नः) वह (वाजेषु) संग्रामों में (नः) हमें (प्र) अच्छे प्रकार (अविपत्) बचावे ॥ १ ॥

भाष्यार्थ—जो मनुष्य प्रजा की भलाई के लिये पराक्रम करके शत्रुओं को मारे, उसी हितैषी को सेनापति बनाना चाहिये ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—१। २१। १—३, ७—६। त्वच १ कुञ्ज भेद से सामवेद में है—७० ३। २। त्वच १४, मन्त्र १, पू० ५। ३। ३ ॥

असि हि वीर सेन्योऽसि भूरि पराददिः । असि दुधस्य चित् वृधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते वसु ॥ २ ॥

असि । हि । वीर । सेन्यः । असि । भूरि । परा-ददिः ॥
असि । दुधस्य । चित् । वृधः । यजमानाय । शिक्षसि ।
सुन्वते । भूरि । ते । वसु ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—(वीर) है वीर त् (हि) ही (सेन्यः) सेनाओं का हितकारी (असि) है, (भूरि) बहुत प्रकार से (पराददिः) शत्रुओं का पकड़ने वाला (असि) है। त् (दुधस्य) छोटे पुरुष का (चित्) अवश्य (वृधः) बढ़ाने वाला (असि) है, त् (सुन्वते) तत्त्व निचोड़ने वाले (यजमानाय)

महाप्रबलेषु (आजिषु) अ० २। १४। ६। संग्रामेषु (उत) अपि (ईम्) प्राप्तव्यम् (अर्भे) अल्पे संग्रामे (हवामहे) आह्वयामः (सः) सेनापतिः (वाजेषु) संग्रामेषु (प्र) (नः) अस्मान् (अविपत्) अत्र रक्षणे—लेद्, इकारलोपः लिप् च इडागमश्च । रक्षेत् ॥

२—(असि) (हि) (वीर) (सेन्यः) सेनाभ्यो हितः (असि) (भूरि) बहु (पराददिः) पर + आङ् + डु दाञ् दाने—किप्रत्ययः । पराञ्छुञ्चुनादाता प्रहीता (असि) (दुधस्य) अल्पस्य पुरुषस्य (चित्) पव (वृधः) वृधेरन्तर्गतस्यन्तात्—कप्रत्ययः । वर्धयिता (यजमानाय) श्रेष्ठकर्मकारकाय (शिक्षसि) वदालि—निघ० ३। ६० (सुन्वते) तत्त्वं संस्कुर्वते (भूरि) बहु

यजमान को (ते) अपना (भूरि) बहुत (वसु) धन (शित्सि) देता है ॥ २ ॥

भावार्थ—वीर सेना हितकारी योग्य छोटे अधिकारियों को बढ़ाकर श्रेष्ठों का मान करे ॥ २ ॥

यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धना । युद्ध्वा मदच्युता
हरी कं हनः कं वसौ दधोऽस्मां इन्द्र वसौ दधः ॥ ३ ॥

यत् । उत्-ईरते । आजयः । धृष्णवे । धीयते । धना ॥
युद्ध्वा । म-द-च्युता । हरी इति । कम् । हनः । कम् ।
वसौ । दधुः । अस्मान् । इन्द्र । वसौ । दधुः ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(यत्) जब (आजयः) सङ्ग्राम (उदीरते) उठते है,
(धृष्णवे) निर्भय पुरुष के लिये (धना) धन (धीयते) धरा जाता है ।
(मदच्युता) आनन्द देने वाले (हरी) दो घोड़ों [के समान बल और
पराक्रम] को (युद्ध्वा) जोड़, (कम्) किस [शत्रु] को (हनः) तू मारेगा ?
(कम्) किस [मित्र] को (वसौ) धन के बीच (दधः) तू रफखेगा ?
(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले सेनापति] (अस्मान्) हमें तू (वसौ)
धन में (दधः) रख ॥ ३ ॥

भावार्थ—विजय पाने पर वीर पुरुष धन पाता है, यह विचार कर
राजा बल और पराक्रम से युद्ध सामग्री एकत्र करके शत्रुओं को मारता हुआ
और मित्रों का सत्कार करता हुआ प्रजा की उन्नति करे ॥ ३ ॥

(ते) त्वदीयम् । स्वकीयम् (वसु) धनम् ॥

३—(यत्) यदा (उदीरते) उद्गच्छन्ति (आजयः) संग्रामोः
(धृष्णवे) प्रगल्भाय (धीयते) धियते (धना) विभक्तीकारः । धनम्
(युद्ध्वा) साहितिको दीर्घः । युजिर् योगे—लोट्, अन्तर्गतएथर्थः । योजय
(मदच्युता) मदस्य हर्षस्य व्यावयिनागै प्रापयितारौ (हरी) अश्वविबल-
पराक्रमौ (कम्) शत्रुम् (हनः) हन्तेर्लोट् । हन्याः (कम्) सुहृदम् (वसौ)
वसुनि । धने । (दधः) दध धारणे—लोट् । दध्याः (अस्मान्) (इन्द्र) पर
मैश्वर्यवान् सेनापते (वसौ) धने (दधः) स्थापय ॥

मदेमदे हि नो दुदिर्युथा गवांसृजुक्तुः । सं गृभाय पुरु
शुतोभयाहस्त्या वसुं शिशिहि राय आ भर ॥ ४ ॥

मदे-मदे । हि । नः । दुदिः । युथा । गवाम् । ऋजु-क्तुः ॥
सम् । गृभाय । पुरु । शुता । उभयाहस्त्या । वसु ।
शिशिहि । रायः । आ । भर ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(ऋजुक्तुः) सची बुद्धि वा कर्म वाला नू (मदेमदे)
आनन्द आनन्द पर (हि) निश्चय करके (नः) हम को (गवाम्) गो आदि
पशुओं के (युथा) समूहों का (दुदिः) देने वाला है, (उभयाहस्त्या) दोनों
हाथों से (पुरु) बहुत (शता) सैकड़ों (वसु) धनों को (सं गृभाय) संग्रह
कर, (शिशिहि) तीक्ष्ण हो और (रायः) धनों का (आ) सब ओर से
(भर) भर ॥ ४ ॥

भावार्थ—बुद्धिमान् राजा आनन्द के प्रत्येक अवसर पर योग्य पुरुषों
का सत्कार करे और उचित व्यय करने के लिये सदा धन का संग्रह करता
रहे ॥ ४ ॥

रादयस्व सुते सचा शवसे शूर राधसे । विद्वा हि त्वा
पुरुवसुसुप कामान्तसृज्महेऽथा नोऽविता भव ॥ ५ ॥

रादयस्व । सुते । सचा । शवसे । शूर । राधसे ॥ विद्वा ।

४—(मदेमदे) प्रत्येकवर्षावसरे (हि) निश्चयेन (नः) अस्मभ्यम्
(दुदिः) दुदाब् दाने-किप्रत्ययः । दाता (युथा) यूथानि । समूहान् (गवाम्)
गवादिपशूनाम् (ऋजुक्तुः) सरलबुद्धिः । सत्यकर्मा (सं गृभाय) सम्यग्
गृहाण (पुरु) बहूनि (शता) शतानि (उभयाहस्त्या) विभक्तैर्बाजादेशः,
छान्दसो दीर्घः । उभाभ्यां हस्ताभ्याम् (वसु) वसूनि । धनानि (शिशिहि)
शो तनूकरणे, विकरणस्य श्लुः, अभ्यासस्य इत्वम् । ई हत्यघोः । पा० ६ । ४ ।
१३३ । इति धातोरीत्वम् । श्य । तीक्ष्णीभव । उद्यतो भव (रायः) धनानि
(आ) समन्तान् (भर) धेहि ॥

हि । त्वा । पुरु-वसुम् । उप । कामान् । सुसृजमहे । अथ ।
नः । अविता । भव ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(शूर) हे शूर ! (सुने) उत्पन्न जगत् में (सचा) नित्य
मेल के साथ (शत्रुसे) बल के लिये श्रीर (राघसे) धन के लिये (मादयस्व)
आनन्द दे । (त्वा) तुझ को (हि) निश्चय करके (पुरुवसुम्) बहुतों में श्रेष्ठ
(विद्म) हम जानते हैं, श्रीर (कामान्) मनोरथों को (उप) समीप से
(ससृजमहे) हम लिख करते हैं, (अथ) इस लिये तू (नः) हमारा (अविता)
रक्षक (भव) हो ॥ ५ ॥

भाषार्थ—बल और धन की वृद्धि के लिये शूर सेनापति के आभय से
मनोरथ लिख करके रक्षा करे ॥ ५ ॥

एते ते इन्द्र जन्तवो विश्वं पुष्यन्ति वार्यम् । अन्तर्हि ख्यो
जनानामुर्यो वेदो अदाशुषां तेषां नो वेदु आ भर ॥ ६ ॥

एते । ते । इन्द्र । जन्तवः । विश्वम् । पुष्यन्ति । वार्यम् ॥
अन्तः । हि । ख्यः । जनानाम् । अुर्यः । वेदः । अदाशुषाश् ।
तेषाम् । नः । वेदः । आ । भर ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (ते) तेरे
लिये (पते) यह (जन्तवः) लोग (विश्वम्) सब (वार्यम्) स्वीकार योग्य

५—(मादयस्व) आनन्दय (सुते) उत्पन्ने जगति (सचा) समवायेन ।
नित्यसबन्धेन (शत्रुसे) बलाय (शूर) हे शत्रुनिवारक (राघसे) धनाय
(विद्म) जानीमः (हि) अवधारणे (त्वा) त्वाम् (पुरुवसुम्) बहुतु श्रेष्ठम्
(उप) समीपे (कामान्) मनोरथान् (ससृजमहे) सृज विसर्गं, विकरणस्य
श्लुः । निष्पादयामः । साधयामः (अथ) अनन्तरम् (नः) अस्माकम् (अविता)
अवतेस्तुच् । रक्षकः (भव) ॥

६—(पते) उपस्थिताः (ते) तुभ्यम् (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवन् राजन्
(जन्तवः) जीवाः जनाः (विश्वम्) सर्वम् (पुष्यन्ति) वर्धयन्ति (वार्यम्)

पदार्थ को (पुष्यन्ति) पुष्ट करते हैं । (अर्यः) स्वामी तू (तेषाम्) उन (जनानाम्) मनुष्यों के (अन्तः) बीच (हि) निश्चय करके (अदाशुषाम्) अदाती, लोगों की (वेदः) समझ को (ख्यः) देख और (नः) हमारे लिये (वेदः) ज्ञान को (आ) सब प्रकार (भर) प्राप्त करा ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ—जैसे प्रजागण श्रेष्ठ पदार्थों के दान से राजभक्ति करें, वैसे ही राजा अदाताओं से प्रजा की रक्षा करके विज्ञान की वृद्धि करे ॥ ६ ॥

सूक्तम् ५७ ॥

१-१३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, २, ४-६, ८, ६ गायत्री; ३ विराडाधी गायत्री; ७ अनुष्टुप्; १० निचृद् गायत्री; ११-१६ पथ्या वृहती ॥

१-१० मनुष्यकर्तव्योपदेशः— १-१० मनुष्य के कर्तव्य का उपदेश ॥

सुरूपकृत्तुमुतये सुदुधामिव गोदुहे । जुहुमसि द्यविद्यवि ॥१॥
सुरूप-कृत्तुम् । ऊतये । सुदुधाम-इव । गो-दुहे ॥ जुहुमसि ।
द्यवि-द्यवि ॥ १ ॥

भाष्यार्थ—(सुरूपकृत्तुम्) सुन्दर स्वभावों के बनाने वाले [राजा] को (ऊतये) रक्षा के लिये (द्यविद्यवि) दिन दिन (जुहुमसि) हम बुलाते हैं, (इव)

स्वीकार्यं पदार्थम् (अन्तः) मध्ये (हि) अवश्यम् (ख्यः) ख्या प्रकथने दर्शने च लोडर्थे लुङ् । पश्य (जनानाम्) जन्तूनाम् । जीवानाम् (अर्यः) स्वामी (वेदः) बोधम् (अदाशुषाम्) अदातृणाम् (तेषाम्) पूर्वोक्तानां जन्तूनाम् (नः) अस्मभ्यम् (वेदः) विज्ञानम् (आ) समन्तात् (भर) प्रायय ॥

१—(सुरूपकृत्तुम्) कृहनिभ्यां कृत्तुः । उ० ३ । ३० । करोतेः—कृत्तु । गोभनस्वभावानां कर्तारम् (ऊतये) रक्षायै (सुदुधाम्) अ० ७ । ७३ । ७ । पशुदोर्धी गाम् (इव) यथा (गोदुहे) सत्सूत्रिषु द्रव दुह० । पा० ३ । २ । ६१ । गो + दुह प्रपूरणे—किप् । गोर्दोर्धे । दुग्धादिकसिञ्चये (जुहुमसि) ह्यतेर्लुङ् शपः श्लुः । अभ्यस्तस्य च । पा० ६ । १ । ३३ । इति अभ्यस्ती भविष्यतो ह्यतेः सम्प्रसारणम् । सम्प्रसारणाच्च । पा० ६ । १ । १०८ । इति परपूर्वत्वम् । हलः । पा० ६ । ४ । २ । इति । दीर्घः । श्लौ । पा० ६ । १ । १७ । द्विर्वचनम् । इत्यः ।

जैसे (सुदुघाम्) बड़ी दुधेल गौ को (गोदुहे) गौ दोहने वाले के लिये ॥ १ ॥

भावार्थ—जैसे दुधेल गौ को दूध दोहने के लिये प्रीति से बुझाते हैं, वैसे ही प्रजागण विद्या आदि शुभ गुणों के बढ़ाने वाले राजा का भाश्रय लेकर उन्नति करें ॥ १ ॥

म० १—३ ऋग्वेद में है— १। ४। १—३ और आगे है अ० २०। ६८। १—३ ॥

उप॑ नुः सव॑ना ग॑हि॒ सोम॑स्य सोमपाः पिब॑ । गो॒दा इद्दु॑
रेव॑ती म॒दः ॥ २ ॥

उप॑ । नुः । सव॑ना । आ । ग॑हि॒ । सोम॑स्य । सोम॑-पाः ।
पिब॑ ॥ गो॒-दाः । इद्दु॑ । रेव॑तः । म॒दः ॥ २ ॥

भावार्थ—(सोमपाः) हे ऐश्वर्य के रक्षक ! [राजन्] (नः) हमारे लिये (सवना) ऐश्वर्य युक्त पदार्थों को (उप) समीप से (आ गहि) तू प्राप्त हो और (सोमस्य) सोम [तस्व रस] का (पिब) पानकर; (रेवतः) धनवान् पुरुष का (मदः) हर्ष (इत्) ही (गोदाः) दृष्टि का देने वाला है ॥ २ ॥

भावार्थ—राजा ऐश्वर्यवान् और दूरदर्शी होकर प्रसन्नता पूर्वक प्रजा को हानवान् बनावे ॥ २ ॥

अथा॑ ते अ॒न्त॑मानां॒ विद्याम॑ सु॒मती॑नाम् । मा नो॑ अति॒ ख्यु॑
आ ग॑हि ॥ ३ ॥

पा० ७। ४। ५६। इति अभ्यासस्य ह्रस्वः । श्चुत्वजश्त्वे । इदन्तोमस्ति । पा० ७। १। ४६। इति इकारागमः । जुहमः । आह्वयामः (धविधवि) दिने दिने निघ० १। ६ ॥

२—(उप) समीपे (नः) अस्मभ्यम् (सवना) ऐश्वर्ययुक्तानि वस्तूनि (आ) समन्तात् (गहि) गच्छ । प्राप्नुहि (सोमस्य) तस्वरसस्य (सोमपाः) हे ऐश्वर्यरक्षक (पिब) पानं कुरु (गोदाः) किप् च । पा० ३। २। ७६। गो + ददातेः—किप् । गोदंष्टेर्दाता (इत्) एव (रेवतः) धनवतः पुरुषस्य (मदः) हर्षः ॥ -

अथ । ते । अन्तमानाम् । विद्याम् । सु-सुतीनाम् ॥ मा ।
नः । अति । ख्यः । आ । गृहि ॥ ३ ॥

भाषार्थ—[हे राजन् ।] (अथ) और (ते) तेरी । (अन्तमानाम्) अत्यन्त समीप रहने वाली (सुसुतीनाम्) सुन्दर बुद्धियों का (विद्याम्) हम ज्ञान करें । तू (नः) हमें (अति) छोड़कर (मा ख्यः) मत बोल, (आ गृहि) तू आ ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जब राजा पूर्ण प्रीति से प्रजा पालन करता है, प्रजागण उस की धार्मिक नीतियों से लाभ उठाकर उस से प्रीति करते हैं ॥ ३ ॥

शुष्मिन्तमं न ऊतये द्युस्मिन्नं पाहि जागृविम् । इन्द्रं सोमं
शतक्रतो ॥ ४ ॥

शुष्मिन्-तमम् । नः । ऊतये । द्युस्मिन्नम् । पाहि । जागृ-
विम् ॥ इन्द्रं । सोमम् । शतक्रतो इति शत-क्रतो ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(शतक्रतो) हे सैकड़ों कर्मों वा बुद्धियों वाले (इन्द्र) इन्द्र । [बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (नः) हमारी (ऊतये) रक्षा के लिये (शुष्मिन्त-मम्) अत्यन्त बलवान्, (द्युस्मिन्नम्) अत्यन्त धनी वा यशस्वी और (जागृ-विम्) जागने वाले [नौकस] पुरुष की और (सोमम्) पेश्वर्य की (पाहि) रक्षा कर ॥ ४ ॥

भाषार्थ—राजा धर्मात्मा शूर वीरों की और सब के पेश्वर्य की यथावत्

३—(अथ) अनन्तरम् (ते) तव (अन्तमानाम्) अन्तः सामीप्यम् । अत इनिठनौ । पा० ५ । २ । ११५ । इति अन्त-टन् प्रत्ययः । ततोऽतिशायिने तमम् । पृषोदरादित्वात् तिक्शब्दस्य लोपः । अन्तमानाम्, अन्तिकनाम-निघ० २ । १६ । अन्तिकतमानाम् । अतिशयेन समीपस्थानाम् (विद्याम्) वेत्तेर्लिङ् । ज्ञानं कुर्याम, (मा) निषेधे (नः) करमान् (अति) कतीत्य । उल्लङ्घ्य (ख्यः) ख्या प्रकथने लुङ् । माद् टोनेऽल्लङ्घः । प्रकथय (आ गृहि) आगच्छ ॥

४—१० एते मन्त्रा व्याख्याताः—अ० २० । २० । १—७ ॥

रक्षा कर के प्रजा का पालन करे ॥ ४ ॥

मन्त्र ४—१० आ चुके हैं—अ० २० । २० । १—७ ।

इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चसु । इन्द्र तानि तु
आ वृणो ॥ ५ ॥

इन्द्रियाणि । शतक्रतो इति शत-क्रतो । या । ते । जनेषु ।
पञ्च-सु ॥ इन्द्र । तानि । ते । आ । वृणो ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(शतक्रतो) हे सैकड़ों कर्मों वा बुद्धियों वाले (इन्द्र) इन्द्र !
[बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (या) जो (ते) तेरे (इन्द्रियाणि) इन्द्र [ऐश्व-
र्यवान्] के चिह्न धनादि (पञ्चसु जनेषु) पंच [मुख्य] लोगों में है । (ते)
तेरे (तानि) उन [चिह्नों] को (आ) सध प्रकार (वृणो) मैं स्वीकार करता
हूँ ॥ ५ ॥

भावार्थ—बुद्धिमान् धार्मिक राजा बड़े बड़े अधिकारियों का आदर
करके प्रजा की रक्षा करे ॥ ५ ॥

अगन्निन्द्र अवो बृहद् द्युम्नं दधिष्व दुस्तरम् । उत् ते शुष्मं
तिरामसि ॥ ६ ॥

अगन् । इन्द्र । अवः । बृहत् । द्युम्नम् । दधिष्व । दुस्तरम् ॥
उत् । ते । शुष्मम् । तिरामसि ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (बृहत्) बड़ा
(अवः) अन्न [हमको] (अगन्) प्राप्त हुआ है, (दुस्तरम्) दुस्तर [अजेय]
(द्युम्नम्) चमकने वाले यश को (दधिष्व) तू धारण कर, (ते) तेरे (शुष्मम्)
बल को (उत् तिरामसि) हम बढ़ाते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—जिस राजा के कारण बहुत अन्न आदि पदार्थ मिलें, प्रजागण
उस के बल बढ़ाने में सदा प्रयत्न करें ॥ ६ ॥

अर्वावतो नु आ गृह्यथो शक्र परावतः । उ लोको वस्ते
अद्रिषु इन्द्रे ह तत् आ गृहि ॥ ७ ॥

अर्वा-वतः । नः । आ । गृहि । अथो इति । शुक्र । पुरा-
वतः ॥ जं इति । लोकः । यः । ते । अद्रि-वः । इन्द्र ।
इह । ततः । आ । गृहि ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(शक्र) हे समर्थ ! (अर्वावतः) समीप से (अथो) और
(परावतः) दूर से (नः) हमें (आ गृहि) प्राप्त हो, (अद्रिवः) हे वज्रधारी
(इन्द्र) इन्द्र ! [वड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (उ) और (यः) जो (ते) तेरा
(लोकः) स्थान है, (ततः) वहाँ से (इह) यहाँ पर (आ गृहि) तू आ ॥ ७ ॥

भाषार्थ—राजा अधिकारियों द्वारा समीप और दूर से प्रजा की सुधि
रखने और उनको आप भी जा कर देखा करे ॥ ७ ॥

इन्द्रो अङ्ग महद् भुयम्भी षट्प चुच्यवत् । स हि स्थिरी
विचर्षणिः ॥ ८ ॥

इन्द्रः । अङ्ग । महत् । भुयम् । अमि । सत् । अप । चुच्यु-
वत् ॥ सः । हि । स्थिरः । वि-चर्षणिः ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(अङ्ग) हे विद्वान् ! (इन्द्रः) इन्द्र [वड़े ऐश्वर्य वाले
राजा] ने (महत्) बड़े और (अमि) सब ओर से (सत्) वर्तमान (भुयम्)
भय को (अव चुच्यवत्) हटा दिया है । (सः हि) वही (स्थिरः) दृढ और
(विचर्षणिः) विशेष देखने वाला है ॥ ८ ॥

भाषार्थ—राजा दृढस्वभाव और लावधान रहकर दुष्टों से प्रजा की
रक्षा करे ॥ ८ ॥

इन्द्रश्च सु लयाति नो न नः पुश्चाद्दुचं नशत् । भुद्रं भवाति
नः पुरः ॥ ९ ॥

इन्द्रः । सु । लयाति । नः । न । नः । पुश्चात् । अघम् ।
नशत् ॥ भुद्रम् । भुवाति । नः । पुरः ॥ ९ ॥

भाषार्थ—(इन्द्रः) इन्द्र [वड़े ऐश्वर्य वाला राजा] (च) निश्चय
करके (नः) हमें (सु लयाति) सु की वरें, (अघम्) पाप (नः) हम को

(पश्चात्) पीछे (न) न (नशत्) नाश करे । (भद्रम्) कल्याण (नः) हमारे लिये (पुरस्तात्) आगे (भवति) होवे ॥ ६ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि धर्मात्मा राजा के प्रबन्ध में रहकर पापों से बच कर सुख भोगें ॥ ६ ॥

इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यः अभयं कर्तुः । जेतुः शत्रून्
विचर्षणिः ॥ १० ॥

इन्द्रः । आशाभ्यः । परि । सर्वाभ्यः । अभयम् । कर्तुः ॥
जेतुः । शत्रून् । विचर्षणिः ॥ १० ॥

भाषार्थ—(इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला राजा] (सर्वाभ्यः) सब (आशाभ्यः) आशाओं [गहरी इच्छाओं] के लिये (अभयम्) अभय (परि) सब ओर से (कर्तुः) करे । वह (शत्रून् जेतुः) शत्रुओं को जीतने वाला और (विचर्षणिः) विशेष देखने वाला है ॥ १० ॥

भाषार्थ—राजा अपने न्याय युक्त प्रबन्ध से विघ्नों को हटाकर प्रजा को उन्नति की गहरी इच्छाओं को पूरा करे ॥ १० ॥

मन्त्राः ११—१३ सेनानीलक्षणोपदेशः—मन्त्र ११—१३ सेनापति के लक्षणों का उपदेश ॥

क ई वेद सुते सचा पिबन्तं कद् वयो दधे । अयं यः पुरी
विभिनत्थोजसा मन्दानः शिप्र्यन्धसः ॥ ११ ॥

कः । ईम् । वेद् । सुते । सचा । पिबन्तम् । कद् । वयः ।
दधे ॥ अयम् । यः । पुरीः । वि-भिनत्ति । ओजसा । मन्दानः ।
शिप्री । अन्धसः ॥ ११ ॥

भाषार्थ—(कः) कौन (सचा) नित्य मेल के साथ (सुते) नस्वरम् (पिबन्तम्) पीते हुये (ईम्) प्राप्ति योग्य [सेनापति] को (वेद) जानता है ? (कद्) कितना (वयः) जीवन सामर्थ्य [पराक्रम] (दधे) वह रखता है ? (अयम्) यह (यः) जो (शिप्री) डढ़ जाबड़े वाला, (अन्धसः) अज

का (मन्दानः) आनन्द देने वाला [वीर] (ओजसा) बल से (पुरः) दुर्गों को (विभिनत्ति) तोड़ देता है ॥ ११ ॥

भावार्थ—जिस पराक्रमी पुरुष के शरीर बल और बुद्धिबल की याह सामान्य पुरुष नहीं जानते, वह नीतिज्ञ अज्ञ आदि पदार्थ एकत्र कर के बैरियों को जीतता है ॥ ११ ॥

मन्त्र ११—१३ आचुके हैं—अ० २० । ५३ । १—३ ॥

दाना मृगो न वारुणः पुरुत्रा चुरथं दधे । नक्तिष्ट्वा नि
यमदा सुते गमो महान्श्रस्वो जसा ॥ १२ ॥

दाना । मृगः । न । वारुणः । पुरु-त्रा । चुरथम् । दधे ॥
नक्तिः । त्वा । नि । यमत् । आ । सुते । गमः । महान् ।
चरति । । ओजसा ॥ १२ ॥

भावार्थ—(न) जैसे (मृगः) जंगली (वारुणः) हाथी (दाना) मद के कारण (पुरुत्रा) बहुत प्रकार से (चुरथम्) भपट (दधे) लगाता है । [वैसे ही] (नक्ति) कोई नहीं (त्वा) तुम्हें (नि यमम्) रोक सकता, (सुते) तस्वरास को (आ गमः) तू प्राप्त ही, (महान्) महान् होकर तू (ओजसा) बल के साथ (चरति) विचरता है ॥ १२ ॥

भावार्थ—जैसे वन का मदमत्त हाथी सब ओर बे रोक घूमकर उपद्रव मचाता है, वैसे ही नीतिज्ञ सेनापति तस्व विचार कर शत्रुओं को शीघ्र दबावे ॥ १२ ॥

य उग्रः सन्ननिष्ठृत स्थिरो रणाय संस्कृतः । यदि स्तोतु-
र्मघवा शृणवद्धवं नेन्द्रो येषत्या गमत् ॥ १३ ॥

यः । उग्रः । सन् । अग्निः-स्तृतः । स्थिरः । रणाय । संस्कृतः ॥
यदि । स्तोतुः । मघ-वा । शृणवत् । हवम् । न । इन्द्रः ।
योषति । आ । गमत् ॥ १३ ॥

भाषार्थ—(यः) जो [वीर] (उग्रः) प्रचण्ड, (अनिन्दितः) कभी न हराया गया, (स्थिरः) दृढ (सन्) होकर (रणाय) रण के लिये (संस्कृतः) सस्कार किये हुये है। (यदि) यदि (मघवा-) वह महाधनी (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला सेनापति] (स्तोतुः) स्तुति करने वाले की (हवम्) पुकार (शृणवत्) सुने, [तौ] (न योषति) वह अलग न रहे, [किन्तु] (आ गमत्) आता रहे ॥ १३ ॥

भावार्थ—प्रतापी, अजेय, युद्ध कुशल सेनापति प्रजा की पुकार को सदा ध्यान देकर सुनता रहे ॥ १३ ॥

मन्त्राः १४—१६ परमात्मोपासनोपदेशः । मन्त्र १४—१६ परमात्मा की उपासना का उपदेश ॥

व्यं च त्वा सुतावन्तु आपो न वृक्तबर्हिषः । पवित्रस्य प्रस्र-
वणेषु वृत्रहन् परि स्तोतार आसते ॥ १४ ॥

व्यम् । च । त्वा । सुत-वन्तः । आपः । न वृक्त-बर्हिषः ॥
पवित्रस्य । प्र-स्रवणेषु । वृत्र-हन् । परि । स्तोतारः ।
आसते ॥ १४ ॥

भाषार्थ—(वृत्रहन्) हे शत्रुनाशक ! [परमात्मन्] (सुतवन्तः) तत्त्व के धारण करने वाले, (वृक्तबर्हिषः) हिंसा त्यागने वाले [अथवा वृद्धि पाने वाले विद्वान्], (स्तोतारः) स्तुति करने वाले (वयम्) हम लोग (च) निश्चय करके (त्वा) तुम्हें को (परि आसते) सेवते हैं, (पवित्रस्य) शुद्ध स्थान के (प्रस्रवणेषु) भरना में (आपः न) जैसे जल [ठहरते हैं] ॥ १४ ॥

भावार्थ—तत्त्वग्राही विद्वान् लोग उस परमात्मा के ही ध्यान में शान्ति पाते हैं, जैसे वहता हुआ पानी शुद्ध चौरस स्थान में आकर ठहर जाता है ॥ १४ ॥

मन्त्र १४—१६ आशुके है—अ० २० । ५२ । १—३ ॥

स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः । कृदा सुतं

तृषाण ओक् आ गम् इन्द्र स्वब्दीव वंसंगः ॥ १५ ॥
 स्वरन्ति । त्वा । सुते । नरः । वसो इति । निरेके ।
 उक्थिनः ॥ कदा । सुतम् । तृषाणः । ओक् । आ । गम् ।
 इन्द्र । स्वब्दी-इव । वंसंगः ॥ १५ ॥

भाषार्थ—(वसो) हे श्रेष्ठ ! [परमात्मन्] (उक्थिनः) कहने योग्य वचनों वाले (नरः) नर [नेता लोग] (निरेके) निःशंक स्थान में (सुते) सार पदार्थ के निमित्त (त्वा) तुझ को (स्वरन्ति) पुकारते हैं—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन्] (कदा) कब (तृषाणः) प्यासे [के समान] तू (सुतम्) पुत्र को (ओक्) घर में (आ गम्) प्राप्त होगा, (स्वब्दी-इव) जैसे सुन्दर जल देने वाला मेघ (वंसंगः) सेवनीय पदार्थों का प्राप्त कराने वाला [होता है] ॥ १५ ॥

भावार्थ—जब मनुष्य सार पदार्थ पाने के लिये परमात्मा की भक्ति निर्भय होकर करता है, परमात्मा उसको इस प्रकार चाहता है जैसे प्यासा जल को, और इस प्रकार उसका उपकार करता है, जैसे सूखा के पीछे मेघ आनन्द देता है ॥ १५ ॥

कण्वेभिर्धृष्णो वा धृषद् वाजं दर्षि सहस्रिणम् । पिशङ्गरूपं
 मघवन् विचर्षणे मक्षू गोमन्तमीमहे ॥ १६ ॥

कण्वेभिः । धृष्णो इति । आ । धृषत् । वाजम् । दर्षि ।
 सहस्रिणम् ॥ पिशङ्ग-रूपम् । मघ-वन् । वि-चर्ष-णे । मक्षु ।
 गोमन्तम् । ई-म-हे ॥ १६ ॥

भाषार्थ—(धृष्णो) हे निर्भय ! [परमात्मन्] (धृषत्) दृढ़ता से (कण्वेभिः) बुद्धिमानों करके [किये हुये] (सहस्रिणम्) सहस्रों आनन्द वाले (वाजम्) वेग का (आ दर्षि) तू आदर करता है, (मघवन्) हे धन वाले ! (विचर्षणे) हे दूरदर्शी ! (पिशङ्गरूपम्) अवयवों को रूप देने वाले, (गोमन्तम्) वेदवाणी वाले [तुझ] से (मक्षु) शीघ्र (ईमहे) हम प्रार्थना करते हैं ॥ १६ ॥

भावार्थ—वह परमात्मा परमाणुओं से सूर्य आदि बड़े बड़े लोकों का बनाने वाला है, उस निर्भय की उपासना से मनुष्य धर्मात्मा होकर निर्भय होवे ॥ १६ ॥

सूक्तम् ५८ ॥

१—४॥ १, २ इन्द्रः, ३, ४ सूर्यो देवता ॥ १, २ निचूत्पथ्या वृहती, २ सतः पङ्क्तिः ; ४ भुरिगार्पी वृहती ॥

ईश्वरविषयोपदेशः—ईश्वर विषय का उपदेश ॥

आयन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । वसूनि जाते जनमानु
ओजसा प्रति भागं न दीधिम ॥ १ ॥

आयन्तः-इव । सूर्यम् । विश्वा । इत् । इन्द्रस्य । भक्षत ॥
वसूनि । जाते । जनमाने । ओजसा । प्रति । भागम् । न । दीधिम ॥ १ ॥

भाषार्थ—[हे मनुष्यों !] (सूर्यम्) सूर्य [रवि] का (आयन्तः इव) आश्रय करते हुये [किरणों] के समान (इन्द्रस्य) इन्द्र [परम ऐश्वर्यवान् परमात्मा] के (ओजसा) सामर्थ्य से (विश्वा) सब (इत्) ही (वसूनि) वस्तुओं को (भक्षत) भोगो, [उन को] (जाते) उत्पन्न हुये और (जनमाने) उत्पन्न होने वाले जगत् में (भागम् न) अपने भाग के समान (प्रति) प्रत्यक्ष रूप से (दीधिम) हम प्रकाशित करें ॥ १ ॥

भावार्थ—जैसे किरणें सूर्य के आश्रय से रहती हैं, वैसे ही परमात्मा का आश्रय लेकर संसार के पदार्थों से उपकार लेते हुये हम आगे होने वालों

१— (आयन्तः) शिञ् सेवायाम्—शतृ । गुणे प्राप्ते छान्दसी वृद्धिः ।
आयन्तः । आश्रयन्तः किरणाः (इव) यथा (सूर्यम्) रविमण्डलम् (विश्वा) सर्वाणि
(इत्) एव (इन्द्रस्य) परमैश्वर्यवतः परमात्मनः (भक्षत) भक्ष भक्षणे—लोट् ।
भक्षयत । सेवध्वम् (वसूनि) वस्तूनि (जाते) उत्पन्ने (जनमाने) छान्दसं रूपम् ।
जनिष्यमाणे । उत्पत्स्यमाने जगति (ओजसा) सामर्थ्येन (प्रति) प्रत्यक्षेण
(भागम्) सेवनीयमंशम् (न) इव (दीधिम) दीधीङ् दीप्तिदेवनयोः ।
छान्दसं परस्मैपदम्, अन्तर्गतएयर्थः । प्रकाशयेम ॥

के लिये पिता के धन के समान अपना कर्म छोड़ जावे ॥ १ ॥

मन्त्र १. २ ऋग्वेद में हैं—८। ६६ [सायणुमाध ८८]। ३, ४; सामवेद—
४०५। २। १४, म० १—पू० ३। ८। ५ तथा यजुर्वेद—३३। ४१ ॥

अनर्शरातिं वसुदामुपं स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः । सो
अस्य कामं विधुतो न रोषति मनो दानाय चोदयन् ॥ २ ॥

अनर्श-रातिम् । वसु-दाम् । उपं । स्तुहि । भद्राः । इन्द्रस्य ।
रातयः ॥ सः । अस्य । कामम् । विधुतः । न । रोषति ।
मनः । दानाय । चोदयन् ॥ २ ॥

भावार्थ—[हे मनुष्य !] (अनर्शरातिम्) निर्दोष दानी, (वसुदाम्)
धन देने वाले [परमात्मा] की (उप) आदर पूर्वक (स्तुहि) स्तुति कर, (इन्द्रस्य)
वसु इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले परमेश्वर] के (रातयः) दान (भद्राः) कल्याण
कारी हैं । (सः) वह [परमात्मा] (विधुतः) सेवक के (मनः) मन को
(दानाय) दान के लिये (चोदयन्) बढ़ाता हुआ (अस्य) उसके (कामम्)
इच्छा को (न) नहीं (रोषति) नष्ट करता है ॥ २ ॥

भावार्थ—मनुष्य परमात्मा के अक्षय भण्डार से अनन्त दानों को पाकर
सदा उपकार में लगावे ॥ २ ॥

वयमहाँ अस्मि सूर्य वडादित्य म्हाँ अस्मि । महस्ते सुतो
महिमा पनस्यतेऽद्वा देव म्हाँ अस्मि ॥ ३ ॥

वट् । महान् । अस्मि । सूर्य । वट् । आदित्य । महान् ।

२—(अनर्शरातिम्) ऋश हिंसायाम्—अच, सौत्रो धातुः । अनर्शरातिमन-
श्लीलदानमश्लीलं पापकमश्रमद् विपन्म्—निर० ६। २३। निर्दोषदानम्
(वसुदाम्) धनस्य दातारम् (उप) पूजायाम् (स्तुहि) प्रशंस (भद्राः)
कल्याणयः (इन्द्रस्य) परमैश्वर्यवतः परमैश्वरस्य (रातयः) दानानि (सः)
परमात्मा (अस्य) उपासकस्य (कामम्) मनोरथम् (विधुतः) परिचरतः
पुरुषस्य (न) निषेधे (रोषति) दिनस्ति । नाशयति (मनः) अन्तःकरणम्
(दानाय) (चोदयन्) प्रेरयन् सन् ॥

असि महः । ते । सतः । महिमा । पनस्यते । अद्वा ।
देव । महान् । असि ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(सूर्य) हे चराचर के प्रेरक [परमेश्वर] तू (बट्) सत्य सत्य (महान्) बड़ा (असि) है, (आदित्य) हे अविनाशी ! तू (बट्) ठीक ठीक (महान्) महान् [पूजनीय] (असि) है । (ते) तुझ (महः) महान्, (सतः) सत्य स्वरूप की (महिमा) महिमा (पनस्यते) स्तुति की जाती है, (देव) हे दिव्य गुण वाले तू (अद्वा) निश्चय करके (महान्) महान् (असि) है ॥ ३ ॥

भावार्थ—जिस परमात्मा की महिमा सब सृष्टि के पदार्थ जताते हैं, सब मनुष्य उसकी उपासना करके अपनी उन्नति करें ॥ ३ ॥

मन्त्र ३ कुछ भेद से आशुका है—अ० १३। २। २६। मन्त्र ३, ४ ऋग्वेद में हैं—८। १०१ [सायणभाष्य ६०]। ११, १२; यजुर्वेद ३३। ३६, ४०। और सामवेद—७० ६। १। ६ ॥

बट् सूर्य अवसा महान् असि सुत्रा देव महान् असि । महा
देवानामसुर्यैः पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम् ॥ ४ ॥

बट् । सूर्य । अवसा । महान् । असि । सुत्रा । देव । महान् ।
असि ॥ महा । देवानाम् । असुर्यैः । पुरः-हितः । वि-भु ।
ज्योतिः । अदाभ्यम् ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(सूर्य) हे सूर्य ! [सूर्य के समान सब के प्रकाशक परमेश्वर]
तू (अवसा) यश वा धन से (बट्) सचमुच (महान्) बड़ा (असि) है,

३—(बट्) सत्यम् (महान्) विशालः (असि) (सूर्य) हे चराचर—
प्रेरक (बट्) (आदित्य) हे अविनाशिस्वरूप (महान्) पूजनीयः (असि)
(महः) महतः (ते) तव (सतः) सत्यस्वरूपस्य (पनस्यते) स्तुयते (अद्वा)
सत्यम् (देव) हे दिव्यगुणविशिष्ट (महान्) (असि) ॥

४—(बट्) सत्यम् (सूर्य) हे सवितृवत् स्वप्रकाशक (अवसा)
अश्रुसा धनेन वा (महान्) (असि) (महा) महिम्ना । महत्त्वेन (देवानाम्)

(देव) हे सुखदाता तू (मन्त्रा) सचमुच (महान्) बड़ा (अस्ति) है । (देवानाम्) चलने वाले लोकों के बीच (महा) अपनी बड़ाई से तू (असुर्यः) प्राणियों वा बुद्धि वालों का हितकारी (पुरोहितः) पुरोहित [अगुष्मा] और (विभु) व्यापक (अदाभ्यम्) न दबने योग्य (ज्योतिः) ज्योति है ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो प्रकाशस्वरूप, सब का पुरोहित अर्थात् मुखिया होकर सब प्राणियों का हित करता है, मनुष्य उसकी आराधना कर के आत्मबल बढ़ावे ॥ ४ ॥

सूक्तम् ५८ ॥

मन्त्राः १—४ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ पथ्या वृहती; २, ४ निचृदार्षी पङ्क्तिः; ३ निचृदार्षी वृहती ॥

१—२ ईश्वरोपासनोपदेशः—१—२ ईश्वर की उपासना का उपदेश ॥

उद्दु त्ये मधुमत्तमा गिरु स्तोमास ईरते । सुत्राजितो धनुसा
अक्षितोतयो वाज्यन्तो रथा इव ॥ १ ॥

उत् । जं इति । त्ये । मधुमत्-तमाः । गिरुः । स्तोमासः ।
ईरते ॥ सुत्रा-जितः । धनुसाः । अक्षित-उतयः । वाज्य-यन्तः ।
रथाः-इव ॥ १ ॥

भावार्थ—(त्ये) वे (मधुमत्तमाः) अतिमधुर (स्तोमासः) स्तोत्र (उ) और (गिरुः) वाणियाँ (उत् ईरते) ऊंची जाती हैं । (इव) जैसे (सुत्राजितः) सत्य से जीतने वाले, (धनुसाः) धन देने वाले, (अक्षितोतयः) अक्षय रक्षा करने वाले, (वाज्यन्तः) वल प्रकट करते हुये (रथाः) रथ [आगे बढ़ते हैं] ॥ १ ॥

गतिशीलानां लोकानां मध्ये (असुर्यः) असुः प्राणः । प्रज्ञानाम—निघ० ३। ६, रोमत्वर्थीयः, यत् हितार्थं । असुरत्वं प्रज्ञावत्त्वं वानवत्त्वं वा—निघ० १० । ३४ । प्राणिभ्यो बुद्धिमद्भ्यो वा हितकरः (पुरोहितः) अ० ३ । १६ । १ । पुरस्+डुधाञ् धारण पोषणयोः—क्त । अग्रे धृतः स्थापितः । प्रधानः (विभु) व्यापकम् (ज्योतिः) प्रकाशस्वरूपम् (अदाभ्यम्) अहिसनीयम् ।

भाषार्थ—जैसे शूर धीरों के रथ रणक्षेत्र में विजय पाने के लिये उमग से चलते हैं, वैसे ही मनुष्य दोषों और दुष्टों को वश में करने के लिये परमात्मा की स्तुति को किया करें ॥ १ ॥

मन्त्र १,२ आचुके हैं—अ० २०।१०।१—२ ॥

करवा इव भृगवः सूर्या इव विश्वमिद्रोतमानशुः । इन्द्रं
स्तोमेभिर्महयन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन् ॥ २ ॥

करवाः-इव । भृगवः । सूर्या-इव । विश्वम् । इत् । धीतम् ।
आनशुः ॥ इन्द्रम् । स्तोमेभिः । मह-यन्तः । आयवः । प्रिय-
मेधासः । अस्वरन् ॥ २ ॥

भाषार्थ—(करवाः इव) बुद्धिमानों के समान, और (सूर्याः इव) सूर्यों के समान [तेजस्वी], (भृगवः) परिपक्व ज्ञान वाले, (महयन्तः) पूजते हुये, (प्रियमेधासः) यज्ञ को प्रिय जानने वाले (आयवः) मनुष्यों ने (विश्वम्) व्यापक, (धीतम्) ध्यान किये गये (इन्द्रम्) इन्द्र [परमात्मा] का (इत्) ही (स्तोमेभिः) स्तोत्रों से (आनशुः) पाया है और (अस्वरन्) उच्चारण है ॥ २ ॥

भाषार्थ—मनुष्य बुद्धिमानों और सूर्यों के समान प्रतापी होकर परमात्मा के गुणों को गाते हुये आत्मोन्नति करें ॥ २ ॥

३—४ राजप्रजाकर्तव्योपदेशः—३—४ राजा और प्रजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

उदिन्वस्य रिच्युतेशो धनं न जिग्युषः । य इन्द्रो हरि-
वान् दभन्ति तं रिपि दक्षं दधाति सेमिनि ॥ ३ ॥

उत् । इत् । नु । अस्मि । रिच्युते । अंशः । धनम् । न ।
जिग्युषः ॥ यः । इन्द्रः । हरि-वान् । न । दभन्ति । तम् ।
रिपिः । दक्षम् । दधाति । सेमिनि ॥ ३ ॥

१—२ ॥ मन्त्रो व्याख्यातौ अ० २०।१०।१—२ ॥

भाषार्थ—(अस्य) उस [राजा] का (इत्) ही (अंशः) भाग (जिश्युषः) विजयी वीर के (धनं न) धन के समाग (जु) शीघ्र (उत् रिच्यते) बढ़ना जाता है (यः) जो (हरिवान्) श्रेष्ठ मनुष्यों वाला (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला राजा] (सोमिति) तत्त्व रस वाले व्यवहार में (दजम्) वन को (दधाति) लगाता है, और (तम्) उस [राजा] को (रिपः) वैरी लोग (न) नहीं (दमन्ति) सताने हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो राजा अपने बल को श्रेष्ठ व्यवहारों में लगाता है, वह राज्य में उन्नति कर के प्रतिष्ठा पाता है ॥ ३ ॥

मन्त्र ३, ४ ऋग्वेद में है—७।३२।१२, १३ ॥

मन्त्रमखर्वं सुधितं सुपेशंसं दधात यज्ञियेषुवा ।

पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कर्मणा भुवत् ॥ ४ ॥

मन्त्रम् । अखर्वम् । सु-धितम् । सु-पेशंसम् । दधात ।
यज्ञियेषु । आ ॥ पूर्वीः । चन । प्र-सितयः । तरन्ति । तम् ।
यः । इन्द्रे । कर्मणा । भुवत् ॥ ४ ॥

भाषार्थ—[हे मनुष्यों !] (अखर्वम्) अनर्चि [धार्मिक], (सुधितम्) अच्छे प्रकार व्यवस्था किये गये, (सुपेशंसम्) बहुत सोना आदि धन करने वाले (मन्त्रम्) मन्त्र [मन्तव्य विचार] को (यज्ञियेषु) पूजा योग्य व्यवहारों में

३—(उत्) आधिक्ये (इत्) एव (जु) क्षिप्रम् (अस्य) राज्ञः (रिच्यते) अधिको भवति (अशः) भागः (धनम्) (न) इव (जिश्युषः) जि जये—कसु । जयशीलस्य (यः) (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् राजा (हरि—वान्) प्रशस्तमनुष्यैर्युक्तः (न) निषेधे (दमन्ति) हिंसन्ति (तम्) राजानम् (रिपः) रिपवः । शत्रवः (दजम्) बलम् (दधाति) धरति (सोमिति) तत्त्वरसवति व्यवहारे ॥

४—(मन्त्रम्) मन्तव्यं विचारम् (अखर्वम्) सर्वगतौ उपेक्ष—अर्च । अनौर्चम् । धार्मिकम् (सुधितम्) दधाते—क । सुविहितम् । सुष्ठु व्यवस्था—पितम् (सुपेशंसम्) पेशो हिरण्यनाम—निघ० १ । २ । सुपेशंसि शोभनानि

(आ) सब ओर से (दधात) धारण करो । (पूर्वीः) प्राचीन (चन) ही (प्रसितयः) उत्तम प्रबन्ध (तम्) उस मनुष्य को (तरन्ति) पार लगाते हैं, (यः) जो पुरुष (इन्द्रे) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले राजा] के निमित्त (कर्मणा) क्रिया के साथ (भुवत्) होवे ॥ ४ ॥

भावार्थ— राजा और विद्वान् जन मिलकर गूढ़ विचारों के साथ सर्व-हितकारी काम करके आपस में प्रीति बढ़ावे ॥ ४ ॥

सूक्तम् ६० ॥

१—६ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ विराडाषीं गायत्री, २, ५ गायत्री; ३, ४ निचृद् गायत्री; ६ वर्धमाना गायत्री ॥

मनुष्यकर्तव्योपदेशः—मनुष्य के कर्तव्य का उपदेश ॥

एषा असि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः । एषा ते राध्यं मनः १
एव । हि । असि । वीर-युः । एव । शूरः । उत । स्थिरः ॥
एव । ते । राध्यम् । मनः ॥ १ ॥

भावार्थ—[हे पुरुष !] तू (एव) निश्चय करके (हि) ही (वीरयुः) वीरों का चाहने वाला, (एव) निश्चय करके (शूरः) शूर (उत) और (स्थिरः) दृढ़ (असि) है, (एव) निश्चय करके (ते) तेरा (मनः) मन [विचार सामर्थ्य] (राध्यम्) बढ़ाई योग्य है ॥१॥

भावार्थ—मनुष्य धार्मिक सन्ध सङ्कल्पों की पूर्ति के लिये सदा दृढ़ प्रयत्न करे ॥ १ ॥

मन्त्र १—३ ऋग्वेद में हैं—८। ६२ [सायण भाष्य ८१] । २८—३०। सामवेद—उ० २। १। तृच १८; मन्त्र १—पू० ३। ४। १० ॥

सुवर्णादिधनानि यस्मात् तम् (दधात) धत्त (यज्ञियेषु) पूजाहोत्रु व्यव-
हारेषु (आ) समन्तात् (पूर्वीः) प्राचीनाः (चन) अपि (प्रसितयः) उत्तम-
प्रबन्धाः (तरन्ति) पारयन्ति (तम्) पुरुषम् (यः) (इन्द्रे) ऐश्वर्यवति
राजनि निमित्ते (कर्मणा) सत्क्रियया (भुवत्) भवेत् ॥

१—(एव) निश्चयेन (हि) अवधारणे (असि) (वीरयुः) वीर—
कथञ् । उपत्ययः वीरान् कामयमानः (एव) (शूरः) (उत) अपि (स्थिरः)
दृढ़. (एव) (ते) तव (राध्यम्) भारान्धनोयम् (मनः) मननसामर्थ्यम् ॥

एवा रातिस्तुवीमघु विश्वेभिर्धायि धातृभिः । अधा चिदि-
न्द्र मे सचा ॥ २ ॥

एव । रातिः । तुवि-मघु । विश्वेभिः । धायि । धातृ-भिः ॥
अध । चित् । इन्द्र । मे । सचा ॥ २ ॥

भाषार्थ—(तुविमघ) हे बहुत धन वाले ! (रातिः) [तेरा] दान
(एव) निश्चय करके (विश्वेभिः) सब (धातृभिः) कर्मधारियों कर के
(धायि) धारण किया गया है, (अध) सो, (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य
वाले पुरुष] (मे) मेरे लिये (चित्) भी (सचा) नित्य मेल से [रह] ॥ २ ॥

भावार्थ—वीर पुरुष बहुत धन को एकत्र करके अपने कर्मकारियों को
सदा प्रसन्न रखे ॥ २ ॥

मो षु ब्रह्मैव तन्द्रयुर्भुवो वाजानां पते । मत्स्वो सुतस्य
गोमतः ॥ ३ ॥

मो इति । सु । ब्रह्मा-इव । तन्द्रयुः । भुवः । वाजानाम् ।
पते ॥ मत्स्व । सुतस्य । गो-मतः ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(वाजानां पते) हे अज्ञों के रक्षक ! (ब्रह्मा इव) ब्रह्मा
[वेदज्ञाता] के समान [होकर] तू (तन्द्रयुः) आलसी (मो षु भुवः)
कमी भी मत हो, (गोमतः) वेदवाणी से युक्त (सुतस्य) तस्व रस का
(मत्स्व) आनन्द भोग ॥ ३ ॥

२—(एव) निश्चयेन (रातिः) दानम् (तुविमघ) हे बहुधनवन्
(विश्वेभिः) सर्वैः (धायि) अधायि । धार्यते (धातृभिः) कर्मधारकैः (अध)
अनन्तरम् (चित्) एव (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवन् पुरुष (मे) मह्यम् (सचा)
समवायेन—वर्तस्वैति शेषः ॥

३—(मो) नैव (सु) (ब्रह्मा) वेदज्ञाता (इव) यथा (तन्द्रयुः) तद्वि
अवलादे मोहे च—यञ्, ष्यच्—उ । तन्द्रम् आलस्यमिच्छन् । आलस्ययुक्तः
(भुवः) भूयाः (वाजानाम्) अज्ञानाम् (पते) रक्षक (मत्स्व) हर्षं प्राप्नुहि
(सुतस्य) नस्वरसस्य (गोमतः) वेदवाणीयुक्तस्य ॥

भाषार्थ—मनुष्य विद्वानों के समान निरालसी होकर तत्त्वज्ञान के अभ्यास से सुखी होवे ॥ ३ ॥

ए॒वा ह्य॑स्य सु॒नृता॑ वि॒रुष्णी॑ गो॒मती॑ मु॒ही । पु॒क्का शा॒खा न
दा॒शुषे॑ ॥ ४ ॥

ए॒व । हि॑ । अ॒स्य॒ । सु॒नृता॑ । वि॒रुष्णी॑ । गो॒मती॑ । मु॒ही ॥
पु॒क्का । शा॒खा । न । दा॒शुषे॑ ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(अस्य) उस [सभापति] की (सुनृता) अन्नवाली क्रिया (एव—) निश्चय करके (हि) ही (विरुष्णी) स्पष्ट वाणी वाली, (गोमती) भेष्ट दृष्टि वाली, (मही) सत्कार योग्य, (पक्का) पररिपक [फल फूल वाली] (शाखा न) शाखा के समान (दाशुषे) आत्मदानी पुरुष के लिये [होवे] ॥ ४ ॥

भाषार्थ—राजा आदि सभापति दूरदर्शी होकर अन्न आदि पदार्थों से हितैषी सुपात्रों का सत्कार कर के सुखी करे, जैसे फल फूल वाले वृक्ष आनन्द देते हैं ॥ ४ ॥

मन्त्र ४—६ ऋग्वेद में हैं—१ । ८ । ८—१० । और आगे हैं, २० । ७१ ।
४—६ ॥

ए॒वा हि॑ ते॒ विभू॑तय॒ ज॒तय॑ इन्द्र॒ माव॑न्ते । सु॒द्यश्चि॑त् सन्ति
दा॒शुषे॑ ॥ ५ ॥

ए॒व । हि॑ । ते॒ । वि॒भू॑तयः । ज॒तयः॑ । इन्द्र॒ । मा॒व॑न्ते ॥
सु॒द्यः । चि॑त् । सन्ति । दा॒शुषे॑ ॥ ५ ॥

४—(एव) निश्चयेन (हि) अवधारणे (अस्य) सभापतेः (सुनृता) सुनृतेत्यन्ननाम—निघ० २ । ७ । अन्नवती क्रिया (विरुष्णी) अ० ५ । २६ । १३ । वि + रण व्यक्त्यां वाचि—क्विप् शपृत्ययो मत्वर्थे, ङीप् । स्पष्टवाग्वती (गोमती) भेष्टदृष्टियुक्ता (मही) महती । पूज्या (पक्का) फलपुष्पयुक्ता (शाखा) वृक्षाद्ययवः (न) इव (दाशुषे) आत्मदानिने । भक्ताय ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (एव) निश्चय करके (हि) ही (ते) तेरे (विभूतयः) अनेक ऐश्वर्य (मावते) मेरे तुल्य (दाशुषे) आत्मदानी के लिये (सद्यः चित्) तुरन्त ही (ऊतयः) रक्षासाधन (सन्ति) होते हैं ॥ ५ ॥

भाषार्थ—राजा अपना ऐश्वर्य श्रेष्ठ उपकारी पुरुषों की रक्षा में लगाता रहे ॥ ५ ॥

सुवा ह्यस्य काम्या स्तोमं उक्थं च शंस्या । इन्द्राय सोम-
पीतये ॥ ६ ॥

सुव । हि । अस्य । काम्या । स्तोमः । उक्थम् । च । शंस्या ॥
इन्द्राय । सोम-पीतये ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(एव) निश्चय करके (हि) ही (अस्य) उस [समापति] के (काम्या) मनोहर और (शंस्या) प्रशंसनीय (स्तोमः) उत्तम गुण (च) और (उक्थम्) कहने योग्य कर्म (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान् पुरुष के लिये (सोमपीतये) तत्त्वरस पीने के निमित्त [हैं] ॥ ६ ॥

भाषार्थ—उत्तम गुणी पुरुष को समापति बनाकर सब मनुष्य ऐश्वर्य वाले और तत्त्वरस वाले होंगे ॥ ६ ॥

५—(एव) निश्चयेन (हि) अवधारणे (ते) तत्र (विभूतयः) विवि-
धैश्वर्याणि (ऊतयः) रक्षासाधनानि (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् राजन् (मावते)
वतुष्मत्करणे युष्मद्भ्यां छन्दसि सादृश्य उपसंबन्धानम् । घा० पा० ५ ।
२ । ३६ । अस्मद्—वतुष्मत्सादृश्ये । आ मर्चनाम्नः । पा० ६ । ३ । ६१ । इत्या-
कारादेशः । मत्सदृशाय (सद्यः)-शीघ्रम् (चित्) एव (सन्ति) भवन्ति
(दाशुषे) आत्मदानिने ॥

६—(एव) निश्चयेन (हि) अवधारणे (अस्य) समापतेः (काम्या)
सुपां सुलुक्० । पा० ७ । १ । ३६ । इति द्विवचनस्य आकारः । कमनीये (स्तोमः)
इत्युत्पत्त्याः (उक्थम्) वक्तव्यं कर्म (च) (शंस्या) पूर्ववद् आकारः । प्रशंसनीये
(इन्द्राय) ऐश्वर्यवते पुरुषाय (सोमपीतये) तत्त्वरसपानाय ॥

सूक्तम् ६१ ॥

१—६ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ उष्णिक; २—६ निचृद्दुष्णिक ॥

परमेश्वरगुणोपदेशः—परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥

तं ते मदं गृणीमसि वृषणं पृत्सु ससहिम् । उ लोककृत्सु-
मद्रिवो हरिश्चियम् ॥ १ ॥

तम् । ते । मदम् । गृणीमसि । वृषणम् । पृत्-सु । ससहिम् ॥
जं हति । लोक-कृत्सुम् । अद्रि-वः । हरि-श्चियम् ॥ १ ॥

भाषार्थ—(अद्रिवः) हे मेघों के धारण करने वाले ! [परमेश्वर]
(ते) तेरे (तम्) उस (वृषणम्) महाबल वाले, (पृत्सु) सङ्ग्रामों में (सस-
हिम्) विजय करने वाले, (लोककृत्सुम्) लोकों के बनाने वाले (उ) और
(हरिश्चियम्) मनुष्यों में श्री [सेवनीय सम्पत्ति वा शोभा] देने वाले (मदम्)
आनन्द की (गृणीमसि) हम स्तुति करने हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ—पृथिवी आदि सब लोकों के रचने वाले, मनुष्यों को सब में
श्रेष्ठ बनाने वाले न्यायकारी परमेश्वर की स्तुति से हम समर्थ होकर आनन्द
यदावँ ॥ १ ॥

मन्त्र १—३ ऋग्वेद में हैं—८।१५। ४—६, सामवेद—७० २।२।

तुच १८; मन्त्र १—पृ०४। १०। ३ ॥

येन ज्योतीष्यायवे मनवे च विवेदिय । मन्दानो अस्य
बर्हिषो वि राजसि ॥ २ ॥

१—(तम्) प्रसिद्धम् (ते) तव (मदम्) आनन्दम् (गृणीमसि)
प्रस हकारागमः । गृणीमः । स्तुमः (वृषणम्) महाबलवन्तम् (पृत्सु) सङ्ग्रा-
मेषु (ससहिम्) अ० ३। १८। ५। अभिभवितारम् । विजयितारम् (उ) च
(लोककृत्सुम्) कृत्स्नानि कृत्सुः । उ० ३। ३०। करोतेः कृत्सु । लोकानां कर्ता-
रम् (अद्रिवः) हे मेघधारिन् (हरिश्चियम्) हरिषु मनुष्येषु श्रीः अयणीया
सेव्या सम्पत्तिः शोभा वा यस्मात् तम् ॥

येन । ज्योतींषि । आयवे । मनवे । च । विवेदिथ ॥ मन्दानः ।
अस्य । बर्हिषः । वि । राजसि ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—[हे परमेश्वर !] (येन) जिस [यज्ञ] के द्वारा (आयवे) गतिशील [उद्योगी] (च) और (मनवे) मननशील मनुष्य के लिये (ज्योतींषि) ज्योतियों को (विवेदिथ) तू ने प्राप्त कराया है, (मन्दानः) आनन्द करता हुआ तू (अस्य) उस (बर्हिषः) बड़े हुये यज्ञ [संसार] की (वि) विशेष कर के (राजसि) राजा है ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—जिस परमात्मा ने संसार के बीच, सूर्य, अग्नि, विजुली, वायु आदि रचकर पुरुषार्थी विचारवान् पुरुष के लिये पेश्वर्य पाने के अनन्त साधन दिये हैं, वही परमेश्वर सब सृष्टि का स्वामी है ॥ २ ॥

तद्वा चित्त उक्थिनोऽनुं वृषन्ति पूर्वया । वृषपत्नीरपो जया
दिवेदिवे ॥ ३ ॥

तत् । अद्य । चित् । ते । उक्थिनः । अनुं । स्तुवन्ति । पूर्व-या ॥
वृष-पत्नीः । अपः । जयु । दिवे-दिवे ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—[हे परमेश्वर !] (ते) तेरे (तत्) उस [सामर्थ्य] को (उक्थिनः) कहने योग्य को कहने हारे पुरुष (अद्यचित्) अब भी (पूर्वया) पहिले के समान (अनु) लगातार (स्तुवन्ति) गाते हैं । [जिस सामर्थ्य से]

२—(येन) बर्हिषा । यज्ञेन (ज्योतींषि) सूर्याग्निविद्युद्वाग्वादीन् (आयवे) छन्दसीणः उ० १ । २ । इण् । गतौ-उण् । गतिशीलाय (मनवे) मनन-शीलाय मनुष्याय (च) (विवेदिथ) विदून् लाम्भे-लिट् । प्रापितवानसि (मन्दा-नः) अ० २० । ६ । १ । आमोदयितारम् (अस्य) प्रसिद्धस्य (बर्हिषः) प्रवृद्धस्य यज्ञस्य (वि) विशेषेण (राजसि) ईशिवे ॥

३—(तत्) सामर्थ्यम् (अद्य) इदानीम् (चित्) अपि (ते) तव (उक्थिनः) वक्तव्यस्य वक्तारः (अनु) निरन्तरम् (स्तुवन्ति) प्रशंसन्ति (पूर्वया) पूर्वकाले यथा (वृषपत्नीः) वृषा यलवान् परमात्मा पती रक्षको

(वृषपत्नीः) यत्नवान् [तुभ्य परमात्मा] से रक्षा की हुई (अयः) प्रजाओं (को (दिवेदिवे) दिन दिन (जय) तू जीतता है ॥ ३ ॥

भाषार्थ—विक्रान्ति सूत्रमदर्शी लोग परमात्मा की उस शक्ति को देखकर समर्थ होते हैं, जिस शक्ति से वह सब सृष्टि को रचकर सदा अपने वश में रखता है ॥ ३ ॥

तम्भुभि प्र गायत पुरुहुतं पुरुष्टुतम् । इन्द्रं गीर्भिस्तविषमा विवासत ॥ ४ ॥

तम् । जं इति । अम्भि । प्र । गायत । पुरु-हुतम् । पुरु-स्तुतम् ॥ इन्द्रम् । गीः-भिः । तविषम् । आ । विवासत ॥४

भाषार्थ—[हे विद्वानो ।] (तम् उ) उस ही (पुरुहुतम्) बहुत पुराने हुये, (पुरुष्टुतम्) बहुत बड़ाई किये हुये, (तविषम्) महान् (इन्द्रम्) इन्द्र [षडे पेश्वर्य वाले परमात्मा] को (अम्भि) सब ओर से (प्र) भले प्रकार (गायत) गाओ, और (गीर्भिः) वाणियों से (आ) सब प्रकार (विवासत) सत्कार करो ॥ ४ ॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! वह परमात्मा सब से बड़ा है, उसी के गुणों को हृदय में धारण कर के आत्मबल बढ़ाओ ॥ ४ ॥

मन्त्र ४—६ ऋग्वेद में है—८ । १५ । १—३ और आगे हैं—अ० २० । ६० । ८—१० और मन्त्र १ सामवेद में है—पू० ४ । १० । ३ ॥

यस्यै द्विवर्हेषो बृहत् सही दाधारु रोदसी । गिरीरज्जीं श्रुपः स्वर्षुषन्वना ॥ ५ ॥

यस्यै तः (अयः) प्रजा. (जय) लडयें लोट् । जयसि । वशीकरोषि (दिवे-दिवे) प्रतिदिनम् ॥

५—(तम्) प्रसिद्धम् (उ) श्व (अम्भि) सर्वतः (प्र) प्रकर्षेण (गायत) स्तुत (पुरुहुतम्) बहुविधाहृतम् (पुरुष्टुतम्) बहुप्रशंसितम् (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं परमात्मानम्, (गीर्भिः) वाणीभिः (तविषम्) मदान्तम् (आ) समन्तात् (विवासत) परिचरत । सेवाम्—निश० ३ । ५ ॥

यस्य । द्विवि-बर्हसः । बृहत् । सहः । दाधार । रोदसी इति ॥

गिरीन् । अजान् । अपः । स्वः । वृष-त्वना ॥ ५ ॥

च राजसि पुरुष्टुत् एको वृत्राणि जिघ्रसे । इन्द्र जैत्रा अव-
स्या च यन्तवे ॥ ६ ॥

सः । राजसि । पुरु-स्तुतु । एकः । वृत्राणि । जिघ्रसे ॥ इन्द्र ।
जैत्रा । अवस्या । च । यन्तवे ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(द्विवर्हसः) दोनों विद्या और पुरुषार्थ में बड़े हुये (यस्य) जिन [परमात्मा] के (बृहत्) बड़े (सहः) सामर्थ्य ने (रोदसी) सूर्य और भूमि, (अजान्) शीघ्रगामी (गिरीन्) मेशों, (अपः) जलों [समुद्र आदि] और (स्वः) प्रकाश को (वृषत्वना) बल के साथ (दाधार) धारण किया है ॥ ५ ॥ (पुरुष्टुत) हे बहुत स्तुति किये हुये (इन्द्र) इन्द्र । [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन्] (सः) सो (एकः) अकेला तू (जैत्रा) जीतने वालों के योग्य धनों (च) और (अवस्या) यश के लिये दिनकारी कर्मों को (यन्तवे) नियम में रखने के लिये, (राजसि) राज्य करता हूँ, और (वृत्राणि) रोकने वाले विघ्नों को (जिघ्रसे) मिटाता है ॥ ६ ॥

५—(यस्य) परमात्मनः (द्विवर्हसः) गतिकारकोपपदयोः पूर्वपद-
प्रकृतिस्वरत्वं । च । उ० ४ । २२७ । द्वि + वर्ह प्राधान्ये—असि । द्वयोर्विद्या-
पुरुषार्थयोः परिवृद्धस्य (बृहत्) महत् (सहः) सामर्थ्यम् (दाधार) धारित-
वान् (रोदसी) आवापृथिव्यौ (गिरीन्) मेघान् (अजान्) स्फायितञ्चि-
वञ्चिशक्तिः । उ० ६ । १३ । अज गतिकोपपदयोः—रक्, वीमांवाभावः ।
जिघ्रान्—निघ० २ । १५ । शीघ्रगमनान् (अगः) जलानि समुद्रादीनि (स्वः)
प्रकाशम् (वृषत्वना) वृषत्वेन । वीर्येण ॥ ५ ॥

६—(सः) तादृशस्त्वम् (राजसि) ईशिषे (पुरुष्टुत) बहुष्टुतेन (एकः)
अठिनीयः (वृत्राणि) आवरकान् । विघ्नान् (जिघ्रसे) हंसि । नाशयसि
(इन्द्र) हे परमैश्वर्यवन् परमात्मन् (जैत्रा) जैतृ—अण् । जैतृणां योग्यानि
वर्माणि (अवस्या) अ० २० । १२ । १ । यशसे हितानि कर्माणि (च)
(यन्तवे) यन्तुं निरन्तु वशीकर्तुम् ॥

भावार्थ—अकेला महाविद्वान् और महापुरुषार्थी परमात्मा सब को परस्पर धारण आकर्षण से चलाना हुआ अपने विश्वासी भक्तों को उनके पुरुषार्थ के अनुसार धन और कीर्ति देता है ॥ ५, ६ ॥

सूक्तम् ई२ ॥

१—१० ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ६, ७ विगाडाभ्युष्णिक्; २ भुरिगार्धी बृहती; ३, ५ ककुबुष्णिक्; ४ विगाडार्गी पङ्क्तिः; ८—१० निचृद्भृष्णिक् ॥

१—४ राजप्रजाकर्तव्योपदेशः—१—४ राजा और प्रजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

वयमु त्वामपूव्यं स्थूरं न कच्चिद् भरन्तोऽवस्यवः । वाजे चित्रं हवामहे ॥ १ ॥

वयम् । ऊं इति । त्वाम् । अपूर्व्यं । स्थूरम् । न । कत् । चित् । भरन्तः । अवस्यवः ॥ वाजे । चित्रम् । हवामहे ॥ १ ॥

भाषार्थ—(अपूर्व्यं) हे अनुपम ! [राजन्] (कत् चित्) कुछ भी (स्थूरम्) स्थिर (न) नहीं (भरन्तः) रखते हुये, (अवस्यवः) रक्षा चाहने वाले (वयम्) हम (वाजे) सङ्ग्राम के बीच (चित्रम्) विचित्र स्वभाव वाले (त्वाम्) तुझ का (उं) ही (हवामहे) बुलाते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ—जय दृष्ट चोर डाकू लोग अत्यन्त सतावें, प्रजागण वीर राजा की शरण लेकर रक्षा करें ॥ १ ॥

मन्त्र १—४ आ चुके हैं—अथर्व० २० । १४ । १—४ ॥

उप त्वा कर्मन्तये स नो युवोश्चक्राम यो धुषत् ।
त्वामिद्ध्यवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानुषिम् ॥ २ ॥

उप । त्वा । कर्मन् । जन्तये । सः । नः । युवा । उशः । चक्राम् । यः । धुषत् ॥ त्वाम् । इत् । हि । अवितारं । ववृमहे । सखायः । इन्द्र । सानुषिम् ॥ २ ॥

१—४ । एते मन्त्रा व्याख्यताः—म० २० । १४ । १—४ ॥

भाषार्थ—(कर्मन्) कर्म के बीच (नः) हमारी (जनये) रक्षा के लिये (सः) उस (यः) जिन (युवा) स्वभाव से बलवान्, (उग्रः) तेजस्वी और (धृषत्) निर्भय पुरुष ने (चक्राम) पैर बढ़ाया है, (इन्द्र) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्] (अश्वितारम्) उल्ल रत्नक और (सानसिम्) दानी (त्वो) तुम्हें को. (त्वाम्) तुम्हें को (हि) ही (इत्) अक्षय्य (सखायः) हम मित्र लोग (वप) आदर से (ववृमहे) चुनते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ—जो पुरुष प्रजावृत्तण में बड़ा पराक्रमी हो, प्रजागण सब लोगों में से उसी को राजा बनावे ॥ २ ॥

यो न इदमिदं पुरा प्र वस्यं आनिनाय तस्मै व स्तुषे ।
सखाय इन्द्रसुतये ॥ ३ ॥

यः । नुः । इदम्-इदम् । पुरा । प्र । वस्यः । आ-निनाय ।
तस्मै । जं इति । वः । स्तुषे ॥ सखायः । इन्द्रसु । ज्-तये ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(यः) जो [पराक्रमी] (नः) हमारे लिये (इदमिदम्) इस-इस (वस्यः) उत्तम-वस्तु को (प्र) अच्छे प्रकार (आनिनाय) लाया है, (तम् उ) उस ही (इन्द्रम्) इन्द्र [महाप्रतापी-वीर] को, (सखायः) हे मित्रों ! (वः) तुम्हारी (जनये) रक्षा के लिये (स्तुषे) मैं सराहता हूँ ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जो पुरुष पहले ही से धीर वीर होवे, लोग उसकी बड़ाई कर के गुण ग्रहण करें ॥ ३ ॥

हर्यश्वं सत्पतिं वर्षशीसहं स हि उमा यो असन्दत । आ
तु नुः स वयति गव्यमश्व्यं स्तोतृभ्यो सुधवां श्रुतम् ॥ ४ ॥
हरि-अश्वम् । सत्-पतिम् । वर्ष-शि-सहम् । सः । हि । स्म ।
यः । असन्दत ॥ आ-तु । नुः । वः । वयति । गव्यम् ।
अश्व्यम् । स्तोतृ-भ्यः । सुध-वां । श्रुतम् ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(सः) वह (हि) ही (स्म) अक्षय्य [मनुष्य है], (यः) जिस ने (हर्यश्वम्) ले चलने वाले घोड़ों से युक्त, (सत्पतिम्)

सत्पुरुषों के रक्षक, (चर्पणीसहम्) मनुष्यों को नियम में रखने वाले [राजा] को (अमन्दत) प्रसन्न किया है । (सः) वह (मधवा-) महाधनी (तु) तौ (नः) हम (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वालों को (शतम्) सौ [बहुत] (गव्यम्) गौश्राँ का समूह और (अश्व्यम्) घोड़ों का समूह (आ वयति) लाता है ॥ ४ ॥

भावार्थ—सब प्रजागण आज्ञा मानकर शूर धर्मात्मा राजा को प्रसन्न रखें, जिस से वह उत्तम प्रयत्न के साथ प्रजा का ऐश्वर्य बढ़ावे ॥ ४ ॥

मन्त्राः ५—१० परमेश्वर गुणोपदेशः—मन्त्र ५—१० परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥

इन्द्राय सामं गायतु विप्राय बृहते बृहत् । धर्मकृते विपु-
श्चिते पनुस्यवे ॥ ५ ॥

इन्द्राय । सामं । गायतु । विप्राय । बृहते । बृहत् ॥
धर्म-कृते । विपुः-चिते । पनुस्यवे ॥ ५ ॥

भावार्थ—[हे मनुष्यो !] (विप्राय) बुद्धिमान्, (बृहते) महान्, (धर्मकृते) धर्म [धारण योग्य नियम] के बनाने वाले, (विपुश्चिते) विशेष महाशक्ती, (पनुस्यवे) सब के लिये व्यवहार चाहने वाले, (इन्द्राय) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर] के लिये (बृहत्) बड़े (साम) साम [दुःख-नाशक मोक्षज्ञान] का (गायतु) तुम गान करो ॥ ५ ॥

भावार्थ—मनुष्य वेदद्वारा धर्म विधान पर चलकर परमात्मा की उपासना से बुद्धिमान् और व्यवहार कुशल होकर मोक्ष सुख प्राप्त करें ॥ ५ ॥

मन्त्र ५—७ ऋग्वेद में है—८ । ६८ [सायण भाष्य ६७] । १-३ । साम-वेद—३० ३ । २ । तृच २२, मन्त्र ५, पू० ४ । १० । ८ ॥

५— (इन्द्राय) परमैश्वर्यवते जगदीश्वराय (साम) अ० ७ । ५४ । १ । दुःखनाशकं मोक्षज्ञानम् (गायतु) पठत (विप्राय) मेधाधिने (बृहते) महते (बृहत्) महत् (धर्मकृते) धर्मस्य धारणीयनियमस्य कर्त्रे (विपुश्चिते) अ० ६ । ५२ । ३ । वि+प्र+चित् । सञ्ज्ञाने—किप् । विशेषमहाज्ञानिने (पनुस्यवे) पनु, स्तुतौ, व्यवहारे च—असुन्—कथच्—उ । सर्वेभ्यो-व्यवहारमिच्छते ॥

त्वमिन्द्रामिभूरसि त्वं सूर्यमरोचयः । विश्वकर्मा विश्वदेवो
महान् असि ॥ ६ ॥

त्वम् । इन्द्र । अमि-भूः । असि । त्वम् । सूर्यम् । अरोचयः ॥
विश्व-कर्मा । विश्व-देवः । महान् । असि ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन्] (त्वम्) तू
(अमिभूः) विजयी (असि) है, (त्वम्) तू ने (सूर्यम्) सूर्य को (अरोचयः)
चमक दी है। तू (विश्वकर्मा) विश्वकर्मा [सब का बनाने वाला], (विश्व-
देवः) विश्वदेव [सब का पूजनीय] और (महान्) महान् [अति प्रबल]
(असि) है ॥ ६ ॥

भाषार्थ—मनुष्य उस महाबली परमात्मा की उपासना से अपने आत्मा
को बलवान् करें ॥ ६ ॥

विभ्राजं ज्योतिषा स्वर्गच्छो रोचनं दिवः । देवास्त
इन्द्र सुख्यायैमिरे ॥ ७ ॥

वि-भ्राजन् । ज्योतिषा । स्वः । अगच्छः । रोचनम् । दिवः ॥
देवाः । ते । इन्द्र । सुख्यायै । ऐमिरे ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन्] (ज्योतिषा)
अपनी ज्योति से (विभ्राजन्) चमकता हुआ तू (दिवः) सूर्य के, (रोचनम्)
चमकाने वाले (स्वः) अपने आनन्द स्वरूप को (अगच्छः) प्राप्त हुआ है,

६—(त्वम्) (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् परमात्मन् (अमिभूः) अमिभविता ।
विजेता (असि) (त्वम्) (सूर्यम्) रश्मिरहकम् (अरोचयः) अदीपयः
(विश्वकर्मा) सर्वस्य कर्ता (विश्वदेवः) रुद्धैः रतुत्यः (महान्) अतिप्रबलः
(असि) ॥

७—(विभ्राजन्) विविधं प्रकाशमानः (ज्योतिषा) रश्मिजला (स्वः)
रश्मीयं सुखस्वरूपम् (अगच्छः) प्राप्तवानसि (रोचनम्) प्रकाशकम् (दिवः)
सूर्यस्य (देवाः) विद्वांसिः (ते) सब (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् परमात्मन्

(देवाः) विद्वानां ने (ते) तेरी (सख्याय) मित्रता के लिये (येमिरे) उद्योग किया है ॥ ७ ॥

भावार्थ—जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा अपनी महिमा से प्रत्येक वस्तु में चमकता है, उसकी उपासना से हम अपने आत्मा में प्रकाश करें ॥ ७ ॥

तम्बुभि प्र गायत पुरुहुतं पुरुष्टुतम् । इन्द्रं गीर्भिस्तविषमा
विवासत ॥ ८ ॥

तम् । ऊं इति । अ॒भि । प्र । गा॒य॒त॒ । पु॒रु-हु॒तम् । पु॒रु-
स्तु॒तम् ॥ इन्द्रं॑ । गी॒ः-भिः । त॒विष॑म् । आ । वि॒वा॒स॒त॒ ॥ ८ ॥

भावार्थ—[हे विद्वानों!] (तम् उ) उस ही (पुरुहुतम्) बहुत पुकारे हुये, (पुरुष्टुतम्) बहुत बढ़ाई किये हुये, (तविषम्) महान् (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले परमात्मा] को (अभि) सब ओर से (प्र) भले प्रकार (गायत) गाओ, और (गीर्भिः) वाणियों से (आ) सब प्रकार (विवासत) सत्कार करो ॥ ८ ॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! वह परमात्मा सब से बड़ा है, उसी के गुणों को हृदय में धारण करके आत्मबल बढ़ाओ ॥ ८ ॥

मन्त्र ८—१० आवके हैं— अ० २० । ६१ । ४—६ ॥

यस्य॑ ह॒विष॑र्हसो बृहत् स॒हो द्वा॒धार॑ रोद॒सी । गि॒रीन् अ॒ज्राँ
अ॒पः स्व॑र्वृष॒त्व॒ना ॥ ९ ॥

यस्य॑ । ह॒वि-व॑र्हसः । बृ॒हत् । स॒हः । द्वा॒धार॑ । रोद॒सी इति॑ ॥
गि॒रीन् । अ॒ज्राँन् । अ॒पः । स्वः॑ । वृ॒ष-त्व॒ना ॥ ९ ॥

स रीजसि पुरुष्टुतं एको वृत्राणि जिघ्रसे । इन्द्र जैत्रा अघ-
स्या च यन्तवे ॥ १० ॥

(सख्याय) मित्रत्वाय (येमिरे) नियमितवन्तः । उद्यतवन्तः ॥

८—१० । पते मन्त्रा व्यायाताः—ऊ०२० । ६१ । ४—६ ॥

सः । राजसि । पुरु-स्तुत् । एकः । वृत्राणि । जिघ्रसे ॥
इन्द्रं । जैत्रा । अश्वर्या । च । यन्तवे ॥ १० ॥

भाषार्थ— (द्विवर्हमः) दोनों विद्या और पुरुषार्थ में बड़े हुये (यस्य) जिस [परमात्मा] के (वृत्रत्) बड़े (सहः) सामर्थ्य ने (रोदसी) सूर्य और भूमि, (अज्ञान) शीघ्रगामी (गिरीन्) मेघों, (अपः) जलों [समुद्र आदि] और (स्वः) प्रकाश को (वृषत्वना) बल के साथ (दाधार) धारण किया है ॥६॥ (पुरुष्टुत्) हे बहुत स्तुति किये हुये (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन्] (सः) सो (एकः) अकेला तू (जैत्रा) जीतने वालों के योग्य धनों (च) और (अश्वर्या) यश के लिये हितकारी कर्मों को (यन्तवे) नियम में रखने में लिये (राजसि) राज्य करता है, और (वृत्राणि) रोकने वाले विघ्नों को (जिघ्रसे) मिटाता है ॥ १० ॥

भाषार्थ—अकेला महाविद्वान् और महापुरुषार्थी परमात्मा सब को परस्पर धारण आकर्षण से चलाता हुआ अपने विश्वासी भक्तों को उनके पुरुषार्थ के अनुसार धन और कीर्ति देता है ॥ ६, १० ॥

सूक्तसु ६३ ॥

१-६ ॥ १-३ इन्द्रो विश्वेदेवाश्च देवताः; ४-६ इन्द्रो देवता ॥

१-विराट् पङ्क्तिः; २, ३ निचृत् त्रिष्टुप्; ४-६, ६ उष्णिक्; ७, ८ निचृदुष्णिक् ॥

१-६ राजप्रजाधर्मोपदेशः—१६, राजा और प्रजा के धर्म का उपदेश ॥

इमा नु कं भुवना सीषधामेन्द्रंश्च विश्वे च देवाः । युञ्ज च
नस्तुन्वं च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सुह चीक्लृपाति ॥ १ ॥

इमा । नु । कम् । भुवना । सीषधाम् । इन्द्रः । च । विश्वे ।
च । देवाः ॥ युञ्जम् । च । नः । तुन्वंम् । च । प्र-जाम् ।
च । आदित्यैः । इन्द्रः । सुह । चीक्लृपाति ॥ १ ॥

भाषार्थ—(इमा) यह (भुवना) उत्पन्न पदार्थ, (च) और (इन्द्रः)

१—(इमा) इमानि (नु) निप्रम् (कम्) सुकम् (भुवना) उत्पन्नानि

इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला सभापति] (च) और (विश्वे) सब (देवाः)
विद्वान् लोग हम (नु) शीघ्र (कम्) छुन्न को (सीलधाम) लिख करे ।
(आदित्यैः सह) अक्षय्य व्रतधारी विद्वानों के साथ (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े
पेश्वर्य वाला सभापति] (नः) हमारे (यज्ञम्) यज्ञ [मेज मिलाप आदि]
(च) और (तन्वम्) शरीर (च) और (प्रजाम्) प्रजा [सन्तान आदि]
को (च) भी (चीकूलगति) समर्थ करे ॥ १ ॥

भाषार्थ—सभापति राजा और सभासद लोग सत्कार के सब पदार्थों
से उपकार लेकर सब की यथावत् रक्षा करे ॥ १ ॥

मन्त्र १-३ पूर्वार्ध कुछ भेद से ऋग्वेद में है—१० । १५७ । १-५
यजुर्वेद—२५ । ४६ सामवेद—७० ४ । १ । तृच २३ । मन्त्र ३ उत्तरार्द्ध ऋग्वेद
में है—६ । १७ । १५ और सामवेद—५० ५ । ७ । ३, मन्त्र १-३ आगे हैं—अ०
२० । १२४ । ४-६ ॥

आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्भिरस्माकं भूत्वविता तनूनाम् ।
हुत्वाय देवा असुरान् यदायन् देवा देत्वमभिरक्षमाणाः ॥२॥
आदित्यैः । इन्द्रः । स-गणः । मरुद्-भिः । अस्माकंश्च ।
भुतु । अविता । तनूनाम् ॥ हुत्वाय । देवाः । असुरान् ।
यत् । आयन् । देवाः । देव-त्वस्व । अभि-रक्षमाणाः ॥ २ ॥

भाषार्थ—(सगणः) गणों [सुभट वीरों] के साथ वर्तमान (इन्द्रः)
इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला सभापति] (आदित्यैः) अक्षय्य व्रतधारी (मरुद्भिः)
शूर मनुष्यों के साथ (अस्माकम्) हमारे (तनूनाम्) शरीरों का (अविता)

भूतजातानि (सीलधाम) साधायेम (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् सभापतिः (च)
(विश्वे) सर्वे (च) (देवाः) विद्वांसः सभासदः (यज्ञम्) संगति करण-
व्यवहारम् (च) (नः) अस्माकम् (तन्वम्) शरीरम् (च) (प्रजाम्) सन्तानादि-
रूपाम् (च) (आदित्यैः) अक्षय्यव्रतधारीभिः विद्वद्भिः (इन्द्रः) (सह) (चीकूल-
गति) कृपू सामर्थ्ये—छोट । कल्पयेत् सामर्थ्येत् ॥

२—(आदित्यैः) अक्षय्यव्रतधारीभिः (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान्, सभापतिः
(सगणः) गणैः सुभटवीरैः सह वर्तमानः (मरुद्भिः) शूरमनुष्यैः (अस्माकम्)
(भूतु) पवनु (अविता) रक्षकः (तनूनाम्) शरीरमात्म (हुत्वाय) कवालययोः

रत्नक (भूतु) होवे । (यत्) क्योंकि (असुरान्) असुरों [दुराचारियों] को (हत्वाय) मारकर (देवाः) विजय चाहने वाले, (अभिरत्नमाणाः) सब ओर से रत्ना करते हुये (देवाः) विद्वानों ने (देवत्वम्) देवतापन [उत्तमपद] (आयन्) पाया है ॥ २ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य शूर वीर विद्वानों के साथ प्रजा की रक्षा कर सके, वही अपने उत्तम कर्मों के कारण उत्तमपद सभा गतित्व आदि के योग्य होवे ॥ २ ॥

प्रत्यञ्चमर्कमनयं शचीभिरादित् स्वधामिषिरां पर्यपश्यन् ।

अया वाजं देवहितं सनेम मदेम श्रुतहिमाः सुवीराः ॥ ३ ॥

प्रत्यञ्चम् । अर्कम् । अनयन् । शचीभिः । आत् । इत् ।

स्वधाम् । इषिराम् । परि । अपश्यन् ॥ अया । वाजम् ।

देव-हितम् । सुनेम् । मदेम । श्रुत-हिमाः । सु-वीराः ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(प्रत्यञ्चम्) प्रत्यक्ष पाने योग्य (अर्कम्) पूजनीय व्यवहार को (शचीभिः) अपने कर्मों से (अनयन्) उन [विद्वानों] ने प्राप्त कराया है, और (आत् इत्) तभी (इषिराम) चलाने वाली (स्वधाम्) आत्म धारण शक्ति को (परि) सब ओर (अपश्यन्) देखा है । (अया) इसी [नीति] से (श्रुतहिमाः) सौ वर्षों जीते हुये (सुवीराः) उत्तम वीरों वाले हम (देवहितम्) विद्वानों के हितकारी (वाजम्) विज्ञान को (सनेम) देवों और (मदेम)

प्रयोग श्रुतान्दसः । इत्वा । नाशयित्वा (देवाः) विजिगीषवः (असुरान्) सुर-विरोधिनः । दुराचारिणः पुरुषान् (यत्) यतः (आयन्) इण गतौ—लङ् ॥ अगच्छन् । प्राप्नुवन् (देवाः) विद्वांसः (देवत्वम्) दिव्यपदम् (अभिरत्न-माणाः) सर्वतो रत्नन्तः ॥

३—(प्रत्यञ्चम्) प्रत्यक्षेण गन्तव्यं प्रापणीयम् (अर्कम्) अर्चनीयं व्यवहारम् (अनयन्) प्रापयन् ते विद्वांसः (शचीभिः) स्वकर्मभिः (आत्) अन्तरम् (इत्) एव (स्वधाम्) आत्मधारणशक्तिम् (इषिराम्) अ० पृ० १ । ६ । गमयिज्ञोम् (परि) सर्वतः (अपश्यन्) अवलोकितवन्तः (अया) अनया नीत्या (वाजम्) विज्ञानम् (देवहितम्) विद्वद्भ्यो हितकारिणम् (सनेम) निरजेम । इधाम् (मदेम) आगन्धेम (श्रुतहिमाः) शतवर्षजीविनः (सुवीराः)

सू० ६३ [६५१] विंशं काण्डम् ॥ २० ॥

आनन्द करें ॥ ३ ॥

भावार्थ—जैसे विद्वान् लोग अपने उत्तम कर्मों से संतोष का उपकार करते रहे हैं, वैसे ही हम श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति से मनुष्यों को वीर बनानाकर आनन्द देवें ॥ ३ ॥

य एक इह विदयते वसु मर्त्या दाशुषे । ईशानो अप्रतिष्कृत
इन्द्रो अङ्ग ॥ ४ ॥

यः । एकः । इत् । वि-दयते । वसु । मर्त्या । दाशुषे ॥
ईशानः । अप्रति-ष्कृतः । इन्द्रः । अङ्ग ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(यः) जो (एकः) अकेला (इत्) ही (दाशुषे) दाता (मर्त्या) मनुष्य के लिये (वसु) धन (विदयते) बहुत प्रकार देना है, (अङ्ग) हे मित्र । वह (ईशानः) समर्थ, (अप्रतिष्कृतः) वे राक गतिवाला (इन्द्रः) इन्द्र [वडे पेश्वर्य वाला समापति] होना है ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य सब में बड़ा उत्साही निर्भय शूर पुरुष हो, वही समापति राजा होवे ॥ ४ ॥

मन्त्र ४—६ ऋग्वेद में है—१ । ८४ । ७—६; सामवेद—३० ५ । २ ।
तृच २२, मन्त्र ७ साम०—पृ० ४ । १० । ६ ॥

कदा मर्तमराधसं पदा क्षुम्पमिव स्फुरत् । कदा नः शुश्रुव
गिर इन्द्रो अङ्ग ॥ ५ ॥

कदा । मर्तम् । अराधसम् । पदा । क्षुम्पम्-इव । स्फुरत् ॥
कदा । नः । शुश्रुवत् । गिरः । इन्द्रः । अङ्ग ॥ ५ ॥

उत्तमवीरोपेताः ॥

४—(यः) पुरुषः (एकः) अद्वितीयः (इत्) एव (विदयते) विविधं ददाति (वसु) धनम् (मर्त्या) मनुष्याय (दाशुषे) दात्रे (ईशानः) समर्थः (अप्रतिष्कृतः) अ० २० । ४१ । १ । अप्रतिगतः (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् समापतिः (अङ्ग) हे मित्र ॥

भाषार्थ—(अङ्ग) हे मित्र ! (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले सभापति आप] (कदा) कब (अराधसम्) आराधना न करने वाले (मर्तम्) मनुष्य को (पदा) पांव से (लुम्पम् इव) खुम्भी [गली लकड़ी से उगे हुये छत्राकार छोटे पौधे] के समान (स्फुरत्) नष्ट करेंगे और (कदा) कब (नः) हमारी (गिरः) वाणियों को (शुश्रवत्) सुनेंगे ॥ ५ ॥

भाषार्थ—सभापति दुःखित प्रजा की पुकार सुनकर अनायाकारी दुष्ट को इस प्रकार गिरा देवे, जैसे खुम्भी वृक्ष पांव से कुचल जाना है ॥ ५ ॥

यह मन्त्र निरुक्त में व्याख्यात है—५। १६-१७ ॥

यश्चिद्बुधि त्वा बहुभ्यु आ सुतावाँ आविवासति । उग्रं तत्
पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥ ६ ॥

यः । चित् । हि । त्वा । बहु-भ्यः । आ । सुत-वान् ।
आविवासति ॥ उग्रम् । तत् । पत्यते । शवः । इन्द्रः । अङ्ग ॥ ६ ॥

भाषार्थ—[हे प्रजागण !] (बहुभ्यः) बहुतों में से (यः चित् हि) जो कोई भी (सुतवान्) तत्वरस वाला [मनुष्य] (त्वा) तुझको (आ) निश्चय करके (आविवासति) भले प्रकार सेवा करना है, (तत्) उसी से (अङ्ग) हे मित्र ! (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला सभापति] (उग्रम्) भारी (शवः) बल (पत्यते) पाता है ॥ ६ ॥

५—(कदा) कस्मिन् काले (मर्तम्) मनुष्यम् (अराधसम्) अनाराधयन्तम्—निरु० ५। १७ (पदा) पादेन (लुम्पम्) गलितकाष्ठोत्पन्नलुङ्गवृक्षम् । अङ्गिच्छत्रकम्—निरु० ५। १६ (इव) यथा (स्फुरत्) स्फुरतिर्वधकर्मा—निघ० २। १६ । अवस्फुरिष्यति । वधिष्यति (कदा) (नः) अस्माकम् (शुश्रवत्) श्रोष्यति—निरु० ५। १७ (गिरः) वाणीः (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् सभाध्यक्षो भवान् (अङ्ग) हे मित्र ॥

६—(यः चित्) यः कश्चित् (हि) एव (त्वा) त्वाम् । प्रजागणम् (बहुभ्यः) बहुमनुष्येभ्यः सकाशात् (आ) अवधारणे (सुतवान्) तत्वरसेन युक्तः (आविवासति) समन्तात् परिवरति (उग्रम्) प्रचण्डम् (तत्) तस्मात् कारणात् (पत्यते) प्राप्नोति (शवः) बलम् (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् सभापतिः (अङ्ग) हे मित्र ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य प्रजा की सेवा करता है, वही बलवान् होकर ऐश्वर्य प्राप्त करता है ॥ ६ ॥

७—६ परमेश्वरगुणोपदेशः—७—६ परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥

य इन्द्र सोमपातमो मदः शविष्ठ चेतति । येन हंसि न्ये-
त्त्रिणं तमीमहे ॥ ७ ॥

यः । इन्द्र । सोम-पातमः । मदः । शविष्ठ । चेतति ॥ येन ।
हंसि । नि । अत्त्रिणम् । तम् । ईमहे ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(शविष्ठ) हे महाबली ! (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन्] [तेरा] (यः) जो (सोमपातमः) ऐश्वर्य का अत्यन्त रक्षक (गदः) आनन्द (चेतति) चेताने वाला है, और (येन) जिस [आनन्द] से (अत्त्रिणम्) खाऊ [स्वार्थी दुर्जन] को (नि हंसि) तू मात्र गिराता है, (तम्) उस [आनन्द] को (ईमहे) हम मांगते हैं ॥ ७ ॥

भाषार्थ—जो परमात्मा स्वार्थी दुष्टों को दण्ड देकर श्रेष्ठों को सुख देता है, उस की उपासना सदा करनी चाहिये ॥ ७ ॥

मन्त्र ७—६ ऋग्वेद में हैं—८ । १२ । १—३ । मन्त्र ७ साम०—पृ० ५ ।

१ । ४ ॥

येन दशग्वमधिगुं वेपयन्तुं स्वर्णरम् । येन समुद्रनाविथ्या
तमीमहे ॥ ८ ॥

येन । दश-ग्वम् । अधि-गुम् । वेपयन्तम् । स्वः-नरम् ॥
येन । समुद्रम् । आविथ । तम् । ईमहे ॥ ८ ॥

भाषार्थ—[हे परमात्मन् !] (येन) जिस [नियम] से (दशग्वम्)

७—(यः) (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् परमात्मन् (सोमपातमः) ऐश्वर्य-
स्य रक्षितृत्तमः (मदः) आनन्दः (शविष्ठ) हे शवस्वितम । बलवत्तम (चेतति)
चेतयिता भवति (येन) मदेन (हंसि) नाशयसि (नि) नितराम् (अत्त्रिणम्)
अक्षारम् । स्वार्थिनम् (तम्) मदम् (ईमहे) याचामहे ॥

८—(येन) नियमेन (दशग्वम्) दश + ग्वम् गतौ-इवप्रत्ययः । दशद्विंशु

इस दिशाओं में जाने वाले, (अधिगुम्) वे रोक गति वाले, (वेपयन्तम्) [बैरियों को] कंपाते हुये, (स्वर्णरम्) सुख पहुंचाने वाले [वीर] को और (येन) जिस [नियम] से (समुद्रम्) समुद्र के समान [गम्भीर पुरुष] को (आविथ) तू ने बचाया है, (तम्) उस [नियम] को (ईमहे) हम मांगते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ—जो आनन्दस्वरूप जगदीश्वर पुरुषार्थियों को सदा सहाय देता है, उसी की उपासना से पुरुषार्थ करके हम सुखी हों ॥ ८ ॥

येन सिन्धुं महीरुपो रथान् इव प्रचोदयः । पन्थामृतस्य यातवे तमीमहे ॥ ८ ॥

येन । सिन्धुम् । महीः । अपः । रथान्-इव । प्र-चोदयः ॥
पन्थाम् । ऋतस्य । यातवे । तम् । ईमहे ॥ ८ ॥

भावार्थ—[हे जगदीश्वर !] (येन) जिस [नियम] से (सिन्धुम्) समुद्र में (महीः) भारी (अपः) जलों को (रथान् इव) रथों के समान (प्रचोदयः) तू ने चलाया है, (ऋतस्य) सत्य के (पन्थाम्) मार्ग पर (यातवे) चलने के लिये (तम्) उस [नियम] को (ईमहे) हम मांगते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ—जिस प्रकार नियम से परमात्मा अन्तरिक्ष और पृथिवी के समुद्र में जगत् के उपकार के लिये जल भग्ता और रीता करता है, वैसे ही परमेश्वर की उपासना के साथ हम नियम पूर्वक पुरुषार्थी होकर उपकार करें ॥ ८ ॥

गन्तारम् (अधिगुम्) अ० २० । ३५ । १ । अधृतगमनम् । अनिवारितगतिम् (वेपयन्तम्) शत्रून् कम्पयन्तम् (स्वर्णरम्) सुखस्य नेतारं प्रापयितारम् (येन) नियमेन (समुद्रम्) समुद्रमिव गम्भीरं पुरुषम् (आविथ) त्वं ररक्षिथ (तम्) नियमम् (ईमहे) याचामहे ॥

६—(येन) नियमेन (सिन्धुम्) अन्तरिक्षपृथिवीस्थसमुद्रं प्रति (मही) महतीः (अपः) जलानि (रथान्) (इव) यथा (प्रचोदयः) लुब्धि कणम् । प्रेरितवानसि (पन्थाम्) पन्थानम् (ऋतस्य) सत्यस्य (यातवे) यातुम् । गन्तुम् । अन्यत् पूर्ववत् ॥

सूक्तम् ६४ ॥

१—६ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ३, ५, ६, विराडाप्युष्णिक, २, ४ उष्णिक ॥
परमात्मगुणोपदेशः—परमात्मा कं गुणों का उपदेश ॥

इन्द्रं नो गधि मियः सञ्जाजिदगोह्यः । गिरिर्न विश्वतस्पृथुः
पतिर्दिवः ॥ १ ॥

आ । इन्द्र । नः । गधि । मियः । सञ्जा-जित् । अगोह्यः ॥
गिरिः । न । विश्वतः । पृथुः । पतिः । दिवः ॥ १ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [वड़े पेश्वर्य वाले परमात्मन्] (मियः)
प्यारा, (सञ्जाजित्) सत्य से जीतने वाला, (अगोह्यः) न छिपने वाला तू
(नः) हमको (आ) सब ओर से (गधि) प्राप्त हो, तू (गिरिः न) मेह के
रमान (विश्वतः) सब ओर से (पृथुः) फैला हुआ, (दिवः) प्राणि योग्य
सुख का (पतिः) स्वामी है ॥ १ ॥

भावार्थ—सर्वहितकारी, सर्वनियन्ता, सर्वव्यापक परमात्मा की उपा-
सना से मनुष्य आनन्द प्राप्त करें ॥ १ ॥

मन्त्र १—३ ऋग्वेद में हैं—८ । ६८ [सायण भाष्य ८ ७] । ४—६, साम-
वेद—३० ५ । १ । तृच १६; मन्त्र १—साम०—पू० ५ । १ । ३ ॥

अभि हि सत्य सोमपा उभे बभूयु रोदसी । इन्द्रासि सुन्वतो
वृधः पतिर्दिवः ॥ २ ॥

अभि । हि । सत्य । सोम-पाः । उभे इति । बभूयु । रोदसी
इति ॥ इन्द्र । असि । सुन्व-तः । वृधः । पतिः । दिवः ॥ २ ॥

१—(आ) समन्तात् (इन्द्र) हे परमेश्वर्यवान् परमात्मन् (नः)
अस्मान् (गधि) गधि । गच्छ । प्राप्नुहि (मियः) हितकरः (सञ्जाजित्)
सत्येन जेता (अगोह्यः) अगोपनीयः । सुप्रकटः (गिरिः) मेघः (न) स्व
(विश्वतः) सर्वतः (पृथुः) विस्तृतः (पतिः) स्वामी (दिवः) स्वर्गस्थ ।
सुखस्य ॥

भाषार्थ—(सत्य) हे सत्य स्वरूप ! (सोमपाः) हे ऐश्वर्य रक्षक ! (हि) निश्चय कर के (उभे) दोनों (रोदसी) सूर्य और भूमि को (अभि वभूथ) तू ने वश में किया है, (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्यवान् परमात्मन्] तू (सुन्वतः) तत्त्व रस निचोड़ने वाले पुरुष का (वृधः) बढ़ाने वाला, (दिवः) सुख का (पतिः) स्वामी (असि) है ॥ २ ॥

भावार्थ—सूर्य और पृथिवी आदि लोकों के रचने वाले परमात्मा की उपासना से हम तत्त्व ज्ञान प्राप्त कर के वृद्धि करें ॥ २ ॥

त्वम् हि शश्वतीनामिन्द्रं दुर्ता पुरामसि । हुन्ता दस्योर्मनो-
र्धुधः पतिर्दिवः ॥ ३ ॥

त्वम् । हि । शश्वतीनाम् । इन्द्रं । दुर्ता । पुराम् । असि ॥
हुन्ता । दस्योः । मनोः । धुधः । पतिः । दिवः ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन्] (त्वम्) तू (हि) हाँ [शश्वतीनाम्] सब (पुराम्) नगरियों का (दुर्ता) तोड़ने वाला, (दस्योः) डाकू का (हुन्ता) मारने वाला और (मनोः) ज्ञानी का (धुधः) बढ़ाने वाला, (दिवः) सुख का (पतिः) स्वामी (असि) है ॥ ३ ॥

भावार्थ—परमात्मा सब विघ्नों को मिटा कर अपने भक्तों की उन्नति कर के सुख देता है ॥ ३ ॥

२—(अभि वभूथ) अभिवभूविथ । अभिभूतवानसि (हि) निश्चयेन (सत्य) हे अविनाशिस्वरूप (सोमपाः) हे ऐश्वर्यरक्षक (उभे) द्वे (रोदसी) द्यावापृथिव्यौ (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् परमात्मन् (असि) भवसि (सुन्वतः) तत्त्वरसं संस्कुर्वतः पुरुषस्य (वृधः) वर्धयिता । अन्यद्गतम् ॥

३—(त्वम्) (हि) एष (शश्वतीनाम्) बह्वीनाम् । सर्वासाम् (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् परमात्मन् (दुर्ता) विध्वारयिता (पुराम्) शत्रुनगरीणम् (असि) (हुन्ता) घातकः (दस्योः) परधनापहृतुः (मनोः) मननशीलस्य । अन्यत् पूर्ववत् ॥

एदु मध्वो मदिन्तरं सिञ्च वाध्वर्यो अन्धसः। एषा हि वीर
स्तवते सुदावृधः ॥ ४ ॥

आ । इत् । ज् इति । मध्वः । मदिन्-तरम् । सिञ्च । वा ।
अध्वर्यो इति । अन्धसः ॥ एव । हि । वीरः । स्तवते ।
सुदा-वृधः ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(मध्वर्यो) हे हिंसा न चाहने वाले पुरुष । (मध्वः)
ज्ञान [मधु विद्या] के (वा) और (अन्धसः) अन्न के (मदिन्तरम्) अधिक
आनन्द देने वाले रस को (इत् उ) अवश्य ही (आ) लय और (सिञ्च)
सींच, (सुदावृधः) सदा बढ़ाने वाला (वीरः) वीर (एव) इन प्रकार (हि)
ही (स्तवते) स्तुति किया जाता है ॥ ४ ॥

भावार्थ—विद्वान् पुरुष हिंसा कर्म छोड़ कर विद्या और अन्न आदि
की प्राप्ति के तत्त्व सिद्धान्तों का प्रकाश करके वीरों के समान कीर्ति पावे ॥

मन्त्र ४—६ ऋग्वेद में हैं—८ । २४ । १६—१८, कुछ भेद से सामवेद—
३० ८ । २ । । तृच १०, मन्त्र ४—साम०—पू० ४ । १० । ५ ॥

इन्द्रं स्यातर्हरीणां नकिंष्टे पुर्व्यस्तुतिम् । उदानंशु शवसा न
भुन्दना ॥ ५ ॥

इन्द्रं । स्यातः । हरीणाम् । नकिः । ते । पुर्व्य-स्तुतिम् ॥
उत् । आनं-शु । शवसा । न । भुन्दना ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(हरीणाम्) दुःख हरने वाले मनुष्यों में (स्यातः) उह-

४—(आ) समन्तात् (इत्) अवश्यम् (उ) अवधारणे (मध्वः)
मधुनः । निश्चितज्ञानस्य (मदिन्तरम्) नाद् घस्य । पा० ८ । २ । १७ । इति
तरपो । जुडागमः । मादयितुतरं रसम् (सिञ्च) सिक्त कुरु (वा) चायं
(अध्वर्यो) अ० १८ । ४ । १५ । हे अहिंसामिच्छुक (एव) एवम् (हि)
निश्चयेन (वीरः) शूरः (स्तवते) स्तुते (सुदावृधः) सर्वदा वर्धयिता ॥

५—(इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् परमत्पुत्र (स्यातः) हे स्थितिशील (हरीणाम्)

रने वाले (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन्] (ते) तेरी (पूर्व्यस्तुतिम्) प्राचीन बड़ाई को (नकिः) न किसी ने (शवसा) अपने बल से और (न) न (भन्दना) शुभ कर्म से (उत् आनंश) पाया है ॥ ५ ॥

भाषार्थ—संसार के बीच एक परमात्मा ही सर्वशक्तिमान् और सर्व-दुःखनाशक है, उसी के उपासना से मनुष्य उपकार शक्ति बढ़ावे ॥ ५ ॥

तं व्रो वाजानां पतिमहूमहि अश्वस्यवः । अप्रायुभिर्युजोभिर्व-
वृधेन्यम् ॥ ६ ॥

तम् । वः । वाजानाम् । पतिम् । अहूमहि । अश्वस्यवः ॥
अप्रायु-भिः । युजोभिः । वृधेन्यम् ॥ ६ ॥

भाषार्थ—[हे मनुष्यो !] (वः) तुझारे लिये (तम्) उस (वाजा-
नाम्) बलों के (पतिम्) स्वामी, (अप्रायुभिः) बिना भूल (युजोभिः) पूजनीय
व्यवहारो से (वृधेन्यम्) बढ़ाने वाले [परमात्मा] को (अश्वस्यवः) कीर्ति
चाहने वाले हम लोगों ने (अहूमहि) पुकारा है ॥ ६ ॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! सब बलों के दाता, सदा उपकार कर के बढ़ाने
वाले परमात्मा की आराधना से हम सामर्थ्य बढ़ा कर कीर्ति पावें ॥ ६ ॥

हरयो मनुष्यनाम—निघ० २ । ३ । दुःखहर्तृणां मनुष्याणां मध्ये (नकिः) नक-
श्चिदपि (ते) तव (पूर्व्यस्तुतिम्) पूर्व्य पुराणनाम—घि० ३ । २७ । प्राचीन-
प्रशंसाम् (उत्) (आनंश) अश्व व्याप्तौ—लिट् । प्राप्तवान् (शवसा) स्वबलेन
(न) निषेधे (भन्दना) यदि कल्याणे सुखेच—युच्, विभक्तेराकारः ।
शुभकर्मणा ॥

६—(तम्) प्रसिद्धम् (वः) युष्मदर्थम् (वाजानाम्) बलानाम् (पतिम्)
स्वामिनम् (अहूमहि) ह्वयतेर्लुङ् । वयमाह्वयन्तः (अश्वस्यवः) कीर्तिकामाः
(अप्रायुभिः) न + प्र + आङ् + युञ् वन्धने, यद्वा युङ् निन्दने —डु ।
निर्वन्धैः । निरालसैः । अप्रमाद्विभिः (युजोभिः) पूजनीयव्यवहारैः (वृ-
धेन्यम्) वृजपरणः । ण० ३ । ६८ । वृधु वद्धौ—एण्यः, सच्च कित् द्वित्वं च,
अन्तर्गण्यर्थः । वर्धयितारम् ॥

सूक्तम् ६५ ॥

१—३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ आर्षी गायत्री; २ निचृदुष्णिक; ३ विराडा—
शुष्णिक् ॥

परमेश्वरगुणोपदेशः—परमेश्वर के गुणों का उपदेश

एतो न्विन्द्रं स्तवाम् सखायु स्तोम्यं नरम् । कुष्टीर्यो विश्वा-
अभ्यस्त्येक इत् ॥ १ ॥

एतो इति । नु । इन्द्रम् । स्तवाम् । सखायः । स्तोम्यम् ।
नरम् ॥ कृष्टीः । यः । विश्वाः । अभि । अस्ति । एकः । इत् ॥ १

भाषार्थ—(सखायः) हे मित्रो ! (नु) शीघ्र (एतो) आओ भी,
(स्तोम्यम्) स्तुति योग्य, (नरम्) नेता [प्रेरक] (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े
पेश्वर्य वाले परमात्मा] की (स्तवाम्) हम स्तुति करें, (यः) जो (एकः)
अकेला (इत्) ही (विश्वाः) सब (कृष्टीः) मनुष्यों को (अभि अस्ति) वश
में रखता है ॥ १ ॥

भावार्थ—हम सब मिलकर सर्वशक्तिमान् परमात्मा की स्तुति करके
आनन्द पावें ॥ १ ॥

मन्त्र १—३ ऋग्वेद में हैं—गत सूक्त से आगे, ङ । २४ । १६—२१ । म०
१ साम०—पू० ४ । १० । ७ ॥

अगोरुधाय गुर्विषे व्युत्थाय दस्म्यं वचः । घृतात् स्वादीया
मधुनश्च वीचत ॥ २ ॥

अगो-रुधाय । गो-इषे । व्युत्थाय । दस्म्यम् । वचः ॥ घृतात् ।
स्वादीयः । मधुनः । च । वीचत् ॥ २ ॥

१—(एतो) आ, इत्, ङ । आगच्छतैव (नु) क्षिप्रम् । (इन्द्रम्) पर-
मेश्वरम् (स्तवाम्) प्रशंसाम् (सखायः) हे सुहृदः (स्तोम्यम्) स्तुतियोग्यम्
(नरम्) नेतारम् । प्रेरकम् (कृष्टीः) मनुष्यप्रजाः (विश्वाः) सर्वाः (यः)
(अभि अस्ति) अभिभवति । वशीकरोति (एकः) असहायः (इत्) एव ॥

यस्यामितानि वीर्यांश्च न राधुः पर्येतवे । ज्योतिर्न विश्व-
सुभ्यस्ति दक्षिणा ॥ ३ ॥

यस्य । अमितानि । वीर्यां । न । राधुः । परि-एतवे ॥-ज्योतिः ।
न । विश्वम् । अभि । अस्ति । दक्षिणा ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(अगोरुधाय) दृष्टि को न रोकने वाले, (गविषे) स्तोताओं
[गुण व्याख्याताओं] का चाहने वाले, (घुत्नाय) व्यवहारों में गति वाले-
[उस परमेश्वर] के लिये (घृतात्) घृत से (च) और (मधुनः) मधु [रस
विशेष] से (स्वादीयः) अधिक स्वादु और (दस्म्यम्) दर्शनीय [विचारणीय]
(वचः) वचन (वोचत) तुम बोलो ॥ २ ॥ (यस्य) जिस [परमात्मा] के
(वीर्यां) वीर कर्म (अमितानि) वे नाप हैं, [जिसका] (राधुः) धन (पर्येतवे)
पार पाने योग्य (न) नहीं है, और [जिसकी] (दक्षिणा) दक्षिणा [दान-
शक्ति], (ज्योतिः न) प्रकाश के समान (विश्वम् अभि) सब पर फैलकर
(अस्ति) वर्तमान है ॥ ३ ॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! तुम परमेश्वर की स्तुति नम्रता पूर्वक करके
अपना सामर्थ्य बढ़ाओ, वह जगदीश्वर अनन्तबली, अनन्त धनी और अनन्त
दानी है ॥ २, ३ ॥

२—(अगोरुधाय) गमेडों । उ० २ । ६७ । गच्छतेडों, रुधिर् आवरणे—
कप्रत्ययः । अहृष्टिरोधकास्य (गविषे) गो + इष्टु इच्छायाम्-किप् । गौः
स्तोतृनाम-निध- ३ । १६ । स्तोतृन् इच्छवे (घुत्नाय) अ० २० । ६ । २ ।
व्यवहारेषु गतिशीलाय (दस्म्यम्) अ० २० । १७ । २ । दस्म—वत् । दर्शनार्हम् ।
विचारणीयम् (वचः) वचनम् (घृतात्) आज्यात् (स्वादीयः) स्वादुतरम्
(मधुनः) रसविशेषात् (च) (वोचत) लोडर्थे लुङ्, अडभावः । अत ॥

३—(यस्य) इन्द्रस्य । परमेश्वरस्य (अमितानि) परिमाणरहितानि
(वीर्यां) वीरकर्मणि (न) निषेधे (राधुः) धनम् (पर्येतवे) ह्य गतौ-
तवेन् । परिगन्तुं प्राप्तुं शक्यम् (ज्योतिः) तेजः (न) यथा (विश्वम्) सर्व जगत्
(अभि) अभीत्य । व्याप्य (अस्ति) वर्तते (दक्षिणा) दानशक्तिः ॥

सूक्तम् ६६ ॥

१—३ ॥ इन्द्रो वेयता ॥ १ विगदृणिक्, २ निचृदृष्णिक्, ३ आप्यु-
ष्यिक् ॥

पेश्वर्यवतः पुरुषस्य लक्षणोपदेशः—पेश्वर्यवान् पुरुष के लक्षणों का
उपदेश ॥

स्तुहीन्द्रं व्यश्ववदन्मिं वाजिनं यमम् । अर्यो गयं महमानं
वि दाशुपे ॥ १ ॥

स्तुहि । इन्द्रम् । व्यश्व-वत् । अन्मिम् । वाजिनम् । यमम् ॥
अर्यः । गयम् । महमानम् । वि । दाशुपे ॥ १ ॥

भाषार्थ—[हे विद्वान् !] (व्यश्ववत्) विविध वेग वाले पुरुष के
समान (अन्मिम्) दिना पीडाओं वाले, (वाजिनम्) पराक्रमी, (यमम्)
न्यायकारी (इन्द्रम्) इन्द्र [यद्ये पेश्वर्य वाले पुरुष] की (स्तुहि) स्तुति कर।
(अर्यः) स्वामी (दाशुपे) आत्मदात्री भक्त के लिये (वि) विविध प्रकार
(महमानम्) बढते हुये (गयम्) धन सट्टा है ॥ १ ॥

भाषार्थ—जो पुरुष पराक्रम करके भूय आदि पीडाओं से बचा रहता
है, उन् के गुणों को प्रदण कर के मनुष्य सुखी होयें । विद्वानों ने छह पीडायें
मानी हैं, जिन से यत्रन का मनुष्य उपाय करता रहे—[बुभुक्षा च पिपासा च
प्राणशय, मनसः स्मृती । शोकमांही शरीरस्य जरा मृत्यु पदूर्मयः ॥ १ ॥] प्राण
की भूख और प्यास, मन की शोक और मोह, शरीर की जरा और मृत्यु, यह
छह पीडायें कही गयी हैं ॥ १ ॥

यद् त्व च ऋग्वेद मे है—गतसूक्त से आगे, = । २४ । २२-२४ ॥

१—(स्तुहि) प्रशंस (इन्द्रम्) परमेश्वर्यवन्त पुरुषम् (व्यश्ववत्)
वि + अशू व्याप्तौ—क्रन्, सादृश्ये घतिः । विविधवेगवान् पुरुष इव (अन्मिम्)
कर्मिभिवुं भुक्तापियासाद्विषद्विषाभोरहितम् (वाजिनम्) पराक्रमिणम्
(यमम्) न्यायिनम् (अर्यः) स्वामी (गयम्) धनरूपम् (महमानम्) महि
बूद्धी—शास्त्र । वर्धमानम् (वि) विविधम् (दाशुपे) आत्मदात्रिणे ।
भकाय ॥

एवा नूनमुपं स्तुहि वैयश्व दशमं नवम् । सुविद्वांसं चर्कृत्यं
चरणीनाम् ॥ २ ॥

एव । नूनम् । उपं । स्तुहि । वैयश्व । दशमम् । नवम् ॥
सु-विद्वांसम् । चर्कृत्यम् । चरणीनाम् ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—(वैयश्व) हे विविध वेग वाले पुरुष [(दशमम्) प्रकाशमान
[अथवा जीवन के दसवें काल तक] (नवम्) स्तुतियोग्य [वा नवीन अर्थात्
बलवान्], (सुविद्वांसम्) बड़े विद्वान् और (चरणीनाम्) चलने वाले मनुष्यों
में (चर्कृत्यम्) अत्यन्त करने योग्य कर्मों में चतुर की (एव) निश्चय करके
(नूनम्) अवश्य (उप) आदर से (स्तुहि) तू स्तुति कर ॥ २ ॥

भावार्थ—जो पुरुष बड़े प्रतापी, जीवन के सौ वर्ष में से नब्बे वर्ष के
ऊपर भी अर्थात् अन्त काल तक आत्मिक और शारीरिक बल वाले कर्मकुशल
धीर हों, उनके गुणों को सब मनुष्य ग्रहण करें ॥ २ ॥

वेत्या हि निःर्त्तीनां वज्रहस्त परिवृजम् । अहरहः शुन्ध्युः
परिपदासिव ॥ ३ ॥

वेत्यं । हि । निः-र्त्तीनाम् । वज्र-हस्त । परि-वृजम् ॥

२—(एव) निश्चयेन (नूनम्) अवश्यम् (उप) पूजायाम् (स्तुहि)
प्रशंस (वैयश्व) वि+अश्व—अण् । न खाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्यामैच् ।
पा० ७ । ३ । ३ । इति ऐकारागमः । अश्वो वेगः । हे विविधवेगवन् पुरुष
(दशमम्) प्रथेरमच् । उ० ५ । ६८ । दशि भाषायां दीप्तौ च्-अमच्, नकारलोपः ।
दीप्यमानम् । यद्वा दशानां पूरणः, ङटि मुडागमः । पुरुषाणां शतायुष्यनियमात्
तस्यांयुषो दशधा विभागे नवत्यधिकायामवस्थायां वर्तमानम् । अतिवृद्धा-
वस्थापर्यन्तम् (नवम्) स्तुत्यम् । नवीनं बलवन्तम् (सुविद्वांसम्) अतिशयेन
ज्ञानिनम् (चर्कृत्यम्) अ० ६ । ६८ । १ । यङ्लुगन्तात् करोतेः—क, ततः
साध्वर्थे—यत् । चर्कृत्येषु अतिशयेन कर्तव्येषु कर्मसु कुशलम् (चरणीनाम्)
अतिस्वधु० । उ० २ । १०२ । चर गतिमन्त्रयायोः—अनि । चरणीनां गमन
शीलानां मनुष्याणाम् ॥

अहः-अहः । शुन्ध्युः । परिपदाम्-इष ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(वज्रहस्त) हे वज्र हाथ में रखने वाले ! (हि) निश्चय करके (परिपदाम्) विपत्तियों के (शुन्ध्युः इव) शोधने वाले के समान (अहरहः) दिन दिन (निर्मृतीनाम्) मन्त्रविपत्तियों के (परिवृजम्) रोकने को (वेत्थ) तू जानता है ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य शूर पराक्रमियों के समान विघ्नों को हटाकर प्रजा की रक्षा करे, उसका सब लोग आदर करें ॥ ३ ॥

इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

अथ षष्ठोऽनुवाकः

सूक्तम् ६७ ॥

१-७ ॥ १ इन्द्रः; २ मरुतः; ३ अग्निः; ४ मरुतो माधवश्च; ५ अग्निः शुचिश्च; ६ इन्द्रो नभश्च, ७ द्रविणोदाश्च देवताः ॥ १ विराडष्टिः; २ सुराडत्यष्टिः; ३ अष्टिः; ४ जगती; ५ सुराडार्षी त्रिष्टुप्, ६ भुरिक् त्रिष्टुप्; ७ आर्षी जगती ॥

मनुष्यकर्तव्योपदेश.—मनुष्य के कर्तव्य का उपदेश ॥

वृनोति हि सुन्वन् क्षयं परीणसः सुन्वानो हि ष्मा यजुत्यवृ
द्विषो देवानामध्व द्विषः । सुन्वान इत् विषासति सुहस्रा
वाज्यवृतः । सुन्वानायेन्द्रो ददात्याभुवं रयिं ददात्याभुवंम् ॥१॥

वृनोति । हि । सुन्वन् । क्षयम् । परीणसः । सुन्वानः । हि ।
स्म । यजति । अवं । द्विषः । देवानाम् । अवं । द्विषः ॥

३—(वेत्थ) साहितिको दीर्घः । वेत्सि । जानासि (हि) एव (निर्मृ-
तीनाम्) अ० २ । १० । १ । कृच्छ्रपत्तीनाम् निरु० २ । ७ (वज्रहस्त) हे वज्र-
पाण्ये (परिवृजम्) वृजी वर्जने—घमर्थे क । परिवर्जनम् । निवारणम् (अहरहः)
नम् (शुन्ध्युः) अ० २० । १७ । १ । शोधकः (परिपदाम्) विपदाम् ।
तीनाम् (इष) यथा ॥

सुन्वानः । इत् । सिंसासति । सहस्रा । वाजी । अवृतः ॥
 सुन्वानाय । इन्द्रः । ददाति । आभुवम् । रयिम् ।
 ददाति । आभुवम् ॥ १ ॥

भाष्यार्थ—(सुन्वान) तत्त्व निकालता हुआ पुरुष (हि) ही (परीणसः)
 पाने योग्य धन के (क्षयम्) घर को (वनोति) सेवता है [भोगता है],
 (सुन्वानः) तत्त्व निकालता हुआ पुरुष (हि) ही (स्म) अवश्य (द्विषः)
 वैरियों का (अव यजति) दूर करता है, (देवानाम्) विद्वानों के (द्विषः)
 वैरियों को (अव) दूर [करता है], (सुन्वानः) तत्त्व रस निकालता हुआ
 पुरुष (इत्) हो (वाजी) पराक्रमी और (अवृतः) बे रोक होकर (सहस्रा)
 सैकड़ों सुख (सिंसासति) देना चाहता है । (सुन्वानाय) तत्त्व निकालते हुये
 पुरुष को (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला परमात्मा] (आभुवम्) सब ओर
 से पाने योग्य (रयिम्) धन (ददाति) देता है, (आभुवम्) सब ओर से रहने
 योग्य [धन] (ददाति) देता है ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य विद्याओं का सार ग्रहण कर के शत्रुओं को मारता

१—(वनोति) छान्दसं परस्मैपदम् । वनुते । सेवते (हि) निश्चयेन
 (सुन्वान) पुञ् अभिषवे—शतृ । तत्स्वरसं निष्पादयन् (क्षयम्) गृहम् (परी-
 णसः) परि + णस कौटिल्ये गतौ प्राप्ता च—क्विप् । नसतेर्गतिकर्मा—निघ०
 ३ । १४ । नसतिराप्तोतिकर्मा वा नमतिकर्मा वा—निघ० ७ । १७ । परितः प्राप-
 णीयस्य धनस्य (सुन्वानः) पुञ् अभिषवे—शानच् विद्यानां तत्स्वरसं निष्पाद-
 यन् (हि) एव (स्म) अवश्यम् (अव यजति) अवयजनं दूरीकरणम्—दयो-
 नन्दभाष्ये, यजु० ८ । १३ । दूरीकरोति (द्विषः) द्वेषे इन् । शत्रून् (देवानाम्)
 विदुषाम् (अव) दूरे (द्विषः) (सुन्वानः) (इत्) एव (सिंसासति) षण्
 दाने—सन् । सनितुं दातुमिच्छति (सहस्रा) सहस्राणि सुखानि (वाजी)
 पराक्रमी (अवृतः) अनिवारितः (सुन्वानाय) तत्स्वरसं निष्पादयते (इन्द्रः)
 परमैश्वर्यवान् परमात्मा (ददाति) प्रयच्छति (आभुवम्) आङ् + भू प्राप्ता—
 । धनार्थे कप्रत्ययः । समन्तात् प्रापणीयम् (रयिम्) धनम् (ददाति) (आभुवम्)
 भू कक्षाधाम्—धनार्थे क । सर्वतो भवनशीलम् ॥

है, वही वीर सब को सुख देता और परमात्मा का प्रीति पात्र होना है ॥ १ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—१ । १३३ । ७ ॥

मो षु वो अस्मदुभि तानि पौंस्या सना भूवन् द्युम्नानि
सोत जारिपुरस्मत् पुरोते जारिषुः । यद् व चित्रं युगेयुगे
नव्यं घोषादमर्त्यम् । अस्मासु तन्मरुतो यच्च दुष्टरं द्विधृता
यच्च दुष्टरम् ॥ २ ॥

मो इति । सु । वः । अस्मत् । अमि । तानि । पौंस्या ।
सना । भूवन् । द्युम्नानि । मा । उत । जारिषुः । अस्मत् ।
पुरा । उत । जारिषुः ॥ यत् । वः । चित्रम् । युगे-युगे ।
नव्यम् । घोषात् । अमर्त्यम् ॥ अस्मासु । तत् । मरुतः ।
यत् । च । दुष्टरम् । द्विधृत । यत् । च । दुष्टरम् ॥ २ ॥

भाष्य—(मरुतः) हे शत्रुओं के मारने वाले वीरो ! (अस्मत्) हम
पर से (वः) तुम्हारे (तानि) वे (सना) सनातन [वा सेवनीय] (पौंस्या)
मनुष्य कर्म [वा बल] (मो षु अमि भूवन्) कभी भी न हट जावें, (उत)
और [तुम्हारे] (द्युम्नानि) चमकते हुये यश वा धन (मा जारिषुः) कभी न
घटें, (उत) और (अस्मत्) हम से (पुरा) आगे को (जारिषुः) बढ़ाई योग्य हों।
और (यत्) जो (वः) तुम्हारा (चित्रम्) विचित्र [अद्भुत] कर्म (युगे युगे)

२—(मो) नैव (सु) सुष्ठु (वः) युष्माकम् (अस्मत्) अस्मत्तः (अमि)
अभिभवे (तानि) प्रसिद्धानि (पौंस्या) गुणवचनब्राह्मणा दिभ्यः कर्मणि च ।
पा० ५ । १ । १२४ । पुंस्—प्यञ्, ब्राह्मणादेराकृतिगणत्वात् । पुसां कर्माणि ।
बलानि—निघ० २ । ६ (सना) सनातनानि । सेवनीयानि (भूवन्) अद्भवावः ।
अभूवन् । भवन्तु (द्युम्नानि) अ० ६ । ३५ । ३ । द्योतमानानि यशांसि धनानि
वा (मा) निषेधे (उत) अपि (जारिषुः) जू वयोहानी, अद्भवावः । अजारिषुः
जरन्तु । जीर्णानि क्षीणानि भवन्तु (अस्मत्) अस्माकं सकाशात् (पुरा) अत्र-
काले (उत) (जारिषुः) जू स्तुतौ । स्तुत्यानि भवन्तु (यत्) कर्म (वः) युष्माकम्
(चित्रम्) अद्भुतम् (युगेयुगे) समये समये । सर्वदा (नव्यम्) स्तुत्यम् ।

युग युग में [समय समय पर] (घोषात्) घोषणा देने से (नव्यम्) स्तुति योग्य [वा नवीन] और (अमर्त्यम्), मनुष्यों में दुर्लभ है, (च) और (यत्) जो कुछ (दुस्तरम्) पाने में कठिन (च) और (यत्) जो कुछ (दुस्तरम्) पाने में कठिन है, (तत्) उस को (अस्मासु) हम में (दिधृत) धारण करो ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—मनुष्यों को सदा आपस में मिल कर बल; यश और धन बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये ॥ २ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—१ । १३६ । ८ ॥

अग्निं होतारं मन्ये दास्वन्तं वसुं सुनुं सहसो जातवेदसं
विप्रं न जातवेदसम् । य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या
कृपा । घृतस्य विभ्राष्टिसनुं वष्टि श्रोचिषाजुहानस्य सर्पिषः ॥ ३ ॥
अग्निम् । होतारम् । मन्ये । दास्वन्तम् । वसुम् । सुनुम् ।
सहसः । जात-वेदसम् । विप्रम् । न । जात-वेदसम् ॥ यः ।
ऊर्ध्वया । सु-अध्वरः । । देवः । देवाच्या । कृपा ॥ घृतस्य ।
वि-भ्राष्टिम् । अनुं । वष्टि । श्रोचिषा । आजुहानस्य ।
सर्पिषः ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—(होतारम्) अहण करने वाले, (दास्वन्तम्) दान करने वाले, (वसुम्) श्रेष्ठ गुण वाले, (सहसः) बलवान् पुरुष के (सुनुम्) पुत्र, (जातवेदासम्) प्रसिद्ध विद्या वाले (विप्रम् न) बुद्धिमान् के समान (जातवेद-

नूतनम्—निघ० ३ । १८ (घोषात्) घुषिर् शब्दे घञ् । घोषणायाः । उपापनार्थ-
मुञ्चैः शब्दकारणात्(अमर्त्यम् अमरणधर्मकम् । मर्त्येषु दुर्लभम् । नाशरहितम्
(अस्मासु) (सत्) (महतः) हे शत्रुनाशका वीराः (यत्) यत् किञ्चित् (च)
(दुस्तरम्) दुःखेन तरितुं प्राप्तुं योग्यम् (दिधृत) शपः श्लुः, अभ्यासस्थ इत्वं
च कान्यमम्, साहितिकोदीर्घः । धरत । स्थापयत (यत्) (च) (दुस्तरम्) ॥

३—(अग्निम्) अग्निवद् वर्तमानम् (होतारम्) प्रहीतारम् (मन्ये) जानामि (दास्वन्तम्) दातारम् (वसुम्) श्रेष्ठगुणवन्तम् (सुनुम्) पुत्रम् (सहसः) मनुष्योत्तमः । सहस्वतः । बलवतः (जातवेदासम्) प्रसिद्धविद्यम्

सम्) प्रसिद्ध विद्या वाले विद्वान् को (अग्निम्) उस अग्नि के समान (मन्थे) मैं मानता हूँ। (यः) जो (देवः) प्रकाशमान, (स्वध्वरः) अच्छे प्रकार हिंसा रहित यज्ञ का साधने वाला [अग्नि] (ऊर्ध्वया) ऊंची (देवाच्या) गतिशील [वायु आदि देवताओं] को पहुंचने वाली (कृपा) शक्ति के साथ (आजुहानस्य) होमे हुये और (सर्पिषः) पिघले हुये (घृतस्य) घी की (शोचिषा) शुद्धि से (विभ्राष्टिम्) विविध प्रकाश को (अनु) लगातार (वष्टि) चाहता है ॥ ३ ॥

भावार्थ—विद्वान् पुरुष विद्या प्राप्त कर के संसार में ऐसा उपकारी होवे, जैसे अग्नि घृत आदि से प्रज्वलित होकर वायु जल आदि को शुद्ध करके और सूर्य पार्थिव रस खींच कर वृष्टि द्वारा उपयोगी होता है ॥ ३ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—१।१२७।१; यजुर्वेद—१५।४७; कुछ भेद से सामवेद—पू० ५।८।६ और उ० ६।१।१८ ॥

युञ्जैः संमिश्रताः पृषतीभिर्ऋष्टिभिर्यामिं शुभ्रासो अञ्जिषु
प्रिया उत । आसद्या बर्हिर्भरतस्य सुनवः पोत्रादा सोमं
पिबता दिवो नरः ॥ ४ ॥

युञ्जैः । सम्-मिश्रताः । पृषतीभिः । ऋष्टि-भिः । यामिन् ।
शुभ्रासैः । अञ्जिषु । प्रियाः । उत ॥ आ-सद्या । बर्हिः ।
भरतस्य । सुनवः । पोत्रात् । आ । सोमम् । पिबतु ।
दिवः-। नरः ॥ ४ ॥

(विप्रम्) मेधाचिनम् (न) इव (जातवेदसम्) प्रसिद्धविद्यम् (यः) अग्निः (ऊर्ध्वया) उन्नतया (स्वध्वरः) हिंसारहितस्य यज्ञस्य सुष्ठु साधकः (देवः) प्रकाशमानः (देवाच्या) देवान् गतिशीलान् वाय्वादीन् अञ्चनि प्राप्नोतीति देवा-ची तथा (कृपा) कृपू सामर्थ्ये—किप् । शक्त्या । (घृतस्य) आज्यस्य (विभ्रा-ष्टिम्) भ्राज—क्तिन् । विविधां दीप्तिम् (अनु) निरन्तरम् (वष्टि) काम-यते (शोचिषा) ईशुचिर् शौचे क्लेदे च—इति । प्रमया (आजुहानस्य) समन्ताद्दूष्यमानस्य (सर्पिषः) सरणशीलस्य । द्रवीभूतस्य ॥

भाष्यार्थ—(भरतस्य सूत्रवः) हे धारण करने वाले पुरुष के पुत्रो ! (दिवः) हे विजय चाहने वाले (नरः) नरो ! [नेता लोगो] (यज्ञैः) पूजनीय व्यवहारों से, (पृषतीभिः) सेचन क्रियाओं से और (ऋष्टिभिः) दो धारा तलवारों से (संमिश्रताः) अच्छे प्रकार मिले हुये [सजे हुये], (उत) और (यामन्) प्राप्त हुये समय पर (अञ्जिषु) कामना योग्य कर्मों में (शुभ्रासः) शोभायमान (प्रियाः) प्यारे तुम (वर्हिः) उत्तम आसन (आसद्य) पा कर (पोत्रात्) पवित्र आचरण से (सोमम्) सोम [तस्व रस] को (आ) भले प्रकार (पिबत) पीओ ॥ ४ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि उत्तम घरानों में उत्पन्न होकर अपने पराक्रम युक्त पवित्र कर्मों से तस्व को ग्रहण करके आनन्द पावे ॥ ४ ॥

मन्त्र ४—६ ऋग्वेद में हैं—२। ३६। २, ४, ५ ॥

आ वक्षि देवाँ इह विम् यक्षि चोशन् होतुर्नि वदा यानिषु
त्रिषु । प्रति वीहि प्रस्थितं सुाम्यं मधु पिबाग्नीध्रात् तव
भागस्य तृणुहि ॥ ५ ॥

आ । वक्षि । देवान् । इह । विम् । यक्षि । च । उशन् । होतुः ।

४—(यज्ञैः) पूजनीयव्यवहारैः (संमिश्रताः) अ० २० । ३८ । ५ ।
मिश्रयतेः—घञ् भावे । सर्वतो मिश्रिताः सज्जीकृताः (पृषतीभिः) अ०
१३ । १ । २१ । पृषु सेचने—अति, डोष् । सेचनक्रियाभिः (ऋष्टिभिः) अ० ३ ।
३ । ७ । ऋषी गतौ—क्तिन् । उभयतो धारयुक्तैः खड्गैः (यामन्) यामनि ।
प्राप्ते काले (शुभ्रासः) शुभ्राः शोभमानाः (अञ्जिषु) खनिकथ्यज्यसि० । उ०
४ । १४० । अञ्जू व्यक्तिप्राज्ञणकान्तिगतिषु—इप्रत्ययः । कमनीयेषु कर्मसु
(प्रियाः) प्रीतिकराः (उत) अपि (आसद्य) प्राप्य (वर्हिः) उत्तमा-
सनम् (भरतस्य) भृष्टृडशियजि० । उ० । ३ । ११० । इभृञ् धारणपोषणयोः—
अतच् । धारकस्य पुरुषस्य (सूत्रवः) पुत्राः (पोत्रात्) अ० २० २ । १ । पवित्र-
व्यवहारात् (आ) समन्तात् (सोमम्) तस्वरसम् (पिबत) पानं कुरुत ।
अनुमवन (दिवः) दिवु विजिगीष(याम्—किप् । हे जिगीषवः (नरः)
नेतारः पुरुषाः ॥

नि । सद् । योनिषु । त्रिषु ॥ प्रति । वीहि । प्र-स्थितम् ।
सोम्यम् । मधुं । पिवं । आग्नीध्रात् । तव । भागस्य ।
तृप्नुहि ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(विप्र) हे बुद्धिमान् ! (होतः) हे दाता ! (इह) यहां पर
(देवान्) दिव्य गुणों को (आ) अच्छे प्रकार (वक्षि) तू कहता है (च)
और (यक्षि) तू देता है, सो (उशन्) कामना करता हुआ तू (त्रिषु) तीन
[कर्म, उपासना, ज्ञान] (योनिषु) निमित्तों में (नि) निरन्तर (सद्)
स्थिर हो । (प्रस्थितम्) उपस्थित किये हुये (सोम्यम्) सोम [तत्त्व रस]
से युक्त (मधुं) निश्चित ज्ञान को (प्रति) प्रतिज्ञा पूर्वक (वीहि) प्राप्त हो,
और (पिव) पान कर, और (आग्नीध्रात्) अग्नि की प्रकाश विद्या को
आश्रय में रखने वाले व्यवहार से (तव) अपने (भागस्य) भाग की (तृप्नुहि)
तृप्ति कर ॥ ५ ॥

भाषार्थ—मनुष्य कर्म उपासना और ज्ञान के साथ तत्त्व रस का
ग्रहण करके पुण्यपूर्ण होकर तृप्त होवे ॥ ५ ॥

एष स्य ते तृन्वो नृष्णवर्धनः सह ओजः प्रदिवि ब्राहोर्हितः ।
तुभ्यं सुतो मध्वन् तुभ्यमाभृतस्त्वमस्य ब्राह्मणादा तृपत्
पिव ॥ ६ ॥

एषः । स्यः । ते । तृन्वः । नृष्ण-वर्धनः । सहः । ओजः । प्र-

५—(आ) समन्तात् (वक्षि) वच परिभाषणे—लट् । कथयसि
(देवान्) दिव्यगुणान् (इह) अत्र (विप्र) मेधाविन् (यक्षि) यजसि ।
इदासि (च) (उशन्) कामयमानः (होतः) हे दातः (नि) नितराम् (सद्)
तिष्ठ (योनिषु) निमित्तेषु (त्रिषु) कर्मोपासनाज्ञानेषु (प्रति) प्रतिज्ञया
(वीहि) वी गतौ—लोट् । तृप्नुहि (प्रस्थितम्) उपस्थितम् (सोम्यम्)
सोमेन तत्त्वरसेन युक्तम् (मधुं) मधुविद्याम् । निश्चितज्ञानम् (पिव) अनु-
भव (आग्नीध्रात्) अ० २० । २ । २ । अग्नि प्रकाशविद्याशरणयुक्तव्यवहारात्
(तव) स्वकीयस्य (भागस्य) अंशस्य (तृप्नुहि) तृप्तिं कर ॥

दिवि । बाहोः । हितः ॥ तुभ्यम् । सुतः । मघु-वन् । तुभ्यम् ।
आ-भृतः । त्वम् । अस्य । ब्राह्मणात् । आ । तृपत् । पिव ॥६॥

भाषार्थ—(एषः स्यः) यही (नृमणवर्धनः) धन का बढ़ाने वाला [तस्व रस] (ते) तेरे (तन्वः) शरीर का (सहः) बल और (ओजः) पराक्रम होकर (प्रदिवि) उत्तम व्यवहार के बीच (बाहोः) तेरी दोनों भुजाओं पर (हितः) धरा गया है । (मघवन्) हे बड़े धनी ! (तुभ्यम्) तेरे लिये (सुतः) सिद्ध किया हुआ [तस्व रस] (तुभ्यम्) तुम्हें को (आभृतः) धारण किया गया है, (त्वम्) तू (ब्राह्मणात्) ब्रह्म [परमेश्वर] के ज्ञान से (आ) भले प्रकार (तृपत्) तृप्त होता हुआ (अस्य) इस [तस्व रस] का (पिव) पान कर ॥ ६ ॥

भाषार्थ—विद्वान् लोग पराक्रमी व्यवहार कुशल मनुष्य को परमेश्वरीय ज्ञान का उपदेश करके धन आदि की बढ़ती के लिये उत्साही करें ॥ ६ ॥

यमु पूर्वमहुवे तस्मिदं हुवे सेदु हव्यो हृदियो नाम् पत्यते ।
अध्वर्युभिः प्रस्थितं सोम्यं मधुं पौत्रात् सोमं द्रविणोद्ः
पिव ऋतुभिः ॥ ७ ॥

यम् । ऊं इति । पूर्वम् । अहुवे । तम् । हृदश् । हुवे ।
सः । इत् । ऊं इति । हव्यः । हृदिः । यः । नाम् । पत्यते ॥
अध्वर्युभिः । प्र-स्थितम् । सोम्यम् । मधुं । पौत्रात् । सोमम् ।
द्रविणः-द्ः । पिव । ऋतु-भिः ॥ ७ ॥

६— (एषः स्यः) स एव (ते) तव (तन्वः) शरीरस्य (नृमणवर्धनः)
अ० ४ । २४ । ३ । धनवर्धकः (सहः) बलम् (ओजः) पराक्रमः (प्रदिवि)
दिव्य व्यवहारे—किप् । उत्तमव्यवहारे (बाहोः) भुजयोः (हितः) धृतः (तुभ्यम्)
(सुतः) संस्कृतस्त्वरसः (मघवन्) हे धनवन् (तुभ्यम्) (आभृतः)
समन्ताद् धारितः (त्वम्) (अस्य) तस्वरसस्य (ब्राह्मणात्) ब्रह्मणः परमेश्व-
रस्य ज्ञानात् (आ) समन्तात् (तृपत्) तृप्यन् सन् (पिव) पानं कुरु ॥

भाषार्थ—(यम्) जिस [पराक्रमी] को (उ) ही (पूर्वम्) पहिले (अहुवे) मैं ने ग्रहण किया था, (तम्) उस [पुरुष] को (इदम्) अब (हुवे) मैं ग्रहण करता हूँ, (सः इत्) वही (उ) निश्चय करके (हृद्यः) ग्रहण करने योग्य है, (यः) जो (ददिः) दाता (नाम) नाम [होकर] (पत्यते) स्वामी होता है । (द्रविणोदः) हे धन देने वाले (पोत्रात्) पवित्र व्यवहार से (अध्वर्युभिः) हिंसा न चाहने वाले पुरुषों करके (प्रस्थितम्) उपस्थित किये हुये (सोम्यम्) पेश्वर्य के लिये हितकारी (मधु) निश्चित ज्ञान को और (सोमम्) सोम [तत्त्वरस] को (ऋतुभिः) ऋतुओं के साथ (पिब) तू पी ॥ ७ ॥

भावार्थ—विद्वान् पुरुष सुपरीक्षित गुणी पराक्रमी मनुष्य को सदा उत्तम व्यवहारों के लिये नियुक्त करे ॥ ७ ॥

सूक्तम् ६८ ॥

१—१२ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, २, ४—६ गायत्री; ३, ११ विराडार्षी गायत्री; १० निचृद् गायत्री; १२ आष्युष्णिकच्छन्दः ॥

मनुष्यकर्तव्योपदेशः—मनुष्य के कर्तव्य का उपदेश ॥

सुरूपकृत्तुमत्ये सुदुघामिव गोदुहे । जुहुससि द्यविद्यवि ॥१॥
सुरूप-कृत्तुम् । ऊत्ये । सुदुघाम्-इव । गो-दुहे ॥ जुहुससि ।
द्यवि-द्यवि ॥ १ ॥

७—(यम्) पराक्रमिणम् (उ) एव (पूर्वम्) पूर्वकाले (अहुवे) हु दानादानयोः— लङ् शपः लुक् । गृहीतवानरिम (तम्) (इदम्) इदानीम् (हुवे) हु दानादानयोः । गृह्णामि (सः) (इत्) एव (उ) निश्चयेन (हृद्यः) ग्रहीतुमर्हः (ददिः) दाता (यः) पुरुषः (नाम) प्रसिद्धौ (पत्यते) ईष्टे (अध्वर्युभिः) हिंसामनिच्छुभिः पुष्टैः (प्रस्थितम्) उपस्थितम् (सोम्यम्) पेश्वर्याय हितम् (मधु) निश्चितज्ञानम् (पोत्रात्) पवित्रव्यवहारात् (सोमम्) तत्त्वरसम् (द्रविणोदः) अ० ६० । १ । ४ । हे धनप्रद (पिब) ऋतुभवं (ऋतुभिः) ॥

भाषार्थ—(सुरुपकृद्गुम्) सुन्दर स्वभावों के बनाने वाले [राजा] को (ऊतये) रक्षा के लिये (द्यविद्यवि) दिन दिन (जुहूमसिं) हम बुलाते हैं, (इष) जैसे (सुदुघाम्) बड़ी दुधेल गौ को (गोदुहे) गौ दोहने वाले के लिये ॥ १ ॥

भावार्थ—जैसे दुधेल गौ को दुध दोहने के लिये प्रीति से बुलाते हैं, वैसे ही प्रजागण विद्या आदि शुभ गुणों के बढ़ाने वाले राजा का आश्रय लेकर उन्नति करें ॥ १ ॥

मन्त्र १—३ आचुके हैं—अ० २० । ५७ । १—३ ॥

उपः नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब । गोदा इह
रेवतो मदः ॥ २ ॥

उप । नः । सवना । आ । गहि । सोमस्य । सोम-पाः ।
पिबु ॥ गो-दाः । इत् । रेवतः । मदः ॥ २ ॥

भाषार्थ—(सोमपाः) हे ऐश्वर्य के रक्षक ! [राजन्] (नः) हमारे लिये (सवना) ऐश्वर्य युक्त पदार्थों को (उप) समीप से (आ गहि) तू प्राप्त हो और (सोमस्य) सोम [तस्व रस] का (पिब) पान कर, (रेवतः) धनवान् पुरुष का (मदः) हर्ष (इत्) ही (गोदाः) दृष्टि का देने वाला है ॥ २ ॥

भावार्थ—राजा ऐश्वर्यवान् और दूरदर्शी होकर प्रसन्नता पूर्वक प्रजा को ज्ञानदान बनावे ॥ २ ॥

अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम् । सा नो अति ख्य
आ गहि ॥ ३ ॥

अथ । ते । अन्तमानाम् । विद्याम् । सु-मतीनाम् ॥ सा ।
नः । अति । ख्युः । आ । गहि ॥ ३ ॥

भाषार्थ—[हे राजन् !] (अथ) और (ते) तेरी (अन्तमानाम्)

अत्यन्त समीप रहने वाली (सुमतीनाम्) सुन्दर बुद्धियों का (विद्याम्) हम ज्ञान करें । तू (नः) हमें (अति) छोड़कर (मा खयः) मत बोल, (आ गहि) तू आ ॥ ३ ॥

भावार्थ—जब राजा पूर्ण रीति से प्रजा पालन करता है, प्रजागण उस को धार्मिक नीतियों से लाभ उठाकर उस से प्रीति करते हैं ॥ ३ ॥

परैहि विग्रमस्तृतमिन्द्रं पृच्छा विपुश्चितम् । यस्ते सखिभ्यु
आ वरम् ॥ ४ ॥

परा । इहि । विग्रम् । अस्तृतम् । इन्द्रम् । पृच्छु । विपुः-
चितम् ॥ यः । ते । सखि-भ्यः । आ वरम् ॥ ४ ॥

भाषार्थ—[हे जिज्ञासु !] तू (परा) समीप (इहि) जा, और (विग्रम्) बुद्धिमान्, (अस्तृतम्) अजेय, (विपश्चितम्) प्राप्त विद्वान्, (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य] से (पृच्छु) पूछ, (यः) जो [मनुष्य] (ते) तेरे (सखिभ्यः) मित्रों के लिये (आ) सब प्रकार (वरम्) श्रेष्ठ [मित्र] है ॥ ४ ॥

भावार्थ—मनुष्यो को चाहिये कि आप्त विद्वानों से प्रश्नोत्तर के साथ श्रद्धा निवृत्ति कर के सत्य का ग्रहण करें ॥ ४ ॥

मन्त्र ४—१० ऋग्वेद में हैं—१ । ४ । ४—१० ॥

उत ब्रुवन्तु नो निदो निरुन्यतश्चिदारत । दधाना इन्द्र इह
दुवः ॥ ५ ॥

४—(परा) समीपे (इहि) गच्छ (विग्रम्) अन्येष्वपि दृश्यते । पा० ३ । २ । १०१ । ग्रह उपादाने—उपरत्ययः । विविधं गृह्णात्यर्थान् यः स विग्रः । वेग्नो वक्तव्यः । वा० पा० ५ । ४ । ११६ । इति विपूर्वकनासिकाशब्दस्य प्रःसमासान्तादेशः । एष कौटिल्ये—एबुल् । विगता नासिका कुटिलता यस्य सः । विग्रइति मेधाविनाम—निघ० ३ । १५ । मेधाविनम् (अस्तृतम्) अहिंसितम् । अजेयम् (इन्द्रम्) परमैश्वर्ययुक्तं मनुष्यम् (पृच्छु) जिज्ञासस्व । प्रश्न कुरु (विपश्चितम्) प्राप्त विद्वान्सम् (यः) विद्वान् (ते) तव (सखिभ्यः) मित्राणां दिनाय (आ) समन्तात् (वरम्) श्रेष्ठं मित्रम् ॥

उत । ब्रुवन्तु । नुः । निदः । निः । अन्यतः । चित् । आरत् ॥
दधानाः । इन्द्रे । इत् । दुवः ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(इन्द्रे) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले परमात्मा] में (इत्) ही (दुवः) सेवा को (दधानाः) धारण करते हुये पुष्प (उत) निश्चय कर के (नः) हमारे (निदः) निन्दकों से (ब्रुवन्तु) कहें—“(अन्यतः) दूसरे देश को (चित्) अवश्य (निः आरत्) तुम निकल जाओ” ॥ ५ ॥

भाषार्थ—मनुष्य परमात्मा में दृढ़ विश्वास कर के दुराचारियों को दण्ड देकर देश से निकाल दें ॥ ५ ॥

उत नः सुभगाँ अरिर्वोचेयुर्दस्म कृष्टयः । स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥ ६ ॥

उत । नः । सु-भगान् । अरिः । वोचेयुः । दस्म । कृष्टयः ॥
स्यामः । इत् । इन्द्रस्य । शर्मणि ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(दस्म) हे दर्शनीय ! [परमात्मन्] (अरिः = अरयः) प्रेरण करने वाले [वा वैरी] (कृष्टयः) मनुष्य (उत) भी (नः) हम को (सुभगान्) बड़े पेश्वर्य वाला (वोचेयुः) कहें, [तौ भी] (इन्द्रस्य) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य

५—(उत) निश्चयेन (ब्रुवन्तु) कथयन्तु (नः) अस्माकम् (निदः) णिदि कुत्सायाम्—किप्, उमभावः । निन्दकान् (निः) वहिर्भावे (अन्यतः) इतराभ्योऽपि दृश्यते । पा० । ५ । ३ । १४ । द्वितीयार्थे तसिल् । अन्यं देशम् (चित्) अवश्यम् (आरत्) ऋ गतौ—लुङ् लोडर्थे । गच्छन्त यूयम् (दधानाः) दधातेः शानच् । धारयन्तः (इन्द्रे) परमैश्वर्ययुक्ते परमेश्वरे (इत्) एव (दुवः) दुवस् परिचरणोपतापयोः—किप् । दुवस्यतिः परिचरण—कर्मा—निघ० २ । ५ । परिचर्याम् ॥

६—(उत) अपि च (नः) अस्मान् (सुभगान्) बह्वैश्वर्योपेतान् (अरिः) अच इः । उ० ४ । १३६ । ऋ गतिप्रापणयोः—इप्रत्ययः । बहुवचनस्यैकवचनम् । अरयः प्रेरकाः । नायकाः । शत्रवः (वोचेयुः) वच परिभाषणे-आशीर्लिङ् प्रथमस्य बहुवचने । लिङ्गयाशिष्यङ् । पा० ३ । १ । ८६ । इति विकरणस्थान्यङ् प्रत्ययः । चव उन् । पा० १ । ४ । २० । उनागमः । उङ्गानुः । उपदिश्यासुः (दस्म)

वान्ते परमात्मना] की (इत्) हो (शर्मणि) शरण में (स्याम) हम रहें ॥ ६ ॥

भाषार्थ—चाहे मनुष्य पेले बड़े हों, जायें कि बड़े बड़े लोग और बैरी लोग भी उन्हें बड़ा जानें, तौ भी वे अभिमान छोड़कर परमेश्वर की शरण में रहकर उन्नति करें ॥ ६ ॥

समाशुमाशवे भरं यज्ञश्रियं नृमादनम् । पतयन्मन्दयत्सखम् ७
आ । ईम् । आशुम् । आशवे । भर । यज्ञ-श्रियम् ।
नृ-मादनम् ॥ पतयत् । मन्दयत्-सखम् ॥ ७ ॥

भाषार्थ—[हे इन्द्र परमेश्वर !] (आशवे) वेग वाले [रथ आदि] के लिये (यज्ञश्रियम्) यज्ञ [संगतिकरण] से लक्ष्मी बढ़ाने वाले, (नृमादनम्) मनुष्यों को आनन्द देने वाले (आशुम्) वेग आदि गुण वाले [अग्नि, वायु आदि] पदार्थ और (ईम्) प्राप्ति योग्य जल को और (पतयत्) स्वामिपन देने वाले, (मन्दयत्सखम्) मित्रों को आनन्द देने वाले धन को (आ) सब प्रकार (भर) भर दे ॥ ७ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को उचित है कि अग्नि वायु जल आदि पदार्थों से विद्वान द्वारा उपकार लेकर सुखी हों ॥ ७ ॥

अस्य पीत्वा शतक्रतो घृतो वृत्राणामभवः । प्राधो वाजेषु
वाजिनम् ॥ ८ ॥

अ० २० । १७ । २ । हे दर्शनीय (कृष्टयः) अ० ३ । २४ । ३ । मनुष्याः (स्याम) भवेम (इत्) षत्रु (इन्द्रस्य) परमेश्वरस्य (शर्मणि) सुखे । शरणे ॥

७—(आ) समन्तात् (ईम्) प्राप्तव्य जलम्—निघ० १ । १२ । (आशुम्) कृषापा० । उ० १ । १ अशूङ् व्याप्तौ—उण् । वेगादिगुणवन्तमग्निवाय्वादिपदार्थ-समूहम् (आशवे) वेगादिगुणयुक्तस्थादिहिताय (भर) देहि (यज्ञश्रियम्) संगतिकरणेन लक्ष्मीदातागम् (नृमादनम्) नृणां मनुष्याणां हर्षहेतुम् (पत-यत्) तत् करोति तदाचष्टे । घा० पा० ३ । १ । २६ । पति-णिच् ततः शतृ । पति-घसम्पादकम् (मन्दयत्सखम्) मन्दयन्तः सखायो, यस्मिंस्तद्वधनम् ॥

अस्य । पीत्वा । शतक्रतो इति शत-क्रतो । घन । वृत्राणाम् ।
अभवः । प्र ॥ अघः । वाजेषु । वाजिनम् ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(शतक्रतो) हे सैकड़ों कर्मों वाले ! [वीर पुरुष] (अस्य)
इस [तत्त्व रस] का (पीत्वा) पान कर के तू (वृत्राणाम्) रोकने वाले शत्रुओं
कां (घनः) मारने वाला (अभवः) हुआ है और (वाजेषु) सङ्ग्रामों में
(वाजिनम्) पराक्रमी वीर को (प्र) अच्छे प्रकार (अघः) तू ने बचाया है ॥ ८ ॥

भाषार्थ—जो वीर पुरुष वेदविद्यां का रस चखता रहता है, वह
परमेश्वर की कृपा से शत्रुओं को मारकर अपने वीर लोगों की रक्षा करता
है ॥ ८ ॥

तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो । धनानामिन्द्र
सातये ॥ ९ ॥

तम् । त्वा । वाजेषु । वाजिनम् । वाजयामः । शतक्रतो
इति शत-क्रतो ॥ धनानाम् । इन्द्र । सातये ॥ ९ ॥

भाषार्थ—(शतक्रतो) हे सैकड़ों [असंख्य] वस्तुओं में बुद्धि वाले
(इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर] (वाजेषु) सङ्ग्रामों के बीच
(वाजिनम्) महाबलवान् (तम्) उस (त्वा) तूम्हें को (धनानाम्) धनों के
(सातये) भोगने के लिये (वाजयामः) हम प्राप्त होते हैं ॥ ९ ॥

८—(अस्य) सोमस्य । तत्त्वरसस्य (पीत्वा) पानं कृत्वा (शतक्रतो)
हे बहुकर्मन् (घनः) मूर्तौ घनः । पा० ३ । ३ । ७७ । हन्तेरप् मूर्तिभिन्नार्थेऽपि ।
हन्ता । घातुकः (वृत्राणाम्) आवरकाणां शत्रूणाम् (अभवः) (प्र) प्रकर्षेण
(अघः) रक्षितवानसि (वाजेषु) सङ्ग्रामेषु (वाजिनम्) पराक्रमिणं
पुरुषम् ॥

९—(तम्) तादृशम् (त्वा) त्वाम् (वाजेषु) सङ्ग्रामेषु (वाजिनम्)
महाबलवान्तम् (वाजयामः) वज्र गतौ, चुरादिः । प्राप्नुमः (शतक्रतो) शते-
ष्वसंख्यातेषु वस्तुषु क्रतुः प्रज्ञा यस्य तत्सम्बुद्धौ (धनानाम्) (इन्द्र) पर-
मैश्वर्यवान् परमात्मन् (सातये) सेवनाय । लाभाय ॥

भावार्थ—मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पालन से जितेन्द्रिय बलवान् होकर सब विघ्न हटाकर सुख भोगें ॥ ६ ॥

यो रायोश्च^१ वनिर्महान्तसु^२पारः सु^३न्वतः सखा । तस्मा इन्द्राय^४ गायत ॥ १० ॥

यः । रायः । अ^५वनिः । महान् । सु-पारः । सुन्वतः । सखा ॥
तस्मै । इन्द्राय । गायत ॥ १० ॥

भाषार्थ—(यः) जो [परमेश्वर] (रायः) धन का (अवनिः) रक्षक वा स्वामी (महान्) [बड़ा गुणी वा बली], (सुपारः) भले प्रकार पार लगाने वाला, (सुन्वतः) तत्त्वरस निकालने वाले पुरुष का (सखा) मित्र है, [हे मनुष्यो !] (तस्मै) उस (इन्द्राय) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर] के लिये (गायत) तुम गान करो ॥ १० ॥

भावार्थ—मनुष्य जगदीश्वर परमात्मा की उपासना से तत्त्व का ग्रहण करके पुरुषार्थ से धर्म का सेवन करे ॥ १० ॥

आ त्वेता नि षीदुतेन्द्र^१सुभि प्र गायत । सखायु^२स्तोमवाहसः^३११
आ । तु । आ । इत । नि । षीदुत । इन्द्रश्च । सुभि । प्र ।
गायत ॥ सखायः । स्तोम-वाहसः ॥ ११ ॥

पुरुतमं^४ पुरुणामीशानं^५ वार्याणाम् । इन्द्रं^६ सोमे^७ सचा सुते^८ १२
पुरुतमम् । पुरुणाम् । ईशानम् । वार्याणाम् । इन्द्रश्च । सोमै ।
सचा । सुते ॥ १२ ॥

भाषार्थ—(स्तोमवाहसः) हे बड़ाई के प्राप्त कराने वाले (सखायः)

१०—(यः) परमेश्वरः (रायः) धनस्य (अवनिः) अ० २० । १५ ।
१०। रक्षकः । स्वामी (महान्) गुणेन बलेन वाचिकः (सुपारः) पार कर्म-
समाप्तौ—पचाद्यच् । सुष्ठु पारयिता (सुन्वतः) तत्त्वरसं निष्पादयतः पुरुषस्य
(सखा) प्रियः (तस्मै) (इन्द्राय) परमैश्वर्यवते जगदीश्वराय (गायत) गानं
कुरुत ॥

११—(आ इत) आगच्छत (तु) शीघ्रम् (आ) समुच्चये (नि षीदत)

मित्रो । (तु) शीघ्र (आ इत) आग्नो, (आ) और (नि पीदत) वैडो, और (पुरुषाम्) गलन करने वालों के (पुरुतमम्) अत्यन्त पालन करने वाले, (वार्याणाम्) श्रेष्ठ पदार्थों वा धनों के (ईशानम्) स्वामी (इन्द्रम्) इन्द्र [षडे ऐश्वर्य वाले], (इन्द्रम्) इन्द्र [षडे ऐश्वर्य वाले परमेश्वर] को (सखा) सखा मेल के साथ (सोमे) सोम [तत्त्वरस] (सुते) सिद्ध होने पर (अभि) सब ओर से (प्र) अच्छे प्रकार (गायत) गावों ॥ ११. १२ ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग परस्पर उपकार के लिये धैर्य और प्रीति के साथ परमात्मा के गुणों के विचार से निश्चित निदान्न करके ऐश्वर्य बढ़ावें ॥ ११, १२ ॥

मन्त्र ११, १२ ऋग्वेद में हैं—१।५।१, २ सामवेद—उ० १।२।१०
मन्त्र ११ साम०—पू० २।७।१० ॥

सूक्तम् ६८ ॥

१—१२ ॥ १—११ इन्द्रः, १२ मरुतो देवता ॥ १, ३—५, ७, १२ निचूड् गायत्री; २, ८, ६, ११ गायत्री; ६ पाद निचूड् गायत्री; १० विराड् गायत्री ॥

१—८ पराक्रमिलक्षणोपदेशः—१—० पराक्रमी मनुष्य के लक्षणों का उपदेश ॥

स खा नो यौग आं भुवत् स राये स पुरंध्याम् । गमुद्
वार्जेभिरा स नः ॥ १ ॥

उपविशन् (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं परमात्मानम् (अभि) सर्वतः (प्र) प्रकर्षेण (गायत) गतुत (सखायः) हे सुहृदः (स्तोमवाहसः) अर्त्तिस्तुसुहृ० उ० १।१४०। स्तोतेर्मन् । वहिहाधाऽभ्यश्छन्दसि । उ० ४।२२१। वह प्रापणे-असुन् स च णिन् । स्तुतिप्रपकाः ॥

१२—(पुरुतमम्) पृथिव्यधि० । उ० १।२३। पृ पालनपूरणयोः—कु । उदोष्ठ्यपूर्वस्य । पा० ७।१। १०२। इत्युत्त्वम्, अतिशयने तमप् । अतिशयेन पालकम् (पुरुषाम्) पालकानाम् (ईशानम्) स्वामिनम् (वार्याणाम्) ऋह-कोपर्यत् । पा० ३।१। १२४। वृङ् सम्भक्तौ वृञ् वरणे वा-एयत् वरणीयानां श्रेष्ठानां पदार्थानां धनानां वा (इन्द्रम्) वीप्लायां द्विर्वचनम् । परमात्मानम् (सोमे) तत्त्वरसे (सखा) समवायेन (सुते) संस्कृते ॥

सः । घृ । नः । योगे । आ । भुवत् । सः । राये । सः ।
पुरम्-ध्वाम् ॥ गमत् । वाजेभिः । आ । सः । नः ॥ १ ॥

भाषार्थ—(सः घ) [वही परमात्मा वा पुरुषार्थी मनुष्य] (नः)
हमारे (योगे) मेल में, (सः सः) वही (राये) हमारे धन के लिये (पुरध्याम्)
नगरों के धारण करने वाली बुद्धि में (आ) सब प्रकार (भुवत्) होवे ।
(सः) वही (वाजेभिः) अर्धों वा बलों के साथ (नः) हम को (आ गमत्)
सब प्रकार प्राप्त होवे ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्य परमात्मा की उपासना से और आप्त पुरुषार्थी
विद्वानों के मत्संग से बुद्धि को उत्तम बनाकर बल और धन की वृद्धि
करे ॥ १ ॥

मन्त्र १—= ऋग्वेद में हैं—१ । ५ । ३—१०, मन्त्र १ सामवेद—७० १ ।
२ । १० ॥

यस्य संस्थे न वृणवते हरी समत्सु शत्रवः । तस्मा इन्द्राय
गायत ॥ २ ॥

यस्य । सम्-स्थे । न । वृणवते । हरी इति । समत्-सु ।
शत्रवः ॥ तस्मै । इन्द्राय । गायतु ॥ २ ॥

भाषार्थ—(सस्थे) संस्था [न्यायव्यवस्था] में (यस्य) जिस
[वीर] के (हरी) पदार्थों के पहुँचाने वाले बल और पराक्रम को (समत्सु)

१—(सः) इन्द्रः परमेश्वरः पुरुषार्थी मनुष्यो वा (घ) एव (नः)
अस्माकम् (योगे) संयोगे (आ) समन्तात् (भुवत्) आशिषि लिङ्गि छान्दसं-
रूपम् । भूयात् (सः) (राये) धनलाभाय (सः) (पुरन्ध्याम्) अ० १६ । १० ।
२ । पुरां नगराणां धारिका बुद्धिः (गमत्) गमेल्लेटि शपो लुक्, अडागमः, यद्वा
लिङ्गर्थे लुङ् अहभावः । गच्छेत् प्राप्नुयात् (वाजेभिः) अर्धैर्बलैर्वा सह (आ)
सर्वतः (सः) (नः) अस्मान् ॥ १ ॥

२—(यस्य) पुरुषस्य (सस्थे) आतश्चोपसर्गे । पा० ३ । १ । १३६ ।
सम् + ष्टा गतिनिवृत्तौ—क । संस्थायाम् । न्यायपथव्यवस्थायाम् (न)

संग्रामों के बीच (शत्रवः) वैरी लोग (न) नहीं (वृणुते) ढकते हैं, (तस्मै-) उस (इन्द्राय) इन्द्र [महाप्रतापी मनुष्य] के लिये (गायत) तुम गान करो ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—जो पुरुष न्यायकारी, दृढ़स्वभाव, पराक्रमी होवे, उस के गुणों के सब लोग ग्रहण करें ॥ २ ॥

सुतुपाव्ने सुता इमे शुचयो यन्ति वीतये । सोमासो
दध्याशिरः ॥ ३ ॥

सुतु-पाव्ने । सुताः । इमे । शुचयः । यन्ति । वीतये ॥
सोमासः । दधि-आशिरः ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—(सुतपाव्ने) ऐश्वर्य के रक्षक मनुष्य को (वीतये) भोग के लिये (इमे) यह (सुताः) निचोड़े हुये (शुचयः) शुद्ध (दध्याशिरः) पोषक पदार्थों के यथावत् सेवन [वा परिपक्व अर्थात् दृढ़] करने वाले (सोमासः) सोम रस [तत्त्व वा अमृत रस] (यन्ति) पहुंचते हैं ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—जो मनुष्य अपने और प्रजा के ऐश्वर्य की रक्षा कर सकता है, वही संसार में वृद्धिकारक सिद्धान्तों को दृढ़ जमाना है ॥ ३ ॥

निषेधे (वृणुते) आच्छादयन्ति (हरी) पदार्थानां हरणशीलौ बलपराक्रमौ (संमत्सु) सङ्ग्रामेषु (शत्रवः) अमित्राः (तस्मै) तादृशाय (इन्द्राय) महाप्रतापिने मनुष्याय (गायत) गानं कुरुत ॥

३—(सुतपाव्ने) पु ऐश्वर्ये—क । आतो मनिक्कनिव्वनिपञ्च । पा० ३ । २ । ७४ । सुत + पा रक्षणे वनिप् । ऐश्वर्याणां रक्षकाय (सुताः) निष्पादिताः (इमे) शुचयः) पवित्राः (यन्ति) गच्छन्ति । प्राप्नुवन्ति (वीतये) वी गति व्याप्तिप्रजनकान्त्यसनस्त्रादनेषु—क्तिन् । भोगाय (सोमासः) तस्व-रसाः । अमृतरसाः (दध्याशिरः) आहगमहनजनः किकिनौ लिट् च । पा० ३ । २ । १७१ । दुधाञ् चारणपोषणयोः—क्तिन् । दधति पुष्पन्तीति दधयः । अपस्पृशेथामानृ चु० । पा० ६ । १ । ३६ । आङ् + श्रिञ् सेवायां श्रीञ्, पा केवा—क्विप्, धातोः शिर् इत्यादेशः । आशीराश्रयणाद्वाश्रपणाद् वा, अथेय-मितराशीराशास्तेः—निर० ६ । ८ । पोषकपदार्थानाममाश्रयदातारः परि-पक्वकर्तारो वा ॥

त्वं सुतस्य^१ पीतये^२ सुद्यो^३ वृद्धो^४ अजायथाः । इन्द्र^५ ज्यैष्ठ्याय^६
सुकृतो ॥ ४ ॥

त्वम् । सुतस्य^१ । पीतये^२ । सुद्यः । वृद्धः । अजायथाः ॥
इन्द्र^५ । ज्यैष्ठ्याय^६ । सुकृतो इति सु-कृतो ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(सुकृतो) हे श्रेष्ठ कर्म और बुद्धि वाले (इन्द्र) इन्द्र ।
[वडे प्रतापी मनुष्य] (त्वम्) तू (सद्यः) शीघ्र (सुतस्य) तत्त्वरस के
(पीतये) पीने के लिये और (ज्यैष्ठ्याय) प्रधानगन के लिये (वृद्धः) वृद्धि
युक्त परिद्धत (अजायथाः) हुआ है ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य तीव्र बुद्धि होकर शीघ्र तत्त्व को ग्रहण करते
हैं, वे ही संसार में वडे पद के योग्य होते हैं ॥ ४ ॥

आ त्वा^१ विशन्त्वा^२शवः^३ सोमास^४ इन्द्र^५ गर्वणः^६ । शं ते^७ सन्तु^८
प्रचेतसे ॥ ५ ॥

आ । त्वा । विशन्तु । आशवः । सोमासः । इन्द्र । गर्वणः ॥
शम् । ते । सन्तु । प्र-चेतसे ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(गर्वणः) हे स्तुतियों से सेवनीय (इन्द्र) इन्द्र । [महा-
प्रतापी मनुष्य] (आशवः) वेग गुण वाले (सोमास) सोम रस (त्वा)
तुझ में (आ) सब ओर से (विशन्तु) प्रवेश करें और (प्रचेतसे ते) तुझ
दूरदर्शी के लिये (शम्) सुखदायक (सन्तु) होंगे ॥ ५ ॥

४—(त्वम्) (सुतस्य) निष्पादितस्य तत्त्वरसस्य (पीतये) पानाय ।
ग्रहणाय (सद्यः) शीघ्रम् (वृद्ध) वृद्धियुक्तः परिद्धतः (अजायथाः)
प्रसिद्धोऽभवः (इन्द्र) महाप्रतापिन् मनुष्य (ज्यैष्ठ्याय) गुणवचनब्राह्म-
णादिभ्यः कर्मणि च । पा० ५ । १ । १२४ । ज्यैष्ठ—प्यञ् । प्रधानत्वप्राप्तये
(सुकृतो) श्रेष्ठकर्मबुद्धियुक्त ॥

५—(आ) सर्वतः (त्वा) त्वाम् (विशन्तु) प्रविशन्तु । व्याप्नुवन्तु
(आशवः) वेगगुणयुक्ताः (सोमासः) तत्त्वरसाः (इन्द्र) महाप्रतापिन् मनुष्य
(गर्वणः) श्र० २० । ६ । ६ । स्तुतिभिः सेवनीय (शम्) सुखप्रदाः (ते)
तुभ्यम् (सन्तु) (प्रचेतसे) प्रकृष्टज्ञानिने दूरदर्शिने ॥ - -

भावार्थ—मनुष्य तत्रबुद्धि होकर शीघ्र गुणकारी सिद्धान्तों का ग्रहण कर के सुखी होवे ॥ ५ ॥

त्वां स्तोमां अवीवृधन् त्वामुक्था शतक्रतो । त्वां वर्धन्तु
ना गिरः ॥ ६ ॥

त्वाम् । स्तोमाः । अवीवृधन् । त्वाम् । उक्था । शतक्रतो
इति शत-क्रतो ॥ त्वाम् । वर्धन्तु । नः । गिरः ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(शतक्रतो) हे सैरुद्धों व्यवहारों में बुद्धि वाले मनुष्य
(त्वाम्) तुझ को (स्तोमाः) बड़ाई योग्य गुणों ने और (त्वाम्) तुझ को
(उक्था) कहने योग्य कर्मों ने (अवीवृधन्) बढ़ाया है । (त्वाम्) तुझ को
(नः) हमारी (गिरः) स्तुतियां (वर्धन्तु) बढ़ावे ॥ ६ ॥

भाषार्थ—श्रेष्ठ कर्मी मनुष्य सदा विद्वानों के सासंग से उपकार
शक्ति बढ़ाते रहें ॥ ६ ॥

अक्षितोतिः सनेद्मिं वाजमिन्द्रः सहस्रिणाम् । यस्मिन्
विश्वानि पीस्यं ॥ ७ ॥

अक्षित-जतिः । सनेत् । इमम् । वाजम् । इन्द्रः । सहस्रिणाम् ॥
यस्मिन् । विश्वानि । पीस्यं ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(अक्षितोतिः) अक्षय रक्षा वा हानि वाला (इन्द्रः इन्द्र
[महाप्रतापी मनुष्य] (इमम्) उस (सहस्रिणाम्) सहस्रों सुख वाले

६—(त्वाम्) (स्तोमाः) स्तुत्यगुणाः (अवीवृधन्) वृधु वृद्धी
रायन्ताल्लुङ् । वर्धन्वन्तः (त्वाम्) (उक्था) पातृनुद्विचि० । उ० २ । ७ ।
वच परिभाषणे—थक् । वक्तव्यानि प्रशंसनीयानि कर्माणि (शतक्रतो) बहुव्य-
वहारेषु बुद्धियुक्त (त्वाम्) (वर्धन्तु) अन्तर्गतार्थः । वर्धयन्तु (नः)
अस्माकम् (गिरः) स्तुतयः ॥

७—(अक्षितोतिः) अक्षीणा वर्धमाना ऊनी रक्षा हानि वा यस्य सः
(सनेत्) पण समकौ—विधिलिङ् । सेवेन (इमम्) वक्ष्यमाणम् (वाजम्)
विज्ञानम् (इन्द्रः) महाप्रतापी मनुष्यः (सहस्रिणाम्) अ० २० । १ । २ ।

(वाजम्) ज्ञान का (मनेत्) सेवन करे, (यस्मिन्) जिन में (विश्वानि) सब (पौंस्या) मनुष्य कर्म [वा वल] हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ—मनुष्य प्रतापी होकर सर्वोपकारी कार्य कर के सुखी होवे ॥७॥

मा नो मर्ता अभि द्रुहन् तनूनामिन्द्र गिर्वणः । ईशानो
यवया वधम् ॥ ८ ॥

मा । नः । मर्ताः । अभि । द्रुहन् । तनूनाम् । इन्द्र ।

गिर्वणः ॥ ईशानः । यवयु । वधम् ॥ ८ ॥

भावार्थ—(गिर्वणः) हे स्तुतियों से सेवनीय (इन्द्र) इन्द्र ! [महा-
प्रतापी मनुष्य] (मर्ताः) मनुष्य (नः) हमारी, (तनूनाम्) उपकार
क्रियाओं का (मा अभि द्रुहन्) कभी द्रोह न करें । तू (ईशानः) स्वामी होकर
(वधम्) उन के वध [हनन व्यवहार] को (यवयु) हटा ॥ ८ ॥

भावार्थ—बुद्धिमान् प्रतापी मनुष्य ऐसा प्रयत्न करे कि सब लोग वैर
छोड़ कर परस्पर उपकारी होकर सुखी होवें ॥ ८ ॥

मन्त्राः ६—११ परमेश्वरगुणोपदेशः—६—११ परमेश्वर के गुणों का
उपदेश ॥

युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचुना
दिवि ॥ ८ ॥

असंख्यसुखयुक्तम् (यस्मिन्) ज्ञाने (विश्वानि) सर्वाणि (पौंस्या) अ० २० ।
६७ । २ । मनुष्यकर्माणि । बलानि ॥

८—(मा) निषेधे (नः) अस्माकम् (मर्ताः) मनुष्याः (अभि)
सर्वतः (द्रुहन्) द्रुह जिघांसायाम्—लुङ्, अडभात्रः, छान्दसः शविकरणः ।
द्रोह कुर्वन्तु (तनूनाम्) कृषिचमितानि० । ३० १ । ८० तनु विस्तारे अद्वैप-
करणयोश्च—ऊप्रत्ययः । उपकारक्रियाणाम् (इन्द्र) महाप्रतापिन् मनुष्य
(गिर्वणः) म० ५ । स्तुतिभिः सेवनीय (ईशानः) समर्थः (यवयु) प्रातिपदि
काद्घात्वर्थे बहुलमिष्ठवृत्ते । इति वार्तिनेकेन यवशब्दाद् घात्वर्थे—णिच्,
टलोपः । पृथक् कुरु (वधम्) हन हिंसागत्या—अप् । हननव्यवहारम् ॥

युञ्जन्ति । ब्रह्मम् । अरुषम् । चरन्तम् । परि । तस्थुषः ॥
रोचन्ते । रोचना । दिवि ॥ ८ ॥

भावार्थ—(तस्थुषः) मनुष्य आदि प्राणियों और लोकों में (परि) सब ओर से (चरन्तम्) व्यापे हुये, (ब्रह्मम्) महान् (अरुषम्) हिंसा रहित [परमात्मा] को (रोचना) प्रकाशमान पदार्थ (दिवि) व्यवहार के बीच (युञ्जन्ति) ध्यान में रखते और (रोचन्ते) प्रकाशित होते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ—परमाणुओं से लेकर सूर्य आदि लोक और सब प्राणी सर्व-व्यापक, सर्वनियन्ता परमात्मा की आज्ञा को मानते हैं, उसी की उपासना से मनुष्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके आत्मा की उन्नति करें ॥ ८ ॥

मन्त्र ६—११ आ चुके हैं—म० २० । २६ । ४—६ तथा ४७ । १०—१२ ॥

युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रये । शोणा धृष्ण
नृवाहसा ॥ १० ॥

युञ्जन्ति । अस्य । काम्या । हरी इति । वि-पक्षसा । रये ।
शोणा । धृष्ण इति । नृ-वाहसा ॥ १० ॥

भावार्थ—(अस्य) इस [परमात्मा—म० ६] के (काम्या) चाहने योग्य, (विपक्षसा) विविध प्रकार ग्रहण करने वाले, (शोणा) व्यापक, (धृष्ण) निर्भय, (नृवाहसा) नेताओं [दूसरों के चलाने वाले सूर्य आदि लोकों] के चलाने वाले (हरी) दोनों धारण आकर्षण गुणों को (रये) रमणीय जगत् के बीच (युञ्जन्ति) वे [प्रकाशमान पदार्थ—म० ६] ध्यान में रखते हैं ॥ १० ॥

भावार्थ—जिस परमात्मा के धारण आकर्षण सामर्थ्य में सूर्य आदि पिण्ड अन्व लोकों और प्राणियों को चलाते हैं, मनुष्य उन सब पदार्थों से उपकार लेकर उस ईश्वर को धन्यवाद दे ॥ १० ॥

केतुं कृपवन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुषद्भिरजाययाः ११

६—११ ॥ पते मन्त्रा गताः—म० २० । २६ । ४—६ तथा ४७ । १०—

केतुम् । कृण्वन् । अकेतवे । पेशः । मर्याः । अपेशसे ॥ सम् ।

उषत्-भिः । अजायथाः ॥ ११ ॥

भाषार्थ—(मर्याः) हे मनुष्यों ! (अकेतवे) अज्ञान हटाने के लिये (केतुम्) ज्ञान को और (अपेशसे) निर्धनता मिटाने के लिये (पेशः) सुवर्ण आदि धन को (कृण्वन्) उत्पन्न करता हुआ वह [परमात्मा-म० ६, १०] (उपद्भिः) प्रकाशमान गुणों के साथ (सम्) अच्छे प्रकार (अजायथाः) प्रकट हुआ है ॥ ११ ॥

भाषार्थ—मनुष्य प्रयत्न करके परमात्मा को विचारते हुये सृष्टि के पदार्थों से उपकार लेकर धनी और धनी होवे ॥ ११ ॥

मन्त्र १२ राजप्रजाधर्मोपदेशः—मन्त्र १२ राजा और प्रजा के धर्म का उपदेश ॥

आदहं स्वधामनु पुनर्गर्भ त्वमेरिरे । दधाना नाम यश्चियम् १२
आत् । अहं । स्वधाम् । अनु । पुनः । धुनः । गर्भ-त्वम् ।
आ-ई-रिरे ॥ दधानाः । नाम । यश्चियम् ॥ १२ ॥

भाषार्थ—(आत्) फिर (अहं) अवश्य (स्वधाम् अनु) अपनी धारण शक्ति के पीछे (यश्चियम्) सत्कार योग्य (नाम) नाम [यश] का (दधानाः) धारण करते हुये लोगों ने (पुनः) निश्चय कर के (गर्भत्वम्) गर्भपन [सारपन, बड़े पद] को (एरिरे) सब प्रकार से पाया है ॥ १२ ॥

भाषार्थ—अहाँ पर पूर्वोक्त प्रकार से न्याय युक्त स्वतन्त्रता के साथ जोग कार्य करते हैं, वहाँ पर सब पुरुष बड़ाई पाते हैं ॥ १२ ॥

यह मन्त्र, आ चुका है—अ० २० । ४० । ३ ॥

सूक्तम् ५० ॥

१—२० ॥ १, ३ मरुत इन्द्रश्च, २, ४, ५ मरुतः, ६—२० इन्द्रो देवता ॥
१—३, ५—७, ६, ११—१३, १६, २० गायत्री; ४, ८, १०, १४, १६, १७, निचूद् गायत्री; १५ पाद निचूद् गायत्री; १८ विराट् गायत्री छन्दः ॥

१—६ । राजप्रजाधर्मोपदेशः—१—६ राजा और प्रजा के धर्म का उपदेश ॥

१२—असं मन्त्रो व्याख्यातः—अ० २० । ४० । ३ ॥

वीलु चिदारुजलुभिर्गुहा चिदिन्द्र वह्निभिः । अविन्द उस्त्रिया
अनु ॥ १ ॥

वीलु । चित् । आरुजलु-भिः । गुहा । चित् । इन्द्र । वह्निभिः ॥
अविन्दः । उस्त्रियाः । अनु ॥ १ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी मनुष्य] (गुहा) गुहा
[गुप्त स्थान] में (चित्) भी [शत्रुओं के] (वीलु) दृढ़ गढ़ को, (आरुजलु
भिः) तोड़ डालने वाले (वह्निभिः) अग्नि गों [आग्नेय शस्त्रों] से (चित्)
निश्चय करके (उस्त्रियाः अनु) निवाज करने वाली प्रजाओं के पीछे
(अविन्दः) तू ने पाया है ॥ ११ ॥

भावार्थ—प्रतापी वीर मनुष्य आग्नेय शस्त्र वाण तोप भुपण्डी आदि से
गुप्त स्थानों में छिपे वैरियों को नष्ट करके प्रजा की रक्षा करें ॥ १ ॥

मन्त्र १—६ ऋग्वेद में है—१ । ६ । ५—१०, मन्त्र १ सामवेद—उ० २ । २ । ७ ॥

देवयन्तो यथा स्रुतिसच्छा विदद् वसु गिरः । महामनुषत
श्रुतम् ॥ २ ॥

देव-यन्तः । यथा । स्रुतिम् । अच्छ । विदत्-वसुम् । गिरः ॥
महाम् । अनुषत् । श्रुतम् ॥ २ ॥

भाषार्थ—(देवयन्तः) विजय चाहने वाले (गिरः) विद्वान् लोगों ने

१—(वीलु) वीलयतिः संस्तम्भकर्मा—निरु० ५ । १७ । भृमृशीङ् तृ० ।
उ० १ । ७ । उपत्ययः । वीलु यलनाम—निघ० २ । ६ । दृढस्थानम् । दुर्गम्
(चित्) अपि (आरुजलुभिः) कृहनिभ्यां क्लृः । उ० ३ । ३० । आङ् + रुजो
भङ्गं—कल्लप्रत्ययः अकारसहितः । समन्ताद् भङ्गद्भिः । सम्यग्भङ्गनशीलैः
(गुहा) गुहायाम् । गुप्तस्थाने (चित्) निश्चयेन (इन्द्र) महाप्रतापिन् मनुष्य
(वह्निभिः) वह्निभिश्चु० । उ० ४ । ५१ । वह प्रपणे-नि । वोढुभिः । नेतृभिः
पुरुषैः (अविन्दः) विद्वत् लाभे-लङ् । लब्धवानसि (उस्त्रियाः) अथ० २० ।
१६ । ७ । निवासशीलाः प्रजाः (अनु) अनुलक्ष्य ॥

२—(देवयन्तः) दिव्य विजिगीषायाम् चुरादिः—शतृ । यद्वा देव-यन्तः,

(यथा) जैसे (विद्वद्बसुम्) वर्णों के प्रसिद्ध करने वाले (मतिम्) बुद्धिमान् की, [वैसे ही] (महाम्) महान् और (श्रुतम्) विख्यात पुरुष की (अच्छं) अच्छे प्रकार (अनूपत) स्तुति की है ॥ २ ॥

भावार्थ—विजयी विद्वान् लोग अनुभवी प्रसिद्ध पुरुषों से उत्तम गुण ग्रहण करते रहें ॥ २ ॥

इन्द्रेण सं हि दृक्षसे संजग्मानो अविभ्युषा । मन्दू समान-
वर्चसा ॥ ३ ॥

इन्द्रेण । सम् । हि । दृक्षसे । सम्-जग्मानः । अविभ्युषा ॥
मन्दू इति । समान-वर्चसा ॥ ३ ॥

भाषार्थ—[हे प्रजागण] (अविभ्युषा) निडर (इन्द्रेण) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले राजा] के साथ (हि) ही (संजग्मानः) मिलता हुआ तू (सम्) अच्छे प्रकार (दृक्षसे) दिखाई देता है । (समानवर्चसा) एक से तेज के साथ (मन्दू) तुम दोनों [राजा और प्रजा] आनन्द देने वाले हो ॥ ३ ॥

भावार्थ—जिस राज्य में प्रजागण राजा से और राजा प्रजा से प्रसन्न रहते हैं, वही राज्य विद्या और धन में उन्नति करता है ॥ ३ ॥

मन्त्र ३, ४ आच्युक्ते हैं—अथ० २० । ४० । १, २ ॥

अनुवद्यैरभिव्युभिर्मुखः सहस्वदर्चति । गृणैरिन्द्रस्य काम्यैः४
अनुवद्यैः । अभिव्यु-भिः । मुखः । सहस्वत् । अर्चति ॥
गृणैः । इन्द्रस्य । काम्यैः ॥ ४ ॥

शतृ । विजिगीषमाणाः । विजयमिच्छन्तः (यथा) येन प्रकारेण (मतिम्) किं ज्ञौ च सहायाम् । पा० ३ । ३ । १७४ । मन ज्ञाने किञ्च । अतयो मेधाविनाम-
निघ० ३ । १५ । मेधाविनम् (अच्छं) उत्तमरीत्या (विद्वद्बसुम्) विद्व. ज्ञाने-
शतृ । विदन्ति जानन्ति वसुनि धनानि यस्मात् तम् (गिरः) गृ विज्ञापे ।
स्तुतौ च—किप् । विद्वान्तः (महाम्) नकारतकारलोपः । महान्तम् (अनूपत-)
अथ० २० । १७ । १ । स्तुतवन्तः (श्रुतम्) विख्यातम् ॥

३, ४—मन्त्री व्याख्यातौ अथ० २० । ४० । १०२ ॥

भाषार्थ—(अनवद्यैः) निर्दोष, (अभिद्युभिः) सब ओर से प्रकाशमान, और (काम्यैः) प्रीति के योग्य (गणैः) गणों [प्रजागणों] के साथ (इन्द्रस्य) इन्द्र [बड़े पेशवर्य वाले राजा] का (मन्त्रः) यज्ञ [राज्य व्यवहार] (सहस्रत्) अति बढ़ता से (अर्चति) सत्कार पाता है ॥ ४ ॥

भाषार्थ—सब राजाकाज उत्तम विद्वान् लोगों के मेल से अच्छे प्रकार सिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥

अतः परिज्मन्ना गहि दिवो वा रोचनादधि । समस्मि-
न्नुज्जते गिरः ॥ ५ ॥

अतः । परि-ज्मन् । आ । गहि । दिवः । वा । रोचनात् ।
अधि ॥ सम् । अस्मिन् । उज्जते । गिरः ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(अतः) इस लिये, (परिज्मन्) हे सर्वत्र गति वाले शूर । (दिवः) विजय की इच्छा से (वा) और (रोचनात्) प्रीति भाव से (अधि) ऊपर (आ गहि) आ, (अस्मिन्) इस [वचन] में (गिरः) हमारी स्तुतियाँ (सम्) ठीक ठीक (उज्जते) सिद्ध होती हैं ॥ ५ ॥

भाषार्थ—पूर्वोक्त प्रकारसे आवश्यकता जताकर श्रेष्ठ प्रजागण धीर धीर पुरुष को उत्तम कर्मों में प्रवृत्त करें ॥ ५ ॥

इतो वा सुतिमीमहे दिवो वा पार्थिवादधि । इन्द्रं मही
वा रजसः ॥ ६ ॥

इतः । वा । सुतिम् । इमहे । दिवः । वा । पार्थिवात् ।

५—(अतः) अस्मात् पूर्वोक्तात् कारणात् (परिज्मन्) अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते । पा० ३ । २ । ७ । परि + अज गतिक्षेपेणयोः—मनिन्, अकारलोपः । हे सर्वतो गतिशील (आ गहि) आगच्छ (दिवः) दिवु विजिगीषायाम्—किप् । विजयेच्छायाः सकाशात् (वा) चार्थे (रोचनात्) रुच दीप्तावभिप्रीतौ च युच् । प्रीतिभावात् (अधि) उपरि (सम्) सम्यक् (अस्मिन्) वचसि (उज्जते) उज्जतिः प्रसाधनकर्मा—निरु० ६ । २१ । प्रकर्षेण सिध्यन्ति (गिरः) स्तुतयः—निरु० १ । १० ॥

अधि ॥ इन्द्रम् । महः । वा । रजसः ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(इतः) इस लिये (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े प्रतापी मनुष्य] के द्वारा (दिवः) प्रकाश से (वा) और (पार्थिवात्) पृथिवी के संगयोग से (वा) और (महः) बड़े (रजसः) जल [अथवा वायु मण्डल] से (वा) निश्चय करके (सातिम्) दान [उपकार] को (अधि) अधिकार पूर्वक (ईमहे) हम मांगने हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को उचित है कि पूर्वोक्त प्रकार से विचार पूर्वक बड़े बड़े विद्वानों द्वारा विद्या ग्रहण कर के संसार के सब अग्नि आदि पदार्थों से उपकार लेकर उन्नति करें ॥ ६ ॥

इन्द्रमिद् गा यिनो बृहदिन्द्रमर्केभिरर्किणः । इन्द्रं वाणी-
रनूषत ॥ ७ ॥

इन्द्रम् । इत् । गा यिनः । बृहत् । इन्द्रम् । अर्केभिः ।
अर्किणः ॥ इन्द्रम् । वाणीः । अनुषतु ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(गायिनः) गाने वालों और (अर्किणः) विचार करने वालों ने (अर्केभिः) पूजनीय विचारों से (इन्द्रम्) सूर्य [के समान प्रतापी], (इन्द्रम्) वायु [के समान फुरतीले] (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले राजा] को और (वाणीः) वाणियों [वेदवचनों] को (इत्) निश्चय करके (बृहत्) बड़े ढंग से (अनूषत सराहा है ॥ ७ ॥

भावार्थ—मनुष्य सुनीतिज्ञ प्रतापी, उद्योगी राजा के और परमेश्वर

६—(इतः) अस्मात् पूर्वोक्तात् कारणात् (वा) च (सातिम्) ऊतियूति-
जूनिसानिहेति० पा० ३ । ३ । ६७ । षणु दाग्ने—किन् । दानम् । उपकारम् (ईमहे)
ईङ् गतौ शपो लुकि श्यनभाषः । याचामहे—निघ० ३ । १६ (दिवः) प्रकाशात्
(वा) च (पार्थिवात्) सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणुषौ । पा० ५ । १ । ४१ । पृथिवी
अञ् प्रत्ययः संयोगविषये । । पृथिवीसंयोगात् (अधि) अधिकारपूर्वकम्
(इन्द्रम्) महाप्रतापिनं मनुष्यम् (महः) महतः (वा) अवधारणे (रजसः)
उदकं रज उरुप्रते—निघ० ४ । १६ । जलात् । अन्तरिक्षात् । वायुमण्डलात् ॥

७—६ । पते मन्वा गताः—अथ० २० । ३८ । ४—६ तथा ४७ । ४—६ ॥

की दो हुई वेदवाणी के गुणों को विचारकर सब के सुख के लिये यथावत् उपाय करें ॥ ७ ॥

मन्त्र ७—६ आचुके ह्ये—अथ० २० । ३८ । ४—६ तथा ४७ । ४—६ ॥

इन्द्र इद्ध्योः सचा समिश्रत् आ वचोयुजा । इन्द्रो वृज्नी
हिरण्ययः ॥ ८ ॥

इन्द्रः । इत् । ह्योः । सचा । सम्-मिश्रत् । आ । वचुः-
युजा ॥ इन्द्रः । वृज्नी । हिरण्ययः ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(वृज्नी) वृज्जधारी, (हिरण्ययः) तेजोमय (इन्द्रः) इन्द्र
[वड़े पेश्वर्य वाला राजा] (इत्) ही (इन्द्रः) वायु [के समान] (सचा)
नित्य मिले हुये (ह्योः) दोनों संयोग वियोग गुणों का (समिश्रत्) यथावत्
मिलाने वाला (आ) और (वचोयुजा) वचन का योग्य बनाने वाला है ॥ ८ ॥

भावार्थ—जैसे पवन के आने जाने से पदार्थों में चलने, फिरने, उठरने
का और जीम में बोलने का सामर्थ्य होता है, वैसे ही दण्ड दाता प्रतापी राजा
के न्याय से सब लोगों में शुभ गुणों का संयोग और दोषों का वियोग होकर
वाणी में सत्यता होती है ॥ ८ ॥

इन्द्रो दीर्घाय चक्षसे आ सूर्य रोहयद् दिवि । वि गोभिरद्रि-
सैरयत् ॥ ९ ॥

इन्द्रः । दीर्घाय । चक्षसे । आ । सूर्यम् । रोहयत् । दिवि ॥
वि । गोभिः । अद्रिम् । सैरयत् ॥ ९ ॥

भाषार्थ—(इन्द्रः ; इन्द्र [वड़े पेश्वर्य वाले परमात्मा] ने (दीर्घाय)
दूर तक (चक्षसे) देखने के लिये (दिवि) व्यवहार [वा आकाश] के बीच
(गोभिः) वेद वाणियों द्वारा [वा किरणों वा जलों द्वारा] (सूर्यम्) सूर्य
[के समान-प्रेरक] और (अद्रिम्) मेघ [के समान उपकारी पुरुष] को
(आ रोहयत्) ऊंचा किया और (वि) विविध प्रकार (सैरयत्) चलाया
है ॥ ९ ॥

भावार्थ—जैसे परमेश्वर के नियम से सूर्य आकाश में चलकर तापि

आदि गुणों से अनेक लाकों को धारण करता और किरणों द्वारा जल खींचकर फिर बरसाकर उपकार करना है, वैसे ही दूर दर्शी राजा अपने प्रताप और उत्तम व्यवहारों से सब प्रजा को नियम में रखे और कालेकाल उनका प्रतिपालन करे ॥ ६ ॥

म० १०—२० । परमेश्वरावासनोपदेशः—म० १०—२० । परमेश्वर की उपोसना का उपदेश ॥

इन्द्र वाजेषु नोऽव सुहस्रप्रधनेषु च । उग्र उग्रामिः कृतिभिः १०
इन्द्र । वाजेषु । नः । अव । सुहस्र-प्रधनेषु ॥ उग्र उग्रामिः ।
उग्रामिः । कृति-भिः ॥ १० ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र । [परमेश्वर्यवाले परमात्मन्] । उग्रोऽग्र [प्रचण्ड] वृ (वाजेषु) पराक्रमों के बीच (नः) और (सुहस्रप्रधनेषु) सहस्रों बड़े धन वाले व्यवहारों में (उग्रामिः) उग्र [वृद्ध] (कृतिभिः) राजा साधनों के साथ (नः) हमें (अव) बचा ॥ १० ॥

भाषार्थ—परमात्मा की प्रार्थना करके और पुरुष पराक्रमी और प्रज्जनी होकर प्रजा का पालन करे ॥ १० ॥

मन्त्र १०—२६ ऋग्वेद में है—१ । ७ । १—१० म० १० सामवेद—पृ० ६ । ११ । १४ तथा—३० । २ । १ । म ॥

इन्द्र वयं महाधन इन्द्र अर्भे हवामहे । युजं वृत्रेषु वृजिणम् ११
इन्द्रम् । वयम् । महा-धने । इन्द्रम् । अर्भे । हवामहे ॥
युजंम् । वृत्रेषु । वृजिणम् ॥ ११ ॥

भाषार्थ—(वयम्) हम (अर्भे) चलते हैं, हवामहे (महाधने) बलवत अर्जुन

१०—(इन्द्र) परमेश्वर्यवन्त परमात्मन् (वाजेषु) पराक्रमेषु (नः) अस्मान् (अव) रक्ष (सुहस्रप्रधनेषु) असंख्यप्रकृष्टधनयुक्तेषु व्यवहारषु (च) समुच्चये (उग्रः) प्रचण्डः (उग्रामिः) प्रचण्डामिः । इन्द्रामिः (कृतिभिः) रक्षसाधनैः ॥

११—(इन्द्रम्) परमेश्वर्यवन्त जगदीश्वरम् (वयम्) (महाधने) महा-

प्राप्त कराने वाले संग्राम में [अथवा बहुत धन में] (युजम्) सहायकारी और (वृत्रेषु) रोकने वाले शत्रुओं पर (वज्रिणम्) वज्र धारी (इन्द्रम्) इन्द्र [परम पेश्वर्य वाले जगदीश्वर] को, (इन्द्रम्) इन्द्र [परम पेश्वर्य वाले जगदीश्वर] को (हवामहे) बुलाते हैं ॥ ११ ॥

भावार्थ—युद्धों में तथा बहुत धन में वीर पुरुष—“हे इन्द्र जगदीश्वर ! हे इन्द्र जगदीश्वर”—ऐसा स्मरण करके अपना बल बढ़ावे और प्रयत्न करके शत्रुओं को हटावे ॥ ११ ॥

यह मन्त्र सामवेद में भी है—पृ० २।४।६ ॥

स नो वृषन्नसुं चरुं सत्रादावन्नपा वृधि । अस्मभ्यमप्रतिष्कृतः १२
सः । नः । वषन् । अमुम् । चरुम् । सत्रा-दावन् । अप ।
वृधि ॥ अस्मभ्यम् । अप्रति-ष्कृतः ॥ १२ ॥

भाषार्थ—(वृषन्) हे सुख बरसाने वाले ! (सत्रादावन्) हे सत्य ज्ञान देने वाले परमेश्वर ! (अप्रतिष्कृतः) वे रोक गति वाला (सः) सो तू (नः) हमारे लिये, (अस्मभ्यम्) हमारे लिये (अमुम्) उस (चरुम्) मेघ के समान ज्ञान को (अप वृधि) खोल दे ॥ १२

धने संग्रामनाम—निघ० २।१७। प्रभूतधननिमित्ते संग्रामे । यद्वा, गहञ्च तद् धनं च । प्रभूते धने (इन्द्रम्) परमेश्वर्यवन्तं जगदीश्वरम् (अर्भे) अर्त्त-गृभ्यां भन् । उ० ३।१५२। ऋ गतौ—भन् । गतिशीले (हवामहे) आह्वयामहे (युजम्) युजिर् योगे, युज समाधौ च—किप् । सहायकम् (वृत्रेषु) आवरकेषु शत्रुषु (वज्रिणम्) दण्डधारिणम् ॥

१२—(सः) परमेश्वरः (नः) अस्मभ्यम् (वृषन्) हे सुखवर्षक (अमुम्) प्रसिद्धम् (चरुम्) भृशशीङ् तृचरि० । उ० १।७। चर गतिभक्ष-णयोः—उपस्थयः । चरुर्मेघनाम निघ० १।१०। मेघमिवोत्कारकं ज्ञानम् (सत्रादावन्) सत्रा सत्यनाम—निघ० ३।१०। अतो मनिन्कनिव्वनिपश्च । पा० ३।२।७२। ददातेर्वनिप् । हे सत्यज्ञानस्य दातः (अप वृधि) वृन् अच्छा-दने—लोट् । बहुलं छन्दसि । पा० २।४।७३। श्नोर्लुक् श्रुशृणुपृकृवृभ्यश्छ-न्दसि । पा० ६।४।१०२। इति हेर्धिः । उत्पाटय । उद्घाटय (अस्मभ्यम्) (अप्रतिष्कृतः) अथ० २०।४१।१। अप्रनिगतः ॥

भाषार्थ—मनुष्य ईश्वर से मेघ समान उपकारी सत्यज्ञान को प्राप्त कर के सुखी होवे ॥ १२ ॥

यह गन्त्र सामवेद में है— उ० ८।१।२ ॥

तुञ्जेतुञ्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वृज्जिणः । न विन्धे
अस्य सुष्टुतिम् ॥ १३ ॥

तञ्जे-तुञ्जे । ये । उत्-तरे । स्तोमाः । इन्द्रस्य । वृज्जिणः ॥
न । विन्धे । अस्य । सु-स्तुतिम् ॥ १३ ॥

भाषार्थ—(वृज्जिणः) अत्यन्त पराक्रम वाले (इन्द्रस्य) इन्द्र [परम-
पेश्वर्य वाले जगदीश्वर] के (तुञ्जेतुञ्जे) दान दान में (ये) जो- (उत्तरे)
उत्तम उत्तम (स्तोमाः) स्तोत्र हैं, [उनसे] (अस्य) उस की (सुष्टुतिम्) सुन्दर
स्तुति (न विन्धे) मैं नदी पाता हूँ ॥ १३ ॥

भाषार्थ—परमात्मा ने प्राणियों के सुख के लिये अनन्त पदार्थ दिये
हैं, अद्वय मनुष्य उन की गणना करके उसकी स्तुति नहीं कर सकता ॥ १३ ॥

वृषा युथेव वंसगः कृष्टीरियुत्थोर्जसा । ईशानो अप्रतिष्कृतः १४
वृषा । युथा-इव । वंसगः । कृष्टीः । इयुर्ति । ओजसा ॥
ईशानः । अप्रति-स्कृतः ॥ १४ ॥

भाषार्थ—(वृषा) बलवान् बल (युथा इव) जैसे अपने भ्रूणों को,
[वैसे ही] (वंसगः) सेवनीय पदार्थों का पहुँचाने वाला, (अप्रतिष्कृतः)

१३ (तुञ्जेतुञ्जे) तुजि हिसायां पाकने च—भावे घञ् । तुजस्तुञ्जतेर्दान-
कर्मणः—निरु० ६।१७ । दाने दाने—निरु० ६।१८ (ये) (उत्तरे) उत्कृष्टाः
(स्तोमाः) स्तोत्राणि (इन्द्रस्य) परमेश्वर्यवतो जगदीश्वरस्य (वृज्जिणः)
धीर्यवतः । प्रशस्तपराक्रमिणः (न) निषेधे (विन्धे) विदूह लामे—लद्,
दकारस्य धकारः । विन्धे । विन्दामि । प्राप्नोमि (अस्य) परमेश्वरस्य (सुष्टु-
तिम्) शोभनां स्तुतिम् ॥

१४—(वृषा) वीर्यवान् बलीवर्दः (युथा) तिथपृष्ठगूथयूथप्रोथाः । उ० २।
१२ । यु मिश्रणामिश्रणयोः—थक् । सजातीयसमुदायान् (इव) यथा (वंसगः)

वे रोक गति वाला (ईशानः) परमेश्वर (ओजसा) अपने बल से (कृषीः) मनुष्यों का (इत्यति) प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

भावार्थ—जैसे बलवान् बैल अपने भुण्ड को वश में रखता है, वैसे ही परमात्मा सब में व्यापकर मनुष्य आदि प्राणियों को अपने नियम में रखता है ॥ १४ ॥

यह मन्त्र सामवेद में भी है—उ० ८।१।२ ॥

सु एकं चर्षणीनां वसूनासिरुज्यति । इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम् १५
यः । एकः । चर्षणीनाम् । वसूनाम् । इरुज्यति ॥ इन्द्रः ।
पञ्च । क्षितीनाम् ॥ १५ ॥

(भाष्यार्थ—(यः) जो (एकः) अकेला (चर्षणीनाम्) चलने वाले मनुष्यों, श्रेष्ठ (वसूनाम्) श्रेष्ठ गुणों का (इरुज्यति) स्वामी है, (इन्द्रः) वही इन्द्र [परम ऐश्वर्यवान् जगदीश्वर] (पञ्च) पांच [पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश] से सम्बन्ध वाले (क्षितीनाम्) चलते-हुये लोकों का [स्वामी है] ॥ १५ ॥

भावार्थ—परमात्मा सब प्राणियों, सब श्रेष्ठ गुणों और सब लोकों का स्वामी है, मनुष्य उसकी भक्ति से अपना सामर्थ्य बढ़ावे ॥ १५ ॥

अ० १८।३।३६। सेवनीयपदार्थानां प्रापयिता (कृषीः) अ० ३।२४।
मनुष्यान्-निघ० २।३ (इत्यति) अ गतौ—लट् शपः णुः । प्राप्नोति (ओजसा)
बलेन (ईशानः) ईश ऐश्वर्ये—शानच् । परमेश्वरः (अप्रतिष्कृतः) म० १२।
(अतिशय) अप्रतिगतः ॥

(यः) परमेश्वरः (एकः) अद्वितीयः (चर्षणीनाम्) अ० १।
चर्षणीनाम् मनुष्याणाम्—निघ० २।३ (वसूनाम्) श्रेष्ठगुणानाम्
(इरुज्यति) इरुज् इत्यर्थम् । कणवादिः । इरुज्यति ऐश्वर्यकर्मा—निघ० २।
२१। इन्द्रः (इन्द्रः) स परमेश्वरः (पञ्च) शप्यश्रयां तुच् । उ० १।१५७।
(पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश) पञ्चभूतसम्बन्धानाम्
(क्षितीनाम्) क्षि तिवात्तगर्त्याः—किन् । क्षितिः पृथिवीनाम्—निघ० १।१।
गतिशीलानां लोकानाम् ॥
(अमर) अथ । इन्द्रः ।

इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनैभ्यः । अस्माकमस्तु
केवलः ॥ १६ ॥

इन्द्रम् । वः । विश्वतः । परि । हवामहे । जनैभ्यः ।
अस्माकम् । अस्तु । केवलः ॥ १६ ॥

भाषार्थ—[हे मनुष्यो !], (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े पेश्वर्यवान् परमात्मा]
का (वः) तुम्हारे लिये और (विश्वतः) सब (जनैभ्यः) प्राणियों के लिये (परि)
सब प्रकार (हवामहे) हम बुलाने हैं । वह (अस्माकम्) हमारा (केवलः)
सेवनीय (अस्तु) होवे ॥ १६ ॥

भावार्थ—सब मनुष्य सर्वहितकारी जगदीश्वर की आज्ञा में रह कर
आनन्द पावें ॥ १६ ॥

यह मन्त्र आचुका है—अ० २० । ३६ । १ ॥

इन्द्रं सानसिं रुयिं सुजित्वानं सदासहम् । वर्षिष्ठमुतये भर १७
आ । इन्द्र । सानसिम् । रुयिम् । सु-जित्वानम् ॥

सदास-हम् ॥ वर्षिष्ठम् । उतये । भर ॥ १७ ॥

नि, येन सुष्टिहृत्यया नि वृत्रा रुणधामहै । त्वीतसि, न्यधिता, १८
नि, । येन । सुष्टि-हृत्यया । नि । वृत्रा । रुणधामहै ॥

त्वा-ज तासः । नि । अर्धिता ॥ १८ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [परम पेश्वर्य वाले जगदीश्वर]
(सानसिम्) सेवनीय, (सुजित्वानम्) जीतने वाले के साथ वर्तमान,
(सदासहम्) सदा वैरियों के हराने वाले, (वर्षिष्ठम्) अत्यन्त बड़े हुये

१६—अयं मन्त्रो व्याख्यातः—अ० २० । ३६ । १ ॥

१७—(आ) समन्तात् (इन्द्र) परमेश्वर्यवान् जगदीश्वर (सानसिम्)

अ० २० । १४ । २ । षण् समकौ—असिप्रत्ययः । सेवनीयम् (रीयम्) धनम्
(सुजित्वानम्) अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते । पा० ३ । २ । ७५ । जि जये—कनिष्,
स इत्ये समाधः । जित्वभिर्जित्भिः सह वर्तमानम् (सदासहम्) सर्वदा शत्रुणा-

(रयिम्) उस धन को (ऊतये) हमारी रक्षा के लिये (आ) सब ओर से (भर) भर ॥ १७ ॥ (येन) जिस [धन] के द्वारा (मुष्टिहत्यया) मुष्टियों की मार [बाहुयुद्ध] से और (अर्वता) घुडचढे दल से (वृत्रा) शत्रुओं को (त्वातासः) तुझ से रक्षा किये गये हम (नि) निश्चय करके (नि) नित्य (नि रुणध्रामहै) रोकते रहें ॥ १८ ॥

भावार्थ—सब मनुष्य परमेश्वर का आश्रय लेकर पुरुषार्थ के साथ विद्याओं द्वारा धन बढ़ावें और शरीर और बुद्धिवल तथा अश्व आदि सेना को दृढ़ करके शत्रुओं को जीते ॥ १७, १८ ॥

मन्त्र १७-२० ऋग्वेद में हैं—१।८।१—४; मन्त्र १७ साम०—पृ० २।४।५ ॥

इन्द्र त्वातासु आ वयं वज्रं घना ददीमहि । जयेम सं युधि स्पृधः ॥ १८ ॥

इन्द्र । त्वा-ऊतासः । आ । वयम् । वज्रम् । घना । ददीमहि ॥ जयेम । सम् । युधि । स्पृधः ॥ १८ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [वड़े पेशवर्यवाले परमात्मन्] (त्वातासः) तुझ से रक्षा किये गये (वयम्) हम (वज्रम्) वज्र [बिजुली और अग्नि के शस्त्रों] और (घना) घनों [मारने के तलवार आदि हथियारों] को (आ ददी-

ममिभवनारम् (वर्षिष्ठम्) अ० ४।६।३। वृद्ध—इष्टन् । अतिशयेन वृद्धम् (ऊतये) रक्षायै (भर) धर ॥

१८—(नि) निश्चयेन (येन) धनेन (मुष्टिहत्यया) हनस्त च । पा० ३।१।१०८ । मुष्टि+हन हिंसागत्योः—क्यप् । मुष्टिप्रहारेण । बाहुयुद्धेन (नि) नितराम् (वृत्रा) शत्रून् (रुणध्रामहै) निरुणध्राम । निरुद्धान् करवाम (त्वातासः) त्वया ऊता रक्षिताः (नि) निश्चयेन (अर्वता) अश्वदलेन ॥

१९—(इन्द्र) परमैश्वर्यवान् परमात्मन् (त्वातासः) त्वया रक्षिताः (वयम्) धार्मिकाः (वज्रम्) विद्युद्गिनशस्त्रास्त्रसमूहम् (घना) दृढानि युद्धसाधनानि लौहसुद्वारस्त्रादीनि (आ ददीमहि) गृह्णीयाम (जयेम)

महि) ग्रहणं करें और (युधि) युद्ध में (स्पृधः) ललकारते हुये शत्रुओं को (सम्) ठीक ठीक (जयेम) जीते ॥ १६ ॥

भावार्थ—मनुष्य परमात्मा की शरण में रहकर वीर सेना और पुष्कल युद्ध सामग्री लेकर शत्रुओं को हरावे ॥ १६ ॥

वयं शूरेभिरस्तृभिरिन्द्र त्वया युजा वयम् । ससुह्याम
पृतन्युतः ॥ २० ॥

वयम् । शूरेभिः । अस्तृ-भिः । इन्द्र । त्वया । युजा । वयम् ॥
ससुह्याम । पृतन्युतः ॥ २० ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर] (वयम्) हम, (वयम्) हम (युजा त्वया) तुम्ह सहायक के साथ (अस्तृभिः) हथियार चलाने वाले (शूरेभिः) शूरों के द्वारा (पृतन्युतः) सेना बढ़ाने वाले वैरियों को (ससुह्याम) हरा दें ॥ २० ॥

भावार्थ—मनुष्य परमेश्वर में दृढ़ विश्वास करके धर्मयुद्ध में युद्ध कुशल शूरों द्वारा वैरियों को जीत कर प्रजा पालन करें ॥

सूक्तम् ७१ ॥

१—१९ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १-४, ७, ६, ११—१३, १६ निचृद् गायत्री;
२, ३, ५, ८, १०. १४, १५ गायत्री, ६ वर्धमाना गायत्री ॥

मनुष्यकर्तव्योपदेशः—मनुष्य के कर्तव्य का उपदेशा ॥

अभिभवेम (सम्) सम्यक् (युधि) युद्धे (स्पृधः) स्पर्ध संघर्षे—किप् ।
बहुल छन्दसि । पा० ६ । १ । ३४ । रेफस्य सम्प्रसारणमल्लोपश्च । स्पर्धमा-
नान् । युद्धाय शब्दमानान् शत्रून् ॥

२०—(वयम्) सेनापतयः (शूरेभिः) शूरैः । वीरैः (अस्तृभिः) शस्त्रा-
स्त्रप्रक्षेपणदत्तैः (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् जगदीश्वर (त्वया) (युजा) सामार्थ्य-
संयोजकेन । सहायकेन (वयम्) वीरपलाया द्विवचनम् (ससुह्याम) षड्
मर्षणे यङ्लुकि लिङि रूपम् । पुनः पुनः सहेमहि जयेम (पृतन्युतः) अ० १ । २१
२ । आत्मनः फृतनां सेनामिच्छुतः शत्रून् ॥

सुहाँ इन्द्रः परश्च नु महित्वमस्तु वृजिणे । द्यौर्न प्रथिना
शवः ॥ १ ॥

सुहान् । इन्द्रः । परः । च । नु । महि-त्वम् । अस्तु ।
वृजिणे ॥ द्यौः । न । प्रथिना । शवः ॥ १ ॥

भाष्यार्थ—(सुहान्) सुहान् (च) और (परः) श्रेष्ठ (इन्द्रः) इन्द्र
[बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर] (प्रथिना) फैलाव से (द्यौः न) सूर्य के प्रकाश
के समान है, (नु) इस लिये (वृजिणे) उस महापराक्रमी [परमेश्वर] के
लिये (महित्वम्) महत्त्व और (शवः) बल (अस्तु) हावे ॥ १ ॥

भाष्यार्थ—मनुष्य सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को धन्यवाद देते हुये विद्याओं
द्वारा अपना ऐश्वर्य और बल बढ़ावे ॥ १ ॥

मन्त्र १—६ ऋग्वेद में हैं—२।८।५—१० और म० १—साम०—१०
२।८।२ ॥

सुमोहे वा य आशतु नरस्तुलोकस्य सन्तौ । विप्रसि वा
धियायवः ॥ २ ॥

सुम्-ओहे । वा । ये । आशत । नरः । तुलोकस्य । सन्तौ ॥
विप्रसिः । वा । धिया-यवः ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—(ये) ओ (नरः) नर [नेता लोग] (सुमोहे) सङ्ग्राम-

१—(सुहान्) शुभगुणैः पूजनीयः (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् जगदीश्वरः
(परः) उत्कृष्टः (च) (नु) अस्मान् कारणात् (महित्वम्) सर्वशत्रुभ्य
इन्द्र ३० ४ । १८ । मह पूजायाम्—इन्द्र, भावे त्वप्रत्ययः । महत्वम् (अस्तु)
(वृजिणे) तस्मै महापराक्रमिणे परमेश्वराय (द्यौः) सूर्यप्रकाशः (न)
यथा (प्रथिना) पृथु—इमानि च, मकारलोपः । प्रथिना । विस्तीरिण (शवः)
बलम् ॥

२—(सुमोहे) सम् + उहिर शब्दे—शुभ सुग्रामे—निघ० २ । १७
(वा) चार्थे (ये) (आशत) अश व्याप्ति—बुद्ध, कर्त्तव्यः, आशयः ।

में (वा) और (तोकस्य) सन्तान के (सनिनौ) सेवन [पोषण, अध्यापन आदि] में (आशत) लगे हैं, वे (विप्रासः) विद्वान् (वा) और (धियायवः) बुद्धि की कामना वाले हैं ॥ २ ॥

भावायर्थ—मनुष्य साङ्गामिक नीति से प्रजा की रक्षा और सामान्य प्रबन्ध से विद्या की वृद्धि करें ॥ २ ॥

यः कुक्षिः सोमपातमः समुद्र इव पिन्वते । उर्वीरापो न काकुदः ॥ ३ ॥

यः । कुक्षिः । सोम-पातमः । समुद्रः-इव । पिन्वते ॥ उर्वीः । आपः । न । काकुदः ॥ ३ ॥

एवा ह्यस्य सुनृता विरुण्शी गोमती मही । पुक्षा शाखा न दाशुषे ॥ ४ ॥

एव । हि । अस्य । सुनृता । वि-रुण्शी । गो-मती । मही ॥ पुक्षा । शाखा । न । दाशुषे ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(यः) जो (कुक्षिः) तत्त्व रस निकालने वाला, (सोमपातमः) पेशवर्य का अत्यन्त रक्षक मनुष्य (समुद्रः इव) समुद्र के समान (उर्वीः) भूमियों को और (काकुदः न) वेद वाणी जानने वाले के समान

व्यासा अभवन् (नरः) नेतारः (तोकस्य) अ० १।१३।२। तु वृद्धौ पूर्तौ च—कप्रत्ययः । सन्तानस्य—निघ० २। २ (सनिनौ) षण् सम्भक्तौ—क्तिन् । तितुत्रेश्वप्रददीनामिति वक्तव्यम् । वा० पा० ७।२।६। इडागमः । सेवने । पोषणाध्यापनादौ (विप्रासः) विप्राः । मेधाविनः (वा) चार्थ (धियायवः) धि धारणे—कप्रत्ययः, टाप् । धीयते धार्यते सा धिया प्रज्ञा, ततः ष्यच्, उपत्ययः । बुद्धिकामाः ॥

३—(यः) पुरुषः (कुक्षिः) सुषिकुषि शुषिभ्यः क्सिः । उ० ३। १५५ । कुष निष्कर्षे—क्सि । नस्वनिष्कर्षकः (सोमपातमः) अतिशयेनैश्वर्यरक्षकः (समुद्रः) उदधिः (इव) यथा (पिन्वते) सिञ्चति (उर्वीः) पृथिवीः (आपः)

(आपः) शुभ कर्म को (पिन्वते) सींचता है ॥ ३ ॥ (अस्य) उस [मनुष्य] की (सूनृता) अन्न वाली क्रिया (एव) निश्चय कर के (हि) ही (चिरप्शी) स्पष्ट वाणी वाली, (गोमती) श्रेष्ठ दृष्टि वाली, (मही) सत्कार योग्य, (पक्का) परिपक्व [फल फूल वाली] (शाखा न) शाखा के समान (दाशुषे) आत्मदानी पुरुष के लिये [होवे ॥ ४ ॥

भावार्थ—विज्ञानी, ऐश्वर्यवान् दूरदर्शी सत्यवादी पुरुष ही प्रजा रक्षक होता है ॥ ३, ४ ॥

म० ४—६ आ जुके हैं अ० २० । ६० । ४—६

एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र मावते । सद्यश्चित् सन्ति दाशुषे ॥ ५ ॥

एव । हि । ते । वि-भूतयः । ऊतयः । इन्द्र । मा-वते ॥
सद्यः । चित् । सन्ति । दाशुषे ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (एव) निश्चय कर के (हि) ही (ते) तेरे (विभूतयः) अनेक ऐश्वर्य (मावते) मेरे तुल्य (दाशुषे) आत्मदानी के लिये (सद्यः चित्) तुरन्त ही (ऊतयः) रक्षा साधन (सन्ति) होते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ—राजा अपना ऐश्वर्य श्रेष्ठ उपकारी पुरुषों की रक्षा में लगाता रहे ॥ ५ ॥

एवा ह्यस्य काम्या स्तोम उक्थं च संस्था । इन्द्राय सोमपीतये ॥ ६ ॥

आपः कर्माख्याया ह्रस्वो लुट् च वा । उ० ४ । २०८ । आप्रं तो—असुन् । शुभ-कर्म (न) यथा (काकुदः) सम्पदादिभ्यः क्विप् । वा० पा० ३ । ३ । ६४ । कै शब्दे—क्विप् + कु शब्दे—क्विप्, तुगागमः, तकारस्य दः । कां शब्दनं कौत्ति बदति सा काकुत् । काकुत् इति वाङ्नाम—निघ० १ । ११ तदधीते तद् वेद । पा० ४ । २ । ५४ । काकुद्—अण् । वेदवाणीवेत्ता ॥

४—६ । एते मन्त्रा व्याख्याताः—अ० २० । ६० । ४—६ ॥

एव । हि । अस्य । काम्या । स्तोमः । उक्थम् । च । शंस्या ॥
इन्द्राय । सोम-पीतये ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(एव) निश्चय करके (हि) ही (अस्य) उस [सभापति] के (काम्या) मनोहर और (शंस्या) प्रशनीय (स्तोमः) उत्तम गुण (च) और (उक्थम्) कहने योग्य कर्म (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान् पुरुष के लिये (सोम-पीतये) सोम रस पीने के निमित्त [हैं] ॥ ६ ॥

भावार्थ—उत्तम गुणी पुरुष को सभापति बनाकर सब मनुष्य ऐश्वर्य वाले और तत्त्वज्ञान वाले हों ॥ ६ ॥

इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः । मुहाँ अभिष्टि-
रोजसा ॥ ७ ॥

इन्द्र । आ । इहि । मत्सि । अन्धसः । विश्वेभिः ।
सोमपर्व-भिः ॥ मुहान् । अभिष्टिः । ओजसा ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [परमऐश्वर्य वाले परमात्मन्] (आ इहि) तू प्राप्त हो, और (विश्वेभिः) सब (सोमपर्वभिः) ऐश्वर्य के उत्सवों के साथ (अन्धसः) अज्ञ से (मत्सि) तृप्त कर, तू (ओजसा) बल से (मुहान्) महान् और (अभिष्टिः) सब प्रकार पूजनीय है ॥ ७ ॥

भावार्थ—मनुष्य परमात्मा का सहाय लेकर आपस में मिलकर विद्या द्वारा ऐश्वर्य बढ़ाने और अज्ञ आदि पदार्थ प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करें ॥ ७ ॥

मन्त्र ७—१६ ऋग्वेद में है—१।६।१—१०, मन्त्र ७ यजुर्वेद ३३।२५ और सामवेद—पू० २।६।६ ॥

७—(इन्द्र) परमैश्वर्यवान् परमात्मन् (आ) समन्तात् (इहि) प्राप्नुहि (मत्सि) श्यतो लुक् । मादयस्व । हर्षाय (अन्धसः) अज्ञात् (विश्वेभिः) सर्वैः (सोमपर्वभिः) अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते । पा० ३ । २ । ७५ । सोम + पृपात्तनपूरणयोः—वनिप् । सोमस्य ऐश्वर्यस्य पर्वमिच्छत्सवैः (मुहान्) उत्कृष्टः (अभिष्टिः) यजेः—क्तिन्, यद्वा इष गतौ—क्तिन् । एमन्नादिषु छन्दसि पररूपं वक्तव्यम् । पा० पा० ६ । १ । ६४ । इति पररूपम् । सर्वतः पूजनीयः (ओजसा) बलन ॥

एमेनं सृजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने । चक्रिं विश्वानि
चक्रये ॥ ८ ॥

आ । ईम् । एनम् । सृजत । सुते । मन्दिम् । इन्द्राय ।
मन्दिने ॥ चक्रिम् । विश्वानि । चक्रये ॥ ८ ॥

भाषार्थ—[हं विद्वानां ।] (सुते) उत्पन्न जगत् में (मन्दिम्) आनन्द
बढ़ाने वाले, (चक्रिम्) कार्य निद्व करने वाले (एनम्) इस (ईम्) प्राप्ति
योग्य बोध को (मन्दिने) गतिशील, (विश्वानि) सब कर्मों के (चक्रये)
कर चुकने वाले (इन्द्राय) इन्द्र [परम पेशवधं, वाले मनुष्य के लिये (आ)
सब प्रकार (सृजत) उत्पन्न करो ॥ ८ ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग शिल्प विद्या से लेकर मोक्ष पर्यन्त ज्ञान का
उपदेश करके सब मनुष्यों को कर्मवीर बनावें ॥ ८ ॥

मत्स्वो सुशिप्र मन्दिभिः स्तोमैभिर्विश्वचर्षणे । सवैषु
सर्वनेषुवा ॥ ९ ॥

मत्स्व । सु-शिप्र । मन्दि-भिः । स्तोमैभिः । विश्व-चर्षणे ॥
सवा । सुषु । सर्वनेषु । आ ॥ ९ ॥ -

भाषार्थ—(सुशिप्र) हे बड़े ज्ञानी । (विश्वचर्षणे) हे सब गतिशील

८—(आ) समन्तात् (ईम्) प्राप्तव्यं बोधम् (एनम्) प्रसिद्धम् (सृजत)
उत्पादयत । सम्पादयत (सुते) उत्पन्ने जगति (मन्दिम्) खनिकस्यज्यसि वसि०—
उ० ४ । १४० । मदि स्तुनिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु—इत्ययः । आनन्दयि-
तारम् (इन्द्राय) परमैश्वर्यवतं मनुष्याय (मन्दिने) अ० २० । १७ । ४ । मोद-
यिन्ने (चक्रिम्) आह्वगमहनजनः किकिनौ लिट् च । पा० ३ । २ । १७१ । कुकुम्
करये—किन्प्रत्ययः । कार्यकर्तारम् (विश्वानि) सर्वाणि कर्माणि अस्य चक्रये
इति कृदन्तेन योगेऽपि । नलोकाव्ययनिष्ठाखलर्थवृत्ताम् । पा० २ । ३ । ६६ ।
किकिनौ लिट् खेनि किकिनोर्लिङ्गद्भावेन षष्ठीनिषेधे द्वितीया (चक्रये)
करोतेः किन् पूर्ववत् । कृतवत् ॥

९—(मत्स्व) हर्षय (सुशिप्र) अ० २० । ४ । १ । सृष्ट गतौ-रक

मनुष्यों के स्वामी ! [वा सब के देखने वाले परमेश्वर] (मन्दिभिः) हर्ष देने वाले (स्तोमेभिः) स्तुति योग्य व्यवहारों के साथ (सचा) सदा मेल से (पशु) इन (सवनेषु) ऐश्वर्य वाले पदार्थों में (आ) अच्छे प्रकार (मत्स्व) आनन्दित कर ॥ ६ ॥

भावार्थ—सर्वज्ञ सर्वदर्शक परमेश्वर के गुणों को धारण करके मनुष्य दूरदर्शी और पुरुषार्थी होकर सब को सुखी करें ॥ ६ ॥

असृग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुदहासत । अजोषा वृषभं पतिम् ॥ १० ॥

असृग्रम् । इन्द्र । ते । गिरः । प्रति । त्वाम् । उत् । अहासत ॥ अजोषाः । वृषभम् । पतिम् ॥ १० ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन्] (ते) तेरी (अजोषाः) अत्यन्त प्रीति करने वाली [जिन से अधिक हितकारी दूसरा नहीं वे] (गिरः) वेदवाणियां (असृग्रम्) गति देने वाले, (वृषभम्) सुखों के धरसाने वाले [वा बलवान्] (पति त्वाम्) तुझ स्वामी को (प्रति) प्रत्यक्ष करके (उत् अहासत) ऊंची गयी हैं ॥ १० ॥

सृशब्दस्य शिभावः । सृपः सर्पणादिदमपीतरत् सृपमेतस्मादेव सर्पिर्वा तैलं वा सुशिप्रमेतेन व्याख्यातम्—निरु० ६ । १७ ॥ हे बहुज्ञानयुक्त [मन्दिभिः] म० ८ । हर्षयितृभिः (स्तोमेभिः) स्तुत्यव्यवहारैः (विश्वचर्षणे) चर्षणयो मनुष्यनाम—निरु० २ । ३ । सर्वे चरणशीला मनुष्या यस्य तत्सम्बुद्धौ । हे सर्व-मनुष्यस्वामिन् । हे सर्वदर्शक—निरु० ३ । ११ (सचा) समवायेन (पशु) प्रत्यक्षेषु (सवनेषु) ऐश्वर्ययुक्तेषु पदार्थेषु (आ) समन्तात् ॥

१०—(असृग्रम्) अस गतिदीप्त्यादानेषु—ऋजिप्रत्ययः + रा दाने—क । गतिदातारम् (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् परमात्मन् (ते) तव (गिरः) वेद-वाण्यः (प्रति) प्रत्यक्षेण (त्वाम्) परमेश्वरम् (उत्) उत्कर्षेण (अहासत) ओहाड् गतौ—लुङ् । प्राप्नुवन् (अजोषाः) जुषी प्रीतिसेवनयोः—घञ्, टाप्-नास्ति अधिकप्रीतिकरा यस्याः सकाशात् सा अजोषा, यथा अनुत्तमः, अनुदारः, अमूलः इत्यादिपदानि । अत्यन्तहितकारिण्यः (वृषभम्) सुखवर्षकम् (पतिम्) स्वामिनम् ॥

भावार्थ—परमात्मा के प्रकाशिन अनन्त हितकारी वेदों को विचार कर विद्वान् लोग उस को अद्वितीय अगन्त सामर्थ्य वाला जानकर सदा पुरुषार्थ, करें ॥ १० ॥

सं चोदय चित्रमुर्वाग् राधं इन्द्र वरेण्यम् । असृदित् ते विभु
प्रभु ॥ ११ ॥

सम् । चोदय । चित्रम् । अर्वाक् । राधः । इन्द्र । वरेण्यम् ॥
असृत् । इत् । ते । वि-भु । प्र-भु ॥ ११ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [परम पेश्वर्य वाले जगदीश्वर]
(चित्रम्) अद्भुत, (वरेण्यम्) अतिश्रेष्ठ (राधः) सिद्धि करने वाले धन का
(अर्वाक्) सम्मुख (सम्) ठीक ठीक (चोदय) भेज, (ते) तेरा (इत्)
ही (विभु) व्यापक और (प्रभु) प्रबल सामर्थ्य (असृत्) है ॥ ११ ॥

भावार्थ—मनुष्य पुरुषार्थ करके परमात्मा के अनन्त भण्डार से
विचित्र पदार्थों को प्राप्त करके इष्ट सिद्धि करें ॥ ११ ॥

अस्मान्तु तत्र चोदयेन्द्र राधे रभस्वतः । तुविद्युम्न यश-
स्वतः ॥ १२ ॥

अस्मान् । तु । तत्र । चोदय । इन्द्र । राधे । रभस्वतः ॥
तुवि-द्युम्न । यशस्वतः ॥ १२ ॥

भाषार्थ—(तुविद्युम्न) हे अत्यन्त धन वाले (इन्द्र) इन्द्र ! [परम

११—(सम्) सम्यक् (चोदय) प्रेरय । प्रापय (चित्रम्) अद्भुतम्
(अर्वाक्) अभिमुखम् (राधः) सिद्धिकरं धनम् (इन्द्र) परमैश्वर्यवान्
जगदीश्वर (वरेण्यम्) वृज् पण्यः । उ० ३ । ६८ । वृज् वरणे-पण्य । अति-
श्रेष्ठम् (असृत्) लब्धये लेट् । अस्ति (इत्) एव (ते) तव (विभु) व्याप-
कम् (प्रभु) प्रबलं सामर्थ्यम् ॥

१२—(अस्मान्) धार्मिकान् (तु) सुष्ठु (तत्र) प्रसिद्धे श्रेष्ठकर्मणि

ऐश्वर्य वाले परमात्मन् (राये) धन के लिये (रभस्वतः) उपाय सोच कर आरम्भ करने वाले, (यशस्वतः) यश रखने वाले (अस्मान्) हम को (तत्र) वहाँ [श्रेष्ठ कर्म में] (सु) अच्छे प्रकार (चोदय) पहुँचा ॥ १२ ॥

भावार्थ—मनुष्य परमात्मा में विश्वास करके पहिले से विचार कर कार्य सिद्ध करें और कीर्तमान होवे ॥ १२ ॥

सं गोम^१दिन्द्र^२ वाज^३वदुस्मे^४ पृथु^५ श्रवो^६ बृहत् । विश्वायु^७र्धे-
हक्षितम् ॥ १३ ॥

सम् । गो-म^१त् । इन्द्र^२ । वाज-वत् । अस्मे इति । पृथु ।
श्रवः । बृहत् ॥ विश्व-आयुः । धेहि । अक्षितम् ॥ १३ ॥

भावार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर] (अस्मे) हम को (गोमत्) बहुत भूमि वाला, (वाजवत्) बहुत अन्न वाला, (पृथु) फैला हुआ, (बृहत्) बढ़ता हुआ, (विश्वायुः) पूरे जीवन तक रहने वाला, (अक्षितम्) अक्षय [न घटने वाला] (श्रवः) सुनने योग्य यश वा धन (सम्) अच्छे प्रकार (धेहि) दे ॥ १३ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि परमात्मा की भक्ति के साथ ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्त करें और बहुत यश और धन पाकर चक्रवर्ती राजा होकर संसार को सुख दे और आप सुखी होवे ॥ १३ ॥

अस्मे धेहि श्रवो बृहद् व्यम्नं सहस्रसार्तमम् । इन्द्र ता
रुयिनीरिषः ॥ १४ ॥

(चोदय) प्रेरय (इन्द्र) परमेश्वर्यवान् परमात्मन् (राये) वनाय (रभस्वतः) रभ राभस्ये=कार्योपक्रमे—असुन्, मतुप् । उपायज्ञानपूर्वकारम्भयुक्तान् (तुविद्युम्न) बहुधनिन् (यशस्वतः) कीर्तिमतः ॥

१३—(सम्) सम्यक् (गोमत्) बहुभूमियुक्तम् (इन्द्र) परमेश्वर (वाजवत्) बहन्नवत् (अस्मे) अस्मभ्यम् (पृथु) विस्तृतम् (श्रवः) श्रवणीयं यशो धनं वा (बृहत्) वर्धमानम् (विश्वायुः) सर्वजीवनपर्याप्तम् (धेहि) देहि (अक्षितम्) अक्षीणम् । हानिरहितम् ॥

अस्मे इति । धेहि । अश्वः । बृहत् । द्युम्नम् ।

सहस्र-सातमम् ॥ इन्द्र । ताः । रुथिनीः । इषः ॥ १४ ॥

भाषार्थ—(इन्द्रः) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर] (अस्मे) हम को (बृहत्) बढ़ना हुआ (अश्वः) सुनने योग्य धन और (सहस्रसातमम्) सहस्रों सुखों का देने वाला (द्युम्नम्) चमकता हुआ यश और (ताः) वे [प्रसिद्ध] (रुथिनीः) रथों [यान विमान आदि] वाली (इषः) चलती हुयी सेनाये (धेहि) हे ॥ १४ ॥

भावार्थ—मनुष्य परमात्मा की प्रार्थना पूर्वक बहुत धन, कीर्ति और सेना के संग्रह से शत्रुओं का नाश करके सुख को प्राप्त होवे ॥ १४ ॥

वसुरिन्द्रं वसुपतिं गीर्भिर्गुणान्तं ऋग्मियम् । होमं गन्तार-
रमतये ॥ १५ ॥

वसोः । इन्द्रम् । वसु-पतिम् । गीः-भिः । गुणान्तः ।

ऋग्मियम् ॥ होमं । गन्तारम् । ऊतये ॥ १५ ॥

भाषार्थ—(गीर्भिः) वेद वाणियों से (गुणान्तः) स्तुति करते हुये हम (वसुपतिम्) वसुओं [अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य वा सूर्य-लोक, द्यौ वा आकाश, चन्द्रलोक और तारागणों] के स्वामी, (ऋग्मियम्)

१४—(अस्मे) अस्मभ्यम् (धेहि) देहि (अश्वः) श्रवणीयं धनम् (बृहत्) वर्धमानम् (द्युम्नम्) अ० ६ । ३५ । ३ । द्योतमानं यशः (सहस्र-सातमम्) जनसनजनक्रमगमो विद् । पा० ३ । २ । ६७ । पणु दाने-विद् । विद्वनोरनुनासिकस्यात् । पा० ६ । ४ । ४१ । नकारस्य आकारः, ततस्तमप् । अतिशयेन सहस्रसुखप्रदम् (इन्द्र) परमैश्वर्यवन् जगदीश्वर (ताः) प्रसिद्धाः (रुथिनीः) बहुयानविमानादियुक्ताः (इषः) इषू गतौ—क्विप् । गतिशीलाः सेनाः ॥

१५—(वसोः) श्रेष्ठगुणस्य (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं परमेश्वरम् (वसुपतिम्) अष्टवसूनामग्निपृथिव्यादीनां स्वामिनम् । अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्चद्यौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसवः—दयानन्द भाष्ये, ऋक्० १ । ६ । ६ (गीर्भिः) वेदवाणीभिः (गुणान्तः) स्तुवन्तः (ऋग्-

सुनि योग्य, (गन्तारम्) ज्ञान वाले (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले पर-
मेश्वर] को (वसोः) श्रेष्ठ गुण की (जनये) रक्षा के लिये (होम)
बुलाते हैं ॥ १५ ॥

भाषार्थ—मनुष्य सब पेश्वर्य के दाता और न्यायकारी परमात्मा की
प्रार्थना और उत्तम गुणों की धारणा से राज्य सत्तमी को प्राप्त होकर उन्नति
करे ॥ १५ ॥

सुतेसुते-न्योक्तसे बृहद् बृहत् इन्द्रिः । इन्द्राय शुभमर्चति ॥१६॥

सुते-सुते । नि-न्योक्तसे । बृहत् । बृहते । आ । इत् । इन्द्रिः ॥
इन्द्राय । शुभम् । अर्चति ॥ १६ ॥

भाषार्थ—(अरिः) शत्रु (इत्) भी (सुतेसुते) उत्पन्न हुये उत्पन्न
हुये पदार्थ में (न्योक्तसे) निश्चिन स्थान वाले, (बृहते) महान् (इन्द्राय)
इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले परमात्मा] के (बृहत्) बड़े हुये (शुभम्) बल को
(आ) सब प्रकार (अर्चति) पूजना है ॥ १६ ॥

मियम्) अर्चिस्तुसु० । उ० १ । १४० । अच स्तुती-मक्, कुर्वे जश्त्वे च,
अग्ने- स्तुतिः, तदर्थेति अग्निमयः । पात्राद्द्वंश्च । पा० ५ । १ । ६८ । अर्चये-अन्,
यद्वा बाहुलकात् घञ् । अग्निमयमृगमन्तमिति धार्चनीयमिति वा पूजनीयमिति
वा-निर० ७ । २६ । स्तुतियोग्यम् (होम) इज् स्पर्धाणां शब्दे च-सङ् ।
बहुल छन्दसि । पा० २ । ४ । ७३ । शपो लुक् । छन्दस्युभयथा । ३ । ४ । ११७ ।
उभयसंज्ञात्वे गुणसम्प्रसारणे, सकारलोपश्चान्वसः । आह्वयामः (गन्तारम्)
गच्छतेः—त् । आतारम् (जनये) इच्छायै ॥

१६—(सुतेसुते-) उत्पन्न उत्पन्ने पदार्थे (न्योक्तसे) अज्ञेयमित्युजि-
भृजिभ्यः कुश्च । उ० ४ । २१६ । उच समवाये—असुन्, न्यङ्कादित्वात्
कुत्वम् । ओरु इति निवासनामोच्यते—निर० ३ । ३ । षष्ठ्यर्थे चतुर्थी इक-
व्या- वा० पा० २ । ३ । ६२ निश्चितनिवासयुक्तस्य (बृहत्) वर्धमानम्
(बृहते) महतः (आ) सम्न्तात् (इत्) एव- (अरिः) शत्रुः (इन्द्राय)
परमेश्वर्यवतः परमेश्वरस्य (शुभम्) पीयेक्यन् । उ० ४ । ७६ । शुभ शोषणे-
रूपन् इति । शत्रुशोषकं बलम् निघ० २ । ६० (अर्चति) पूजयति ॥

भावार्थ—संसार में विचित्र पदार्थों की रचना और गुण, देवकर वेद विरोधी नास्तिक भी परमात्मा के सामर्थ्य को मानकर उस की शरण लेता है ॥ १६ ॥

इति षष्ठोऽनुवाकः ॥

अथ सप्तमोऽनुवाकः ॥

सूक्तम् ७२ ॥

१—३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निचृदस्यष्टिः ; २, ३ भुरिगष्टिः इन्द्रः ॥

परमेश्वरोपासनापदेशः—परमेश्वर की उपासना का उपदेश ॥

विश्वेषु हि त्वा सवनेषु तुज्जते समानमेकं वृषमन्यवः
पृथक् स्वः सनिष्यवः पृथक् । तं त्वा नाव न पर्षणि शुव-
स्य धुरि धीमहि । इन्द्रं न युञ्जैश्चितयन्त आयव स्तोमेभि-
रिन्द्रमायवः ॥ १ ॥

विश्वेषु । हि । त्वा । सवनेषु । तुज्जते । समानम् । एकम् ।
वृष-मन्यवः । पृथक् । स्वः । रिति स्वः । सनिष्यवः । पृथक् ॥
तम् । त्वा । नावम् । न । पर्षणिम् । शुवस्य । धुरि ।
धीमहि ॥ इन्द्रम् । न । युञ्जैः । चितयन्तः । आयवः ।
स्तोमेभिः । इन्द्रम् । आयवः ॥ १ ॥

भावार्थ—[हे परमेश्वर ।] (विश्वेषु) सब (हि) ही (सवनेषु)
ऐश्वर्य युक्त पदार्थों में (समानम्) एक रस व्यापक, (एकम्) एक, (स्वः)
सुखस्वरूप (त्वा) तुझको (वृषमन्यवः) बलवान् के समान तेज वाले, और

१—(विश्वेषु) सर्वेषु (हि) निश्चयेन (त्वा) त्वाम् (सवनेषु) ऐश्वर्य-
युक्तेषु पदार्थेषु (तुज्जते) तुंजि हिंसाबलादाननिकेतनेषु—लट् । शुद्धमिति
(समानम्) एकरसव्यापिकम् (एकम्) अद्वितीयम् (वृषमन्यवः) बलि-
शाली ॥ ७० ३ । २० । मन जाने हीतौ च—युष् । मन्युर्मन्यतेर्हीति कर्मणः

(अग्निःपवः) देने योग्य धन का चाहने वाले पुरुष (पृथक् पृथक्) अलग अलग (तुजते) प्रहण करते हैं। (नावम् न) नाव के सामान (पर्षणम्) पार जगाने वाले (तम्) उस (त्वा) तुम्ह (-इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले परमात्मा], (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले परमात्मा] को (श्रुपस्य) बल की (धुरि) धुरी [धारण शक्ति] में (यज्ञैः) यज्ञों [भेद्य व्यवहारों] से और (स्तोमेभिः) प्रशंसनीय गुणों से (चित्तयन्तः) चिन्तन करते हुये (आयवः) पुत्रपार्थी (आयवः न) मनुष्यों के समान (धीमहि) हम धारण करे ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्य विद्वान् पुरुषार्थी लोगों के समान आनन्द स्वरूप सर्वशक्तिमान् परमेश्वर का सदा स्मरण करके अपना बल बढ़ाने के लिये प्रयत्न करें ॥ १ ॥

यद् वृष ऋग्वेद में है—१। १३१। २, ३, ६ ॥

वि त्वा ततस्त्रे मियुना अश्वस्यवो ब्रुजस्य सुता गव्यस्य निः-
 वृजः सक्षन्त इन्द्र निःसृजः । यद् गव्यन्ता ह्वा जना स्व-
 र्यन्ता सुसूहसि । आविष्करिद् वृषणं सचाभुवं वज्रमि-

क्रोत्रकर्मणो वधकर्मणो वा—निरु० १०। २६। वृषस्य बलवतः पुरुषस्य तेज इव तेजो येषां ते (पृथक्) निम्नप्रकारेण (स्वः) सुखस्वरूपम् (सनिर्भ्यवः) सर्वधातुभ्य इन् । उ० ४। ११८। वयु दाने—इन् । सुप आत्मनः—इयच् । पा० ३। १। ८। सनि—इयच् । सर्वप्रतिपदिकानां क्यचि लालसायां सुगसुकी । वा० पा० ७। १। सुगागमः । क्याच्छन्दसि । पा० ३। २। १७०। उपत्ययः । दातव्य-धनमिच्छवः (पृथक्) (तम्) तादृशम् (त्वा) त्वाम् (नावम्) नौकाम् (न) इव (पर्षणम्) अर्त्तिखधु० । उ० २। १०२। पृ पाजनपूरणयोः—अनिप्रत्ययः सुगागमः । पारयितारम् (श्रुपस्य) बलस्य (धुरि) धृज् धारणे—किप् । बहुलं छन्दसि । पा० ७। १। १०३। इति उरादेशः । यानमुक्ते । धारणशक्तौ (धीमहि) वधातेः—किक् । धरेम (इन्द्रम्) परमेश्वरम् (न) इव (यज्ञैः) भेद्यव्यवहारैः (चित्तयन्तः) चिती संज्ञाने—णिच्, शत् । गुणाभावः । चेतयन्तः ।—स्मरन्तः (आयवः) छन्दसीणः । । उ० १। २। इण् गतौ—उण । गतिमन्तः पुरुषार्थिनः (स्तोमेभिः) प्रशंसनीयगुणैः (इन्द्रम्) परमेश्वरम् (आयवः) मनुष्याः—
 निघ० २। ३॥

न्द्र सचाभुवम् ॥ २ ॥

वि । त्वा । तत्तस्ते । मिथुनाः । अवस्यवः । व्रजस्य । साता ।
गव्यस्य । निः-सृजः । सक्षन्तः । इन्द्र । निः-सृजः ॥ यत् ।
गव्यन्ता । द्वा । जना । स्वः । यन्ता । सुम्-ऊहसि ॥
आविः । करिक्रत् । वृषणम् । सचा-भुवम् । वज्रम् । इन्द्र ।
सचा-भुवम् ॥ २ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र ।) हे इन्द्र [षडे ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर] (व्रजस्य)
मार्ग के (साता) पाने में (अवस्यवः) रक्षा चाहने वाले (सक्षन्तः) गतिशील,
(गव्यस्य) भूमि के लिये हित के (निःसृजः) नित्य उत्पन्न करने वाले और
(निःसृजः) निरन्तर देने वाले (मिथुनाः) स्त्री पुरुषों के समूहों ने (त्वा)
तुम्हें [तेरे गुणों को] (वि) विविध प्रकार (तत्तस्ते) फैलाया है (यत्)
क्योंकि, (इन्द्र) हे इन्द्र ! [परमात्मन्] (वृषणम्) बलवान्, (सचाभुवम्)
नित्य मेल से रहने वाले, (सचाभुवम्) लेखन [वृद्धि] के साथ वर्तमान्
(वज्रम्) वज्र [इष्टगुण] को (आविः करिक्रत्) प्रकट करता हुआ
(गव्यन्ता) द्वाणी [विद्या] को चाहने वाले, (स्वः) सुख को (यन्ता) प्राप्त

२—(वि) विविधम् (त्वा) त्वाम् । तव गुणम् (तत्तस्ते) तस्य उपसर्गे
उभोपे च—लिट् । इत्थो रे । पा० ६ । ४ । ७६ । इति रेभावः । उत्क्षिप्तवन्तः ।
विस्तारितवन्तः (मिथुनाः) स्त्रीपुरुषसमूहाः (अवस्यवः) अ० २० । १५ ।
१ । रक्षाकामाः (व्रजस्य) व्रज गतौ + घञर्थे क । मार्गस्य (साता) विभक्त-
डो । सातो । लाभे (गव्यस्य) गव्ये पृथिव्यै हितस्य (निःसृजः) सृज विसर्गे-
किप् । नितरां स्रष्टारो निष्पादवितारः (सक्षन्तः) सक्षतिर्गतिकर्मा—निघ०
१० । १४ । नैरको धातुः—शत् । गच्छन्तः (इन्द्र) परमात्मन् (निःसृजः)
निरन्तरदातारः (यत्) यतः (गव्यन्ता) गो—क्यच्, शत् । गां द्वाणीं
विद्यामिच्छन्ती (द्वा) द्वौ (जना) जनौ । स्त्रीपुरुषौ (स्वः) सुखम् (यन्ता)
यन्तौ । प्राणुवन्तौ (सुम्-ऊहसि) ऊरु वितर्क । सङ्गक् चेतयसि (आविः)
प्राकटये (करिक्रत्) करोतेर्यङ्लुकि शत् । भृशं कुर्वन् (वृषणम्) बलवन्तम्
(सचाभुवम्) एव समवाये लेखने च—किप् + भू सप्तायाम्—किप् । समवा-

होने वाले (द्वा) दोनों (जना) जनों [स्त्री पुरुषों] को (समूहसि) यथावत् चेतता है ॥ २ ॥

भाषार्थ—जो स्त्री पुरुष सबके सुख के लिये राज्य आदि प्राप्त करके शिष्ट सुखदायक, दुष्ट विनाशक परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनको यह जगद्दीश्वर उन्नति के लिये सदा उत्साह देता है ॥ १ ॥

यह मन्त्र आगे है—अथ० २० । ७५ । १॥

उतो नो अस्या उषसो जुषेत ह्यर्कस्य बोधि हविषो हवीमभिः स्वर्षाता हवीमभिः । यदिन्द्र हन्तवे मृधो वृषा वज्रि चिकेतसि । आ मे अस्य वेधसो नवीयसो मन्म शुधि नवीयसः ॥ ३ ॥

उतो इति । नः । अस्याः । उषसः । जुषेत । हि । अर्कस्य । बोधि । हविषः । हवीमभिः । स्वर्षाता । हवीमभिः ॥ यत् । इन्द्र । हन्तवे । मृधः । वृषा । वज्रि । चिकेतसि ॥ आ । मे । अस्य । वेधसः । नवीयसः । मन्म । शुधि । नवीयसः ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(नः) हमारे बीच में (उतो) निश्चय करके ही यह [जिज्ञासु पुरुष] (अस्याः) इस (उषसः) उषा [प्रभात वेला] का (जुषेत) सेवन करे और (हवीमभिः) ग्रहण करने योग्य व्यवहारों और (हवीमभिः) देने योग्य पदार्थों से (हि) ही (स्वर्षाता) सुख के सेवन में

येन वर्तमानम् (वज्रम्) दण्डगुणम् (इन्द्र) परमात्मन् (सवाशुवम्) सेवनेन वर्धनेन सह वर्तमानम्

३—(उतो) निश्चयेनैव (नः) अस्माकं मध्ये (अद्याः) दृश्यमानायाः (उषसः) प्रभातवेलायाः (जुषेत) सेवेत । सेवनं कुर्यात् (हि) अद्यारणे (अर्कस्य) पूजनीयस्य परमात्मनः (बोधि) बुध अवगमने—लिकर्ये सुखं अथमपुरुषस्यैकवचनम् । बोधिं कुर्यात् (हविषः) आदानस्य । ग्रहणस्य (हवीमभिः) आयेः योऽपि ह्ययन्ते । पा० ३ । २ । ७५ । इ दानादानयोः—

(अर्कस्य) पूजनीय परमात्मा के (हविषः) ग्रहण का (बोधि) बोध करे ।
 (यत्) क्योंकि (वज्रिन्) हे दण्ड दाता (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले
 परमात्मन्] (वृषा) सुबों का बरसाने वाला महा बलवान् त् (मृधः)
 हिंसक बैरियों के (हन्तवे) मारने को (चिकेतसि) जानता है, [इस लिये]
 (मे) मुझ (नवीयसः) अधिक नवीन [अभ्यासी ब्रह्मचारी] और (अस्य)
 उस (नवीयसः) अधिक स्तुति योग्य (वेधसः) बुद्धिमान् [आचार्य] के
 (मन्म) मनन योग्य कथन को (आ) अच्छे प्रकार (भुधि) सुन ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—जैसे प्रातःकाल में प्रकाश बढ़ता जाता है, वैसे ही मनुष्य
 उत्तम उत्तम व्यवहारों के लेने देने से परमात्मा की भक्ति बढ़ावे, वह जग-
 दीश्वर विघ्ननाशक है, उस की उपासना नवीन अभ्यासी ब्रह्मचारी और
 सुबोध आचार्य आदि सब लोग करते रहें ॥ ३ ॥

सूक्तम् ७३ ॥

१—६ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निषृदार्ष्यनुष्टुप्; २ विराडार्ष्यनुष्टुप्; ३
 भुरिगार्ष्यनुष्टुप्; ४ निचृज्जगती, ५, ६ निचृदार्षी ऋष्टुप् ॥

सेनापतिलक्षणोपदेशः—सेनापति के लक्षण का उपदेश ॥

तुभ्येद्दिमा सर्वना शूर विश्वा तुभ्यं ब्रह्माणि वर्धना कृणोमि ।
 त्वं नृभिर्हृष्यो विश्वधासि ॥ १ ॥

तुभ्यं । इत् । इमा । सर्वना । शूर । विश्वा । तुभ्यंम् ।
 ब्रह्माणि । वर्धना । कृणोमि । त्वस् । नृ-भिः । हृष्यः ।
 विश्वधा । असि ॥ १ ॥

मनिन्, ईडागमः । प्राणव्यवहारैः (स्वर्गता) विमर्कैर्डा । सुखस्य सेवने
 (हवीमभिः) दातव्यपदार्थैः (यत्) यतः (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् परमात्मन्
 (हन्तवे) तवेन् प्रत्ययः । हन्तुं नाशयितुम् (मृधः) हिंसकान् शत्रून् (वृषा)
 सुखस्य वर्धकः । बलिष्ठः (वज्रिन्) हे दण्डदातः (चिकेतसि) कित जाने,
 जौहोत्यादिकः, लेटि अडागमः । जानासि (आ) समस्तात् (मे) मम (अस्य)
 तस्य (वेधसः) मेधाविनः (नवीयसः) नव-ईयसुन् । नवीनतरस्य । अभ्या-
 सिनो ब्रह्मचारिणः (मन्म) मननीयं कथनम् (भुधि) भूणु (नवीयसः)
 नवतरस्य । स्तुत्यतरस्य । सुबोधाचार्यस्य ॥

भाषार्थ—(शूर) हे शूर ! [निर्भय मनुष्य] (तुभ्य) तेरे लिये (इत्) ही (इमाः) इन, (विश्वा) सब (सवना) पेश्वर्य युक्त वस्तुओं को ; और (तुभ्यम्) तेरे लिये (वर्धना) उन्नति करने वाले (ब्रह्माणि) धनों वा अश्वों को (कृणोमि) मैं करता हूँ । (त्वम्) तू (नृमिः) नेता मनुष्यों से (विश्वधा) सब प्रकार (हव्यः) ग्रहण करने योग्य (असि) है ॥ १ ॥

भाषार्थ—चतुर सेनापति, सब अधिकारियों की यथा योग्य पालना करता रहे, जिस से वे लोग सेवा करने में सदा प्रसन्न रहें ॥ १ ॥

मन्त्र १, २ ऋग्वेद में हैं—७।२२।७, ८ ॥

नू चित्तु ते मन्यमानस्य दुस्मोदश्नुवन्ति महिमानमुग्र ।

न वीर्यमिन्द्रते न राधः ॥ २ ॥

नु । चित् । नु । ते । मन्यमानस्य । दुस्म । उत् । अश्नुवन्ति ।

महिमानम् । उग्र । न । वीर्यम् । इन्द्र । ते । न । राधः ॥२॥

भाषार्थ—(दस्म) हे दर्शनीय ! (उग्र) हे तेजस्वी (इन्द्र) इन्द्र ! [राजन] (मन्यमानस्य ते) तुझ महान्तानी की (न) न, तौ (महिमानम्) महिमा को और (न) न (ते) तेरे (वीर्यम्) पराक्रम और (राधः) धन को वे [अन्य-पुरुषा] (नु चित्) कभी भी, (नु) किसी प्रकार (उत्) अधिकता से (अश्नुवन्ति) पहुँचते हैं ॥ २ ॥

१—(तुभ्य) तुभ्यम् (इत्) एव (इमा) इमानि (सवना) पेश्वर्य युक्तानि वस्तुनि (शूर) निर्भय मनुष्य (विश्वा) सर्वाणि (तुभ्यम्) (ब्रह्माणि) धनानि अश्वानि वा (वर्धना) उन्नतिकराणि (कृणोमि) करोमि (त्वम्) (नृमिः) नेतृमिः पुरुषैः (हव्यः) ग्रहणीयः (विश्वधा) सर्वप्रकारेण (असि) ॥

२—(नु चित्) कदापि (नु) निश्चयेन (ते) तदा (मन्यमानस्य) मन ज्ञाने—शान्तम् । विदुषः पुरुषस्य (दस्म) अ० २० । १७ । २ । हे दर्शनीय (उत्) आधिक्ये (अश्नुवन्ति) प्राप्नुवन्ति (महिमानम्) महत्त्वम्, (उग्र) तेजस्विन् (न) निषेधे (वीर्यम्) पराक्रमम् (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त राजन् (ते) नव (न) निषेधे (राधः) धनम् ॥

भाष्यार्थ—जो मनुष्य महिमा और विद्या आदि शुभ गुणों, पराक्रम और धन में अधिक होवे, वह सभापति राजा होवे ॥ २ ॥

प्र वो महे मीहुवृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम् ।
विशः पूर्वीः प्र चरा चर्षणिप्राः ॥ ३ ॥

प्र । वः । महे । म्हि-वृधे । भरध्वम् । प्र-चेतसे । प्र । सु-
मतिम् । कृणुध्वम् ॥ विशः । पूर्वीः । प्र । चर । चर्षणि-प्राः ॥

भाष्यार्थ—[हे विद्वानो !] (वः) अपने लिये (महे) महान् (म्हि-
वृधे) बड़ों के बढ़ाने वाले, (प्रचेतसे) उत्तम ज्ञानी [दूरदर्शी राजा] के लिये
(सुमतिम्) सुन्दर मति को (प्र) अच्छे प्रकार (भरध्वम्) धारण करो और
(प्र) सामने (कृणुध्वम्) करो । [हे सभापते !] (चर्षणिप्राः) मनुष्यों के
मनोरथ पूरा करने वाला तु (पूर्वीः) प्राचीन (विशः) प्रजाओं को (प्र चर)
फैला ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—विद्वान् लोग चतुर नीतिज्ञ सभापति के आश्रय से अपनी
उन्नति करें और सभापति उन लोगों के मेल से अपना और प्रजा का ऐश्वर्य
बढ़ावे ॥ ३ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—७ ३१ । १० ॥

यदा वज्रं हिरण्यमिदया रयं हरी यमस्य बहंतो वि
सुरिभिः । आ तिष्ठति म चवा सनभ्रुत इन्द्रो वाजस्य दीर्घ-
अवसुरपतिः ॥ ४

यदा । वज्रम् । हिरण्यम् । इत् । अयम् । रयम् । हरी इति ।

३—(प्र) प्रकर्षण (वः) युष्मभ्यम् । स्वीकीयार्थम् (महे) महते
(म्हि-वृधे) महीनां महतां वर्धनाय (भरध्वम्) धारयन्ते (प्रचेतसे) प्रकृत-
ज्ञानाय । दूरदर्शने (प्र) (सुमतिम्) शोभनां बुद्धिम् (कृणुध्वम्) कुर्वन्
(विशः) प्रजाः (पूर्वीः) प्राचीनाः पितापितामहादिभ्यः प्राप्ताः (प्र चर) प्रसारक
(चर्षणिप्राः) अ० २० । ११ । ७ । मनुष्यां मनोरथपूरकः ॥

यम् । अस्य । वहतः । वि । सुरि-भिः ॥ आ । तिष्ठति ।
मुघ-वा । सन-भृतः । इन्द्रः । वाजस्य । दीर्घ-श्रवसः । पतिः ॥

भाषार्थ—(यदा) जब (अस्य) इस [सेनापति]-के (यम्) जिस
(-हिरण्यम्) तेजोमय (वज्रम्) वज्र [दण्ड] (अथ) और (रथम्) रथ
[राज्यव्यवहार] को (हरी) दो घोड़े [के समान बल, और पराक्रम]
(सुरिभिः) प्रेरक विद्वानों के साथ (इत्) ही (धि) (विविध प्रकार, (वहतः)
ले चलते हैं । [तब उस पर] (मघवा) महाधनी, (सनभृतः) दान के लिये
प्रसिद्ध, (दीर्घश्रवसः) बहुत यश वाले (वाजस्य)-पराक्रम, का (पतिः)
स्वामी (इन्द्रः) इन्द्र [महाप्रतापी सेनापति] (आ तिष्ठति) ऊँचा बैठता
है ॥ ४ ॥

भावार्थ—जब राजा विद्वानों से मिलकर धर्मयुक्त नीति के साथ
राज्य को चलाता है, वह प्रजापालक महाधनी होकर बड़ी कीर्ति पाता
है ॥ ४ ॥

मन्त्र ४—६ ऋग्वेद में हैं—१० । २३ । ३—४ ॥

सो चिन्नु वष्टिर्युष्यास्वा सचां इन्द्रः शमश्रूणि हरिताभि
मुं षणुते । अवं वेति सुक्षयं सुते मधूदिदधूनोति वातो यथा
वनंश्च ॥ ५ ॥

सो इति । चिन्नु । नु । वृष्टिः । युष्या । स्वा । सचां । इन्द्रः ।
शमश्रूणि । हरिता । अभि । मुं षणुते ॥ अवं । वेति ।

४—(यदा) यस्मिन् काले (वज्रम्) दण्डम् (हिरण्यम्) तेजोमय
(इत्) एवं (अथ) अनन्तरम् (रथम्) रथमिव रमणीय राज्यव्यवहारम्
(हरी) अश्वाच्च बलपराक्रमौ (यम्) वज्रं रथं वा (अस्य) सेनापतेः
(वहतः) नयतः (धि) विविधम् (सुरिभिः) अ० २० । ३४ । १७ । प्रेरकैर्वि-
द्वद्भिः (आ तिष्ठति) आरोहति । उपरि वर्तते (मघवा) महाधनी (सनभृतः)
पणु दाने—अच् । दानाय प्रसिद्धः (इन्द्रः) महाप्रतापी सेनापतिः (वाजस्य)
पराक्रमस्व (दीर्घश्रवसः) बहुकीर्तियुक्तस्य (पतिः) स्वामी ॥

सु-हृयम् । सुते । मधु । उत् । इत् । धूनोति । वातः । यथा ।
वनम् ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(सो) वही (इन्द्रः) इन्द्र [बड़ा ऐश्वर्यवान् पुरुष] (वृष्टिः)
चित्) वृष्टि के समान (तु) निश्चय करके (सचा) नित्य मेघ के साथ
(स्वा) अपने (हरिता) स्वीकार करने योग्य (यूथ्या) समुदायों को (श्म-
धूणि) अपने शरीर में आश्रित अङ्गों [के समान] (अमि) सब प्रकार (प्रुष्णते)
सींचता है । और वह (सुते) उत्पन्न जंगत् में (सुत्तयम् बड़े ऐश्वर्य वाले
(मधु) निश्चित ज्ञान [मधु विद्या] को (इत्) अवश्य (अवेति) पा लेता
है और [पापों को] (उत्) (धूनोति) उखाड़ कर हिला देता है, (यथा)
जैसे (वातः) पवन (वनम्) वन को ॥ ५ ॥

भावार्थ—वृष्टि के समान जो मनुष्य शरीर के अङ्गों के तुल्य प्रिय
अपने लोगों पर उपकार करता है, वह संसार में ऐश्वर्य युक्त ज्ञान प्राप्त करके
पापों को हटाकर आनन्द पाता है ॥ ५ ॥

यो वाचा विवाचो मध्रवाचः पुरु सुहस्ताग्निवा जुघान । तत्त-
दिदस्य पीस्यं गृणीमसि पितेव यस्तविषीं वावुधे शर्वः ॥ ६ ॥
यः । वाचा । वि-वाचः । मध्र-वाचः । पुरु । सुहस्ता । अग्निवा ।

५—(सो) स एव (चित्) उपमार्थे (तु) निश्चयेन (वृष्टिः) जलवर्षा
(यूथ्या) स्वार्थे यत् । यूथानि । सजातीयसमुदायान् (स्वा) स्वकीयानि
(सचा) समवायेन (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् मनुष्यः (श्मधूणि) अ० ५ । १६-
१४ । शीङ्, शयने-मनिन्, डित् + भिञ्, सेवायाम्—डुन् । श्म शरीरम्... श्मभु-
लोमि श्मनि भित्तं भवति—निरु० ३ । ५ । शरीरे अत्रान्यङ्गानि यथा (हरिता)
अ० २० । ३० । ३ । स्वीकरणीयानि (अमि) सर्वतः (प्रुष्णते) प्रुष ज्वहन-
सेचनप्रयोजु—लट् । सिञ्चति । वर्धयति (अवेति) वी गत्यादिषु । अभिग-
च्छति । प्राप्नोति (सुत्तयम्) त्ति ऐश्वर्ये—अच् । वहैश्वर्ययुक्तम् (सुते)
उत्पन्ने जगति (मधु) निश्चितं ज्ञानम् । मधुविद्याम् (उत्-) उत्कृष्य (इत्-)
एव (धूनोति) कम्पयति पापानि (वातः) वायुः (यथा) (वनम्) वृक्षसमु-
हम् ॥

जघान ॥ तत्-तत् । इत् । अस्य । पौंस्यम् । गृणीमसि ।
पिता-इव । यः । तविषीम् । ववृधे । शवः ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(यः) जिस [शूर] ने (वाचा) [अपनी सत्य] वाणी से (विवाचः) विरुद्ध बोलने वाले, (मृधवाच.) हिसक वाणी वाले के (पुरु) बहुत (सहस्रा) सहस्रों (अशिवा) क्रूर कर्मों को (जघान) नष्ट किया है और (यः) जिस [शूर] ने (पिता इव) पिता के समान (तविषीम्) हमारी शक्ति और (शवः) पराक्रम को (ववृधे) बढ़ाया है, (अस्य) उस के (तत्तत्-) उस, उस (इत्-) ही- (पौंस्यम्) मनुष्यपन [वाक्त्रेण] की (गृणीमसि) हम बढ़ाई करते हैं ॥ ६ ॥

भाषार्थ—जो वीर पुरुष दुराचारियों का नाश करके प्रजा को कष्ट से छुड़ाता है, प्रजागण उस गुणवान् पुरुष को ही मुखिया बनाकर प्रीति करते हैं ॥ ६ ॥

सूक्तम् ७४ ॥

१-७ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ४, ५ निचृत् पथ्या पङ्क्तिः, २, ३, ६, ७ विराडापी पङ्क्तिः ॥

राजप्रजाधर्मोपदेशः—राजा और प्रजा के धर्म का उपदेश ॥

यच्चिवृद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव समसि । आ-तू न
इन्द्र शंसय गोव्रश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीसव ॥ १ ॥

(यत्-) चिवृत् । -हि । सत्यम् । सोम-पाः । अनाशस्ताः-इव ।
समसि ॥ आ-तू । नः । इन्द्र । शंसय । गोषु । अश्वेषु ।
शुभ्रिषु । सहस्रेषु । तुवि-सव ॥ १ ॥

इन्द्र (यः) वीरः (वाचा) सत्यवाण्या (विवाचः) विरुद्धवाणीयुक्त-
स्य (मृधवाचः) हिसकवाणीयुक्तस्य (पुरु) बहूनि (सहस्रा) सहस्राणि
(अशिवा) अमद्राणि । क्रूरकर्मणि (जघान) नाशितवान् (तत्तत्) सुप्रसिद्धम्
(इत्) इव (अस्य) शूरस्य (पौंस्यम्) अ० २० ॥ ६७ । २ । पुंसः कर्म । बलम्
(गृणीमसि) धर्म संतुमः (पिता) (इव) (यः) शूरः (तविषीम्) अ० २० ।
६ । २ । शक्तिम् (ववृधे) वर्धितवान् (शवः) बलम् ॥

भाषार्थ—(सत्य) हे सच्चे ! [सत्यवादी, सत्यगुणी] (सोमपाः-) हे सोम [तस्व रत्न] पीने वाले ! [वा पेश्वर्य के रत्नक राजन्] (यत् चित्) जो कमी (हि) भी (अनाशास्ताः इव) निन्दनीय कर्म वालों के समान (स्मसि) हम होंगे। (तुविमत्र) हे महाधनी (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े प्रतापी, राजन्] (तु) निश्चय करके (नः) हम को (सहस्रेषु) सहस्रों (शुभिषु) शुभ गुण वाले (गोषु) विद्वानों और (अश्वेषु) कामों में व्यापक बलवानों में (आ) सब ओर से (शंसय) बढ़ाई वाला कर ॥ १ ॥

भाषार्थ—यदि धार्मिक लोगों से किसी कारण विशेष से अपराध हो जावे, नीतिज्ञ राजा यथायोग्य बताव करके उन भूले भटकों को फिर सुमार्ग पर लावे ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—१। २६। १—७ ॥

शिप्रिन् वाजानां पते शचीवस्तव दंसना । आ तू ॥ २ ॥

शिप्रिन् । वाजानाम् । पते । शची-वः । तव । दंसना । ॥२॥

भाषार्थ—(शिप्रिन्) हे बड़े शानी ! [वा दड़ जावड़े आदि भकों वाले] (वाजानां पते) हे अकों के स्वामी ! (शचीवः) हे उत्तम कर्म वाले ! [राजन्] (तव) तेरी ही (दंसना) दर्शनीय क्रिया है। (तुविमत्र) हे महा-

१—(यत् चित्) यद्यपि (हि) एव (सत्य) हे यथार्थवादिन् । यथाऽर्थे शुणिन् (सोमपाः) हे तस्वरसस्य पानकर्तः । पेश्वर्यरत्नक (अनाशास्ताः) अप्रशस्ताः । निन्दनीयकर्माणः (इव) यथा (स्मसि) भवामः (आ) समन्तात् (तु) निश्चयेन (नः) अस्मान् (इन्द्र) महाप्रतापिन् राजन् (शंसय) प्रशस्तान् कुरु (गोषु) गौः स्तोतृनाम्—निघ० ३। १६ । स्तोतृषु । विद्वत्सु (अश्वेषु) कर्मसु व्यापकेषु । बलवत्सु (शुभिषु) अदिशदिभूशुभिभ्यः क्रिन् । उ० ४ । ३५ । शुभ दीप्तौ—क्रिन् । शुभगुणयुक्तेषु (सहस्रेषु) बहुषु (तुविमत्र) हे बहुधनवन् ॥

२—(शिप्रिन्) अ० २० । ४ । १ । हे बहुशानिन् । हे दड़हलुयुक्त । हे दड़ङ्ग (वाजानाम्) अजानाम्—(पते) स्वामिन् (शचीवः) अ० २०-२१ । ३ । हे प्रशस्तकर्मन् (तव) (दंसना) एवासभन्थो युच् । पा० ३ । ३ । १०७ ।

शु० ७४ [ईदं२] विंशं कारिकासु ॥ २० ॥ (४, २३५)

धनी (इन्द्र) इन्द्र) । [बड़े प्रतापी राजन्] [मन्त्र १] ॥ २ ॥

भावार्थ—बलवान् राजा बड़ा क्षानी, धनी और सत्कर्मों होकर प्रजा पालन करे ॥ २ ॥

नि स्वापया मिथुदृशा सुस्तामबु ध्यमाने । आ तू० ॥ ३ ॥

नि । स्वापय । मिथु-दृशा । सुस्ताम् । अबु ध्यमाने इति ॥ ३ ॥

भावार्थ—[हे राजन्] (मिथुदृशा) दोनों हिंसा दिखाने वाले [शरीर और मन] को (नि स्वापय) सुला दे, (अबु ध्यमाने) बिना जगे हुये वे दोनों (सुस्ताम्) सो जावें । (तुविमघ) हे महाधनी (इन्द्र) इन्द्र ! [मन्त्र १] ॥ ३ ॥

भावार्थ—राजा अपने सुप्रबन्ध से सब प्रजा को सुबोध और निरा-लसी बनावे ॥ ३ ॥

सुसन्तु त्या अरातयो बोधन्तु शूर रातयः । आ तू० ॥ ४ ॥

सुसन्तु । त्याः । अरातयः । बोधन्तु । शूर । रातयः । ० ॥ ४ ॥

भावार्थ—(शूर) हे शूर ! [निर्मय] (त्याः) वे (अरातयः) दान न करने वाली शत्रु प्रजायें (सुसन्तु) सो जावे, और (रातयः) दानी लोग (बोधन्तु) जागते रहें । (तुविमघ) हे महाधनी (इन्द्र) इन्द्र ! [मन्त्र १] ॥ ४ ॥

भावार्थ—राजा अपने पराक्रम से दुष्टों को शिर न उठाने दे और धर्मरत्ना दाता लोगों को उत्साही करे ॥ ४ ॥

इति दर्शनसंदर्शनयोर्भाषायां च—षिञ्चि युच्, टाप् । दर्शनीयक्रियो वर्तते । अन्यत् पूर्ववत् ॥

३—(निस्वापय) नितरां सुप्ते कुरु (मिथुदृशा) पभिविद्यधि० । उ० १ । २३ । मिथु मेधाहिंसनयोः—कु + दृशोः—किप् । सुपां सुलुक्० । पा० ७ । १ । ३६ । विमक्तेराकारः । द्वे हिंसादर्शके शरीरमनसी (सुस्ताम्) बल स्वप्ने । शयाताम् (अबु ध्यमाने) । अजागरिते । निद्रां प्राप्ते । अन्यद् गतम् ॥

४—(सुसन्तु) शेरताम् (त्याः) ताः (अरातयः) । अदानशीला शत्रु-प्रजाः (बोधन्तु) जाग्रतु (शूर) हे वीर (रातयः) दातारः । अन्यद् गतम् ॥

समिन्द्र गर्द्भं मृणुवन्तं पापयासुया । आ तू० ॥ ५ ॥

सम् । इन्द्र । गर्द्भम् । मृणु । नुवन्तस् । पापया ।
सुसुया । ० ॥ ५ ॥

भाष्यार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े प्रतापी राजन्] (अमुया) उस
(पापया) पाप क्रिया के साथ (नुवन्तम्) स्तुति करते हुये (गर्द्भम्) गद्दे
के [समान व्यर्थ रेंकने वाले तिन्दक पुरुष] को (सम् मृण) मार डाल ।
(तुविमघ) हे महाधनी (इन्द्र) इन्द्र ! [मन्त्र १] ॥ ५ ॥

भाष्यार्थ—राजा गद्दे के समान कटुवाची, मिथ्याभाषी दुर्जन को
कुशिक्षा फैलाने से रोके ॥ ५ ॥

पताति कुण्डुणाच्या दुरं वातो वनादधि । आ तू० ॥ ६ ॥

पताति । कुण्डुणाच्या । दुरम् । वातः । वनात् । अधि । ० ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ—(कुण्डु णाच्या) रक्षा पहुंचाने वाली क्रिया के साथ (दूरम्)
दूर तक (वनात् अधि) वन [उपवन घाटिका आदि] के ऊपर होता हुआ
(वातः) पवन (पताति) चला करे । (तुविमघ) हे महाधनी (इन्द्र) इन्द्र
[मन्त्र १] ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ—राजा वन, उपवन, घाटिका आदि से प्रजा का स्वास्थ्य
बढ़ावे ॥ ६ ॥

५—(सम्) सम्यक् (इन्द्र) महाप्रतापिन् राजन् (गर्द्भम्) कृ शशक्ति-
कलिगर्दिभ्योऽभञ् ॥ ७०३ । १२२ । गर्द्भ शब्द—अमन्त् । अरमिव कटुभाषि-
णम् (मृण) मारय (नुवन्तम्) स्तुवन्तम् (पापया) पापक्रियया (असुया)
अनया, प्रसिद्धया । अन्यद् गतम् ॥

६—(पताति) लेटि आङ्गमः । गच्छेत् । वहेत् (कुण्डुणाच्या)
दिवेः । ७०२ । ६६ । कुण्डि दाहो वै कल्पे रक्षणे च—अप्रत्ययः । कर्मण्यण् ।
पा० ३ । २ । १ । कुण्डु + णच् गतौ—अण् डीप्, शकारस्य चकारः । रक्षाप्रोपि-
कया क्रियया (दूरम्) विप्रकृष्टदेशम् (वातः) वायुः । (वनात्) वृक्षसमूहात्
(अधि) उपरि गच्छन् । अन्यद् गतम् ॥

सर्वं परिक्रोशं जहि जम्भया कृकदाश्वम् । आ तू न इन्द्र
शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥ ७ ॥

सर्वम् । परि-क्रोशम् । जहि । जम्भय । कृकदाश्वम् ॥ आ ।
तु । नः । इन्द्र । शंसय । गोषु । अश्वेषु । शुभिषु
सहस्रेषु । तुवि-मघ ॥ ७ ॥

भावार्थ—[हे राजन् !] (सर्वम्) प्रत्येक (परिक्रोशम्) निम्बक,
(कृकदाश्वम्) कष्ट देने वाले को (जहि) पहुँच और (जम्भय) मार डाल ।
(तुविमघ) हे महाधनी (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े प्रतापी राजन्] (तु) निश्चय
करके (नः) हम को (सहस्रेषु) सहस्रों (शुभिषु) शुभ गुण वाले (गोषु-
विद्वानों और (अश्वेषु) कामों में व्यापक बलवानों में (आ) सब ओर से
(शंसय) बढ़ाई वाला कर ॥ ७ ॥

भावार्थ—राजा गुणों में दोष लगाने वाले कुचाली हिंसकों को मर्द
करके प्रजा जो सब प्रकार सुखी रखे ॥ ७ ॥

सूक्तम् ७५ ॥

१—३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ३ भुरिगष्टिः, २ सुराडष्टिः ॥

परमेश्वरोपासनोदेशः—परमेश्वर की उपासना का उपदेश ॥

वि त्वा ततस्त्रे मियुना अश्वस्यवो ब्रजस्य साता गव्यस्य निः-
सृजः सस्रान्त इन्द्र निःसृजः । यद् गव्यन्ता द्वा जना स्वर्-
यन्ता सुसूहसि । आविष्करिन्द्र वृषणं सचाभुवं वज्रमिन्द्र
सचाभुवं ॥ १ ॥

७—(सर्वम्) प्रत्येकम् (परिक्रोशम्) क्रुश आह्वाने शब्दे च—पचायच् ।
परिक्रोशकम् । निम्बकम् (जहि) हन हिंसागत्योः । गच्छ । प्राप्नुहि (जम्भय)
मारय (कृकदाश्वम्) सुवृभूशुभिमुभिभ्यः कक् । उ० ३ । ४ १ । कृजू हिंसा-
याम्—कक् । कृवायाञि० । उ० १ । १ । दाश्ट वाने—उण् । अमि यणादेशः ।
पीडादातारम् । अन्यद् गतम् ॥

वि । त्वा । ततस्त्रे । मिथुनाः । अश्वस्यवः । वृजस्य । साता ।
 गव्यस्य । निः-सृजः । सक्षन्तः । इन्द्र । निः-सृजः ॥ यत् ।
 गव्यन्ता । द्वा । जना । स्वः । यन्ता । सुस्-जहंसि ॥
 आधिः । करिक्तत् । वृषणम् । सचा-भुवम् । वज्रम् । इन्द्र ।
 सचा-भुवम् ॥ १ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले जगदीश्वर] (वृजस्य) मार्ग
 के (साता) पाने में (अश्वस्यवः) रक्षा चाहने वाले, (सक्षन्तः) गतिशील,
 (गव्यस्य) भूमि के लिये हित के (निःसृजः) नित्य उत्पन्न करने वाले और
 (निःसृजः) निरन्तर देने वाले (मिथुनाः) स्त्री पुरुषों के समूहों ने (त्वा)
 तुझ को [तेरे गुणों को] (वि) विविध प्रकार (ततस्त्रे) फैलाया है । (यत्)
 क्योंकि, (इन्द्र) हे इन्द्र ! [परमात्मन] (वृषणम्) बलवान्, (सचाभुवम्)
 नित्य मेल से रहने वाले, (सचाभुवम्) सेवन [वृद्धि] के साथ वर्तमान
 (वज्रम्) वज्र [दण्डगुण] को (आधिः करिक्तत्) प्रकट करता हुआ तू
 (गव्यन्ता) वाणी [विद्या] को चाहने वाले, (स्वः) सुख को (यन्ता)
 प्राप्त होने वाले (द्वा) दोनों (जना) जनों [स्त्री पुरुषों] को (-समूहसि)
 यथावत् चेताता है ॥ १ ॥

भाषार्थ—जो स्त्री पुरुष सब के सुख के लिये राज्य आदि प्राप्त करके
 शिष्टसुखदायक, दुष्टविनाशक परमात्मा की भक्ति करते हैं, उन को वह जग-
 दीश्वर उन्नति के लिये सदा उत्साह देता है ॥ १ ॥

यह त्वं च अंग्वेद में है—१ । १३१ । ३—५ । मन्त्र १ आचुका है—अथ०
 २० । ७२ । २ ॥

विदुष्टे अस्य वीर्यस्य पुरवः पुरो यदिन्द्र शरदीरवातिरः
 सासहानो अवातिरः । शासुस्तमिन्द्र मर्त्यमयंज्युं शवसरूपते ।
 महीमसुष्णाः पृथिवीमिमा अपो मन्दसान हुमा अपः ॥२॥
 विदुः । इते । अस्य । वीर्यस्य । पुरवः । पुरः । यत् । इन्द्र । शरदीः ।
 अश्व-अतिरः । सुसहानः । अश्व-अतिरः ॥ शसः । तस्य ।

इन्द्र । मर्त्यम् । अयङ्गुम् । शवसुः । पते ॥ महीम् । अमु-
ष्णाः । पृथिवीम् । इमाः । अपः । मन्दुस्तानः । इमाः । अपः ॥२॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर] (पूरवः) मनुष्य (ते) तेरे (अस्य) उस (धीर्यस्य) सामर्थ्य का (विदुः) ज्ञान रखते हैं, (यत्) जिस [सामर्थ्य] से (सप्तहानः) जीतते हुये तू ने (शारदीः) वर्ष भर में उग्न होने वाली (पुरः) पालन सामग्रियों की (अवातिरः) उतारा है, (अवातिरः) उतारा है, (शवसःपते) हे बल के स्वामी (इन्द्र) इन्द्र ! [परमेश्वर] (तम्) उस (अयङ्गुम्) यज्ञ के न करने वाले (मर्त्यम्) मनुष्य को (शासः) तू ने शासन में किया है, और (मन्दस्तानः) आनन्द करते हुये तू ने (महीम्) बड़ी (पृथिवीम्) पृथिवी से (इमाः) इन [यज्ञ न करने वाली] (अपः) प्रजाओं को, (इमाः) इन (अपः) प्रजाओं को (अमुष्णाः) लूटा है ॥ २ ॥

२—(विदुः) विद्वन्ति । ज्ञान कुर्वन्ति (ते) तव (अस्य) प्रसिद्धस्य (धीर्यस्य) सामर्थ्यस्य (पूरवः) भृशशीलः । उ० १ । ७ । पूरी आप्यायने—उप्रत्ययः । पूरवः पूरयित्वा मनुष्याः—निक० ७ । २३ । मनुष्याः—निघ० २ । ३ (पुरः) पृ पालनपूरणयोः—किप् । उदोऽय्य पूर्वस्य । पा० ७ । १ । १०२ । इत्युत्पम् । पालनसामग्रीः (यत्) येन सामर्थ्येन (इन्द्र) परमैश्वर्यवन् परमात्मन् (शारदीः) शरद्—अण्, ङीप् । शरदि संवत्परे भवाः (अवातिरः) अवतारितवानसि । दत्तवानसि (सप्तहानः) सप्तहतेर्यङ्गुगन्ताच् चानश् । अभिभवन् । विजयन् (अवातिरः) दत्तवानसि (शासः) शासु अनुशिष्टौ—लुङ्, छान्दस रूपम् । शासितवानसि । निगृहीतवानसि (तम्) (इन्द्र) (मर्त्यम्) मनुष्यम् (अयङ्गुम्) यज्ञिमनिशुन्धि० । उ० ३ । २० । यज्ञेः—युच् । अयष्टारम् । यज्ञविधानकम् (शवसः) बलस्य (पते) स्वामिन् (महीम्) महतीम् (अमुष्णाः) मुष स्तेये—लङ् । अपहनवानसि । दुह्याच्गच्त्पङ्कधि-प्रच्छिच्चिब्रूशासुजिमथ्मुषाम् । कारिका, पा० १ । ४ । ५१ । इति मुष्णातेर्द्वि-कर्मकत्वात् पृथिवीमित्यस्य, अप इति अस्य पदस्य च कर्मकत्वम् (पृथिवीम्) भूमिम् । भूमेःसकाशात् (इमाः) दृश्यमानाः (अपः) प्रजाः (मन्दस्तानः) हृष्यन् रथम् (इमाः) (अपः) प्रजाः ॥

भाषार्थ—परमात्मा अपने सामर्थ्य से अनन्त पदार्थ उतरान करके सब का सदा पालन करता है, और अनाज्ञाकारी दूषों को अवश्य दण्ड देता है ॥ २ ॥

आदित् ते अस्य वीर्यस्य चर्किरन्मदेषु वृषन्नुशिजो यदाविथ
सखीयतो यदाविथ । चक्रथे कार्मभ्यः पृतनासु प्रवन्तवे ।
ते अन्यामन्यां नृद्यं सनिष्णत अश्वस्यन्तः सनिष्णत ॥ ३ ॥

आत् । इत् । ते । अस्य । वीर्यस्य । चर्किरन् । मदेषु ।
वृषन् । उशिजः । यत् । आविथ । सखि-यतः । यत् ।
आविथ ॥ चक्रथे । कार्म । भ्यः । पृतनासु । प्र-वन्तवे ॥
ते । अन्याम्-अन्याम् । नृद्यम् । सनिष्णतु । अश्वस्यन्तः ।
सनिष्णतु ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(वृषन्) हे महाबली । [परमेस्वर] (आत्) इस लिये
(इत्) ही (ते) तेरे (अस्य) उस (वीर्यस्य) सामर्थ्य को (चर्किरन्)
उन्होंने [मनुष्यों ने] बार बार जाना है, (यत्) जिस [सामर्थ्य] से (मदेषु)
आनन्दों के बीच (उशिजः) शुभ गुण चाहने वाले बुद्धिमानों को (आविथ)
तू ने बचाया है, (यत्) जिस [सामर्थ्य] से (सखियतः) तुझे मित्र के समान

३—(आत्) अनः (इत्) एव (ते) तव (अस्य) द्वितीवार्थे पठ्ठी ।
तत् । वक्ष्यमाणम् (वीर्यस्य) सामर्थ्यम्, (चर्किरन्) कृ विक्षेपे हिनायां
विज्ञाने च, यद्बुद्धिगतात् लङ्, अडभावः । ज्ञातवन्तः (मदेषु) हर्षेषु (वृषन्)
उल्लिख्यते । परमात्मन् (उशिजः) अ० २० । ११ । ४ । शुभगुणान् कामयमानान्
मेधादिनः (यत्) येन वीर्येण (आविथ) रक्षितवानसि (सखियतः) उप-
मानादाचरे । पा० ३ । १ । १० । सखि—क्यच्, शतृ । न च्छन्दस्यपुत्रस्य ।
पा० ७ । ४ । ३५ । इति दीर्घनिषेधः त्वां सखाप्रमिवाचरतः पुरुषान् (यत्)
येन (आविथ) रक्षितवानसि (चक्रथे) कृतवानसि (कार्म) करोतः—घञ् ।
दत्तम् (एतत्) पूर्वोक्तेभ्यः (पृतनासु) वीपतिभ्यां तनन् । उ० ३ । १५ ।
पृष्ठ व्यायामे—ताम्, कित्, टाप् । पृतनाः, मनुष्यनाम—निघ० २ । ३ ।

समझने हुये लोगों को (आविष्य) तू ने बचाया है । और (एभ्यः) इन [लोगों] के लिये (पृननासु) मनुष्यों में (प्रवन्तवे) सेवन करने को (कारम्) यत् (चकथं) तू ने किया है, (श्रवस्यन्तः) कीर्ति चाहने वाले (ते) के (अन्यामान्याम्) अलग, अलग (नद्यम्) पूजने योग्य क्रिया को (सनिष्णत) सेवन करें, (सनिष्णत) सेवन करें ॥ ३ ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग परमात्मा के सामर्थ्य का अनेक प्रकार अनुभव करके आपस में मिलकर तथा पृथक् पृथक् भी शुभ गुणों की प्राप्ति से सामर्थ्य बढ़ावें ॥ ३ ॥

सूक्तम् ७६ ॥

१—८ ॥ इन्द्रं देवता ॥ १ विराडापीं त्रिष्टुप्, २, ४—६ निचृत् त्रिष्टुप्, ३, ७, ८ विराट् त्रिष्टुप् ॥

राजकर्तव्योपदेश—राजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

वने न वा यो न्यधायि चाकं छुचिर्वा स्तोमो भुरणावजीगः ।
यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होता नृणां नयेर् नृतमः क्षुपावान् ॥१॥
वने । वा । यः । नि । अधायि । चाकन् । शुचिः । वाम् ।
स्तोमः । भुरणौ । अजीगरिति ॥ यस्य । इत् । इन्द्रः ।
पुरु-दिनेषु । होता । नृणाम् । नयः । नृ-तमः । क्षुपा-वान् ॥१॥

मनुष्येभ्यः (प्रवन्तव) तुमहें तवेन् । प्रकर्षणं वनिनुं सेवितुम् (ते) पूर्वोक्तः (अन्यामान्याम्) भिन्ना भिन्नान् (नद्यम्) एव अव्यक्ते शब्दे स्तुतौ च—पचायच् ङीप् । नदतिरर्चनिकर्मा—निघ० ३ । १४ । नद् । स्नातृनाम—निघ० ३ । १६ । नदीम् । पूजनीयां क्रियाम् (सनिष्णत) पण सम्भक्तौ—लेट् । सिव्वहुल लटि । पा० ३ । १ । ३३ । इति निप् । इट् श्नाप्रत्ययश्च । आत्मने देव्यन्तः । पा० ७ । १ । ५ । इति भूम्य अदादेशे । श्नाभ्यस्ययोगानः । पा० ६ । ४ । ११२ इत्याकारलोपः । टेरेत्वाभावः । सभजेभ्यः । सेवन्ताम् (श्रवस्यन्तः) श्रवस्—त्यच्, शत् । कीर्तिमिच्छन्तः (सनिष्णत) सेव ताम् ॥

भाषार्थ—(वने) वृक्ष पर (न) जैसे (चाकन्) प्रीति करने वाला (वा, यः=वायः) पत्नी का बचना (नि अधायि) रक्ता जाता है, [जैसे ही (भुरणौ) हे दोनों पोषको । [माता पिताभो] (शुचिः) पवित्र (स्तोमः) बड़ा योग्य गुण ने (चाम्) तुम दोनों को (अजीगः) ग्रहण किया है । (यस्य) जिस [बड़ा योग्य गुण] का (इत्) ही (होता) ग्रहण करने वाला (इन्द्रः) इन्द्र [यड़े पेश्वर्य वाला पुरुष] (पुरुदिनेषु) बहुत दिनों के भीतर (नृणाम्) नेताओं का (नृतमः) सय से बड़ा नेता, (नर्यः) मनुष्यों का हितकारी, (क्षपावान्) श्रेष्ठ रात्रियों वाला है ॥ १ ॥

भाषार्थ—जैसे चिड़िया चिरौटा बच्चे को घोंसले में धर कर पुष्ट और समर्थ करते हैं, जैसे ही स्त्री पुरुष सदा दिन रात उत्तम गुण ग्रहण करके अपने को और अपने सन्तानों को मुख्य कार्य कर्ता बनावे ॥ १ ॥

यह सूक्ते ऋग्वेद में है—१० । २६ । १—८ ॥

हम ने (वा, यः) दो पदों के स्थान पर (वायः) एक पद मानकर अर्थ किया है । भगवान् यास्कमुनि ने इस मन्त्र पर—निरुक्त ६ । २८ । में

१—(वने) वनावयवे वृक्षे (न) यथा (वा, यः=वायः) वातेडिंच । ष० ४ । १३४ । वा गतौ—इण्, डित् । वि—अण् अपठ्यार्थे । पक्षिशावकः । वन इष वायो वेः पुत्रश्चायन्निनि वा कामयमान इति वा । वेतिचय इति च चकार शाकह्यः । उदात्तं त्वेवमारख्यातमभविष्यद्सुसमाप्तश्चार्थः—निरु० ६ । २८ (नि अधायि) निहिनः । धृनः (चाकन्) कनी दीप्तिकान्तिगतिषु, पङ्बु-गन्तात्—क्लिप् । उत्सुककमनाः (शुचिः) पवित्रः (चाम्) युवां द्वौ (स्तोमः) स्तुत्यगुणः (भुरणौ) भुरण धारणपोषणयोः—पचाद्यच् । हे भर्तारौ माना-पितौ (अजीगः) जिगर्ति नैरुक्तधातुः, यद्वा गृ मिगरणे—लङि, सिपि, इतश्चलोपे, राहस्य । पा० ८ । २ । २४ । सलोपः, रेफस्य विसर्जनीयः । प्रथमपुरुषस्य मध्यमः । गृहीतवान् प्राप्तवान् । अजीगः .. अगारीर्जि । ति-र्गिरतिकर्मा वा गृणातिकर्मा वा गृह्णातिकर्मा वा—निरु० ६ । ८ (यस्य) स्तोमस्य (इत्) एष (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् पुरुषः (पुरुदिनेषु) बहुदिवसेषु (होता) ग्रहीता (नृणाम्) नेतृणाम् । श्रणार्ण मध्ये (नर्यः) नृभ्यो हितः (नृतमः) नेतृतमः । श्रतमः (क्षपावान्) क्षप प्रेरणे—अच्, टाप् । प्रशस्त-रात्रिमान् ॥

लिखा है—(वा और यः) शाकल्य ने [पद विभाग] किया है, किन्तु ऐसा होने पर आख्यात उदात्त होता और अर्थ भी पूरा न होता—अर्थात् जो (वा और यः) पदकार शाकल्य ऋषि ने पद विभाग किया है, वह दो पद होना तो [यद्भृत्तान्नित्यम् । पा० ८ । १ । ६७] इस सूत्र से (अध्यायि) किया पद उदात्त होता, किन्तु वह अनुदात्त है, और (वा) का अर्थ कुछ न बनता और वृक्ष पर क्या रक्खा हुआ है, यह आकांक्षा धनी रहनी । इस से (वा । यः ।) दो पद भूल से हैं. (वायः) ऐसा एक पद ठीक है । सायणाचार्य और त्रिकुप महाशय ने भी (वायः) ही माना है ॥

प्र ते अस्या उषसः प्रापरस्या नृती स्याम नृतमस्य नृणाम् ।
अनुं त्रिशोकः शतमावहुवृन् कुत्सेन रथो यो असत् ससवान् ॥२
प्र । ते । अस्याः । उषसः । प्र । अपरस्याः । नृती । स्याम् ।
नृ-तमस्य । नृणाम् ॥ अनुं । त्रि-शोकः । शतम् । आ । अव-
हत् । नृन् । कुत्सेन । रथः । यः । असत् । सस-वान् ॥ २ ॥

भाषार्थ—(अन्याः) इस और (अपरस्याः) दूसरी [जाने वाली] (उषसः) उषा [प्रभान वेला] के (नृती) नृत्य [चेष्टा] में (नृणाम्) नेताओं के (नृतमस्य ते) तुम सब से बड़े नेता के [भक्त रह कर] (प्र प्र) बहुत उत्तम (स्याम) हम होंगे । (यः) जो (त्रिशोकः) तीन प्रकार [बिजुली, सूर्य और अग्नि] के प्रकाश वाला (रथः) रथ (असत् होवे, वह [रथ] (ससवान्) सेवन करता हुआ (शतम्) सौ (नृन्) नेता पुरुषों के

२—(प्र प्र) अतिशयेन प्रकृष्टाः (ते) तव (अस्याः) वर्तमानायः (उषसः) प्रभानवेलायाः (अपरस्याः) अन्यस्याः । आगामिन्याः (नृती) इगुपधात् कित् । उ० ४ । १२० । नृनी गात्रविद्ये—इन्, कित् । नर्तने । चेष्टने (स्याम) भवेम (नृतमस्य) नेतृमस्य (नृणाम्) नेतृणां मध्ये (अनु) आनुकूलेन (त्रिशोकः) ई शुचिर् कलेदने शौचे च—घञ् । त्रयाणां सूर्यविद्युदग्नीनां शोकः प्रकाशो यस्मिन् स. (शतम्) (आ अवहत्) कित्ठे लङ् । आवहेत् (नृन्) नेतृन् पुरुषान् (कुत्सेन) अ० ४ । २६ । ४ । कुल संश्लेषणे—सप्रत्ययः । ऋषिः कुत्सो भवति कर्ता स्तोमानाम्—निक० ३ । ११ । लंगतिशीलेन ऋषिणा

(कुत्सेन) मित्रनगर ऋषि [सेनापति] के साथ (अनु) अनुकूल गति से (आ अवहत्) लावे ॥ २ ॥

भावार्थ - जैसे प्रभात वेला सूर्य द्वारा प्रकाश करती हुयी चली चलती है, वैसे ही मनुष्य अत्यन्त जानी पुरुष के आश्रय से विजुली, सूर्य और अग्नि आदि 'दर्थों' के द्वारा यान विान आदि बनाकर कार्य सिद्ध कर ॥ २ ॥

कस्ते मद इन्द्र रन्त्यो भूत् दुरो गिरौ अभि उग्रो वि धाव ।
कद् वाहो अर्वाक् मा मनीषा आ त्वा शक्यामुपमं राधे
अन्नैः ॥ ३ ॥

क । ते । मदः । इन्द्र । रन्त्यः । भूत् । दुरः । गिरः ।
अभि । उग्रः । वि । धाव् ॥ कत् । वाहः । अर्वाक् । उप ।
मा । मनीषा । आ । त्वा । शक्याम् । उप-मम् । राधेः ।
अन्नैः ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्] (कः) कौन सा (ते) तेरा (मदः) हर्ष (रन्त्यः [हमारे लिये] आनन्द दायक (भूत्) होंवे, (उग्रः) तेजस्वी तू (गिरः) स्तुतियों को (अभि) प्राप्त होकर (दुरः) [हमारे] द्वारों पर (वि धाव) दौड़ता आ । (कत्) कव (वाह) वाहन [घोडा रथ आदि] (मनीषा) बुद्धि के साथ (मा उप) मेरे समीप (अर्वाक्) सामने [होंवे], और (उपमम्) समीपस्थ (त्वा) तुझ को (आ) प्राप्न

सेनापतिना (रथः) यानभेदः (यः) रथः (असत्) भवेत् (ससवान्) पण्य संभक्तौ - कतु । सेवमानः ॥

३ - (कः) (ते) तव (मदः) हर्षः (इन्द्र) महाप्रतापिन् राजन् (रन्त्यः) वसेस्ति । उ० ४ । १०० । रमु कीडायाम्—तिप्रत्ययः । हितार्थं यत् । रन्त्ये रमणाय हितः । रमयिता । प्रीतिकरः (भूत्) भवेत् (दुरः) अस्माकं द्वाराणि (गिरः) स्तुतीः (अभि) अभिगत्य । प्राप्य (उग्रः) तेजस्वी (वि) विविधम् (धाव) ध्रुव गतिशुद्ध्योः । शीघ्रमागच्छ (कत्) कदा (वाहः) वाहकः । अश्वरथादिकः (अर्वाक्) अग्निदुस्तः (उप) उपेत्य

गौर (अज्ञैः) अज्ञों के सहित (राधः) धन (शक्याम्) पाने को समर्थ हो जाऊ ॥ ३ ॥

भावार्थ—प्रजागण पुरुषार्थी धार्मिक राजा का आदर पूर्वक निमन्त्रण का के उपनि के उपायों का विचार कर ॥ ३ ॥

कद्दु द्युम्नमिन्द्र त्वावतो नृन् कया धिया करसे कन्
आगन् । मित्रो न सत्य उरुगाय भृत्या अन्नं समस्य यत्सन्म-
नीपाः ॥ ४ ॥

कत् । ज् इति । द्युम्नम् । इन्द्र । त्वा-वतः । नृन् । कया ।
धिया । करसे । कत् । नृ । आ । अगन् ॥ मित्रः । न ।
सत्यः । उरु-गाय । भृत्यैः । अन्नं । समस्य । यत् । असन् ।
मनीपाः ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (त्वावतः)
तुझ जैसे का (द्युम्नम्) यश (नृन्) नेताओं में (कत् उ) जिस को है, (कया
धिया) किस बुद्धि के साथ (करसे) तू कर्तव्य करेगा, (उरुगाय , हे बहुत
कोति वाले ! (कत्) कैसे (न.) हम को (सत्यः) सच्चे (मित्र. न) मित्र के
समान (भृत्यैः) पालने के लिये (आ अगन्) तू प्राप्त हुआ है, (यत्) क्योंकि
(अज्ञैः) अज्ञ में (समस्य) सब की (मनीपाः) बुद्धियाँ (असन्) रहती हैं ॥४॥

(मा) माम् (मनीपा) प्रज्ञया (आ) आगत्य । प्राप्त्वा (त्वा) त्वाम्
(शक्याम्) प्राप्नु शक्याम् (उपमम्) समीपस्थम् (राधः) धनम् (अज्ञैः)
अदनीयपदार्थं ॥

४—(कन्) कस्मै मनुष्याय (उ) एव (द्युम्नम्) अ० ६ । ३५ । ३ ।
घोर्नमान यशः (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् राजन् (त्वावतः) त्वत्सदृशस्य (नृन्)
समस्यर्थे द्वितीया । नेतृषु (कया) कीदृश्या (धिया) प्रज्ञया (करसे) करोते-
ल्लेट् । कर्तव्यं करिष्यसि (कत्) कथम् (नः) अस्मान् (आ अगन्) प्राप्तवा-
नसि (मित्रः) सखा (न) यथा (सत्यः) सत्यशीलः (उरुगाय) अ० २ ।
१२ । १ । बहुकीर्ते (भृत्यैः) भरणाय । पोषणाय (अज्ञैः) (समस्य) सर्वस्य
(यत्) यतः (असन्) लेट् । भवन्ति (मनीपाः) बुद्धयः ॥

भावार्थ—मनुष्य संसार में अत्यन्त कीर्ति पाकर अपना पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिये प्रजा की रक्षा का विचार सच्चे हृदय से करता रहे ॥ ४ ॥

प्रेरय॑ सूर॑ो अर्थ॑ न पारं॑ ये अस्य॑ कामं॑ जनि॑धा इव॑ गमन् ।
गिर॑श्च॒ ये ते॑ तु विजा॑तं पूर्वी॑ नरं॑ इन्द्र॑ प्रति॑शिक्ष॒न्त्यन्नैः॑ ॥ ५ ॥
प्र । ई॒र॒य॒ । सू॒रः॑ । अर्थ॑म् । न । पार॑म् । ये । अस्य॑ ।
काम॑म् । जनि॑धाः-इव॑ । गमन् ॥ गिरः॑ । च॒ । ये । ते॑ । तुवि॑-
जा॒त॒ । पूर्वीः॑ । नरः॑ । इन्द्र॑ । प्रति॑-शिक्ष॒न्ति॑ । अन्नैः॑ ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(तुविजात) हे बहुत प्रकार से प्रसिद्ध (इन्द्र) इन्द्र !
[बड़े पेशवर्य वाले राजन्] (सूरः स) सूर्य के समान तू [उन को] (अर्थम्)
पाने योग्य (पारम्) पार की ओर (प्र ईरय) आगे बढ़ा (ये) जो
(जनिधाः इव) बीगे को उत्पन्न करने वाली पत्तियों के धारण करने वाले के
समान (अस्य) उस [तेरे] (कामम्) मनोरथ को (गमन्) प्राप्त होते हैं,
(च) और (ये) जो (नरः) नेता लोग (ते) तेरे लिये (पूर्वीः) सनातन
(गिरः) वाणियों [विद्याओं] को (अन्नैः) अन्नों के साथ (प्रतिशिक्षन्ति)
समर्पण करते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ—जैसे मनुष्य वीरसू पत्नी का प्रयत्न पूर्वक आदर करते हैं,
वैसी ही राजा हितैषी नेता पुरुषों की उन्नति में तत्पर रहे ॥ ५ ॥

५—(प्र) प्रकर्षण (ईरय) गमय (सूरः) सुसूधाऽगृधिभ्यः क्रन् ।
उ० २ । २४ । प्र प्रेरणे—क्रन् । सूर्यः (अर्थम्) उषिकुषिगर्तिभ्यश्चन् । उ० २ ।
४ । अङ्गतौ—थन् । अरणीयं प्रापणीयम् (न) यथा (पारम्) परतीरम् (ये)
पुरुषाः (अस्य) त्वदीयस्य (कामम्) मनोरथम् (जनिधाः) अ० २ । ३० ।
५ । जनि + दधातेः—क्विप् । जनीनां वीरपुत्रजनयित्रीणां पत्नीनां धर्तारः (इव)
यथा (गमन्) अगमन् । प्राप्नुवन्ति (गिरः) वाणीः । विद्याः (च) (ये)
(ते) तुभ्यम् (तुविजात) बहुप्रसिद्ध (पूर्वीः) सनातनीः (नरः) नेतारः
(इन्द्र) परमैश्वर्यवान् राजन् (प्रतिशिक्षन्ति) शिक्षतिर्दानकर्मा—निघ० ३ ।
२० । प्रत्यक्ष ददति । समर्पयन्ति (अन्नैः) ॥

मात्रेणु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी द्यौर्मज्जमना पृथिवी काव्येन ।
 वराय ते घृतवन्तः सुतासुः स्वाद्मन् भवन्तु पीतये मधूनि ॥६॥
 मात्रे हति । नु । ते । सुमिते हति सु-मिते । इन्द्र । पूर्वी
 हति । द्यौः । मज्जमना । पृथिवी । काव्येन ॥ वराय । ते ।
 घृत-वन्तः । सुतासुः । स्वाद्मन् । भवन्तु । पीतये । मधूनि ॥६॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले राजन] (तु)
 निश्चय करके (ते) मेरी (मात्रे) दो माप्रार्थ [उपाय शक्तियां] (सुमिते)
 अच्छे प्रकार नापी गयीं [जान्ची गयीं], (पूर्वी) सनातनी हैं किन्तु
 (मज्जमना) रागने बल ने और (काव्येन) बुद्धिमत्ता से (द्यौः) चमकते हुये
 सूर्य [के समान] और (पृथिवी) फैली हुई पृथिवी [के समान] है । (ते)
 तेरे (वराय) वर [रष्टरुत] के लिये (घृतवन्तः) प्रकाशमान (सुतासुः)
 निघोटे हुये तस्य रस है (मधूनि) निश्चित ज्ञान रस (पीतये) पीने के लिये
 (स्वाद्मन्) स्वादिष्ठ (भवन्तु) होवे ॥ ६ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य दो उपायों अर्थात् पराक्रम और बुद्धि से सूर्य
 और भूमि के समान उगकारी होता है, उस की इष्ट सिद्धि के लिये सत्कार के
 लय पदार्थ उपयोगी होने हैं ॥ ६ ॥

आ मध्वो अस्मा अविचममसिन्द्राय पूर्णं स हि सुत्यराधाः।
 स वावृधे वरिमन्ना पृथिष्या सुभि क्रत्वा नर्यः पीस्यैश्च ॥७॥

६—(मात्रे) हुयामाभसिभ्यस्वन् । उ० ४ । १६८ । माङ् माने—त्रन् ।
 द्वे मानस्यौ यज्ञशक्ती (तु) निश्चयेन (ते) तत्र (सुमिते) सुपरिमिते
 (इन्द्र) परमेश्वर्यधन् राजन (पूर्वी) सनातन्यौ (द्यौः) घोनमानः सूर्यो यथा
 (मज्जमना) अ० १३ । १ । १४ । शोधकेन बलेन (पृथिवी) विस्तृता भूमि
 र्थथा (काव्येन) फविकर्मणा । बुद्धिमत्तया (वराय) इष्टफलमाप्तये (ते)
 तत्र (घृतवन्तः) क्षीतिमन्तः (सुतासुः) निष्पादितास्तस्वरसाः (स्वाद्मन्)
 सातिभ्यां मनिन्मनिषौ । उ० ४ । १५३ । प्वद् स्वाद् वा आस्वाद्ने—मनिष्ण ,
 विभक्तोर्लुक् । स्वाद्मानि । सादिष्ठानि (भवन्तु) (पीतये) पानाय । प्रह-
 णाय (मधूनि) निश्चितज्ञानानि ॥

आ । मधुः । अस्मै । अस्मिन् । असन् । इन्द्राय ।
 पूर्णम् । सः । हि । सत्य-राधाः ॥ सः । वृधे । वरिमन् ।
 आ । पृथिव्याः । अग्नि । क्रत्वा । नर्यः । पौंस्यैः । च ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(अस्मै) इम (इन्द्राय) इन्द्र [परम पेश्वर्य वाले मनुष्य]
 के लिये (मधुः) मधुर रस [द्रव्य ज्ञान] का (पूर्णम्) पूरा (अमत्रम्)
 पात्र (आ) सब ओर से (अस्मिन्) उन्हीं ने [विद्वानों ने] लींचा है, (हि)
 क्योंकि (सः) वह (सत्यराधाः) सत्ये साधक धर्म धरता है । (नः) वह
 (नर्यः) नरों का हितकारी (पृथिव्याः) पृथिवी के (वरिमन्) फैलाव में
 (क्रत्वा) अपनी बुद्धि से (च) और (पौंस्यैः) मनुष्य कर्मों से (अग्नि)
 सब प्रकार (आ) पूरा पूरा (वृधे) बढ़ा है ॥ ७ ॥

भाषार्थ—विद्वानों का सिद्धान्त है कि पराक्रमी मनुष्य पूरा ज्ञानी
 होकर अपनी बुद्धि और कर्मों से परोपकार करता हुआ अभीष्ट पर अपना
 मोक्ष सुख पाता है ॥ ७ ॥

अस्मिन्लिन्द्रः पृतनाः स्वोजा आस्मै यतन्ते सुखयार्थं पूर्वीः ।
 आ स्मा रथं न पृतनास्तु तिष्ठ यं भद्रया सुनृत्या चोदयासे ॥ ८ ॥
 वि । आन् । इन्द्रः । पृतनाः । सु-ओजाः । आ । अस्मै ।
 यतन्ते । सुखयार्थं । पूर्वीः ॥ आ । स्मा । रथम् । न । पृत-
 नास्तु । तिष्ठ । यस् । भद्रया । सु-नृत्या । चोदयासे ॥ ८ ॥

७—(आ) समन्तात् (मधुः) मधुनः । मधुररसस्य । उत्तमज्ञानस्य
 (अस्मै) (अस्मिन्) अस्मिन् । लिक्तवन्तः (अमत्रम्) पात्रम् (इन्द्राय)
 परमेश्वर्यवते मनुष्याय (पूर्णम्) (सः) (हि) यस्मात् कारणात् (सत्य-
 राधाः) सत्यं राधः साधकं धर्मं यस्य सः (सः) (वृधे) वृद्धिं अकार (वरि-
 मन्) वरिमनि । वरुषे । विस्तारे (आ) समन्तात् (पृथिव्याः) भूमेः
 (अग्नि) सर्वतः (क्रत्वा) क्रतुना । प्रकृत्या (नर्यः) नृत्यो हितः (पौंस्यैः)
 अ० २० । ६७ । २ । मनुष्यकर्मभिः (च) ॥

शापार्थ—(श्वोजाः) सुन्दर यक्ष बाला (इन्द्र) इन्द्र [परम पेश्वर्यं बाला पुरुष] (पृथनाः) मनुष्यों में (वि आनट्) फैल गया है, (अस्मै) इन्द्र की (सखाय) मित्रता के लिये (पूर्वीः) सख [मनुष्य] (आ यतन्ते) यदा करते करते हैं । [हे राजन् !] (न) अथ (पृथनासु) मनुष्यों के बीच (स्म) अदृश्य (रथम्) रथ पर (आनिष्ठ) सूचक, (यम्) अन्न [रथ] को (भद्रया) कल्याण (सुमत्या) सुमति के साथ (चोदयासे) सूचकायना ॥ ८ ॥

भाषार्थ—शो धर्मान्ता पुरुष नक्ष में प्रथम और सुबोध होता है, सख मनुष्य उनसे मित्र बन जाते हैं और वह नभी रथ रूपी राजकाय आदि व्यवहार का उत्तम नीति से पलाता है ॥ ८ ॥

सूक्तम् १७ ॥

१—८ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ४, ६ निचूत् मिण्डुप् ; २ निचूत् पङ्क्तिः ; ३, ५ मिण्डुप् , ७, ८ निराट् मिण्डुप् ॥

राजधर्मोपदेशः—राजा के धर्म का उपदेश ॥

आ सुत्यो यांतु सुघर्षी चञ्जीषी द्रवन्त्वस्य हरय उप नः ।
तरसा इदन्धः सुदुमा सुदक्षमिहाभिपित्वं करते गृणानः ॥१॥
आ । सुत्यः । यांतु । सुघ-र्षी । चञ्जीषी । द्रवन्त्वु । अस्य ।
हरयः । उप । नः ॥ तरसा । इत् । अन्धः । सुदुम ।
सु-दक्षम् । सुह । अग्नि-पित्वम् । करते । गृणानः ॥ १ ॥

८—(वि आनट्) व्याप्नोति (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् पुरुषः (पृथनाः) मनुष्यान्—निघ० २ । ३ (श्वोजाः) शोभनबलः (आ) समन्तात् (अस्मै) यद्यर्थे चतुर्थी । अन्धः । इन्द्रस्य (यतन्ते) यत्तं कुर्वन्ति (सखाय) सखित्वाय मित्रभावाय (पूर्वीः) समन्ता मनुष्यप्रजाः (स्म) अदृश्यम् (रथम्) रथरूप राज्यव्यवहारम् (न) सम्प्रति (पृथनासु) मनुष्येषु (आ तिष्ठ) आरोह (यम्) रथम् (भद्रया) कल्याणया (सुमत्या) शोभनया सुखया (चोदयासे) लोडि रूपम् । चोदयेः । प्रेरयेः ॥

भाषार्थ—(सत्यः) सच्छा [सत्यवादी, सत्यकर्मी], (मघवान्) महाघनी, (ऋजीषी) सरल स्वभाव वाला [राजा] (आ यातु) आवे, और (अद्य) इस [राजा] के (हरयः) मनुष्य (नः) हमारे (उगद्रवन्तु) पाश्च [आवे] । (तस्मै) उस के लिये (इत्) ही (सुवक्षम्) सुन्दर बल वाला (अन्धः) अन्न (सुषुम) हमने सिद्ध किया है, (गृणानः) उपदेश-करता हुआ वह (इह) यहां (अभिपित्वम्) मेल मिलाप (करते) करे ॥ १ ॥

भावार्थ—राजा और राजा के पुरुष धर्मात्मा होकर प्रेम से प्रजा का पालन करें, और प्रजागण भी पेश्वर्य बढ़ाकर उस से प्रीति करें ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है— ४। १६। १-८ ॥

अथ स्य शूराध्वनेो नान्तेऽस्मिन् नो अद्य सवने सुन्दध्यै ।
शंसात्युक्थसुशनेव वेधाश्चिकितुषे अद्दुरीय मन्म ॥ २ ॥

अथ । स्य । शूर । अध्वनः । न । अन्ते । अस्मिन् । नः ।
अद्य । सवने । सुन्दध्यै ॥ शंसाति । उक्थसु । सुशना-इव ।
वेधाः । चिकितुषे । अद्दुरीय । मन्म ॥ २ ॥

भाषार्थ—(शूर) हे शूर । [राजन्] (अध) अब (अस्मिन्) इस (अन्ते) पास वाले (सवने) पेश्वर्य में (मन्दध्यै) आनन्द करने के लिये (नः)

१—(आ यातु) आगच्छतु (सत्यः) सत्यवादी । सत्यकर्मी (मघवान्) मघवान् (ऋजीषी) अर्जुन च । उ० ४ । २८ । अर्जु संचये—ईपन्, कित्, ऋजादेशः, यडा, ऋज गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु, ईपन्, कित्, ऋजीष—इनि । ऋजुस्वभावः । सरलस्वभावः (द्रवन्तु) गच्छन्तु (अद्य) राक्षः (हरयः) मनुष्याः (उप) (नः) अस्मान् (तस्मै) राज्ञे (इत्) एव (अन्धः) अन्नम् (सुषुम) अ० २० । ३ । १ । वयं निष्पादितवन्तः (सुवक्षम्) शोभनबलयुक्तम् (इह) (अभिपित्वम्) अ० २० । २५ । ६ । सगमम् (करते) कुर्यात् (गृणानः) उपदिशन् ॥

२—(अब स्य) यो अन्तर्कर्मणि—लोट् । विनाशय (शूर) हे निर्भय राजन् (अध्वनः) मार्गान् (न) निषेधे (अन्ते) समीपस्थे (अस्मिन्) (नः)

हमारे (अध्वनः) मार्गों को (न) मन (अच रथ) विनष्ट कर । (उशना इव) चाहने योग्य पुरुष के समान (वेधा.) बुद्धिमान् पुरुष (चिकितुषे) ज्ञानवान् (असुर्याय) प्राणियों के हितकारी के लिये (उक्थम्) कहने योग्य कर्म और (मन्म) मनन योग्य ज्ञान को (शान्ति) कहे ॥ २ ॥

भाषार्थ—राजा ऐसा उपाय करे कि सब लोग वे रोक स्वनन्त्र होकर ससार के पदार्थों से उन्नति करें और विद्वान् लोग मिलकर प्राणियों के हित के लिये विचार करते रहें ॥ २ ॥

कृषिर्न नियमं विदधानि साधन् वृषा यत् सेकं विपिपानो
अर्चात् । द्विव इत्या जीजनत् सुप्त कारुनहा चिच्चक्रुर्बु-
युना गृणन्तः ॥ ३ ॥

कृषिः । न । नियमम् । विदधानि । साधन् । वृषा । यत् ।
सेकम् । वि-पिपानः । अर्चात् ॥ द्विवः । इत्या । जीजनत् ।
सुप्त । कारुन् । अहा । चित् । चक्रुः । वयुना । गृणन्तः ॥३॥

भाषार्थ—(कृषिः न) जैसे बुद्धिमान् पुरुष (विदधानि) जानने योग्य कर्मों को (साधन्) सिद्ध करता हुआ (नियमम्) गूढ़ अर्थ को, [वैसे ही] (यत्) जो (वृषा) सुप्तों का बरसाने वाला बलवान् [राजा] (सेकम्) सिञ्चन [वृद्धि के प्रयत्न] को (विपिपानः) विशेष करके रक्षा करता हुआ

अस्माकम् (अद्य) इदानीम् (सत्रने) ऐश्वर्ये (मन्ध्रै) तुमर्धे सेसेनसे-
असेन्० । पा० ३ । ४ । ६ । मदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु—अध्यैप्रत्ययः
मन्दितुमानन्दितुम् (शान्ति) कथयेत् (उक्थम्) वक्तव्यं प्रशंसनीय कर्म
(उशना) अ० २० । २५ । ५ । कमनीयः पुरुष. (इव) यथा (वेधाः) मेधावी
(चिकितुषे) अ० ४ । ३० । २ । कित ज्ञाने—कसु । ज्ञानिने (असुर्याय) अ० २० ।
५८ । ४ । प्राणिभ्यो हितकराय (मन्म) मननीय ज्ञानम् ॥

३—(कृषिः) मेधावी (न) यथा (नियमम्) अ० ६ । १० । १५ । निर् +
शीञ् प्राप्तये—यक्, टिष्ठाणे रेफलोपश्च । अन्तर्हित गूढमर्थम् (विदधानि) -
ज्ञातव्यानि कर्माणि (साधन्) साधयन् (वृषा) सुप्ताना वर्षकः । वलिष्ठः
(यत्) यः (सेकम्) सिञ्चनम् । वृद्धिप्रयत्नम् (विपिपानः) पा रक्षणे कान्च ।

(अर्वात्) सन्कार करे, वर (इत्या) इल प्रकार से (सप्त) सात (पाठन्) काम करने वालों [अर्वात् त्वच्चा नेत्र, धान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि, अथवा दो कन, दो नथने, दो आंखें और एक मुख, इन सात] को (दिवा) दिव्यवहार कुशल (जीजनत्) उ पद्य करे, (चित्) जैसे (गृणन्तः) उपदेश करते: दृये पुरुषों ने (अहा) दिन के साथ (वयुनानि) जानने योग्य कर्मों को (पद्भुः) दिया है ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो राजा बुद्धिमन्तों के समान गूढ विचार वाला और बुद्धि करने वाला होता है, वह सा के शरीर और बुद्धि जो व्यवहार कुशल करने पहिले मज्जरमाओं के सदृश अद्भुत कर्मों को दिन के प्रकाश के समान प्रकट करता है ॥ ३ ॥

मन्त्र में (काठ) पद्म रूपि आदि वाच्य है । यजुर्वेद ३३ । एष सा वचन है (सप्त आद्यः प्रतिहितः शरीरे) शरीर में सप्त रूपि एवमेव प्रये हैं । [सप्तः रूपयः पदिभिः प्रयाणि विद्या सप्तमी] सात रूपि एव इन्द्रियां और ज्ञानवीं विद्या [बुद्धि] है—मि० १२ । ३७ (काः कर्म ज्ञानि दि सतर्द शीर्षणि । दर्शाः धिमो नासिके चक्षणी मुखम] कर्ता ने [मनुष्य के] मरतक में लाल गोठक खोले, यह दो प. न, दोनों नथने, दोनों आंखें और एक मुख—अथ० १० । २ । ६ ॥

स्वैर्यद् वेदि सुदृशीकसुर्कैर्सहि ज्योतीं वरुच्युद्बु वस्तोः ।
अन्धा तर्मासि बुधिता विचक्षे नृभ्यश्चारु नृत्सो अभिष्टौ ४
स्वैः । यत् । वेदि । सु-दृशीकसु । सुर्कैः । सहि । ज्योतिः ।
वरुच्युः । यत् । हु । वस्तोः ॥ अन्धा । तर्मासि । बुधिता ।
वि-चक्षे । नृ-भ्यः । अ-चारु । नृ-त्सः । अभिष्टौ ॥ ४ ॥

विशेषे रत्न (अर्वात्) सत्कुर्यात् (चित्) दिव्यव्यवहारे—विष् । दिव्यवहार-
कुशलान् (इत्या) अनेन प्रकारेण (जीजनत्) । लक्ष्ये । बुद्धि । अजीजनत् ।
जनयेत् (सप्त) सप्तसंख्य फ न (काठन्) कुवाच ० । उ० १ । १ । करोते—
वष् । दार्यवर्तुन् रुसः रूपोन् । अ० ४ । ११ । ६ । सप्त होतृन् । अ० ४ । २४ । ३
(अहा) दिवसेभ (चित्) यथा (पद्भुः) इतदन्तः (वयुनानि) अ० २ । २८ ।
२ । ज्ञातव्यानि कर्माणि (गृणन्तः) उपदिशन्तः ॥

भाषार्थ—(यत्) जो (अर्कः) पूजनीय विचारी से (सुदृशीकम्) उत्तम प्रकार से उपाये योग्य, (महि) बरा (ज्योतिः) प्रकाशमय (स्वः) सुख (वेदि) जाना गया है, और (यत्) जिम [न्युक्त] से (ह) निश्चय करके (वस्तोः) दिन [के समान] (वस्तुः) से [विद्यान् जन] प्रकाशित हुये हैं । [उक्त सुख के लिये] (नृत्तमः) तब से यज्ञोपवीता पुत्र्य ने (अभिष्टौ) सप्त प्रकार मिलान में (नृत्तमः) नेता लोगों के निमित्त (विचक्षे) विशेष करके देने के अर्थ (अन्धा) भागी (तर्मासि) अन्धकारों को (बुधिता) नष्ट (चकार) किया है ॥ ४ ॥

भाषार्थ—जिम सुख को महात्मा लोगों ने बड़े विचारों से अनुभव करके हृदय का आचरण हुआ है, उन् सुख की सुनीतिज्ञ राजा सूर्य के प्रकाश के समान विद्वानों में बढ़ाकर प्रजा पावन करे ॥ ४ ॥

सुखं हन्तुं अमितमृजीषुं भे आ पृथ्वी रोदसी महित्वा ।
अतश्चिदस्य महित्वा दि रेच्युभि यो विश्वा भुवना बभूव ॥५॥
सुखे । हन्तुः । अमितम् । मृजीषुः । उभे इति । आ । पृथ्वी ।
रोदसी इति । महि-त्वा ॥ अतः । चित् । अस्य । महित्वा ।
दि । रेच्युः । अभि । यः । विश्वा । भुवना । बभूव ॥ ५ ॥

४—(स्वः) सुखम् (यत्) (वेदि) अवेदि । शातम् (सुदृशीकम्) सुखः कीकचक्रणौ । उ० ४। २४ । इतोः—कीकच् । सुखं दर्शनीयम् (अर्कः) पूजनीयविचारीः (महि) महत् (ज्योतिः) प्रकाशमयम् (वस्तुः) वीसियुक्ता बभूवुः, से विद्यासः (यत्) येन सुखेन (ह) निश्चयेन (वस्तोः) दिनम् । दिनप्रकाशो यथा (अन्धा) अन्धानि । निघिलानि (तर्मासि) अन्धकारान् (बुधिता) बुधित् अर्धने—क, ह्यन्य ध । बुधितानि । भाशितानि (विचक्षे) चक्षिष् व्यकारं पाचि दर्शने च—क्विप । विशेषेण दर्शनाय (नृत्तमः) नेदुभ्यः (चकार) कृतवान् (नृत्तमः) प्रतिशयेन नेता (अभिष्टौ) यज्ञेः क्तिन् । सर्वतः सगतौ ॥

भाषार्थ—ऋजीषी) सरल स्वभाव वाले (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेशवर्ष वाले जगदीश्वर] ने (अमितम्) अतः सामर्थ्य को (वचने) पाया है, और (महिषा) अपनी महिमा से (उभे) दोनों (रोदली) सूर्य और भूमि को (आ) सक्ष प्रकार (पशौ) भर दिया है । (अतः) इस कारण से (चित्) ही (अस्य) इस [जगदीश्वर] की (महिमा) महिमा (वि) विशेष करके (रेचि) अधिक हुई है, (यः) जो (विश्वा) सब (भुवना) लोकों में (अभि वभूव) व्यापक हुआ है ॥ ५ ॥

भाषार्थ—जो परमात्मा अपने अनोल बल से अनन्त संसार को धारण कर रहा है, उसी के गुण जानकर मनुष्य अपना सामर्थ्य बढ़ाएँ ॥ ५ ॥

विश्वानि शुक्रो नर्याणि विद्वानपो रिरेषु खलिभिर्निकामैः ।
अश्मानं चिद् ये विभिदुर्वचोभिर्ब्रजं गोसन्तमुशिजो विव्रुः
विश्वानि । शुक्र । नर्याणि । विद्वान् । अपः । रिरेषु ।
खलि-भिः । नि-कामैः ॥ अश्मानम् । चित् । ये । विभिदुः ।
वच-भि । ब्रजम् । गो-सन्तम् । उशिजः । वि । वव्रुरिति
वव्रुः ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(विद्वान्) विद्वान् (शक्रः) शक्ति वाले [इन्द्र मनुष्य] ने

५—(वचने) बहनेर्लिङ्गर्थे; लेट् । सिव्यहुलं लेटि । पा० ३ । १ । ३४ इति मिप् । बहुल छन्दनि । पा० २ । ४ । ७६ । इति शपःश्लुः । ढत्वकारवचत्वानि । लोपस्त आत्मने पदेषु । पा० ७ । १ । ४१ । इति तल्लोपः । वहते, गतिकर्पा-निघ० २ । १४ । उवा ६ । प्राप (इन्द्रः) परमैश्वर्ययुक्तो जगदीश्वरः (अमितम्) अपरिमित सामर्थ्यन् (ऋजीषी) मं० १ । सरलस्वभावः (उभे) द्वे (आ) समन्तात् (पशौ) पूरितवान् (रोदली) सूर्यभूमी (महिषा) महत्त्वेन (अतः) अस्मात् कारणात् (चित्) एव (महिमा) (अस्य) ईश्वरस्य (वि) विशेषेण (रेचि) अरेचि । अधिकोऽभवत् (अभि) अभीत्य । व्याप्य (यः) ईश्वरः (विश्वा) सर्वाणि (भुवना) भुवनानि (वभूव) ॥

६—(विश्वानि) ; सर्वाणि (शक्रः) शक्तिमान् राजा (नर्याणि)

(निकामैः) निश्चित कामना वाले (सखिमिः) मित्रों के साथ (विश्वानि) सब (नर्याणि) नेताओं के हितकारी (अपः) कर्मों को (रिरेच) फैलाया है । (ये) जिन [बुद्धिमानों] ने (वचोमि.) अपने वचनों से (अश्मानम्) व्यापक विघ्न [अथवा मेघ के समान अन्धकार फैलाने वाले शत्रु] को (चित्) निश्चय कर के (विभिदुः) तोड़ा फोड़ा है, (उशिजः) उन बुद्धिमानों ने (गोमन्तम्) वेदवाणी वाले (व्रजम्) मार्ग को (वि वद्रुः) खोल दिया है ॥ ६ ॥

भावार्थ—राजा को योग्य है कि सत्यवादी पराक्रमी मित्रों के साथ अज्ञान का नाश कर के विद्या की वृद्धि से प्रजा पालन करे ॥ ६ ॥

अपो वृषं वद्विवांसं पराहन् प्रावत् ते वज्रं पृथिवी सचेताः ।
प्राणींसि समुद्रियाण्यैनोः पतिर्भवं स्वसा शूर धृष्णो ॥ ७ ॥
अपः । वृषम् । पद्वि-वांसम् । परा । अहन् । प्र । आवत् ।
ते । वज्रम् । पृथिवी । स-चेताः ॥ प्र । प्राणींसि । समुद्रि-
याणि । ऐ-नोः । पतिः । भवन् । स्वसा । शूर । धृष्णो इति७

भावार्थ—(धृष्णो) हे साहसी (शूर) शूर पुरुष ! (शवसा) बल के साथ (पतिः) स्वामी (भवन्) होते हुये तू ने (अपः) कर्म के (वद्विवांसम्) रोकने वाले (वृषम्) अन्धकार को (परा अहन्) मार फेंका है, (सचेताः)

नेतृभ्यो हितानि (विद्वान्) (अपः) बहुवचनस्यैकवचनम् । अपांसि कर्माणि (रिरेच) रिचिर् विरेचने । व्यक्तीकृतवान् (सखिमिः) मित्रैः (निकामैः) निश्चितकामनायुक्तैः (अश्मानम्) व्यापकं विघ्नम् । मेघमिधान्वकारकरं शत्रुम् (चित्) निश्चयेन (ये) मेधाविनः (विभिदुः) द्विजमिश्रं कृतवन्तः (वचोमिः) वचनैः (व्रजम्) मार्गम् (गोमन्तम्) वेदवाणीयुक्तम् (उशिजः) शुभशुणान् कामयमाना मेधाविनः (वि वद्रुः) विवृर्त व्यक्तं कृतवन्तः ॥

७—(अपः) कर्म—निघ० २।१ (वृषम्) अन्धकारम् (वद्विवांसम्) वृषोतेः—कसु । आवरकम् (परा) दूरे (अहन्) मध्यमपुरुषस्य प्रथमः । अहः । नाशितवानसि (प्र) प्रकर्षण (आवत्) अव रक्षणादानादिषु—लङ् । गृहीतवती (ते) तव (वज्रम्) दण्डम् । शासनम् (पृथिवी) (सचेतः)

सचेत (पृथिवी) भूमि ने (ते) तेरे (वज्रम्) वज्र [शासन] को (प्र) अच्छे प्रकार (आघत्) माना है, और तू ने (समुद्रियाणि) समुद्र-के योग्य (अर्णांसि) बहते हुये जलों को (प्र) आगे को (पेनोः) चलाया है ॥ ७ ॥

भाषार्थ—पुरुषार्थी राजा कर्म प्रधान होकर प्रजा को शासन में रखे और खेती आदि सींचने के लिये नदी नालों को पहाड़ों से समुद्र तक पहुंचावे ॥ ७ ॥

अपो यदद्रिं पुरुहूतु ददर्वाविशुवत् सुरमा पुर्व्यं ते । स नो
नेता वाजसा दर्षि भूरि गोत्रा रुजन्नङ्गिरोभिर्गुणानः ॥ ८ ॥

अपः । यत् । अद्रिम् । पुरु-हुतु । दर्दः । आविः । भुवत् ।
सुरमा । पुर्व्यम् । ते ॥ सः । नः । नेता । वाजस्र् । आ ।
दर्षि । भूरिम् । गोत्रा । रुजन् । अङ्गिरः-भिः । गुणानः ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(पुरुहूत) हे बहुतों से बुलाये गये [राजन् ।] (यत्) जब तू (अपः) जलों को (अद्रिम्) पहाड़ से (दर्दः) तोड़े, [तब] (ते) तेरी (सुरमा) चलने योग्य सरस नीति (पुर्व्यम्) सनातन व्यवहार को (आविः भुवत्) प्रकट करे । (सः) हो तू (नः) हमारा (नेता) नेता होकर, (गोत्रा) पहाड़ों को [मार्ग के लिये] (रुजन्) तोड़ता हुआ और

चेतनावती (प्र) प्रकर्षेण (अर्णांसि) गतिमन्ति जलानि (समुद्रियाणि) समुद्रार्हाणि (पेनोः) इण् गतौ, अन्तर्गतस्यर्थः—लुङ्, आङ्गागमो वृद्धिश्च, छान्दसः श्लुः । अगमयः । प्रेरितवानसि (पतिः) स्वामी (भवन्) सन् (शवसा) बलेन (शूर) वीर (धृष्यो) दृढात्मन् ॥

८—(अपः) जलानि (यत्) यदा (अद्रिम्) अद्रिसकाशात् पर्वतात् (पुरुहूत) हे बहुभिराहूत (दर्दः) दृ विदारणे—लुङ् लिङ्गर्थे । विदारयेः (आविः) प्राकट्ये (भुवत्) अन्तर्गतस्यर्थः । भावयेत् । कुर्यात् (सुरमा) अ० ६ । ४ । १३ । सृ गतौ—अमप्रत्ययः, टाप् । सुरमा पदनाम—निघ० ५ । ५ । सरणीया । प्राप्तव्या सरसा नीतिः (पुर्व्यम्) पुराणं व्यवहारम् (ते) तव (सः) स त्वम् (नः) अस्माकम् (नेता) नायकः (वाजस्र्) बलम् (आ दर्षि)

(अङ्गिरोमिः) विद्वानों के साथ (गृणानः) उपदेश करता हुआ (भूरिम्) बहुत (वाजम्) पगक्रम को (आर्षिः) आदर करे ॥ ८ ॥

भावार्थ—जब राजा उच्चम नीति से पहाड़ों से नदी नाले निकाल कर प्रजा को जेनी शिखर आदि व्यवहारों से प्रसन्न रखता है, वह विद्वानों के साथ आने जाने के लिये मार्गों को खोल कर आदर के साथ सामर्थ्य बढ़ाता है ॥८॥

सूक्तम् ७८ ॥

१-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छन्दः ॥

राजप्रजावर्तनोपदेशः—राजा और प्रजा के वर्तव का उपदेश ॥

तद् वीं गाय सुते सचा पुरुहुताय सत्वने । अं यद् गवे न
शाकिने ॥ १ ॥

तत् । वः । गाय । सुते । सचा । पुरु-हुताय । सत्वने ॥ शम् ।
यत् । गवे । न । शाकिने ॥ १ ॥

भावार्थ—[हे विद्वानों !] (वः) अपने लिये (सुते) उत्पन्न संसार के बीच (सचा) नित्य मिलान के साथ (पुरुहुताय) बहुतों से बुलाये गये, (शाकिने) शक्तिमान् (सत्वने) वीर राजा के लिये (तत्) उस कर्म को (गाय) तुम गाओ, (यत्) जो (न) अथ (गवे) भूमि के लिये (शम्) सुखदायक [होवे] ॥ १ ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग पुरुषार्थी राजा का उत्साह लक्षितकारी काम करने के लिये बढाते रहें ॥ १ ॥

अ० २० । ५२ । ३ । लोटर्थे लट् । आङ्गिरस्य (भूरिम्) प्रभूतम् (गोत्रा) गोत्रान् । शीलान् (रुजन्) भञ्जन् (अङ्गिरोमिः) विद्वद्भिः (गृणानः) उपदिशन् ॥

१—(तत्) प्रसिद्धं कर्म (वः) शुष्मभ्यम् (गाय) गायत यूयम् (सुते) उत्पन्ने जगति (सचा) नित्यसम्बन्धेन (पुरुहुताय) बहुविधाहृताय (सत्वने) अ० ५ । २० । ८ । वीराय राज्ञे (शम्) सुखप्रदम् (यत्) कर्म (गवे) भूमौ (न) सम्प्रति (शाकिने) शक्तिमते ॥

यह तृच ऋग्वेद में है—६। ४५। २२—२४ सामवेद—३० ८। २। तृच
४। मन्त्र १ साम० पू० २। ३। १ ॥

न घ्रा वसुर्नि यमते दानं वाजस्य गोमंतः । यत् सीमुप
श्रवद् गिरः ॥ २ ॥

न । घ्रा । वसुः । नि । यमते । दानम् । वाजस्य । गो-मंतः ॥
यत् । सीम् । उप । श्रवत् । गिरः ॥ २ ॥

भाषार्थ—(वसुः) बसाने वाला राजा (गोमंतः) उत्तम विद्या से युक्त
(वाजस्य) बल के (दानम्) दान को (न घ) कभी नहीं (नि यमते) रोके,
(यत्) जब कि वह (गिरः) हमारी वाणियों को (सीम्) सब प्रकार (उप
श्रवत्) सुन लेवे ॥ २ ॥

भाषार्थ—राजा प्रजा के क्लेशों को ध्यान में रखकर उत्तम विद्या
देकर उन का बल बढ़ावे ॥ २ ॥

कुवित्सस्य प्र हि ब्रजं गोमन्तं दस्युहा गमत् । शुचीभिरप
नो वरत् ॥ ३ ॥

कुवित्-सस्य । प्र । हि । ब्रजम् । गो-मन्तम् । दस्यु-हा ।
गमत् ॥ शुचीभिः । अपः । नः । वरत् ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(दस्युहा) डाकुओं का मारने वाला राजा (कुवित्सस्य)
बहुत दानी पुरुष के (हि) ही (गोमन्तम्) उत्तम विद्याओं से युक्त (ब्रजम्)

२—(न) निषेधे (घ) एव (वसुः) वासिथिता (नि) नितराम् (यमते)
यमु उपरमे । उपरतं निरुद्धं कुर्यात् (दानम्) (वाजस्य) बलस्य (गोमंतः)
प्रशस्तविद्यायुक्तस्य (यत्) यद्वा (सीम्) सर्वतः (उप) समीपे (श्रवत्)
शृणुयात् (गिरः) वाणीः ॥

३—(कुवित्सस्य) कुवित् बहुनाम—निघ० २। १, षण्णु दाने—इप्रत्ययः ।
बहुदानशीलस्य (प्र) प्रकर्षेण (हि) एव (ब्रजम्) मार्गम् (गोमन्तम्)

मार्ग पर (प्र) अच्छे प्रकार (गमत्) चले और (शचीभिः) बुद्धियों वा कर्मों के साथ (नः) हम को (अप) आनन्द से (वरत्) स्वीकार करे ॥ ३ ॥

भावार्थ—राजा दानी विद्वानों को नीति को मानकर श्रेष्ठों की सदा रक्षा करे ॥ ३ ॥

सूक्तम् ७८ ॥

१—२ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ पथग वृद्धी, २ खराडार्षी वृद्धी ॥

राजकर्तव्योपदेशः—राजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

इन्द्रं क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । शिक्षा णो
अस्मिन् पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ १ ॥

इन्द्र । क्रतुम् । नः । आ । भर । पिता । पुत्रेभ्यः । यथा ॥
शिक्षा । नः । अस्मिन् । पुरु-हुत । यामनि । जीवाः ।
ज्योतिः । अशीमहि ॥ १ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [परम ऐश्वर्य वाले राजन्] तू (नः) हमारे लिये (क्रतुम्) बुद्धि (आ भर) भर दे, (यथा) जैसे (पिता) पिता (पुत्रेभ्यः) पुत्रों [सन्तानों] के लिये । (पुरुहूत) हे बहुत प्रकार बुलाये गये [राजन् !] (अस्मिन्) इस (यामनि) समय वा मार्ग में (नः) हमें (शिक्षा) शिक्षा दे, [जिस से] (जीवाः) हम जीव लोग (ज्योतिः) प्रकाश को (अशीमहि) पावें ॥ १ ॥

भावार्थ—राजा उत्तम उत्तम विद्यालय, शिल्पशाला आदि खोलकर प्रजा का हित करे जैसे पिता सन्तानों का हित करता है, जिस से लोग अज्ञानके अन्धकार से छूट कर ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त हों ॥ १ ॥

मन्त्र १ आ चु का है—अ० १८ । ३ । ६७ ॥

प्रशस्तविद्यामियुक्तम् (दस्युहा) दस्यूनां दुष्टचोराणां नाशकः (गमत्) गच्छेत् (शचीभिः) प्रज्ञाभिः कर्मभिर्वा (अप) आनन्दे (नः) अस्मान् (वरत्) वृणुयात् । स्वीकुर्यात् ॥

१—अयं मन्त्रो व्याख्यातः—अ० १८ । ३ । ६७ ॥

मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्वेत्साशिवासा अव क्रमुः ।
त्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शूर तरामसि ॥ २ ॥

मा । नः । अज्ञाताः । वृजनाः । दुः-आध्यः । मा । अशि-
वासः । अव । क्रमुः ॥ त्वया । वयम् । प्र-वतः । शश्वतीः ।
अपः । अति । शूर । तरामसि ॥ २ ॥

भाषार्थ—(नः) हम को (मा) न तो (अज्ञाताः) अनजाने हुये
(वृजनाः) पापी, (दुराध्यः) दुष्ट दुष्टि वाले, और (मा) न (अशिवासः)
अकल्याणकारी लोग (अव क्रमुः) उल्लंघन करें । (शूर) हे शूर (त्वया)
तेरे साथ (वयम्) हम (प्रवतः) नीचे देशों [जार्ह, सुरङ्ग आदि] और
(शश्वतीः) बढ़ते हुये (अपः) जलों को (अति) लांघ कर (तरामसि) पार
हो जावें ॥ २ ॥

भावार्थ—राजा ऐसा प्रवन्दे करे कि गुप्त दुराचारी लोग प्रजा को न
सतावें और नौका, यान, विमान आदि से अपने लोग कठिन मार्गों को सुख से
पार करें ॥ २ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—७ । ३२ । २७; सामवेद—७० ६ । ३ । ६ ॥

सूक्तम् ८० ॥

१—२ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ विराट् पथ्या वृहती; २ ब्राह्मी गायत्री छन्दः ॥

राजकर्तव्योपदेशः—राजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

२—(मा) निषेधे (नः) अस्मान् (अज्ञाताः) अविदिताः । गुप्ताः
(वृजनाः) पापिनः (दुराध्यः) दुर्+आङ्+ध्यै चिन्तायाम्—किप् । दुरा-
ध्यः । दुष्टामिप्रायाः (मा) निषेधे (अशिवासः) अकल्याणकराः (अव क्रमुः)
अवक्रम्यन्तु । उल्लङ्घयन्तु (त्वया) (वयम्) (प्रवतः) निम्नान् देशान्
(शश्वतीः) वर्तमाने पृषद्बृहन्महज्जगच्छतृषश्च । ७० २ । ८४ । दुम्रो शिव
गतिवृद्धयोः—अति, अभ्यासवकारलोपे इकारस्य अकारः । वर्धमानाः ।
बह्वीः—निघ० ३ । १ (अपः) जलानि (अति) अतीत्य (शूर) निर्भय (तरामसि)
उल्लङ्घेमहि ॥

इन्द्र ज्येष्ठं नु आ भरं अोजिष्ठं पपुरि अवंः ।

येनेमे चित्र वज्रहस्तु रोदसी ओभे सुशिप्र माः ॥ १ ॥

इन्द्रं । ज्येष्ठम् । नुः । आ । भर । अोजिष्ठम् । पपुरि ।

अवंः ॥ येन । इमे इति । चित्र । वज्र-हस्तु । रोदसी इति ।

आ । उभे इति । सु-शिप्र । माः ॥ १ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [वड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (नः) हमारे लिये (ज्येष्ठम्) अनि श्रेष्ठ, (अोजिष्ठम्) अत्यन्त बल देने वाला, (पपुरि) पालन करने वाला (अवंः) यश (आ) सब ओर से (भर) धारण कर (येन) जिस [यश] से, (चित्र) हे अद्भुत स्वभाव वाले, (वज्रहस्त) हे वज्र हाथ में रखने वाले ! (सुशिप्र) हे दृढ़ जायडों वाले ! (इमे) इन (उभे) दोनों (रोदसी) अन्तरिक्ष और भूमि को (आ माः) तू ने भर दिया है ॥ १ ॥

भावार्थ—दृढ़ स्वभाव और दृढ़ शरीर वाला राजा आकाश और भूमि पर चलने के लिये उपाय करके यशस्वी होवे ॥ १ ॥

मन्त्र १, २ ऋग्वेद में हैं—६ । ४६ । ५, ६, मन्त्र १ सामवेद—पू० ६ । १० । १॥

त्वामुग्रमवंसे चर्षणीसहं राजन् देवेषु हूमहे । विश्वा सु नो
विथुरा पिबुना वसोऽमित्रान् सुषहान् कृधि ॥ २ ॥

त्वाम् । उग्रम् । अवंसे । चर्षणि-सहम् । राजन् । देवेषु ।
हूमहे ॥ विश्वा । सु । नः । विथुरा । पिबुना । वसो इति ।

१—(इन्द्र) परमेश्वर्यवन् राजन् (ज्येष्ठम्) अतिशयेन प्रशस्तम् (नः)
अस्मभ्यम् (आ) समन्तात् (भर) धर (अोजिष्ठम्) अतिशयेन बलप्रदम्
(पपुरि) आह्वगमहन० । पा० ३ । २ । १७१ । पृ० पालनपूरणयोः—किन् । उदो-
ष्ठ्यपूर्वस्य । पा० ७ । १ । १०२ । इत्युत्वम् । पालकम् । पोषकम् (अवंः)
यशः (येन) यशसा (इमे) दृश्यमाने (चित्र) अद्भुतस्वभाव (वज्रहस्त)
शस्त्रारूपाणे (रोदसी) अन्तरिक्षभूमी (आ) (उभे) (सुशिप्र) दृढ़हृदो
(माः) पूरितवानसि ॥

अमित्रान् । सु-सहान् । कृधि ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—(राजन्) हे राजन् ! (देवेषु) विद्वानों में (अवसे) रक्षा के लिये (उग्रम्) तेजस्वी, (चर्षणिसहम्) मनुष्यों के वश में रखने वाले (त्वाम्) तुझ को (ह्रमहे) हम पुकारते हैं । (वसो) हे बसाने वाले ! (नः) हमारे (विश्वा) सब (विशुरा) कुक्षों को (पिबन्ना) खरडन योग्य और (अमित्रान्) वैरियों को (सुसहान्) सहज में हारने योग्य (सु) सर्वथा (कृधि) कर ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—राजा सदा ऐसा उपाय करे कि जिससे प्रजा के सब बाहिरी और भीतरी क्लेश दूर होवें ॥ २ ॥

सूक्तम् ८१ ॥

१—२ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ विराडापीं बृहती; २ निचेत् सतः पङ्क्तिः ॥

परमात्मगुणोपदेशः—परमात्मा के गुणों का उपदेश ॥

यद् द्यावं इन्द्र ते श्रुतं श्रुतं भूमीरुत स्युः ।

न त्वा वज्रिन्सहस्रं सूर्या अनु न ज्ञातमष्टु रोदसी ॥ १ ॥

यत् । द्यावः । इन्द्र । ते । श्रुतम् । भूमीः । उत । स्युरिति

स्युः ॥ न । त्वा । वज्रिन् । सहस्रं । सूर्याः । अनु । न ।

ज्ञातम् । अष्टु । रोदसी इति ॥१ ॥

२—(त्वाम्) (उग्रम्) तेजस्विनम् (अवसे) रक्षणाय (चर्षणिसहम्) मनुष्याणां सोढारम् । अभिभवितारं वशीकर्तारम् (राजन्) ऐश्वर्यवन् (देवेषु) विद्वत्सु (ह्रमहे) आह्वयामः (विश्वा) सर्वाणि (सु) सर्वथा (नः) अस्माकम् (विशुरा) अ० ७ । ६५ । १ । व्यथ ताडने—उरच्, कित् । व्यथनानि । कुलेशान् (पिबन्ना) कृपृवृजिमन्दिनिधाजः क्युः । उ० २ । ८१ । अपि + दाप् लवने दो अवलपडने वा क्यु । आतो लोप इटि च । पा० ६ । ४ । ६४ । आकारलोपः, वकारोपजनः । अपिदनानि । अवलपडनीयानि (वसो) हे वासयितः (अमित्रान्) शत्रून् (सुसहान्) सुखेन अभिभवनीयान् (कृधि) कुरु ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [वडे पेश्वर्य वाले परमात्मन्] (यत्) ओं (शतम्) सी (द्यावः) अन्तरिक्ष [वायु लोकाः], (उन) और (शतम्) सी (भूमी) भूमि लोकाः (न) तेरे [सामने] (स्युः) हों, [नतां वे स्वः] और (न) न (सहस्रम्) सहस्र (सूर्या) सूर्य लोक और (रोदसी) दोनों अन्तरिक्ष और भूमि लोकाः [मिल कर] और (न) न (जानम्) उत्पन्न हुआ जगत्, (वज्रिन्) हे दण्डवानी ! [परमात्मन्] (त्वा) तुझ को (अत्रु) निरन्तर (अष्ट) पा सके हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ—सब असंख्य लोक और पदार्थ अलग अलग होकर अथवा सब मिलकर परमात्मा की महिमा का पार नहीं पा सकते ॥ १ ॥

यह दोनों मन्त्र ऋग्वेद में हैं—= १७० [सायणभाष्य ५६] । ५, ६ ।
सामवेद—३० २ । २ । ११, और आगे हैं—अथ० २० । ६२ । २०, २१ । मन्त्र १
सा०—पू० २ । ६ । ६ ॥

कटोपनिषद् का वचन है—चरुणी ५ श्लोक १५ [न तत्र सूर्या गति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽथमग्निः । तमेव भान्तमनुभान्ति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभान्ति] उस पर न सूर्य चमकता है, न चन्द्रमा और तारे, न ये विजुलियां चमकती हैं, [फिर] यह अग्नि कहाँ, उसे ही चमकते हुये के पीछे सब चमकता है, उस की चमक से यह सब विविध प्रकार चमकता है ॥

आ पंप्राथ महिना वृषण्या वृषुन् विश्वा शविष्ठु शवसा ।
अस्माँ अं व सधवन् गोमति ब्रजे वज्रि चित्राभिरुतिभिः ॥२॥
आ । पुंप्राथ । महिना । वृषण्या । वृषुन् । विश्वा । शविष्ठु ।

१—(यत्) यदि (द्यावः) अन्तरिक्षलोकाः । वायुलोकाः (इन्द्र) हे परमेश्वर्यवान् परमात्मन् (ते) तत्राग्रे (शतम्) बहुसख्याकाः (शतम्) (भूमीः) भूमयः (उत) अपि च (स्युः) सप्रेयुः (न) निषेधे (त्वा) त्वाम् (वज्रिन्) दण्डधारिन् । शासनकर्तः परमात्मन् (सहस्रम्) अगणिताः (सूर्या) सूर्यलोकाः (अत्रु) निरन्तरम् (न) निषेधे (जानम्) उत्पन्नं जगन् (अष्ट) अष्ट व्याप्तौ—लुङ्, अहमावः, बहुवचनस्यैकवचनम् । आष्ट । आक्षत । व्याप्तवन्तः (रोदसी) अनग्निपृमी ॥

शवसा ॥ अस्मान् । अ॒व । म॒घ-व॒न् । गो-म॒ति । ब्र॒जे ।
वज्रि॒न् । चि॒त्राभिः । ऊ॒ति-भिः ॥ २ ॥

भाषार्थ—(वृषन्) हे शूर ! (शविष्ठ) हे श्रत्यन्त बली ! [परमात्मन्]
(महिना) अपने बड़े (शवसा) बल से (विश्वा) सब (वृष्या) शूर के
योग्य बलों को (आ) सब ओर से (पप्राथ) तू ने भर दिया है । (मघवन्)
हे महाधनी ! (वज्रिन्) हे दण्डधारी ! [शासक परमेश्वर] (गोमति) उत्तम
विद्या वाले (ब्रजे) मार्ग में (चित्राभिः) विचित्र (ऊतिभिः) रक्षाओं से
(अस्मान्) हमें (अव) बचा ॥ २ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि परमात्मा से प्रार्थना करके संसार
के सब पदार्थों से उपकार लेकर यथावत् पालन करें ॥ २ ॥

सूक्तम् ८२ ॥

१-२ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निचूदुपरिष्ठाद् बृहती; २ निचूदार्पी पङ्क्तिः ॥

राजप्रजाजनकर्तृथोपदेशः—राज पुरुषों और प्रजा जनों के कर्तव्य का
उपदेश ॥

यदि॒न्द्र याव॑तुस्त्वमे॒ताव॑द्द॒हमी॒शीय॑ । स्तो॒तार॒मिद् दि॑धिषे॒य
रदा॑वसो न पा॒पु॒त्वाय॑ रासी॒य ॥ १ ॥

यत् । इन्द्र । यावतः । त्वम् । एतावत् । अहम् । ईशीय ॥
स्तोतारम् । इत् । दिधिषेय । रदवसो इति रद-वसो । न ।
पापु-त्वाय । रासीय ॥ १ ॥

भाषार्थ—(रदवसो) हे धनों के खोदने वाले ! (इन्द्र) हे इन्द्र !

२—(आ) समन्तात् (पप्राथ) प्रा—लिट् । पूरितवानसि (महिना)
महता (वृष्या) अ० । ४ । ४ । ४ । वृष्ये बलवते हिनानि बलानि (वृषन्) हे
शूर (विश्वा) सर्वाणि (शविष्ठ) बलिष्ठ (शवसा) बलेन (अस्मान्) (अव)
रक्ष (मघवन्) धनवन् (गोमति) प्रशस्तविद्यायुक्ते (ब्रजे) मार्ग (वज्रिन्)
दण्डधारिन् शासक (चित्राभिः) अद्भुताभिः (ऊतिभिः) रक्षाभिः ॥

१—(यत्) यावता धनेन (इन्द्र) परमैश्वर्यवन् राजन् (यावतः)

[बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (त्वम्) तू (वाचतः) जितने धन का [स्वामी है, [उस में से] (अहम्) मैं (पतावत्) इतने का (ईशीय) स्वामी हो जाऊँ, (यत्) जितने से (स्तोतारम्) गुण व्याख्याता [विद्वान्] को (इत्) अवश्य (विधिषेय) पोषण करूँ और (पापत्वाय) पाप होने के लिये [उसको] (न) न (रासीय) दू ॥ १ ॥

भावार्थ—राजा प्रजा परस्पर ऐसी प्रीति रखें कि सब लोग विद्वान् होवें और पदार्थों के गुण जानकर धर्म से एक दूसरे का पालन करें और कभी पाप कर्म न करें ॥ १ ॥

दोनों मन्त्र ऋग्वेद में हैं—७।३२।१८, १६।साम० ७० ६, १२।६, मन्त्र १ साम०— पू० ४।२।८ ॥

शि॒क्षे॒य॒मि॒न्म॑ह॒य॒ते दि॒वेदि॒वे रा॒य आ कु॑ह॒चिद्द॒विदे॑ । न॒हि
त्वदु॒न्यन्म॑घ॒वन् न॒ आप्यं॒ वस्यो॑ अ॒स्ति पि॒ता चु॒न ॥ २ ॥

शि॒क्षे॒य॒म् । इत् । म॒ह॒-य॒ते । दि॒वे-दि॒वे । रा॒यः । आ ।
कु॒ह॒चिद्-वि॒दे ॥ न॒हि । त्वत् । अ॒न्यत् । म॒घ॒-व॒न् । नुः ।
आ॒प्यं॒म् । वस्यः॑ । अ॒स्ति । पि॒ता । चु॒न ॥ २ ॥

भाषार्थ—(मघवन्) हे महाधनी ! [राजन्] (महयते) सत्कार करने वाले (कुहचिद्द्विदे) कहीं भी विद्यमान पुरुष के लिये (इत्) अवश्य (रायः) धनों को (दिवेदिवे) दिन दिन (आ) सब प्रकार से (शिक्षेयम्)

यत्परिमाणस्य धनस्य (त्वम्) ईशिषे इति शेषः, तस्मात् इति च (पतावत्) पृष्ठा लुक् । पतावतो धनस्य (अहम्) (ईशीय) ईश्वरः स्वामी भवेयम् (स्तोतारम्) गुणव्याख्यातारं तिद्वांसम् (इत्) अवश्यम् (विधिषेय) धि धारणे-सन्, विधिक्षिब् आत्मनेपदं छान्दसम् । धत्तुमिच्छेयम् । धरेयम् (रद्वसो) रद विलेखने-अच् । रदति उत्खनति वसूनि धनानि यस्तत्-सम्बुद्धौ (न) निषेधे (पापत्वाय) पापस्य भावाय (रासीय) दद्याम् ॥

२—(शिक्षेयम्) शिक्षतिर्दानकर्मा-निघ० ३।२०।दद्याम् (इत्) अवश्यम् (महयते) पूजयते । सत्कुर्वते (दिवेदिवे) प्रतिदिनम् (रायः) धानानि (आ) समन्तात् (कुहचिद्द्विदे) विद सत्तायाम्-क्लिप् । कापि विद्यामानाय जनाय

मैं दूँ, (त्वत्) तुझ से (अन्यत्) दूसरा (नः) हमारा (आप्यम्) पाने योग्य (वस्यः) श्रेष्ठ वस्तु और (पिता) पिता (चन) भी (नहि) नहीं (अस्ति) है ॥ २ ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग सब स्थानों के सुपात्रों को धन देकर विद्यावृद्धि करें और पूरे राजभक्त होकर सर्वहितकारी कर्म करते रहें ॥ २ ॥

सूक्तम् ८३ ॥

१-२ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ विराडार्थी वृहती; २ आर्षी पङ्क्तिः ॥

राजकर्तव्योपदेशः—राजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

इन्द्रं त्रिधातुं शरणं त्रिवरुथं स्वस्तिमत् । छुर्दिर्यच्छ मघ-
वद्भ्यश्च मह्यं च यावया दिव्युभ्यः ॥ १ ॥

इन्द्रं । त्रि-धातुं । शरणम् । त्रि-वरुथम् । स्वस्ति-मत् ॥
छुर्दिः । यच्छ । मघवत्-भ्यः । च । मह्यम् । च । यावया ।
दिव्युम् । उभ्यः ॥ १ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र । [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (त्रिधातु)
तीन [सोना, चाँदी, लोहे] धातुओं वाला, (त्रिवरुथम्) तीन [शीत, ताप
और वर्षा ऋतुओं] में उत्तम, (शरणम्) शरण [आश्रय] के योग्य और
(स्वस्तिमत्) बहुत सुख वाला (छुर्दिः) घर (मघवद्भ्यः) धन वालों को
(च) और (मह्यम्) मुझ को [अर्थात् एक एक को] (यच्छ) दे, (च)

(नहि) (त्वत्) त्वत्तः (अन्यत्) भिन्न वस्तु (मघवन्) धनवन् (नः)
अस्माकम् (आप्यम्) प्रापणीयम् (वस्यः) वलीयः । वसुतरम् ॥ श्रेष्ठतरम् (अस्ति)
(पिता)-पालयिता (चन) अपि ॥

१—(इन्द्र) परमैश्वर्यवान् राजन् (त्रिधातु) त्रिभिः सुवर्णरजतलोह-
धातुभिर्युक्तम् (शरणम्) आश्रययोग्यम् (त्रिवरुथम्) जूवुज्भ्यामुथन् । उ०
२ । ६ । वृत् वरणे—ऊथन् । त्रिषु क्षीततापवर्षासु चरणीयमुत्तमम् (स्वस्तिमत्)
बहुसुखयुक्तम् (छुर्दिः) अर्चिशुचिद्रुसुपिच्छुर्दिष्ठादिभ्य इतिः । २ । १०० । छुर्दं
सन्दीपने वमने च—इति । गृहम्—निघ० ३ । ४ (यच्छ) देहि, (मघवद्भ्यः)
धनयुक्तेभ्यः (च) (मह्यम्) राजभक्ताय (च) (यद्य) संयोजय (दिद्यम्)

और (एभ्यः) इन सब के लिये (दिद्युम्) प्रकाश को (यवय) सयुक्त कर ॥ १ ॥

भावार्थ—राजा का कर्तव्य है कि मनुष्यों के निवास स्थान और समा स्थान आदि ऐसे उत्तम बनवावे कि जिन में सब को मिलकर और प्रत्येक पुरुष को आवश्यक पदार्थ सुरक्षित रहने से सब ऋतुओं में सुख मिले और स्वास्थ्य बढ़ने से धन की वृद्धि होवे ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—६। ४६। ६, १०। मन्त्र १ सामवेद—पू० ३। ८। ४ ॥

ये गव्यता मनसा शत्रुमाद्भुभिप्रघ्नन्ति धृष्णुया ।

अधं स्म नो मघवन्निन्द्र गिर्वणस्तनुपा अन्तमो भव ॥ २ ॥

ये । गव्यता । मनसा । शत्रुम् । आद्भुः । अभि-प्रघ्नन्ति ।

धृष्णु-या ॥ अधं । स्म । नः । मघ-वन् । इन्द्र । गिर्वणः ।

तनु-पाः । अन्तमः । भव ॥ २ ॥

भावार्थ—(ये) जो (धृष्णुया) निर्भय मनुष्य (गव्यता) भूमि चाहने वाले (मनसा) मन से (शत्रुम्) बैरी को (अभिप्रघ्नन्ति) घेर लेते हैं और (आद्भुः) मार डालते हैं, (मघवन्) हे महाधनी ! (गिर्वणः) हे स्तुतियों से सेवनीय (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (अध स्म) अवश्य ही (नः) हमारे (तनुपाः) शरीरों का रक्षक और (अन्तमः) अत्यन्त समीप वाला (भव) हो ॥ २ ॥

भावार्थ—जो शूर वीर पुरुष राज्य की वृद्धि चाहने वाले शत्रु नाशक हों, राजा उनके विश्वास से प्रजा पालन करे ॥ २ ॥

अ० १। २। ३। द्युत दीप्तौ—क्लिप्, तलोपः । प्रकाशम् (एभ्यः) सर्वेभ्यः ॥

२—(ये) जनाः (गव्यता) गो—क्यच्, शतृ । गां भूमिमिच्छता (मनसा) चित्तेन (शत्रुम्) (आद्भुः) लडर्थे लिट् । आद्भुः । समन्ताद् घ्नन्ति (अभिप्रघ्नन्ति) हन हिंसागत्योः । सर्वतः प्रगच्छन्ति । प्राप्नुवन्ति (धृष्णुया) सुपां सुलुक्० । पा० ७। १। ३६ । विभक्तोर्याच् । धृष्णवः । प्रगल्भाः (अध) अवश्यम् (स्म) एव (नः) अस्माकम् (मघवन्) - हे बहुधनयुक्त (इन्द्र) परमैश्वर्यवन् राजन् (गिर्वणः) हे स्तुतिभिः सेवनीय (तनुपाः) शरीराणां रक्षकः (अन्तमः) अन्तिकतमः । अतिसमीपस्थः (भव) ॥

सूक्तम् ८४ ॥

१—३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निचृद् गायत्री; २, ३ गायत्री छन्दः ॥

सभापतिकर्तव्योपदेशः—सभापति के कर्तव्य का उपदेश ॥

इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः । अरवीभिस्तना
पुतासः ॥ १ ॥

इन्द्र । आ । याहि । चित्रभानो इति चित्र-भानो । सुताः ।
इमे । त्वा-यवः ॥ अरवीभिः । तना । पुतासः ॥ १ ॥

भाषार्थ—(चित्रभानो) हे विचित्र प्रकाश वाले (इन्द्र) इन्द्र !
[वड़े पेशवर्य वाले सभापति] (आ याहि) तू आ, (इमे) यह (त्वायवः) तुझ
को मिलने वाले [वा तुझे चाहने वाले], (अरवीभिः) सूक्ष्म क्रियाओं से
(पुतासः) शोधे हुये, (तना) विस्तृत धन वाले (सुताः) सिद्ध किये हुये
तस्व रस हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्य सभापति की आज्ञा में रहकर विज्ञान युक्त क्रियाओं
से उत्तम उत्तम पदार्थ सिद्ध करें ॥ १ ॥

यह तृच ऋग्वेद—१ । ३ । ४—६ । यजुर्वेद २० । ८७—८६ । सामवेद—
७० ४ । २ । तृच ५ ॥

इन्द्रा याहि धियेषितो विमर्जूतः सुतावतः । उप ब्रह्माणि
वाघतः ॥ २ ॥

० धिया । इषितः । विमर्-जूतः । सुत-वतः ॥ उप । ब्रह्माणि ।
वाघतः ॥ २ ॥

१—(इन्द्र) परमेश्वर्यवन् सभापते (आ याहि) आगच्छ (चित्रभानो)
अद्भुतदीप्ते (सुताः) निष्पादिततस्वरसाः (इमे)-दृश्यमानाः (त्वायवः)
अ० २० । १८ । ४ । त्वां प्राप्ताः । त्वां कामयमानाः (अरवीभिः) अणुशब्दः
सूक्ष्मवाचकः । वेतो गुणवचनात् । पा० ४ । १ । ४४ । अनेन डीषि प्राप्ते छान्दसो
डीन्, नित्वादाद्युदात्तः । सूक्ष्माभिः क्रियाभिः (तना) धननाम—निघ०
२ । १० । विमर्कराकारः । विस्तृतधनयुक्ताः (पुतासः) शोधिताः ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले सभापति] (धिया) कर्म से (इपिनः) बढ़ाया गया, और (विप्रजूत.) बुद्धिमानों से वेगवान् किया गया तू (सुतवतः) सिद्ध किये हुये तत्त्व रस वाले (वाघतः) बुद्धिमान् पुरुषों को और (ब्रह्माणि) धनों को (उप=उपेत्य) प्राप्त होकर (आ याहि) आ ॥ २ ॥

भावार्थ—मनुष्य को चाहिये कि अपने उत्तम कर्म और विद्वानों की शिक्षा से विद्वानो बुद्धिमानों के साथ धन की वृद्धि करे ॥ २ ॥

इन्द्रा याहि तूतुजान् उप ब्रह्माणि हरिवः । सुते दधिष्व
नुश्चनः ॥ ३ ॥

इन्द्रे । आ । याहि । तूतुजानः । उप । ब्रह्माणि । हरि-वुः ॥
सुते । दधिष्व । नुः । चनः ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(हरिवः) हे उत्तम मनुष्यों वाले (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (तूतुजानः) शीघ्रता करता हुआ तू (ब्रह्माणि) धनों को (उप) प्राप्त होकर (आ याहि) आ । और (सुते) सिद्ध किये हुये तत्त्व रस तै (नः) हमारे लिये (चनः) अन्न को (दधिष्व) धारण कर ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य उत्तम विद्वानों के साथ रहकर धर्म से धन

२—(इन्द्र) (आ याहि) (धिया) कर्मणा—निघ० २ । १ (इपितः) प्रेरितः (विप्रजूतः) जू इति सौत्रो धातुः गतौ—क । मेधाविभिः प्रेरिते वेगयुक्तः कृतः (सुतवतः) निष्पादिमतत्त्वरसयुक्तान् (उप) उपेत्य (ब्रह्माणि) धनानि (वाघतः) आ० २० । १९ । २ । मेधाविनः पुरुषान्—निघ० २ । १५ ॥

३—(इन्द्र) (आ याहि) (तूतुजानः) अ० २० । ३५ । १२ । त्वर-माणः (उप) उपेत्य (ब्रह्माणि) धनानि (हरिवः) हे प्रशस्तमनुष्ययुक्त (सुते) निष्पादिने तत्त्वरसे (दधिष्व) अ० २० । ६ । ५ । धत्स्व । धारय (नः) अस्मान् (चनः) चायतेरन्ने ह्रस्वश्च । उ० ४ । २०० । चायृ पूजादौ—असुन् चकाराद् नुडागमो यत्तोपो ह्रस्वश्च । चन इत्यन्ननाम निरु० ६ । १६ । अन्नम्—निघ० ५ । ३ ॥

प्राप्त करते हैं, वे ही दूसरों को ज्ञानी और धनी बनाकर यश पाते हैं ॥ ३ ॥

सूक्तम् ८५ ॥

१-४ ॥ इन्द्रो देवता । १ उपरिष्ठाद् बृहती; २ निचृदार्पी पङ्क्ति, ३ विराट् पथ्या बृहती; ४ स्वराडार्पी बृहती ॥

परमेश्वरगुणोपदेशः—परमेश्वर के गुणों का उद्देश ॥

मा चिद्वन्यद् वि शंसतु सखायो मा रिषण्यत ।

इन्द्रमिदं स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुर्कथा च शंसत ॥ १ ॥

मा । चित् । अन्यत् । वि । शंसतु । सखाय । मा । रिषण्यत् ॥

इन्द्रम् । इत् । स्तोतु । वृषणम् । सचा । सुते । मुहुः ।

उक्था । च । शंसतु ॥ १ ॥

अवक्रुक्षिणं वृषभं यथाजुरं गां न चर्षणीसहम् ।

विद्वेषणं सुवननोभयंकरं मंहिष्ठमुभयाविनम् ॥ २ ॥

अव-क्रुक्षिणम् । वृषभम् । यथा । अजुरम् । गाम् । न ।

चर्षणि-सहम् ॥ वि-द्वेषणम् । सुम्-वनना । उभयम्-

करम् । मंहिष्ठम् । उभयाविनम् ॥ २ ॥

भाषार्थ—(सखायः) हे मित्रो ! (अन्यत् चित्) और कुछ भी (मा वि शंसत) मत बोलो, और (मा रिषण्यत) मत दुखी हो (च) और (सुते) सिद्ध क्रिये हुये तत्त्व रस के बीच (मुहुः) बार बार (उक्था) कहने योग्य बचनों को (शंसत) कहो, [अर्थात्] (वृषणम्) महाबलवान्, (वृषभं यथा) जल बरसाने वाले मेघ के समान (अवक्रुक्षिणम्) कष्ट हटाने वाले, और (गाम् न) [रसों को चलाने वाले और आकाश में चलने वाले] सूर्य के समान

१—(मा) निषेधे (चित्) अपि (अन्यत्) भिन्न वस्तु (वि) विविधम् (शंसत) उच्चारयत (सखायः) हे सुहृदः (मा) निषेधे (रिषण्यत) रिषण हिंसायां दैन्ये च—यक् कण्वादेराकृतिगणत्वात् । हिंसिता दुःखिता भवन (इन्द्रम्) परमेश्वर्यन्तं परमान्मानम् (इत्) एव (स्तोतु) स्तुतुं गूणम्

(अक्षुरम्) सब के चलाने वाले, (चर्मणिसहम्) मनुष्यों के वश में रखने वाले, (विद्वेषणम्) निग्रह [ताड़ना] और (संवनना) अनुग्रह [पोषण], (उभयंकरम्) दोनों के करने वाले, (उभयाविनम्) दोनों [स्थावर और जङ्गम] के रक्षक, (मंहिष्ठम्) अत्यन्त दानी (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े देवधर्म वाले परमात्मा] की (इत्) ही (सचा) मिला करके (स्तोत) स्तुति करो ॥ १, २ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि परमात्मा को छोड़कर किसी दूसरे को बड़ा जानकर अपनी अवनति न करें, सदा उसी ही विपत्ति नाशक, सर्वपोषक के गुणों को ग्रहण करके आनन्द पावें ॥ १, २ ॥

भगवान् यास्क मुनि ने कहा है—गौ सूर्य है वह रसों को चलाता है, अन्तरिक्ष में चलता है—निरुक्त २।१४।

यह सूक्त ऋग्विद में है—=।१।१—४। मन्त्र १, २ सामवेद—उ० ६।१।५, मन्त्र १—पू० ३।५।१० ॥

यच्चिद्धि त्वा जना हुमे नाना हवन्त कुतये ।

अस्माकं ब्रह्मेदमिन्द्र भूतु तेऽहा विश्वा च वर्धनम् ॥ १ ॥

(वृषणम्) बलवन्तम् (सचा) समवायेन सधीभूय (सुते) निष्पादिते तत्स्वरसे (सुष्टुः) पुनःपुनः (उक्था) कथनीयानि वचनीयानि (च) (शंसत) कथयत ॥

२—(अवक्रक्षिणम्) अव रक्षणहिसादिषु—अचू । वृत्तुवदिवचि० । उ० ३।६२ । कृष [विलेखने—सप्रप्रत्ययः । अनुदात्तस्य चर्तुपथस्यान्यतरस्याम् । पा० ६।१।५६ । अमागमः । अत इनिठनौ । पा० ५।२।११५ अव + क्रक्ष—इनि । अवस्य दुःखस्य विलेखकं वृषिर्कर्तारम् (वृषभम्) वृषभो वर्धिताऽपाम्—

निरु० ४।८ । जलवर्षकं मेघम् (यथा) (अक्षुरम्) मन्दिवाशिमथि० । उ० १।

३८ । अज गतिक्षेपणयोः—उरच् । सर्वप्रेरकम् (गाम्) गमेः—डो प्रत्ययः ।

गौरादित्यो भवति गमयति रसान्, गच्छत्यन्तरिक्षे—निरु० २।१४ । आदि-

त्यम् (न) यथा (चर्मणिसहम्) मनुष्याणां (धशीकर्तारम् (विद्वेषणम्) वैरि-

भावम् । निग्रहम् । दण्डदानम् (संवनना) संवननम् । सम्यक् सेवनम् ।

अनुग्रहम् । पोषणम् (उभयंकरम्) उभयोर्विद्वेषणसेवनयोः कर्तारम् (मंहि-

ष्ठम्) दातृत्वम् (उभयाविनम्) अ० ५।२५।६ । उभय + अव रक्षणे—इनि ।

उभयोः स्थावरजङ्गमयो रक्षकम् ॥

यत् । चित् । हि । त्वा । जनाः । इमे । नाना । हवन्ते ।
ऊतये ॥ अस्माकम् । ब्रह्म । इदम् । इन्द्र । भूतु । ते ।
अहा । विश्वा । च । वर्धनम् ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(यत्) क्योंकि (चित्) निश्चय करके (हि) ही (त्वा)
तुम्हें (इमे) यह (जनाः) मनुष्य (नाना) नाना प्रकार से (ऊतये) रक्षा के
लिये (हवन्ते) पुकारते हैं—(इन्द्र) हे इन्द्र । [बड़े ऐश्वर्यवाले जगदीश्वर]
(इदम्) अब (अस्माकम्) हमारे (ब्रह्म) धन (भूतु) होवे (ते) तेरी
(विश्वा अहा) सब दिनों (च) ही (वर्धनम्) बढ़ती है ॥ ३ ॥

भाषार्थ—सब प्राणी परमात्मा की प्रार्थना करके अपनी रक्षा करते हैं,
हम भी निरन्तर भक्ति करके उसके अनन्त कोश से पुरुषार्थ पूर्वक धन आदि
प्राप्त करके अपनी वृद्धि करें ॥ ३ ॥

वि तर्तूर्यन्ते मघवन् विपश्चिन्नेऽर्यो विपो जनानाम् ।

उप क्रमस्व पुरु रूपसा भर वाजं नेदिष्ठमुतये ॥ ४ ॥

वि । तर्तूर्यन्ते । मघ-वन् । विपुः-चितः । अर्यः । विपः ।

जनानाम् ॥ उप । क्रमस्व । पुरु-रूपम् । आ । भर ।

वाजम् । नेदिष्ठम् । ऊतये ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(मघवन्) हे महाधनी ! [परमेश्वर] (विपश्चितः)
बड़े दानी (विपः) प्रेरक बुद्धिमान लोग (जनानाम्) मनुष्यों के बीच (अर्यः =

३—(यत्) यतः (चित्) निश्चयेन (हि) (त्वा) (जनाः) मनुष्याः
(इमे) वर्तमानाः (नाना) विविधम् (हवन्ते) आह्वयन्ति (ऊतये) रक्षणाय
(अस्माकम्) (ब्रह्म) धनम् (इदम्) इदानीम् (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् जगदी-
श्वर (भूतु) भवतु (ते) तव (अहा) दिनानि (विश्वा) सर्वाणि (च)
अवधारणे (वर्धनम्) वृद्धिः ॥

४—(वि) विविधम् (तर्तूर्यन्ते) तू अभिभवे यङ्लुकि छान्दस्य रूपम् ।
तातिरति । भृशं तरन्ति । अभिभवन्ति (मघवन्) हे धनवान् परमेश्वर (विप-

अरीन्) वैरियों को (वि) विविध प्रकार (तनू र्यन्ते) बार बार हराते हैं ।
(उप क्रमस्व) त् [हमें] पराक्रमी कर, और (ऊतये) तृप्ति के लिये (पुनरु-
पम्) बहुत प्रकार वाले (वाजम्) बल को (नेदिष्ठम्) अति समीप (आ)
सब प्रकार से (भर) भर ॥ ४ ॥

भाषार्थ—सब मनुष्य बुद्धिमानों के समान परमात्मा को हृदय में
धारण करके पराक्रम के साथ वैरियों को जीतें ॥ ४ ॥

सूक्तम् ८६ ॥

१ ॥ इन्द्रो देवता ॥ त्रिष्टुप् छन्दः ॥

मनुष्यकर्तव्योपदेशः—मनुष्य के कर्तव्य का उपदेश ॥

ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनज्मि हरी सखाया सधुमादे आशू ।
स्थिरं रथं सुखमिन्द्राधितिष्ठन् प्रजानन् विद्वां उप याहि
सोमम् ॥ १ ॥

ब्रह्मणा । ते । ब्रह्म-युजा । युनज्मि । हरी इति । सखाया ।
सुधु-मादे । आशू इति ॥ स्थिरम् । रथम् । सु-खम् । इन्द्र ।
अधि-तिष्ठन् । प्र-जानन् । विद्वान् । उप । याहि । सोमम् ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र । [बड़े, ऐश्वर्य वाले मनुष्य] (ते) तेरे
लिये (ब्रह्मणा) अन्न के साथ (ब्रह्मयुजा) धन के संग्रह करने वाले, (आशू)
शीघ्र चलाने वाले, (हरी) दोनों जल और अग्नि को (सखाया) दो मित्रों

शिवतः) बहुज्ञानितः (अर्थः) द्वितीयायाः प्रथमा यणादेशश्च । अरयः । अरीन्
(विपः) विप क्षत्रे—क्षिप् । विपो मेधाविनाम—निघ० ३ । १५ । प्रेरका
मेधाविनः (जनानाम्) मनुष्याणां मध्ये (उप क्रमस्व) पराक्रमयुक्तान् कुरु
(पुनरुपम्) बहुविधम् (आ) समन्तात् (भर) धर (वाजम्) बलम् (नेदि-
ष्ठम्) अतिक्रम—इष्टम् । अतिसमीपम् (ऊतये) तर्पणाय ॥

१—(ब्रह्मणा) अन्नेन (ते) तुभ्यम् (ब्रह्मयुजा) धनस्य संयोजको संग्रा-
हको (युनज्मि) संयोजयामि (हरी) जलानी (सखाया) सुहृदाविष (सधुमादे)
समानस्थाने (आशू) शीघ्रगामिनौ (स्थिरम्) दृढम् (रथम्) यानविमान-

के तुल्य (लघमादे) चौरस स्थान में (युनजिम) में संयुक्त करता है, (स्थिरम्)-हृद्, (सुखम्) सुख देने वाले [इन्द्रियों के लिये अच्छे हितकारी] (रथम्) रथ पर (अधितिष्ठन्) चढ़ता हुआ, (प्रजानन्) बड़ा चतुर (विद्वान्) विद्वान् तू (सोमम्) पेश्वर्य को (उप याहि) प्राप्त हो ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि जल अग्नि आदि पदार्थों के द्वारा रथों अर्थात् यान विमानों को चलाकर देश देशान्तरी में जाकर विद्या और धर्म से पेश्वर्य बढ़ावे ॥ १ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—३ । ३५ । ४ और इस का अर्थ महर्षि देवानन्द के भाष्य के आधार पर किया गया है । निरुक्त ३ । १३ में (सुख) शब्द का अर्थ [अच्छा हितकारी इन्द्रियों के लिये] है ॥

सूक्तम् ८७ ॥

१—७ ॥ १—६ इन्द्रः ; ७ इन्द्रावृहस्पती देवते ॥ १, २, ६, ७ निचृष त्रिष्टुप् ; ३ विराद् त्रिष्टुप् ४, ५ त्रिष्टुप् ॥

पुरुषार्थिलक्षणोपदेशः—पुरुषार्थी के लक्षण का उपदेश ॥

अध्वर्यवोऽरुणां दुग्धम् अंशुं जुहोतन वृषभार्यक्षितीनाम् । गौराह वेदीयां अश्वपानमिन्द्रो विश्वाहोद्याति सुतसोममिच्छन् ॥ १ ॥

अध्वर्यवः । अरुणास् । दुग्धम् । अंशुस् । जुहोतन । वृषभार्य । क्षितीनाम् ॥ गौरात् । वेदीयान् । अश्व-पानम् । इन्द्रः । विश्वाहा । इत् । याति । सुत-सोमम् । इच्छन् ॥ १ ॥

भावार्थ—(अध्वर्यवः) हे हिंसा न चाहने वाले पुरुषो ! (अरुणम्) प्राप्ति योग्य, (दुग्धम्) पूरे किये हुये (अंशुम्) भाग को (क्षितीनाम्)

समूहम् (सुखम्) सुखं कस्मात् सुहितं खेभ्यः खं पुनः कनतेः—निरु० ३ । १३ । इन्द्रियेभ्यो हितं सुखप्रदम् (इन्द्र) परमैश्वर्यवन् मनुष्य (अधितिष्ठन्) आरोहन् (प्रजानन्) बहुबुध्यमानः (विद्वान्) (उप) (याहि) प्राप्नुहि (सोमम्) पेश्वर्यम् ॥

१—(अध्वर्यवः) अ० ७ । ७३ । ५ । अहिंसामिच्छुवः । याजकाः (अरुणम्) ऋ गतिप्रापणयोः— उन्नन् । प्रापणीयम् (दुग्धम्) अपूर्णम् (अंशुम्)

मनुष्यों में (वृषभाय) बलवान् को लिये (जुहोतन) दान करो। (अश्वपानम्) रक्षा साधन को (गौरात्) गौर [हरिण विशेष] से (वेदीयान्) अधिक जानने वाला (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला पुरुष] (विश्वाहा) सब दिनों (इत्) ही (सुतसोमम्) तत्त्वं रस सिद्ध करने वाले पुरुष को (इच्छन्) चाहता हुआ (याति) चलता है ॥ १ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि बलवान् पुरुष को आदर पूर्वक प्रणय करें, वह चतुर मनुष्य रक्षा साधनों को औरों से अधिक जानता है, जैसे हरिण व्याधाओ से बचने के उपाय को जानता है ॥१॥

यद् सूक्त ऋग्वेद में है—७ । ६३ । १—७

यद् दधिषे प्रदिवि चार्धन्नं दिवेदिवे पीतिमिदस्य वक्षि । उत
हुदोत मनसा जुषाण उशन्निन्द्र प्रस्थितान् पाहि सोमान् ॥ २
यत् । दधिषे । प्र-दिवि । चार्ध । अन्नम् । दिवे-दिवे । पीतिम् ।
इत् । अस्य । वक्षि ॥ उत । हुदा । उत । मनसा । जुषाणः ।
उशन् । इन्द्रः । प्र-स्थितान् । पाहि । सोमान् ॥ २ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले पुरुष] (यत्) जिस (चारु) उत्तम (अन्नम्), अन्न को (प्रदिवि) पिछले समय में (दधिषे)

अंश विभाजने-कु । विमागम् (जुहोतन) दत्त (वृषभाय) श्रेष्ठाय बलयुक्ताय (क्षितीनाम्) क्षितियों मनुष्यनाम—निघ० २ । ३ । मनुष्याणां मध्ये (गौरात्) श्रुज्जेन्द्राप्र० । उ० २ । २३ । गुक् अव्यक्तशब्दे—रन् । यद्वा । इलश्च । पा० ३ । ३ । १२२ । गुरी उद्यमने—घञ्, वृद्धिः पृषोदरादित्वात् । हरिणविशेषात् (वेदीयान्) तुशन्निन्द्रसि । पा० ५ । ३ । ५६ । वेत्—ईअसुन् । तुरिष्ठेमेयः सुः । पा० ६ । ४ । १५४ । तुलोपः । वेत्तरः । विद्वत्तरः (अश्वपानम्) रक्षासाधनम् (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् पुरुषः (विश्वाहा) विश्वान्यहानि (इत्) एव (याति) गच्छति (सुतसोमम्) सुतः संस्कृतः सोमस्तत्स्वरसो येन तम् (इच्छन्) कामयमानः ॥

२—(यत्) (दधिषे) चार्धितवानसि (प्रदिवि) प्रगते दिने काले (अन्नम्) मन्त्रो हरम् (अन्नम्) भक्षणीयं पदार्थम् (दिवेदिवे) प्रतिदिनम्

तू ने धारण किया था, (अस्य) उस [अन्न] के (पीतिम्) पान वा भोग को (दिवेदिवे) प्रतिदिन (इत्) ही (वत्ति) तू उपदेश करता है, (उत) और (हृदा) हृदय से (उत) और (मनसा) मनन से (प्रस्थितान्) उपस्थित (सोमान्) ऐश्वर्ययुक्त पदार्थों को (जुषाणः) सेवन करता हुआ और (उशन) चाहता हुआ तू (पाहि) रक्षित कर ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—मनुष्य उत्तम ज्ञान और पदार्थों को प्राप्त होकर सब के सुख के लिये प्रयत्न करे ॥ २ ॥

जुञ्जानः सोमं सहसे पपाथ प्र ते माता महिमानमुवाच ।

इन्द्रं पपाथोर्वेऽन्तरिक्षं युधा देवेभ्यो वरिवश्चकथ ॥ ३ ॥

जुञ्जानः । सोमम् । सहसे । पपाथ । प्र । ते । माता ।

महिमानम् । उवाच ॥ आ । इन्द्र । पपाथ । उव ।

अन्तरिक्षम् । युधा । देवेभ्यः । वरिवः । चकथ ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य] (जुञ्जानः) उत्पन्न होते हुये तू ने (सोमम्) सोम [तत्त्व रस] को (सहसे) बल के लिये (पपाथ) पान किया है और (ते) तेरी (माता) ने [तेरे] (महिमानम्) महत्त्व को (प्र) अच्छे प्रकार (उवाच) कहा है । तू ने (उव) विशाल (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष को (आ) सब ओर से (पपाथ) भर दिया और

(पीतिम्) पान भोग वा (इत्) एव (अस्य) अन्नस्य (वत्ति) वच परिभाषणे— लट् । उपदिशसि (उत) अपि च (हृदा) हृदयेन (उत) (मनसा) मननेन (जुषाणः) सेवमानः (उशन) कामयमानः (इन्द्र) परमैश्वर्यवन् पुरुष (प्रस्थितान्) उपस्थितान् (पाहि) रक्ष (सोमान्) ऐश्वर्ययुक्तान् पदार्थान् ॥

३—(जुञ्जानः) जायमानः (सोमम्) तत्त्वरसम् (सहसे) बलाय (पपाथ) पा पाने रक्षणे च-लिट् । पीतवानसि (प्र) प्रकर्षेण (ते) तव (माता) माननीया जननी (महिमानम्) तव भाविमहत्त्वम् (उवाच) कथयामास (आ) समात्तात् (इन्द्र) परमैश्वर्यवन् मनुष्य (पपाथ) प्रा-पूरणे—लिट् । पूरितवानसि (उव) विशतम् (अन्तरिक्षम्) अक्षकाशम् (युधा) युद्धेन (देवेभ्यः)

(युधा) युद्ध से (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये (वरिवः) सेवनीय धन (चक्रथं) उत्पन्न किया है ॥ ३ ॥

भाषार्थ—पहिले ही पहिले माता उत्तम शिक्षा से मनुष्य में उत्तम लस्कार उत्पन्न करे, तब वह मनुष्य विद्वान् बलवान् और धनवान् होकर संसार में कीर्ति पाता है ॥ ३ ॥

यद् योधया महतो मन्यमानान् साक्षाम् तान् बाहुभिः शाश-
दानान् । यद्वा नृभिर्वृतं इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयाजिं सौश्र-
वसं जयेम ॥ ४ ॥

यत् । योधयाः । महतः । मन्यमानान् । साक्षाम् । तान् । बाहु-
भिः । शाशदानान् ॥ यत् । वा । नृ-भिः । वृतः । इन्द्र ।
अभि-युध्याः । तम् । त्वया । आजिम् । सौश्रव-सम् । जयेम ॥ ४

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी शूर] (यत्) जो तू
(महतः मन्यमानान्) अपने को बड़े मानने वालों से [हमको] (योधयाः)
लड़ावे, (तान्) उन (शाशदानान्) तीक्ष्ण स्वभाव वालों को (बाहुभिः)
अपनी भुजाओं से (साक्षाम्) हम हरावें । (यत् वा) अथवा (नृभिः)
नरों से (वृतः) अङ्गीकार किया हुआ (अभियुध्याः) तू युद्ध करे, (त्वया)
तेरे साथ [होकर] (तम्) उस (सौश्रवसम्) बड़े यश वा अन्न देने

विद्वद्भ्यः (वरिवः) अ० २० । ११ । ७ । वरणीय धनम् (चक्रथं) कृत-
वानसि ॥

४—(यत्) यदि (योधयाः) योधये । युद्ध कार्ये—अस्मान् (महतः)
पूजनीयान् (मन्यमानान्) जानतः पुरुषान् (साक्षाम्) सहेम । अभिभवेम
(तान्) (बाहुभिः) भुजैः (शाशदानान्) अ० १ । १० । १ । शङ्ख शातने—
यडलुकि शानच् । तीक्ष्णस्वभावान् (यत् वा) यद्वा । अथवा (नृभिः) नेतृभिः
(वृतः) स्वीकृतः (इन्द्र) महाप्रतापिन् शूर (अभियुध्याः) अभियुध्येथाः (तम्)
प्रसिद्धम् (त्वया) शूरेण सह (आजिम्) सङ्ग्रामम् (सौश्रवसम्) शोभनस्य

वाले (आजिम्) सङ्ग्राम को (जयेम) हम जीतें ॥ ४ ॥

भाषार्थ—मनुष्य सत्य सङ्कल्प के साथ आप कर्म कुशल हो कर और दूसरा को कर्म कुशल बनाकर संसार में विजय प्राप्त करें ॥ ४ ॥

इन्द्रस्य वीचं प्रथमा कृतानि प्र नूतना मघवा या चकार ।
यदेददेवी रसहिष्ट माया अथाभवत् केवलः सोमो अस्य ॥५॥

प्र । इन्द्रस्य । वीचम् । प्रथमा । कृतानि । प्र । नूतना ।
मघवा । या । चकार ॥ यदा । इत् । अदेवीः । असहिष्ट ।
मायाः । अथ । अभवत् । केवलः । सोमः । अस्य ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(इन्द्रस्य) इन्द्र [महाप्रतापी वीर] के (प्रथमा) पहिले और (नूतना) नवीन (कृतानि) कर्मों को, (या) जो (मघवा) उस महाधनी ने (चकार) किये हैं, (प्र प्र) बहुत अच्छे प्रकार (वीचम्) मैं कहूँ । (यदा) जब (इत्) ही (अदेवीः) अदेवी [विद्वानों के विरुद्ध, आसुरी] (मायाः) मायाओं [झूठ कपट क्रियाओं] को (असहिष्ट) इस ने जीत लिया है, (अथ) तब ही (सोमः) सोम [अमृत रस अर्थात् मोक्ष सुख] (अस्य) उस [पुरुषार्थी] का (केवलः) सेवनीय (अभवत्) हुआ है ॥ ५ ॥

भाषार्थ—जब मनुष्य प्राचीन और नवीन विद्वानों ने सिद्धान्तों के विचार कर दुष्कर्मों का नाश करता है, तब वह मोक्ष सुख पाता है ॥ ५ ॥

तवेदं विश्वं सुभितः पशुष्यं १ यत् पश्यसि चक्षसा सूर्यस्य ।
गवामसि गोपतिरेकं इन्द्र भक्षीमहि ते पूयतस्य वस्वः ॥६॥

असौ यशसेऽस्य वा हेतुम् (जयेम) ॥

५—(प्र.प्र) अतिप्रकर्षण (इन्द्रस्य) महाप्रतापिनो वीरस्य (वीचम्) कथयानि (प्रथमा) प्रथमानि । पुरातनानि (कृतानि) कर्माणि (नूतना) नूतनानि । नवीनानि (मघवा) धनवान् (या) यानि कर्माणि (चकार) कृतवान् (यदा) (इत्) एव (अदेवीः) विदुषां विरुद्धाः । आसुरीः (असहिष्ट) अभ्यवत् (मायाः) झूठकपटक्रियाः, (अथ) अनन्तरमेव (अभवत्) (केवलः) सेवनीयः (सोमः) अमृतरसः । मोक्षानन्दः (अस्य) वीरस्य ॥

तव । इदम् । विश्वम् । अभित् । पशुव्यम् । यत् । पश्यसि ।
चक्षसा । सूर्यस्य ॥ गवाम् । असि । गो-पतिः । एकः । इन्द्र ।
भक्षीमहि । ते । प्र-यतस्य । वस्वः ॥ ६ ॥

भाषार्थः—(इदम्) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी मनुष्य] (इदम्) यह
(विश्वम्) सब (पशुव्यम्) पशुओं [दोपाये और चौपाये जीवों] के लिये
हित कर्म (तव) तेरा है, (यत्) जिस को (सूर्यस्य) सूर्य की (चक्षसा)
दृष्टि से (अभितः) सब ओर को (पश्यसि) तू देखता है । (एकः) अकेला
तू (गवाम्) विद्वानों की (गोपतिः) विद्याओं का रक्षक (असि) है, (ते)
तेरे (प्रयतस्य) उत्तम नियम वाले (वस्वः) धन का (भक्षीमहि) हम संवत
करें ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य सूर्य के समान सब ओर को दूरदर्शी होकर सब
हितकारी होना है, वही विद्या के प्रचार से विद्वानों को सुख देना है ॥ ६ ॥

बृहस्पते युवमिन्द्रेशु वस्वो दिव्यस्येशाये उत पार्थिवस्य ।
धृत्तं रुयिं स्तुवते कीर्ये चिद्दुयुयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥
बृहस्पते । युवम् । इन्द्रः । च । वस्वः । दिव्यस्य । ईशाये
इति । उत । पार्थिवस्य ॥ धृत्तम् । रुयिम् । स्तुवते । कीर्ये ।
चित् । युयम् । पातु । स्वस्ति-भिः । सदा । नः ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(बृहस्पते) हे बृहस्पति ! [बड़ी वेदवाणी के रक्षक

६—(तव) (इदम्) दृश्यमानम् (विश्वम्) सर्वम् (अभितः) सर्वतः
(पशुव्यम्) पशुभ्यो द्विपञ्चतुष्यद्भ्यो जीवेभ्यो हित कर्म (यत्) (पश्यसि)
निरीक्षसे (चक्षसा) दृष्ट्या (सूर्यस्य) प्रेरकस्यादित्यस्य (गवाम्) गौः
स्तोतृनाम्—निघ० ३-१ १६-१ विदुषाम् (असि) (गोपतिः) गवां विद्वानां
रक्षकः (एकः) अद्वितीयः (इन्द्र) महाप्रतापिन् मनुष्य (भक्षीमहि) अ० १६ ।
८ । ५ । भक्षेमहि, सेविपीमहि (ते) तव (प्रयतस्य) यम—क । प्रकृष्टनियम
युक्तस्य (वस्वः) वसुनः । धनस्य ॥

७—अयं मन्त्रो गतः—अ०-२० । १७ । १२ ॥

विद्वान्] (च) और (इन्द्रः) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्] (युवम्) तुम दोनों (दिव्यस्य) आकाश के (उत-) और (पार्थिवस्य) पृथिवी के (वस्वः) धन के (ईशाथे) स्वामी हो । (स्तुवते) स्तुति करते हुये (कीरये) विद्वान् को (रयिम्-) धन (चित्) अवश्य (धत्तम्) तुम दोनों दो, [हे वीरो !] (यूयम्) तुम सब (स्वस्तिभिः) सुखों के साथ (सदा) सदा (नः) हमें (पात) रक्षित रखो ॥ ७ ॥

भावार्थ—विद्वान् मन्त्री और पराक्रमी राजा और सब शूर पुरुष-आकाशस्थ वायु वृष्टि आदि, और पृथिवीस्थ अन्न सुवर्ण आदि का-सुप्रबन्ध करके प्रजा की रक्षा करें ॥ ७ ॥

यह मन्त्र आ चुका है—अ० २० । १७ । १२ और चौथे पाद के लिये देखो—अ० २० । ३७ । ११ ॥

सूक्तम् ८८ ॥

१—६ ॥ बृहस्पतिर्देवता ॥ १—३, ६ निचूत् त्रिष्टुप् ; ४ विराडापी त्रिष्टुप् ; ५ त्रिष्टुप् ॥

विद्वत्कर्तव्योपदेशः—विद्वानों के कर्तव्य का उपदेश ॥

यस्तुस्तम्भु सहसा वि जमो अन्तान् बृहस्पतिस्त्रिषधस्थो रवेण । तं प्रत्नासु ऋषयो दीध्यानाः पुरो विप्रा दधिरे सुन्द्र-जिहम् ॥ १ ॥

यः । तुस्तम्भु । सहसा । वि । जमः । अन्तान् । बृहस्पतिः । त्रि-सुधस्थः । रवेण ॥ तम् । प्रत्नासुः । ऋषयः । दीध्यानाः । पुरः । विप्राः । दधिरे । सुन्द्र-जिहम् ॥ १ ॥

भाषार्थ—(यः) जिस (त्रिषधस्थः) तीन [कर्म, उपासना, ज्ञान] के साथ स्थित (बृहस्पतिः) बृहस्पति [बड़ी वेदविद्याओं के रक्षक पुरुष] ने

१—(यः) विद्वान् (तस्तम्भ) इहीकनवान् (सहसा) बलेन (वि) विविधम् (जमः) जमतिर्गतिकर्मा—निघ० २ । १४ । श्वशुक्लान्पुपन्सोहन् । उ० १ । १५६ । जम् अदने गतौ च—कनिन्, अकारलोपः । डायुमाभ्यामन्यत-

(सहसा) अपने बल से और (रवेण) उपदेश से (जमः) पृथिवी के (अन्तान्) अन्तों [सीमाओं] को (वि) विविध प्रकार (तस्तम्भ) दृढ़ किया है । (तम्) उस (मन्द्रजिह्वम्) आनन्द देने वाली जिह्वा वाले विद्वान् को (प्रज्ञासः) प्राचीन, (दीघ्यानाः) प्रकाशमान [तेजस्वी], (विप्राः) बुद्धिमान् (ऋषयः) ऋषियों [वेदों के अर्थ जानने वालों] ने (पुरः) आगे (दधिरे) धरा है ॥ १ ॥

भावार्थ—जो महुष्य कर्म, उपासना, ज्ञान में तत्पर होकर पृथिवी भर को आनन्द देता है, ऋषि लोग उस सत्यवादी का मुखिया करते हैं ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—४।५०।१-६ ॥

धुनेतयः सुप्रकेतं मदन्तो बृहस्पते अभि ये नस्ततस्त्रे ।

पृषन्तं सुप्रमदब्धसुर्वं बृहस्पते रक्षतादस्य योनिम् ॥ २ ॥

धुन-हतयः । सु-प्रकेतम् । मदन्तः । बृहस्पते । अभि ।

ये । नुः । ततस्त्रे ॥ पृषन्तम् । सुप्रम् । अदब्धम् । जुर्वम् ।

बृहस्पते । रक्षतात् । अस्य । योनिम् ॥ २ ॥

भावार्थ—(बृहस्पते) हे बृहस्पति ।] बड़ी विद्याओं के रक्षक] (ये) जिन (धुनेतयः) शीघ्र गति वाले, (सुप्रकेतम्) सुन्दर ज्ञान से (मदन्तः) प्रसन्न होते हुये [विद्वानों ने] (नः) हम को (अभि) सब ओर (ततस्त्रे)

स्याम् । पा० ४ । १ । १३ । इति डाप् । जमा पृथिवीनाम—निघ० १ । १—निरु० १२ । ४३ । आतो धातोः । पा० ६ । ४ । १४० । इत्यत्र आन इति योगविभागादाकारलोपः । पृथिव्याः (अन्तान्) सीमाः । दिग्देशान् (बृहस्पतिः) बृहतीनां विद्यानां पालकः पुरुषः (त्रिषधस्थः) त्रिभिः कर्मोपासनाज्ञानैः सह स्थितः (रवेण) उपदेशेन (तम्) (प्रज्ञासः) प्राचीनाः (ऋषयः) वेदार्थवेत्तारः (दीघ्यानाः) अ० २ । ३४ । ३ । दीघीद् दीप्तिदेवनयोः—शानच् । दीप्यमानाः (पुरः)-पुरस्तात् । अग्रो (विप्राः) मेधाविनः (दधिरे) धारितवन्तः (मन्द्र-जिह्वम्) आनन्दप्रदजिह्वायुक्तम् ॥

२—(धुनेतयः) तृविशुपिरसिन्धुः कित् । उ० ३ । १२ । धुञ् कम्पने नप्रत्ययः, कित् + इण् गतौ कित् । शीघ्रगतयः (सुप्रकेतम्) यथा तथा । शोभनेन ज्ञानेन (मदन्तः) हृष्यन्तः (बृहस्पते) महतीनां विद्यानां रक्षक

कैलाया है [प्रसिद्ध किया है] । (बृहस्पते) हे बृहस्पति ! [बड़े गुणों के स्वामी] (पृषन्तम्) सीखने वाले, (सूप्रम्) ज्ञान वाले, (अदब्धम्) नष्ट न किये हुये, (ऊर्वम्) दोषनाशक (अस्य) उन [विद्वानों] के (योनिम्) कारण [वेदशास्त्र] को (रक्षतात्) तू रक्षित रख ॥ २ ॥

भावार्थ—जिस वेदज्ञान में महान्मा लोग मग्न होकर दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, विद्वान् लोग उस वेद की रक्षा कर के अर्थात् आज्ञा में चलकर आनन्द पावें ॥ २ ॥

बृहस्पते या परमा परावत् आ त ऋतस्पृशो नि वेदुः ।
तुभ्यं खाता अवता अद्रिदुग्धा मध्वं श्योतन्त्यभितो विरुग्शम् ।
बृहस्पते । या । परमा । परा-वत् । अतः । आ । ते ।
ऋत-स्पृशः । नि । वेदुः ॥ तुभ्यम् । खाताः । अवताः ।
अद्रि-दुग्धाः । मध्वः । श्योतन्ति । अभितः । वि-रुग्शम् ॥३॥

भाषार्थ—(बृहस्पते) हे बृहस्पति ! [बड़ी विद्याओं के रक्षक] (या) जो (ते) तेरी (परमा) उत्तम नीति (परावत्) उत्तम विद्या वाले राज्य में है, [उस नीति में] (ऋतस्पृशः) सत्य का स्पर्श करने वाले लोग (आ) सब ओर से (नि वेदुः) बैठे हैं, (अतः) इस लिये (अद्रिदुग्धाः)

(अभि) सर्वतः (ये) विद्वांसः (नः) अस्मान् (ततस्त्रे) अ० २० । ७२ । २ । विस्तारितवन्तः । प्रसिद्धान् कृतवन्तः (पृषन्तम्) सिञ्चन्तम् (सूप्रम्) स्फायितञ्चिवञ्चं० । उ० २ । १३ । सृष्ट गतौ—रक् । ज्ञानवन्तम् (अदब्धम्) अहिंसिनम् । अनाशितम् (ऊर्वम्) उर्वी हिंसायाम्—पचाद्यच् । दोषनाशकम् (बृहस्पते) बृहत्तं मुखानां स्वामिन् (रक्षतात्) रक्ष (अस्य) बहुवचनस्यैकवचनम् । एषां विदुषाम् (योनिम्) कारणं वेदशास्त्रम् ॥

३—(बृहस्पते) बृहतीनां विद्यानां रक्षक (या) (परमा) उत्कृष्टा नीतिः (परावत्) परावति । अङ्गुष्ठविद्यायुक्ते राज्ये (अतः) अस्मात् कारणात् (आ) समन्तात् (ते) तव (ऋतस्पृशः) सत्यस्य स्पर्शनशीलाः पुरुषाः (नि वेदुः) निद्रण्णा रक्षन्ति (दुग्धम्) (खाताः) विखाताः (अवताः)

मेघ से भरे गये, (खाताः) खोदे गये, (मध्वः) मीठे [मीठे जल वाले]
(भवताः) कुप (तुभ्यम्) तेरे लिये (विरष्णम्) महान् संसार को (अभितः)
सब ओर से (श्चोतन्ति सीचते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—चतुर राजा की सुन्दर नीति से विद्वान् लोग संसार को
इस प्रकार आनन्द पहुँचाने हैं, जैसे मेघ के जल कूप आवि द्वारा उपकार
करते हैं ॥ ३ ॥

बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो मुहो ज्योतिषः परमे व्योमन् ।

सप्तस्यस्तुविजातो रवेण वि सप्तशिमरधमत् तमांसि ॥ ४ ॥

बृहस्पतिः । प्रथमम् । जायमानः । मुहः । ज्योतिषः ।

परमे । वि-व्योमन् ॥ सप्त-आस्यः । तुवि-जातः । रवेण ।

वि । सप्त-रश्मिः । अधमत् । तमांसि ॥ ४ ॥

भावार्थ(बृहस्पतिः) बृहस्पति [बड़ी विद्याओं के रक्षक पुरुष] ने
(मुहः) बड़े (ज्योतिषः) तेज के (परमे) उत्तम (व्योमन्) विविध प्रकार
रक्षणीय स्थान में (प्रथमम्) पहिले पदपर (जायमानः) प्रकट होते हुये
(तुविजातः) बहुत प्रसिद्ध होकर (रवेण) अपने उपदेश से (सप्तस्यः) सात
मुख वाले अग्नि और (सप्तशिमः) सात किरणों वाले सूर्य के समान
(तमांसि)-अन्धकारों को (वि अधमत्) बाहिर हटाया है ॥ ४ ॥

भृमृदशियजि० । उ० ३ । ११० । अत्र गतिरक्षणादिषु—अतच् । कृपाः—निघ०
३ । २३ (अद्रिदुग्धाः) मेघेन पूरिताः (मध्वः) मधवः । मधुरजलयुकाः
(श्चोतन्ति) सिञ्चन्ति (अभितः) सर्वतः (विरष्णम्) महान्तं संसारम् ॥

४—(बृहस्पतिः) बृहतीनां विद्यानां रक्षक (प्रथमम्) प्रधाने पदे (जाय-
मानः) प्रादुर्भवन् (मुहः) महतः (ज्योतिषः) प्रकाशस्य (परमे) उत्कृष्टे
(व्योमन्) अ० ५ । १७ । ६ । विविधरक्षणीये स्थाने (सप्तस्यः) सप्त ज्वाला
आस्यानि यस्य सः काली कराद्यादिजिह्वायुकोऽग्निर्यथा—मुण्डकोपनिषदि—
१ । २ । ४ (तुविजातः) बहुप्रसिद्धः (रवेण) उपदेशेन (वि) वहिर्भावे
(सप्तशिमः) शृङ्गनीलपीतादिकिरणयुक्तः सूर्यो यथा (अधमत्) भ्रमतिर्गत-
वर्मा—निघ० २ । ६४ । अगमयत् (तमांसि) अन्धकारान् ॥

भाषार्थ—जैसे अग्नि सात प्रकार की ज्वालाओं से और सूर्य सात प्रकार की किरणों से अन्धकार हटाकर पदार्थों को दिखाते हैं, वैसे ही विद्वान् लोग पांच ज्ञानेन्द्रिय मन और आत्मा से विद्यायें ग्रहण करके अज्ञान हटाकर विद्या का प्रकाश करे ॥ ४ ॥

अग्नि के सात मुख वा जिह्वायें अर्थात् ज्वालायें ये हैं—मुखकोपनिषद्, मुखक १ खरड २ श्लोक ४ [काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूमवर्णा । स्फुलिङ्गिनी विश्वरूपी च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥] काले वर्णवाली, कराली, मन का सा वेग रखने वाली, रक्त वर्णवाली, जो गहरे धुयें के वर्णवाली है, चिंगारियों वाली और चमकती हुई किलमिलती हुई सब रूपों अर्थात् रंगों वाली, यह [अग्नि की] सात जिह्वायें हैं ॥

सूर्य की सात किरणों इस प्रकार हैं—शुक्र, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्रवर्ण ॥

स सुष्टुभा स ऋक्ता गणेन वलं कुरोज फलिगं रवेण ।

बृहस्पतिरुस्त्रिया हव्यसूदः कनिक्रदत् वावशतीरदाजत् ॥५॥

सः । सु-स्तुभा । सः । ऋक्ता । गणेन । वलम् । कुरोज् ।

फलि-गम् । रवेण ॥ बृहस्पतिः । उस्त्रियाः । हव्य-सूदः ।

कनिक्रदत् । वावशतीः । उत् । अजात् ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(सः सः) उसी ही [वीर पुरुष] ने (सुष्टुभा) बड़ी स्तुति वाले (ऋक्ता) पूजनीय वाणी वाले (गणेन) समुदाय के साथ (फलिगम्) फूट डालने वाले [वा मेघ के समान अंधकार के फैलाने वाले] (वलम्) हिंसक वैरी को (रवेण) शब्द [धर्म धोषणा]

पू—(सः सः) स एव (सुष्टुभा) स्तोमतिरर्चतिकर्मा—निघ० ३ ।

१४—किप् । शोभनस्तुतिमतां (ऋक्ता) ऋच स्तुतौ—किप्, मतुप्, मस्य वः । अयस्मयादीनि ऋन्दसि । पा० १।४।२० । पदत्वात् कुत्वं भत्वाञ्ज जक्ष्वाभावः । ऋग् वाङ् नाम—निघ० १।११ । पूजनीयवाणीयुक्तेन (गणेन) समुदायेन (वलम्) हिंसकं शत्रुम् (कुरोज्) बभञ्ज (फलिगम्) सर्वधातुभ्य इत् । उ० ४ । ११८ । अि फला विशरणे—इत् + गमेर्ङः, अन्तर्गतशयर्थः ।

(कृत्वा) मङ्ग किया है । (हव्यसूदः) देने वा लेने योग्य पदार्थों की प्रतिष्ठा करने वाले, (कनिकदत्) बल से पुकारते हुये (वृहस्पतिः) बृहस्पति [बड़ी विद्याओं के रत्नक मनुष्य] ने (वावशतीः) अत्यन्त कामना करती हुयी (उच्चियाः) रहने-वाली प्रजाओं को (उत् आजत्) ऊचा किया है ॥ ५ ॥

भाषार्थ—विद्यान् समापति राजा अज्ञान कैलाने वाले शत्रुओं का नाश करके विद्या और धन की वृद्धि से प्रजा का पालन करे ॥ ५ ॥

एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञैर्विधेम नमसा हविर्भिः ।

बृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥ ६ ॥

एव । पित्रे । विश्व-देवाय । वृष्णे । यज्ञैः । विधेम । नमसा ।

हविः-भिः ॥ बृहस्पते । सु-प्रजाः । वीर-वन्तः । वयम् ।

स्याम । पतयः । रयीणाम् ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(विश्वदेवाय) सबों से स्तुति योग्य, (वृष्णे) बलवान् (पित्रे) पिता [के समान पालन करने वाले पुरुष को (एव) निश्चय करके (नमसा) अन्न के साथ (यज्ञैः) मेल मिनागों और (हविर्भिः) देने योग्य पदार्थों से (विधेम) हम सेवा करें । (बृहस्पते) हे बृहस्पति ! [बड़ी विद्याओं के रत्नक पुरुष] (सुप्रजाः) श्रेष्ठ प्रजाओं वाले और (वीरवन्तः)

फलिंगो मेघनाम—निघ० १ । १० । मेघस्य प्रापकम् । मेघमिवान्धकारस्य प्रसारकम् (रवेण) शब्देन । धर्मघोषणया (बृहस्पतिः) बृहतीनां विद्यानां रत्नकः (उच्चियाः) अ० २० । १६ । ६ । निवालशोला प्रजाः (हव्यसूदः) पूद हरणे, अङ्गीकारे, प्रतिष्ठायां मारणे च—अच् । हव्यानां दानव्यग्राह्यपदार्थानां प्रतिष्ठाकरः (कनिकदत्) अ० २ । ३० । ५ । भृशमाह्वयन्तम् (वावशतीः) अश कान्तौ यङ्लुकि—शट् ; ङीप् । मृशं कामयमानाः (उत्) उपरिभागे आजत्) अ० २० । १६ । ५ । अगमयत् ॥

६—(एव) निश्चयेन (पित्रे) पितृवत्पालकाय (विश्वदेवाय) सर्व-
 १ स्तुत्याय (वृष्णे) बलवते (यज्ञैः) लग्निकरणैः (विधेम) परिचरंम
 नमसा) अन्नेन सह (हविर्भिः) दानव्यपदार्थैः (बृहस्पते) बृहतीनां विद्यानां
 रत्नक (सुप्रजाः) श्रेष्ठप्रजावन्तः (वीरवन्तः) वीरपुरुषयुक्ताः (वयम्)

घोर पुरुषों वालों होकर (धयम्) हम (रयीणाम्) अनेक धनों के (पतयः) स्वामी (स्याम) होंगे ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ—प्रजागण प्रजा पालक नीतिज्ञ सभागति राजा का यथावत् शावर करके धनी और बलवान् होंगे ॥ ६ ॥

सूक्तम् ८८ ॥

१—११ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ३, ७, ८, ११ त्रिष्टुप्; २, ५ निचृन् त्रिष्टुप्; ४, ६ विराट् त्रिष्टुप्; ९ भुरिक्-त्रिष्टुप्; १० निचृदारी त्रिष्टुप् ॥

मनुष्यकर्तव्योपदेशः—मनुष्य के कर्तव्य का उपदेश ॥

अस्तैश्च सु प्रतुरं लायमस्यन् भूषन्निष् प्र भरं स्तोममस्मै ।
वाचा विप्रास्तरत् वाचमुर्यो नि रामय जरितः सोम इन्द्रम् १
अस्ता-इव । सु । प्र-तुरम् । लायम् । अस्यन् । भूषन्-इव ।
प्र । भर । स्तोमम् । अस्मै ॥ वाचा । विप्राः । तरत् ।
वाचम् । अर्यः । नि । रामय । जरित्तरिति । सोमै । इन्द्रम् १

भाष्यार्थ—(जरितः) हे स्तोता विद्वान् ! (प्रतुरम्) अधिक उत्तम (लायम्) हृदयवेधी तीर को (सु) अच्छे प्रकार (अस्यन्) छोड़ते हुये (अस्ता इव) धनुषधारी के समान तू (अस्मै) इस [भूर] के लिये (स्तोमम्) स्तुति को (भूषन् इव) सजाना हुआ जैसे (प्र भर) आगे धर, और (इन्द्रम्) इन्द्र [महाप्रतापी मनुष्य] को (सोमे) तस्व रस में (नि) निरन्तर (रमय) आनन्द दे, (विप्राः) हे बुद्धिमानो ! (वाचा) [अपनी सत्य] वाणी से (अर्यः)

(स्याम) (पतयः) स्वामिनः (रयीणाम्) अनेकधनानाम् ॥

१—(अस्तैः) वाणक्षेपा । धानुष्कः (इव) यथा- (सु) छुष्टु (पतरत्) प्रकृष्टतरम् (लायम्) लोड प्रलेपणे—घञ् । सश्लेषिणं हृदयवेधिनं शरम् (अस्यन्) क्षिपन् (भूषन्) अलंकुर्वन् (इव) यथा (प्र भर) अग्ने धर (स्तोमम्) स्तुतिम् (अस्मै) इन्द्राय (वाचा) स्वसत्यवाण्या (विप्राः) हे मेधाविनः (तरत्) अभिभवत (वाचम्) मिथ्यावाणीम् (अर्यः) अरेः शत्रोः (नि) निरराम् (रमय) आनन्दय (जरितः) हे स्तोतः (सोमे) तस्वस्वे

वैरी की (वाचम्) [असत्य] वाणी को (तरत) तुम दबाओ ॥ १ ॥

भाषार्थ—जैसे उत्तम धनुर्धारी प्रेम से कार्य सिद्धि के लिये अपने अच्छे वाण को छोड़ता है, वैसे ही विद्वान् लोग पृथक् पृथक् होकर तथा सम मिलकर प्रीति के साथ प्रतापी वीर के उत्तम गुणों को जानकर तत्त्व की ओर प्रवृत्त करें और मिथ्यावादी वैरी को हराकर आनन्द भोगें ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—१०।४२।१--११ ॥

दोहेन॑ गामुप॑ शिक्षा॑ सखायं॑ प्र बोधय॑ जरितजुरिमिन्द्र॑म् ।

कोशं॑ न पूर्णं॑ वसु॑ना न्यू॑ष्टुमा च्यवय॑ मघदे॒याय॑ शूर॑म् ॥२॥

दोहे॑न । गाम् । उप॑ । शिक्ष॑ । सखायम् । प्र॑ । बोधय॑ ।

जुरि॑तः । जारम् । इन्द्र॑म् ॥ कोश॑म् । न । पूर्ण॑म् । वसु॑ना ।

नि-ऋ॑ष्टम् । आ । च्यव॑य । मघ-दे॒याय॑ । शूर॑म् ॥ २ ॥

भाषार्थ—(जरितः) हे स्तुति करने वाले विद्वान् ! (दोहेन) दूध दोहने के लिये (गाम्) गाय को [जैसे, वैसे] (जारम्) स्तुति योग्य (सखायम्) मित्र (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े प्रतापी पुरुष] को (उप शिक्ष) तू प्रवृत्त कर और (प्र) अच्छे प्रकार (बोधय) जगा (वसुना) धन से (पूर्णम्) भरे हुये (कोशं न) कोश [धनागार] के समान (न्यूष्टम्) निश्चय को प्राप्त हुये (शूरम्) शूर को (मघदेयाय) पूजनीय पदार्थ के दान के लिये (आ च्यवय) आगे बढ़ा ॥ २ ॥

भाषार्थ—जैसे अन्न आदि दकर प्रीति के साथ गाय से दूध लेते हैं, वैसे

(इन्द्रम्) महाप्रतापिन मनुष्यम् ॥

२—(दोहेन) दुग्धदोहनार्थम् (गाम्) धेनुम् (उप शिक्ष) शिक्षित-
दानिकर्मा—निघ० ३।२०। उप पूर्वक प्रादाने । गृहाण (सखायम्) प्रियम्
(प्र बोधय) प्रबुद्ध जागृतं कुरु (जरितः) हे स्तोतः (जारम्) जू स्तुतौ—घञ्,
अर्शआद्यञ् । स्तुतियोग्यम् (इन्द्रम्) महाप्रतापिनं पुरुषम् (कोशम्) धना-
गारम् (न) यथा (पूर्णम्) पूरितम् (वसुना) धनेन (न्यूष्टम्) ऋषी गतौ—
क । निश्चयगतम् (आ) अभिमुखम् (च्यवय) गमय (मघदेयाय) पूजनीय-
पदार्थस्य दानाय (शूरम्) वीरम् ॥

मनुष्य आदर सत्कार के साथ कर्मवीर पुरुष से पूजनीय व्यवहार की शिक्षा ग्रहण करें ॥ २ ॥

किसुङ्ग त्वा मधवन् भोजमाहुः शिशुहि मा शिशुयं त्वा
शृणोमि । अमस्वती मम धीरस्तु शक्र वसुविदं भगमिन्द्रा
भरानः ॥ ३ ॥

किसु । अङ्ग । त्वा । मध-वन् । भोजम् । आहुः । शिशुहि ।
मा । शिशुयम् । त्वा । शृणोमि ॥ अमस्वती । मम । धीः ।
अस्तु । शक्र । वसु-विदम् । भगम् । इन्द्र । आ । भर । नः ३

भाष्यार्थ—(अङ्ग) हे (मधवन्) धन वाले [पुरुष !] (किम्)
किसु लिये (त्वा) तुम्हें को (भोजम्) पालन करने वाला (आहुः) वे
[विद्वान्] कहते हैं ? (मा) तुम्हें को (शिशुहि) सचेत कर, (त्वा) तुम्हें
को (शिशुयम्) उद्योगी (शृणोमि) मैं सुनता हूँ । (शक्र) हे शक्तिमान् !
(मम) मेरी (धीः) बुद्धि (अमस्वती) कर्म वाली (अस्तु) होवे, (इन्द्र)
हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] (नः) हमारे लिये (वसुविदम्) धन
पहुँचाने वाला (भगम्) ऐश्वर्य (आ) सब ओर से (भर) भर ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—कीर्तिमान् प्रधान पुरुष ऐसा प्रयत्न करे कि सब लोग बुद्धि-
मान् होकर कर्मवीर हों ॥ ३ ॥

त्वां जना मससुत्येष्ट्विन्द्र संतस्थाना वि ह्वयन्ते समीके । अत्रा

३—(किम्) किमर्थम् (अङ्ग) सम्बोधने (त्वा) त्वाम् (मधवन्) धन-
वन् (भोजम्) पालकम् (आहुः) कथयन्ति विद्वांसः (शिशुहि) अ० २० । ३७ ।
८ । तीक्ष्णिकुरु । सचेतसं कुरु (मा) माम् (शिशुयम्) बलिमलितनिभः
कथन् । ३० ३ । ६६ । शश मुतगतौ—कथन्, अकारस्य इकारः । उद्योगिनम्
(त्वा) (शृणोमि) (अमस्वती) कर्मवती (मम) (धीः) प्रज्ञा (अस्तु)
(शक्र) हे शक्तिमान् (वसुविदम्) धनस्य लम्भकम् (भगम्) ऐश्वर्यम्
(इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् पुरुष (आ) समन्तात् (भर) भर (नः)
हमारे लिये ॥

युजं कृणुते यो ह विष्मात्रासुन्वता सुख्यं वृष्टि शूरः ॥ ४ ॥

त्वाम् । जनाः । मम-सत्येषु । इन्द्र । मम-तस्थानाः । वि ।

ह्वयन्ते । मम-ई के ॥ अत्र । युजम् । कृणुते । यः । ह विष्मान् ।

न । असुन्वत । सुख्यम् । वृष्टि । शूरः ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] (ममसत्येषु) .-
अपने अपने उद्देश्य को सत्य मानने वाले मङ्ग्रामों के बीच (समीके) मित्र
के (सतस्थानाः) सजकर खड़े हुये (जनाः) लोग (त्वाम्) तुझ को
(वि) विविधप्रकार (ह्वयन्ते) पुकारने हैं । (अत्र) यहाँ पर (शूरः) शूर
पुरुष [उस मनुष्य को] (युजम्) साथी (कृणुते) बनाता है, (यः) जो
(हविष्मान्) भक्ति वाला है, और (असुन्वता) तस्व रस के न निकालने
वाले के साथ (सुख्यम्) मित्रता (न) नहीं (वृष्टि) चाहता है ॥ ४ ॥

भावार्थ—जहाँ पर दो पक्ष वाले आपस में अपने अपने उद्देश्य के लिये
लड़ने हों, बुद्धिमान् पुरुष मध्यस्थ होकर धर्मरक्षा का सहाय करे ॥ ४ ॥

पदपाठ के (असुन्वत) पद में भूल दीखती है, ऋग्वेद का (असुन्वता)
पद पाठ संहिता के अनुकूल है, उसी के अनुसार हमने अर्थ किया है ॥

धनं न एन्द्रं बहुलां यो अस्मै तीव्रान्तसोमं आसुनोति
प्रयस्वान् । तस्मै शत्रून्सुतुकान् मातरहो नि स्वप्नान् युवति

४—(त्वाम्) (जनाः) (ममसत्येषु) ममप्रयोजनं सत्यम्—इति ब्रुवाणा
योद्धारः सन्ति यत्र । ममसत्यं सग्रामं नाम—निघ० २ । १७ । लङ्ग्रामेषु (इन्द्र)
हे परमैश्वर्यवान् पुरुष (सतस्थानाः) तिष्ठतेः—कानच् । सभ्यक् तिष्ठन्तः
(वि) विविधम् (ह्वयन्ते) आह्वयन्ति (समीके) अलीकान्यश्च । उ० ४ ।
२५ । मम+इण गती—ईकच् । आतुलोपः । मङ्गमे । सग्रामे—निघ० २ । १७
(अत्र) अस्मिन् विषये (युजम्) सखायम् (कृणुते) कुरुते (यः) पुरुषः
(हविष्मान्) भक्तिमान् (न) निषेधे (असुन्वत) असुन्वता—ऋग्वेदपद-
पाठो यथा । तत्स्वरसं निष्पाद्यता (सुख्यम्) सक्त्वम् (वृष्टि) कामयते
(शूरः) निर्भयः ॥

हन्ति वृत्रम् ॥ ५ ॥

धनम् । न । स्पन्द्रम् । बहुलम् । यः । अस्मै । तीव्रान् ।
सोमान् । आ-सुनोति । प्रयस्वान् ॥ तस्मै । शत्रून् ।
सु-तुकान् । प्रातः । अहः । नि । सु-अष्टान् । युवति । हन्ति ।
वृत्रम् ॥ ५ ॥

भाष्यार्थ—(यः) जो (प्रयस्वान्) अन्न वाला पुरुष (अस्मै) इस [वीर] को (बहुलम्) बहुत से (स्पन्द्रम्) शीघ्र प्राप्त होने वाले (धनम् न) धन के समान (तीव्रान्) तीव्र (सोमान्) सोम [तत्त्व रत्नों] को (आसुनोति) सिद्ध करता है । (तस्मै) उस [पुरुष] के लिये (सुतुकान्) बड़े हिंसक, (स्वष्टान्) तीक्ष्ण शस्त्रों वाले (शत्रून्) वैरियों को (अहः) दिन के (प्रातः) प्रातः काल में [अर्थात् प्रकाश रूप से] (नि युवति) वह [वीर] हटा देता है और (वृत्रम्) धन को (हन्ति) प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

भावार्थ—जैसे प्रजागण धन मन और विद्यावत्त से प्रधान पुरुष की सहायता करें, वह वीर भी उसी प्रकार दुष्टों से प्रजा की रक्षा करे ॥ ५ ॥

यस्मिन् वृत्रं दधिमा संसृमिन्द्रे यः शिश्रायं मृचवा काम-
अस्मै । आराचिचत् सन् भयतामस्यु शत्रुर्न्यस्मै व्युक्ता जन्या
जमन्ताम् ॥ ६ ॥

५—(धनम्) (न) यथा (स्पन्द्रम्) स्फायितश्चिवञ्चि० । उ० २ । १३ ।
स्पदि किञ्चिच्चलने गतौ च-रक् । स्पन्दनशीलम् । शीघ्रं प्रापणीयम् (बहुलम्)
प्रभूतम् (यः) पुरुषः (अस्मै) वीराय (तीव्रान्) (सोमान्) तत्त्वरसान्
(आसुनोति) निष्पादयति । संस्करोति (प्रयस्वान्) अन्नवान्—निघ० २ । ७
(तस्मै) पुरुषाय (शत्रून्) (सुतुकान्) सुवृभूशुपिमुपिभ्यः कक् । उ० ३ । ४१ ।
नु गतिवृद्धिहिंसासु—कक् । बहुहिंसकान् (प्रातः) प्रभातकाले यथा (अहः)
दिनस्य (नि) नितराम् (स्वष्टान्) अमिचिमिशसिभ्यः क्वः । उ० ४ । १६४ ।
अशू ध्यातौ—क्व, टाप । सुष्ठ अष्टास्ताडन्यो येषां तान् । तीक्ष्णायुधान् (युवति)
पृथक् कराति (हन्ति) गच्छति—निघ० २ । १४ । प्राप्नोति (वृत्रम्) धनम्—
निघ० २ । १० ॥

यस्मिन् । वयम् । दधिम । शंसम् । इन्द्रे । यः । शिश्राय ।
मघवा । कामम् । अस्मे इति ॥ आरात् । चित् । सन् ।
भयताम् । अस्यु । शत्रुः । नि । अस्मै । व्युम्ना । जन्वा ।
नमन्ताम् ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(यस्मिन्) जिस (इन्द्रे) इन्द्र [बड़े प्रतापी वीर] में
(शंसम्) अपनी इच्छा को (वयम्) हम ने (दधिम) रक्खा था और (य.)
जिस (मघवा) धनवान् ने (अस्मे) हम में (कामम्) अपनी कामना को
(शिश्राय) आश्रय दिया था । (आरात्) दूर (चित्) भी (सन्) रहता
हुआ (शत्रुः) शत्रु (अस्य) उस का (भयताम्) भय माने, और (अस्मै) उस
के लिये (जन्वा) लोगों के हितकारी (व्युम्नानि) प्रकाशमान यश (नि)
नित्य (नमन्ताम्) नमते रहें ॥ ६ ॥

भाषार्थ—जहां पर प्रजागण और प्रधान वीर पुरुष परस्पर हित के
लिये प्रयत्न करते हैं, वहां पर शत्रु लोग दुराचार नहीं करते, और सब लोग
उन्नति करके यशस्वी होते हैं ॥ ६ ॥

आराच्छत्रुमप वाधस्व दूरुग्रो यः शम्बः पुरुहूत तेन ।
अस्मे धेहि यवम् ह गोमदिन्द्र कृधी धियं जरिचे वाज-
रत्नाम् ॥ ७ ॥

आरात् । शत्रुम् । अप । वाधस्व । दूरम् । उग्रः । यः ।

६—(यस्मिन्) (वयम्) प्रजागणाः (दधिम) धृतवन्तः (शंसम्)
शस्त्रि इच्छायाम्—घम् । आशंसाम् । आकाङ्क्षाम् (इन्द्रे) परमप्रतापिनि वीरे
(यः) (शिश्राय) आश्रितवान् । स्थापितवान् (मघवा) धनवान् (कामम्)
अभिलाषम् (अस्मे) अस्मास्तु (आरात्) दूरे (चित्) अपि (सन्) भवन्
(भयताम्) विभेतु । भयं प्राप्नोतु (अस्य) वीरस्य (शत्रुः) (नि) नितराम्
(अस्मै) वीराय (व्युम्ना) द्योतमानानि, यशांसि (जन्वा) जनहितानि
(नमन्ताम्) प्रहीभवन्तु ॥

शम्बः । पुरु-हुत् । तेन ॥ अस्मे इति । धेहि । यव-मत् ।
गो-मत् । इन्द्र । कृधि । धियम् । जरित्रे । वाज-रत्नाम् ॥७

भाष्यार्थ—(पुरुहुत्) हे बहुत प्रकार बुलाये गये । [वीर] (यः) ओ
(शम्बः) तेरा वज्र (उग्रः) प्रचण्ड है. (तेन) उस से (शत्रुम्) शत्रु को
(आरात्) दूर से (दूरम्) दूर (अप बाधस्व) हटा दे । (इन्द्र) हे इन्द्र !
[बड़े प्रतापी वीर] (अस्मे) हम को (यवमत्) अन्न वाला (गोमन्) विद्याओं
और गौओं वाला धन (धेहि) दे और (जरित्रे) स्तौना [गुण प्रसिद्ध करने
वाले] के लिये (धियम्) बुद्धि को (वाजरत्नाम्) बलों और सुवर्ण आदि
रत्नों वाली (कृधि) कर ॥ ७ ॥

भाष्यार्थ—वीर प्रधान पुरुष अपने प्रचण्ड दण्डदान से शत्रुओं को
हटाकर प्रजागणों को विद्या द्वारा पराक्रमी और धनाढ्य बनावे ॥ ७ ॥

प्र यम् न्तवृषसुवासो अगमन् तीव्राः सोमा बहुलान्तासु
इन्द्रम् । नाह दामानं स घवा नि यंसु नि सुन्वते वहति
भूरि वामम् ॥ ८ ॥

प्र । यम् । अन्तः । वृष-सुवासः । अगमन् । तीव्राः । सोमाः ।
बहु-ल-अन्तासः । इन्द्रम् ॥ न । अह । दामानम् । स-घ-वा ।
नि । य-सुत् । नि । सुन्वते । वह-ति । भूरि । वामम् ॥ ८ ॥

भाष्यार्थ—(यम्) जिस (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े प्रतापी मनुष्य] को

७—(आरात्) दूरात् (शत्रुम्) (अप बाधस्व) अपगमय (दूरम्)
(उग्रः) प्रचण्डः (यः) (शम्बा) अ० ६ । २ । ६ । शम्ब इति वज्रनामः शमयतेर्वा
शाततेर्वा—निर० ५ । २४ । वज्रः (पुरुहुत्) हे बहुविधाहुत् (तेन) वज्रेण
(अस्मे) अस्मभ्यम् (धेहि) देहि (यवमत्) अन्नयुक्तम् (गोमत्) गोभि—
र्विद्याभिर्धेनुभिश्च युक्तं धनम् (इन्द्र) हे महाप्रतापिन् वीर (कृधि) कुरु (धियम्)
प्रज्ञाम् (जरित्रे) स्तोत्रे (वाजरत्नाम्) वाजैर्बलैः सुवर्णादिरत्नैश्च युक्ताम् ॥

८—(प्र) प्रकर्षेण (यम्) (अन्तः) मध्ये । हृदये (वृषसुवासः)

(वृषसयासः) बलवानों को ऐश्वर्य देने वाले, (तीव्राः) तीक्ष्ण स्वभाव वाले और (बहुलान्तासः) बहुत ज्ञान को अन्त [सिद्धान्त] में रखने-वाले (सोमाः) सोम [तत्त्वरस] (अन्नः) भीतर [हृदय में] (प्र अग्मन्) प्राप्त हो गये हैं । (मघना) वह धनवान् पुरुष (अह) निश्चय करके (दामानम्) दान को (न) नहीं (नि यसत्) रोक सकता है वह (सन्वते) तर्र, रस निचोड़ने वाले फी (भूरि) बहुत (वामम्) उत्तम धन (नि) नित्य (वहति) पहुँचाता है ॥ ८ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य निश्चित सिद्धान्तों पर दृढ़ होकर चले, उस वीर से दूसरे विद्वान् शिक्षा लेकर बहुत धन प्राप्त करें ॥ ८ ॥

उत प्रहामतिदीवा जयति कृतमिव श्वघ्नी वि चिनीति काले ।
यो देवकामो न धनं रुणद्धि समित् तं रायः सृजति स्वधामिः ८
उत । प्र-हाम् । अति-दीवा । जयति । कृतम्-इव । श्व-
घ्नी । वि । चिनीति । काले ॥ यः । देव-कामः । न । धनम् ।
रुणद्धि । सम् । इत् । तम् । रायः । सृजति । स्वधामिः ॥८॥

भावार्थ—(उत) और (अतिदीवा) बड़ा व्यवहार कुशल पुरुष (प्रहाम्) उपद्वी पुरुष को (जयति) जीत लेता है, (श्वघ्नी) धन नाश करने वाला ज्वारी (काले) [द्वार के] समय पर (इव) ही (कृतम्) अपने काम का (वि चिनीति) विवेक करता है । (यः) जो (देवकामः) शुभ गुणों का चाहने वाला (धनम्) धन को [शुभ काम में] (न) नहीं (रुणद्धि) रोकता है, (रायः) अनेक धन (तम्) उसको (इत्) ही (स्वधामिः) आत्म

वृषभ्यो बलवद्भ्यः सवाः ऐश्वर्याणि येष्यः सकाशात् ते तथाभूताः (अग्मन्) प्राप्तवन्तः (तीव्राः) तीक्ष्णाः, (सोमाः) तत्त्वरसाः, (बहुलान्तासः) बहुल बहुज्ञानम् अन्ते सिद्धान्ते येषां ते (इन्द्रम्) महाप्रतापिन पुरुषम् (न) निषेधे (अह) एव (दामानम्) ददाते—मनिन् । दानम् (मघना) धनवान् (नि) (यसत्) यमु उपगमे—लेट् । उपरत निरुद्ध कुर्यात् (नि) नित्यम् (सन्वते) तर्र निष्पादयते पुरुषाय (वहति) प्रापयति (भूरि) प्रभूतम् (वामम्) धननीयं धनम् ॥

धारण शक्तियों के साथ (सम् सृजति) मिलते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—प्रतापी पुरुष दुष्ट को जीतकर उसे उसके दोष का निश्चय करा देता है, शुभ गुण चाहने वाला उदारचित्त मनुष्य अनेक धन और आत्म-बल पाता है ॥ ६ ॥

मन्त्र ६, १० आ चुके हैं—अ० ७।५०।६।७ ॥

गोभिष्टुरेमासतिं दुरेवां यवेन वा सुधं पुरुहूत विश्वे ।

वयं राजसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनीभिर्जयेम ॥ १० ॥

गोभिः । तुरेम् । अमतिम् । दुः-एवाम् । यवेन । वा । सुधम् ।
पुरु-हूतु । विश्वे ॥ वयम् । राज-सु । प्रथमाः । धनानि ।
अरिष्टासः । वृजनीभिः । जयेम् ॥ १० ॥

भाषार्थ—(पुरुहूत) हैं बहुत बुलाये गये राजन् । (विश्वे) हम सब लोग (गोभिः) विद्याओं से (दुरेवाम्) दुर्गति वाली (अमतिम्) कुमति को (तरेम्) हटावें, (वा) जैसे (यवेन) जो यदि अन्न से (सुधम्) भूख को । (वयम्) हम लोग (राजसु) राजाओं के बीच (प्रथमाः) पहिले और (अरिष्टासः) अजेय होकर (वृजनीभिः) अनेक वर्जन शक्तियों से (धनानि) अनेक धनों को (जयेम) जीतें ॥ १० ॥

भावार्थ—मनुष्य विद्याओं द्वारा कुमति हटाकर प्रशसनीय गुण प्राप्त करके अनेक धन प्राप्त करें ॥ १० ॥

मन्त्र १० कुछ भेद से और मन्त्र ११ आ चुके हैं—अ० २०।१७।१०,११ और आगे हैं—अ० २०।६४।१०,११। मन्त्र १० की टिप्पणी देखो ॥

वृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुत्तरस्मादधरादघ्रायोः । इन्द्रः
पुरस्तादुत्त मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोतु ॥ ११ ॥

वृहस्पतिः । नः । परि । पातु । पश्चात् । उत्त । उत्-तरस्मात् ।
अधरात् । अघ्रा-योः ॥ इन्द्रः । पुरस्तात् । उत्त । मध्यतः ।
नः । सखा । सखि-भ्यः । वरीयः । कृणोतु ॥ ११ ॥

भाषार्थ—(बृहस्पतिः) बृहस्पति [बड़े शूरो का रक्षक सेनापति] (नः) हमें (पञ्चात्) पीछे से, (उत्तरस्मात्) ऊपर से (उत) और (अधःरात्) नीचे से (अघाथोः) बुरा चीतने वाले शत्रु से (परि पातु) सब प्रकार बचावे । (इन्द्रः) इन्द्र [वह बड़े ऐश्वर्य वाला राजा] (पुरस्तात्) आगे से (उत) और (मध्यतः) मध्य से (नः) हमारे लिये (वरीयः) विस्तीर्ण स्थान (कृषोतु) करे, (सखा) जैसे मित्र (सखिभ्यः) मित्रों के लिये [करता है] ॥२१॥

भावार्थ—मनुष्य वीरों में महावीर और प्रतापियों में महाप्रतापी होकर दुष्टों से प्रजा की रक्षा करे ॥

यह मन्त्र आचुका है—अ० ७। ५१। १। मन्त्र १०, ११ की टिप्पणो भी ऊपर देखो ॥

सूक्तम् ८० ॥

१—३ ॥ बृहस्पतिर्देवता ॥ त्रिष्टुप् छन्दः ॥

राजलक्षणोपदेशः—राजा के लक्षण का उपदेश ॥

यो अद्रिभित् प्रथमजा ऋतवा बृहस्पतिराङ्गिरसो हविष्मान् । हविर्बर्हेज्मा प्राघर्मसत् पिता न आ रोदसी वृषभो रौरवीति ॥ १ ॥

यः । अद्रि-भित् । प्रथम-जाः । ऋत-वा । बृहस्पतिः । आङ्गिरसः । हविष्मान् ॥ हविर्बर्हे-ज्मा । प्राघर्म-सत् । पिता । नः । आ । रोदसी इति । वृषभः । रौरवीति ॥ १ ॥

भाषार्थ—(यः) जो (अद्रिभित्) पहाड़ों को ताडने वाला, (प्रथमजाः) मुख्य पद पर प्रकट होने वाला, (ऋतवा) सत्यवान्, (आङ्गिरसः) विद्वान् पुरुष का पुत्र (हविष्मान्) देने लेने ग्रन्थ पदार्थों वाला (बृहस्पतिः)

१—अयं मन्त्रो व्याख्यान—अ० ७। ५१। १ ॥

१—(यः) (अद्रिभित्) शैलानां छेत्ता (प्रथमजाः) मुख्यपदं प्राकृतः (ऋतवा) ऋत—मत्वर्यं धनिष् । सत्यवान् (बृहस्पतिः) बृहनीनां विद्योना रक्षको राजा (आङ्गिरसः) आङ्गिरसो विदुषः पुरुषस्य पुत्रः (हविष्मान्)

बृहस्पति [बड़ी विद्याओं का रजक राजा] है, वह (द्विबर्हन्मा) जोनों [विद्या और पुरुषार्थ] से प्रधानता पाने वाला, (प्राघर्मसन्) शक्ये प्रकार सब ओर से प्रताप का सेवन करने वाला (नः) हमारा (पिता) पालने वाला है [जैसे] (वृषभः) जल बरसाने वाला मंत्र (रोदसी) आकाश और पृथिवी में (आ) व्यापकर (रोदवीति) बल से गरजता है ॥ १ ॥

भाष्यार्थ—राजा को चाहिये कि पहाड़ आदि कठिन स्थानों में मार्ग करके प्रजा का पालन करे, जैसे मंत्र गर्जन के साथ वृष्टि करके संसार का उपकार करता है ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—६ । ७२ । १—३ । चौथा पाद शांभुका है—
अ० १८ । ३ । ६५ ॥

जनाय चिद् य ईवन् उ लोकं बृहस्पतिर्देवहूती चुकार । अन्
बृजाणि वि पुरीं दर्दरीति जयं अन्नं रगिज्ञानं पृत्सु साहन् ॥२
जनाय । चित् । यः । ईवन् । उ । इति । लोकम् । बृहस्पतिः ।
देव-हूती । चुकार । अन् । बृजाणि । वि । पुरीः । दर्दरीति ।
जयन् । अन्नम् । रगिज्ञानम् । पृत्सु । साहन् ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—(यः) जिस (बृहस्पतिः) बृहस्पति [बड़ी विद्याओं के

[दातृप्राप्त्यर्थयुक्तः (द्विबर्हन्मा) बर्ह प्राधान्ये—अन् । जमतिर्गति—
कर्मा—निघ० २ । १४ । अन्नुत्तन्पुपन्सीहन्० । उ० १ । १५६ । जमु गती—
कनिन्, अकारलोपः । इत्याया विद्यापुरुषार्थाभ्यां बर्ह प्राधान्यं जमति
प्राप्नोति अः लः (प्राघर्मसन्) अ + आ + घर्म + षण् सम्भक्तौ-क्लिप् । गमादीना-
मिति वक्तव्यम् । वा० पा० ६ । १४ । ४० । अनुनासिकलोपः । ह्रस्वस्य पिति
इति तुक् । अ० ६ । १ । ७१ । तुगागमः । प्रकर्षेण समन्तात् प्रतापस्य सेवन-
कर्ता (पिता) पालकः) (नः) अस्माकम् (आ) व्याप्य (रोदसी) आवा-
पृथिव्यौ (वृषभः) वर्णिताऽपाम्—तिरु० ४ । ८ । मेघः (रोदवीति) भृशं
रौति । अभिगर्जति ॥

२—(जनाय) (विन्) अवश्यम् (यः) (ईवन्) गतिर्गति (उ) ईव

रक्षी राजा] ने (चित् उ) अवश्य ही (ईवते) गतिमान् (जनाय) मनुष्ये
के लिये (देवहृती) विद्वानां के बुलावे में (लोकम्) दर्शनीय स्थान (चकार)
किया है वह (वृत्राणि) धनो को (धन) पाता हुआ और (अभिमान्)
मताने वाले (शत्रून्) बैरियों के (पृत्सु) सङ्ग्रामों में (जयन्) जीतना
हुआ और (महन्) बराता हुआ (पुरः) [उनके] दुर्गों को (वि वर्दरीति)
नाड डालता है ॥ २ ॥

भाषार्थ—जो वीर राजा विद्वान् उद्योगी जनों का आदर करता है,
वह धनवान् होकर और शत्रुओं को जीतकर प्रजा को पृथ्वन्ता है ॥ २ ॥

बृहस्पतिः सम्जयद् वसूनि स हो ब्रजान् गोमती देव एषः ।
अपः सिखासुन्स्व रप्रतीतो बृहस्पतिहन्त्यमित्रं मुक्तः ॥ ३ ॥

बृहस्पतिः । सम् । अजयत् । वसूनि । सहः । ब्रजान् ।
गो-मतीः । देवः । एषः ॥ अपः । सिखासन् । स्वः । अप्रति-हतः ।
बृहस्पतिः । हन्ति । अमित्रम् । मुक्तः ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(देवः) विजय चाहने वाले (एषः) इस (बृहस्पतिः)
बृहस्पति [बड़ी विद्याओं के रक्षक पुरुष] ने (वसूनि) धनों को और (महः)
यहै, (गोमती) विद्याओं से युक्त (ब्रजान्) मार्गों को (सम् अजयत्) जीत
लिया है, (अपः) कर्म और (स्वः) स्वयं को (सिखासन्) पूरे करने की

(लोकम्) दर्शनीय स्थानम् (बृहस्पतिः) बृहतीनां विद्वानां पालकः (देवहृती)
देवीनामाह्वाने (चकार) कृतवान् (धन) गच्छन् । प्रामुवन (वृत्राणि) धनानि
(वि) विशेषणं (पुरः) शत्रूणां नगराणि । दुर्गाणि (वर्दरीति) भृश विह-
णति (जयन्) (शत्रून्) (अभिमान्) अम पीडने—दहन । पीडकान् (पृत्सु)
पुतलासु । सङ्ग्रामेषु (सहन्) अभिभवन् ॥

३—(बृहस्पतिः) बृहतीनां विद्वानां रक्षको राजा (सम्) सम्यक्
(अजयत्) जयेन प्राप्तवान् (वसूनि) धनानि (महः) महतः । विशालान्
(ब्रजान्) मार्गान् (गोमतीः) विद्यायुक्तान् (देवः) विजिगीषुः (एषः)
सम्पत्तः (अपः) कर्म (सिखासन्) धो अस्तकर्मणि—कनि, शक् । सम्पत्तिं

इच्छा करता हुआ, (अप्रतीतः) वे रोक (वृहस्पतिः) वृहस्पति [बड़ी विद्याओं का रजक राजा] (अर्कैः) वज्रों [शस्त्रों] से (अमित्रम्) सनाने वाले कों (हन्ति) नारा करता है ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जो विजय चाहते वाला पुरुष धन और विद्याओं को बढ़ा लेना है वह अपने सुकर्म में दुष्टों को हराकर आनन्द पाता है ॥ ३ ॥

इति सप्तमोऽनुवाकः ॥

अथाष्टमोऽनुवाकः ॥

सूक्तम् ८१ ॥

१—६२ ॥—वृहस्पतिर्वेदता ॥ १ विराट् विष्टुप् ; २—७, ११ निचूत विष्टुप् ; ८—१०, ६२ विष्टुप् ॥

परमात्मगुणोपदेशः—परमान्मा के गुणों के उपदेश ॥

इमां धियं सुप्तशीर्ष्णीं पिता न ऋतमजातां वृहतीमविन्दत् ।
तुरीयं स्विवजनयद् विश्वजन्योऽयास्य उक्थमिन्द्राय शंसन् १
इमास् । धियस् । सुप्त-शीर्ष्णीम् । पिता । नः । ऋत-प्रजाताम् ।
वृहतीस् । अविन्दत् ॥ तुरीयम् । स्वित् । जनयत् ।
विश्व-जन्यः । आयास्यः । उक्थम् । इन्द्राय । शंसन् ॥ १ ॥

भाषार्थ—(नः) हमारे (पिता) पिता [महृष्य] ने (ऋतप्रजाताम्) नृत्य [अविनाशी परमात्मा] से उत्पन्न हुई (सप्तशीर्ष्णीम्) [दोकान, दो नथने, दो आखे, और एक मुख—अ० १० । २ । ६] सात गोलकों में शिर [आधय]

कर्तुं मिच्छन् (म्वः) सुप्तम् (अप्रतीतः) अप्रतिगतः (वृहस्पतिः) (हन्ति) नाशयति (अमित्रम्) पीडकं पुरुषम् (अर्कैः) अर्कों वज्रनाम—(जिघ० २ । २० । वज्रैः । शस्त्रैः ॥

१—(इमाम्) प्रत्यक्षाम् (धियम्) प्रज्ञाम् (सप्तशीर्ष्णीम्) शीर्षश्च-
न्विति । पा० । ६ । १ । ६० । शीर्षञ्चति शब्दान्तर शिरःशब्देन समानार्थम्,
शीर्ष । अर्कैः नामिके चक्षुषी मुखम्—अ० १० । २ । ६ । इति सप्तसु द्विद्रेषु

रखने वाली, (इमाम्) इम (बृहतीम्) बडी (धियम्) बुद्धि को (अविन्दत्) पाया है । और (विश्वजन्यः) उस सब मनुष्यों के हितकारी, (अयास्यः) शुभ कर्मों में स्थिति रखने वाले मनुष्य ने (इन्द्राय) इन्द्र [वड्डे नेश्वर्य वाले जगदीश्वर] की (स्विन्) ही (शंसन्) स्तुति करते हुये (तुरीयम्) बल युक्त (उक्थम्) वचन को (जनयत्) प्रकट किया है ॥ १ ॥

भावार्थ—परमात्मा की जिस सत्य वेदवाणी को पूर्वज लोग परम्परा से प्रीक्षा करके ग्रहण करते आये हैं, विद्वान् लोग उसी वेदवाणी पर चलकर परमेश्वर की स्तुति करते हुये अपने आत्मा को बढ़ावें ॥ १ ॥

यद् गूढं नृश्रेष्ठं मे है—१० । ६७ । १—१२ ॥

ऋतं शंसन्त ऋजु दीध्याना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः ।
विप्रं पदमङ्गिरसो दधाना युजस्य धामं प्रथमं मनन्त ॥ २ ॥

ऋतम् । शंसन्तः । ऋजु । दीध्यानाः । दिवः । पुत्रासः ।
असुरस्य । वीराः ॥ विप्रम् । पदम् । अङ्गिरसः । दधानाः ।
युजस्य । धामं । प्रथमम् । मनन्त ॥ २ ॥

भावार्थ—(ऋतम्) सत्य ज्ञान की (शंसन्तः) स्तुति करने हुये, (ऋजु) ठीक ठीक (दीध्यानाः) ध्यान करते हुये, (दिवः) विजय चाहने वाले (असुरस्य), बुद्धिमान् पुरुष के (वीराः) वीर (पुत्रासः) पुत्र (विप्रम्)

शिर आश्रयो यस्यास्ताम् (पिता)जनकः (नः)अस्माकम् (ऋतप्रजाताम्) सत्यान् परमेश्वरात् प्रादुर्भूताम् (बृहतीम्) महतीम् (अविन्दत्) लब्धवान् (तुरीयम्) तुर वेगे—क । घच्छौ च । पा० ४ । ४ । ११७ । तुर-छप्रत्ययः, तत्र भव इत्यर्थे । बलयुक्तम् (स्विन्) अवधारणे (जनयत्) अजनयत् । प्रकटीकृतवान् (विश्व-जन्यः) सर्वजनहितः पुरुषः (अयास्यः) इण् गतौ—अच् + आस उपवेशने-फ्यप्, टप् । अयेषु शुभकर्मसु आस्या स्थितिर्यस्य सः (उक्थम्) वचनम् (इन्द्राय) परमेश्वर्यवते जगदीश्वराय (शंसन्) स्तुतिं कूर्ध्वन् ॥

२—(ऋतम्) सत्यज्ञानम् (शंसन्तः) स्तुवन्तः (ऋजु) सरलम् ।
यथार्थम् (दीध्यानाः) ध्ये चिन्तायाम्—कानच् । तुजादीना दीर्घोऽभासस्य ।
पा० ६ । १ । ७ । इति दीर्घः । १५ । यतः (दिवः) विजिगीषोः (पुत्रासः) पुत्राः

विविध प्रकार पूर्ण (पदम्) पद् [पाने योग्य वस्तु] को (दधानाः) धारण करते हुये (अङ्गिरसः) ज्ञानी ऋषियों ने (यज्ञस्य) पूजनीय व्यवहार को (प्रथमम्) मुख्य (भ्राम) स्थान [परब्रह्म] कां (मनन्त) पूजा है ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—सत्यप्रादी ऋषि महार्त्मा लोग माता पिता आदि विद्वानों से उत्तम शिक्षा पाकर परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान में लवलीन होकर आत्मा की उन्नति करते हैं ॥ २ ॥

हंसैरिव सखिभिवविदद्विरश्मन्मयानि नहना व्यस्यन् ।
बृहस्पतिरभिकनिक्रदत् गा उत प्रास्तीदुच्च विद्वान् अगायत् ३
हंसैः-इव । सखि-भिः । वायदत्-भिः । अश्मन्-मयानि ।
नहना । वि-व्यस्यन् ॥ बृहस्पतिः । अभि-कनिक्रदत् । गाः ।
उत । प्र । अस्तीत् । उत । च । विद्वान् । अगायत् ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—(हंसैः इव) हंसों के समान [विवेकी] (वायदद्विभिः) स्पष्ट बोलते हुये (सखिभिः) मित्र पुरुषों द्वारा (अश्मन्मयानि) व्याप्त वाले (नहना) बन्धनों [कठिन विघ्नो] को (व्यस्यन्) हटाते हुये, (अभिकनिक्रदत्) सब ओर उपदेश करते हुये (विद्वान्) विद्वान् (बृहस्पतिः) बृहस्पति [बड़े विद्वानों के स्वामी परमात्मा] ने (गाः) वेदवाणियों को (प्र अस्तीत्)

(असुरस्य) मन्त्रायुक्तस्य (वीराः) विक्रान्ताः (विग्रम्) विविधपूरकम् (पदम्) प्रापणीयं वस्तु (अङ्गिरसः) ज्ञानिनः । ऋषयः (दधानाः) धारयन्तः (यज्ञस्य) पूजनीयव्यवहारस्य (भ्राम) धारकं स्थानम् (प्रथमम्) मुख्यम् (मनन्त) मन्यते रचनिकर्मा—निघ० १।४। अमनन्तः अस्तुवन्तः ॥

३—(हंसैरिव) हंसपक्षिवद्द्विवेकिभिः (सखिभिः) मित्रैः (वायदद्विभिः) वद व्यक्तार्थां वाचि—यदुक्तं शत । स्पष्टं कथयद्भिः (अश्मन्मयानि) अशु व्याप्तौ—मनिन् । व्याप्तिमन्ति (नहना) बन्धनानि । विघ्नकर्माणि (व्यस्यन्) धिक्पिन् । शिक्षयन् (बृहस्पतिः) बृहतां ब्रह्माण्डानां रक्षाकां (अभिकनिक्रदत्) ऋदि आह्वने रोदने च—यदुक्तं शत । आभिमुख्येन अशु-मुपविशन् (गाः) वेदवाणीः (उत) अपि (प्र अस्तीत्) प्रस्तुतवान् (इत्)

प्रस्तुत' किर्या है [सामने रक्ता है] (उत् च) और भी (उत् अगायत्) ऊँचो
गाया है ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जिस पक्षपात रहित-परमात्मा ने प्रलय के भारी अन्धकार
को मिटाकर विवेकी प्यारे भक्तभक्तियों द्वारा ससार के सुख के लिये वेदों को
प्रकाशित किया है, उस जगदीश्वर को उपासना से अपने आत्मा में सब लोग
प्रकाश करें ॥ ३ ॥

अवो द्वाभ्यां पुर एकया गा गुहा तिष्ठन्तीरनृतस्य सेतौ ।
बृहस्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्छद्बुद्ध्या अक्रुर्वि हि तिस्रः ।
आर्षः ॥ ४ ॥

अवः । द्वाभ्याम् । पुरः । एकया । गाः । गुहा । तिष्ठन्तीः ।
अनृतस्य । सेतौ ॥ बृहस्पतिः । तमसि । ज्योतिः । इच्छन् ।
उत् । बुद्ध्याः । आ । अक्रुः । वि । हि । तिस्रः । आर्षरित्यायः ४

भाषार्थ—(तमसि) अन्धकार के बीच (ज्योतिः) प्रकाश (इच्छन्)
चाहता हुआ (बृहस्पतिः) बृहस्पति [बड़े ब्रह्माण्डों का स्वामी परमेश्वर]
(द्वाभ्याम्) दोनों [प्रलय और सृष्टि की अवस्थाओं] से और (एकया) एक
[स्थिति की अवस्था] से (अनृतस्य) असत्य [अज्ञान] के (सेतौ) बन्धन
में (गुहा) गुहा [गुप्त वा अज्ञान दशा] के बीच (अवः) नीचे और (परः)
ऊपर (तिष्ठन्तीः) ठहरी हुई (गाः) वेदवाणियों को और (तिस्रः) तीनों
(अर्षाः) [सूर्य, अग्नि और विष्णु की रूप] प्रकाशों को (हि) निश्चय कम्के

उच्चैः (च) (विद्वान्) (अगायत्) उपदिष्टवान् ॥

४—(अवः) अवस्तात् । नीचेः (द्वाभ्याम्) द्वित्वयुक्त्यां प्रलयसृष्ट्य-
वस्थाभ्याम् (परः) परस्तात् । उच्चैः (एकया) एकत्वयुक्त्या स्थित्यवस्थया
(गाः) वेदवाणी (गुहा) गुहायाम् । अज्ञानदशायाम् (तिष्ठन्तीः) वर्तमानाः
(अनृतस्य) असत्यस्य । अज्ञानस्य (सेतौ) बन्धे (बृहस्पतिः) बृहतां ब्रह्मा-
ण्डानां स्वामी परमेश्वर (तमसि) अन्धकारे । प्रलये (लोनिः) प्रकाशम्
(इच्छन्) कामयमानः (उत्) उत्तमत्तया (बुद्ध्याः) धर्म निवासे-रफ् । उर्या
संश्लेषनाय-निष्प ६ । ५ । सुर्गास्तिविद्युद्रूपिकाशान् (आ अर्षः) ज्ञानाने

(उद्) चम सीति से (ङीं अकः) प्राकार में लाया और (वि आयः) मकटं किया ॥ ५ ॥

भाष्यार्थ—जो पदार्थ प्रलय, सृष्टि और स्थिति के अनादि चक्र से प्रलय की अवस्था में सूक्ष्म रूप से रहते हैं, वे परमात्मा की इच्छा से आकार पाकर संसार में प्रकट होते हैं ॥ ४ ॥

विभिद्या पुरं शयथे अपाचीं निस्त्रीणि साकमुदधेरकृन्तत् ।

बृहस्पतिरुपसं सूर्यं गामकं विवेद स्तनयन्निव द्यौः ॥ ५ ॥

वि-भिद्यं । पुरंश् । शयथा । ईंश् । अपाचीम् । निः । त्रीणि ।

साकम् । उदधेः- । अकृन्तत् ॥ बृहस्पतिः । उपसंश् ।

सूर्यम् । गाम् । अकम् । विवेद् । स्तनयन्-इव । द्यौः ॥ ५ ॥

भाष्यार्थ—(बृहस्पतिः) बृहस्पति [बड़े ब्रह्माण्डों के स्वामी परमेश्वर] ने (शयथा) सोती हुयी (अपाचीम्) आँधे मुख वाली (ईंश्) प्राप्त हुई (पुरम्) पूर्ति [वा नगरी] की (विभिद्य) जोड़ डालकर (त्रीणि) तीनों [धामों अर्थात् स्थान, नाम और जाति जैसे मर्त्यं गशु आदि—निरु० ६ । २८] को (साकम्) एक साथ (उदधेः) जल वाले समुद्र से (निः अकृन्तत्) छांट लिया, (द्यौः) उस प्रकाशमान [परमात्मा] ने (स्तनयन् इव) गरजते हुये बादल के समान

कृतवान् (हि) निश्चयेन (निस्त्रः) त्रिसंख्याकाः (वि आयः) वृणोते लुडि मन्त्रे वसन्ति चलेर्लुक् । बहुलं वृन्दसीत्यङागमः । विवृत्तवान् । प्रकाशितवान् ॥

५—(विभिद्य) विदार्य (पुरम्) पूर्तिं नगरीं वा (शयथा) शीङ्शवि-
रुगमि० । उ० ३ । ११३ । शीङ् शयने—अथशययः । विभक्तोरकारः । शयथाम् ।
शयनयुक्ताम् (ईंश्) प्राप्ताम् (अपाचीम्) पराङ्मुचीम् (निः) पृथग्भावे
(त्रीणि) वामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानीनि—निरु० ६ । २८
(साकम्) युगपत् (उदधेः) जनाधारात् । समुद्रात् (अकृन्तत्) द्विभवान् ।
निर्गमितवान् (बृहस्पतिः) बृहतां ब्रह्माण्डानां रत्नकः-परमेश्वरः (उपसम्)
उपः क्विच्च । उ० ४ । २३४ । उप दाहे-अलि कित् । दाहकम् (सूर्यम्) आवित्य-
मगडलम् (गाम्) पृथिवीम् (अकम्) अकं तापे स्तुतौच—घञ् । अक्षम्—निरु०

होकर (उपसम्) तपाने वाले (सूर्यम्) सूर्य को, (गाम्) भूमि को और (अर्कम्) उष्णता देने वाले अन्न को (विवेद) जनाया है ॥ ५ ॥

भाषार्थ—जो पदार्थ परमाणु रूप से प्रलय के बीच ब्रोजरूप में गूडबड़ पड़े थे, उन को परमात्मा ने जल द्वारा आकार युक्त कर के सूर्य, पृथिवी, अन्न आदि उत्पन्न किये हैं ॥ ५ ॥

इन्द्रो वृलं रक्षितारं दुधानां कुरेणैव वि चकर्त्त रवेण ।

स्वेदाञ्जिभिरुाशिरमिच्छमानोऽरोदयत् पुणिसा गा अमु-
ष्णात् ॥ ६ ॥

इन्द्रः । वृलम् । रक्षितारम् । दुधानाम् । कुरेण-इव । वि ।
चकर्त्त । रवेण ॥ स्वेदाञ्जि-भिः । आ-शिरम् । इच्छमानः ।
अरोदयत् । पुणिसम् । आ । गाः । अमुष्णात् ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(इद्र.) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले परमेश्वर] ने (दुधानाम्)
पूर्तियों को (रक्षितारम्) रक्षलेने वाले [रोकने वाले] (वलम्) हिंसक [विघ्न]
को (कुरेण इव) हाथ से जैसे [वैसे] (रवेण) अपने शब्द [वेद] से
(वि चकर्त्त) काट डाला है । और (स्वेदाञ्जिभिः) मोक्ष के प्रकट करने वाले
व्यवहारों से (आशिरम्) परिपक्वता को (इच्छमानः) चाहते हुये उस ने

५ । ४ (विवेद) विज्ञापितवान् (स्तनयन्) गर्जयन् मेघः (इव) यथा (द्यौः)
प्रकाशमानः परमेश्वरः ॥

६—(इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् परमेश्वरः (वलम्) हिंसकं विघ्नम् (रक्षि-
तारम्) रक्षकम् । निरोधकेमित्यर्थः (दुधानाम्) दुह प्रपूरणे-रूप, टाप । पूर-
यित्रीणां-शक्तीनाम् (कुरेण) हस्तेन (इव) यथा (वि) विविधम् (चकर्त्त)
कृती छेदने—लिट् । चिच्छेद (रवेण) शब्देन वेदेन (स्वेदाञ्जिभिः) जिष्विदा
स्नेहनमोचनमोहनेषु अर्थकशब्दे गात्रप्रक्षरणे च—घञ् + झञ् व्यक्तिसन्तुष्टि
कान्तिगतिपु-इन् । मोचनस्य मोक्षस्य व्यक्तीकरणव्यवहारैः (आशिरम्) अ०
२० । २२ । ६ । आङ् + श्रीञ् पाके—क्लिप्, शिर् इत्यादेशः । परिपक्त्वम्
(इच्छमानः) कामयमानः (अरोदयन्) रोदनं कारितवान् (पुणिसम्) कुञ्चय-

(पश्चिम) कुव्यवहारी पुरुष को (अरोदयत्) रुलाया है और (गा.) प्रकाशों को [उस से] (आ) सर्वथा (अमुष्णात्) छीन लिया है ॥ ६ ॥

भाषार्थ—यहां (इन्द्र) शब्द (बृहस्पति) अर्थात् परमात्मा का वाचक है। परमात्मा वेदद्वारा मोक्षमार्ग बताकर सुखों के गोकने वाले विघ्नों को मिटाता है और अधर्मी पापियों को और अन्धकार में डालता है ॥ ६ ॥

स ई सत्येभिः सखिभिः शुचद्भिर्गोधायसुं वि धनसैर्ददः ।

ब्रह्मणस्पतिर्वृषभिर्वराहैर्धर्मस्वेदेभिर्द्रविणं व्यानत् ॥ ७ ॥

सः । ईम् । सत्येभिः । सखि-भिः । शुचत्-भिः । गो-धायसम् ।

वि । धन-सैः । अद्द रित्यददः ॥ ब्रह्मणः । पतिः । वृष-भिः ।

वराहैः । धर्म-स्वेदेभिः । द्रविणम् । वि । आनत् ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(सः) उस (ब्रह्मणः) ब्रह्माण्ड के (पतिः) स्वामी [परमेश्वर] ने (सत्येभिः) सत्य (सखिभिः) मित्ररूप, (शुचद्भिः) प्रकाशमान, (धनसैः) धन देने वाले, (वृषभिः) बलवान्, (वराहैः) उत्तम आहार [भोजनादि] देने वाले, (धर्मस्वेदेभिः) ताप और भाप रखने वाले गुणों से (ईम्) प्राप्त हुये (गोधायसम्) वज्र रखने वाले [शत्रु], को (अद्दः) फाड़ डाला और (द्रविणम्) धन को (वि आनत्) प्राप्त किया है ॥ ७ ॥

हारिण पुरुषम् (आ) समन्तात् (गाः) रश्मीन् । प्रकाशान् (अमुष्णात्) अपहृतवान् ॥

७—(सः) (ईम्) प्राप्तम् (सत्येभिः) सत्यशीलैः (सखिभिः) मित्रभूतैः (शुचद्भिः) दीप्यमानैः (गोधायसम्) गतिकारिकोपपदयोः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वञ्च । उ० ४ । २२७ । गो + दधानेः—असि, शित् । गोर्वज्रस्य धारकं शत्रुम् (धनसैः) पशु दाने—उ । धनदानृभिः (अद्दः) ङ विदारणे—यङ्लुगन्ताल्लङि, रूपम् । भृशं विदारितवान् (ब्रह्मणः) प्रवृद्धस्य ब्रह्माण्डस्य (पतिः) स्वामी, (वृषभिः) बलवद्भिः, (वराहैः) अ० ८ । ७ । २३ । अन्येष्वपि दृश्यते । पा० ३ । २ । १०१ । वर + आङ् + हञ् हरणे—ङप्रत्ययः । वरः श्रेष्ठ आहारो भोजनादिकं येष्यस्तैः । वराहादातृभिः (धर्मस्वेदेभिः) धर्मस्तापः स्वेदो वाष्पश्च येष्यस्तादृशगुणैः (द्रविणम्) धनम् (वि) विविधम् (आनत्) अ० १८ । ३ । ६५ । आनशे । प्राप्तवान् ॥

भावार्थ—परमात्मा अपने सत्य आदि गुणों से सब क्लेशों-को हटा-
कर हों धन आदि देकर आनन्द देता है ॥ ७ ॥

ते सुत्येन मनसा गोपतिं गा इयानास इषण्यन्त धीभिः ।
बृहस्पतिमिथोअवद्यपेभिरुदुस्त्रिया असृजत स्वयुग्भिः ॥ ८ ॥
ते । सुत्येन । मनसा । गो-पतिम् । गाः । इयानासः । इष-
ण्यन्त । धीभिः ॥ बृहस्पतिः । मिथः-अवद्यपेभिः । उत् ।
उस्त्रियाः । असृजत । स्वयुग्-भिः ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(सत्येन) सत्ये (मनसा) मन से (धीभिः) कर्मों द्वारा
(गाः) वेद वाणियों को (इयानासः) पा लेने वाले (ते) उन [विद्वानों] ने
(गोपतिम्) वेद वाणी के स्वामी [परमात्मा] को (इषण्यन्त) खोजा है, [कि]
(बृहस्पतिः) उस बृहस्पति [बड़े ब्रह्माण्डों के स्वामी परमात्मा] ने (उस्त्रियाः)
निवास करने वाली प्रजाओं का (मिथोअवद्यपेभिः) आपस में पाप से बचाने
वाले (स्वयुग्भिः) आत्मा के साथी कर्मों से (उत्) उत्तम रीति पर (असृ-
जत) सृजा है ॥ ८ ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग वेदवाणी द्वारा उत्तम उत्तम कर्म करके परमा-
त्मा को खोजते हैं कि उनसे मनुष्य आदि सृष्टि को उनके पूर्व जन्मों के कर्म
फलों के अनुसार उत्पन्न किया है ॥ ८ ॥

तं वर्धयन्तो मृत्तिभिः शिवाभिः सिंहाभिव नानंदतं सुधस्ये ।
बृहस्पतिं वृषणं शूरसाती भरभरे अनु मदेम जिष्णुम् ॥ ९ ॥

८—(ते) विद्वान्सः (सत्येन) यथार्थेन (मनसा) चित्तेन (गोपतिम्)
वेदवाणीस्वामिनम् (गाः) वेदवाणीः (इयानासः) इण् गतौ—कानच्, असृक्
च । प्राप्तवन्तः (इषण्यन्त) इषु इच्छायाम्-क्यु । तत् करोति तदाचष्टे । वा०
पा० ३ । १ । २६ । इषण्य—णिच्, लङ्, अडभावः । इषण्यमिच्छां कृतवन्तः (धीभिः)
कर्मभिः (बृहस्पतिः) बृहतां ब्रह्माण्डानां स्वामी (मिथोअवद्यपेभिः) पातेः
कप्रत्ययः । मिथः परस्परम् अवद्याद् निन्धात् पापाद् रक्षकैः (उत्) उत्तमतया
(उस्त्रियाः) अ० २० । १६ । ६ । निवासशीलाः प्रजाः (असृजत) अजनयत्
(स्वयुग्भिः) युजिर् योगे—क्लिप् । स्वैज आत्मना सह युक्तैः कर्मभिः ॥

तस् । व॒र्धयन्सः । म॒ति-भिः । शि॒वाभिः । सिं॒हम्-इ॒व ।
 नान॑द॒तम् । स॒ध-स्थे ॥ वृ॒ह॒स्पति॑म् । वृ॒षण॑म् । शू॒र-सा॑तौ ।
 भ॒रे-भ॒रे । अ॒नु । म॒दे॒म । जि॒ष्णु॑म् ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(शिवाभिः) कल्याणी (मतिभिः) बुद्धियों के साथ (नान-
 दतम्) बल से दहाड़ते हुये (सिंहम् इव) सिंह के समान (वृषणम्) बल-
 वान् (जिष्णुम्) विजयी (तम्) उस (वृहस्पतिम्) बृहस्पति [बड़े ब्रह्मा-
 ण्डों के स्वामी परमेश्वर] को (सधस्थे) सभा स्थान में (वर्धयन्तः)
 बढ़ाते हुये हम (शूरसातौ) शूरों करके सेवने योग्य (भरेभरे) सङ्ग्राम
 सङ्ग्राम में (अनु मदेम) आनन्द पाते रहें ॥ ६ ॥

भावार्थ—मनुष्य आपस में मिलकर परमात्मा के गुणों को निश्चय
 करके आत्मा की उन्नति करते हुये आनन्द पावें ॥ ६ ॥

य॒दा वा॒ज॒म॒स नद् विश्व॑रूप॒मा द्या॒मरु॑स्तु॒दुत्तरा॑णि सद्म । वृ॒ह॒-
 स्पति॑म् वृ॒षणं॑ वृ॒र्धयन्तो॑ नाना॒ सन्तो॑ विभ्र॒तो ज्योति॑रा॒सा १०
 य॒दा । वा॒ज॒म् । अ॒स॒नत् । वि॒श्व-रू॒पम् । आ । द्या॒म् ।
 अ॒रु॑क्षत् । उ॒त्-त॑रा॒णि । सद्म ॥ वृ॒ह॒स्पति॑म् । वृ॒षण॑म् ।
 वृ॒र्धयन्तः॑ । नाना॑ । सन्तः॑ । विभ्र॑तः । ज्योतिः॑ । आ॒सा ॥१०

भाषार्थ—(यदा) जब उस [परमात्मा] ने (विश्वरूपम्) सब
 संसार में रूप करनेवाले (वाजम्) बल को (असनत्) सेवन किया, और (द्याम्)

६—(तम्) प्रसिद्धम् (वर्धयन्तः) स्तुवन्तः (मतिभिः) बुद्धिभिः
 (शिवाभिः) कल्याणीभिः (सिंहम्) (इव) (नानदतम्) भृशं शब्दायमानम्
 (सधस्थे) सभास्थाने (वृहस्पतिम्) बृहतां ब्रह्माण्डानां स्वामिन्म (वृषणम्)
 बलवन्तम् (शूरसातौ) शूरैः संभजनीये (भरेभरे) रणे रणे (अनु) निस्त-
 रम् (मदेम) हृष्येम (जिष्णुम्) विजेतारम् ॥

१०—(यदा) (वाजम्) बलम् (असनत्) सेवितवान् (विश्वरूपम्)
 सर्वेश्वर रूप यरमात् तम् (द्याम्) प्रकाशमानं सूर्यम् (आ अरुक्षत्)

चमकते हुये सूर्य को और (उत्तराणि) अधिक उत्तम (सद्म) लोकों को (आ अरुहत्) ऊंचा किया । [तव] (वृषणम्) उस बलवान् (बृहस्पतिम्) बृहस्पति [बड़े ब्रह्माण्डों के स्वामी परमात्मा] को (आसा) मुख से (नाना) नाना प्रकार (वर्धयन्तः) बढ़ाते हुये (सन्ताः) सन्त लोग [सत्पुरुष] (ज्योतिः) ज्योति को (विभ्रतः) धाणिर करने वाले [हुये हैं] ॥ १० ॥

भावाय—जब परमात्मा सूर्य आदि लोकों को उत्पन्न करके अपना सामर्थ्य दिखाता है, तब योगी जन उस जगदीश्वर की स्तुति करते हुये अपने आत्मा को प्रकाश युक्त करते हैं ॥ १० ॥

सत्यामाशिषं कृणुता वयोधै कीरिं चिद्धवयं स्वैभुरैः ।
पुश्चा मृधो अपभवन्तु विश्वास्तदूरोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे ११
सत्याम् । आ-शिषम् । कृणुतु । वयः-धै । कीरिम् ।
चित् । हि । अवय । स्वैभिः । एवैः ॥ पुश्चा । मृधः ।
अप । भवन्तु । विश्वाः । तत् । रूदसी इति । शृणुतुम् ।
विश्वमिन्वे इति विश्वम्-इन्वे ॥ ११ ॥

भाषार्थ—[हे विद्वानो !] (वयोधै) जीवन धारण करने के लिये (आशिषम्) मेरी प्रार्थना को (सत्याम्) सत्य (कृणुत) करो, (कीरिम्) स्तुति करने वाले को (स्वैभिः) अपने (एवैः) उद्योगों से तुम (चित् हि) अवश्य ही (अवय) बचाते हो । (विश्वा) सब (मृधः) सताने वाली

आरोहितवान् । उत्पादितवानित्यर्थः (उत्तराणि) उत्तमतराणि (सद्म) सद्मानि । लोकान् (बृहस्पतिम्) परमात्मानम् (वृषणम्) बलवन्तम् (वर्धयन्तः) स्तुवन्तः (नाना) विविधप्रकारेण (सन्तः) सत्पुरुषाः (विभ्रतः) धारयन्तः (ज्योतिः) प्रकाशम् (आसा) आस्येन । मुखेन ॥

११—(सत्याम्) यथार्थाम् (आशिषम्) प्रार्थानाम् (कृणुत) कुरुत (वयोधै) प्रयै रोहिष्यै अन्यथिष्यै । पा० ३ । ४ । १० । वयस् + दधातेः—कैप्रत्ययस्तुमर्थे । जीवनं धारयितुम् (कीरिम्) अ० २० । १७ । १२ । स्तोतारम् (चित्) अवश्यम् (हि) एव (अवय) रक्षय (स्वैभिः) आत्मीयैः (एवैः)

सेनायें (पश्चा) पीछे (अप भवन्तु) हटजावें (तत्) इस को, (विश्वमिन्वे) हे सब में व्यापक (रोदसी) आकाश और भूमि । (शृणुतम्) दोनों सुना ॥ ११ ॥

भाषार्थ—विद्वान् लोग संसार के सब पदार्थों से उपकार लेकर प्रजा की रक्षा करें ॥ ११ ॥

इन्द्रो महा महतो अर्णवस्य वि सुर्धानमभिनदबुदस्य ।
अहन्नहि सरिणात् सप्त सिन्धून् देवैर्द्यावापृथिवी प्रावतं न.१२
इन्द्रः । महा । महतः । अर्णवस्य । वि । सुर्धानम् ।
अभिनत् । अर्बुदस्य ॥ अहन् । अहिम् । सरिणात् । सप्त ।
सिन्धून् । देवैः । द्यावापृथिवी इति । प्र । अवतम् । नः ॥१२॥

भाषार्थ—(इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले परमात्मा] ने (महा) अपनी महिमा से (महतः) विशाल (अर्णवस्य) गति वाले [या जल वाले] (अर्बुदस्य) हिंसक [अथवा मेघ के समान अन्धकार करने वाले वैरी] के (सुर्धानम्) शिर को (वि अभिनत्) तोड़ दिया है, वह [परमात्मा] (अहिम्) सब ओर चलने वाले मेघ में (अहन्) व्याप्य है, और उस ने (सप्त) सात (सिन्धून्) बहते हुये समुद्रों [के समान भूर आदि सात अवस्था वाले सब लोकों] को (सरिणात्) चलाया है, (द्यावापृथिवी) हे आकाश और भूमि । (देवैः) उत्तम गुणों के साथ (नः) हम को (प्र अवतम्) दोनों बचालो ॥१२॥

गमनैः । उद्योगैः (पश्चा) पश्चात् (मृधः) हिंसिकाः सेनाः (अप) दूरे (भवन्तु) (विश्वाः) सर्वाः (तत्) वचनम् (रोदसी) हे आकाशभूमी (शृणुतम्) (विश्वमिन्वे) अ०. २० । ३५ । ४ । हे सर्वव्यापिके ॥

(१२—(इन्द्रः) परमात्मा (महा) महिम्ना । महत्त्वेन (महतः) विशालस्य (अर्णवस्य) गतिशुक्तस्य उदकयुक्तस्य (वि) विशेषेण (सुर्धानम्) शिरः (अभिनत्) अच्छिन्नत् (अर्बुदस्य) अर्बु गतौ हिंसायां च—उदच् प्रत्ययः । हिंसकस्य । मेघस्येव अन्धकारविस्तारकस्य शत्रोः (अहन्) व्याप्तवान् (अहिम्, सरिणात्, सप्त, सिन्धून्) एते व्याख्याताः—अ० २० । ३४ । ३ (देवैः) उत्तमगुणैः (द्यावापृथिवी) हे आकाशभूमी (प्र) प्रकर्षेण (अवतम्) रक्षतम् (नः) अस्मान् ॥

भावार्थ—भूर, भुव आदि सात अवरयोत्रों के लिये अ० २० । ३४ ।
३ । देखो और मिलणो । परमात्मा अपने अन्तत सामर्थ्य से बड़े बड़े विघ्नों को
सटाकर लमस्र संसार की रक्षा करता है, उमी जगदीश्वर की कृपा से धर्मात्मा
लोग बलवान् होकर दुष्टों का मिटाकर आनन्द पाने है ॥ १२ ॥

सूक्तम् ८२ ॥

१—२१ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, २ निचूद् गायत्री, ३ गायत्री, ४, ६, ६, १०,
१२ निचूद्नुष्टुप्, ५ भुरगाव्युष्णिक्, ७ विराडनुष्टुप्, ८ पङ्क्तिः, ११ अनुष्टुप्,
१३ निचूत् पङ्क्तिः, १४ पथ्या वृहती, १५ विराडापी वृहती, १६ भुरिगाव्युष्णिक्,
१७ निचूदापी पङ्क्तिः, १८ निचूत्पथ्या वृहती, १९ सनः पङ्क्तिः २० विराडापी
वृहती, २१ निचूत् सनः पङ्क्तिः ॥

२—३ राजप्रजाधर्मोपदेश—१—३ राजा और प्रजा के धर्म का उपदेश ॥

अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्च यथा विदे । सुनुं सत्यस्य
सत्पतिम् ॥ १ ॥

अभि । प्र । गो-पतिम् । गि-रा । इन्द्रम् । अर्च । यथा ।
विदे ॥ सुनुम् । सत्यस्य । सत्-पतिम् ॥ १ ॥

भावार्थ—[हे मनुष्य ।] (गोपतिम्) पृथिवी के पालक, (सत्यस्य)
सत्य के (सुनुम्) प्रेरक, (सत्पतिम्) सत्पुरुषों के रक्षक (इन्द्रम्) इन्द्र
[बड़े पेश्वर्य वाले राजा] को, (यथा) जैसा (विदे) वह है, (गिरा) स्तुति
के साथ (अभि) सब ओर से (प्र) अच्छे प्रकार (अर्च) तू पूज ॥ १ ॥

भावार्थ—जैसे राजा उत्तम गुण वाला हो, वैसे ही मनुष्यों को उसकी
यथार्थ बहाई करनी चाहिये ॥

मन्त्र १—१५ । ऋग्वेद में है—८ । ६६ [सायणभाष्य ५८] । ४—७८ ।
मन्त्र १—३ आस्तुके है अथर्व० २० । २२ । ४—६ ॥

आ हरयः ससृजिरेडरुषीरधि बृहिषि । यज्ञाभि सुं नवामहे ॥२॥
आ । हरयः । ससृजिरे । अरुषीः । अधि । बृहिषि ॥ यज्ञ ।

अभि । सुम्-नवामहे ॥ २ ॥

भाषार्थ—(हरयः) दुःख हरने वाले मनुष्य (अरुषोः) गति शील [प्रजाओं] को (बर्हिषि) बढ़ती के स्थान में (अधि) अधिकार पूर्वक (आ-ससृजिरे) लाये हैं, (यत्र) जहाँ पर [तुम्हें राजा को] (अभि) सब ओर से (संनवामहे) हम मिलकर सराहते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—जिस राजा की सुनीति से विद्या द्वारा उन्नति होवे, प्रजा सहित विद्वान् जन उस के गुणों का गान करें ॥ २ ॥

इन्द्राय गाव आशिरं दुदुहे वज्रिणे मधु । यत् सीमुपहरे
विदत् ॥ ३ ॥

इन्द्राय । गावः । आ-शिरम् । दुदुहे । वज्रिणे । मधु ॥
यत् । सीम् । उप-हरे । विदत् ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(वज्रिणे) वज्रधारी (इन्द्राय) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले राजा] के लिये (गावः) वेद वाणीयों ने (आशिरम्) सेवने वा पकाने योग्य पदार्थ [दूध, दही, घी आदि] को और (मधु) मधुविद्या [यथार्थ ज्ञान] को (दुदुहे) भर दिया है । (यत्) जब कि उसने [उन वेदवाणियों को] (उपहरे) अपने पास (सीम्) सब प्रकार (विदत्) पाया ॥ ३ ॥

भावार्थ—ऐश्वर्यवान् पुरुष वेदवाणियों से सुशिक्षित होकर दूध आदि, भोग्य पदार्थ प्राप्त करके यथार्थ ज्ञान बढ़ावे ॥ ३ ॥

मन्त्राः ४—२१ परमात्मगुणोपदेशः—मन्त्र ४—२१ परमात्मा के गुणों का उपदेश ॥

उद् यद् ब्रधस्य विष्टपं गृहमिन्द्रं शु गन्वहि ।

मध्वः प्रीत्वा सचेवहि त्रिः सुप्त सख्युः पदे ॥ ४ ॥

उत् । यत् । ब्रधस्यं । विष्टपम् । गृहम् । इन्द्रः । च । गन्वहि ॥

मध्वः । प्रीत्वा । सचेवहि । त्रिः । सुप्त । सख्युः । पदे ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(यत्) जब (ब्रह्मस्य) नियम करने वाले [वा महान् , परमेश्वर] के (विष्टपम्) सहारे [अर्थात्] (गृहम्) शरण को (इन्द्रः) इन्द्र [यद्दे ऐश्वर्यं धाता आचार्य] (स्व) और [मैं ब्रह्मचारी] (उक्त्) ऊचे होकर (गन्वहि) हम दोनों प्राप्त करें । (त्रिः) तीन बार [सत्स्व, रज्ज, तम तीनों गुणों सहित] (सप्त) सात [भूर्, भुवः आदि सात अवस्थाओं वाले संसार] के (मध्वः) निश्चिन्त ज्ञान का (पीत्वा) पान करके (सख्युः) सखा [मित्र, परमात्मा] के (पदे) पद [प्राप्ति योग्य मोक्ष सुख] में (सचेवहि) हम दोनों सीखे जावें ॥ ४ ॥

भाषार्थ—आचार्य और जिज्ञासु ब्रह्मचारी परमात्मा की शरण लेकर सत्स्व, रज्ज और तम तीनों गुणों द्वारा भूर्, भुवः, स्वः, महः, जनः, पतः और सत्य इन सात अवस्थाओं से सूक्ष्म और स्थूल पदार्थों को जानकर मोक्ष पद प्राप्त करके सदा वृद्धि करें ॥ ४ ॥

अर्चतु प्राचतु प्रियमेधासो अर्चत ।

अर्चन्तु पुत्रका उत पुरं न धृष्णवर्चत ॥ ५ ॥

अर्चत । प्र । अर्चतु । प्रिय-मेधासः । अर्चत ॥

अर्चन्तु । पुत्रकाः । उत । पुरं । न । धृष्णु । अर्चतु ॥५॥

भाषार्थ—(प्रियमेधासः) हे प्यारी [हितकारिणी] बुद्धि वाले पुरुषो! (धृष्णु) निर्भय (पुरं न) गढ़ के समान [उस परमेश्वर] को (अर्चत)

४—(उक्त्) उक्त्वेः (यत्) यदा (ब्रह्मस्य) अ० ७ । २२ । २ । नियामकस्य । महतः परमेश्वरस्य (विष्टपम्) अ० १० । १० । ३१ । आश्रयम् (गृहम्) शरणम् (इन्द्रः) परमैश्वर्यं धाता आचार्यः (स्व) अहं ब्रह्मचारी स्व (गन्वहि) आर्वा प्राप्नुयाव (मध्वः) मधुनः । यथार्थज्ञानस्य (पीत्वा) पानं कृत्वा । अन्नभूय (सचेवहि) यच्च समवाये लोके च । तिलौ प्रवृद्धौ भवेथ (त्रिः) त्रिवारं सत्स्वरजस्तमोगुणैः (सप्त) भूर्, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्, इति सप्तावस्थाविशेष-सम्बन्धिनः संसारस्य (सख्युः) सर्वमित्रस्य परमेश्वरस्य (पदे) प्राप्तव्ये मोक्षसुखे ॥

५—(अर्चत) पूजयत—इन्द्रं, परमात्मानम् (प्र) प्रकर्षणे (अर्चत) (प्रियमेधासः) अ० २० । १० । २ । प्रियमेध—असुकु जसि । प्रिया हितकारी

पूजो, (प्र) अच्छे प्रकार (अर्चत) पूजो, (अर्चत) पूजो, (अर्चन) पूजो,
(उत) और (पुत्रकाः) गुणी सन्ताने [उस को] (अर्चन्तु) पूजें ॥ ५ ॥

भाष्यार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि वे अपने पुत्र पुत्रियों सहित प्रत्येक
क्षण में, प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक कर्म में परमात्मा की शक्ति को निहार कर
आत्मा की उन्नति करें ॥ ५ ॥

यह मन्त्र कुछ भेद से सामवेद में भी है—पू० ४।८।३ ॥

अव स्वराति गर्गरो गोधा परि सनिष्वाणत् ।

पिङ्गा परि चनिष्कदुन्द्राय ब्रह्मोद्यातम् ॥ ६ ॥

अव । स्वराति । गर्गरः । गोधा । परि । सनिष्वाणत् ॥

पिङ्गा । परि । चनिष्कदुत् । इन्द्राय । ब्रह्म । उत-यतम् ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ—(इन्द्राय) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले परमात्मा] के लिये
(उद्यतम्) ऊंचे किये हुये (ब्रह्म) वेदज्ञान का (गर्गरः) गर्गर [सारंगी आदि
बाजा] (अव स्वराति) स्वर आलापे, (गोधा) गोधा [वीणा आदि बाजा]
(परि सनिष्वाणत्) बोल बोले, और (पिङ्गा) पिङ्गा [धनुष की दड़ खोरी]
(परि चनिष्कदुत्) टक्कार करे ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि घर के बीच उत्सवों में और युद्ध
क्षेत्र के बीच संग्रामों में परमात्मा का स्मरण भली भाँति करते रहें ॥ ६ ॥

मेधा प्रका येषां तत्सम्बुद्धौ (अर्चत) (अर्चन्तु) पूजयन्तु (पुत्रकाः) अनुकम्पा
याम् । पा० ५ । ३ । ७६ । पुत्र—कप्रत्ययः । गुणिनः सन्तानाः (उत)
अपि च (पुरम्) दुर्गम् (न) यथा (धृष्णु) निर्भयम्, (अर्चत) ॥

६—(अव स्वराति) निश्चयेन शब्दयेत् (गर्गरः) अ० ४ । १५ । १२ । नु
शब्दे—नप्रत्ययः + रा दाने—कप्रत्ययः । गर्गरस्य कलशस्य ध्वनियुक्ती वाद्यविशेषः
(गोधा) अ० ४ । ३ । ६ । शुध परिवेष्टने ऋधम् टाप् । वीणादिवाद्यविशेषः
(परि) सर्वतः (सनिष्वाणत्) स्वन शब्दे, यङ्लुकि लोट् । मृशं ध्वनिं कुर्यात्
(पिङ्गा) अ० ८ । ६ । ६ । पिङ्गि बले दीप्तौ च—अच्, कुत्वम् । दडा धनुष्यां
(परि) (चनिष्कदुत्) सकन्दित गतिशोषणयोः—यङ्लुकि लोट् । गतिं कुर्यात्
टक्कारयेत् (इन्द्राय) परमैश्वर्यवते परमात्मने (ब्रह्म) वेदज्ञानम् (उद्यतम्)—
ऊर्धीकृतम् ॥

आ यत् पतन्त्येन्यः सुदुघा अनपस्फुरः ।

अपस्फुरं गृभायत् सोममिन्द्राय पातवे ॥ ७ ॥

आ । यत् । पतन्ति । एन्यः । सु-दुघाः । अनप-स्फुरः ॥

अप-स्फुरम् । गृभायत् । सोमम् । इन्द्राय । पातवे ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(यत्) जब (एन्यः) गति वाली, (सुदुघाः) अच्छे प्रकार कामनायें पूरी करने वाली, (अनपस्फुरः) निश्चल बुद्धियां (आं पतन्ति) आ जावें, [तव] (अपस्फुरम्) अत्यन्त बड़े हुये (सोमम्) उत्पन्न करने वाले परमात्मा को (इन्द्राय) बड़े पेश्वर्य की (पातवे) रक्षा के लिये (गृभायत्) तुम-ग्रहण करो ॥ ७ ॥

भाषार्थ—मनुष्य सब में गति वाली उत्तम बुद्धि को प्राप्त होकर परमेश्वर का आश्रय लेकर अपना पेश्वर्य बढ़ावें ॥ ७ ॥

अपादिन्द्रो अपाद्गिर्विश्वे देवा अमत्सुत । वरुण इद्दिह
स्यत् तमापो अभ्यनूषत वृत्सं सुंशिवरीरिवे ॥ ८ ॥

अपात् । इन्द्रः । अपात् । अग्निः । विश्वे । देवाः । अमत्सुत ॥

वरुणः । इत् । इह । स्यत् । तम् । आपः । अभि । अनुषत् ।

वृत्सम् । सुंशिवरीः-इव ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(इन्द्रः) इन्द्र [प्रतापी सूर्य] ने [पृथिवी आदि के जल को] (अपात्) पिया है, (अग्निः) अग्नि ने [काठ हव्य आदि के रस को]

७—(आ पतन्ति) आगच्छन्ति (यत्) यदा (एन्यः) वीज्याज्वरिभ्यो निः । सू० ४ । ४८ । इण् गतौ-निप्रत्ययः, ङीप् । एन्यो नदीनाम—निघ० १ ।

१३ । गतिशीलाः (सुदुघाः) सुष्ठु कामानां प्रपूरयिष्यः (अनपस्फुरः) अनप+स्फुर संचलने—किप् । निश्चला बुद्धयः (अपस्फुरम्) अप+स्फुर संचलने

वृद्धौ च किप् । अत्यन्तं प्रवृद्धम् (गृभायत्) गृहणीत (सोमम्) उत्पादकं परमात्मानम् (इन्द्राय) पेश्वर्यम् (पातवे) पातुम् । रक्षितुम् ॥

८—(अपात्) पा पाने—लुङ् । पीतवान् पृथिव्यादिजलम् (इन्द्रः) प्रतापी सूर्यः (अपात्) पीतवान् काष्ठहव्यादिरसम् (अग्निः) प्रसिद्धः (विश्वे)

(अपात्) पिया है, [उस से] (विश्वे) सब (देवाः) व्यवहार करने वाले प्राणी- (अमत्सत) तृप्त हुये हैं । (इह) इस [सब कर्म] में (वरुणः) श्रेष्ठ परमात्मा (इत्) ही (जयत्) समर्थ हुआ है, (तम्) उसे [परमात्मा] को (आपः) प्राप्त प्रजाओं ने (अग्नि) सब प्रकार (अनूपत) [प्रीति से] संसहा है, (इव) जैसे (संशिश्वरीः) मिलाती हुयी गीयें (वत्सम्) बड़ों [को] [प्रीति करती है ॥ ८ ॥

भाषार्थ—जिस परमात्मा के नियम से सूर्य जल को खींच कर वृष्टिद्वारा अन्न आदि उत्पन्न करने में, और आग लकड़ी, घी आदि पदार्थों को जलाकर अशुद्धि हटाने और मंजन आदि बनाने में उपकार करता है, उस परमेश्वर से सब मनुष्य आपा छोड़कर इस प्रकार प्रीति करे, जैसे गी आपा छोड़कर अपने छोटे बच्चे से प्रीति करती है ॥ ८ ॥

सुदेवो अग्नि वरुण यस्य ते सुप्त सिन्धवः ।

अनुक्षरन्ति काकुदसु सूर्यं सुषिरामिव ॥ ८ ॥

सु-देवः । अग्नि । वरुण । यस्य । ते । सुप्त । सिन्धवः ॥

अनु-क्षरन्ति । काकुदसु । सूर्यम् । सुषिराम-इव ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(वरुण) हे श्रेष्ठ परमात्मन् । तू (सुदेवः) बड़ा देव [अति प्रकाशमान वा दानी] (अग्नि-) है, (यस्य ते) जिस तेरे (काकुदसु) तालू को (सप्त) सात (सिन्धवः) बहते हुये समुद्र [अर्थात् भूर्, भुवः, स्वः]

(देवाः)-व्यवहारिणः प्राणिनः (अमत्सत) मदी हवें । तृप्ता अभवन् (वरुणः) श्रेष्ठः परमात्मा (इत्) एव (इह) अग्निमन्सर्वस्मिन् कर्मणि (जयत्) क्षि पेश्वर्ये । स मर्थोऽभवत् (तम्) वरुणम् (आपः) प्राप्ताः प्रजाः (अग्नि) (अनूपत) अ० २० । १७ । १ । अस्तुवन् (वत्सम्) गोशिशुम् (संशिश्वरीः) स्नामदि-पद्यर्त्ति० । उ०४ । ११३ सम् + शश प्लुतगतौ—वनिप् । अकारस्य इकारः । वनो र च । पा० ५ । १ । ७ । ङीवरेफौ । संशश्वर्यः संगच्छमाना गावः (इव) यथा ॥

६—(सुदेवः) कतयाणदेवः । अतिप्रकाशमानः । महादानी (अग्नि) (वरुण) हे श्रेष्ठ परमात्मन् (यस्य)- (ते) तव (सप्त) सप्तसंख्याकाः (सिन्धवः) स्पन्वमानाः समुद्राः । भूर्भुवराद्यिवस्थाविशेषयुक्ताः सर्वलोकः ।

महः, जनाः, तपाः, सत्य, इन सात अवस्थाओं वाले सब लोक] (अनुत्तरन्ति) निरन्तर सींचते हैं, (इव) जैसे (सूर्यम्) बड़े वेग वाले (सुविराम्) भरने को [जल सींचते हैं] ॥ ६ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र के लिये—अ० २० । ३४ । ३ और निरुक्त ५ । २७ भी देखो । जिस परमात्मा की आज्ञा में यह सब बड़े छोटे लोक इस प्रकार झुकते हैं, जैसे जल दूर दूर से एकत्र होकर झोते में झुक कर गिरते हैं, हे मनुष्यो! तुम अभिमान छोड़ कर उसी जगदीश्वर के सामने झुको ॥ ६ ॥

धेः व्यतीर् रफाणयत् सुयुक्तान् उप दाशुषे ।

तुक्को नेता तदिह वपुरुपुमा यो अमुच्यत ॥ १० ॥

यः । व्यतीन् । अफाणयत् । सु-युक्तान् । उप । दाशुषे ॥ तुक्कः
नेना । तत् । इत् । वपुः । उप-मा । यः । अमुच्यत ॥ १० ॥

भाषार्थ—(यः) जिस [परमात्मा] ने (व्यतीन्) विविध प्रकार चलते रहने वाले, (सुयुक्तान्) बड़े योग्य पदार्थों को (दाशुषे) आत्मदानी [भक्त] के लिये (उप) सुन्दर रीति से (अफाणयत्) सहज में उत्पन्न किया है और (यः) जिस [परमात्मा] ने (उपमाः) पाल रहने वाले को (अमुच्यत) [तुःओं से] मुक्त किया है, (तत् इत्) वही (वपुः) बीज बने वाला [ब्रह्म]

(अनुत्तरन्ति) निरन्तरं सिञ्चन्ति (काकुदम्) तालु—निरु० ५ । २६ (सूर्यम्) कल्याणोर्मिम् । सुवेगवतीम् (सुविराम्) इषिमदिमुदि० । उ० १ । ५१ । शुष् शोषणे—किरत्, टाप्, शस्य सः । जलनिसरणच्छिद्रम् । झोतः (इव) यथा ॥

१०—(यः) परमात्मा (व्यतीन्) अतः स्यात्त्वगमने-इत् । विविधसदा-गमनशीलान् (अफाणयत्) कण गतौ अनायासेनोत्पत्तौ च—णिच् । फणसि-र्गतिकर्मा—निघ० २ । १४ । अनायासेनोत्पदितवान् (सुयुक्तान्) सुयोग्यान् पदार्थान् (उप) पूजायाम् (दाशुषे) आत्मदानिने । उपासकाय (तुक्कः) कृष्णशुद्धयोः यः । उ० २ । १५५ । तत्कृतिर्गतिकर्मा—निघ० २ । १४ । वप्रत्ययः । व्यापकः (नेता) (तत्) (इत्) एव (वपुः) अर्तिपूषपि० । उ० २ । ११७ । इवप बीजतःतुसन्ताने—उत्ति । बीजोत्पादकं ब्रह्म (उपमा) विभक्तैराकारः ।

(शक्रः) व्यापक (नेता) नेता [अगुआ परमात्मा] है ॥ १० ॥

भाषार्थ—जिस परमात्मा ने अपने सहज स्वभावसे अनोखे अनोखे पदार्थ रचकर अपने विवेकी भक्तों को परम आनन्द दिया है, सब प्रबुद्ध उस सर्वशक्तिमान् की उपासना करके सुखी हों ॥ १० ॥

अतीदुं शुक्र ओहतु इन्द्रो विश्वा अति द्विषः ।

भिनत् कनीनं ओदनं पच्यमानं पुरो गिरा ॥ ११ ॥

अति । इत् । ऊ इति । शुक्रः । ओहते । इन्द्रः । विश्वाः ।

अति । द्विषः ॥ भिनत् । कनीनः । ओदनम् । पच्यमानम् ।

पुरः । गिरा ॥ ११ ॥

भाषार्थ—(शक्रः) शक्तिमान् (इन्द्रः) इन्द्र [परम पेश्वर्य वाला परमात्मा] (इत्) ही (उ) अवश्य (अति) तिरस्कार करके (विश्वाः) सब (द्विषः) विरोध करने वाली प्रजाओं को (अति) सर्वथा (ओहते) मारता है, [जैसे] (कनीनः) चमकता हुआ सूर्य (गिरा) वाणी [गर्जन] से (पच्यमानम्) पचाये गये [ताड़े गये] (ओदनम्) मेघ को (पुरः) दूर (भिनत्) छिन्न भिन्न करता है ॥ ११ ॥

भाषार्थ—सर्वशक्तिमान् परमेश्वर हमारे सब विघ्नों को दूर कर देता है जैसे सूर्य मेघ को छिन्न भिन्न करके प्रकाश करता है ॥ ११ ॥

अर्भुको न कुमारकोऽधि तिष्ठन्नवं रथम् ।

उपमे अन्तिकनामा—निघ० २ । १६ । उपमं निकटस्थम् । उपासकम् (यः) परमात्मा (अमुच्यत) मुकवान् दुःखेभ्यः ॥

११—(अति) अतीत्य । उल्लङ्घ्य (इत्) एव (उ) अवश्यम् (शक्रः) शक्तिमान् (ओहते) उहिरु अर्दने । नाशयति (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् परमेश्वरः (विश्वाः) सर्वाः (अति) सर्वथा (द्विषः) द्वेषीः प्रजाः (भिनत्) भिनत्ति (कनीनः) कनतिः काम्बिकर्मा—निघ० २ । १—ईन प्रत्ययः । प्रकाशमानः सूर्यः (ओदनम्) मेघम्—निघ० १ । १० (पच्यमानम्) तावन्मानमित्यर्थः (पुरः) परस्तात् । दूरे (गिरा) शब्देन । गर्जनेन ॥

स पक्षन्महिषं मृगं पित्रे मात्रे विभुक्तुम् ॥ १२ ॥

अर्भकः । न । कुमारकः । अधि । तिष्ठत् । नवम् । रथम् ॥

सः । पक्षत् । महिषम् । मृगम् । पित्रे । मात्रे । विभु-क्तुम् ॥ १२

भाषार्थ—(न) जैसे (कुमारकः) खिलाड़ी (अर्भकः) बालक (नवम्) नवे (रथम्) रथ पर (अधि तिष्ठत्) चढ़े । [वैसे ही] (सः) वह [जिज्ञासु] (मात्रे) माता के लिये और (पित्रे) पिता के लिये (महिषम्) महान्, (मृगम्) खोजने योग्य (विभुक्तुम्) व्यापक कर्म वाले [परमात्मा] को (पक्षत्) ग्रहण करे ॥ १२ ॥

भावार्थ—जैसे छोटा बालक रथ आदि क्रीडा वस्तुओं में प्रीति करता है, वैसे ही जिज्ञासु पुत्र-माता पिता की प्रसन्नता के लिये महान् परमात्मा में प्रीति कर के अपना जीवन सुधारे ॥ १२ ॥

आ तू सुशिम दंपते रथं तिष्ठा हिरण्ययम् । अधं द्युक्षं संचे-
वहि सुस्र्पादमरुषं स्वस्तिगामनेहसम् ॥ १३ ॥

आ । तू । सु-शिम । दम्-पते । रथम् । तिष्ठ । हि-रण्ययम् ॥

अधं । द्युक्षम् । संचे-वहि । सुस्र्पा-पादम् । अरुषम् ।

स्वस्ति-गाम् । अनेहसम् ॥ १३ ॥

भाषार्थ—(सुशिम) हे बड़े ज्ञानी ! (दम्पते) हे दमनरत्नक [जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी] (हिरण्ययम्) प्रकाशमय [ज्ञानरूपी] (रथम्)

१२—(अर्भकः) बालक (न) यथा (कुमारकः) कुमार क्रीडायाम्—
धुन् । क्रीडकः (अधि तिष्ठत्) आरोहेत् (नवम्) नवीनम् (रथम्) यानम्
(सः) जिज्ञासुः (पक्षत्) परिगृहणीयात् (महिषम्) महान्तम् (मृगम्)
मृग्यम् । अन्वेषणीयम् (पित्रे) पितृप्रसादाय (मात्रे) मातृप्रसादाय
(विभुक्तुम्) व्यापककर्माणं परमात्मानम् ॥

१३—(आ तिष्ठ) आरोह (तू) क्षिम (सुशिम) अ० २० । ७१ । ६ ।
हे बहुज्ञानयुक्त-ब्रह्मचारिन् (दम्पते) वसु उपशमे—किम् । हे दमनरत्नक
जितेन्द्रिय (रथम्) (हिरण्ययम्), तेजोमय ज्ञानरूपम् (अध) अनन्तरम्

रथ पर (तु) शीघ्र (आ तिष्ठ) चढ़ । (अथ) फिर (युक्तम्) व्यवहारों में समर्थ, (सहस्रपादम्) सहस्रों [असीम] गति शक्ति वाले, (अरुपम्) व्यापक, (स्वस्तिगाम्) आनन्द पहुंचाने वाले, (अनेहसम्) निर्दोष परमात्मा को (सचेवहि) हम दोनों [आचार्य और ब्रह्मचारी] मिल जायें] ॥ १३ ॥

भाष्यार्थ—ऋष ब्रह्मचारी ब्रह्म विद्या में पूरी मिष्टा करता है, तब आचार्य और ब्रह्मचारी परमात्मा के आभय में पूरा आनन्द पाते हैं ॥ १३ ॥

तं धेमित्या नमस्विन उप स्वराजमासते ।

अर्थं चिदस्य सुधितं पदेतव आवर्तयन्ति दावने ॥ १४ ॥

तम् । धु । ईम् । इत्या । नमस्विनः । उप । स्व-राजम् ।
आसते ॥ अर्थम् । चित् । अस्य । सु-धितम् । यत् । एतवे ।
आ-वर्तयन्ति । दावने ॥ १४ ॥

भाष्यार्थ—(तम्) उस (ध) ही (ईम्) प्राप्ति योग्य (स्वराजम्) स्वराजा [अपने आप राजा परमेश्वर] को (इत्या) इस प्रकार (नमस्विनः) नमस्कार करने वाले लोग (उप आसते) पूजने हैं, (यत्) जब कि वे (अस्य) उस [परमात्मा] का (चित्) ही (सुधितम्) भले प्रकार रक्खा हुआ (अर्थम्) पावे योग्य धन (एतवे) पावे के लिये और (दावने) दान के लिये [उस परमात्मा] को (आवर्तयन्ति) सामने वर्तमान करते हैं ॥ १४ ॥

(युक्तम्), अ० २० । ६ । २ । विष्णु व्यवहारे—दिवि + सि पेश्वर्ये—उ । व्यवहारेषु समर्थम् (सचेवहि) आचाराचार्यब्रह्मचारिणौ संगच्छेवहि । संगती भवेत् (सहस्रपादम्) अ० ७ । ४१ । २ । असीमगतिशक्तियुक्तम् (अरुपम्) अतिपुत्रपि० । २ । ११७ । ऋ गतौ—उसि । व्यापकम् (स्वस्तिगाम्) आनन्दस्य गमयितारं प्रापकम् (अनेहसम्) निर्दोष परमात्मानम् ॥

१४—(तम्) (ध) एव (ईम्) प्राप्यम् (इत्या) इत्थम् । अनेन प्रकारेण (नमस्विनः) नमस्कारयुक्ताः (उप आसते) सेवन्ते (स्वराजम्) स्वय राजानं शासकम् (अर्थम्) अरणीयं प्रापणीयं धनम् (चित्) एव (अस्य) परमात्मनः (सुधितम्) सुष्ठु स्थापितम् (यत्) यदा (एतवे) एतुम् । प्राप्नुम् (आवर्तयन्ति) अभिमुखं वर्तमानं कुर्वन्ति (दावने) दानाय ॥

भाषार्थ—जो परमात्मा अपने आप सब का राजा है, सब लोग उस की आज्ञा मानकर विविध प्रकार धन प्राप्त करके सुपात्रोंका सहाय करें ॥ १४ ॥

अनुं प्रत्नस्योक्तसः प्रियमेधास एषाम् ।

पूर्वमिनु प्रयतिं वृक्तबर्हिषो हितप्रयस आशत ॥ १५ ॥

अनुं । प्रत्नस्य । ओक्तसः । प्रिय-मेधासः । एषाम् ॥ पूर्वाम् ।

अनुं । प्र-यतिम् । वृक्त-बर्हिषः । हित-प्रयसः । आशत ॥ १५ ॥

भाषार्थ—(एषाम्) इन प्राणियों के बीच (प्रियमेधासः) प्यारी बुद्धि वाले, (वृक्तबर्हिषः) हिंसा त्यागने वाले (हितप्रयसः) हितकारी अन्न वाले पुरुषों ने (प्रत्नस्य) सनानन (ओक्तसः) आश्रय [परमात्मा] के (अनु) पीछे होकर (पूर्वाम्) पहिली (प्रयतिम्) प्रयत्न रीति को (अनु) निरन्तर (आशत) पाया है ॥ १५ ॥

भाषार्थ—इन प्राणियों के बीच सर्वहितेपी विद्वान् लोग परमात्मा का आश्रय लेकर आनन्द पावें ॥ १५ ॥

यो राजा चर्षणीनां याता रथैभिरग्निगुः ।

विश्यासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गृणो ॥ १६ ॥

यः । राजा । चर्षणीनाम् । याता । रथैभिः । अग्नि-गुः ॥

विश्यासाम् । तरुता । पृतनानाम् । ज्येष्ठः । यः । वृत्र-हा ।

गृणो ॥ १६ ॥

भाषार्थ—(यः) जो [परमेश्वर] (चर्षणीनाम्) मनुष्यों का

१५—(अनु) अनुकृत्य (प्रत्नस्य) पुराणस्य (ओक्तसः) आश्रयस्य परमेश्वरस्य (प्रियमेधासः) हितकरमेवायुक्ताः (एषाम्) मनुष्याणां मध्ये (पूर्वाम्) प्रथमाम् (अनु) निरन्तरम् (प्रयतिम्) यती प्रयत्न—इत् । प्रयत्न रीतिम् (वृक्तबर्हिषः) अ० २० । ५२ । १ । त्यक्तहिंसाः (हितप्रयसः) हितकरायुक्ताः (आशत) प्राप्तवन्तः ॥

१६—(यः) परमेश्वरः (राजा) ऐश्वर्यवान् (चर्षणीनाम्) मनुष्या-

(राजा) राजा (रथेभिः) रथों [के समान रमणीय लोका] के साथ (अग्निगुः) वेरोक (धोता) चलने वाला, और (यः) जो (विश्वासाम्) सब (पृतना-
नाम्) शत्रु सेनाओं का (तरुता) हराने वाले, (ज्येष्ठः) अति श्रेष्ठ (वृत्रहा)
अन्धकार नाशक है, [उस की] (गृणे) मैं स्तुति करता हूँ ॥ १६ ॥

भाष्यार्थ—जो परमात्मा सब मनुष्य आदि प्राणियों और सूर्य आदि
लोकों का स्वामी है, हम उसके गुणों को प्रशंसा कर के सब कष्टों से बचें ॥१६॥

मन्त्र १६—२१ ऋग्वेद में है—२। ७० [सायणभाष्य ५६] । १—६ ।

मन्त्र १६, १७ सामवेद—उ० ३। १ । १५, मन्त्र १६ साम० । पू० ३। ६ । १,

मन्त्र १६, १७ आगे हैं—अ० २० । १०५ । ४, ५ ॥

इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मुन्नवसे यस्य द्विजा विधूर्तरि ।

हस्ताय वज्रः प्रति धायि दशुतो सहो दिवे न सूर्यः ॥१७॥

इन्द्रम् । तम् । शुम्भ । पुरु-हन्मन् । अवसे । यस्य । द्विजा ।

वि-धूर्तरि ॥ हस्ताय । वज्रः । प्रति । धायि । दशुतः ।

सुहः । दिवे । न । सूर्यः ॥ १७ ॥

भाष्यार्थ—(पुरुहन्मन्) हे बहुत जानी ऋषि ! (तम्) उस (इन्द्रम्)
इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले परमात्मा] का (शुम्भ) भाषण कर, (यस्य) जिसके
(द्विजा) दोनों धर्म [अनुग्रह और निग्रह गुण] (विधूर्तरि) बुद्धिमान् जन

णाम् (धाता) गन्ता (रथेभिः) रथसदृशै रमणीयलोकैः सह (अग्निगुः)
अ० २०। ३५ । १ । अधृतगमनः । अनिवारितगतिः (विश्वासाम्) सर्वासाम्
(तरुता) असितस्कभितस्तमिनो० । पा० ७ । २ । ३४ । इकारस्य उकारः ।
तरिता । अभिभविता (पृतनानाम्) शत्रुसेनानाम् (ज्येष्ठः) अतिश्रेष्ठः ।
अतिवृद्धः (यः) (वृत्रहा) अन्धकारनाशकः (गृणे) स्तौमि तम् ॥

१७—(इन्द्रम्) परमेश्वरम् (तम्) (शुम्भ) शुम्भ हिंसाभाषणभा-
सनेषु । भाषस्व । वर्णय (पुरुहन्मन्) सर्वधातुभ्यो मनिन् । उ० ४ । १४५ । पुरु-
हन् हिंसागत्योः—मनिन् । पुरु बहु हन्ति गच्छति जानातीति पुरुहन्मा तरु-
मुञ्चौ । हे बहुजानिन् । ऋषे (अवसे) रक्षणाय (यस्य) परमेश्वरस्य

पर (अथसे) रक्षा के लिये और [जिस का] (दर्शतः) दर्शनीय (महः) महान् (वज्रः) वज्र [दण्ड सामर्थ्य] (दस्ताय) हाथ [अर्थात् हमारे बाहु-बल] के लिये (प्रति) प्रत्यक्ष (धायि) धारण किया गया है, (न) जैसे (सूर्यः) सूर्य (दिवे) प्रकाश के लिये है ॥ ७ ॥

भावार्थ—परमात्मा अति प्रत्यक्ष रूप से दुष्टों को दण्ड देता है और धर्मात्माओं पर अनुग्रह करना है, ऐसा निश्चय करके विद्वान् लोग सदा ईश्वर की आज्ञा में रहकर सुखी हों ॥ १७ ॥

नकिष्टं कर्मणा नशुद् यश्चकार सदावृधम् ।

इन्द्रं न युञ्जीर्विश्वगूर्तमृभ्वसुमधृष्टं धृष्णवोजसम् ॥ १८ ॥

नकिः । तम् । कर्मणा । नशुत् । यः । चकार । सदा-वृधम् ॥

इन्द्रम् । न । युञ्जीः । विश्व-गूर्तम् । ऋभ्वसम् । अमधृष्टम् ।

धृष्णु-वोजसम् ॥ १८ ॥

भावार्थ (यः) जिस [परमात्मा] ने (सदावृधम्) सदा बढ़ाने वाले व्यवहार को (चकार) बनाया है, (तम्) उस (विश्वगूर्तम्) सबों को उद्यम में लगाने वाले, (ऋभ्वसम्) बुद्धिमानों को ग्रहण करने वाले, (अमधृष्टम्) अजेय, (धृष्णवोजसम्) निर्भय बल वाले (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा] को (नकिः) न कोई (कर्मणा) कर्म से और (न) न

(द्विता) द्वित्वम् । निग्रहानुग्रहरूपं गुणद्वयम् (विधर्तरि) मेधाविनि जने—निघ० ३ । १५ (हस्ताय) अस्माक वक्षुवलाय (वज्रः) दण्डसामर्थ्यम् (प्रति) प्रत्यक्षम् (धायि) अधारि (दर्शतः) दर्शनीयः (महः) मह—अच् । महान् (दिवे) प्रकाशाय (न) यथा (सूर्यः) ॥

१८—(नकिः) न कश्चित् (तम्) प्रसिद्धम् (कर्मणा) (नशुत्) प्रामुखात् (यः) परमेश्वरः (चकार) रचितवान् (सदावृधम्) सदावर्धकं व्यवहारम् (इन्द्रम्) - (न) निषेधे (युञ्जीः) दानैः (विश्वगूर्तम्) अ० २० । १५ । ६ । विश्वं सर्वं जगद् गूर्णम् उद्यतम् उद्यमे कृतं येन तम (ऋभ्वसम्) ऋभुर्मेधाविनाम—निघ० ३ । १५ + अस ग्रहणे—अच् । ऋभूणां मेधाविनां प्रहीतारम् (अमधृष्टम्) अजेयम् (धृष्णवोजसम्) धर्षवबलम् । निर्भयपरा-

(यज्ञैः) दानों से (नशत्) पा सकता है ॥ १८ ॥

भाष्यार्थ—जो परमात्मा सृष्टि आदि अद्भुत कर्मों को करता है, और सभ को पालता है, कोई भी प्राणी उस अनन्तकर्म और अनन्तदानी परमेश्वर के समान नहीं हो सकता है ॥

मन्त्र १८, १९ सामवेद में भी हैं—३०४। २। ८, मन्त्र १८—साम० पृ० ३। ६१ ॥

अषालहमुग्रं पृतनासु ससहिं यस्मिन् महीरुज्रयः ।

सं धेनवो जायमाने अनोनवुर्द्यावः क्षामो अनोनवुः ॥ १८ ॥

अषालहम् । उग्रम् । पृतनासु । ससहिम् । यस्मिन् । महीः ।

उरु-ज्रयः ॥ सम् । धेनवः । जायमाने । अनोनवुः । द्यावः ।

क्षामः । अनोनवुः ॥ १८ ॥

भाष्यार्थ—(यस्मिन् जायमाने) जिस [परमात्मा] के प्रकट होने पर (महीः) पृथिवियां (उरुज्रयः) बहुत चलने वाली होती हैं, (अषालहम्) उस अजेय, (उग्रम्) तेजस्वी, और (पृतनासु) सङ्ग्रामों में (ससहिम्) जिताने वाले [परमेश्वर] को (धेनवः) वाणियों ने (सम्) मिलकर (अनोनवुः) अत्यन्त सराहा है, (द्यावः) सूर्यो और (क्षामः) भूमियों ने (अनोनवुः) अत्यन्त सराहा है ॥ १९ ॥

क्रमयुक्तम् ॥

१९—(अषालहम्) यह मर्षणे अग्निभवे—क, ओकारस्य आकारः । ऋसोढम् । अनभिभूतम् (उग्रम्) तेजस्विनम् (पृतनासु) सङ्ग्रामेषु (ससहिम्) अ० ३। १८। ५। अभिभूवितारम् । विजयकारकम् (यस्मिन्) परमात्मनि (महीः) पृथिव्यः (उरुज्रयः) जयतिर्गतिकर्मा—निघ० २। १४। वातेर्दिञ्च । उ० ४। १३४। जि गतौ—इण्, डिक् । बहुगतिशीलाः (सम्) एकीभूय (धेनवः) प्रीणयिष्योवाचः (जायमाने) प्रकटीभूयमाने (अनोनवुः) णु स्तुतौ—यङ् लुकि लक् । भूशमस्तुवन (द्यावः) सूर्याः (क्षामः) पृथिव्यः (अनोनवुः) ॥

भाषार्थ—जब परमात्मा अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है, तब सब पृथिवी आदि लोक उत्पन्न होते हैं, और उस की अद्भुत महिमा को सूर्य पृथिवी आदि लोकों में देख कर सब प्राणी आनन्द पाते हैं ॥ १६ ॥

यद् व्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमिरुत स्युः ।

न त्वा वज्रिन्सहस्रं सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥ २० ॥

यत् । व्यावः । इन्द्र । ते । शतम् । शतम् । भूमीः । उत ।

स्युरिति स्युः ॥ न । त्वा । वज्रिन् । सहस्रम् । सूर्याः । अनु ।

न । जातम् । अष्ट । रोदसी इति ॥ २० ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले परमात्मन] (यत्) जो (शतम्) सौ (व्याव) अन्तरिक्ष [वायु लोक], (उत) और (शतम्) सौ (भूमीः) भूमि लोक (ते) तेरे [सामने] (स्युः) होवें, [न वे सब] और (न) न (सहस्रम्) सहस्र (सूर्याः) सूर्य लोक और (रोदसी) दोनों अन्तरिक्ष और भूमि लोक [मिलकर] और (न) न (जातम्) उत्पन्न हुआ जगत्, (वज्रिन्) हे दण्डधारी ! [परमात्मन] (त्वा) तुझ को (अनु) निरन्तर (अष्ट) षा सके हैं ॥ २० ॥

भाषार्थ—सब असंख्य लोक और पदार्थ अलग अलग होकर अथवा सब मिलकर परमात्मा की महिमा का पार नहीं पा सकते ॥ २० ॥

मन्त्र २०, २१ आ लुके हैं—अ० २० । ८१ । १, २ ॥

आ पंप्राथ महिना वृष्या वृषुन् विश्वा श्विष्टु श्वसा ।

अस्मान् अथ मघवत् गोमति ब्रजे वज्रं चित्राभिकृतिभिः ॥ २१ ॥

आ । पंप्राथ । महिना । वृष्या । वृषुन् । विश्वा । श्विष्टु ।

श्वसा ॥ अस्मान् । अथ । मघवत् । गो-मति । ब्रजे ।

वज्रिन् । चित्राभिः । कृ-ति-भिः ॥ २१ ॥

भाषार्थ—(वृषन्) हे शर ! (श्विष्टु) हे अत्यन्त बली ! [परमात्मन]

(महिना) अपने बड़े (शंखसा) बल से (विश्वा) सब (वृष्या) शूर के योग्य बलों को (आ) सब ओर से (पश्या) तू ने भर दिया है । (मधवन्) हे महाधनी ! (वज्रिन्) हे दण्डधारी ! [शासक परमेश्वर] (गोमनि) उत्तम विद्या वाले (व्रजे) मार्ग में (चित्राभिः) विचित्र (ऊतिभिः) रक्षाओं से (अस्मान्) हमें (अब) बचा ॥ २१ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि परमात्मा से प्रार्थना करके सब पदार्थों से उपकार ले कर यथावत् पालन करें ॥

सूक्तसु ८३ ॥

१—८ ॥ इन्द्रो वंशता ॥ १, ४ निचूद् गायत्री; २ गायत्री; ३ स्वराडाची गायत्री; ५—८ विराडाची गायत्री ॥

परमेश्वरोपासनोपदेशः—पमेश्वर की उपासना का उपदेश ॥

उत् त्वा मन्दन्तु स्तोमाः कृणुष्व राधो अद्रिवः । अब
ब्रह्मद्विषो जहि ॥ १ ॥

उत् । त्वा । मन्दन्तु । स्तोमाः । कृणुष्व । राधः । अद्रिवः ॥
अब । ब्रह्म-द्विषः । जहि ॥ १ ॥

भाषार्थ—(अद्रिवः) हे अन्न वाले ! [वा वज्र वाले परमेश्वर !] (त्वा) तुझ को (स्तोमाः) स्तुति करने वाले लोग (उत्) अच्छे प्रकार (मन्दन्तु) प्रसन्न करें, तू [हमारे लिये] (राधः) धन (कृणुष्व) कर, (ब्रह्मद्विषः) वेद द्वेषियों को (अब जहि) नष्ट कर दे ॥ १ ॥

भाषार्थ—मनुष्य परमात्मा के गुणों को जानकर विद्याधन और सुवर्ण आदि धन बढ़ावे और अधर्मियों का नाश करें ॥ १ ॥

मन्त्र १—३ ऋग्वेद में है—८ । ६४ [सायणभाष्ये ५३] ; १—३ और कुछ भेद से सामवेद में है—४०६ । १ । सूच ३ और मन्त्र १ साम०—५०३ । १ । १ ॥

१—(उत्) उत्तमतया (त्वा) (मन्दन्तु) तर्पयन्तु (स्तोमः) स्तावकाः (कृणुष्व) कुरु (राधः) विद्यासुवर्णादिधनम् (अद्रिवः) अद्रिशदिभूशुभिभ्यः किन् । उ० ४ । ६५ । अद् भक्षणे—किन् । हे अन्नवन् । वज्रिन् (अब जहि) विनाशय (ब्रह्मद्विषः) वेदद्वेषन् ॥

पदा पुणींर्राधसे नि बाधस्व मुहाँ असि । नहि त्वा
कश्चन प्रति ॥ २ ॥

पदा । पुणीन् । अराधसः । नि । बाधस्व । मुहान् । असि ॥
नहि । त्वा । कः । चन । प्रति ॥ २ ॥

भाषार्थ—[हे परमेश्वर !] तू (पदा) अपनी व्यति से (अराधसः)
आराधना न करने वाले (पुणीन्) कुव्यवहारी पुरुषों को (नि बाधस्व)
रोकना रठ, तू (मुहान्) महान् (असि) है । (कः चन) कोई भी (त्वा प्रति)
तेरे समान (नहि) नहीं है ॥ २ ॥

भाषार्थ—परमात्मा सर्वव्यापक होकर दुष्टों का नाश और धर्मा-
त्माओं की रक्षा करता है ॥ २ ॥

त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम् । त्वं राजा जनानाम् ३
त्वम् । ईशिषे । सुतानाम् । इन्द्र । त्वम् । असुतानाम् ॥
त्वम् । राजा । जनानाम् ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [परमेश्वर] (त्वम्) तू (सुतानाम्)
उत्पन्न हुये पदार्थों का, और (त्वम्) तू (असुतानाम्) न उत्पन्न हुये [पर-
माणु रूप] पदार्थों का (ईशिषे) स्वामी है, (त्वम्) तू (जनानाम्) उत्पन्न
होने वालों का (राजा) राजा है ॥ ३ ॥

भाषार्थ—परमेश्वर ही परमाणुओं के सयोग वियोग से भूत, भवि-
ष्यत् और वर्तमान सृष्टि का स्वामी है ॥ ३ ॥

२—(पदा) पद गतौ स्थैर्ये च—किप् । गत्या । व्याप्त्या (पुणीन्)
कुव्यवहारिणः पुरुषान् (अराधसः) अराधसमनाराधयन्तम्—निक० ५ । १७ ।
अनाराधनाशीलान् (ति) नितराम् (बाधस्व) विलोडय । अपवृणु (मुहान्)
(असि) (नहि) (कश्चन) कश्चिदपि (त्वा प्रति) त्वया सदृशः ॥

३—(त्वम्) (ईशिषे) ईश्वरो भवति (सुतानाम्) उत्पन्नानां पदा-
र्थानाम् (इन्द्र) हे परमेश्वर (त्वम्) (असुतानाम्) अनुत्पन्नानां परमाणुरूप-
पदार्थानाम् (त्वम् (राजा) (जनानाम्) जनिष्यमाणानाम् ॥

ईङ्खयन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते । भोजानासः सुवीर्यम् ॥
 ईङ्खयन्तीः । अपस्युवः । इन्द्रम् । जातम् । उप । आसते ॥
 भोजानासः । सु-वीर्यम् ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(ईङ्खयन्तीः) चेष्टा करती हुई, (अपस्युवः) काम
 चाहने वाली, (सुवीर्यम्) बड़े सामर्थ्य को (भोजानासः) सेवन करती हुई
 प्रजायें (जातम्) प्रकट हुये (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा] की
 (उप आसते) उपासना करती हैं ॥ ४ ॥

भाषार्थ—यह सब पदार्थ पतमेश्वर के नियम से चेष्टा करते हुये
 और अपना कर्तव्य करने हुये उस जगदीश्वर की आज्ञा में रहते हैं ॥ ४ ॥

मन्त्र ४—= अग्नेद मे है १० । १५३ । १—५: पन्त्र ४ सामवेद पू० २ । ६ । १॥
 त्वमिन्द्रं बलादधि सहसो जात ओजसः । त्वं वृषन् वृषदंसि ५
 त्वम् । इन्द्र । बलात् । अधि । सहसः । जातः । ओजसः ५॥
 त्वम् । वृषन् । वृषा । इत् । अंसि ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र । [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन्] (त्वम्)
 तू (बलान्) बल से, (ओजसः) पराक्रम [शैर्य] और (त्वदंसः) जयशीलता
 से (अधि) अधिक करके (जातः) प्रसिद्ध है । (वृषन्) हे बलवान् । (वृषम्)
 तू (वृषा इत्) बलवान् ही (अंसि) है ॥ ५ ॥

भाषार्थ—परमात्मा अपने अनन्त सामर्थ्य से सब को अपने वश में
 रक्ता है ॥ ५ ॥

यह मन्त्र इन्द्र वेद से सामवेद में भी है—पू० २ । ३ । ६ ॥

४—(ईङ्खयन्तीः) ईक्षि गती—शतृ । गच्छन्त्यः । चेष्टमानाः (अपस्युवः)
 अपः कर्मात्मन इच्छन्त्यः (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवर्तं परमात्मानम् (जातम्)
 प्रादुर्भूतम् (उप आसते) परिचरन्ति (भोजानासः) छान्दसं रूपम् । भजमानाः
 (सुवीर्यम्) शोभनं बलम् ॥

५—(त्वम्) (इन्द्र) (बलात्) (अधि) अधिकृत्यं (सहसः) अभिभ-
 वनात् । जयशीलत्वात् (जातः) प्रसिद्धः (ओजसः) पराक्रमात् । शैर्यात्
 (त्वम्) (वृषन्) हे बलवान् (वृषा) बलवान् (इत्) एव (अंसि) ॥

त्वमिन्द्रासि वृत्रहा व्यन्तरिक्षमतिरः । उद् व्यामस्तभ्नु
ओजसा ॥ ६ ॥

त्वम् । इन्द्र । असि । वृत्र-हा । वि । अन्तरिक्षम् । अतिरः ॥
उत् । व्याम् । अस्तभ्नुः । ओजसा ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले परमात्मन्) (त्वम्)
तू (वृत्रहा) अन्धकार नाशक (असि) है, (अन्तरिक्षम्) आकाश को (वि
अतिरः) तू ने फैलाया है, और (ओजसा) पराक्रम के साथ (व्याम्) घमकते
हुये सूर्य को (उत्) उत्तम रीति से (अस्तभ्नुः) थांभा है ॥ ६ ॥

भावार्थ—परमेश्वर ही आकर्षण नियम से सूर्य आदि लोकों को अपने
अपने स्थान पर आकाश में स्थिर रखना है ॥ ६ ॥

त्वमिन्द्र सजोषसमर्कं विभर्षि ब्राह्मोः । वज्रं शिशानु
ओजसा ॥ ७ ॥

त्वम् । इन्द्र । स-जोषसम् । अर्कम् । विभर्षि । ब्राह्मोः ॥
वज्रम् । शिशानुः । ओजसा ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले परमेश्वर] (ओजसा)
पराक्रम से (वज्रम्) वज्र को (शिशानुः) तीक्ष्ण करता हुआ (त्वम्) तू
(सजोषसम्) प्रीति युक्त [वा विचारवान्] (अर्कम्) पूजनीय विद्वान् को
(ब्राह्मोः) दोनों भुजाओं पर [जैने] (विभर्षि) धारण करता है ॥ ७ ॥

६—(त्वम्) इन्द्र, परमेश्वर्यवान् परमात्मन् (असि) (वृत्रहा) अन्ध-
कारनाशकः (अन्तरिक्षम्) आकाशम् (विअतिरः) तू तरणे—इन्द्र, अशदित्वम् ।
विस्मारितवानसि (उत्) उत्तमतया (व्याम्) घोत्मान सूर्यम् (अस्तभ्नुः)
स्तम्भितवानसि (ओजसा) पराक्रमेण ॥

७—(त्वम्) (इन्द्र) परमेश्वर्यवान् परमात्मन् (सजोषसम्) प्रीत्या
विचारेण वा सह वर्तमानम् (अर्कम्) पूजनीय परिडवम् (विभर्षि) धारयसि
(ब्राह्मोः) भुजयोः (वज्रम्) (शिशानुः) निश्यन् । तीक्ष्णीकुर्वन् (ओजसा)
पराक्रमेण ॥

भाषार्थ—परमात्मा दुष्टों का नाश करता हुआ आकाशकारी विचारशील विद्वानों को अपने प्रेम की गोद में बिठा कर बढ़ाता है ॥ ७ ॥

त्वमिन्द्राभिभूरसि विश्वा जातान्योजसा । स विश्वा भुवः
आभवः ॥ ८ ॥

त्वम् । इन्द्र । अभि-भूः । असि । विश्वा । जातानि ।
ओजसा ॥ सः । विश्वाः । भुवः । आ । अभवः ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [परमेश्वर] (त्वम्) तू (ओजसा) पराक्रम से (विश्वा) सब (जातानि) उत्पन्न वस्तुओं को (अभिभूः) वश में रखने वाला (असि) है, (सः) सो तू (विश्वाः) सब (भुवः) भूमियों को (आ) सब ओर से (अभवः) प्राप्त हुआ है ॥ ८ ॥

भाषार्थ—परमात्मा सब संसार को कश में रखकर सब स्थानों में व्यापक है ॥ ८ ॥

सूक्तम् ८४ ॥

१—११ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ विराडाधीं त्रिष्टुप् ; २, १० निवृत् त्रिष्टुप् ; ३, ११ त्रिष्टुप् ; ४, ६, ७, ८, विराड् जगती ; ५ भुरिक् त्रिष्टुप् ; ८ निचृड्जगती ॥

राजप्रजाकर्तव्योपदेशः—राजा और प्रजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

आ यात्विन्द्रः स्वपतिर्मदाय यो धर्मणा तूतुजानस्तुविष्मान् ।
प्रत्वृक्षाणो अति विश्वा सहास्यपारेण महता वृष्येन ॥१॥
आ । यात्तु । इन्द्रः । स्व-पतिः । मदाय । यः । धर्मणा ।
तूतुजानः । तुविष्मान् ॥ प्र-त्वृक्षाणः । अति । विश्वा ।
सहासि । अपारेण । महता । वृष्येन ॥ १ ॥

८—(त्वम्) (इन्द्र) परमेश्वर्येवन् परमात्मन् (अभिभूः) अभिभविता ।
बलीकर्ता (असि) (विश्वा) सर्वाणि-जातानि उत्पन्नानि भूतानि (ओजसा)
पराक्रमेण (सः) स त्वम् (विश्वाः) सर्वाः (भुवः) भूमीः (आ) समन्तात्
(अभवः) भू प्राप्ती । प्राप्तवानसि ॥

भाषार्थ—(स्वपतिः) धन का स्वामी वा स्वयं स्वामी (इन्द्रः) इन्द्र
[बड़े पेशवर्य वाला राजा] (मदाय) हमारे आनन्द के लिये (आ यातु)
आवे, (यः) जो [राजा] (धर्मणा) धर्म के साथ (तूतुजानः) फुरतीला,
(तुषिष्मान्) वृद्धि वाला और (अपारेण) अपने अपार (महता) बड़े
(वृष्येन) साहस से [बिरियों के] (विश्वा) सब (सहांसि) जीतने वाले बलों
को (अति) सर्वथा (प्रत्वक्षमाणः) रेतने वाला [छीलने वाला] है ॥ १ ॥

भाषार्थ—राजा और प्रजा परस्पर सहाय करके शत्रुओं का नाश
करें ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—१०।४४।१-११ ॥

सुष्ठामा रथः सुयमा हरी ते मिम्यक्ष वज्रं नृपते गभस्ती ।
शीभं राजन् सुपथा याह्वर्वाङ् वर्धाम ते पुपुषो वृष्ययानि ॥२॥
सु-स्थामा । रथः । सु-यमा । हरी इति । ते । मिम्यक्षं ।
वज्रः । नृ-पते । गभस्ती ॥ शीभम् । राजन् । सु-पथा ।
आ । याहि । अर्वाङ् । वर्धाम । ते । पुपुषः । वृष्ययानि ॥२

भाषार्थ—(नृपते) हे नरपति । [मनुष्यों के स्वामी] (ते) तेरा
(रथः) रथ (सुष्ठामा) दृढ़ बैठकों वाला है, (हरी) दोनों घोड़े, (सुयमा)
अच्छे साथे हुये हैं, (गभस्ती) हाथ में (वज्रः) वज्र (मिम्यक्ष) प्राप्त हुआ

१—(आ यातु) आगच्छतु (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् राजा (स्वपतिः)
धनपतिः स्वयं पतिर्वा (मदाय) अस्माकं हर्षाय (यः) इन्द्रः (धर्मणा)
शास्त्रोक्तव्यवहारेण (तूतुजानः) त्वरमाणः, (तुषिष्मान्) वृद्धिमान् (प्रत्व-
क्षमाणः) प्रकर्षेण तन्नु कुर्वन् (अति) सर्वथा (विश्वा) सर्वाणि (सहांसि)
अभिभवशीलानि बलानि (अपारेण) पाररहितेन (महता) प्रवृद्धेन (वृष्येन)
वृषकर्मणा । साहसेन ॥

२—(सुष्ठामा) दृढावस्थानयुक्तः, (रथः) (सुयमा) सुयमा । सुशि-
क्षितौ (हरी) अश्वौ (ते) तव (मिम्यक्ष) म्यक्षतिर्गतिकर्मा—निघ० १ ।

१४, लिट् । प्राप्तो बभूव (वज्रः) आयुधम् (नृपते) नृणां पालक राजम्
(गभस्ती) बाहौ । हस्ते (शीभम्) अथ० ३ । १३ । २ । शीघ्रम् (राजन्)

है । (राजन्) हे राजन् ! (सुपथा) सुन्दर मार्ग से (शीमम्) शीघ्र (अर्वाङ्) सामने होकर (आ याहि) आ, (पपुषः ते) तुम्हें रक्षक के (वृष्यानि) बलों को (वर्धामि) हम बढ़ावें ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—जो राजा रथ, अश्व आदि सेना सजाकर वैरियों पर बढ़ाई करे, प्रजागण सहाय करके उसका बल बढ़ावे ॥ २ ॥

इन्द्रवाहो नृपतिं वज्रबाहुमुग्रमुग्रासंस्तविषासं एनम् ।
प्रत्वक्षसं वृषभं सत्यशुष्ममेमस्मत्रा सधमादो वहन्तु ॥ ३ ॥

आ । इन्द्र-वाहः । नृ-पतिम् । वज्र-बाहुम् । उग्रम् ।
उग्रासः । तविषासः । एनम् ॥ प्र-त्वक्षसम् । वृषभम् ।
सत्य-शुष्मम् । आ । ईम् । अस्म-त्रा । सध-मादः ।
वहन्तु ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—(नृपतिम्) मनुष्यों के स्वामी, (वज्रबाहुम्) भुजा पर वज्र रखने वाले, (उग्रम्) प्रचण्ड (प्रत्वक्षसम्) [शत्रुओं के] रेत डालने वाले, (वृषभम्) सुख की बरसा करने वाले, (ईम्) प्राप्ति योग्य (एनम्) इस (सत्यशुष्मम्) सच्चे बल रखने वाले [राजा] को (उग्रासः) प्रचण्ड, (तविषासः) बलवान् (सधमादः) मित्रकर उत्सव मनाने वाले, (इन्द्रवाहः)

(सुपथा) शोभनेन मार्गेण (आ याहि) आगच्छ (अर्वाङ्) अभिमुखः सन् (वर्धामि) वर्धयाम (ते) तव (पपुषः) पा रक्षणे—कसु । रक्षकस्य (वृष्यानि) बलानि ॥

३—(आ) समस्तात् (इन्द्रवाहः)वह प्राणो—शिव । इन्द्रस्य वांढारोऽश्व-गजादयः (नृपतिम्) (वज्रबाहुम्) हस्ते वज्रयुक्तम् (उग्रम्) प्रचण्डम् (उग्रासः) उग्राः (तविषासः) तवेर्षिद्वा । ३०, १ । ४८ । तव वृद्धौ—द्विषत् क्रसुक् च । तविषाः । बलदन्तः (एनम्) (प्रत्वक्षसम्) गतिकारकोपपदयोः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं च । ३० ४ । २३७ । प्र + त्वक्षू तनूकरणे—असि । शत्रूणां प्रकर्षेण तनूवर्तारम् (वृषभम्) सुखस्य वर्धकम् (सत्यशुष्मम्) यथार्थबलौ-

पेश्वर्यवान् राजा के ब्राह्मण [घोड़ा हाथी आदि] (अस्मन्ना) हमारे बीच में (आ आ वहन्तु) अवश्य ही लावें ॥ ३ ॥

भाषार्थ—राजा अपने बलवान् सैनिकों के साथ शत्रुओं के मारने को उद्यत होवे ॥ ३ ॥

एषा पति द्रोणसाचं सचेतसमूर्जं स्कम्भं धरुणं आ वृषायसे ।
 ओजः कृष्वं सं गृभाय त्वे अप्यसो यथा केनिपानामिनो वृधे ॥ ४ ॥
 एष । पतिम् । द्रोण-साचम् । स-चेतसम् । ऊर्जः । स्कम्भम् ।
 धरुणम् । आ । वृष-यसे ॥ ओजः । कृष्वं । सम् । गृभाय ।
 त्वे इति । अपि । असः । यथा । के-निपानाम् । इनः । वृधे ४

भाषार्थ—[हे राजन् !] (एष) इस प्रकार से (पतिम्) पालन करने वाले, (द्रोणसाचम्) ज्ञान से सींचने वाले, (सचेतसम्) सचेत, (ऊर्जः) बल के (स्कम्भम्) स्तम्भे रूप पुरुष से (धरुणे) धारण करने में (आ) सय प्रकार (वृषयसे) तू बलवान् के समान आचरण करता है । तू (ओजः) पराक्रम को (कृष्वं) कर और (त्वे) अपने में [उस को] (सम् गृभाय) एकत्र कर, (अपि) और (केनिपानाम्) आत्मा में झुकने वाले बुद्धिमानों के (इनः यथा) स्वामी के समान (वृधे) बढ़ती के लिये (असः) तू वर्तमान हो ॥४॥

पेतम् (आ) समन्तात् (ईम्) प्राप्तव्यम् (अस्मन्ना) अस्मात् (सधमाद्) रुद्धमाद्यन्तः (वहन्तु) प्रापयन्तु ॥

४—(एष) एषम् (पतिम्) पालकम् (द्रोणसाचम्) कृवृजृसिद्धं ।
 ७०३ । १० । ह्र गतौ—नप्रत्ययः + पच समवाये सेचने च—र्षएव । ज्ञानेन सेका-
 रम् (सचेतसम्) चेतसा युक्तम् (ऊर्जः) बलस्य (स्कम्भम्) स्तरभ यथा
 (धरुणे) धारणे (आ) समन्तात् (वृषयसे) वृषन्—क्यङ् । वृषेव बलवा-
 निवाचरसि (ओजः) बलम् (कृष्वं) कुरुष्व (सम् गृभाय) स गृहाण (त्वे)
 स्वयि (अपि) विश्व (असः) भवेः (यथा) सादृश्ये (केनिपानाम्) अन्ये-
 स्वपि दृश्यते । पा० ३ । २ । १०१ । के + नि + पत्त् पतने—इप्रत्ययः । के
 आत्मनि पतन्ति केनिपाः । आकेनिपो मेधाधिनाम—निघ० ३ । १५ । मेधाधि-
 नाम् (ईमः) स्वामी (वृधे) वर्धनाय ॥

भाषार्थ—राजा को योग्य है कि वीर बुद्धिमान् पुरुषों के साथ दया करके बल बढ़ावे और प्रजा की उन्नति करे ॥ ४ ॥

गमन्नुस्मे वसुन्या हि शंसिषं स्वाशिषं भरमा याहि सोमिनः ।
त्वमीशिषे सस्मिन्ना सत्सि बर्हिष्यनाधुष्या तव पात्राणि
धर्मणा ॥ ५ ॥

गमन् । अस्मे इति । वसूनि । आ । हि । शंसिषम् । सु-आ-
शिषम् । भरम् । आ । याहि । सोमिनः ॥ त्वम् । ईशिषे ।
सः । अस्मिन् । आ । सत्सि । बर्हिषि । अनाधुष्या । तव ।
पात्राणि । धर्मणा ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(अस्मे) हम को (वसूनि) अनेकधन (आ गमन्) आवें,
(हि) क्योंकि (शंसिषम्) मैं कहता हूँ, (सोमिनः) शान्त स्वभाव वाले को
(स्वाशिषम्) सुन्दर भाशीर्वाद वाले (भरम्) पोषण व्यवहार को (आ)
सब प्रकार (याहि) तू प्राप्त हो । (त्वम्) तू (ईशिषे) स्वामी है, (सः) सो
तू (अस्मिन्) इस (बर्हिषि) उत्तम आसन पर (आ) आकर (सत्सि) बैठ
(तव) तेरे (पात्राणि) रक्षा साधन (धर्मणा) धर्म के साथ (अनाधुष्या)
अजेय हैं ॥ ५ ॥

भाषार्थ—राजा प्रजा की सम्मति से सिंहासन पर विराजकर उत्तम
साधनों से रक्षा करके धन की वृद्धि करे ॥ ५ ॥

५—(आ गमन्) आगच्छन्तु (अस्मे) अस्मभ्यम् (वसूनि) धनानि
(हि) यतः (शंसिषम्) शंस कथने—लुङ् । कथयामि (स्वाशिषम्) शोभनाशी-
र्वादयुक्तम् (भरम्) पोषणम् (आ) समन्तात् (याहि) प्रामुहि (सोमिनः)
शान्तस्वभावयुक्तस्य (त्वम्) (ईशिषे) ईश्वरो भवसि (सः) स त्वम्
(अस्मिन्) (आ) आगत्य (सत्सि) सीद् (बर्हिषि) उत्तमासने (अनाधुष्या)
विधूषा प्रामलभ्ये—क्यप् । धर्वितुमशक्यानि । अजेयानि (तव) (पात्राणि)
रक्षासाधनानि (धर्मणा) शास्त्रविहितव्यवहारेण ॥

पृथक् प्रायन् प्रथमा देवहूतयोऽकृण्वत श्रवस्यानि दुष्टरा ।
 न ये शेकुर्यज्ञियां नावमारुहमीमेव ते न्यविशन्तु केपयः ॥६॥
 पृथक् । प्र । आयन् । प्रथमाः । देव-हूतयः । अकृण्वत ।
 श्रवस्यानि । दुष्टरा ॥ न । ये । शेकुः । यज्ञियाम् । नावम् ।
 आ-रुहम् । ईर्मा । एव । ते । नि । अविशन्तु । केपयः ॥६॥

भाषार्थ—(प्रथमाः) मुखिया, (देवहूतयः) विद्वानों के बुलाने वाले पुरुष (पृथक्) अलग अलग [अर्थात् कोई वीरता, कोई विद्यावृद्धि आदि गुण से] (प्र) आगे (आयन्) गये हैं और उन्होंने ने (दुष्टरा) दुष्टरा [बड़े कठिन] (श्रवस्यानि) यश के कर्म (अकृण्वत) किये हैं । (ये) जो (यज्ञियाम्) यज्ञ [देवपूजा, सगतिकरण और दान] की (नावम्) नाव पर (न आरुहं शेकुः) नहीं चढ़ सके हैं, (ते) वे (केपयः) दुराचारी (ईर्मा) मार्ग में (एव) ही (नि अविशन्तु) टिक रहे हैं ॥ ६ ॥

भाषार्थ—मनुष्य विद्वानों की शिक्षा से अनेक कठिन कामों को पूरा करके यश बढ़ावें, और दुष्कर्मियों के समान श्रेष्ठ कर्मों को छोड़कर निन्दनीय कर्मों में न पड़ें ॥ ६ ॥

यह मन्त्र निरुक्त ५ । २५ में भी व्याख्यात है ॥

६—(पृथक्) नाना प्रकारेण, केचद् वीरत्वेन केचद् विद्यावृद्ध्यादिना (प्र) प्रकर्षेण (आयन्) इण् गतौ—लङ् । अगच्छन् (प्रथमाः) मुख्याः (देवहूतयः) विदुषामाह्वतारः (अकृण्वत) अकृर्वन् (श्रवस्यानि) श्रवणी-यानि यशांसि (दुष्टरा) दुःखेन तरणीयानि (न) निषेधे (ये) पुरुषाः (शेकुः) शक्ता बभूवुः (यज्ञियाम्) यज्ञसम्बन्धिनीम् (नावम्) नौकाम् (आरुहम्) शक्तिणमुल्लङ्घयन् । पा० ३ । ४ । १२ । रोहतेः कमुल् लुमर्थे । आरोहम् (ईर्मा) इषियुधीन्धि उ० १ । १४५ । ईर् गतौ—मक्, विभक्तोर्डा । ईर्मे गन्तव्ये मार्गे (एव) अवधारणे (ते) पुरुषाः (नि अविशन्तु) निवेश स्थितिस्थानं प्राप्नुवन् (केपयः) कु+पय गतौ—किप्, कुशब्दस्य के इत्यादेशः । केपयः कपूया भवन्ति कपूयमिति पुनाति कर्म कुत्सितं दुष्पूयं भवति—निरु० ५ । २५ । कुत्सितगतयः । दुराचारिणः ॥

एवैवापागपरे सन्तु दुह्योऽश्वा येषां दुर्बुजं आयुयुज्जे । इत्या

ये प्रागुपरे सन्ति दावने पुरुणि यत्र वयुनानि भोजना ॥ ७ ॥

एव । एव । अपाक् । अपरे । सन्तु । दुः-ध्यः । अश्वाः ।

येषाम् । दुः-युजः । आ-युयुज्जे ॥ इत्या । ये । प्राक् । उपरे ।

सन्ति । दावने । पुरुणि । यत्र । वयुनानि । भोजना ॥ ७ ॥

भाषार्य—(एव) ऐसे (एव) ही (अपरे) वे दूसरे [वेद विरोधी] (दुह्यः) दुर्बुद्धि लोग (अपाक्) नीच गति में (सन्तु) हों, (येषाम्) जिन के (दुर्बुजः) कठिनाई से जुनने वाले [अति प्रबल] (अश्वाः) घोड़े (आयुयुज्जे) बांध दिये गये [हठरा दिये गये] हैं । (इत्या) इसी प्रकार (प्राक्-) उत्तम गति में (सन्तु) वे हों, (ये) जो लोग (उपरे) निवृत्ति [विषयों के त्याग] में (दावने) दान के लिये हैं, (यत्र) जिस [दान] में (पुरुणि) बहुत से (वयुनानि) कर्म और (भोजनानि) पालन साधन धन आदि हैं ॥ ७ ॥

भाषार्य—दुर्बुद्धि वेद विरोधी मनुष्य बहुत प्रयत्न करने पर भी श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते और जो पुरुष विषयों को छोड़कर वेदाक्षा में आत्म-दान करते हैं, वे अनेक प्रकार धन आदि प्राप्त करके संसार में उत्तम गति भोगते हैं ॥ ७ ॥

७—(एव) एवम् (एव) अवधारणे (अपाक्) अ + अञ्चु गतौ—किन् यथा मत्रानि तथा । अधोगतौ (अपरे) अन्ये वेदविरोधिनिः (सन्तु) (दुह्यः) दुर्धियः । दुर्बुद्धयः । (अश्वाः) तुरङ्गाः (येषाम्) (दुर्बुजः) युज संयमने—किन् । दुर्बुजनीयाः । अतिप्रबलाः (आयुयुज्जे) युज संयमने—कर्मणि लिट् । सम्यग् वद्धाः स्थिति-प्राप्ता बभूवुः (इत्या) अनेन प्रकारेण (ये) (प्राक्) प्रकृष्टगमने (उपरे) उप + रमतेर्ङ् प्रत्ययः । उपरतौ-निवृत्तौ । विषयत्यागे (सन्ति) (दावने) ददातेः—वनिप् । दानाय (पुरुणि) शहूनि (यत्र) यस्मिन् दाने (वयुनानि) कर्माणि (भोजना) भोजनानि । पालन-साधनानि धनानि—निघ० २ । १ ॥

गिरीन् । रेजमानान् । अथाप्यद् व्योः क्रन्ददन्तरिक्षाणि
कोषयत् । सुमीचीने धिषणे वि स्तुभायति वृष्णः प्रीत्वा
मदे उक्थानि शंसति ॥ ८ ॥

गिरीन् । अत्रान् । रेजमानान् । सुधीर्युत । व्योः ।
क्रन्दन् । अन्तरिक्षाणि । कोषयत् ॥ सुमीचीने इति सुम्-
ईचीने । धिषणे इति । वि । स्तुभायति । वृष्णः । प्रीत्वा ।
मदे । उक्थानि । शंसति ॥ ८ ॥

भाष्यार्थ—(अत्रान्) पुनरग्रा दृशा (व्योः) प्रकाशमान, परमात्मा
(अज्ञान) मलने इये और (रेजमानान्) वांपते इये (गिरीन्) मेवों को
(अथाप्यद्) धारय करना और (अन्तरिक्षाणि) आकाशस्थ लोकों को
(कोषयत्) प्रशमिज करना, (सुमीचीने) आगम में मिले इये (धिषणे)
दीपों सूर्य और भूमि को (वि) विविध प्रकार (स्तुभायति) धांसता और
(वृष्णः) पेशवयों को (प्रीत्वा) प्रदण करके (मदे) आनन्द में (उक्थानि)
बदने केरक पसनां का (शंसति) उपदेश करना है ॥ ८ ॥

भाष्यार्थ—जो परमात्मा जोक रूप में का धारय करके वृष्टि करता,
अज्ञान को नश्वता, सूर्य, भूमि आदि लोकों का आकारण द्वारा दृष्ट रखता और
सुमीचीने द्वारा पेशों का उपदेश करता है, सब मनुष्य उसी की उपासना
करे ॥ ८ ॥

८—(गिरीन्) मेवान् (अत्रान्) अ० २० । ३१ । ५ । श्रीअगमनान्
(रेजमानान्) कल्पयमानान् (अथाप्यद्) धारयति (व्योः) प्रकाशमानः पर-
मात्मा (अत्रान्) अत्रि आह्वाने रोदने च—अह । क्रन्दन् । आह्वयन् (अन्तरि-
क्षाणि) आकाशस्थलोकान् (कोषयत्) ह्यु चूर्णी क्रोधे च । दीपयति । प्रकाश-
यति (सुमीचीने) स्मरन्नुमाने (धिषणे) अ० २० । ३१ । ५ । धावापृथिव्यी—
मिथ० ३ । ३० । सूर्यभूमिलोकौ (वि) विविधम् (स्तुभायति) स्तम्नाति
अभिमयति (वृष्णः) वृषु खेचने पेशवयं च—अनिन् । पेशवयंणि (प्रीत्वा)
प्रीत्वा (मदे) आनन्दे (उक्थानि) उक्थनीयानि उक्थनानि (शंसति)
उपदिशति ॥

इमं विभर्मि सुकृतं ते अङ्कुशं येनाहुजासि मघवन् शफारुजः ।
 अस्मिन्सु ते सर्वने अस्तुव्यं सुते इष्टौ मघवन् बोध्याभगः ८
 इमम् । विभर्मि । सु-कृतम् । ते । अङ्कुशम् । येन ।
 आ-रुजासि । मघ-वन् । शफु-आरुजः ॥ अस्मिन् । सु ।
 ते । सर्वने । अस्तु । अस्तुव्यम् । सुते । इष्टौ । मघ-वन् ।
 बोधि । आ-भगः ॥ ८ ॥

भाष्यार्थ—(मघवन्) हे महाधनी ! (इमम्) इस (सुकृतम्) दृढ़ बने
 हुये (अङ्कुशम्) अङ्कुश को (ते) तेरे लिये (विभर्मि) मैं रखना हूँ, (येन)
 जिस [कारण] से (शफारुजः) शान्ति भंजकों को (आरुजासि) तू नष्ट
 करे । (अस्मिन्) इस (सर्वने) ऐश्वर्य के बीच (ते) तेरा (अस्तुव्यम्)
 निवास (सु) भले प्रकार (अस्तु) होवे, (इष्टौ) यज्ञ [देवपूजा, संगति
 करण और दान] के बीच (सुते) सिद्ध किये हुये तत्त्व रस में, (मघवन्)
 हे महाधनी ! (आभगः) बड़ा ऐश्वर्य (बोधि) जाना जाता है ॥ ८ ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग राजा की रक्षा के लिये अङ्कुश आदि हथि-
 यार धारण करके शत्रुओं को हटाकर ऐश्वर्य बढ़ावें ॥ ८ ॥

गोभिष्टुरेभामन्ति दुरेवां यवेन सुधै पुरुहूत विश्वासु ।

व्यं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनैना जयेम ॥ १० ॥

६—(इमम्) दृश्यमानम् (विभर्मि) धरामि (सुकृतम्) दृढ़निर्मितम्
 (ते) तुभ्यम् (अङ्कुशम्) आयुधविशेषम् (येन) कारणेन (आरुजासि)
 आरुजसि । आभिमुख्येन पीडयसि (मघवन्) हे धनवन् (शफारुजः) अ०
 ८ । ३ । २१ । शम शान्तौ—अच्, मस्य फः, शफ+आ+रुजो भङ्गे—किप् ।
 शान्तिसम्भञ्जकान् (अस्मिन्) (सु) सुष्ठु (ते) तव (सर्वने) ऐश्वर्ये
 (अस्तु) (अस्तुव्यम्) ओकः । निवासः (सुते) संस्कृते तत्त्वसे (इष्टौ)
 यज्ञे । देवपूजादिव्यवहारे (मघवन्) (बोधि) अबोधि । ज्ञायते (आभगः)
 समन्ताद् ऐश्वर्यम् ॥

गोभिः । तरेम । अमतिम् । दुः-एवाम् । यवेन । सुधम् ।
पुरु-हुत् । विश्वाम् ॥ वयम् । राज-भिः । प्रथमाः । धनानि ।
अस्माकेन । वृजनेन । जयेम् ॥ १० ॥

भाषार्थ—(पुरुहुत्) हे बहुतों से बुलाये गये! [राजन्] (गोभिः) विद्याओं से (दुरेवाम्) दुर्गति वाली (अमतिम्) कुमति [वा कङ्काली] को और (यवेन) अन्न से (विश्वाम्) सब (सुधम्) भूख को (तरेम) हम हटावें । (वयम्) हम (राजभिः) राजाओं के साथ (प्रथमाः) प्रथम श्रेणी वाले होकर (धनानि) अनेक धनों को (अस्माकेन) अपने (वृजनेन) बल से (जयेम) जीते ॥ १० ॥

भावार्थ—मनुष्य प्रयत्न करके विद्याओं द्वारा कुमति और निर्धनता हटाकर भोजन पदार्थ प्राप्त करें और अपने भुज बल से महाधनी होकर राजाओं के साथ प्रथम श्रेणी वाले हों ॥ १० ॥

मन्त्र १०, ११ का चुके हैं—अ० २०। १७। १०, ११। और कुछ मंत्र से—
२०। २६। १०, ११ ॥

बृहस्पतिर्नः । परि पातु पश्चादुत्तरस्माद्धरादद्यायोः ।
इन्द्रः पुरस्तादुत्त मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ११
बृहस्पतिः । नः । परि । पातु । पश्चात् । उत्त । उत्-
तरस्मात् । अधरात् । अद्य-योः ॥ इन्द्रः । पुरस्तात् । उत्त ।
मध्यतः । नः । सखा । सखि-भ्यः । वरिवः । कृणोतु ॥ ११ ॥

भाषार्थ—(बृहस्पतिः) बृहस्पति [बड़े शत्रुओं का रक्षक सेनापति] (नः) हमें (पश्चात्) पीछे से (उत्तरस्मात्) ऊपर से (उत्त) और (अधरात्) नीचे से (अद्यायोः) दुरा चिंतने वाले शत्रु से (परि पातु) सब प्रकार बचावे । (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला राजा] (पुरस्तात्) आगे से (उत्त) और (मध्यतः) मध्य से (नः) हमारे लिये (वरिवः) सेवनीय धन

(कृणोतु) करे, (सखा) [जैसे] मित्र (सखिभ्यः) मित्रों के लिये [करता है] ॥ ११ ॥

भाषार्थ—मनुष्य धीरों में महावीर और प्रतापियों में महाप्रतापी होकर दुष्टों से प्रजा की सदा रक्षा करें ॥ ११ ॥

सूक्तम् ८५ ॥

१-४ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ अष्टिः; २, ३ अतिजगती; ४ भुरिगतिजगती ॥
राजकर्तव्योपदेशः—राजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

त्रिकद्रुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तुपत् सोममपिबद्
विष्णुना सुतं यथावशत् । स ई ममाद् महि कर्म कर्तवे
महामुरुं वैनं सद्यद् देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः ॥ १ ॥

त्रि-कद्रुकेषु । महिषः । यव-आशिरम् । तुवि-शुष्मः । तुपत् ।
सोमम् । अपिबत् । विष्णुना । सुतम् । यथा । अवशत् ॥
सः । ईम् । ममाद् । महि । कर्म । कर्तवे । महाम् ।
लुरुम् । सः । सुतम् । सुशुत् । देवः । देवम् । सत्यम् ।
इन्द्रम् । सत्यः । इन्दुः ॥ १ ॥

भाषार्थ—(त्रिकद्रुकेषु) तीन [शारीरिक,आत्मिक]और सामाजिक[उक्त-
तियों] के विधानों में (तुपत्) दत्त होते हुये (महिषः) महान् (तुविशुष्मः) बहुत
यत्न वाहे [शूर] ने (विष्णुना) बुद्धिमान् मनुष्य वा व्यापक परमेश्वर करके
(सुतम्) निचोड़े हुये, (यवाशिरम्) अन्न के भोजन युक्त (सोमम्) सोम

१—(त्रिकद्रुकेषु) अ० २।५।७। त्रि+कद्रु कद्रि आह्वाने—कुरु, कप-
च । तिसृणां शारीरिकात्मिकसामाजिकवृद्धीनां कद्रुकेषु आह्वानेषु त्रिधानेषु
(महिषः) महान् (यवाशिरम्) अ० २० । २४ । ७ । अन्नभोजनयुक्तम्
(तुविशुष्मः) बहुत यत्नः (तुपत्) दत्तभावः । तुष्यन् (सोमम्) तद्वरसम्
(अपिबत्) पीतवान् (विष्णुना) कर्मसु व्यापकेन सिद्धुवा सर्वव्यापकेन परमे-

श्वरण [तत्त्वरस] को (अपिवत्) पिया है, (यथा) जैसा (अवशत्) उस [शूर] ने चाहा । (सः) उस [तत्त्वरस] ने (ईम्) प्राप्ति योग्य, (महाम्) महान् (उरुम्) लम्बे चौड़े पुरुष को (महि) बड़े (कर्म) कर्म (कर्तवे) करने के लिये (ममाद्) हर्षित किया है, (सः) वह (देवः) दिव्य (सत्यः) सत्य गुण वाला, (इन्दुः) ऐश्वर्यवान् [तत्त्वरस] (एनम्) इस (देवम्) कामना योग्य, (सत्यम्) सच्चे [सत्यकर्मा] (इन्द्रम्) इन्द्र [महाप्रतापी मनुष्य] को (सशचत्) व्यापा है ॥ १ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करके परमात्मा और विद्वानों के सिद्धान्तों पर चलता है, वही शूर संसार में बड़े बड़े कर्म करके सर्वहितेपी होता है ॥ १ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—२। २२। १, सामवेद—पू० ५। ८। १। तथा साम०—उ० ६। ३। २० ॥

मो ष्वस्मै पुरोरुयमिन्द्राय शुषमर्चत । अभीके चिदु लोक-
कृत् सुं गे सुमत्सु वृत्रहास्माकं बोधि चोदिता नभन्तामन्य-
केषां ज्याका अधि धन्वसु ॥ २ ॥

मो इति । सु । अस्मै । पुरः-रुयम् । इन्द्राय । शुषम् ।
अर्चत् ॥ अभीके । चित् । ऊं इति । लोक-कृत् । सुम्-गे ।
सुसत्-सुं । वृत्र-हा । अस्माकम् । बोधि । चोदिता ।
नभन्ताम् । अन्यकेषाम् । ज्याकाः । अधि । धन्व-सु ॥ २ ॥

वा (सुतम्) निष्पादितम् (यथा) येन प्रकारेण (अवशत्) वश कान्तौ—
छान्दसः शप् । अवष्ट । अकामयत (सः) सोमः (ईम्) प्राप्तव्यम् (ममाद्)
हर्षितवान् (महि) महत् (कर्म) कर्तव्यम् (कर्तवे) तुमर्थे तवेन । कर्तुम्
(महाम्) महान्तम् (उरुम्) विस्तृतम् (सः) सोमः (एनम्) (सशचत्)
सच्चतिर्गतिकर्मा—निघ० २। १४। असशचत् । व्याप्तवान् (देवः) दिव्यः
(देवम्) कर्मान्नीयम् (सत्यम्) यथार्थकर्माणम् (इन्द्रम्) महाप्रतापिनं मनु-
ष्यम् (सत्यः) सत्यगुणयुक्तः (इन्दुः) इति परमैश्वर्ये—कु । परमैश्वर्यवान्
सोमः ॥

भाषार्थ—[हे मनुष्यो !] (अस्मै) इस (इन्द्राय) इन्द्र [महा प्रतापी राजा] के लिये (पुरोरथम्) रथ को अग्ने रखने वाले (शूषम्) शत्रुओं के सुखाने वाले बल का (सु) भले प्रकार से (प्रो) अवश्य ही (अर्चत) आदर करो । (अभीके) समीप में (चित् उ) ही (संगे) मिलने पर (समस्तु) परस्पर खाने के स्थान सङ्ग्रामों में (वृत्रहा) शत्रुनाशक (अस्माकम्) हमारा (चोदिता) प्रेरक [उत्साह बढ़ाने वाला] और (लोककृत्) स्थान करने वाला (बोधि) जाना गया है । (अन्यकेषाम्) दूसरे छोटे लोगों की (ज्याकाः) निर्बल डोरियां (धन्वसु अधि) धनुषों पर चढ़ी हुई (नभन्ताम्) टूट जावें ॥ २ ॥

भाषार्थ—जिस शूर राजा के प्रताप से उपद्रवी शत्रु लोग हार मानें और प्रजागण आगे बढ़ें, विद्वान् पुरुष उस वीर का सदा मान करें ॥ २ ॥

मन्त्र २—४ ऋग्वेद में हैं—१० । १३३ । १—३ । और सामवेद—उ० ६ । १ । तृच १४ ॥

त्वं सिन्धूरवासृजोऽधुराचो अहन्नहिम् । अशुत्रुरिन्द्र जज्ञिषे
विश्वं पुष्यसि वार्यं तं त्वया परि ष्वजामहे नभं ॥ ३ ॥

त्वस् । सिन्धून् । अश्वं । असृजः । अधुराचः । अहन् ।

२—(प्रो) प्र उ इति निपातसमुदायः । आत् । पा० १ । १ [१५] इति प्रगृह्यम् । प्रक र्बेणैव । अश्वश्चमेव (सु) सुष्टु (अस्मै) (पुरोरथम्) अग्ने रथयुक्तम् (इन्द्राय), महाप्रतापिने राज्ञे (शूषम्) अ० २० । ७१ । १६ । शत्रुशोषकं बलम् (अर्चत) सत्कुरुत (अभीके) अलीकादयश्च । उ० ४ । २५ । अग्नि + इण् गतौ—कीकन् । धातोर्लोपः । आसन्ने—निरु० ३ । २० (चित्) एव (उ) अवधारणे (लोककृत्) स्थानस्य कर्ता (संगे) संगमे (समस्तु) परस्परादनस्थानेषु संग्रामेषु (वृत्रहा) शत्रुनाशकः (अस्माकम्) (बोधि) अबोधि । वार्यते (चोदिता) प्रेरकः । उत्साहवर्धकः (नभन्ताम्) नभतेर्बन्धकर्म—निघ० २ । १२ । हि स्यन्ताम् । नश्यन्तु (अन्यकेषाम्) अन्यसर्वनामामकच् प्राक् टेः । पा० ५ । ३ । ७१ । अन्य—अकच् । कुत्सितानामः येषां शत्रूणां (ज्याकाः) कुत्सिते । पा० ५ । ३ । ७४ । ज्या—कप्रत्ययः । कुत्सितो निर्बला ज्याः (अधि) उपरि (धन्वसु) धनुषु ॥

अहिम् ॥ अशत्रुः । इन्द्र । जज्ञिषे । विश्वम् । पुष्यसि ।
 वार्यम् । तम् । त्वा । परि । स्वजामहे । ० ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(त्वम्) तू ने (अधराचः) नीचे को बहने वाले (सिन्धून्)
 नदी नालों को (अत्र असृजः) छोड़ दिया है, (अहिम्) पारने वाले विघ्न को
 (अहन्) तू ने मारा है । (इन्द्र) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्] तू (अशत्रुः)
 निर्वैरी (जज्ञिषे) हो गया है, (विश्वम्) सब (वार्यम्) जब में होने वाले
 [अन्न आदि] को (पुष्यसि) तू पुष्ट करता है, (तम्) उस (त्वाम्) तुझ से
 (परि स्वजामहे) हम मिलने हैं । (अन्यकेशाम्) दूसरे छोटे लोगों को
 [मन्त्र २] ॥ ३ ॥

भाषार्थ—राजा पहाड आदि जल स्थानों से नदी नाले निकाल कर
 खेती आदि उद्यम को बढ़ावे, जिस से प्रजागण उस से प्रीति करें ॥ ३ ॥

विषु विश्वा अरातयोऽयो नशन्त नो धियः । अस्तासि शत्रवे
 वृधं यो न इन्द्र जिघासति या ते रातिर्दुर्दिवसु नभन्तामन्य-
 केषां ज्याका अधि धन्वसु ॥ ४ ॥

वि । सु । विश्वाः । अरातयः । अर्यः । नशन्त । नः । धियः ॥
 अस्ता । असि । शत्रवे । वृधम् । यः । नः । इन्द्र । जिघासति ।
 या । ते । रातिः । दुदिः । वसु । नभन्ताम् । अन्य-
 केषाम् । ज्याकाः । अधि । धन्व-सु ॥ ४ ॥

३—(त्वम्) (सिन्धून्) स्यन्दनशीलान् जलपूरान् । नदीः कुल्याः (अत्र
 असृजः) अत्रसृष्टवान् निर्गमितवानसि (अधराचः) अधोमुखमञ्जतो गन्तून्
 (अहन्) हनवानसि (अहिम्) आहन्तारं विघ्नम् (अशत्रुः) शत्रुरहितः (इन्द्र)
 महाप्रतापिन् राजन् (जज्ञिषे) जनेर्लिङ् । आदुर्वभूविथ (विश्वम्) सर्वम्
 (पुष्यसि) वर्धयसि (वार्यम्) वार—यत् । वारि जले भवमुत्पन्नमन्नादिकम्
 (तम्) तादृशम् (त्वा) त्वाम् (परि) परितः (स्वजामहे) स्वज्ज आलिङ्गने ।
 आलिङ्गाम् । संगच्छामहे । अन्यन् पूर्ववत् ॥

भाषार्थ—(नः) हमारे (अर्यः) शत्रु की (विश्वाः) सब (अरातयः) कंजूल प्रजायें और (धियः) बुद्धियां (सु) सर्वथा (वि नशन्त) नष्ट हो जावें । (इन्द्र) हे इन्द्र [महाप्रतापी राजन्] तू (शत्रवे) उस बैरी पर (वधम्) शस्त्र (अस्ता) चलाने वाला (असि) है, (यः) जो (नेः) हमें (जिघांसति) मारना चाहता है, (या) जो (ते) तेरी (रातिः) दान शक्ति है, [वह] (वसु) धन को (ददिः) देने वाली है । (अन्यकेषाम्) दूसरे खोटे लोगों की (ज्याक्राः) निर्बल डोरियां (धन्वसु अधि) धनुषों पर चढ़ी हुई (नभन्ताम्) टूट जावें ॥ ४ ॥

भावार्थ—राजा ऐसा प्रबन्ध करे कि दुष्ट लोग उपद्रव न मचावें और सशचारी राजमत्क संतुष्ट होकर सुखी रहें ॥ ४ ॥

सूक्तम् ८६ ॥ १—२४ ॥

१—५ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ३ त्रिष्टुप् ; २, विराट् त्रिष्टुप् ; ४, ५ विराडात् त्रिष्टुप् ॥

राजकर्तव्योपदेशः—राजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

तीव्रस्याभिवयसो अस्य पाहि सर्वरथा वि हरी इह मुञ्च ।
इन्द्र मा त्वा यजमानासो अन्ये नि रीरमुन् तुभ्यमिमे सुतासः ।
तीव्रस्य । अभि-वयसः । अस्य । पाहि । सर्व-रथा । वि ।
हरी इति । इह । मुञ्च ॥ इन्द्र । मा । त्वा । यजमानासः ।
अन्ये । नि । रीरमुन् । तुभ्यम् । इमे । सुतासः ॥ १ ॥

४—(वि) विविधम् (सु) सर्वथा (विश्वाः) सर्वाः (अरातयः) अदायः प्रजाः (अर्यः) अरेः । शत्रोः (नशन्त) नश्यन्तु (नः) अस्माकम् (धियः) बुद्धयः (अस्ता) क्षेता (असि) (शत्रवे) (वधम्) आयुधम् (यः) शत्रुः (नः) अस्मान् (इन्द्र) महाप्रतापिन् राजन् (जिघांसति) हन्तुमिच्छति (या) (ते) तव (रातिः) दानशक्तिः (ददिः) ददातेः—किप्रत्ययः । न लोकाव्ययनिष्ठास्तलर्थतृनाम् । पा० २ । २ । ६६ । इति वसुशब्दात् वस्यभावात् । दात्री (वसु) धनम् । सिद्धमभ्यत्-म० २ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (अस्य) इस (तीव्रस्य) तीक्ष्ण [शीघ्र चलदायक] (अभिवयसः) प्राप्त अन्न की (पाहि) तू रक्षा कर और (सर्वरथा) सब रथा के योग्य (हरी) आने दोनों घोड़ों को (इह) यहां पर (वि मुञ्च) छोड़ दे । (त्वा) तुझ को (यजमानासः) यजमानों के गिराने वाले [अथवा यजमानों से भिन्न] (अन्ये) दूसरे [विरोधी] लोग (मा नि रीरमन्) न रोक लेवें, (तुभ्यम्) तेरे लिये (इमे) यह (सुतासः) सिद्ध किये हुये [तत्त्व रम] हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ—राजा अन्न आदि वस्तुदायक पदार्थों की रक्षा करके प्रजा की बात सुने और बेरियों के फन्दों में न पड़कर श्रेष्ठों के सिद्धान्तों को माने १ मन्त्र १-५ ऋग्वेद में हैं—१० । १६० । १-५ ॥

तुभ्यं सुतास्तुभ्यं सुतास्तुभ्यं सुतास्तुभ्यं गिरः श्वात्र्या आ ह्वयन्ति ।
इन्द्रे दमुद्य सर्वनं जुषाणो विश्वस्य विद्राँ इह पाहि सोमं सुर
तुभ्यम् । सुताः । तुभ्यम् । ऊँ इति । सोत्वासः । त्वास् ।
गिरः । श्वात्र्याः । आ । ह्वयन्ति ॥ इन्द्र । इदम् । अद्य ।
सर्वनम् । जुषाणः । विश्वस्य । विद्वाँ । इह । पाहि ।
सोमं ॥ २ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्] (तुभ्यम्) तेरे

१—(तीव्रस्य) तीक्ष्णस्य । तिप्रबलकरस्य (अभिवयसः) वयोऽन्नम्-
निघ० २-७ । अभिगतस्य प्राप्तस्यान्नास्य (अस्य) समीपस्थस्य (पाहि)
रक्षां कुरु (सर्वरथा) सर्वरथयोग्यौ (वि मुञ्च) विमुञ्च (हरी) अश्वौ
(इह) अत्र (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् राजन् (मा) निषेधे (त्वा) त्वाम् (यज-
मानासः) यजमान + असु क्षेपणे—किप् । यजमानानां क्षेत्रारः । यद्वा । सुपा
सुपो भवन्ति । वा० पा० ७ । १ । ३६ । पञ्चम्यर्थे प्रथमा, असुक च । यजमानेभ्यः
सकाशात् पृथग् भूताः (अन्ये) अपरे । विरोधिनः (नि) नितराम् (रीरमन्)
रसु उपरमे—ण्विचि लुङ् । अडभावो माङ्थोगे । उपरमयन्तु । निवर्तयन्तु
(तुभ्यम्) त्वदर्थम् (इमे) लभ्यमानाः (सुतासः) संस्कृतास्तस्वरसाः ॥

२—(तुभ्यम्) त्वदर्थम् (सुताः) संस्कृतास्तस्वरसाः (तुभ्यम्) (उ)

लिये (सुताः) सिद्ध किये हुये, (उ) और (तुभ्यम्) तरे लिये (सोत्वासः) सिद्ध होने वाले [तस्व-रस] हैं, (त्वाम्) तुझको (श्वाश्याः) गति वाणी [प्रजा] की (गिरः) वाणिषां (आह्वयन्ति) बुलाती हैं । (अथ) अत्र (इदम्) इस (सधनम्) ऐश्वर्य कर्म-का (जुषाणः) सेवन करता हुआ और (विश्वस्य) सब का (विद्वान्) जानने वाला तू (इह) यहां पर (सोमम्) उत्पन्न संसार की (पाहि) रक्षा कर ॥ २ ॥

भावार्थ—राजा को चाहिये कि भूत भविष्यन् और वर्तमान को विचार कर प्रजा की सदा रक्षा करे ॥ २ ॥

य उशुता मनसा सोमस्मै सर्वहृदा देवकामः सुनोति । न
गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रशुस्तमिच्छारुमस्मै कृणोति ॥३॥
यः । उशुता । मनसा । सोमस्मै । अस्मै । सर्व-हृदा । देव-
कामः । सुनोति ॥ न । गाः । इन्द्रः । तस्य । परा । ददाति ।
प्र-शुस्तम् । इत् । चारुम् । अस्मै । कृणोति ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—(यः) जो (देवकामः) दिव्यगुण चाहने वाला मनुष्य (उशुता) कामना वाले (मनसा) मन से और (सर्वहृदा) पूरे हृदय से (अस्मै) इस [संसार] के लिये (सोमम्) सोम [तस्व रस] को (सुनोति) निचोड़ता है । (इन्द्रः) इन्द्र [महा प्रतापी राजा] (तस्य) उस [मनुष्य] की (गाः)

च (सोत्वासः) कृत्यार्थे तवैकेन केन्यत्वनः । पा० ३ । ४ । १४ । सुनोतेः—त्वन् सोतश्याः । संस्कृतेभ्याः (त्वाम्) (गिरः) वाण्यः (श्वाश्याः) श्वाश्रुतिर्गति-कर्मा—निघ० २ । १४ । अच् प्रत्ययः, ङीप् । गतिशीलायाः प्रजायाः (आ ह्वयन्ति) आक्रोशन्ति (इन्द्र) परमैश्वर्यवन् राजन् (इदम्) (अथ) (सधनम्) ऐश्वर्यकर्म (जुषाणः) सेवमानः (विश्वस्य) सर्वस्य (विद्वान्) ज्ञाता (इह) अत्र (पाहि) रक्ष (सोमम्) उत्पन्नं संसारम् ॥

३—(यः) पुरुषः (उशुता) कामयमानेन (मनसा) चित्तेन (सोमम्) तस्वरसम् (अस्मै) दृश्यमानाय संसाराय (सर्वहृदा) पूर्णहृदयेन (देवकामः) दिव्यगुणान् कामयमानः (सुनोति) निष्पादयति (न) निषेधे (गाः) वाणीः (इन्द्रः) महाप्रतापी राजा (तस्य) पुरुषस्य (परा ददाति) परादानं विनाशः ।

वाणियों को (न . नहीं (परा ददाति) नष्ट करता है, (अस्मै) उसके लिये वह (प्रशस्तम्) प्रशसनीय, (चारुम्) मनोहर व्यवहार (इत्) ही (कृणोति) करता है ॥ ३ ॥

भावार्थ—राजा और विद्वान लोग ससार के हित के लिये परस्पर श्रेष्ठ व्यवहार करें ॥ ३ ॥

अनुस्पष्टो भवत्येषो अस्य यो अस्मै रेवान् न सुनोति सोमम् ।
निरन्तरो मघवा तं दधाति ब्रह्मद्विषो हन्त्यनानुदिष्टः ॥ ४ ॥

अनु-स्पष्टः । भवति । एषः । अस्य । यः । अस्मै । रेवान् ।
न । सुनोति । सोमम् ॥ निः । अनन्तः । मघवा । तम् ।
दधाति । ब्रह्म-द्विषः । हन्ति । अननु-दिष्टः ॥ ४ ॥

भावार्थ—(एषः) वह [मनुष्य] (अस्य) इस [शूर पुरुष] का (अनुस्पष्टः) सर्वथा स्पष्ट [दृष्टि गोचर] (भवति) होता है, (यः) जो [मनुष्य] (रेवान् न) धनवान् के समान (अस्मै) उस [शूर] के लिये (सोमम्) सोम [तत्स्व रस] (सुनोति) निचोड़ता है । (मघवा) धनवान् [शूर] (तम्) उस [मनुष्य] को (अनन्तः) अपनी गोद में (निः) निश्चय करके (दधाति) बैठालता है, और (अननुदिष्टः) बिना कहा हुआ [वह शूर] (ब्रह्मद्विषः) वेद विरोधियों को (हन्ति) मारता है ॥ ४ ॥

भावार्थ—राजा बुद्धिमान् राजमकों पर सदा दया दृष्टि रखे ॥ ४ ॥

विनाशयति (प्रशस्तम्) प्रशसनीयम् (इत्) एव (चारुम्) मनोहरं व्यवहारम् (अस्मै) पुरुषाय (कृणोति) करोति ॥

४—(अनुस्पष्टः) निरन्तरस्पष्टः । दृष्टिगोचरः (भवति) (एषः) स मनुष्यः (अस्य) प्रसिद्धस्य शूरस्य (यः) मनुष्यः (अस्मै) शूराय (रेवान्) धनवान् (न) इव (सुनोति) निष्पाद्यति (सोमम्) तत्स्वरसम् (निः) निश्चयेन (अनन्तः) श्रुतन्यञ्चि० । उ० ४ । २ । ऋ. गतौ—कञिच्, रत्निर्वद्धमुष्टिकरः स नास्ति यत्र । विस्वृतकनिष्ठाङ्गुलिमुष्टिकहस्ते । हस्ते । क्रोड़े (मघवा) धनवान् (तम्) पुरुषम् (दधाति) स्थापयति (ब्रह्मद्विषः) वेदद्वेषुन् (हन्ति) नाशयति (अननुदिष्टः) अनुदेशमप्राप्तः । अनुक्तः । अप्रार्थितः ॥

अश्वायन्तो गव्यन्तो वाजयन्तो हवामहे त्वोपगन्तवा उ ।
 आभूषन्तस्ते सुमती नवायां वयमिन्द्र त्वा शुनं हुवेम ॥ ५ ॥
 अश्व-यन्तः । गव्यन्तः । वाजयन्तः । हवामहे । त्वा । उप-
 गन्तवै । उ इति ॥ आ-भूषन्तः । ते । सु-मती । नवायाम् ।
 वयम् । इन्द्र । त्वा । शुनम् । हुवेम् ॥ ५ ॥

भाष्यार्थ—[हे राजन् !] (अश्वायन्तः) घोड़े चाहते हुये, (गव्यन्तः)
 भूमि चाहते हुये, (वाजयन्तः) बल वा अश्व चाहते हुये हम (त्वा) तुम्हें
 (उपगन्तवै) आने के लिये (उ) अवश्य कर के (हवामहे) बुलाते हैं । (इन्द्र)
 हे इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्] (ते) तेरी (नवायाम्) श्रेष्ठ (सुमती)
 सुमति में (आभूषन्तः) शोभा पाते हुये (वयम्) हम (त्वा) तुम्हें (शुनम्)
 सुख से (हुवेम) बुलावें ॥ ५ ॥

भावार्थ—प्रजागण धर्मात्मा राजा-की नीति में चरकर सदा उन्नति
 करें ॥ ५ ॥

मन्त्रः, ६—१० ॥ राजयक्ष्णुनं वेषता ॥ ६ आपी, ७ त्रिष्टुप्, ८ निचृत्
 त्रिष्टुप्, ९ विराट् त्रिष्टुप्, १० निचृदनुष्टुप् ॥

रोगनाशनोपदेशः—रोग नाश करने का उपदेश ॥

मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कसञ्जातयद्दमादुत राजय-
 द्दमात् । ग्राहिर्जग्राह यद्ये तदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्र मुमुक्त-

५—(अश्वायन्तः) अश्व—क्यच्, शतृ । अश्वायस्यात् । पा० ७।४ ।
 ३७ । इत्यास्वम् । अश्वान् इच्छन्तः (गव्यन्तः) गो—क्यच्, शतृ । वान्तो
 यि प्रत्यये । पा० ६।१ । ७६ । अवादेशः । गां भूमिमिच्छन्तः (वाजयन्तः) बल-
 मश्वं वेच्छन्तः (हवामहे) आह्वयामः (त्वा) त्वाम् (उपगन्तवै) तुमर्थे
 सेसेनसे० । पा० ३।४।६ । गमेः—तवैप्रत्ययः । आगन्तुम् (उ) अवधारणे
 (आभूषन्तः) अलंक्रियमाणाः । शोभयमानाः (ते) तव (सुमती) शोभनायां
 बुद्धौ (नवायाम्) शुभतुती—ऋप् । श्रुत्यायाम् (वयम्) (इन्द्र) महाप्रतापिन्
 राजन् (त्वा) (शुनम्) सुखेन (हुवेम) आह्वयेम ॥

मेनम् ॥ ६ ॥

मुञ्चामि । त्वा । हविषा । जीवनाय । कम् । अज्ञात-
युद्धमात् । उत । राज-युद्धमात् ॥ ग्राहिः । जग्राह । यदि ।
एतत् । एनम् । तस्याः । इन्द्राग्नी इति । प्र । मुमुक्तम् ।
एनम् ॥ ६ ॥

भाषार्थ—[हे प्राणी !] (त्वा) तुझ को (हविषा) भक्ति के साथ
(कम्) तुझ से (जीवनाय) जीवन के लिये (अज्ञातयुद्धमात्) अप्रकट रोग
से (उत) और (राजयुद्धमात्) राजरोग से (मुञ्चामि) मैं छुड़ाता हूँ ।
(यदि) जो (ग्राहिः) जकड़ने वाली पीड़ा [गठिया रोग] ने (एतत्) इस
समय (एनम्) इस प्राणी को (जग्राह) पकड़ लिया है, (तस्याः) उस
[पीड़ा] से, (इन्द्राग्नी) हे सूर्य और अग्नि (एनम्) इस [प्राणी] को (प्र
मुमुक्तम्) तुम छोड़ाओ ॥ ६ ॥

भाषार्थ—सद्बुद्धि गुप्त और प्रकट रोगों से विचार पूर्वक रोगी को
अच्छा करता है, ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य (इन्द्राग्नी) सूर्य और अग्नि अर्थात् सूर्य
से लेकर अग्नि पर्यन्त अर्थात् दिव्य और पार्थिव सब पदार्थों से उपकार लेकर,
अथवा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी विद्वानों से मिलकर, अपने दोषों को
मिटोकर यशस्वी होवे ॥ ६ ॥

मन्त्र ६—६ आ चुके हैं—अ० ३।११।१—४ ॥

यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव ।
तसा ह'रामि निर्ऋतेरुपस्थादस्पर्शमेनं शतशरदाय ॥ ७ ॥

यदि । क्षित-आयुः । यदि । वा । परा-इतः । यदि मृत्योः ।
अन्तिकम् । नि-इतः । एव ॥ तस्य । आ । हरामि । निः-
ऋतेः । उप-स्थात् । अस्पर्शम् । एनम् । शत-शरदाय ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(यदि) चाहे [यह] (क्षितायुः) दूटी आयु वाला, (यदि वा) अथवा (परेतः) अंग भंग है, (यदि) चाहे (मृत्योः) मृत्यु के (अन्तिकम्) समीप (एव) ही (नीतः = नि—इतः) आ चुका है । (तम्) उस को (निर्मृतेः) महामारी की (उपस्थात्) गोद से (आ हरामि) लिये आता हूँ, (एनम्) इस को (शतशारदाय + जीवनाय) सौ शब्द ऋतुओं वाले [जीवन] के लिये (अस्पर्शम्) मैं ने छुआ है ॥ ७ ॥

भाषार्थ—जैसे चतुर वैद्य यत्न करके भारी भारी रोगियों को चंगा करता है, ऐसे ही मनुष्य शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक कठिन संकट पड़ने पर अपने आत्मा को प्रबल रखे ॥ ७ ॥

सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषाहर्षमेनम् ।

इन्द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम् ॥८॥

सहस्र-अक्षेण । शत-वीर्येण । शत-आयुषा । हविषा । आ ।

अहर्षम् । एनम् ॥ इन्द्रः । यथा । एनम् । शरदः ।

नयाति । अति । विश्वस्य । दुः-दुतस्य । पारम् ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(सहस्राक्षेण) सहस्रों नेत्र वाले, (शतवीर्येण) सैकड़ों सामर्थ्य वाले, (शतायुषा) सैकड़ों जीवन शक्ति वाले (हविषा) आत्मदान वा भक्ति से (एनम्) इस [आत्मा] को (आ अहर्षम्) मैं ने उभारा है । (यथा) जिस से (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् मनुष्य (एनम्) इस [जीव] को (विश्वस्य) प्रत्येक (दुरितस्य) कष्ट के (पारम्) वार (अति = अतीत्य) निकालकर (शरदः) [सौ] शब्द ऋतुओं तक (नयाति) पहुंचावे ॥ ८ ॥

भाषार्थ—जब मनुष्य एकाग्र चित्त होकर अनेक प्रकार से अपनी दर्शन शक्ति, कर्म-शक्ति और ओविका शक्ति बढ़ाकर अपने को सुधारता है, तब वह इन्द्र पुरुष सब उलझनों को सुलझाकर यशस्वी होकर चिरंजीवी होता है ॥ ८ ॥

शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तान्छतसु वसुन्तान् ।

शतं तु इन्द्रो अग्निः संविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषा-

होषमेनम् ॥ ८ ॥

शुतम् । जीव । शरदः । वर्धमानः । शुतम् । हेमन्तान् ।
शुतम् । ज इति । वसन्तान् ॥ शुतम् । ते । इन्द्रः । अग्निः ॥
सविता । बृहस्पतिः । शुत-आयुषा । हविषा । आ ।
अहार्षम् । एनम् ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(वर्धमानः + त्वम्) बढ़ती करता हुआ तू (शतं शरदः) सौ शरद ऋतुओं तक, (शतं हेमन्तान्) सौ शीत ऋतुओं तक (उ) और (शतं वसन्तान्) सौ वसन्त ऋतुओं तक (जीव) जीता रह । (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्, (अग्निः) नेत्रस्वी विद्वान्, (सविता) सब के चलाने वाले, (बृहस्पतिः + अह जीवः) बड़े बड़ों के रक्षक मैं ने (शतम्) अनेक प्रकार से (ते) तेरे लिये (शनायुषा) सैंकड़ों अविन शक्ति वाले (हविषा) आत्मदान वा भक्ति से (एनम्) इस [आत्मा] को (आ अहार्षम् उभारा है ॥ ८ ॥

भाषार्थ—मनुष्य उचित रीति से वर्षा, शीत और उष्ण ऋतुओं को सहकर बहुप्रकार मन्त्रोक विधि पर विद्या आदि बल से शक्तिमान् होकर जीविका उपार्जन करता हुआ आत्मा की उन्नति करे ॥ ८ ॥

आहार्षं सविदं त्वा पुनरागाः पुनर्णवः ।

सर्वाङ्गः सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेऽविदम् ॥ १० ॥

आ । आहार्षम् । अविदम् । त्वा । पुनः । आ । अगाः ।
पुनः-नवः ॥ सर्व-अङ्ग । सर्वम् । ते । चक्षुः । सर्वम् । आयुः ।
च । ते । अविदम् ॥ १० ॥

भाषार्थ—[हे मनुष्य !] (त्वा) तुझ को (आ अहार्षम्) मैं ने प्रहण किया है और (अविदम्) मैं ने पाया है, तू (पुनर्णवः) नवीन होकर (पुनः) फिर (आ अगाः) आया है । (सर्वाङ्ग) हे सम्पूर्ण [विद्या] के अङ्ग वाले ! (तेरे) लिये (सर्वम्) सम्पूर्ण (चक्षुः) दर्शन सामर्थ्य (च) और (ते)

तेरे लिये (सर्वम्) सम्पूर्ण (आयुः) आयु (अविदा) मैं ने राखी है ॥ १० ॥

भावार्थ—जिस पुत्र को आचार्य स्वीकार करके विद्यादान देकर द्विजन्मा बनाना है, वह मन प्रहार विद्या से रक्षाशिल्पा होकर उक्त जीवन युक्त होता है ॥ १० ॥

यह मन्त्र आ चुका है—मन्त्र २१ ॥ २० ॥

मन्त्र ११—१६ ॥ गर्भसञ्जाये प्राग्शिवन देवता ॥ ११, १२, १४ त्रिचूड
चुण्डुप्, १३, १५ १६ अनुचुण्डुप् ॥

गर्भरक्षोपदेशः—गर्भ रक्षा का उपदेश ॥

ब्रह्मण्याग्निः संविदानो रक्षोहा बाधतामितः ।

अमीवा यस्ते गर्भं दुर्णामा योनिमाशये ॥ ११ ॥

ब्रह्मण्या । अग्निः । सुम्-विदानः । रक्षुः-हा । बाधताम् ।
इतः ॥ अमीवा । यः । ते । गर्भम् । दुः-नामा । योनिम् ।
आ-शये ॥ ११ ॥

भावार्थ—[हे गर्भिणी !] (ब्रह्मण्या) विद्वान् वैद्य से (संविदानः)
मेल रखता हुआ, (रक्षोहा) रक्षसों [रोगों] का नाश करने वाला (अग्निः)
अग्नि [अग्नि के समान रोग भस्म करने वाला औषध] (इतः) यहां से
[उस रोग को] (बाधताम्) हटावे, (यः) जो-कोई (दुर्णामा) दुर्णामा
[दुष्ट नाम वाले बवान्नीर आदि रोग का कीड़ा] (अमीवा) पीड़ा होकर
(ते) तेरे (गर्भम्) गर्भाशय [कोख] और (योनिम्) योनि [गुप्त-
उत्पत्ति मार्ग] को (आशये) घेर-लेता है ॥ ११ ॥

११—(ब्रह्मण्या) विद्वान् वैद्येन सह (अग्निः) अग्निसमानं रोगस्य भस्मी
करमौषधम् (संविदानः) ऐकमत्य प्राप्तः (रक्षोहा) रक्षसां रोगाणां नाशकः (बाध-
ताम्) हिनस्तुतं रोगम् (इतः) अस्मात् स्थानात् (अमीवा) पीडा (यः)
(ते) तव (गर्भम्) गर्भाशयम् (दुर्णामा) अ० ८ । ६ । १ । दुर्णामा क्रिमि-
भवति पापनामा—निच० ६ । १२ । अर्शमादिरोगजन्तुः (योनिम्) गुप्तोत्प-
त्तिमार्गम् (आशये) तलोपः । आशये । प्राप्नोति ॥

भावार्थ—स्त्री की कोख और योनि के रोग मन्त्रों को विद्वान् वैद्यों की सम्मति से दूर करना चाहिये ॥ ११

मन्त्र ११—१६ ऋग्वेद में हैं—१०। १६२। १—६ ॥

इन मन्त्रों से मिलाओ—म० का० ८। सू० ६ ॥

यस्ते गर्भसमीवा दुर्णामा योनिमाशये ।

अग्निष्टं ब्रह्मणा सह निष्कृत्वा दमनीनशत् ॥ १२ ॥

यः । ते । गर्भम् । समीवा । दुः-नामा । योनिम् । आ-शये ॥

अग्निः । तम् । ब्रह्मणा । सह । निः । कृत्वा-दम् ।

अनीनशत् ॥ १२ ॥

भावार्थ—[हे गर्भिणी !] (यः) जो कोई (दुर्णामा) दुर्णामा [दुष्ट नाम वाला बवासीर आदि रोग का कोड़ा] (समीवा) पीड़ा होकर (ते) तेरे (गर्भम्) गर्भाशय [कोख] और (योनिम्) योनि [गुप्त उत्पत्ति मार्ग] की (आशये) घेर लेना है, (ब्रह्मणा सह) विद्वान् वैद्य के साथ (अग्निः) अग्नि [अग्नि समान रोग भङ्ग करने वाला औषध] (तम्) उस (कृत्वा दम्) माल जाने वाले [रोग] की (निः) सर्वथा (अनीनशत्) नाश करे ॥ १२ ॥

भावार्थ—मन्त्र ११ के समान है ॥ १२ ॥

यस्ते हन्ति पुतयन्तं निषुत्सुं यः सुरीसृपम् ।

जातं यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥ १३ ॥

यः । ते । हन्ति । पुतयन्तम् । नि-सुत्सुम् । यः । सुरीसृपम् ॥

जातम् । यः । ते । जिघांसति । तम् । इतः । नाशयामसि ॥

भावार्थ—[हे गर्भिणी !] (यः) जो कोई [रोग] (ते) तेरे [गर्भ-

१२—(यः ते गर्भम् ...) इत्यादयो गताः सुगमाश्च (निः) निःशेषेण (कृत्वा दम्) मालमलक रोगम् (अनीनशत्) नाशयतु ॥

१३—(यः) रोगः (ते) तव गर्भाशये (हन्ति) नाशयति (पुतयन्तम्)

शय में] (पतयन्तम्) गिरते हुये [वीर्य रूप गर्भम्] को और (निवत्सुम्) जमते हुये [अंकुये अर्थात् बालक] को और (यः) जो कोई [रोग] (सरो-सृपम्) डोलते हुये गर्भ को (हन्ति) नाश करे, और (यः) जो कोई [रोग] (ते) तेरे (जातम्) उत्पन्न हुये बच्चे को (जिघांसति) मारना चाहे, (तम्) उस [रोग] को (इतः) यहां से (नाशयामसि) हम नाश करें ॥ १३ ॥

भाषार्थ—उत्तम वैद्यों द्वारा रोगों का नाश करके गर्भ और उत्पन्न हुये बच्चे की रक्षा करनी चाहिये ॥ १३ ॥

यस्तं ऊरु विहरत्यन्तरा दम्पती शये ।

यानि यो अन्तरारेलिह तमितो नाशयामसि ॥ १४ ॥

यः । ते । ऊरु इति । वि-हरति । अन्तरा । दम्पती इति दम्-पती । शये ॥ यानिम् । यः । अन्तः । आ-रेलिह । तम् ।

इतः । नाशयामसि ॥ १४ ॥

भाषार्थ—(यः) जो कोई [रोग] (ते) तेरी (ऊरु) दोनों जंघाओं को (विहरति) फैला दे और (दम्पती अन्तरा) पति पत्नी के बीच में (शये) पड़ जावे और (यः) जो कोई [रोग] (यानिम्) यानि को (अन्तः) भीतर से (आरेलिह) चाट लेवे, (तम्) उस [रोग] को (इतः) यहां से (नाश-

पतन्तं वीर्यरूपगर्भम् (निवत्सुम्) ग्लाजिस्थश्च क्सु । पा० ३ । २ । १३६ । नि + षड्ल विशरणगत्यवसादनेषु—क्सु ग्सु, वा । निषीदन्तं गर्भम् (यः) रोगः (सरोसृपम्) अ० ३ । १० । ६ । सूपेर्यङ्लुगन्तात् पचाद्यच् । सर्पण-शीलं गर्भम् (जातम्) । दशसु मासेषुत्पन्नं गर्भम् (यः) रोगः (ते) तव (जिघांसति) हन्तुमिच्छति (तम्) रोगम् (इतः) अस्मात् स्थानात् (नाश-यामसि) नाशयामः ॥

१४—(यः) रोगः (ते) तव (ऊरु) जंघे । पादमूलौ (विहरति) विविधये करोति, (दम्पती अन्तरा) जायापत्न्योर्मध्ये (शये) शेते । वर्तते (यानिम्) गर्भाशयम् (यः) रोगः (अन्तः) मध्ये (आरेलिह) लिह आस्वा-दने, आशयिकः, कपिलकादित्वात् संत्वविकल्पः । आस्वादयति । शोषयति ।

यामसि) हम नाश करें ॥ १४ ॥

भावार्थ—जिस रोग से स्त्री की जांघें फैल जावें, और जिस रोग से सन्तान उत्पन्न करने में स्त्री पुरुषों को विघ्न होवे और योनि आदि में सूजा का रोग लग जावे, उस सब का औषध करना चाहिये ॥ १४ ॥

यस्त्वा भ्राता पतिर्भूत्वा जारो भूत्वा निपद्यते ।

मृजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥ १५ ॥

यः । त्वा । भ्राता । पतिः । भूत्वा । जारः । भूत्वा । नि-
पद्यते ॥ मृ-जाम् । यः । ते । जिघांसति । तम् । इतः ।
नाशयामसि ॥ १५ ॥

भाषार्थ—[हे स्त्री !] (यः) जो कोई (जारः) व्यभिचारी (भ्राता) भाई (भूत्वा) होकर [अथवा] (पतिः) पति (भूत्वा) होकर (त्वा) तेरे पास (निपद्यते) आ जावे, [अथवा] (यः) जो कोई [दुष्ट] (ते) तेरे (प्रजाम्) सन्तान को (जिघांसति) मारना चाहे, (तम्) उस को (इतः) यहाँ से (नाशयामसि) हम नाश करें ॥ १५ ॥

भाषार्थ—जो कोई दुराचारी जन भाई वा पति के समान घन कर घर में आकर उपद्रव करे, उसका नाश करना चाहिये ॥ १५ ॥

यस्त्वा स्वप्नेन तमसा मोहयित्वा निपद्यते ।

मृजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥ १६ ॥

यः । त्वा । स्वप्नेन । तमसा । मोहयित्वा । नि-पद्यते ॥ मृ-
जाम् । यः । ते । जिघांसति । तम् । इतः । नाशयामसि ॥ १६ ॥

निषक्तं रेतः । अन्यत् पूर्ववत् ॥

१५—(यः) दुराचारी (त्वा) त्वाम् (भ्राता) भ्रातरूपः (पतिः) भर्तृरूपः (भूत्वा) (जारः) व्यभिचारी (भूत्वा) (निपद्यते) अभिगच्छति (प्रजाम्) सन्तानम् (यः) दुराचारी (ते) तव (जिघांसति) हन्तुमिच्छति । अन्यत् पूर्ववत् ॥

भाषार्थ—[हे स्त्री !] (यः) जो कोई [दुष्ट] (स्वप्नेन) नींद से [अथवा] (तमसा) अंधेरे से (मोहयित्वा) घबड़ा देकर (त्वा) तेरे पास (निपद्यते) आजावे, और (यः) जो कोई (ते) तेरे (प्रजाम्) सन्तान को (जिघांसति) मारना चाहे, (तम्) उस [दुष्ट] को (इत्तः) यहां से (नाशयामसि) हम नाश करें ॥ १६ ॥

भाषार्थ—जो कोई दुष्ट जन नींद की औषधि से अथवा अंधेरा करके कुछ हानि करे, उसका नाश करना चाहिये ॥ १६ ॥

मन्त्राः १७—२३ ॥ आत्मा देवता ॥ १७, २० अनुष्टुप्, १८ निचृषनुष्टुप्, १९ विराडनुष्टुप्, २१ निचृषुपरिष्ठाद् वृहती; २२ भुरिगनुष्टुप्, २३ पङ्क्तिः ॥

शारीरिकविषये शरीररक्षोपदेशः—शारीरिक विषय में शरीर रक्षा का उपदेश ॥

अस्त्रीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां सुबुकादधि । यक्ष्मं शीर्षयम् मस्तिष्काज्जिह्वाया वि वृहामि ते ॥ १७ ॥

अस्त्रीभ्याम् । ते । नासिकाभ्याम् । कर्णाभ्याम् । सुबुकात् । अधि ॥ यक्ष्मम् । शीर्षयम् । मस्तिष्कात् । जिह्वायाः । वि । वृहामि । ते ॥ १७ ॥

भाषार्थ—[हे प्राणी !] (ते) तेरी (अस्त्रीभ्याम्) दोनों आंकों से, (नासिकाभ्याम्) दोनों नथनों से, (कर्णाभ्याम्) दोनों कानों से, (सुबुकात् अधि=सुबुकात् अधि) ढोड़ी में से, (ते) तेरे (मस्तिष्कात्) भेजे से, और (जिह्वायाः) जिह्वा से (शीर्षयम्) शिर में के (यक्ष्मम्) क्षयी [क्षयी रोग] को (वि वृहामि) मैं उखाड़े देता हूँ ॥ १७ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में शिर के अवयवों का वर्णन है। जैसे सङ्घैष उत्तम औषधों से रोगों की निवृत्ति करता है, ऐसे ही मनुष्य अपने आत्मिक

१६—(यः) दुष्टः (त्वा) त्वाम् (स्वप्नेन) निद्रौषधेन (तमसा) अंधकारेण (मोहयित्वा) मूर्धा कृत्वा (निपद्यते) अभिगच्छति । अत्यन्त पूर्ववत् ॥

१७—२३ व्याख्याताः—अ० २ । ३१ । १—७ ॥

और शारीरिक दोषों को विचार पूर्वक नाश करे ॥

मन्त्र १७—२३ आ चुके हैं—अ० २। ३३। १—७ ॥

श्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनुक्यात् ।

यद्मं दोषय्यं मंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते ॥ १८ ॥

श्रीवाभ्यः । ते । उष्णिहाभ्यः । कीकसाभ्यः । अनुक्यात् ॥

यद्मम् । दोषय्यम् । मंसाभ्याम् । बाहुभ्याम् । वि । वृहामि ।

ते ॥ १८ ॥

भाषार्थ—(ते) तेरे (श्रीवाभ्यः) गले की नाड़ियों से, (उष्णिहाभ्यः)
शुद्धी की नाड़ियों से, (कीकसाभ्यः) हंसली की हड्डियों से, (अनुक्यात्)
रीढ़ से और (ते) तेरे (मंसाभ्याम्) दोनों कंधों से, और (बाहुभ्याम्)
दोनों भुजाओं से, (दोषय्यम्) मुड्डे वा बकले से (यद्मम्) क्षयी रोग को
(वि वृहामि) मैं उखाड़े देता हूँ ॥ १८ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में श्रीवा के अवयवों का वर्णन है । भाषार्थ मन्त्र
१७ के समान है ॥ १८ ॥

हृदयात् ते परि क्लोमो हलीक्षणात् पार्श्वभ्याम् ।

यद्मं सतस्नाभ्यां ग्रीहो यक्रस्ते वि वृहामसि ॥ १९ ॥

हृदयात् । ते । परि । क्लोमः । हलीक्षणात् । पार्श्वभ्याम् ॥

यद्मम् । सतस्नाभ्याम् । ग्रीहः । यक्रः । ते । वि ।

वृहामसि ॥ १९ ॥

भाषार्थ—(ते) तेरे (हृदयात्) हृदय से, (क्लोमः) फेफड़े से,
(हलीक्षणात्) पिच्छे से, (पार्श्वभ्यां परि) दोनों बांहों [कक्षाओं] से और
(ते) तेरे (सतस्नाभ्याम्) दोनों सतस्नों [गुदों] से, (ग्रीहः) ग्रीहा वा
पिलई [तिल्ली] से, (यक्रः) यकृत [काल खण्ड वा कुक्षीजा] से (यद्मम्)
क्षयी रोग को (वि वृहामसि) हम उखाड़े देते हैं ॥ १९ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में कंधों के नीचे के अवयवों का वर्णन है । भाषार्थ
मन्त्र १७ के समान है ॥ १९ ॥

आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोऽुदरादधि ।

यद्म कुक्षिभ्यां प्राग्नेनभ्या वि वृहामि ते ॥ २० ॥

आन्त्रेभ्यः । ते । गुदाभ्यः । वनिष्ठोः । उदरात् । अधि ॥

यद्मस् । कुक्षि-भ्याम् । प्राग्नेः । नाभ्याः । वि । वृहामि । ते २० ॥

भाषार्थ—(ते) तेरी (आन्त्रेभ्यः) आंतों से, (गुदाभ्यः) गुदा की नाड़ियों से, (वनिष्ठोः) वनिष्ठु [भीतरी मल स्थान] से, (उदरात् अधि) उदर में से, और (ते) तेरी (कुक्षिभ्याम्) दोनों कोखों से, (प्राग्नेः) प्राग्नि [कोख में की धैली] से, और (नाभ्याः) नाभि में से (यद्मम्) क्षयी रोग को (वि वृहामि) मैं उखाड़े देता हूँ ॥ २० ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उदर के अवयवों का वर्णन है । भाषार्थ मन्त्र १७ के समान है ॥ २० ॥

ऊरुभ्यां ते अष्टीवद्भ्यां पार्थिभ्यां प्रपदाभ्याम् । यद्म भसद्यैः श्रोणिभ्यां भसद्यं भससो वि वृहामि ते ॥ २१ ॥

ऊरु-भ्याम् । ते । अष्टीवत्-भ्याम् । पार्थि-भ्याम् । प्र-पदाभ्याम् ॥ यद्मस् । भसद्यैः । श्रोणि-भ्याम् । भसद्यम् । भससः । वि । वृहामि । ते ॥ २१ ॥

भाषार्थ—(ते) तेरी (ऊरुभ्याम्) दोनों जंघाओं से, (अष्टीवद्भ्याम्) दोनों घुटनों से (पार्थिभ्याम्) दोनों पंजियों से, (प्रपदाभ्याम्) दोनों पैरों के पंजों से और (ते) तेरे (श्रोणिभ्याम्) दोनों कूटहों से [वा नितम्बों से] और (भससः) गुह्य स्थान से (भसद्यम्) कटि [कमर] के और (भसद्यम्) गुह्य के (यद्मम्) क्षयी रोग को (वि वृहामि) मैं जड़ से उखाड़ता हूँ ॥ २१ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में कटि के नीचे के अवयवों का वर्णन है । भाषार्थ मन्त्र १७ के समान है ॥ २१ ॥

अस्थिभ्यस्ते मूजभ्यः सनादभ्यो धूमनिभ्यः । यद्म पाणि-भ्याम् उगुलिभ्यो नखेभ्यो वि वृहामि ते ॥ २२ ॥

अस्थि-भ्यः । ते । मज्ज-भ्यः । स्नाव-भ्यः । घमनि-भ्यः ॥
यद्मम् । पाणि-भ्याम् । अङ्गुलि-भ्यः । नखेभ्यः । वि ।
वृहामि । ते ॥ २२ ॥

भाषार्थ—(ते) तेरे (अस्थिभ्यः) हड्डियों से, (मज्जभ्यः) मज्जा धातु [हड्डी के भीतर के रस] से, (स्नावभ्यः) सूक्ष्म नाड़ियों [वा पुट्टों] से, और (घमनिभ्यः) स्थूल नाड़ियों से, और (ते) तेरे (पाणिभ्याम्) दोनों हाथों से, (अङ्गुलिभ्यः) अङ्गुलियों से और (नखेभ्यः) नखों से (यद्मम्) क्षयी रोग को (वि वृहामि) मैं जड से उखाड़ता हूँ ॥ २२ ॥

भावार्थ—मनुष्य अपने शरीर के भीतरी धातुओं, नाड़ियों और हाथ आदि बाहिरी अङ्गों को यथा योग्य आहार विहार से पुष्ट और स्वस्थ रखे, जिस से आत्मिक शक्ति सदा बढ़ती रहे ॥ २२ ॥

अङ्गेअङ्गे लोम्निलोम्नि यस्ते पर्वणिपर्वणि । यद्मं त्वचस्यं
ते वयं कश्यपस्य वीवर्हेण विष्वञ्चं वि वृहामसि ॥ २३ ॥

अङ्गे-अङ्गे । लोम्नि-लोम्नि । ते । पर्वणि-पर्वणि ॥ यद्मम् ।
त्वचस्यम् । ते । वयम् । कश्यपस्य । वि-वर्हेण । विष्वञ्चम् ।
वि । वृहामसि ॥ २३ ॥

भाषार्थ—(य) जो [क्षयी रोग] (ते) तेरे (अङ्गेअङ्गे) अङ्ग अङ्ग में, (लोम्निलोम्नि) रोम रोम में और (पर्वणिपर्वणि) गाँठ गाँठ में है । (वयम्) हम (ते) तेरे (त्वचस्यम्) त्वचा के और (विष्वञ्चम्) सब अवयवों में व्यापक (यद्मम्) क्षयी रोग को (कश्यपस्य) जानदृष्टि वाले विद्वान् के (विवर्हेण) विविध उद्यम से (वि वृहामसि) जड से उखाड़ते हैं ॥ २३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपसंहार वा समाप्ति है अर्थात् प्रसिद्ध अवयवों का वर्णन करके अन्य सब अवयवों का कथन है । जिस प्रकार सद्बैद्य निदान पूर्वक रोगी के जोड़ जोड़ में से रोग को नाश करता है, वैसे ही क्षात्री

पुरुष निदिध्यासन पूर्वक आत्मिक दोषों को मिटाकर प्रसन्नचित्त होता है ॥ २३ ॥

अपेहि मनसस्पृतेऽपं काम पुरश्चर । पुरो निर्मृत्या आ चक्षुः
बहुधा जीवतु मनः ॥ २४ ॥

अपं । इहि । मनसः । पृते । अपं । काम । पुरः । चरु ।
पुरः । निः-मृत्यै । आ । चक्षुः । बहुधा । जीवतः । मनः ॥ २४

मन्त्र २४ ॥ दुःस्वप्नं देवता ॥ निचृशुष्टुप् छन्दः ॥

स्वास्थ्यरक्षोपदेशः—स्वास्थ्य को रक्षा का उद्देश - ॥

भावार्थ—(मनसः पने) हे मन के गिराने वाले ! [दुष्ट स्वप्न आदि-
रोग] (अप-इहि) निकर जा, (अप, काम) पैर उडा, (पुरः) पुरे (चर)
चला जा । (निर्मृत्यै) अज्ञानी [मशामरी, वरिदना आदि] को (पुरः)
दूर [जाने के लिये] (आ चक्षुः) कहे, (जीवतः) जीवित मनुष्य का
(मनः) मन (बहुधा) बहुत प्रकार से [बहुत विषयों में उत्सुक] होगा
है ॥ २४ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम विचारों के साथ स्वास्थ्य
की रक्षा करें और निरालस होकर शुभ कर्मों को सोचते हुये पेश्वर्यवान्
हों ॥ २४ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—२० । १६४ । १ ॥

इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥

२४—(अप इहि) अप गच्छ । निर्गच्छ (मनसः) चित्तस्थं (पने)
सर्वधातुभ्य इत् । उ० ४ । ११८ । पतल-पतने—इत् ॥ अधोगमयितः (अपंक्रम)
पादो विलिर (पुरः) परस्तात् । दूरे (चर) गच्छु (पुरः) परस्तात् (निर्मृत्यै)
अ० २ । १० । १ । कृच्छ्रायस्ये (आ) आभिमुख्येन (चक्षुः) इहि (बहुधा)
बहुप्रकारेण । बहुषु विषयेषु-सुकम् (जीवतः) जीवितस्य (मनः) चित्तम् ॥

अथ नवमोऽनुवाकः ॥

सूक्तम् ८७ ॥

१—३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निचूदाषीं वृहती; २ निचूद् विष्टारपङ्क्तिः; ३ आप्यनुष्टुप् ॥

वीरलक्षणोपदेशः—वीर के लक्षणों का उपदेश ॥

वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमह वज्रिणम् । तस्मा उ अद्य समुना
सुतं भुरा नूनं भूषत श्रुते ॥ १ ॥

वयम् । एनम् । इदा । ह्यः । अपीपेम । इह । वज्रिणम् ॥
तस्मै । ऊं इति । अद्य । समुना । सुतम् । भुर । आ ।
नूनम् । भूषतु । श्रुते ॥ १ ॥

भाषार्थ—(वयम्) हम ने (इदा) परम ऐश्वर्य के साथ [वर्तमान]
(एनम्) इस (वज्रिणम्) यज्ञधारी [वीर] को (ह्यः) कत्य (इह) यहाँ पर
[तस्व रस] (अपीपेम) पान कराया है । [हे विठान्] (तस्मै) इस
(समुना) पूर्ण बल वाले [शूर] के लिये (उ) ही (अद्य) आज (सुतम्)
सिद्ध किये हुये [तस्व रस] को (भुर) भरदे, और (नूनम्) निश्चय करके
(श्रुते) सुनने योग्य शास्त्र के वीच (आ) सब ओर से (भूषत) तुम
शोभा बढ़ाओ ॥ १ ॥

भाषार्थ—जिस पराक्रमी वीर को सदा तस्व ज्ञान का उपदेश होता
है, वहाँ प्रत्येक मनुष्य अलग अलग और सब मनुष्य मिलकर विज्ञान की
वृद्धि करते हैं ॥ १ ॥

१—(वयम्) (एनम्) (इदा) इति परमैश्वर्ये—किप्, नलोपः । परमै-
श्वर्येण सह वर्तमानम् (ह्यः) गतदिने (अपीपेम) पीड् पाने जुहोत्यादौ लङ्,
परस्मैपदं ह्यनुसम् । पानं कारितघन्तः (इह) अत्र (वज्रिणम्) (तस्मै)
(उ) निश्चयेन (अद्य) अस्मिन् दिने (समुना) अन प्राणने—अच्, विभक्तोर्डां ।
समनाय । पूर्णबलवते (सुतम्) संस्कृतं तस्वरसम् (भुर) धर (आ)
समन्तात् (नूनम्) अवशम (भूषत) अलं कुरुत (श्रुते) अवशीये ज्ञाने ॥

यह तुष ऋग्वेद में है—= । ६६ [सायणभाष्य ५५] । ७-६ मन्त्र १, २
सामवेद—३० ८ । २ । १ ३; मन्त्र २—साम०—पू० ३ । ८ । १० ॥

वृकश्चिदस्य वारुण उरामथिरा वयुनेषु भुषति । सेमं नः
स्तोमं जुजुषाण आ गृहीन्द्र प्र चित्रया धिया ॥ २ ॥

वृकः । चित् । अस्य । वारुणः । उरा-मथिः । आ । वयुनेषु ।
भुषति ॥ सः । इमम् । नः । स्तोमम् । जुजुषाणः । आ ।
गृहि । इन्द्र । प्र । चित्रया । धिया ॥ २ ॥

भाषार्थ—(वारुणः) रोकने वाला (उरामथिः) भेड़ों का मथने वाला
(वृकः) भेड़िया (चित्) भी (अस्य) इस [धीर] के (वयुनेषु) कर्मों में
(आ) अनुकूल (भूषति) हो जाता है । (इन्द्र) हे इन्द्र । [बड़े पेशवर्य वाले
शूर] (सः) सो तू (नः) हमारे (इमम्) इस (स्तोमम्) स्तोत्र को
(जुजुषाणः) स्वीकार करता हुआ (चित्रया) विचित्र (धिया) बुद्धि वा
कर्म के साथ (प्र) भले प्रकार (आ गृहि) आ ॥ २ ॥

भावार्थ—शूर प्रतापी राजा भेड़िये की प्रकृति वाले दुष्टों को विचित्र
नीति से वश में करके प्रजा को सुखी करे ॥ २ ॥

इस मन्त्र के अर्थ के लिये देखो—निरु० ५ । २१ ॥

कदु न्वे१ स्याकृतमिन्द्रस्यास्तित् पीस्यम् । केना नु कं ओम्र-
तेन न शुश्रुवे जनुषः परि वृत्रहा ॥ ३ ॥

२—(वृकः) वृक आदाने—क । श्वापि वृक उच्यते विकर्तनात्—निरु०
५ । २१ । व्याघ्रभेदः (चित्) अपि (वारुणः) वारयिता (उरामथिः) उरा-
मथिः । वारुणमथिः । उरण ऊर्णावान् भवत्यूर्णा पुनर्वृणनेर्णोतेर्वा—निरु०
५ । २१ । मैवाणां मथिता नाशयिना (आ) समन्तात् । अनुकृत्येन (वयुनेषु)
कर्मेषु (भूषति) भवति (सः) स त्वम् (इमम्) (नः) अस्माकम् (स्तोमम्)
स्तोत्रम् (जुजुषाणः) सेवमातः । स्वीकुर्वाण (आ गृहि) आगच्छ (इन्द्र)
वरमैश्वर्यवान् धीर (प्र) प्रकर्षेण (चित्रया) अद्भुतया (धिया) बुद्ध्या

कत् । ऊंति । नु । अस्य । अकृतम् । इन्द्रस्य । अस्ति ।
[पौंस्यम् ॥ केनो इति । नु । कम् । श्रोमतेन । न । शुश्रुवे ।
जनुषः । परि । वृत्र-हा ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(अस्य) इस (इन्द्रस्य) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले वीर]
का (नु) अब (कत् उ) कौन सा (पौंस्यम्) पौरुष (अकृतम्) बिना क्रिया
हूमा (अस्ति) है ? (केनो) किस (श्रोमतेन) धृति [वेद] मानने वाले
करके (नु) अब (जनुषः परि) जन्म से लेकर (वृत्रहा) शत्रुनाशक [वीर-
पुरुष] (कम्) सुख से (न) नहीं (शुश्रुवे) सुना गया है ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जब मनुष्य विश्वकर्मा होकर अपना सब धार्मिक सतस्य
कर लेता है, तब वह वीर समस्त संसार में बड़ाई पाता है ॥ ३ ॥

सूक्तम् टं ॥

१-२ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निचृदनुष्टुप् ; २ स्वराडापीं बृहती ॥

राजधर्मोपदेशः—राजा के धर्म का उपदेश ॥

त्वामिद्धि हवामहे सुता वाजस्य कारवः ।

त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरुस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ १ ॥

त्वाम् । इत् । हि । हवामहे । सुता । वाजस्य । कारवः ॥

त्वाम् । वृत्रेषु । इन्द्र । सत्-पतिम् । नरः । त्वाम् ।

काष्ठानु । अर्वतः ॥ १ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (कारवः)

३—(कत्) किम् (उ) एव (नु) इदानीम् (अस्य) (अकृतम्)

अनाचारितम् (इन्द्रस्य) परमैश्वर्यवतो वीरस्य (अस्ति (पौंस्यम्) पौरु-

ष्यम् (केनो) केनापि (नु) इदानीम् (कम्) सुखेन (श्रोमतेन) गमेर्होः । ३०

२ । ६७ । ध्रु भवणे—डोप्रत्ययः + मन ज्ञाने पूजायां च—क । भोः अवणीयो

वेदो मतः संमानितो येन तेन (न) निषेधे (शुश्रुवे) ध्रु भवणे—कर्मणि लिट् ।

अप्यते स्म (जनुषः) जन्मनः सकाशात् (परि) (वृत्रहा) शत्रुनाशकः ॥

१—(त्वाम्) (इत्) एव (हि) (हवामहे) आह्वयामः (सुता) साती ।

काम करने वाले, (नरः) नेता लोग हम (त्वाम्) तुझ को (इत् हि) ही (वाजस्य) विज्ञान के (सांता) लाभ में, (सत्पतिम्) सत्पुरुषों के पालने वाले (त्वाम्) तुझ को (वृत्रेषु) धनों में, और (त्वाम्) तुझ को (काष्ठासु) बड़ाह्यों के बीच (अर्वतः) बौड़ों को जैसे (हवामहे) पुकारते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ—कार्यकर्ता लोग राजा के सहाय से विद्या, धन और विजय की प्राप्ति करें ॥ १ ॥

मन्त्र १, २ अथर्ववेद में हैं—६ । ४६ । १, २; यजुर्वेद—२७ । ३७, ३८; सामवेद ७० २ । १ । १२ और मन्त्र १ साम०—पू० ३ । ४ । २ ॥

स त्वं न चित्र वज्रहस्त धृष्णुया महस्तवानो अद्रिवः ।
गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं किर सुत्रा वाजं न जिग्मुषे ॥ २ ॥

सः । त्वम् । नः । चित्र । वज्र-हस्त । धृष्णु-या । महः ।
स्तवानः । अद्रि-वः ॥ गाम् । अश्वम् । रथ्यम् । इन्द्र ।
सम् । किर । सुत्रा । वाजम् । न । जिग्मुषे ॥ २ ॥

भाषार्थ—(चित्र) हे अद्भुत स्वभाव वाले ! (वज्रहस्त) हे हाथ में वज्र रखने वाले ! (अद्रिवः) हे अन्न वाले ! (इन्द्र) इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्] (सः) सो (धृष्णुया) निर्भय (महः) बड़े लोगों की (स्तवानः) स्तुति करता हुआ (त्वम्) तू (नः) हमारे लिये (रथ्यम्) रथ के बोग्य (गाम्) बैल

विभागे । लाभे (वाजस्य) विज्ञानस्य (कारयः) कर्तारः (त्वाम्) (वृत्रेषु) धनेषु (इन्द्र) परमेश्वर्यवन् राजन् (सत्पतिम्) सत्पुरुषाणां पालकम् (नरः) नेतारः (त्वाम्) (काष्ठासु) हनिद्विनीरमिकाशिभ्यः कथन् । ७० २ । २ । काशु दीप्तौ—कथन् । काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि—अमरः २३ । ४१ । उत्कर्षेण (अर्वतः) अश्वानिव ॥

२—(सः) (त्वम्) (नः) अस्मभ्यम् (चित्रे) अद्भुतस्वभाव (वज्रहस्त) शस्त्रपाणे (धृष्णुया) विभक्तोर्या—पा० ७ । १ । ३६ । धृष्णुः । प्रगल्भः (महः) महतः पुरुषान् (स्तवानः) प्रशंसन् (अद्रिवः) हे अन्नवन् (गाम्) इषभम् (अश्वम्) तुरकम् (रथ्यम्) रथस्य चोदारम् (इन्द्र)

और (अश्वम्) घोड़ों को (सं किर) संग्रह कर, (न) जैसे (सत्रा) सत्य के साथ (जिग्युषे) जीतने वाले वीर को (वाजम्) अन्नआदि पदार्थ [देते हैं] ॥२॥

भाषार्थ—जैसे विजयी बोद्धा लोग ज्ञान पान आदि पदार्थों से प्रतिष्ठा पाते हैं, वैसे ही अन्य विद्वान् लोग अपनी चतुराई के कारण योग्य प्रतिष्ठा और भन प्राप्त करें ॥ २ ॥

सूक्तम् टटं ॥

१—२ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निचृत् पथवा वृहती; २ स्वराडार्षी वृहती ॥
परमेश्वरगुणोपदेश.—परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥

अभि त्वा पूर्वपीतये इन्द्र स्तोमेभिरायवः । समीचीनासं
ऋभवः समस्वरन् रुद्रा गृणन्तु पूर्व्यम् ॥ १ ॥

अभि । त्वा । पूर्व-पीतये । इन्द्र । स्तोमेभिः । आयवः ॥
सम्-ईचीनासः । ऋभवः । सम् । अस्वरन् । रुद्राः ।
गृणन्तु । पूर्व्यम् ॥ १ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र । [परम ऐश्वर्य वाले परमात्मन्] (पूर्व-पीतये) पहिले [मुख्य] भोग के लिये, (समीचीनासः) साधु, (ऋभवः) बुद्धिमान्, (रुद्राः) स्तुति करने वाले (आयवः) मनुष्यों ने (स्तोमेभिः) स्तोत्रों से (पूर्व्यम्) प्राचीन-(त्वाम्) तुझ को (सम्) मिलकर (अभि) सब प्रकार (अस्वरन्) आलापा है और (गृणन्तु) गाया है ॥ १ ॥

भाषार्थ—सब बुद्धिमान् लोग परमेश्वर के गुणों को जानकर अपनी उन्नति करें ॥ १ ॥

महाप्रतापिन् राजन् (सं किर) संग्रहाण (सत्रा) सत्येन (वाजम्) अन्नादि-कम् (न) यथा (जिग्युषे) जयतेः—कस्य । जयशीलस्य ॥

१—(अभि) अमितः (त्वा) त्वाम् (पूर्वपीतये) प्रथमपानाय । मुख्य-भोगाय (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् परमात्मन् (स्तोमेभिः) स्तोत्रैः । (आयवः) मनुष्याः—निघ० २ । ३ (समीचीनासः) सगताः । साधवः (ऋभवः) मेधाविनः (सम्) संगत्य (अस्वरन्) स्तु शब्दोपतापर्योः । अस्तुवन् (रुद्राः) स्तोतारः—निघ० ३ । १६ (गृणन्तु) स्तुतवन्तः (पूर्व्यम्) प्राचीनम् ॥

दोनों मन्त्र ऋग्वेद में हैं—८।३।७, ८; सामवेद—२०७।३१, मन्त्र-
१ साम० पू० ३।७।३ ॥

अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्यम् शवो मदे सुतस्य विष्णवि ।
अद्या तमस्य महिमान्मायवोऽनु स्तुवन्ति पूर्वया ॥ २ ॥
अस्य । इत् । इन्द्रः । ववृधे । वृष्यम् । शवः । मदे ।
सुतस्य । विष्णवि ॥ अद्या । तम् । अस्य । महिमानम् ।
आयवः । अनु । स्तुवन्ति । पूर्व-या ॥ २ ॥

भाषार्य—(इन्द्रः) इन्द्र [परमं ऐश्वर्यं वाले परमात्मा] ने (इत्) ही
(सुतस्य) उत्पन्न हुये (अस्य) इस [जीव] के (वृष्यम्) पराक्रम और
(शवः) बल को (विष्णवि) व्यापक (मदे) आनन्द में (ववृधे) बढ़ाया है,
(अस्य) इस [परमात्मा] की (तम्) उस (महिमानम्) बड़ाई को (आयवः)
मनुष्य (अद्य) अब (पूर्वया) पहिले के समान (अनु स्तुवन्ति) सराहते-
रहते हैं ॥ २ ॥

भाषार्य—अनादि निर्विकार परमात्मा इस प्राणी के आनन्द के लिये
सदा सहाय करता है, उसी की उपासना संथ मनुष्य सदा करते हैं ॥ २ ॥

यह मन्त्र यजुर्वेद में भी है—३३।६७ ॥

सूक्तम् १०० ॥

१—३ । इन्द्रो देवता ॥ १ १ विराडाभ्युष्णिकः २ विराडुष्णिकः ३
निष्पदुष्णिकः ॥

राजप्रजाकर्तव्योपदेशः—राजा और प्रजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

अध्रा हीन्द्र गिर्वण उप त्वु कामान् मुहः संसुज्जहै ।

उदेव यन्त उदभिः ॥ १ ॥

२—(अस्य) जीवस्य (इत्) एव (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् परमात्मा
(ववृधे) वर्धितवान् (वृष्यम्) वृषत्वम् । पराक्रमम् (शवः) बलम् (मदे)
आनन्दे (सुतस्य) उत्पन्नस्य (विष्णवि) विष्णौ । व्यापके (अद्य) (तम्)
(अस्य) परमेश्वरस्य (महिमानम्) महत्त्वम् (आयवः) मनुष्याः (अनु)
निरन्तरम् (स्तुवन्ति) प्रशंसन्ति (पूर्वया) यथापूर्वम् ॥

अथ । हि । इन्द्र । गिर्विष्णुः । उप । त्वा । कामान् । महः ।
ससृजमहे ॥ उदा-इष । यन्तः । उद-भिः ॥ १ ॥

भाषार्थ—(गिर्विष्णुः) हे स्तुतियों से सेवनीय (इन्द्र) इन्द्र । [महा
प्रतापी राजन्] (अथ हि) अथ ही (त्वा) तुझे (महः) अपनी बड़ी (कामान्)
कामनाओं को, (उदा) जल [जल की बाढ] के पीछे (उदभिः) दूसरी
जलों की बाढों के साथ (यन्तः इव) चलते हुये पुरुषों के समान हमने (उप)
आदर से (ससृजमहे) समर्पण किया है ॥ १ ॥

भाषार्थ—जैसे नदी की बाढ़ अति वेग से लगातार चली आती हो
और नामों और प्राणी आदि को बहाये ले जाती हो, उसे देख लोग घबड़ाकर
भागते हैं, वैसे ही प्रजागण दुष्टों से बचने के लिये राजा की शरण शीघ्र
लेवें ॥ १ ॥

यह त्वच ऋग्वेद में है—८ । ६८ [नायणभाष्य ८७] । ७—६, सामवेद—
उ० १ । १ । त्वच २३ और मन्त्र १ साम० पू० ५ । २ । ८ ॥

घार्ण त्वा यव्याभिर्वर्धन्ति शुरु ब्रह्माणि । वृध्वंसांसं चिद-
द्रिवो दिवेदिवे ॥ २ ॥

घाः । न । त्वा । यव्याभिः । वर्धन्ति । शुरु । ब्रह्माणि ॥
वृध्वंसांसम् । चित् । आद्रि-वुः ॥ दिवे-दिवे ॥ २ ॥

भाषार्थ—(आद्रिघः) हे चक्रधारी (शुरु) शुरु ! [राजन्] (दिवे-
दिवे) दिन दिन (वृध्वंसांसम्) बढ़ते हुये (चित्) भी (त्वा) तुझको

१—(अथ) सम्प्रति (हि) (इन्द्र) महाप्रतापिन् राजन् (गिर्विष्णुः)
स्तुतिभिः सेवनीय (उप) पूजायाम् (त्वा) त्वाम् (कामान्) कामनीयान्
मनोरथान् (महः) महतः । विशालान्, (ससृजमहे) वय समर्पितन्वन्तः
(उदा) उदकेन । जलप्रवाहेण (इष) यथा (यन्तः) गच्छन्तः पुरुषाः
(उदभिः) उदकैः । अन्यजलप्रवाहैः ॥

२—(घाः) जलम् (न) यथा (त्वा) त्वाम् (यव्याभिः) सततयव-
मापतिलघुपत्रहाणश्च । पा० ५ । १ । ७ । यव—यत् । यवेभ्यो हिता मिर्जल-
मालीभिः । नदीभिः । यव्याः, नदीनाम्—निघ० १ । १३ (वर्धन्ति) वर्धयन्ति ।

(ब्रह्माणि) वेदज्ञान (वर्धन्ति) बढ़ाते हैं, (न) जैसे (वाः) जल को (यव्याभिः) जौ आदि अन्न की हित करने वाला नालियों से [बढ़ाते हैं] ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—राजा वेदानुकूल चल कर अपनी और प्रजा की बुद्धि करे जैसे जग को नल से ऊँचा लेजाकर अन्न आदि बढ़ाते हैं ॥ २ ॥

युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाययोरौ रथं उरुयुगे । इन्द्रवाहा वचोयुजा ॥ ३ ॥

युञ्जन्ति । हरी इति । इषिरस्य । गायया । उरौ । रथं । उरु-युगे ॥ इन्द्र-वाहा । वचुः-युजा ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—(गायया) प्रशंसा के साथ (इषिरस्य) शीघ्र गामी [राजा] के (उरुयुगे) बड़े जुंघे वाले, (उरौ) बड़े (रथे) रथ में (इन्द्रवाहा) इन्द्र [बड़े पेशवर्य वाले राजा] को ले चलने वाले, (वचोयुजा) वचन से छुतने वाले (हरी) दो घोड़ों को (युञ्जन्ति) वे [सारथी आदि] जोतते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—राजा धर्म की रक्षा के लिये सुशिक्षित शीघ्रगामी घोड़ों के रथ से चलकर प्रशंसा-पथे ॥ ३ ॥

सूक्तम् १०९ ॥

१—३ ॥ अग्निर्देवता ॥ १, २ गायत्री; ३ निचृद् गायत्री ॥

भौतिकाग्निगुणोपदेशः—भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश ॥

अग्निं द्रुतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् । अस्य यज्ञस्य सुक्तसुम् ॥ १ ॥

अग्निम् । द्रुतम् । वृणीमहे । होतारम् । विश्व-वेदसम् ॥

उन्नयन्ति (शूर) (ब्रह्माणि) वेदज्ञानानि (ववृर्ध्वासम्) वर्धतेः कसु । वर्धमानम् (चिन्) अपि (अद्रिवः) वज्रिन (दिषेदिवे) दिने दिने ॥

३—(युञ्जन्ति योजयन्ति (हरी) अश्वी (इषिरस्य) शीघ्रगामिनो राज्ञः (गायया) गायनीयया प्रशंसया (उरौ) महति (रथे) याने (उरुयुगे) महायुगयुक्ते (इन्द्रवाहा) इन्द्रस्य घोडारौ (वचोयुजा) वचनेन युज्यमानौ । सुशिक्षितौ ॥

अस्य । यज्ञस्य । सुक्रतुम् ॥ १ ॥

भाषार्थ—(दूतम्) पदार्थों के पहुंचाने वाले वा नपाने वाले, (होतारम्) वेग आदि देने वाले, (विश्ववेदनम्) सब धनों के प्राप्त कराने वाले, (अस्य) इस [प्रसिद्ध] (यज्ञस्य) यज्ञ [संयोग वियोग व्यवहार] के (सुक्रतुम्) सुधारने वाले (अग्निम्) अग्नि [आग, बिजुली, सूर्य] को (वृणीमहे) हम स्वीकार करते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि कला यन्त्र यान विमान आदि में वेग से चलाने के लिये और शरीरों में भोजन आदि द्वारा बल बढ़ाने लिये बिजुली आदि अग्नि को काम में लावें ॥ १ ॥

यह त्व ऋग्वेद में है—१ । १२ । १—३, सामवेद उ० २ । १ । त्व ६ तथा म० १ साम० पू० १ । १ । ३ ॥

अग्निमग्निं हवीमभिः सदा हवन्त विश्वपतिम् । हव्यवाहं पुरुप्रियम् ॥ २ ॥

अग्निम्-अग्निम् । हवीम-भिः । सदा । हवन्तु । विश्वपतिम् ॥ हव्य-वाहम् । पुरु-प्रियम् ॥ २ ॥

भाषार्थ—[हे मनुष्यो !] (हवीमभिः) ग्रहण करने योग्य व्यवहारों से (विश्वपतिम्) प्रजाओं के पालने वाले, (हव्यवाहम्) देने लेने योग्य पदार्थों के पहुंचाने वाले, (पुरुप्रियम्) बहुत प्रिय करने वाले (अग्निमग्निम्) अग्नि अग्नि [अर्थात् पृथिवी की आग, बिजुली और सूर्य] को (सदा) सदा

१—(अग्निम्) विद्युत्सूर्यपार्थिवाग्निरूपम् (दूतम्) पदार्थानां प्रापकं तापकं वा (वृणीमहे) स्वीकुर्मः (होतारम्) वेगादिदातागम् (विश्ववेदसम्) सर्वधनप्रापकम् (अस्य) प्रसिद्धस्य (यज्ञस्य) संयोगवियोगव्यवहारस्य (सुक्रतुम्) शोभनकर्तारम् ।

२—(अग्निमग्निम्) प्रत्येकप्रकारं विद्युत्सूर्यपार्थिवाग्निरूपम् (हवीमभिः) अथ० २० । ७२ । ३ । प्राज्ञव्यवहारैः (सदा) (हवन्त) गृहणीत (विश्वपतिम्) प्रजानां पालकम् (हव्यवाहम्) दातव्यप्राज्ञपदार्थप्रापकम्

(इवन्त) तुम ग्रहण करो ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि प्रसिद्ध अग्नि, विलुती और सूर्य को कला यन्त्र आदि में प्रयुक्त करके सदा सुख की वृद्धि करें ॥ २ ॥

अग्ने देवाँ इहो वह जज्ञानो वृक्तवर्हिषे । अग्नि होता न-
ईड्यः ॥ ३ ॥

अग्ने । देवान् । इह । आ । वह । जज्ञानः । वृक्त-वर्हिषे ॥
अग्नि । होता । नः । ईड्यः ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—(अग्ने) हे अग्नि ! [आग, विज्ज की और सूर्य] (जज्ञानः) प्रकट होना हुआ तू (देवान्) दिव्य तदार्थों को (इह) यहाँ (वृक्तवर्हिषे) हिंसा छोड़ने वाले विद्वान् के लिये (आ वह) ला । तू (नः) हमारे लिये (होता) धन देने वाला और (ईड्यः) खोजने योग्य (अग्नि) है ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—मनुष्य अग्नि, विलुती और सूर्य की विद्या को खोज करके अनेक प्रकार उपयोग करें और उत्तम उत्तम पदार्थ प्राप्त करके सुखी हों ॥ ३ ॥

सूक्तम् १०२ ॥

१—३ ॥ अग्निदेवता ॥ १ विराड् गायत्री, २, ३ निचट्ट गायत्री ॥

परमेश्वरस्य गुणोपदेशः—परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥

ईलेन्यो नमस्यस्तितरस्तमांसि दर्शतः । समग्निर्ध्वते वृषा ॥ १ ॥

ईलेन्यः । नमस्यः । तिरः । तमांसि । दर्शतः ॥ सम् ।

अग्निः । ध्वयते । वृषा ॥ १ ॥

भाष्यार्थ—(ईलेन्यः) खोजने योग्य, (नमस्यः) सत्कार करने योग्य,

(पुरुप्रियम्) बहुहितकरम् ॥

३—(अग्ने) हे विद्युत्सूर्यपार्थिवीवाग्निरूप (देवान्) दिव्यपदार्थान् (इह) (आ वह), प्रापय (जज्ञानः) प्रादुर्भूतः सन् (वृक्तवर्हिषे) अथ० ३० ।

५२ । १ । त्यक्तहिंसाय त्रिदुषे (अग्नि) (होता) धनस्य दाता (नः) अस्य-
भ्यम् (ईड्यः) अध्येयवतः ॥

१—(ईलेन्यः) कृत्वायं तयैकेनैकैवतनः १-पा० ३ । ४ । १४ । ईड—

(तमांसि) अन्धकारों को (तिरः) हटाने वाला, (दर्शतः) देखने योग्य, (वृषा) बलवान् (अग्निः) अग्नि [प्रकाशमान परमेश्वर] (तम्) भले प्रकार (इध्यते) प्रकाश करता है ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्य अन्धकार नाशक परमात्मा को प्रत्येक पदार्थ में साक्षात् कर के अपने हृदय को प्रकाशमान करे ॥ १ ॥

यह वृच ऋग्वेद में है—३। २७। १३—१५, सामवेद—३०७। २। वृच २ ॥

वृषो अग्निः समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः। तं हविष्मन्त ईलतेः
वृषो इति । अग्निः । तम् । इध्यते । अश्वः । न । देव-
वाहनः ॥ तम् । हविष्मन्तः । ईलते ॥ २ ॥

भाषार्थ—(अश्वः न) शीघ्र गामी घोड़े के समान (देववाहनः) उत्तम पदार्थों का पहुंचाने वाला (वृषो) बलवान् ही (अग्निः) अग्नि [प्रकाशमान परमेश्वर] (तम्) भले प्रकार (इध्यते) प्रकाश करता है । (हविष्मन्तः) ग्रहण करने योग्य वस्तुओं वाले पुरुष (तम्) उसको (ईलते) खोजते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—जैसे घोड़े आदि वाहन द्वारा पदार्थ प्राप्त किये जाते हैं, वैसे ही परमात्मा सब ससार को वायुजल आदि उत्तम पदार्थ सदा पहुंचाता है ॥ २ ॥

स्तुतौ, अभ्येषणायाम्—निरु० ७। १५। केन्यप्रत्ययः, डस्य लः। अभ्येषणीयः
(नमस्यः) अचो यत् पा० ३। १। ६७। नमस्यते;—यत्। सत्कर्तव्यः (तिरः)
निरस्कुर्वन् (तमांसि) ध्वान्तानि (दर्शन.) अथ० ४। १०। ६। दर्शनीयः
(तम्) सम्यक् (अग्निः) प्रकाशमानः परमेश्वरः (इध्यते) दीप्यते (वृषा)
बलवान् ॥

२—(वृषो) वृषैव । बलिष्ठ एव (अग्निः) प्रकाशमानः परमेश्वरः
(तम्) सम्यक् (इध्यते) दीप्यते (अश्वः) तुरङ्गः (न) इव (देववाहनः)
दिव्यपदार्थवाहकः (तम्) (हविष्मन्तः) ग्राह्यपदार्थयुक्ता; पुरुषाः (ईलते)
म० १। अभ्येषणया प्राप्नुवन्ति ॥

वृषणं त्वा वयं वृषन् वृषणः समिधीमहि । अग्ने दीद्यतं
बृहत् ॥ ३ ॥

वृषणम् । त्वा । वयम् । वृषन् । वृषणः । सम् । इधीमहि ॥
अग्ने । दीद्यतम् । बृहत् ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—(वृषन्) हे बलवान् (अग्ने) अग्नि । [प्रकाशस्वरूप
परमेश्वर] (वृषणः) बलवान् होते हुये (वयम्) हम (वृषणम्) बलवान्
(बृहत्) बहुत (दीद्यतम्) प्रकाशमान (त्वा) तुझ को (सम्) भले प्रकार
(इधीमहि) प्रकाशित करें ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—मनुष्य सर्वशक्तिमान् परमात्मा के अनेक उपकारों से
बलवान् होकर उस के उत्तम गुणों को खोजते रहें ॥ ६ ॥

सूक्तम् १०३ ॥

१-३ ॥ अग्निदेवता ॥ १ विराडाधी बृहती; २ निचूड बृहती; ३ विरा-
डाधी पङ्क्तिः ॥

परमेश्वरगुणोपदेशः—परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥

अग्निमीलिष्वावसे गाथाभिः शीरशौचिषम् ।

अग्निं राये पुरुमीलह श्रुतं नरोऽग्निं सुदीतये छुर्दिः ॥ १ ॥

अग्निम् । ई लिष्व्वा । अवसे । गाथाभिः । शीर-शौचिषम् ॥

अग्निम् । राये । पुरु-मीलह । श्रुतम् । नरः । अग्निम् ।

सु-दीतये । छुर्दिः ॥ १ ॥

भाष्यार्थ—(पुरुमीलह) हे बहुत ज्ञान से सींचे हुये मनुष्य । (नरः)

३—(वृषणम्) बलवन्तम् (त्वा) (वयम्) (वृषन्) बलवान् (वृषणः)
बलवन्तः सन्तः (सम्) सम्यक् (इधीमहि) प्रकाशयेम (अग्ने) प्रकाश-
स्वरूप परमेश्वर (दीद्यतम्) दीद्यतिर्ज्वलतिकर्मा—निघ० १। १६, शतु ।
दीप्यमानम् (बृहत्) बहुप्रकारेण ॥

१—(अग्निम्) प्रकाशस्वरूपं परमात्मानम् (ईलिष्व्वा) अ० २० । १०३ ।

नर [नेता] होकर तू (गाथाभिः गाने योग्य क्रियाओं के साथ (भवसे) अपनी रक्षा के लिये (शीरशोचिषम्) बड़े प्रकाश वाले (अग्निम्) अग्नि [प्रकाश स्वरूप परमात्मा] को, (राये) धन के लिये (श्रुतम्) विख्यात (अग्निम्) अग्नि [प्रकाश स्वरूप परमात्मा] को और (सुदीतये) सुन्दर प्रकाश के लिये (छर्दिः) घर सदृश (अग्निम्) अग्नि [प्रकाशस्वरूप परमात्मा] को (ईलिष्व) खोज ॥ १ ॥

भाषार्थ—मनुष्य परमात्मा की भक्ति से अपनी रक्षा के लिये धन और विद्या को बढ़ावे ॥ १ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—८ । ७१ [सायणभाष्य ६०] । १४, सामवेद—पू० १ । ५ । ६ ॥

अग्न आ याह्यग्निभिर्होतारं त्वा वृणीमहे ।

आ त्वामनक्तु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं बृहिरासदे ॥ २ ॥

अग्ने । आ । याहि । अग्नि-भिः । होतारम् । त्वा । वृणीमहे ॥

आ । त्वाम् । अनुक्तु । प्र-यता । हविष्मती । यजिष्ठम् ।

बृहिः । आ-सदे ॥ २ ॥

भाषार्थ—(अग्ने) हे अग्नि [[प्रकाशस्वरूप परमेश्वर] (अग्निभिः) ज्ञान प्रकाशों के साथ (आ याहि) तू प्राप्त हो, (होतारम्) दाता (त्वा)

१ । अधीष्व । अन्विच्छ (भवसे) रक्षणाय (गाथाभिः) गानयोग्यक्रियाभिः (शीरशोचिषम्) स्फायितश्चिञ्चि० । उ० २ । १३ । शीङ् स्वप्ने—रक् । अर्चि श्चि० उ० २ । १०८ । शुच शोके—इति । महाप्रकाशयुक्तम् (अग्निम्) (राये) धनाय (पुरुमीरह) मिह सेचने—क । बहुज्ञानेन मीढ सिक वर्धित मनुष्य (श्रुतम्) विख्यातम् (नरः) नेता सन् (अग्निम्) (सुदीतये) पत्नोपः । सुदीतये । शोभनप्रकाशाय (छर्दिः) अर्चिशुचिहुस्त्वपिच्छर्दिम्य इतिः । उ० २ । १०८ । छर्दसन्दीपने—इति । गृहम्—निघ० ३ । ४ ॥

२—(अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर (आ याहि) प्राप्तो भव (अग्नि-भिः) ज्ञानप्रकाशैः (होतारम्) दातारम् (त्वा) त्वाम् (वृणीमहे) स्वीकुर्मः

तुम्हें को (वृणीमहे) हम स्वीकार करते हैं । (प्रयता) नियम युक्त (हविष्मती) भक्ति वाली प्रजा (बर्हिः) वृद्धि (आसदे) पाने के लिये (यजिष्ठम्) अत्यन्त संयोग वियोग करने वाले (त्वा) तुम्हें को (आ) सब प्रकार से (अनक्तु) प्राप्त होवे ॥ २ ॥

भावार्थ—मनुष्य परमात्मा की आज्ञा में रहकर सद वृद्धि करें ॥ २ ॥

मन्त्र २, ३ ऋग्वेद में हैं—८ । ६० [सायण भाष्य ४६] । १, २; सामवेद—
उ० ७ । २ । ७ ॥

अच्छा हि त्वा सहसः सूनो अङ्गिरः सुचश्चरन्त्यध्वरे ।

ऊर्जो नपातं घृतकेशमीमहेऽग्निं युज्ञेषुं पुर्यम् ॥ ३ ॥

अच्छ । हि । त्वा । सहसः । सूनो इति । अङ्गिरः । सुचः ।
चरन्ति । अध्वरे ॥ ऊर्जः । नपातम् । घृत-केशम् । ईमहे ।
अग्निम् । युज्ञेषुं । पुर्यम् ॥ ३ ॥

भावार्थ—(सहसः सूनो) हे बल के पहुंचाने वाले ! (अङ्गिरः) हे
ज्ञानी परमेश्वर ! (सुचः) चलने वाली प्रजाये । (अध्वरे) बिना हिंसावाले
व्यवहार में (त्वा) तुम्हें को (हि) ही (अच्छ) अच्छे प्रकार (चरन्ति)
प्राप्त होती हैं । (ऊर्जः) बल के (नपातम्) ने गिराने वाले [रक्षक], (युज्ञेषुं)
यज्ञों [संयोग वियोग व्यवहारों] में (पुर्यम्) पुराने (अग्निम्) अग्नि

(आ) समन्तात् (त्वाम्) परमेश्वरम् (अनक्तु) अञ्जू गतौ । प्राप्नोतु
(प्रयता) यम—क । नियमयुक्त (हविष्मती) भक्तिमती प्रजा (यजिष्ठम्)
यष्ट—इष्टन् । अतिशयेन यष्टारंसंयोगवियोगकर्तारम् (बर्हिः) वृद्धिम्
(आसदे) प्राप्नुम् ॥

३—(अच्छ) सुष्ठुप्रकारेण (हि) एव (त्वा) (सहसः) बलस्य (सूनो)
प्रेरक (अङ्गिरः) हे ज्ञानिन् परमेश्वर (सुचः) चिक् च । उ० २ । ६२ । सु
गतौ—किप् चिगागमः । गतिशीलाः प्रजाः (चरन्ति) गच्छन्ति । प्राप्नुवन्ति
(अध्वरे) हिंसारहिते व्यवहारे (ऊर्जः) बलस्य (नपातम्) नपातयितारम् ।
रक्षकम् (घृतकेशम्) घृतं जलं केशं प्रकाशं च (ईमहे) याचामहे (अग्निम्)

[प्रकाशस्वरूप परमेश्वर] से (घृणकेशम्) जल और प्रकाश को (इमहे) हम मांगते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ - मनुष्यों को चाहिये कि परमेश्वर के बनाये पदार्थों से उपकार लेकर उन्नति करें ॥ ३ ॥

सूक्तम् १०४ ॥

१—४ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निचृद् बृहती, २ निचृत् पङ्क्तिः, ३ निचृदार्षी बृहती, ४ भुरिगार्षी बृहती ॥

परमेश्वरगुणोपदेशः—परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥

इमा उ त्वा पुरुवसो गिरौ वर्धन्तु या मम । पावकवर्णाः
शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनुषत ॥ १ ॥

इमाः । ऊ इति । त्वा । पुरुवसो इति पुरु-वसो । गिरः ।
वर्धन्तु । याः । मम ॥ पावक-वर्णाः । शुचयः । विपुः-चितः ।
अभि । स्तोमैः । अनुषत ॥ १ ॥

भाषार्थ—(पुरुवसो) हे बहुत धन वाले । [परमात्मन्] (मम) मेरी (याः) जो (गिरः) वाणियाँ हैं, (इमाः) वे (त्वा) तुझ को (उ) निश्चय करके (वर्धन्तु) बढ़ावें [विख्यात करें] । (पावकवर्णाः) अग्नि के समान तेजस्वी, (शुचयः) पवित्र (विपश्चितः) विद्वान् लोगों ने (स्तोमैः) स्तोत्रों से [मेरी] (अभि) सब ओर से (अनुषत) प्रशंसा की है ॥ १ ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग पूर्वज विद्वानों के समान परमेश्वर के उपकारों की स्तुति करके अपनी उन्नति करें ॥ १ ॥

प्रकाशस्वरूपं परमेश्वरम् (यज्ञेषु) सयोगवियोगव्यवहारेषु (पूर्वम्) पुरातनम् ॥

२—(इमाः) वक्ष्यमाणाः (उ) निश्चयेन (त्वा) (पुरुवसो) हे बहुधनवन् (गिरः) वाणियाँ (वर्धन्तु) वर्धयन्तु विख्यात कुर्वन्तु (याः) (मम) (पावकवर्णाः) अग्निवत्तेजस्विनः । ब्रह्मवर्चस्विनः (शुचयः) पवित्राः (विपश्चितः) विद्वान्सः (अभि) सर्वतः (स्तोमैः) स्तोत्रैः (अनुषत) अस्तुन् ॥

मन्त्र १, २ ऋग्वेद में हैं—=। ३। ३, ४; यजुर्वेद—३३। २२, २३; साम-
वेद—३० ७। ३। १८; म० १ साम०—पू० ३। ६। २॥

अयं सहस्रमृषिभिः सहस्रकृतः समुद्र इव पप्रथे । सत्यः सो
अस्य महिमा गृणे शर्वो यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥ २ ॥

अयम् । सहस्रम् । ऋषि-भिः । सहः-कृतः । समुद्रः-इव ।
पप्रथे ॥ सत्यः । सः । अस्य । महिमा । गृणे । शर्वः ।
यज्ञेषु । विप्र-राज्ये ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—(समुद्रः इव) आकाश के समान वर्तमान (अयम्) इस
[परमेश्वर] ने (ऋषिभिः) ऋषियों [वेदार्थ जानने वालों] द्वारा (सहस्रकृतः)
पराक्रम करने वालों को (सहस्रम्) सहस्र प्रकार से (पप्रथे) फैलाया है ।
(सत्य) इस [परमात्मा] को (सः) वह (महिमा) महिमा (सत्यः) सत्य
है, (विप्रराज्ये) विद्वानों के राज्य के बीच (यज्ञेषु) यज्ञों [श्रेष्ठ व्यवहारों] में
(शर्वः) उन्नत बल को (गृणे) मैं बढ़ाई करता हूँ ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि परमात्मा की सदा स्तुति करते रहें
क्योंकि वह विद्वानों को प्राप्त होकर राज्य करने वाले पुरुष का बल बढ़ाता है ॥२॥

आ नो विश्वासु हव्य इन्द्रः समत्सु भूषतु । उप ब्रह्माणि
सर्वानानि वृत्रहा परमज्या ऋचीषमः ॥ ३ ॥

आ । नः । विश्वासु । हव्यः । इन्द्रः । समत्-सु । भूषतु ॥
उप । ब्रह्माणि । सर्वानानि । वृत्र-हा । परम-ज्याः । ऋचीषमः ॥

२—(अयम्) परमेश्वरः (सहस्रम्) बहुप्रकारेण (ऋषिभिः) वेदार्थ-
विद्विः (सहस्रकृतः) पराक्रमकर्तृन् (समुद्रः) अन्तरिक्ष (इव) यथा (पप्रथे)
विस्तारितवान् (सत्यः) यथार्थः (सः) (अस्य) परमेश्वरस्य (महिमा)-
महत्त्वम् (गृणे) स्तौमि (शर्वः) वत्तम् (यज्ञेषु) श्रेष्ठव्यवहारेषु (विप्रराज्ये)
मेधावितां राज्ये ॥

भाषार्थ—(विश्वात्) सब (समस्त) संग्रामों में (हव्यः) पुकारने योग्य, (वृत्रहा) अन्धकार मिटाने वाला, (परमज्याः) बड़े शत्रुओं का मारने वाला, (ऋचीपमः) स्तुति के समान गुण वाला (इन्द्रः) इन्द्र [परम ऐश्वर्यवाला परमात्मा] (नः) हमारे (ब्रह्माणि) वेद ज्ञानों और (सवनानि) ऐश्वर्य की वस्तुओं को (आ) सब ओर से (उप)-मले प्रकार (भूषतु) शोभायमान करे ॥३॥

भाषार्थ—मनुष्य परमपिता परमेश्वर का आश्रय लेकर शत्रुओं का नाश कर के ऐश्वर्य बढ़ावे ॥ ३ ॥

मन्त्र ३. ४ ऋग्वेद में है—८ । ६० [सायणभाष्य ७६] । १, २; सामवेद—
३० ७ । १ । २; मन्त्र १ साम० पू० ३ । ८ । ७ ॥

त्वं दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत् ।

तुविद्युमस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शर्वसो मुहः ॥ ४ ॥

त्वम् । दाता । प्रथमः । राधसाम् । असि । असि । सत्यः ।
ईशान-कृत् ॥ तुवि-द्युमस्य । युज्या । आ । वृणीमहे ।
पुत्रस्य । शर्वसः । मुहः ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(हे परमेश्वर !] (त्वम्) तू (राधसाम्) धनों का (प्रथमः) सब से पहिला (दाता) दाना (असि) है, और (सत्यः) सच्चा (ईशानकृत्) ऐश्वर्यवान् बनाने वाला (असि) है । (तुविद्युमस्य) बड़े यशस्वी पुरुष के

३—(आ) समन्तात् (नः) अस्माकम् (विश्वात्)-सर्वात् (हव्यः) आह्वातव्यः (इन्द्रः) परमेश्वरः (समस्त) संग्रामेषु (भूषतु) अलं करोतु (उप) पूजायाम् (ब्रह्माणि) वेदज्ञानानि (सवनानि) ऐश्वर्यवस्तुनि (वृत्रहा) अन्धकारनाशकः (परमज्याः) आतो मनिन् कनिब्वनिपश्च । पा० ३ । २ । ७६ । परम+ज्या वयोहानी—विच् । महाशत्रूणां नाशयिता (ऋचीपमः) अथ० २० । ३५ । १ । स्तुतितुल्यगुणयुक्तः ॥

४—(त्वम्) (दाता) दानी (प्रथमः) आदमिः (राधसाम्) धनानाम् (असि) (असि) (सत्यः) यथार्थः (ईशानकृत्) ऐश्वर्यवतां कर्ता (तुविद्युमस्य) बहुयशस्विनः पुरुषस्य (युज्या) युज्—क्यप् । योग्यानि कर्माणि

(पुत्रस्य) पुत्र के (महः) बड़े (शवसः) बल के (युज्जरा) योग्य कामों को (आ) सब प्रकार (वृणीमहे) हम मङ्गीकार करने हैं ॥ ४ ॥

भाष्यार्थ—जो मनुष्य उत्तम घरानों में उत्पन्न होकर मानो पिता आदि से सुशिक्षा पाकर पराक्रम करते हैं, जगदीश्वर उन का ऐश्वर्य बढ़ाना है ॥ ४ ॥

सूक्तम् १०५ ॥

१—५ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ४ मुरिगार्प्यनुष्टुपः २ पङ्क्तिः ३ निचृत् पश्या बृहती, ५ निचृत्दीर्घी पङ्क्तिः ॥

परमेश्वरगुणोपदेशः—परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥

त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा असि स्पृधः ।

अशस्तिहा जनिता विश्वतूरसि त्वं तूर्य तरुष्यतः ॥ १ ॥

त्वम् । इन्द्र । प्र-तूर्तिषु । अभि । विश्वाः । असि । स्पृधः ॥

अशस्ति-हा । जनिता । विश्व-तूः । असि । त्वम् । तूर्य ।

तरुष्यतः ॥ १ ॥

भाष्यार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर] (त्वम्) तू (प्रतूर्तिषु) मार धाड़ वाले संग्रामों में (सर्वाः) सब (स्पृधः) ललकारती हुई शत्रु सेनाओं को (अभि असि) हरा देता है । (त्वम्) तू (अशस्तिहा) अपकीर्ति मिटाने वाला, (जनिता) सुख उत्पन्न करने वाला, (विश्वतूः) सब शत्रुओं का मारने वाला (असि) है, (तरुष्यतः) मारने वाले बैरियों को (तूर्य) मार ॥ १ ॥

(आ) समन्तात् (वृणीमहे) स्वीकुर्मः (पुत्रस्य) (शवसः) बलस्य (महः) महतः ॥

१—(त्वम्) (इन्द्र) परमेश्वर (प्रतूर्तिषु) तूरी गतित्वरगृहिसनयोः—किन् । परस्परमारणेषु संग्रामेषु (अभि असि) अभिभवसि (विश्वाः) सर्वाः (स्पृधः) स्पर्धमानाः शत्रुसेनाः (अशस्तिहा) अपकीर्तिनाशकः (जनिता) सुखोत्पादकः (विश्वतूः) तूरी हिंसायाम्—किप् । सर्वशत्रुनाशकः (असि) (त्वम्) (त्वम्) (तूर्) तूर्ते हिंसे ॥ मारय (तरुष्यतः) बाधकान् बैरिणः ॥

भावार्थ—युद्धपंडित, राजा विघ्ननाशक परमात्मा का आश्रय लेकर सब शत्रुओं का नाश करके प्रजापालन करे ॥ १ ॥

मन्त्र १—३ ऋग्वेद में हैं—८ । ६६ [सायण भाष्य ८८] । ५—७; मन्त्र १, २ यजुर्वेद—३३ । ६६, ६७; सामवेद—३०८ । १ । ८, म० १ साम० पू० ४ । २ । ६ ।

अनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणीं शिशुं न मातरां ।
विश्वास्ते स्पृधः शनथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्रु तूर्वसि ॥ २ ॥
अनु । ते । शुष्मं । तुरयन्तम् । ईयतुः । क्षोणी इति ।
शिशुम् । न । मातरां ॥ विश्वाः । ते । स्पृधः । शनथयन्तु ।
मन्यवे । वृत्रम् । यत् । इन्द्रु । तूर्वसि ॥ २ ॥

भावार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर] (क्षोणी) दोनों आकाश और भूमि लोक (ते) तेरे (तुरयन्तम्) वेग करते हुये (शुष्मम् अत्रु) शत्रुओं को सुखाने बल के पीछे (ईयतुः) चलते हैं, (न) जैसे (मातरा) माता पिता दोनों (शिशुम्) बालक के [पीछे प्रीति से चलते हैं] । (ते) तेरे (मन्यवे) क्रोध से (विश्वाः) सब (स्पृधः) ललकारती हुई शत्रु सेनायें (शनथयन्त) मारी गयी हैं, (यत्) जब कि तू (वृत्रम्) शत्रु को (तूर्वसि) मारता है ॥ २ ॥

भावार्थ—जैसे माता पिता आपा छोड़ कर बच्चे से प्रीति करते हैं, वैसे ही सर्वशक्तिमान्, सर्वनियन्ता परमात्मा में परम भक्ति करके मनुष्य शत्रुओं का मारे ॥ २ ॥

२—(अत्रु) अत्रुस्य (ते) तव (शुष्मम्) शत्रुशोषकं बलम् (तुरयन्तम्) तुरां कुर्वन्तम् (ईयतुः) गच्छतः (क्षोणी) यावापृथिव्यौ (शिशुम्) (न) इव (मातरा) मातापितरौ (विश्वाः) (ते) तव (स्पृधः) स्पृधमानाः शत्रुसेनाः (शनथयन्त) शनथतिर्वधकर्मा—निघ० ३ । १६ । इतां अमवन् (मन्यवे) क्रोधाय (वृत्रम्) शत्रुम् (यत्) यदा (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् परमात्मन् (तूर्वसि) हसि ॥

इत ज॒ती वो अ॒जरं प्रहे॒तार॒मप्र॒हितम् । आशुं जेतारं हेतारं
रथी॑त॒मम॒तूर्तं तुग्र॑यावृ॒धम् ॥ ३ ॥

इतः । ज॒ती । वः । अ॒जरम् । प्र॒हे॒तारम् । अ॒प्र॒हितम् ॥
आशुम् । जेतारम् । हेतारम् । रथि॑-त॒मम् । अ॒तूर्तम् ।
तुग्र॑य-वृ॒धम् ॥ ३ ॥

भाषार्थ—[हे मनुष्यों ।] (वः) तुहारी (ऊती) रका के लिये
(अजरम्) जग रहित [सदा बलवान्] (प्रहेतारम्) सब के चलाने वाले,
(अप्रहितम्) किसी से न चलाये गये, (आशुम्) फुरतीले, (जेतारम्) जय
करने वाले, (हेतारम्) बढ़ाने वाले, (रथितमम्) रमणीय पदार्थों के सब
से बड़े स्वामी, (अतूर्तम्) न सताये गये, (तुग्रयवृधम्) बस्ती के हितकारी
के बढ़ाने वाले [परमेश्वर] को (इतः) वे दोनों [आकाश और भूमि—
म० २] प्राप्त होने हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जिस परमात्मा ने पृथिवी और आकाश के पदार्थ मनुष्य
के हित के लिये रचे हैं, उस जगदीश्वर की सदा भक्ति करके बलवान् होकर
वृद्धि करें ॥ ३ ॥

मन्त्र ३ सामवेद में भी है— पू० ३ । १० । १ ॥

यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरग्निगुः ।

विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गुणो ॥ ४ ॥

यः । राजा । चर्ष॒णीनाम् । याता । रथे॑भिः । अग्नि॑-गुः ॥

३—(इतः) गच्छतः प्राप्तः । ते छोली—म० २ (ऊती) ऊत्यै रक्षायै
(वः) युष्माकम् (अजरम्) जरारहितम् (प्रहेतारम्) हि गती—तुम् । प्रक-
र्षेण गमयितारम् (अप्रहितम्) केनाप्यचालितम् (आशुम्) वेगवन्तम्
(जेतारम्) जयकर्तारम् (हेतारम्) हि वृद्धौ—तुम् । वर्धयितारम् (रथित-
मम्) रमणीयपदार्थानां स्वामितमम् (अतूर्तम्) तुरी हिसने-क । अहिंसि-
तम् (तुग्रयवृधम्) स्फायितञ्चित्रञ्चि० । उ० २ । १३ । तुरज॒तुजि हिंसा-
प्रताधाननिकेतं पु रक्, तुग्र-यत् । निवासाय हितस्य वर्धकम् ॥

विश्वासात् । तुरुता । पृतनानाम् । ज्येष्ठः । यः । वृत्र-हा ।

गुणो ॥ ४ ॥

भाषार्य—(यः) जो [परमेश्वर] (चर्पणीनाम्) मनुष्यों का (राजा) राजा (श्रेयिः) श्यों [के समान रमणीय लोकों] के साथ (अग्निगुः) बेरोक (याता) चलने वाला, और (यः) जो (विश्वासात्) सब (पृतनानाम्) शत्रु सेनाओं का (तुरुता) हराने वाला, (ज्येष्ठः) अति श्रेष्ठ, (वृत्रहा) अन्धकार नाशक है, [उसकी] (गुणो) में स्तुति करता है ॥ ४ ॥

भाषार्य—जो परमात्मा सब मनुष्य आदि प्राणियों और सूर्य आदि लोकों का स्वामी है, हम उसके गुणों को ग्रहण कर के सब कष्टों से बचें ॥४॥

मन्त्र ४।५ आ चुके हैं—अथ० २०।४२।१६, १७ ॥

इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मन्त्रवसे यस्य द्विता विधुर्तरि ।

हस्ताय वज्रः प्रति धायि दर्शतो सुहो दिवेन । सूर्यः ॥ ५ ॥

इन्द्रम् । तम् । शुम्भ । पुरु-हन्मन् । अत्रवसे । यस्य । द्वि-ता ।

वि-धुर्तरि ॥ हस्ताय । वज्रः । प्रति । धायि । दर्श-तः ।

सुहः । दिवे । न । सूर्यः ॥ ५ ॥

भाषार्य—(पुरुहन्मन्) हे बहुत ज्ञानी ऋषि ! (तम्) उस (इन्द्रम्) इन्द्र [यड़े पेशवर्य वाले परमात्मा] का (शुम्भ) भाषण कर, (यस्य) जिस के (द्विता) दोनों धर्म [अनुग्रह और निग्रह गुण] (विधुर्तरि) बुद्धिमान् जन पर (अत्रवसे) रक्षा के लिये और [जिसका] (दर्शतः) दर्शनीय (महः) महान् (वज्रः) वज्र [दण्ड सामर्थ्य] (हस्ताय) हाथ [अर्थात् हमारे बाहु बल] के लिये (प्रति) प्रत्यक्ष (धायि) धारण किया गया है, (न) जैसे (सूर्यः) सूर्य (दिवे) प्रकाश के लिये है ॥ ५ ॥

भाषार्य—परमात्मा अति प्रत्यक्ष रूप से दुष्टों को दंड देता है और धर्मात्माओं पर अनुग्रह करता है, ऐसा निश्चय करके विद्वान् लोग सदा ईश्वर की आश्री में रहकर सुखी होयें ॥ ५ ॥

सूक्तम् १०६ ॥

१—३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निचृदुष्णिक् ; २, ३ विराडाप्युष्णिक् ॥

परमेश्वरगुणोपदेशः—परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥

तव त्वदिन्द्रियं बृहत् तव शुष्ममुत क्रतुम् । वज्रं शिशति
धिषणा वरेण्यम् ॥ १ ॥

तव । त्वत् । इन्द्रियम् । बृहत् । तव । शुष्मम् । उत । क्रतुम् ॥
वज्रम् । शिशति । धिषणा । वरेण्यम् ॥ १ ॥

भाषार्थ—[हे परमेश्वर !] (तव) तेरे (त्वत्) उस [प्रसिद्ध]
(बृहत्) बड़े (इन्द्रियम्) इन्द्रपन [ऐश्वर्य], (तव) तेरे (शुष्मम्) बल
(उत) और (क्रतुम्) बुद्धि और (वरेण्यम्) उत्तम (वज्रम्) वज्र [दण्ड
सामर्थ्य]को (धिषणा [तेरे] वाणी (शिशति) पैना करती है ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्य परमेश्वर के गुणों को वेद द्वारा निश्चय करके अपना
सामर्थ्य बढ़ावे ॥ १ ॥

यह तृच ऋग्वेद में है—८। १५। ७—६; कुळ भेद से सामवेद—७०
८। १। तृच ११ ॥

तव द्यौरिन्द्र पौंस्यं पृथिवी वर्धति अरवः । त्वामापः पर्वता-
सश्च हिन्विरे ॥ २ ॥

तव । द्यौः । इन्द्र । पौंस्यम् । पृथिवी । वर्धति । अरवः ॥
त्वाम् । आपः । पर्वतासः । च । हिन्विरे ॥ २ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन] (तव)

१—(तव) (त्वत्) तत्प्रसिद्धम् (इन्द्रियम्) इन्द्रलिङ्गम् । ऐश्वर्यम्
(बृहत्) (तव) (शुष्मम्) शोषकं बलम् (उत) अपि च (क्रतुम्) प्रज्ञाम्
(वज्रम्) शासनसामर्थ्यम् (शिशति) श्यति । तीक्ष्णीकरोति (धिषणा)
वेदरूपा वाणी (वरेण्यम्) वरणीयं श्रेष्ठम् ॥

२—(तव) (द्यौः) आकाशः (इन्द्र) हे परमेश्वर (पौंस्यम्) पौंस्यम्

सू० १०७ [६८५] विंशं काण्डम् ॥ २० ॥ (४,३२९)

तेरे (गोत्रम्) पुरुषार्थ और (भव.) यश को (चौः) आकाश और (पृथिवी) पृथिवी (वर्धति) बढ़ाती है । (त्वाम्) तुझ को (आपः) जलों ने (च) और (पर्वनामः) पहाड़ों ने (द्विन्द्विरे) प्रसन्न किया है ॥ २ ॥

भावार्थ—मनुष्य परमेश्वर को उसके बड़े बड़े कर्मों से जानकर पुरुषार्थ करे ॥ २ ॥

त्वां विष्णुं बृहन् क्षयो मित्रो गृणाति वरुणः । त्वां शर्धो मरुत्यनु मारुतम् ॥ ३ ॥

त्वाम् । विष्णुः । बृहन् । क्षयः । मित्र. । गृणाति । वरुणः ॥
त्वाम् । शर्धः । मरुति । अनु । मारुतम् ॥ ३ ॥

भावार्थ—[हे परमेश्वर !] (बृहन्) बड़ा (क्षयः) ऐश्वर्यवान् (विष्णु) व्यापक सूर्य, (मित्रः) प्रेरक वायु और (वरुणः) स्वीकार करने योग्य जल (त्वाम्) तेरी (गृणाति) बड़ाई करना है । (त्वाम् अनु) तेरे पीछे (मारुतम्) शूर पुत्रों का (शर्ध) बल (मरुति) हस्त होना है ॥ ३ ॥

भावार्थ—जिस परमात्मा के बल से सब सूर्य आदि में बल है, उस सर्वशक्तिमान् को उपामना करके सब मनुष्य आत्मबल बढ़ावें ॥ ३ ॥

सूक्तम् १०७ ॥

१—१५ ॥ १—१२ इन्द्रः, १२—१५ सूर्यो देवता ॥ १—३ गायत्री, ४ निचू
वार्धो त्रिष्टुप्, ५ विगट् त्रिष्टुप्, ६, १० विगट्वापी त्रिष्टुप्, ७-९, ११, १४,
१५ निचू त्रिष्टुप्, १२ आर्षो त्रिष्टुप्, १३ पङ्क्तिः ॥

१—१२ परमेश्वरगुणोपदेशः १—१२ परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥

(पृथिवी) (वर्धति) वर्धयति (भवः) यशः (त्वाम्) (आपः) जलानि
(पर्वनास) शैलाः (च) (द्विन्द्विरे) प्रीयन्ति स्व ॥

३—(त्वाम्) (विष्णुः) व्यापकः सूर्यः (बृहन्) महान् (क्षयः)
क्षि ऐश्वर्यं—मच् । ऐश्वर्यवान् (मित्रः) प्रेरको वायुः (गृणाति) स्तौति
(वरुणः) स्वीकारार्थं जलम् (त्वाम्) (शर्धः) बलम् (मरुति) हस्यति
(अनु) अनुसृत्य (मारुतम्) महतां शूरपुत्राणां मिदम् ॥

समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः । समुद्रायैव
सिन्धवः ॥ १ ॥

सम् । अस्य । मन्यवे । विशः । विश्वाः । नमन्तु । कृष्टयः ॥
समुद्राय-इव । सिन्धवः ॥ १ ॥

भाषार्थ—(विश्वाः) सब (विशः) प्रजाये और (कृष्टयः) मनुष्य
(अस्य) इस [परमेश्वर] के (मन्यवे) तेज वा क्रोध के आगे (सम्)
ठीक ठीक (नमन्त) नमते हैं, (समुद्राय इव) जैसे समुद्र के लिये (सिन्धवः)
नदियाँ [नमती हैं] ॥ १ ॥

भावार्थ—जैसे नदियाँ समुद्र की ओर झुकती हैं, वैसे ही सब सृष्टि के
पदार्थ और सब मनुष्य परमात्मा की आज्ञा को अवश्य मानते हैं ॥ १ ॥

मन्त्र १—३ ऋग्वेद में हैं—८ । ६ । ४—६; सामवेद—३० ८ । १ । तुष
१३; मन्त्र १ साम० पू० २ । ५ । ३ ॥

ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत् समवर्तयत् । इन्द्रश्चर्मैव रोदसी
ओजः । तत् । अस्य । तित्विषे-। उभे इति । यत् । सम्-
अवर्तयत् ॥ इन्द्रः । चर्म-इव । रोदसी इति ॥ २ ॥

भाषार्थ—(अस्य) इस [परमेश्वर] का (ओजः) बल (तत्) तब
(तित्विषे) प्रकाशित हुआ, (यत्) जब (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले पर-
मात्मा] ने (उभे) दोनों (रोदसी) आकाश और भूमि को (चर्म इव)
चमड़े के समान (समवर्तयत्) यथाविधि वर्तमान किया ॥ २ ॥

१—(सम्) सम्यक् (अस्य) परमेश्वरस्य (मन्यवे) मनुर्मन्यतेदी-
तिकर्मणः क्रोधकर्मणो वधकर्मणो वा-निरु० १० । ६६ । तेजसे । क्रोधाय (विशः)
प्रजाः (विश्वाः) (नमन्त) नमतेर्लङ् । नमन्ति स्म (कृष्टयः) मनुष्याः
(समुद्राय) (इव) यथा (सिन्धवः) स्यन्दनशीला नद्यः ॥

२—(ओजः) बलम् (तत्) तदा (अस्य) परमेश्वरस्य (तित्विषे)
तिष्व दीप्तौ—तिट् । दिदोपे (उभे) (यत्) यदा (समवर्तयत्) यथाविधि
वर्तितवान् (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् परमात्मा (चर्म) (इव) यथा (रोदसी)
आकाशभूमी ॥

भावार्थ—जैसे कोई चमड़े को कमाकर ठीक करता है, वैसे ही परमात्मा परमाणुओं के संयोग विभोज से सृष्टि बनाता है, तब हम की महिमा प्रकट होती है ॥ २ ॥

वि चिद् वृत्रस्य दोधतो वज्रेण शतपर्षणा । शिरौ विभेद वृष्णिनाश्चि
वि । चित् । वृत्रस्य । दोधतः । वज्रेण । शत-पर्षणा ॥ शिरः ।
विभेद । वृष्णिना ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(दोधतः) क्रोध करते हुये (वृत्रस्य) रोकन वाले शत्रु के (शिरः) शिर को (शतपर्षणा) नैकड़ों जोड़ों वाले, (वृष्णिना) दह (वज्रेण) वज्र से (चित्) निश्चय करके (वि) अनेक प्रकार (विभेद) उस [परमे-श्वर] ने तोड़ा है ॥ ३ ॥

भावार्थ—जैसे शूर पुरुष भारी भारी शस्त्रों से शत्रुओं को मार गिराता है, वैसे ही परमात्मा पापियों को अनेक प्रकार दण्ड देता है ॥ ३ ॥

तदिदाशु भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्णः । सुद्यो
जज्ञानो नि रिणाति शत्रुननु यदेनं मदेन्ति विश्वं जमाः ॥४
तत् । इत् । आसु । भुवनेषु । ज्येष्ठम् । यतः । जज्ञे । उग्रः ।
त्वेष-नृम्णः ॥ सुद्यः । जज्ञानः । नि । रिणाति । शत्रून् ।
अनुं । यत् । सुनसु । मदेन्ति । विश्वे । जमाः ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(तत्) विस्तीर्ण ब्रह्म (इत्) ही (भुवनेषु) लोकों के भीतर (ज्येष्ठम्) सब में उत्तम और सब में बड़ा (आसु) प्रकाशमान हुआ । (यतः) जिस [ब्रह्म] से (उग्रः) तेजस्वी (त्वेषनृम्णः) तेजोमय बल वा धन वाला पुरुष (जज्ञे) प्रकट हुआ । (लघः) शीघ्र (जज्ञानः) प्रकट होकर (शत्रून्) गिराने वाले विघ्नों को (नि रिणाति) नाश कर देता है, (यत्)

३—(वि) विविधम् (चित्) एव (वृत्रस्य) आवरकस्य शत्रोः (दोधतः) अ० १२ । १ । ५८ । क्रुध्यतः (वज्रेण) शस्त्रेण (शतपर्षणा) बहुमन्त्रिशुक्तेन (शिरः) (विभेद) विच्छेद (वृष्णिना) वीर्यवता । इदेन ॥

४—१२ । एते मन्त्रा व्याख्याताः—अथ० ५ । २ । १—४

जिस से (एनम् अनु) इस [परमात्मा] के पीछे पीछे (विश्वं) सब (ऊमाः) परस्पर रक्षक लोग (मरन्ति) हर्षित होते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ—आदि कारण परमात्मा की उपासना से मनुष्य वीर होकर शत्रुओं को मारता है, जिस के कारण सब लोग प्रसन्न होते हैं, इस जगद्गीश्वर की उपासना सब लोग किया करें ॥ ४ ॥

मन्त्र ४-१२ आ चुके हैं—अथ० । २ । १—६ ॥

वृधानः शवसा भूर्योजाः शत्रुर्दासाय भियसै दधाति ।
अव्यनच्च व्यनच्च सस्ति सं ते नवन्तु प्रभृता मदेषु ॥ ५ ॥

वृधानः । शवसा । भूरि-ओजाः । शत्रुः । दासाय । भिय-
सै । दधाति ॥ अवि-अनत् । च । वि-अनत् । च । सस्ति ।
सम् । ते । नवन्तु । प्रभृता । मदेषु ॥ ५ ॥

भावार्थ—(शवसा) बल से (वृधानः) बढ़ता हुआ, (भूर्योजाः) महाबली, (शत्रुः) हमारा शत्रु (दासाय) दान पात्र दास को (भियसम्) भय (दधाति) देता है । (अव्यनत्) गति शून्य स्थावर (च) और (व्यनत्) गति वाला जङ्गम जगत् (च) निश्चय करके [परमात्मा में] (सस्ति) लपेटा हुआ है, (प्रभृता) अच्छे प्रकार पुष्ट किये हुए प्राणी (मदेषु) आनन्दों में (ते) तेरी (सम् नवन्तु) यथावत् स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ—सर्वशक्तिमान् परमेश्वर समस्त जगत् में व्यापक होकर सब को धारण करता है । उसी की महिमा को जानकर सब मनुष्य पुरुषार्थ पूर्वक अपने विघ्नों को नाश करके प्रसन्न हों ॥ ५ ॥

त्वे क्रतुमपि पृञ्चन्ति भूरि द्विर्यदेते त्रिर्भवन्त्यूमाः । स्वादोः
स्वादीयः स्वादुना सृजा समदः सु मधु मधुनाभि योधीः ॥ ६ ॥

त्वे इति । क्रतुम् । अपि । पृञ्चन्ति । भूरि । द्विः । यत् ।
इति । त्रिः । भवन्ति । ऊमाः ॥ स्वादोः । स्वादीयः । स्वा-
दुना । सृज् । सम् । अदः । सु । मधु । मधुना । अभि । योधीः ॥

भाषार्थ—[हे परमात्मन् !] (त्वे अपि) तुम्हें मैं ही (कर्तुम्) अपनी बुद्धि को (भूरि) बहुत प्रकार से [सब प्राणी] (पृञ्चन्ति) जोड़ते हैं, (पते) यह सब (ऊमाः) रत्नक प्राणी (द्विः) दो बार [स्त्री पुरुष रूप से] (त्रिः) तीन बार [स्थान, नाम और जन्म रूप से] (भवन्ति) रहते हैं । (यत्) क्योंकि (स्वादोः) स्वादु से (स्वादीयः) अधिक स्वादु मोक्ष-सुख को (स्वादुना) स्वादु [सांसारिक सुख] के साथ (सम् सज) संयुक्त कर, (अदः) उस (मधु) मधुर [मोक्ष सुख] को (मधुना) मधुर [सांसारिक] ज्ञान के साथ (सु) मत्ते प्रकार (अभि) सब ओर से (योधीः) तू ने पहुँचाया है ॥ ६ ॥

भाषार्थ—लिङ्ग रहित आत्मा कभी स्त्री कभी पुरुष होकर अपने कर्मानुसार मनुष्य आदि शरीर, नाम और जाति भोगता है । सब प्राणी परमेश्वर की महिमा जानकर सांसारिक व्यवहार द्वारा मोक्ष सुख प्राप्त करें जैसे कि पूर्वज ऋषियो ने वेद द्वारा प्राप्त किया है ॥ ६ ॥

यदि चित्तु त्वा धना जयन्तु रणोरणे अनुमदन्ति विप्राः ।
ओजीयः शुष्मन्तिस्थिरमा तनुष्व मा त्वा दभन् दुरेवासः
कुशोकाः ॥ ७ ॥

यदि । चित् । नु । त्वा । धना । जयन्तस् । रणो-रणे । अनु-
मदन्ति । विप्राः ॥ ओजीयः । शुष्मन् । स्थिरस् । आ ।
तनुष्व । मा । त्वा । दभन् । दुः-सवासः । कुशोकाः ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(यदि) जो (चित्) निश्चय कर के (विप्राः) पंडित जन (रणोरणे) प्रत्येक रण में (नु) शीघ्र (धना) धनों को (जयन्तम्) जीतने-वाले (त्वा) तेरे (अनुमदन्ति) पीछे पीछे आनन्द पाते हैं । (शुष्मन्) हे बलवान् परमात्मन् ! (ओजीयः) अधिक बलवान् (स्थिरम्) स्थिर मोक्ष सुख (आ) सब ओर से (तनुष्व) फैला, (दुरेवासः) दुष्ट गति वाले (कुशोकाः) परसुख में शोक करने वाले जन (त्वा) तुम्हें (मा दभन्) न, सतावें ॥ ७ ॥

भाषार्थ—बुद्धिमान् मनुष्य विप्राँ को हटाकर कठिन कठिन कार्य सिद्ध कर के स्थिर सुख पाते हैं ॥ ७ ॥

त्वया वयं शाशद्महे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि ।
चोदयामि । तु आयुधा वचोभिः सं ते शिशामि ब्रह्मणा
वयामि ॥ ८ ॥

त्वया । वयम् । शाशद्महे । रणेषु । प्र-पश्यन्तः । युधेन्यानि ।
भूरि ॥ चोदयामि । ते । आयुधा । वचोभिः । सम् । ते ।
शिशामि । ब्रह्मणा । वयामि ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(भूरि) बहुत से (युधेन्यानि) युद्धों को (प्रपश्यन्तः)
देखते हुये (वयम्) हम लोग (त्वया) तेरे साथ (रणेषु) रण क्षेत्रों में
[शत्रुओं को] (शाशद्महे) मार गिराते हैं । (ते) तेरे (वचोभिः) वचनों
से (आयुधा) अपने शस्त्रों को (चोदयामि) मैं आगे बढ़ाता हूँ और- (ते)
तेरे (ब्रह्मणा) ब्रह्म ज्ञान से (वयामि) अपने जीवनों को (सम्) यथावत्
(शिशामि) तीक्ष्ण करता हूँ ॥ ८ ॥

भावार्थ—शूर वीर मनुष्य परमेश्वर में विश्वास करके पुरुषार्थ पूर्णक
बड़े बड़े कार्य सिद्ध करते हैं ॥ ८ ॥

नि तद् दधिषेऽवरे परे च यस्मिन्नाविथावसा दुरीणे । आ
स्थापयत मातरं जिगत्सुमत इन्वत् कर्वराणि भूरि ॥ ८ ॥

नि । तत् । दधिषे । अवरे । परे । च । यस्मिन् । आविथ ।
अवसा । दुरीणे ॥ आ । स्थापयत् । मातरम् । जिगत्सुम् ।
अतः । इन्वत् । कर्वराणि । भूरि ॥ ८ ॥

भाषार्थ—[हे परमात्मन् !] (अवरे) छोटे (च) और (परे)
बड़े मनुष्य में (तत्) उस [घर] को (नि) निश्चय करके (दधिषे) तु
ने पोषण किया है, (यस्मिन्) जिस (दुरीणे) कष्ट से भरने योग्य घर में
(अवसा) अन्न से (आविथ) तुने रक्षा की है । [हे मनुष्यो !] (जिगत्सुम्)
सर्वव्यापक (मातरम्) माता [परमेश्वर] को (आ) भली भाँति (स्थाप-
यत) [हृदय में] ठहराओ और (अतः) इसी से (भूरि) बहुत से (कर्व-

राशि) कर्मों को (इन्धत) सिद्ध करो ॥ ६ ॥

भावार्थ—मनुष्य परमेश्वर की उपासना पूर्वक अन्न आदि पदार्थ प्राप्त करके अपने सब काम सिद्ध करें ॥ ६ ॥

स्तुष्व वृष्मन् पुरुवत्मानं समृभ्वाणामिनतममाप्तमाप्त्यानाम् ।

आ दर्शति शवसा भूर्योजाः प्र सञ्जति प्रतिमानं पृथिव्याः १०

स्तुष्व । वृष्मन् । पुरु-वत्मानम् । सम् । ऋभ्वाणम् । इन्-

तमम् । आप्तम् । आप्त्यानाम् ॥ आ । दर्शति । शवसा ।

भूरि-ओजाः । प्र । सञ्जति । प्रति-मानम् । पृथिव्याः १० ॥

भावार्थ—(वृष्मन्) हे पेश्वर्यवान् पुरुष ! (पुरुवत्मानम्) बहुत मार्ग वाले (ऋभ्वाणम्) दूर दूर चमकने वाले, (इन्तमम्) महा प्रभु और (आप्त्यानाम्) आप्त [यथार्थ वक्ता] पुरुषों में रहने वाले गुणों के (आप्तम्) यथार्थ वक्ता परमेश्वर की (सम्) यथावत् (स्तुष्व) स्तुति कर । (भूर्योजाः) वह महाबली (शवसा) अपने बल से (आ) सब ओर (दर्शति) देखता है, और वह (पृथिव्याः) पृथिवी का (प्रतिमानम्) प्रतिमान होकर (प्र) भली भाँति (सञ्जति) व्यापता है ॥ १० ॥

भावार्थ—मनुष्य जगदीश्वर परमान्मा के गुण कर्म स्वभाव विचार कर अपनी उन्नति करें ॥ १० ॥

इमा ब्रह्म बृहद्दिवः कृणव्दिन्द्राय शुषमाश्रियः स्वर्षाः । मही

गोत्रस्य क्षयति स्वराजा हरश्चिद् विश्वमणवत् तपस्वान् ११

इमा । ब्रह्म । बृहद्-दिवः । कृणवत् । इन्द्राय । शुषम् ।

अश्रियः । स्वः-वाः ॥ मूहः । गोत्रस्य । क्षयति । स्व-राजा ।

हरः । चित् । विश्वम् । अण्वत् । तपस्वान् ॥ ११ ॥

भावार्थ—(बृहद्दिवः) बड़े व्यवहार वा गति वाला, (अश्रियः) अगुआ और (स्वर्षाः) स्वर्ग का सेवन करने वाला पुरुष (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (इमा) इन (ब्रह्म = ब्रह्माणि) बड़े रत्नों को (शूषम्) अपना बल

(कृणवत्) वनावें । (स्वराजा) वह स्वराजा [स्वतन्त्र राजा परमेश्वर] (महः) बड़े (गोत्रस्य) भूपति राजा का (जयति) राजा है, और वह (तुरः) शीघ्र स्वभाव, (तपस्वान्) सामर्थ्य वाला परमात्मा (चित्) ही (विश्वम्) सब जगत् में (अर्णवत्) व्यापता है ॥ ११ ॥

भावार्थ—मनुष्य जगदीश्वर परम पिता के गुण जानकर अपना बल बढ़ावे ॥ ११ ॥

सुवा महान् बृहद्दिवो अथर्वोचत् स्वां तन्वम् इन्द्रमेव ।
स्वसारी मातरिभ्वरी अरिमे हिन्वन्ति चने शवसा वर्धयन्ति
च ॥ १२ ॥

सुव । महान् । बृहत्-दिवः । अथर्वा । अर्षोचत् । स्वाम् ।
तन्वम् । इन्द्रम् । सुव ॥ स्वसारी । मातरिभ्वरी इति ।
अरिमे इति । हिन्वन्ति । च । चने इति । शवसा । वर्ध-
यन्ति । च ॥ १२ ॥

भाषार्थ—(महान्) महान्, (बृहद्दिवः) बड़े व्यवहार वाले, (अथर्वा) निश्चल स्वभाव पुरुष ने (स्वाम्) अपनी (तन्वम्) विस्तृत स्तुति (इन्द्रम्) परमेश्वर के लिये (एव) ही (एव) इस प्रकार से (अर्षोचत्) कही है। (मातरिभ्वरी) आकाश में वर्तमान (स्वसारी) अच्छे प्रकार ग्रहण करने वाले वा गति वाले [वा दो बहिनों के समान सहाय कारी] दिन और रात (च) और (अरिमे) निर्दोष (चने) यह दोनों [सूर्य और पृथिवी] (शवसा) अपने सामर्थ्य से [उसी को] (हिन्वन्ति) प्रसन्न करती (च) और (वर्धयन्ति) सराहती हैं ॥ १२ ॥

भावार्थ—हम से पहिले ऋषियोंने भी उसी परमात्मा की स्तुति की है, और दिन रात आदि काल और सूर्य, पृथिवी आदि सब लोक उसी के आवा-कारी हैं ॥ १२ ॥

मन्त्र १३—१५ ॥ आभ्यात्मोपदेशः—मन्त्र १३—१५ परमात्मा और जीवात्मा के विषय का उपदेश ॥

चित्रं देवानां केतुरनीकं ज्योतिष्मान् प्रदिशः सूर्य उद्यन् ।
 दिवाकरोऽति द्युम्नैस्तमांसि विश्वातारीद् दुरितानि शुक्रः १३
 चित्रम् । देवानां । केतुः । अनीकम् । ज्योतिष्मान् ।
 प्र-दिशः । सूर्यः । उद्य-यन् ॥ दिवा-करः । अति । द्युम्नैः ।
 तमांसि । विश्वा । अतारीत् । दुः-दुतानि । शुक्रः ॥ १३ ॥

भाषार्थ—(चित्रम्) अद्भुत (अनीकम्) जीवन दाता [ब्रह्म],
 (देवानाम्) गतिमान् लोकों के (केतुः) जगने वाले, (ज्योतिष्मान्) तेजोमय
 (सूर्य) सर्वभरक [परमात्मा] (प्रदिशः) सब दिशाओं में (उद्यन्) ऊंचे
 होने लगे (दिवाकरः) दिन को रखने वाले [सूर्य रूप], (शुक्रः) वीर्यवान्
 [परमेश्वर] ने (द्युम्नै) अपने प्रकाशों से (तमांसि) अन्धकारों को (अति)
 लांघन कर (विश्वा) सब (दुरितानि) कठिनाइयों को (अतारीत्) पार
 किया है ॥ १३ ॥

भाषार्थ—जैसे यह सूर्य अन्धकार नाश करके दिन बना कर प्रकाशमान
 है, वैसे ही वह परमेश्वर सूर्य आदि लोकों को रच कर धारण आकर्षण द्वारा
 सब की रक्षा करता है, वैसे ही मनुष्य विद्या से प्रकाशमान होकर विघ्नों को
 हटावे ॥ १३ ॥

मन्त्र १३, १४ आच्छुके हैं—अथ० १३ । २ । ३४, ३५ ॥

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ।
 आप्राद् द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगत्तस्यु-
 पश्च ॥ १४ ॥

चित्रम् । देवानां । उद् । अगात् । अनीकम् । चक्षुः ।
 मित्रस्य । वरुणस्य । अग्नेः ॥ आ । अप्रात् । द्यावापृथिवी
 इति । अन्तरिक्षम् । सूर्यः । आत्मा । जगत्तः । तस्युः ॥ १४

भाषार्थ—(देवानाम्) गतिमान् लोकों का (चित्रम्) अद्भुत (अनी-

कम्) जीवन दाना, (मित्रस्य) सूर्य [वा प्राण.] का, (वरुणस्य) चन्द्रमा [अथवा जल वा अगान] का और (अग्नेः) विजुली का (चक्षुः) दिखाने वाला [ब्रह्म] (उत्) सर्वोपरि (अगात्) व्यापा है । (सूर्यः) सर्वप्रेरक, (जनतः) जङ्गम (च) और (तस्थुषः) स्थावर के (आत्मा) आत्मा [निरन्तर, व्यापक परमात्मा] ने (द्यावापृथिवी) सूर्य भूमि [प्रकाशमान अप्रकाशमान लोकों] और (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष को (आ) सब प्रकार से (अपान्) पूर्ण किया है ॥ १४ ॥

भावार्थ—जो अद्भुत स्वरूप परमात्मा सूर्य, चन्द्र, वायु आदि द्वारा सब प्राणियों को सुख देता है, मनुष्य उस को उपासना द्वारा जानकर आत्मोन्नति करे ॥ १४ ॥

सूर्यो देवीसुखं रोचमानां मर्यो न योषामुभ्येति पश्चात् ।
यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम् ॥१५
सूर्यः । देवीम् । उषसम् रोचमानाम् । मर्यः । न । योषाम् ।
अभि । एति । पश्चात् ॥ यत्र । नरः । देव-यन्तः । युगानि ।
वि-तन्वते । प्रति । भद्राय । भद्रम् ॥ १५ ॥

भाषार्थ—(सूर्यः) सूर्य मण्डल (देवीम्) देवी [दिव्यगुण वाली] (रोचमानाम्) रुचि कराने वाली (उषसम्) उषा [प्रभात वेला] के (पश्चात्) पीछे पीछे (अभि) सब ओर से (एति) प्राप्त होता है, (न) जैसे (मर्यः) मनुष्य (योषाम्) अपनी स्त्री को [प्रीति से प्राप्त होता है], (यत्र) जहाँ [संसार के बीच] (देवयन्तः) व्यवहार चाहने वाले (नरः) नर [नेता लोग] (भद्रम् प्रति) आनन्द स्वरूप परमात्मा के सामने (भद्राय) आनन्द के लिये (युगानि) जुगों [वर्षों] का (वितन्वते) फैलाते हैं ॥ १५ ॥

१५—(सूर्यः) सविता (देवीम्) दिव्यगुणयुक्ताम् (उषसम्) प्रभात-वेलाम् । सन्धिकालम् (रोचमानाम्) रुचिकारिकाम् (मर्यः) पतिर्मनुष्यः (न) इव (योषाम्) स्वभार्याम् (अभि) सर्वतः (एति) प्राप्नोति (पश्चात्) (यत्र) यस्मिन् संसारे (नरः) नेतारः (देवयन्तः) व्यवहारान् कामयमानाः (युगानि) वर्षाणि (वितन्वते) विस्तारयन्ति (प्रति) अभिमुखीकृत्य (भद्राय) कल्याणाय (भद्रम्) सुखस्वरूपं परमात्मानम् ॥

भावार्थ—जैसे ईश्वरकृत्न नियमों के अनुसार सूर्य और उषा-के सम्बन्ध से प्रकाश, और पुरुष और स्त्री के सम्बन्ध से सन्तान होता है, वैसे ही बुद्धिमान् लोग सुखस्वरूप परमात्मा की आज्ञा में रहकर नियम पूर्वक सुख भोगते हुये अपना जीवन काल बढ़ावें ॥ १५ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—१। ११५। २ ॥

सूक्तम् १०८ ॥

१—२ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ विराडुष्णिक्; २,३ विराडाभ्युष्णिक् ॥

परमेश्वरप्रार्थनोपदेश—परमेश्वर की प्रार्थना का उपदेश ॥

त्वं न इन्द्रा भरुं ओजो नृष्णं शतक्रतो विचर्षणे । आ वीरं
पृतनासहम् ॥ १ ॥

त्वम् । नः । इन्द्र । आ । भरु । ओजः । नृष्णम् । शतक्रतो
इति शत-क्रतो । वि-चर्षणे ॥ आ । वीरम् । पृतना-सहम् १

भावार्थ—(शतक्रतो) हे सैकड़ों कर्म करने वाले ! (विचर्षणे) हे विविध प्रकार देखने वाले ! (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर] (त्वम्) तू (नः) हमारे लिये (ओजः) बल, (नृष्णम्) धन (आ) और (पृतनासहम्) संग्राम जीतने वाले (वीरम्) वीर को (आ) भले प्रकार (भरु) पुष्ट कर ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्य परमेश्वर से प्रार्थना करके प्रयत्न पूर्वक बलवान्, धनवान् और वीर पुरुषों वाले हों ॥ १ ॥

यह तृच ऋग्वेद में है—८। ६८ [सायण भाष्य ८७] । १०—१२, साम-वेद—३० ४। २ । तृच १३, मन्त्र १ साम० पू० २। २। ७ ॥

त्वं हि नः पिता वसो, त्वं माता शतक्रतो बभूविय । अधा ते

१—(त्वम्) (नः) अस्मभ्यम् (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् जगदीश्वर (आ) समन्ततात् (भरु) पोषय (ओजः) बलम् (नृष्णम्) धनम् (शतक्रतो) बहु-कर्मन् (विचर्षणे) विविधद्रष्टः (आ) समुच्चये (वीरम्) वीर्योपेतम् (पृतना-सहम्) संग्रामजेतारम् ॥

सुमनसोमहे ॥ २ ॥

त्वम् । हि । नः । पिता । वसो इति । त्वम् । माता । शत-
क्रतो इति शत-क्रतो । बभूविथ ॥ अध । ते । सुमनम् ।
ईमहे ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—(वसो) हे वसाने वाले । (शतक्रतो) हे सैकड़ों कर्मों वाले ।
[परमेश्वर] (त्वम्) तू (हि) ही (नः) हमारा (पिता) पिता और (त्वम्)
तू ही) माता) माता (बभूविथ) हुआ है, (अध) इस लिये (ते) तेरे (सुमनम्)
सुख को (ईमहे) हम मांगते हैं ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—परमेश्वर लदा से सब सृष्टि का पालन पोषण करता है,
हम उसी से प्रार्थना करके पुरुषार्थ के साथ सुखी होवें ॥ २ ॥

त्वां शुष्मिन् पुरुहूत वाजयन्तमुप ब्रुवे शतक्रतो । स नो
रास्व सुवीर्यम् ॥ ३ ॥

त्वाम् । शुष्मिन् । पुरु-हुत । वाज-यन्तम् । उप । ब्रुवे ।
शतक्रतो इति शत-क्रतो ॥ सः । नः । रास्व । सु-वीर्यम् ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—(शुष्मिन्) हे महावली ! (पुरुहूत) हे बहुत प्रकार बुलाये
गये । (शतक्रतो) हे सैकड़ों कर्मों वाले । [परमेश्वर] (वाजयन्तम्) बलवान्
बनाने वाले (त्वाम्) तुझ को (उप) आदर से (ब्रुवे) मैं बुलाता हूँ,
(सः) सो तू (नः) हमें (सुवीर्यम्) बड़ा वीरपन (रास्व) दे ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—मनुष्य महावली परमेश्वर से प्रार्थना करके अनेक उप-
कारी कर्म करते हुये अपना वीरत्व बढ़ावें ॥ ३ ॥

२—(त्वम्) (हि) (नः) अस्माकम् (पिता) पालकः (वसो) वास-
यितः (त्वम्) (माता) जननीवद्धारकः (शतक्रतो) बहुकर्मन् (बभूविथ)
(अध) अनन्तरम् (ते) तव (सुमनम्) सुखम् (ईमहे) याचामहे ॥ २ ॥

३—(त्वाम्) (शुष्मिन्) महावतिन् (पुरुहूत) बहुविधाहूत (वाज-
यन्तम्) बलवन्तं कुर्वाणम् (उप) पूजायाम् (ब्रुवे) वदामि (शतक्रतो) बहुकर्मन्
(सः) स त्वम् (नः) अस्मभ्यम् (रास्व) देहि (सुवीर्यम्) महावीरत्वम् ॥

सूक्तम् १०८ ॥

१-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ पथ्या पङ्क्तिः ॥

सभापतिसभ्यजनलक्षणोपदेशः—सभापति और सभासदों के लक्षणों का उपदेश ॥

स्वादोरित्था विपुवतो मध्वः पिबन्ति गौर्यः । या इन्द्रेण
सुयावरीवृष्णा मदन्ति शोभसे वस्वीरनु स्वराज्यम् ॥ १ ॥

स्वादोः । इत्था । विपु-वतः । मध्वः । पिबन्ति । गौर्यः ॥
याः । इन्द्रेण । सु-यावरीः । वृष्णा । मदन्ति । शोभसे ।
वस्वीः । अनु । स्व-राज्यम् ॥ १ ॥

भाषार्थ—(इत्था) इस प्रकार (स्वादोः) स्वादु (विपुवतः) बहुत फैलाव वाले (मध्वः) धान का (गौर्यः) वे उद्योग करने वाली प्रजायें (पिबन्ति) पान करती हैं, (याः) जो [प्रजायें] (वृष्णा) बलवान् (इन्द्रेण) इन्द्र [यद्ये पेश्वर्य वाले सभापति] के साथ (सयावरीः) मिलकर चलने वाली, (वस्वीः) बसने वाली [प्रजायें] (स्वराज्यम् अनु) स्वराज्य [अपने राज्य] के पीछे (शोभसे) शोभा पाने के लिये (मदन्ति) प्रसन्न होती हैं ॥ १ ॥

१—(स्वादोः) स्वादयुक्तस्य (इत्था) अनेन प्रकारेण (विपुवतः) व्याप्तियुक्तस्य (मध्वः) मधुनः । धानस्य (पिबन्ति) पान कुर्वन्ति (गौर्यः) गुरो उद्यमं—घञ् । पिद्गौरादिभ्यश्च । पा० ४ । १ । ४१ । इति ङीप् । गौरी रोचतेर्ज्वलतिकर्मणोऽयमपीतरो गौरी वर्णं पतस्मादेव प्रशस्यो भवति—नि० ११ । ३६ । उद्यमयुक्ताः प्रजाः (याः) (इन्द्रेण) परमैश्वर्यवता सभापतिना (सयावरीः) आतो मनिन्० । पा० ३ । २ । ७४ । या प्रापये—वनिप् । वनो रश्च । पा० ४ । १ । ७ । ङीवरेफौ । सहगच्छन्त्यः (वृष्णा) बलवता (मदन्ति) हृष्यन्ति (शोभसे) शोभार्थम् (वस्वीः) शृस्वृस्तिहिप्रप्यसिषसि० । उ० १ । १० । वस निवासे—उप्रत्ययः । वेतो गुणवचनात् । पा० ४ । १ । ४४ । इति ङीप् । घासकारिण्यः प्रजाः (अनु) अनुलक्ष्य (स्वराज्यम्) स्वकीय-राज्यम् ॥

भावार्थ—जिस राज्य में सभापति और समासद् लोग आपस में मिलकर उत्तम शान के साथ प्रजा के उपकार का प्रयत्न करते हैं, वहाँ आनन्द बढ़ता है ॥ १ ॥

यह तृच ऋग्वेद में है—१। ८४। १०-१२, सामवेद—३० ३। २। तृच १५; म० १ साम—पू० ५। ३। १ ॥

ता अस्य पृशनायुवः सोमं श्रीणन्ति पृशनयः । प्रिया इन्द्रस्य
धेनवो वज्रं हिन्वन्ति सायकं वस्वीरनु स्वराज्यम् ॥ २ ॥

ताः । अस्य । पृशुन-युवः । सोमम् । श्रीणन्ति । पृशनयः ॥
प्रियाः । इन्द्रस्य । धेनवः । वज्रम् । हिन्वन्ति । सायकम् ॥०२

भाषार्थ—(अस्य) इस (इन्द्रस्य) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले सभा-
पति] की (पृशनायुवः) स्पर्श चाहती हुई और (पृशनयः) प्रश्न करती हुई
(ताः) वे [प्रजायें] (सोमम्) सोम [तद्रस रस] को (श्रीणन्ति) परिपक्व
करती हैं । (प्रियाः) प्रीति करती हुई, (धेनवः) गौओं के समान तृप्त करने
वाली (वस्वीः) बसने वाली [प्रजायें] (स्वराज्यम् अनु) स्वराज्य
[अपने राज्य] के पीछे (वज्रम्) वज्र और (सायकम्) बाण को (हिन्वन्ति)
बढ़ाती हैं [छोड़ती हैं] ॥ २ ॥

भावार्थ—जैसे गौयें अपने रक्षक पुरुष से अन्न घास आदि पाकर उस
को दूध से तृप्त करती हैं, वैसे ही प्रजागण वीर सभापति राजा से सुरक्षित
रहकर स्वराज्य पाकर सहाय करें ॥

२—(ताः) (अस्य) (पृशनायुवः) सलोपः । स्पर्शनकामाः
(सोमम्) तद्रसरसम् (श्रीणन्ति) पचन्ति (पृशनयः) घृषिपृशिनपाशिर्णो ।
३० ४ । ५२ । प्रकृ जिज्ञासायाम्—नि । जिज्ञासमानाः (प्रियाः) प्रीति-
कारिण्यः (इन्द्रस्य) परमैश्वर्यवनः सभाध्यक्षस्य (धेनवः) गावो यथा तर्प-
यिष्यः (वज्रम्) आयधुम् (हिन्वन्ति) प्रेरयन्ति (सायकम्) शरम् । अन्यत
पूर्ववत् ॥

ता अस्य नमसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः । व्रतान्यस्य
सच्चिरे पुरुणि पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम् ॥ ३ ॥

ताः । अस्य । नमसा । सहः । सपर्यन्ति । प्र-चेतसः ॥ व्रतानि ।
अस्य । सच्चिरे । पुरुणि । पूर्व-चित्तये । वस्वीः । अनु ।
स्व-राज्यम् ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(प्रचेतसः) उत्तम ज्ञान वाली (ताः) वे [प्रजायें]
(नमसा) आदर के साथ (अस्य) उस [सभापति] के (सहः) बल के
(सपर्यन्ति) सेवन करती हैं । (वस्वीः) बसने वाली [प्रजायें] (स्व-
राज्यम् अनु) स्वराज्य [अपने राज्य] के पीछे (पूर्वचित्तये) पूर्वजों का
ज्ञान पाने के लिये- (अस्य) इस [सभापति] के (पुरुणि) बहुत से (व्रतानि)
नियमों को (सच्चिरे) प्राप्त हीती हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग स्वराज्य के साथ साथ राजधर्म-को मानकर
प्रजा को शान्त रखें ॥ ३ ॥

सूक्तम् ११० ॥

१-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छन्दः ॥

विद्वत्कर्तव्योपदेशः—विद्वानों के कर्तव्य का उपदेश ॥

इन्द्राय मद्रुवने सुतं परि स्तोभन्तु नः गिरः । अर्कमर्चन्तु
कारवः ॥ १ ॥

इन्द्राय । मद्रुवने । सुतम् । परि । स्तोभन्तु । नः । गिरः ॥

अर्कम् । अर्चन्तु । कारवः ॥ १ ॥

३—(ताः) प्रजाः (अस्य) सभापतेः (नमसा) सत्कारेण (सहः)
बलम् (सपर्यन्ति) सेवन्ते (प्रचेतसः) प्रकृष्टज्ञानवत्यः (व्रतानि) नियमान्
(अस्य) (सच्चिरे) सप्रथ गतौ । गच्छन्ति । प्राप्नुवन्ति (पुरुणि) बहूनि
(पूर्वचित्तये) चित्ती सज्जाने—किन्तु पूर्वेषां ज्ञानप्राप्तये । अन्वयस् पूर्ववत् ॥

भाषार्थ—(मङ्गने) आनन्द कारी (इन्द्राय) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले मनुष्य] के लिये (नः) हमारी (गिरः) वाणियां (सुतम्) निचोड़े हुये तस्व रस का (परि) सब प्रकार (स्तोमन्तु) आदर करें और (कारवः) काम करने वाले लोग (अर्कम्) उस पूजनीय का (अर्चन्तु) आदर करें ॥ १ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य विद्वानों के उत्तम सिद्धान्तों को माने, लोग सदा उस का आदर करें ॥ १ ॥

यह तृच ऋग्वेद में है—८। ६२ [लायण भाष्य ८१]। १६—२१, साम-वेद—७० १। २। तृच ४; म० १ साम०—पू० २। ७। ४ ॥

यस्मिन् विश्वा अधि श्रियो रणन्ति सुप्त संसदः । इन्द्रं सुते हवामहे ॥ २ ॥

यस्मिन् । विश्वाः । अधि । श्रियोः । रणन्ति । सुप्त । सुप्त-सदः ॥ इन्द्रं । सुते । हवामहे ॥ २ ॥

भाषार्थ—(यस्मिन्) जिस [पुरुष] में (सप्त) सात (संसदः) मिलकर बैठने वाले [अर्थात् त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, वाक्, मन और बुद्धि] (विश्वाः) सब (श्रियोः) सम्पत्तियों को (अधि) अधिकार पूर्वक (रणन्ति) पाते हैं, (इन्द्रम्) उस इन्द्र [महाप्रतापी मनुष्य] को (सुते) सिद्ध किये तस्व रस में (हवामहे) हम बुलाते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य इन्द्रियों को वश करके सब सम्पत्तियां प्राप्त करे, वह सब का माननीय होवे ॥ २ ॥

१—(इन्द्राय) परमेश्वर्यवते मनुष्याय (मङ्गने) माद्यते—कनिष् । आनन्दकाय (सुतम्) संस्कृतं तस्वरसम् (परि) सर्वतः (स्तोमन्तु) स्तो-भतिरर्चतिकर्मा—निघ० ३। १४। सत्कुर्वन्तु (नः) अस्माकम् (गिरः) वाण्यः (अर्कम्) अर्चनीयम् (अर्चन्तु) पूजयन्तु (कारवः) कर्मकर्तारः ॥

२—(यस्मिन्) इन्द्रे (विश्वाः) सर्वाः (अधि) अधिकृत्य (श्रियोः) सम्पत्तीः (रणन्ति) गच्छन्ति । प्रामुवन्ति (सप्त) सप्तसंख्याकाः (संसदः) परस्परस्थितिशीलाः—त्वचानेत्रश्रोत्रजिह्वावाग्मनोबुद्धयः (इन्द्रम्) तं महा-प्रतापिनं मनुष्यम् (सुते) निष्पादिते तस्वरसे (हवामहे) आह्वयामः ॥

यजुर्वेद ३४ । ५५ में आया है—(सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे) सात-
ऋषि [अर्थात् त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, वाक्, मन और बुद्धि] शरीर में रखे
हुये हैं ॥

त्रिकद्रुकेषु चेतनं देवासो यज्ञसन्नत । तमिद्रु वर्धन्तु नो गिरः३
त्रि-कद्रुकेषु । चेतनम् । देवासः । यज्ञम् । अन्नत् ॥ तम् ।
इत् । वर्धन्तु । नः । गिरः ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(देवासः) विद्वानों ने (त्रिकद्रुकेषु) तीन [शारीरिक,
आत्मिक, और सामाजिक उन्नतियों के] विधानों में (चेतनम्) चेताने वाले
(यज्ञम्) यज्ञ [देवपूजा, संगति करण और दान] को (अन्नत) फैलाया है ।
(तम् इत्) उस ही [यज्ञ] को (नः) हमारी (गिरः) विद्याये (वर्धन्तु)
बढ़ावे ॥ ३ ॥

भाषार्थ—मनुष्य विद्वान् पूर्वज महात्माओं के समान विद्या प्राप्त
करके शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करें ॥ ३ ॥

सूक्तम् १११ ॥

१—३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निचूदुष्णिक्, २ ३ उष्णिक् ॥

मनुष्यकर्तव्योपदेशः—मनुष्य के कर्तव्य का उपदेश ॥

यत् सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित आप्तये । यद्वा
मुरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥ १ ॥

यत् । सोमम् । इन्द्र । विष्णवि । यत् ॥ वा घ । त्रिते ।
आप्तये ॥ यत् । वा । मुरुत्-सु । मन्दसे । सस् । इन्दु-भिः १ ॥

३—(त्रिकद्रुकेषु) अथ० २० । ६५ । १ तिसृणां शारीरिकात्मिकसामा-
जिकबुद्धीनां कद्रुकेषु आह्वानेषु विधानेषु (चेतनम्) ज्ञानसाधनम् (देवासः)
विद्वान्सः (यज्ञम्) देवपूजासंगतिकरणदानव्यवहारम् (अन्नत) अन्नचत ।
विस्तारितवन्तः (तम् इत्) तमेव यज्ञम् (वर्धन्तु), वर्धयन्तु (नः) अस्माकम्
(गिरः) विविधविद्याः ॥

यद्वा शक्र परावति समुद्रे अधि मन्दसे । अस्माकमित् सुते
रुणा समिन्दुभिः ॥ २ ॥

यत् । वा । शक्र । परा-वति । समुद्रे । अधि । मन्दसे ॥
अस्माकम् । इत् । सुते । रुण । सम् । इन्दु-भिः ॥ २ ॥

यद्वासि सुन्वतो वृधो यजमानस्य सत्पते । उक्थे वा यस्य
रयसि समिन्दुभिः ॥ ३ ॥

यत् । वा । असि । सुन्वतः । वृधः । यजमानस्य । सुत्-पते ॥
उक्थे । वा । यस्य । रयसि । सम् । इन्दु-भिः ॥ ३ ॥

भावार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [वडे ऐश्वर्य वाले मनुष्य] (यत्) जब
(घ) निश्चय करके (यत् वा) अथवा (आप्त्ये) आप्तों [यथार्थ वक्तृओं]
के हितकारी, (त्रिते) तीनों लोकों में फैले हुये (विष्णवि) विष्णु [व्यापक
परमात्मा] में, (यत् वा) अथवा (मरुत्सु) शर विद्वानों में (इन्दुभिः)
ऐश्वर्य व्यवहारों के साथ (सोमम्) सोम [तत्त्वरस] को (सम्)
ठीक ठीक (मन्दसे) तू प्राप्त होता है ॥ १ ॥ (शक्र) हे शक्तिमान् ! (मनुष्य)
(यत् वा) अथवा (परावति) बहुत दूर वाले (समुद्रे) समुद्र [जलनिधि
वा आकाश] में (अधि) अधिकार पूर्वक (इन्दुभिः) ऐश्वर्य व्यवहारों
के साथ [तत्त्वरस को] (सम्) ठीक-ठीक (मन्दसे) तू हर्ष युक्त करता

१—(यत्) यदा (सोमम्) तत्त्वरसम् (इन्द्र) हे परमैश्वर्यवान् मनुष्य
(विष्णवि) विष्णौ । व्यापके परमात्मनि (यत् वा) अथवा (घ) निश्चयेन
(त्रिते) अथ० ५ । १ । १ । त्रि+तनु विस्तारे—उप्रत्ययः । त्रिषु लोकेषु विस्तृते
(आप्त्ये) आप्तानां यथार्थवक्तृणां हिते (यत् वा) अथवा (मरुत्सु) शर-
विद्वत्सु (मन्दसे) यदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु । गच्छसि ।
प्राप्नोषि (सम्) सम्यक् (इन्दुभिः) ऐश्वर्यव्यवहारेः ॥

२—(यत् वा) अथवा (शक्र) हे शक्तिमान् (परावति) दुरगते
(समुद्रे) जलनिधौ । आकाशे (अधि) अधिकृत्य (मन्दसे) म० १ । मोद-
यसि । प्राप्नोषसि (अस्माकम्) (इत्) एव (सुते) संस्कृते तत्त्वरसे

है, (सत्पते) हे सत्पुरुषों के स्वामी ! (यत् वा) जब कि तू (सुन्वतः) उल्लसत्पते रस निबोड़ने वाले (यजमानस्य) यजमान का (वृधः) बढ़ाने वाला (असि) है, (यस्य) जिस [यजमान] के (उक्थे) वचन में (वा) निश्चय करके (इन्दुभिः) ऐश्वर्य व्यवहारों के साथ (सम्) ठीक ठीक (रण्यसि) तू उपदेश करता है, [तत्र] (अस्माकम् इत्) हमारे भी (सुते) सिद्ध किये हुये तत्पते रस में (रण्य) उपदेश कर ॥ २, ३ ॥

भाषार्थ—मनुष्य तत्पते रस की प्राप्ति से परमात्मा की आज्ञा पालता हुआ, तथा समष्टि रूप से सब मनुष्यों का और व्यष्टि रूप से प्रत्येक मनुष्य का ऐश्वर्य बढ़ाता हुआ उन्नति करके सदा धर्म का उपदेश करे ॥ २—३ ॥

यह तुच ऋग्वेद में है— ऋ० १२।१६-१८; म० १ सामवेद—पू० ७।१०।४ ॥

सूक्तम् ११२ ॥

१—३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निचूद् गायत्री, २, ३ गायायत्री ॥

मनुष्यकर्तव्योपदेशः—मनुष्य के कर्तव्य का उपदेश ॥

यद्द्व्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभिसूर्य । सर्वं तदिन्द्र ते वशे ॥ १ ॥

यत् । द्व्य । कत् । च । वृत्र-हन् । उत्-अगाः । अभि । सूर्य ॥ सर्वम् । तत् । इन्द्र । ते । वशे ॥ १ ॥

भाषार्थ—(वृत्रहन्) हे शत्रु नाशक ! (सूर्य) हे सूर्य ! [सूर्य के समान सर्वत्रेरक] (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] (अद्य)

(रण्य) शब्दय । उपदिश (सम्) सम्यक् (इन्दुभिः) ऐश्वर्यव्यवहारैः ॥

३—(यत् वा) अथवा (असि) (सुन्वतः) तत्पते रस निष्पादयतः पुरुषस्य (वृधः) वर्धयिता (यजमानस्य) (सत्पते) सतां पालक (उक्थे) वचने (वा) अवधारणे (यस्य) यजमानस्य (रण्यसि) उपदिशसि (सम्) सम्यक् (इन्दुभिः) ऐश्वर्यव्यवहारैः ॥

१—(यत्) वस्तु (अद्य) (कत् च) किमपि (वृत्रहन्) शत्रुनाशक (उदगाः) इयं गतौ—बुद्ध । उदितवानिति (अभि) प्रति (सूर्य) सूर्यत्रत्रेरक

आज (यत् कत् च अभि) जिस किसी वस्तु पर (उदगाः) तू उदय हुआ है, (तत्) वह (सर्वम्) सब (ते) तेरे (वशे) वश में है ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्य विद्या और पराक्रम से संसार में सूर्य के समान प्रकाशमान होकर सब पदार्थों का तत्त्व जानकर उनको उपयोगी बनावे ॥ १ ॥

यह तुत्र ऋग्वेद में है—= १. ६३ [लायण भाष्य =] । ४—६; म० १ यजुर्वेद—३३ । ३५; सामवेद—पू० २ । ४ । २ ॥

यद्वा प्रवृद्ध सत्पते न मरु इति मन्यसे । उतो तत् सत्यमित् तव ॥ २ ॥

यत् । वा । प्र-वृद्ध । सत्-पते । न । मरु । इति । मन्यसे ॥
उतो इति । तत् । सत्यम् । इत् । तव ॥ २ ॥

भावार्थ—(प्रवृद्ध) हे बड़े दृष्टे (सत्पते) सत्पुरुषों के रक्षकों [पुरुष] (वा) और (यत्) जो (इति) ऐसा (मन्यसे) तू मानता है— (न मरु) मैं न मरु. (उतो) सो (तत्) वह (तव) तेरा [वचन] (सत्यम्) सत्य (इत्) ही [होवे] ॥ २ ॥

भावार्थ—मनुष्य प्रयत्न कर के सत्पुरुषों की रक्षा करते हुये धर्म में प्रवृत्त रहकर अपना नाम बनाये रखें ॥ २ ॥

ये सोमांसः पुरावति ये अर्वावति सुन्विरे । सर्वास्ता इन्द्र गच्छसि ॥ ३ ॥

ये । सोमांसः । पुरा-वति । ये । अर्वा-वति । सुन्विरे ॥
सर्वान् । तान् । इन्द्र । गच्छसि ॥ ३ ॥

(सर्वम्) (तत्) वस्तु (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् मनुष्य (ते) तव (वशे) अधीनस्वे ॥

२—(यत्) यदि (वा) च (प्रवृद्ध) प्रवर्धमान (सत्पते) । सर्वा. पालक (न) निषेधे (मरु) अहं त्रिये (इति) एवम् (मन्यसे) बुध्यसे (उतो) अपि च (तत्) वचनम् (सत्यम्) यथार्थम् (इत्) एव (तव) ॥

भाषार्थ—(ये) जो (सोमासः) सोम रस [तत्त्व रस] (परावति) दूर देश में और (ये) जो (अर्वावति) समीप देश में (सुन्विरे) निचोड़े गये हैं । (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] (तान् सर्वान्) उन सब को (गच्छसि) तू प्राप्त हांता है ॥ ३ ॥

भावार्थ—मनुष्य को चाहिये कि पुरुषार्थ करके दूर और समीप अर्थात् सब स्थान में उत्तम विद्या प्राप्त कर के ऐश्वर्य बढ़ावे ॥

यह मन्त्र सामवेद में कुङ्कु भेद से है—३० ४ । २ । ११ ॥

सूक्तम् ११३ ॥

१—२ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निचृद् बृहती, २ सतः बृहती ॥

राजधर्मोपदेश—राजा के धर्म का उपदेश ॥

उभयं शृणवच्च नु इन्द्रो अर्वागिदं वचः । सत्राच्या मघवा
सोमपीतये धिया शविष्ठ आ गमत् ॥ १ ॥

उभयम् । शृणवत् । च । नुः । इन्द्रः । अर्वाक् । इदम् ।
वचः ॥ सत्राच्या । मघ-वा । सोम-पीतये । धिया । शविष्ठः ।
आ । गमत् ॥ १ ॥

भाषार्थ—(इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला राजा] (उभयम्) दो प्रकार से [शत्रुओं पर दण्ड और भक्तों पर अनुग्रह करने से] (नः) हमारे (इदम्) इस (अर्वाक्) वर्तमान (वचः) वचन को (च) निश्चय करके (शृणवत्) सुने, (मघवा) महाधनी और (शविष्ठः) महाबली

२—(ये) (सोमासः) तत्त्वरसाः (परावति) दूरदेशे (ये) (अर्वा-
वति) समीपदेशे (सुन्विरे) सुनोतेः कर्मणि लिट् । अभिषुता बभूवुः (सर्वान्)
(तान्) सोमान् (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् पुरुष (गच्छसि) प्राप्नोषु ॥

१—(उभयम्) द्विप्रकारं शत्रुनिग्रहं भक्तानुग्रहं च (शृणवत्) शृणुयात्
(च) अवधारणे (नः) अस्माकम् (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् राजा (अर्वाक्)
अभिमुखम् (इदम्) (वचः) वचनम् (सत्राच्या) सत्यगतिवत्या (मघवा)

[राजा] (सोमपीतये) सोम [तत्त्व रस] पीने के लिये (सत्राच्या) सत्य गति वाली (धिया) बुद्धि के साथ (आ गमात्) आवे ॥ १ ॥

भाषार्थ—राजा धन की पूर्णता और पराक्रम की उपयोगिता से शत्रुओं को मिटाकर और राज मत्तों को बढ़ाकर श्रेष्ठ कर्म करता रहे ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—८ । ६१ [सायण भाष्य ५०] । १—२; सामवेद—३० ५ । १ । १४; म० १ साम० पू० ३ । १० । ८ ॥

तं हि स्वराजं वृषभं तमोजसे धिषणे निष्टतक्षतुः ।

उतोपमानां प्रथमो नि पीदसि सोमकामं हि ते मनः ॥ २ ॥

तम् । हि । स्व-राजम् । वृषभम् । तम् । ओजसे । धिषणे
इति । निः-तुतक्षतुः ॥ उत । उप-मानाम् । प्रथमः । नि ।
पीदसि । सोम-कामम् । हि । ते । मनः ॥ २ ॥

भाषार्थ—(तम् हि) उसे ही [तुम्] (स्वराजम्) स्वराजा-को, (तम्) उस ही [तुम्] (वृषभम्) बलवान् को (ओजसे) पराक्रम के लिये (धिषणे) दोनों सूर्य और भूमि ने (निष्टतक्षतुः) बना दिया है। (उत) और (उपमानाम्) समीप-वालों का भी (प्रथमः) पहिला [मुख्य] होकर (नि पीदसि) तू बैठता है, (हि) क्योंकि (ते) तेरा (मनः) मन (सोमकामम्) पेश्वर्य का चाहने वाला है ॥ २ ॥

महाधनी (सोमपीतये) तत्त्वरसस्य पानाय (धिया) प्रज्ञया (शविष्ठः) अतिशयेन बलवान् (आ गमात्) आगच्छतु ॥

२—(तम्) तादृशं षाम (हि) एव (स्वराजम्) स्वयमेव राजानम् (वृषभम्) बलवन्तम् (तम्) (ओजसे) पराक्रमाय (धिषणे) अथ० २० । ६४ । ८ । सूर्यभूमिलोकौ (निष्टतक्षतुः) संवस्करतुः (उत) अपि च (उपमानाम्) समीपस्थानाम् (प्रथमः) मुख्यः (नि पीदसि) उपविशसि (सोमकामम्) पेश्वर्य-कामयमानम् (हि) यस्मात् कारणत् (ते) तव (मनः) अन्तःकरणम् ॥

भावार्थ—राजा सूर्य के समान तेजस्वी और पृथिवी के समान सहनशील होकर अपने पराक्रम से पेश्वर्य बढ़ावे ॥ २ ॥

सूक्तम् ११४ ॥

१—२ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निचूदुणिकः २ विराडाषी पङ्क्तिः ॥

परमेश्वरगुणोपदेशः—परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥

अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र-सुनादसि । युधापित्वसि-
च्छसे ॥ १ ॥

अभ्रातृव्यः । अना । त्वम् । अनापिः । इन्द्र । जनुषा ।
सुनात् । असि ॥ ॥ युधा । इत् । आपि-त्वम् । इच्छसे ॥१॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले परमेश्वर] (त्वम्)
तू (जनुषा) जन्म से (सनात्) सदा (अभ्रातृव्यः) बिना बैरी वाला, (अना)
बिना नेता वाला और (अनापिः) बिना बन्धु वाला (असि) है, (युधा) युद्ध में
(हि) ही [हमारे साथ संग्राम होने पर ही] (आपित्वम्) बन्धुपन [हमारे
लिए सहायता] (इच्छसे) तू चाहता है ॥ १ ॥

भावार्थ—अनादि, अद्वितीय परमात्मा अपने धर्मात्मा भक्तों को सदा
संकट से छुडाना है ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—ऋ. २१ । १३, १४, सामवेद, ७०/६।२।४;
म० १ सा० पू० ५।२।१ ॥

नकी रेवन्तं सुख्यायं विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्वः ।

यदा कृणोषि नदनुं समूहस्यादित् पितेव ह्यसे ॥ २ ॥

नकिः । रेवन्तम् । सुख्यायं । विन्दसे । पीयन्ति । ते । सुरा-

१—(अभ्रातृव्यः) अ० २।१८ । १ । शत्रुरहितः (अना) अनेतृकः
(त्वम् (अनापिः) बन्धुवर्जितः (इन्द्र) परमेश्वर्यधन् परमात्मन् (जनुषा)
जन्मना (सनात्) विरादेव (असि) (युधा) विभक्तेराकारः । अस्माभिः
सह युद्धे (इत्) पक्ष (आपित्वम्) बन्धुत्वम् (इच्छसे) कामयसे ॥

श्वः ॥ यदा । कृणोषि । नदनुम् । सम् । ऊहसि । आत् ।
इत् । पिता-इव । ह्यसे ॥ २ ॥

भाषार्थ—[हे परमात्मेन ।] (रेवन्तम्) [उस] बड़े धनवान् को (सख्याय) अपनी मित्रता के लिये (नकिः) कभी नहीं (विन्दसे) तू मिलता है, (सुराश्वः) [जो] मदिरा से बढ़ा हुआ [उन्मत्त पागल मनुष्य] (ते) तेरी (पीयन्ति) हिंसा करता है । (यदा) जब तू (नदनुम्) गर्जन (कृणोषि) करता है और (सम्) यथावत् (ऊहसे) तू विचार करता है, (आत् इत्) तभी (पिता इव) पिता के समान (ह्यसे) तू बुलाया जाता है ॥ २ ॥

भाषार्थ—परमात्मा दुराचारी नास्तिक बड़े धनी को भी जब-तब कर देता है, तब वह अभिमानी उस परमात्मा की महिमा को साक्षात् करता है ॥ २ ॥

सूक्तम् ११५ ॥

१—३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छन्दः ॥

परमेश्वरगुणोपदेशः—परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥

अहमिद्धि पितुर्परि मेधामृतस्य जुग्रभं । अहं सूर्यं इवाजनिम्
अहम् । इत् । हि । पितुः । परि । मेधाम् । ऋतस्य ।
जुग्रभं ॥ अहम् । सूर्यः-इव । अजनि ॥ १ ॥

भाषार्थ—(अहम्) मैं ने (पितुः) पिता [परमेश्वर] से (इत् हि)

२—(नकिः) न कदापि (रेवन्तम्) बहुधनवन्तम् (सख्याय) सखि-
भाषाय (विन्दसे) त्वं लभसे (पीयन्ति) एकवचनस्य बहुवचनम् । पीयति ।
हिंसां करोति (ते) तव (सुराश्वः) सरा + दुश्चो विष गतिवृद्धयोः—इप्रत्ययः ।
सुरया मदिरया वृद्धः प्रमत्तः । नास्तिकः (यदा) कृणोषि । करोषि (नद-
नुम्) अनुद् नदेश्च । ८० ३ । ५२ । एद अव्यक्ते शब्दे—अनुद् । गर्जनम् ।
संग्रामम्—निघ० २ । १७ (सम्) संभ्यक् (ऊहसि) वितर्कयसि (आत्)
अनन्तरम् (इत्) एव (पिता) (इव) (ह्यसे) आह्वयसे ॥

१—(अहम्) मनुष्यः (इत्) एव (हि) अवश्यम् (पितुः) पालकात्

अवश्य करके (ऋतस्य) सत्य वेद की (मेधाम्) धारणावती बुद्धि (परि) सब प्रकार (जग्रम) पाई है, (अहम्) मैं (सूर्यः इव) सूर्य के समान (अजनि) प्रसिद्ध हुआ हूँ ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्य परमात्मा के दिये वेद ज्ञान को ग्रहण कर के संसार में सूर्य के समान विद्या का प्रकाश करें ॥ १ ॥

यह त्व ऋग्वेद में है—८।६।१०-१२, सामवेद उ० ७।१। त्व५, म० १ सा० पू० २।६।८ ॥

अहं प्रत्नेन मन्मना गिरः शुभामि कण्ववत् । येनेन्द्रः शुष्म-
सिद् दधे ॥ २ ॥

अहम् । प्रत्नेन । मन्मना । गिरः । शुभामि । कण्व-वत् ॥
येन । इन्द्रः । शुष्मम् । इत् । दधे ॥ २ ॥

भाषार्थ—(अहम्) मैं (कण्ववत्) बुद्धिमान् के समान (प्रत्नेन) उस प्राचीन (मन्मना) ज्ञान से (गिरः) अपनी वाणियों को (शुभामि) शोभित करता हूँ, (येन) जिस [प्राचीन ज्ञान] से (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्ये वाले परमात्मा] ने (शुष्मम्) बल (इत्) अवश्य (दधे) दिया है ॥ २ ॥

भावार्थ—मनुष्य परमेश्वरीय ज्ञान वेद से सुशोभित होकर बलवान् होवे ॥ २ ॥

ये त्वामिन्द्र न तुष्टुवुर्वाषयो ये च तुष्टुवुः । ममेद् वर्धस्व

परमेश्वरात् (परि) सर्वथा (मेधाम्) धारणावती बुद्धिम् (ऋतस्य) सत्य-
ज्ञानस्य (जग्रम) हस्य भः । अहं जग्रह । गृहीतवानस्मि (अहम्) (सूर्यः)
(इव) (अजनि) अजनिपं प्रादुरभूवम् ॥

२—(अहम्) मनुष्यः (प्रत्नेन) प्राचीनेन (मन्मना) मननसाधनेन
ज्ञानेन (गिरः) वाणीः (शुभामि) अल करोमि (कण्ववत्) मेधावी यथा
(येन) मन्मना (इन्द्रः) परमेश्वरः (शुष्मम्) बलम् (इत्) अवश्यम् (दधे)
दत्तवान् ॥

सुष्टुतः ॥ ३ ॥

ये । त्वाम् । इन्द्र । न । तुस्तुवुः । ऋषयः । ये । च । तुस्तुवुः ।
मम । इत् । वर्धस्व । सु-स्तुतः ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन्] (ये)
जिन [नास्तिकों] ने (त्वाम्) तुम्हें (न) नहीं (तुस्तुवुः) सराहा है,
(च) और (ये) जिन (ऋषयः) ऋषियों [ज्ञानी महात्माओं] ने (तुस्तुवुः)
सराहा है, [इन दोनों में] (सुष्टुतः) अच्छे प्रकार स्तुति किया हुआ तू
(मम) मेरी (इत्) भी (वर्धस्व) वृद्धि कर ॥ ३ ॥

भावार्थ—मनुष्य परमात्मा की भक्ति करके ऐसे प्रिय आचरण करें
कि नास्तिक भी आस्तिक हों और वेदज्ञानी आस्तिक रह कर उपकार करें ॥३॥

सूक्तम् ११६ ॥

१—२ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निचूदार्षी वृहती, २ विराडार्षी वृहती ॥

राजकर्मोपदेशः—राजा के कर्म का उपदेश ॥

मा भूम निष्ट्या इवेन्द्र त्वदरणा इव । वनानि न प्रजहि-
तान्यद्रिवो दुरोषासो अमन्महि ॥ १ ॥

मा । भूम । निष्ट्याः-इव । इन्द्र । त्वत् । अरणाः-इव ॥
वनानि । न । प्र-जहितानि । अद्रि-वः । दुरोषासः । अम-
न्महि ॥ १ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (त्वत्)
तुम्हें से [अलग होकर] (निष्ट्याः इव) वर्ष सड़कर नीचों के

३—(ये) नास्तिकाः (त्वाम्) (इन्द्र) परमेश्वर (न) निषेधे
(तुस्तुवुः) स्तुतवन्तः (ऋषयः) साक्षात्कथर्माणिः (ये) (च) समुच्चये
(तुस्तुवुः) स्तुतवन्तः (मम) (इत्) एव (वर्धस्व) वृद्धिं कुरु (सुष्टुतः)
शोभनं स्तुतः सन् ॥

१—(मा भूम) न भवेम (निष्ट्याः) अथ० १ । १६ । ३ । निस-त्यप्
गतार्थो निर्गता-वर्षभ्रमेभ्यः । चाण्डालाः । वर्णसङ्कराः (इव) (इन्द्र)

समान और (अरणाः इव) न घात करने योग्य शत्रुओं के समान और (प्रजहितानि) छोड़ दिये गये (वनानि न) वृक्षों के समान (मा भूम) हम न हों, (अद्रिवः) हे वृक्षधारी । (दुरोपासः) न जल सकने वाले वा न मर सकने वाले [अर्थात् जीने हुये, प्रबल] (अमन्महि) हम समझे जावें ॥ १ ॥

भाषार्थ—राजा प्रजा की रक्षा करके उसका प्रबल और मित्र बनाये रखे, जैसे माली वृक्षों की सींचकर उपयोगी बनाना है ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—८।१।१३, १४ ॥

अमन्महीदनाशवोऽनुग्रासश्च वृत्रहन् । सुकृत् सु ते महता
शूर राधसानु स्तोमं सुदीमहि ॥ २ ॥

अमन्महि । इत् । अनाशवः । अनुग्रासः । च । वृत्र-हन् ॥
सुकृत् । सु । ते । महता । शूर । राधसा । अनु । स्तोमम् ।
सुदीमहि ॥ २ ॥

भाषार्थ—(वृत्रहन्) हे शत्रुनाशक । [राजन्] (अनाशवः) अन-
फुरतीले (च) और (अनुग्रासः) अननेज (इत्) ही (अमन्महि) हम जाने
गये हैं । (शूर) हे शूर ! (ते) तेरे (महता) बडे (राधसा) धन से (स्तो-
मम् अनु) बडाई के साथ (सकृत्) एक बार (सु) भले प्रकार (मदीमहि)
हम आनन्द पावें ॥ २ ॥

परमैश्वर्यवन् राजन् (त्वत्) त्वत्तः (अरणाः) रण शब्दे—अप् । असंभा
पणीयाः । शत्रवः (इव) (वनानि) वृक्षजातानि (न) इव (प्रजहितानि)
ओहाक् त्यागे—क्त । शाखादिभिः परित्यक्तानि । प्रक्षीयानि (अद्रिवः) हे
वृक्षधन् (दुरोपासः) उप दाहे हिंसे च—घञ्, असुक् । ओषितुं दग्धुं हिंसितुं
वा अशक्याः । जीवन्तः प्रबलाः (अमन्महि) मन ज्ञाने लिङ्घ्यं लुङ् । ज्ञाता भवेम ॥

२—(अमन्महि) म० १ । ज्ञाता अभूम (इत्) एव (अनाशवः) अशीघ्राः,
अत्वरमाणाः (अनुग्रासः) अनुग्रासः । निस्तेजसः (च) (वृत्रहन्) शत्रुनाशक
राजन् (सकृत्) एकवारम् (सु) (ते) तव (महता) प्रभूतेन (शूर) (राधसा)
धनेने (अनु) अनुलक्ष्य (स्तोमम्) स्तुत्यं गुणम् (सुदीमहि) आनन्देम् ॥

भाषार्थ—राजा को चाहिये कि प्रजा को निरालसी, उद्यमी और वृद्धवान् बनाने के लिये राजकांश से धन का व्यय करे ॥ १ ॥

सूक्तम् ११७ ॥

१—३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निचृदापी पङ्क्तिः २ भुरिगामी पङ्क्तिः ३ विराड् गायत्री ॥

राजकर्तव्योपदेशः—राजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

पिबाम् सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाव ह्यश्वद्रिः ।

सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नर्वा ॥ १ ॥

पिब । सोमम् । इन्द्र । मन्दतु । त्वा । यम् । ते । सुषाव ।
हुरि-अश्व । अद्रिः ॥ सोतुः । बाहु-भ्याम् । सु-यतः । न ।
अर्वा ॥ १ ॥

भाषार्थ—(ह्यश्व) हे फुरतीले घोड़ों वाले (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (सोमम्) सोम [तत्त्व रस] का (पिब) पान कर; (त्वा) तुझ को (मन्दतु) वह [तत्त्व रस] आनन्द देवे; (यम्) जिस को (ते) तेरे लिये (सुयतः) अच्छे सिखाये हुये (अर्वा न) घोड़ों के समान, (अद्रिः) मेघ [के तुल्य उपकारी पुरुष] ने (सोतुः) सार, निष्कालने वाले की (बाहुभ्याम्) दोनों भुजाओं से (सुषाव) सिद्ध किया है ॥ १ ॥

भाषार्थ—जैसे अच्छा सधा हुआ घोड़ा अपने स्वामी को ठिकाने पर पहुंचाता है, वैसे ही विद्वानों के सिद्ध किये हुये तत्त्व रस को ग्रहण करके राजा पराक्रमी होवे ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—७।२२।१—३; सामवेद—३०३।१।तृच १३; म० १ साम० पू० ५।१।८ ॥

१—(पिब) (सोमम्) तत्त्वरसम् (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् राजन् (मन्दतु) आनन्दयतु (त्वा) (यम्) सोमम् (ते) तुभ्यम् (सुषाव) निष्पादितवान् (ह्यश्व) हरयो हरणशीलाः प्रापणशीला अश्वो यस्य तत्सम्बुद्धौ (अद्रिः) मेघ इषोपकारी पुरुषः (सोतुः) अभिपवकतुः (बाहुभ्याम्) भुजाभ्यां द्वारा (सुयतः) सुशिक्षितः (न) इव (अर्वा) अश्वः ॥

यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन वृत्राणि हर्यश्व-हंसि । स
त्वामिन्द्र प्रभुवसो ममत्तु ॥ २ ॥

यः । तेः । मदः । युज्यः । चारुः । अस्ति । येन । वृत्राणि ।
हरि-अश्व । हंसि ॥ सः । त्वाम् । इन्द्र । प्रभुवसो इति
प्रभु-वसो । ममत्तु ॥ २ ॥

भाषार्थ—(हर्यश्व) हे फुरतीले घोड़ों वाले । (प्रभुवसो) हे समर्थ
वसाने वाले [वा बहुत धन वाले] (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्]
(यः) जो [तस्व रस] (ते) तेरे लिये (युज्यः) योग्य और (चारुः) सन्दर
(मदः) आनन्दकारी (अस्ति) है, और (येन) जिस [तस्व रस] से
(वृत्राणि) शत्रु दलों को (हंसि) तू मारता है, (सः) वह [तस्वरस]
(त्वाम्) तुझ को (ममत्तु) आनन्द देवे ॥ २ ॥

भाषार्थ—राजा उचित उपायो से शत्रुओं को मारकर प्रजा का आनन्द
वढ़ावे ॥ २ ॥

बोध-सु मे मघवन् वाचमेसां यां ते वसिष्ठो अर्चति प्रश-
स्तिम् । इमा ब्रह्मं सधुमादे जुषस्व ॥ ३ ॥

बोध । सु । मे । मघ-वन् । वाचम् । आ । इमाम् । याम् ।
ते । वसिष्ठः । अर्चति । प्र-शस्तिम् ॥ इमा । ब्रह्मं । सधु-
मादे । जुषस्व ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(मघवन्) हे महाधनी राजन् ! (याम्) जिस (प्रशस्तिम्)

२—(यः) तस्वरसः (ते) तुभ्यम् (मदः) हर्षकरः (युज्यः) युज-य्यप्
योग्यः (चारुः) समीचीनः (अस्ति) (येन) तस्वरसेन (वृत्राणि) शत्रु-
दलानि (हर्यश्व) म० १ । प्रापणशीलाश्वयुक्त (हंसि) नाशयसि (सः)
तस्वरसः (त्वाम्) (इन्द्र) परमैश्वर्यवन् राजन् (प्रभुवसो) हे समर्थ-
वासयितः । बहूधन (ममत्तु) मादयतु । हर्षयतु ॥

३—(बोध) बुध्यस्व । जानीहि (सु) सुष्ठु (मे) मम (मघवन्) हे

उत्तम [वाणी] को (ते) तुझे (वसिष्ठः) वसिष्ठ [अति श्रेष्ठ विद्वान्] (अर्चति) समर्पण करता है, (मे) मेरी (इमाम्) इस (वाचम्) वाणी को (सु) भले प्रकार (आ) सामने से (बोध) तु समझ, और (इमा) इन (ब्रह्म) वेद वचनों का (सधमादे) मिलकर हर्षमानने के स्थान उत्सव में (जुपस्व) सेवन कर ॥ ३ ॥

भावार्थ—राजा को योग्य है कि बड़े बड़े विद्वानों की श्रेष्ठ वाणी और वेद वचनों को यथावत् मानकर उन्नति करे ॥

सूक्तम् ११८ ॥

१—४ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ३ निचद्र बृहती ॥ २ विराडापीपङ्क्तिः ॥ ४ भुरिगापीपङ्क्तिः ॥

परमेश्वरोपासनोपदेशः— परमेश्वर की उपासना का उपदेश ॥

शुग्ध्य ३ बु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरुतिभिः ।

भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनुं शूरं चरामसि ॥ १ ॥

शुग्धि । ऊं इति । सु । शची-पते । इन्द्र । विश्वाभिः ।

ऊं ति-भिः ॥ भगम् । न । हि । त्वा । यशसम् । वसु-विदम् ।

अनुं । शूर । चरामसि ॥ १ ॥

भाषार्थ—(शचीपते) हे वाणियों वा कर्मों के स्वामी (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन्] (विश्वाभिः) सब (ऊतिभिः) रक्षाओं के साथ (उ) निश्चय करके (सु) भले प्रकार (शग्धि) शक्ति दे । (शूर) हे

धनवन् (वाचम्) वाणीम् (आ) आभिमुख्येन (इमाम्) (याम्) (ते) तुभ्यम् (वसिष्ठः) अतिशयेन वसुः श्रेष्ठो विद्वान् (अर्चति) समर्पयति (प्रशस्तिम्) उत्तमाम् (इमा) इमानि (ब्रह्म) ब्रह्माण वेदज्ञानानि (सधमादे) सहहर्षस्थाने (जुपस्व) सेवस्व ॥

१—(शग्धि) अ० १६ । १५ । १ । शकेतीति । शक्तिं देहि (उ) निश्चयेन (सु) (शचीपते) अ० ३ । १० । १२ । हे शचीनां वाचां कर्मणां वा पालक (इन्द्र) परमैश्वर्यवन् परमात्मन् (विश्वाभिः) (ऊतिभिः) रक्षाभिः (भगम्)

शूर ! [परमेश्वर] (भगम् न) ऐश्वर्यवान् के समान (यशसम्) यशस्वी और (वसुविद्म्) धन पहुंचाने वाले (त्वा हि अजुं) तेरे ही पीछे (चरामसि) हम चलते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ—मनुष्य परमेश्वर की भक्ति के साथ उत्तम कर्म और बुद्धि-करके यशस्वी और धनी होवे ॥ १ ॥

मन्त्र १, २ ऋग्वेद में हैं—ऋ ६१ [सायण भाष्य ५०] । ५, ६ ; साम-वेद ७० ७।३।३ ; म० १ सा० पू० ३।७।१ ॥

पौरो अश्वस्य पुरुकृद् गवामस्युत्सो देव हिरण्ययः ।

नकिर्हि दानं परिमर्धिषत् त्वे यद्यद्यासि तदा भर ॥ २ ॥

पौरः । अश्वस्य । पुरु-कृत् । गवाम् । असि । उत्सः । देव ।

हिरण्ययः ॥ नकिः । हि । दानम् । परि-मर्धिषत् । त्वे इति ।

यत्-यत् । यामि । तत् । आ । भर् ॥ २ ॥

भाषार्थ—(देव) हे देव ! [कामना योग्य परमेश्वर] तू (अश्वस्य) घोड़ों का (पौरः) भरपूर करने वाला, (गवाम्) गौओं का (पुरुकृत्) बहुत करने वाला, (हिरण्ययः) तेजोमय और (उत्सः) जल के स्रोत [कुये के समान उपकारी] (असि) है । (हि) क्योंकि (त्वे) तेरे (दानम्) दान को (नकिः) कोई भी नहीं (परिमर्धिषत्) नाश कर सकता, (यद्यत्) जो जो (यामि) मांगता हूँ, (तत्) वह वह (आ भर) भर पूर कर ॥ २ ॥

ऐश्वर्यवन्तम् (न) इव (हि) एव (त्वा) (यशसम्) अर्शआद्यन् । यशस्वि-
नम् (वसुविद्म्) धनस्य लभकम् (अजुं) अनुलक्ष्य (शूर) (चरामसि)
गच्छामः ॥

२—(पौरः) पूर—अण् स्वार्थे । पूरः । पूरकः । पूरयिता (अश्वस्य)
अश्वसभूहस्य (पुरुकृत्) बहुकर्ता (गवाम्) धेनूनाम् (असि) (उत्सः)
कूपतुस्य उपकारकः । (देव) कमनीय परमात्मन् (हिरण्ययः) तेजोमयः
(नकिः) न किञ्चिदपि (हि) यतः (दानम्) (परिमर्धिषत्) मूर्ध मृधु
हिंसायाम् आर्द्रिभावे च—लोट् । नाशयेत् (त्वे) (विभक्तेः शे । तव (यद्यत्)
वस्तु (यामि) याचे (तत्) (आ) समन्तात् (भर) भर ॥

भावार्थ—मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि में सब पदार्थों से उपकार लेकर सदा आनन्द पावे ॥ २ ॥

इन्द्रमिद् देवतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । इन्द्रं समीके वनिनो
हवामहु इन्द्रं धनस्य सातये ॥ ३ ॥

इन्द्रम् । इत् । देव-तातये । इन्द्रम् । प्र-यति । अध्वरे ॥
इन्द्रम् । सु-ई के । वनिनः । हवामहे । इन्द्रम् । धनस्य ।
सातये ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा] को (इत्)
ही (देवतातये) दिव्य गुण फैलाने के लिये, (इन्द्रम्) इन्द्र [परमात्मा] को
(प्रयति) प्रयत्न साथ (अध्वरे) बिना हिंसा वाले व्यवहार में, (इन्द्रम्)
इन्द्र [परमात्मा] को (समीके) युद्ध में, और (इन्द्रम्) इन्द्र [परमात्मा]
को (धनस्य) धन के (सातये) मिलने के लिये, (वनिनः) शब्द करने हुये
हम (हवामहे) पुकारते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—मनुष्य अपने सब काम परमेश्वर को समर्पण करके पुरुषार्थ
के साथ आनन्द पावे ॥ ३ ॥

मन्त्र ३. ४ ऋग्वेद में है—८। ३। ५, ६; सामवेद उ० ७। ३। ८; म० ३
सा० पू० ३। ६। ७ ॥

इन्द्रो मुहा रोदसी प्रयच्छ्व इन्द्रुः । सूर्यमरोचयत् । इन्द्रो
हु विश्वा भुवनानि येसिर् इन्द्रो सुवानासु इन्द्रवः ॥ ४ ॥

इन्द्रः । मुहा । रोदसी इति । प्रयच्छ्वत् । श्वः । इन्द्रः ।
सूर्यम् । अरोचयत् ॥ इन्द्रो । हु । विश्वा । भुवनानि ।

३—(इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं परमात्मानम् (इत्) एव (देवतातये)
दिव्यगुणानां विस्ताराय (इन्द्रम्) परमात्मानम् (प्रयति) अ० ७। ६७। १।
प्रयत्नसाध्ये (अध्वरे) हिंसारहिते व्यवहारे (इन्द्रम्) (समीके) अथ०
२०। ८६। ४। संग्रामे (वनिनः) वन शब्दे—अच्, इति । शब्दवन्तः (हवामहे)
आह्वयामहे (इन्द्रम्) (धनस्य) (सातये) लाभाय ॥

येमिरे । इन्द्रे । सुवानासः । इन्द्रवः ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा] ने (शवः) बल की (महा) महिमा से (रोहसी) आकाश और भूमि को (पप्रथत्) फैलाया है, (इन्द्रः) इन्द्र [परमात्मा] ने (सूर्यम्) सूर्य को (अरोचयत्) चमकाया है। (इन्द्रे) इन्द्र [परमात्मा] में (ह) ही (विश्वा) सब (भुवनानि) भुवन (येमिरे) ठहरे हैं, (इन्द्रे) इन्द्र [परमात्मा] में (सुवानासः) उत्पन्न होते हुये (इन्द्रवः) ऐश्वर्य हैं ॥ ४ ॥

भाषार्थ—जिस परमात्मा ने ब्रह्माण्ड के भीतर सब ऐश्वर्यवान् पदार्थ रचे हैं, मनुष्य उस की भक्ति से सब पदार्थों से उपकार लेकर उन्नति करें ॥ ४ ॥

सूक्तम् ११८ ॥

१—२ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ पथ्या बृहती ; २ सतः पङ्क्तिः ॥

परमेश्वरस्तुत्युपदेशः—परमेश्वर की स्तुति का उपदेश ॥

अस्तावि मन्मं पूर्व्यं ब्रह्मेन्द्राय वोचत । पूर्वीऋतस्य बृहती-
रनुषत स्तोतुर्मेधा असृक्षत ॥ १ ॥

अस्तावि । मन्मं । पूर्व्यम् । ब्रह्मं । इन्द्राय । वोचत ॥

पूर्वीः । ऋतस्य । बृहतीः । अनुषत् । स्तोतुः । मेधाः ।

असृक्षत ॥ १ ॥

भाषार्थ—(पूर्व्यम्) पुराना (मन्म) ज्ञान (अस्तावि) स्तुति-किया

४—(इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् परमात्मा (महा) महिम्ना । महर्षेण (रोहसी) आकाशभूमी (पप्रथत्) विस्तारितवान् (शवः) विभक्तेः सुः । शवसः । बलस्य (इन्द्रः) (सूर्यम्) प्रसिद्धम् (अरोचयत्) अदीपयत् (इन्द्रे) परमात्मनि (ह) एव (विश्वा) व्याप्तानि । सर्वाणि (भुवनानि) लोक-जातानि (येमिरे) यम उपरमे—तिद् । नियमिताः स्थापिता बभूवुः (इन्द्रे) (सुवानासः) सूयमानाः । उत्पद्यमानाः (इन्द्रवः) ऐश्वर्याणि ॥

१—(अस्तावि) स्तुतम् (मन्म) ज्ञानम् (पूर्व्यम्) पुरातनम् (ब्रह्म)

गया है. (इन्द्राय) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले परमात्मा] के पाने के लिये (ब्रह्म) वेद वचन को (वोचत्) तुम बोलो । (ऋतस्य) सत्य ज्ञान की (पूर्वीः) पहिली (बृहतीः) बढ़ती हुई वाणियों की (अनूषत) उम्हों ने [ऋषियों ने] स्तुति की है और (स्तोतुः) स्तुति करने वाले विद्वान् की (मेधाः) धारणावती बुद्धियाँ (असृजत) दी है ॥ १ ॥

भाषार्थ—जिन वेद वाणियों को विचारकर ऋषि लोग सदा ज्ञानी होते हैं, उन्हीं वेद वाणियों को विचार कर मनुष्य अपना ज्ञान बढ़ावें ॥ १ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—ऋ. ५२ । ६ [सायण भाष्य, अवशिष्ट, बाल-खिल्य, सू० ४ म० ६] ; सामवेद, उ० ८ । २ । ७ ॥

तुरण्यवो मधुमन्तं घृतश्रुतं विप्रासो अर्कमानृचुः ।

अस्मे रयिः पप्रथे वृष्यम् शवोऽस्मे सुधानासु इन्दवः ॥ २ ॥

तुरण्यवः । मधु-मन्तम् । घृत-श्रुतम् । विप्रासः । अर्कम् ।

आनृचुः ॥ अस्मे इति । रयिः । पप्रथे । वृष्यम् । शवः ।

अस्मे इति । सुधानासः । इन्दवः ॥ २ ॥

भाषार्थ—(तुरण्यवः) फुरतीले (विप्रासः) बुद्धिमानों ने (मधु-मन्तम्) मधु [वेदविद्या] वाले (घृतश्रुतम्) प्रकाश के बरसाने वाले (अर्कम्) पूजनीय परमात्मा को (आनृचुः) पूजा है । (अस्मे) हमारे लिये (रयिः) धन, और (वृष्यम्) वीर के योग्य (शवः) बल (पप्रथे)

वेदवचनम् (इन्द्राय) परमेश्वरप्राप्तये (वोचत्) लोडर्थे लुङ् । ब्रूत यूगम् (पूर्वीः) पूर्वकालीनाः (ऋतस्य) सत्यज्ञानस्य (बृहतीः) वर्धमाना वाणीः (अनूषत) अ० २० । १७ । १ । अस्तुवन् ते ऋषयः (स्तोतुः) स्तुतिं कुर्वतः पुरुषस्य (मेधाः) धारणावती बुद्धीः (असृजत) सृज विसर्गे । दत्तवन्तः ॥

२—(तुरण्यवः) पृथिव्यधि० । उ० १ । २३ । त्वरण त्वरायाम् ; कण्डवादिः—कृप्रत्ययः । वेगशीलाः (मधुमन्तम्) वेदज्ञानवन्तम् (घृतश्रुतम्) अ० १० । ६ । ६ । श्रुतिर् क्षरणे—किंपु । श्वोनतिर्गतिकर्मा—निघ० २ । १४ । प्रकाशवर्षकम् (विप्रासः) मेधाविनः (अर्कम्) पूजनीयं परमात्मानम् (आनृचुः) अ० १२ । १ । ३६ । पूजितवन्तः (अस्मे) अस्मभ्यम् (रयिः) धनम् (पप्रथे)

फैल रहा है, (अस्मे) हमारे लिये (स्तुवानासः) उत्पन्न होने हुये (इन्द्रवः) पेश्वर्य हैं ॥ २ ॥

भावार्थ— मनुष्य सर्वपूजनीय परमात्मा की महिमा विचार कर धनवान्, बलवान् और पेश्वर्यवान् हों ॥ २ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—८।५२।१० [सायण भाष्य, अवशिष्ट, वाल्मिल्य सू० ३ म० १०] ; नामवेद; ३० ७।३।१६ ॥

सूक्तम् १२० ॥

१-२ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ भूरिगार्प्यनुष्टुप् ; २ निचृत् षड्क्तिः ॥

परमेश्वरगुणोपदेशः—परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥

यदिन्द्र प्रागप्रागुद्व्यग् वा हुयसे नृभिः ।

सिमा पुरु नृपतः आस्थानवेऽसि प्रशर्ध तुर्वशे ॥ १ ॥

यत् । इन्द्र । प्राक् । अपाक् । उदक् । न्यक् । वा । हुयसे ।

नृ-भिः ॥ सिम । पुरु । नृ-पतः । अस्थि । आनवे । असि ।

प्र-शर्ध । तुर्वशे ॥ १ ॥

भावार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [नडे पेश्वर्य वाले परमात्मन्] (यत्) जब (प्राक्) पूर्व में, (अपाक्) पश्चिम में, (उदक्) उत्तर में (वा) और (न्यक्) दक्षिण में (नृभिः) मनुष्यों करके (हुयसे) तू पुकारा जाता है । (सिम) हे सीमा बांधने वाले (प्रशर्ध) प्रबल ! [परमात्मन्] (आनवे) मनुष्यों के (तुर्वशे) हिंसकों के वश करने वाले पुरुष में (पुरु) बहुत प्रकार

विभ्रतं वर्तते (वृणयम्) वृणो बलवते हितम् (शवः) बलम् (अस्मे) अस्मभ्यम् । अन्यद् गतम्—अ० २०।११८।४ ॥

१—(यत्) यदा (इन्द्र) परमेश्वर्यवान् परमात्मन् (प्राक्) प्राच्यां दिशि (अपाक्) प्रतीच्यां दिशि (उदक्) उदीच्यां दिशि (न्यक्) नीच्यां दक्षिणस्यां दिशि (वा) च (हुयसे) आहूयसे (नृभिः) नेतृभिः (सिम) अविसिदिभिश्चुविभ्यः कित् । ३० १ । १४४ । पिञ् बन्धने—मन् कित् । हे सीमा-कारक (पुरु) बहुलम् (नृपतः) पू प्रेरणे—क । नरैः प्रेरितः प्रार्थितः (असि) (आनवे) अन्व—अण् । अनवो मनुष्यनाम—निघ० २।३ । मनुष्यसम्बन्धिनि

(सूत्रः) तू मनुष्यों से प्रेरणा [प्रार्थना] किया गया (असि) है, (असि) है ॥१॥

भावार्थ—मनुष्य संघ स्थानों में परमात्मा को वारंवार स्मरण करके परस्पर उपकार करें ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—८।४।१, २; सामवेद, उ० ५।१। १३; म० १ सा० पू० ३।६।७ ॥

यद्वा रुमे रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे सचा । कण्वा-
सस्त्वा ब्रह्मभि स्तोमवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ॥ २ ॥

यत् । वा । रुमे । रुशमे । श्यावके । कृपे । इन्द्र । मादयसे ।
सचा ॥ कण्वासः । त्वा । ब्रह्म-भिः । स्तोम-वाहसः । इन्द्र ।
आ । यच्छन्ति । आ । गहि ॥ २ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेशवर्ष वाले परमात्मन्] (यत्)
जब (रुमे) ज्ञानी पुरुष में, (रुशमे) हिंसकों के फँकने वाले में, (श्यावके)
उद्योगी में (वा) और (कृपे) समर्थ में (सचा) नित्य मेल से (मादयसे)
तू हर्ष पाता है, [तभी] (इन्द्र) हे इन्द्र [परमात्मन्-] (स्तोमवाहसः)
बड़ाई के प्राप्त कराने वाले (कण्वासः) बुद्धिमान लोग (त्वा) तुझ को
(ब्रह्मभिः) वेद वचनों से (आ यच्छन्ति) अपनी ओर खींचते हैं, (आ गहि)
तू आ ॥ २ ॥

(असि) (प्रशर्ष) शृङ्ग उरसाहे—अञ् । शर्षो वत्तनाम—निघ० २ । ६ ।
हे प्रबल (तुर्वशे) अ० २० । ३७ । ८ । तुरां हिंसकानां वशयितरि ॥

२—(यत्) यदा (वा) च (रुमे) अविस्तिवि० । उ० १ । १४४ । रुङ्
गतिरेषणयोः—मन्, कित् । ज्ञानिनि पुरुषे (रुशमे) रुश हिंसायाम्—क +
हुमिञ् प्रक्षेपणे—उप्रत्ययः । हिंसकानां प्रक्षेपतरि (श्यावके) अ० ५ । ५ । ८ ॥
गतिशीले । उद्योगिनि (कृपे) कृपू सामर्थ्ये—क । समर्थे (इन्द्र) परमैश्वर्यवन्
परमात्मन् (मादयसे) हृष्यसि (सचा) समवायेन (कण्वासः) मैधाधिनः (त्वा)
(ब्रह्मभिः) वेदवचनैः (स्तोमवाहसः) अ० २० । ६८ । ११ । स्तुतिप्रापकाः
(इन्द्र) (आ यच्छन्ति) आनीय यमयन्ति । आकर्षन्ति (आगहि) आगच्छ ॥

भावार्थ—परमात्मा स्वभाव से पुरुषार्थियों पर कृपा करता है, इसी से विद्वान् लोग उसे हृदय में वर्तमान जानकर ससार में उन्नति करते हैं ॥ २ ॥

सूक्तम् १२१ ॥

१—२ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निचृद्बृहती, २ निचृत् पङ्क्तिः ॥

परमेश्वरगुणोपदेशः—परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥

अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः ।

ईशानस्य जगतः स्वर्द्धशमीशानमिन्द्र तस्युषः ॥ १ ॥

अभि । त्वा । शूर । नोनुमः । अदुग्धाः-इव । धेनवः ॥ ईशा-
नम् । अस्य । जगतः । स्वः-दृशम् । ईशानम् । इन्द्र । तस्युषः १

भाषार्थ—(शूर) हे शूर (इन्द्र) इन्द्र । [परमेश्वर] (अदुग्धाः)
बिना दुही (धेनवः इव) दुधेल गौओं के समान [भुक्कर] हम (अस्य)
इस (जगतः) जंगम के (ईशानम्) स्वामी और (तस्युषः) स्थावर के
(ईशानम्) स्वामी, और (स्वर्द्धशम्) सुख के दिखाने वाले (त्वा) तुझ को
(अभि) सब ओर से (नोनुमः) अत्यन्त सराहते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—जैसे दूध से भरी गौये दूध देने के लिये भुक् जाती है, वैसे ही मनुष्य विद्याआदि शुभ गुणों से भर पूर होकर परमेश्वर की महिमा देखने हुये नम्र होकर संसार में उपकार करें ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—७। ३२ । २२, २३; यजुर्वेद २७ । ३५, ३६;
सामवेद ७० १। १। ११; म० १ सा० ३। ३। ५ ॥

१—(अभि) सर्वतः (त्वा) (शूर) (नोनुमः) अ० २० । १२ । ४ ।
भृशं स्तुमः (अदुग्धाः) क्षीरपूर्वोधस्त्वेन वर्तमानाः (इव) यथा (धेनवः)
दोग्धयो गावः (ईशानम्) ईश्वरम् (अस्य) दृश्यमानस्य (जगतः) जंगमस्य
(स्वर्द्धशम्) सुखस्य दर्शयितारम् (ईशानम्) (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त (तस्युषः)
स्थावरस्य ॥

न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते ।
 अश्वोयन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ २ ॥
 न । त्वा-वाँ । अन्यः । दिव्यः । न । पार्थिवः । न । जातः ।
 न । जनिष्यते ॥ अश्व-यन्तः । मघ-वन् । इन्द्र । वाजिनः ।
 गव्यन्तः । त्वा । हवामहे ॥ २ ॥

भाषार्थ—(मघवन्) हे महाधनी (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन्] (त्वावान्) तेरे समान (अन्यः) दूसरा कोई (न) न तो (दिव्यः) आकाश में रहने वाला और (न) न (पार्थिवः) पृथिवी-पर रहने वाला है, और (न) न (जातः) उत्पन्न हुआ है, और (न) न (जनिष्यते) उत्पन्न होगा । (अश्वयन्तः) ओढ़े चाहते हुये, (गव्यन्तः) भूमि चाहते हुये, (वाजिनः) वेग वाले हम (त्वा) तुझ को (हवामहे) पुकारते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—परमेश्वर से तुल्य वा अधिक चलवान् संसार में कोई नहीं है, इस प्रकार उसकी उपासना करके मनुष्य अपना वैभव बढ़ावें ॥ २ ॥

सूक्तम् १२२ ॥

१—३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, २ गायत्री; ३ निचूद् गायत्री ॥

सभापतिलक्षणोपदेशः—सभापति के लक्षण का उपदेश ॥

रेवतीर्नः सधुमाद् इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । सुमन्तो याभि-
 मदेम ॥ १ ॥

रेवतीः । नः । सधु-माद् । इन्द्रे । सन्तु । तुवि-वाजाः ॥ सु-
 मन्तः । याभिः । मदेम ॥ १ ॥

२—(न) निषेधे (त्वावान्) त्वया सहस्रः (अन्यः) मित्रः कश्चित् (दिव्यः) दिवि आकाशे भवः (न) (पार्थिवः) पृथिव्यां विदितः (न) (जातः) उत्पन्नः (न) (जनिष्यते) उत्पत्स्यते (अश्वयन्तः) अश्वान् काम-यमानाः (मघवन्) महाधनिन् (इन्द्र) परमैश्वर्यवन् परमात्मन् (वाजिनः) वेगवन्तः (गव्यन्तः) गां भूमिमिच्छन्तः (त्वा) त्वाम् (हवामहे) आह्वयामः ॥

भाषार्थ—(इन्द्रे) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले सभापति] में (नः) हमारे (सधमादे) हर्ष युक्त उत्सव के बीच (रेवतीः) बहुत धन वाली और (तुविवाजाः) बहुत बल वाली [प्रजाये] (सन्तु) हों। (याभिः) जिन [प्रजाओं] के साथ (क्षुमन्तः) बहुत अन्न वाले होकर (मदेम) हम आनन्द पावें ॥ १ ॥

भावार्थ—सभापति प्रयत्न करे कि सब प्रजागण उद्योगी, धनी होकर सुखी हों ॥ १ ॥

• यह तुच ऋग्वेद में है—१।३०।१३—१५; सामवेद, उ० ४।१।तुच १४; म० १ सा० पू० २।६।८ ॥

आ घृ त्वावान् त्मनाप्तस्तोतृभ्यो धृष्णवियानः । ऋणोरक्षं
न चक्रयोः ॥ २ ॥

आ । घृ । त्वा-वान् । त्मना । आप्तः । स्तोतृ-भ्यः । धृष्णो
इति । इयानः ॥ ऋणोः । अक्षं । न । चक्रयोः ॥ २ ॥

आ यद् दुर्वः शतक्रतो वा कामं जरितृणाम् । ऋणोरक्षं न
शचीभिः ॥ ३ ॥

आ । यत् । दुर्वः । शतक्रतो इति शत-क्रतो । आ । कामं ।
जरितृणाम् ॥ ऋणोः । अक्षं । न । शचीभिः ॥ ३ ॥

• भाषार्थ—(धृष्णो) हे निर्भय ! [सभापति] (त्मना) अपने आप
(त्वावान्) अपने सदृश (आप्तः) आप्त [सच्चा उपदेशक] (इयानः)

१—(रेवतीः) धनवत्यः प्रजाः (नः) अस्माकम् (सधमादे)
आनन्देन सह वर्तमाने महोत्सवे (इन्द्रे) परमेश्वर्यवति सभाध्यक्षे (सन्तु)
(तुविवाजाः) बहुबलयुक्ताः (क्षुमन्तः) बहुविधाअयुक्ताः (याभिः) प्रजाभिः
(मदेम) हृष्येम ॥

२—(आ) अमितः (घ) एव (त्वावान्) त्वत्सदृशः (त्मना)
आत्मना (आप्तः) यथार्थज्ञाता । सत्योपदेशा (स्तोतृभ्यः) स्तावकैभ्यः

ज्ञानवान् तू (रतोत्सवः) स्तुति करने वालों के लिये- (घ) अवश्य (आ) सब प्रकार से (ऋणोः) प्राप्त हो, (न) जैसे (चक्रयोः) दोनों पहियों में (अक्षम्) धुरा [होता है ॥ २ ॥ (यत्) क्योंकि, (शतक्रतो) हे सैकड़ों बुद्धियों वा कर्मों वाले ! [सभापति] (जरितृणाम्) स्तुति करने वालों को (दुवः) सेवा को (कामम्) अपनी इच्छा के अनुसार (आ) सब ओर से (आ) पूरी शक्ति पर (ऋणोः) तू पाता है, (न) जैसे (अक्षम्) धुरा (शचीभिः) अपने कर्मों से [रथ को प्राप्त होता है] ॥ ३ ॥

भावार्थ—जैसे धुरा पहियों के बीच में रहकर सब बोझ उठाकर रथ को चलाता है, वैसे ही सभापति राज्य का सब भार अपने ऊपर रखकर प्रजा को उद्योगी बनावे और प्रजा भी उसकी सेवा करती रहे ॥ २, ३ ॥

सूक्तम् १२३ ॥

१—२ ॥ सूर्यो देवता ॥ त्रिष्टुप् छन्दः ॥

सूर्यकृत्योपदेशः—सूर्य के काम का उपदेश ॥

तत् सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तुर्विततं सं जभार ।
युदेदयुक्त हरितः सुधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥ १ ॥
तत् । सूर्यस्य । देव-त्वम् । तत् । सहि-त्वम् । मध्या । कर्तुः ।
वि-ततम् । सम् । जभारु ॥ युदा । इत् । अयुक्त । हरितः ।
सुध-स्थात् । आत् । रात्री । वासः । तनुते । सिमस्मै ॥ १ ॥

(धृष्टयो) हे निर्भय (इयानः) इङ् गतौ—कानच् । अभिज्ञाता (ऋणोः) ऋण गतौ, लोडर्थे-लङ् । प्राप्नुहि (अक्षम्) धूर् (न) इव (चक्रयोः) आह्वान-महनजनः । पा० ३ । २ । १७१ । करोतेः—कि प्रत्ययः । रथस्य चक्रयोः ॥

३—(आ) समन्तात् (यत्) यतः (दुवः) अ० । २० । ६६ । ५ । परि-चरणम् (शतक्रतो) बहुप्रज्ञ । बहुकर्मन् (आ) अभितः । पूरणतः (कामम्) यथेष्टम् (जरितृणाम्) स्तावकानाम् (ऋणोः) म० २ । प्राप्नोषि (अक्षम्) धूः (न) इव (शचीभिः) कर्मभिः ॥

भाषार्थ—(तत्) उस [ब्रह्म] ने (सूर्यस्य) सूर्य के (मध्या) बीच में (तत्) उस (विततम्) फैले हुये (देवत्वम्) प्रकाशपन को, (महित्वम्) बढप्पन को और (कर्तोः) [आकर्षण आदि] कर्म को (सम्जभारः) बटोर कर रख दिया है—कि (यदा इत्) जब ही वह [सूर्य] (हरितः) रस पहुंचाने वाली किरणों को (सधस्थात्) एक से स्थान से (अयुक्त) जोड़ता है, [आगे बढ़ाता है], (आत्) तभी (रात्री) रात्री (सिमस्मै) सब के लिये (वासः) वस्त्र [अन्धकार] (नजुते) फैलाती है ॥ १ ॥

भाषार्थ—जिस परमात्मा ने बहुत बड़े तेजस्वी, आकर्षक सूर्य लोक को बनाया है, और जो उस सूर्य और पृथिवी की गति से प्रकाश और रात्रि करके प्राणियों को कार्य कुशलता और विभ्राम देता है, सब मनुष्य उस जगदीश्वर की उपासना करें ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—१। ११५। ४, ५ ॥

तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्यौरुपस्थे ।
अनुन्तमन्यद् रुशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्हरितः सं भरन्ति ॥२
तत् । मित्रस्य । वरुणस्य । अभिचक्षे । सूर्यः । रूपम् ।
कृणुते । द्योः । उप-स्थे ॥ अनुन्तम् । अन्यत् । रुशत् अस्य ।
पाजः । कृष्णम् । अन्यत् । हरितः । सम् । भरन्ति ॥ २ ॥

भाषार्थ—(तत्) उस (अनुन्तम्) अनन्त [ब्रह्म] के द्वारा (द्याः)

१—(तत्) प्रसिद्धं ब्रह्म (सूर्यस्य) रविमण्डलस्य (देवत्वम्) प्रकाशत्वम् (तत्) प्रसिद्धम् (महित्वम्) महस्त्वम् (मध्या) विभक्तेराकारः । मध्ये (कर्तोः) करोते—तोसुनप्रत्ययः । कर्म (विततम्) विस्वृतम् (सम्) संचित्य (जभार) जहार । गृहीतवान् (यदा) (इत्) एव (अयुक्त) युनक्ति (हरितः) रसप्रापकान् रशमीन् (सधस्थात्) समानस्थानात् (आत्) अनन्तरम् (रात्री) (वासः) वस्त्रम् । अन्धकारम् (नजुते) विस्तारयति (सिमस्मै) सर्वस्मै संसाराय ॥

२—(तत्) तेन (मित्रस्य) प्राणस्य (वरुणस्य) उदानस्य (अभिचक्षे)

प्रकाश के (उपस्थे) गोदमें (मित्रस्य) प्राण वायु और (वरुणस्य) उदान वायु के (अभिचक्षे) सब ओर देखने के लिये (सूर्यः) प्रेरणा करने वाला सूर्य लोक (रूपम्) रूप को (कृणुते) बनाता है, (अस्य) इस [सूर्य]-के (अन्यत्) एक (रुशत्) प्रकाश और (अन्यत्) दूसरे (कृष्णम्) आकर्षण (पाजः) बल को (हरितः) दिशायें (सम्) मिलकर (भरन्ति) धारण करती हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—परमेश्वर के नियम से सूर्य लोक अने प्रकाश से वायु में नीचे ऊपर जाने का बल उत्पन्न करके पृथिवी आदि लोकों को सब दिशाओं में आकर्षण में रखता है ॥ २ ॥

सूक्तम् १२४ ॥

१—६ ॥ १—३ इन्द्रो देवता; ४—६ इन्द्रो विश्वे देवाश्च देवताः ॥

१ गायत्री; २ निचृद् गायत्री, ३ पाद निचृद् गायत्री; ४ विराट् पङ्क्तिः; ५, ६ निचृत् त्रिष्टुप् ॥

राजप्रजाधर्मोपदेशः—राजा और प्रजा के धर्म का उपदेश ॥

कया नश्चित्र आ भुवदुती सदावृधुः सखा । कया शचिष्ठया वृता ॥ १ ॥

कया । नः । चित्रः । आ । भुवत् । ज्ती । सदा-वृधः । सखा ॥ कया । शचिष्ठया । वृता ॥ १ ॥

भाषार्थ—(चित्र !) विचित्र वा पूज्य और (सदावृधः) सदा बढ़ाने

चक्षिद् दर्शने—किप् । संमुखदर्शनाय (सूर्यः) प्रेरकः सविता (रूपम्) चक्षु-ग्राह्यगुणम् (कृणुते) करोति (द्योः) प्रकाशस्य (उपस्थे) उपस्थाने मध्ये (अनन्तम्) अन्तरहितेन ब्रह्मणा (अन्यत्) एकम् (रुशत्) रुश हिंसायाम्—शतृ—रुशदिति वर्णनाम रोचतेर्ज्वलतिकर्मणः—निख० २। २०। ज्वलितवर्णम् दीप्यमानम् (अस्य) सूर्यस्य (पाजः) बलम् (कृष्णम्) आकर्षणम् (अन्यत्) द्वितीयम् (हरितः) दिशः (सम्) एकी भूय (भरन्ति) धरन्ति ॥

१—(कया) अन्येष्वपि दृश्यते । पा० ३ । २ । १०१ । कर्मः क्रमेर्वा—उपत्ययः क्रमे रेफलोपः स्त्रियां टाप् । कः कमनो वा क्रमणो वा सुजो वा—

वाला [राजा] (नः) हमारी (कया) कमनीय वा क्रमणशील [आगे बढ़नी हुई], अथवा सुख देने वाली [वा कौन सी] (ऊती) रक्षा से और (कया) कमनीय आदि [वा कौन सी] (शचिष्ठया) अति उत्तम वाणी वा कर्म वा बुद्धि वाले (वृता) वर्ताव से (सखा) [हमारा] सखा (आ) ठीक ठीक (भुवत्) होवे ॥ १ ॥

भाषार्थ—राजा और प्रजा प्रयत्न करके परस्पर प्रीति रखें ॥ १ ॥

मन्त्र १—३ ऋग्वेद में हैं—४। ३१। १—३; यजुर्वेद २७। ३६-४१ तथा ३६। ४—६; सामवेद ३०। १। १। त्व १२, म० १ मा० पू० २। ८। ५ ॥

कस्त्वा सुत्यो मदानां संहिष्ठो मत्सुदन्धसः । दृह्ला चिद्रासजे वसु ॥ २ ॥

कः । त्वा । सुत्यः । मदानाम् । संहिष्ठः । मत्सुत् । अन्धसः ॥
दृह्ला । चित् । आ-सजे । वसु ॥ २ ॥

भाषार्थ—(कः) कमनीय वा आगे बढ़ता हुआ, वा सुख देने वाला (सत्यः) सत्य शील वाला, (मदानाम्), आनन्दों और (अन्धसः) अज्ञ का (संहिष्ठः) महादानी राजा (दृह्ला) दृढ़ (वसु) धनों को (चित्) अवश्य

निरु १०। २२। कमनीयया क्रमणशीलया गतिवत्या । सुखप्रदया । अथवा प्रश्नवाचकोऽस्ति (नः) अस्माकम् (चित्रः) अमिचिमि० । ३० ४ । १६४ । चित्र चयने-क्त्र । चित्रं चायनीयम्—निरु० १२। ६ । अद्भुतः । पूज्यः (आ) समन्तात् (भुवत्) भवतेर्लेट् । भवेत् (ऊती) उत्था रक्षया । गत्या (सदावृधः) वृधु—क । सदा वर्धमानो वर्धयिता वा (सखा) सुहृद् (कया (शचिष्ठया) शची—इष्टन् मत्वर्थीयलोपः । शची=वाक्-निघ० १। ११ । कर्म-२ । १ । प्रहा-३ । ११ । अतिश्रेष्ठया वाचा क्रियया प्रज्ञया वा युक्तया (वृता) वृत्त-किप् । वृत्या । वर्तनेन ॥

२—(कः) म० १ । कमनीयः । क्रमणशीलः । सुखप्रदः (त्वा) त्वां प्रजाजनम् (सत्यः) सत्सु साधुः (मदानाम्) आनन्दानाम् (संहिष्ठः) अ० २०। १५। १ । दातृत्वमः (मत्सुत्) आनन्दयेत् (अन्धसः) अज्ञस्य (दृह्ला) दृढानि (चित्) अवश्यम् (आसजे) दृशे विख्ये च । पाठ ३ । ४ । ११ । आ +

(आरुजे) खोलदेने के लिये (त्वा) तुम्हें [प्रजा जन] को (मन्सद्) वृत्त करे ॥ २ ॥

भावार्थ—सत्यशील राजा सुनोद्वि से प्रजा को प्रसन्न रखकर धन धान्य को बढ़ावे ॥ २ ॥

शुभी पु शुः सखीनाम्विता जरितृणाम् । श्रुतं भवास्त्युतिभिः ३
श्रुभि । सु । नः । सखीनाम् । अ्विता । जरितृणाम् ॥ श्रुतम् ।
भवास्ति । ऊति-भिः ॥ ३ ॥

भाषार्थ—[हे राजन् !] (सखीनाम्) [अपने] सखाओं और (जरितृणाम्) स्तुति करने वाले (नः) हम लोगों का (सु) उत्तम (अ्विता) रत्नक होकर तू (श्रुतम्) सौ प्रकार से (ऊतिभिः) रत्नाओं के साथ (श्रुभि) सामने (भवास्ति) होवे ॥ ३ ॥

भावार्थ—जिस प्रकार प्रजांगण राजा के हित के लिये प्रयत्न करें, वैसे ही राजा भी उनका हित करे ॥ ३ ॥

इमा नु कं भुवना वीषधामेन्द्रं विश्वं च देवाः । युजं च
नस्तन्वं च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सुह वीकल्पति ॥ ४ ॥

इमा । नु । कम् । भुवना । वीषधाम् । इन्द्रः । च । विश्वं ।
च । देवाः ॥ युजम् । च । नः । तन्वंम् । च । प्र-जाम् ।
च । आदित्यैः । इन्द्रः । सुह । वीकल्पति ॥ ४ ॥

रजो भद्रं—केत तुमर्थे । समन्ताद् भङ्कुम् । प्रकाशयितुम् (वसु) वसुनि । धनानि ॥

३—(श्रुभि) अभिसुखम् (सु) (नः) अस्माकम् (सखीनाम्) सुह-
वाम् (अ्विता) रत्नकः (जरितृणाम्) न्तोतृणाम् । सद्गुणविदाम् (श्रुतम्)
सहप्रकारेण (भवास्ति) लेटि रूपम् । मन्त्रैः (ऊतिभिः) रत्नाभिः ॥

भाषार्थ—(इमा) यह (भुवना) उत्पन्न पदार्थ, (च) और (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला सभापति] (च) और (विश्वे) सब (देवाः) विद्वान् लोग हम (तु) शीघ्र (कम्) सुख को (सोप्तधाम) सिद्धकरे । (आदित्यैः सह) अन्नरह ब्रतधारी विद्वानों के साथ (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला सभापति] (नः) हमारे (यक्षम्) यक्ष [मेल मिलाप आदि] को (च) और (नन्वम्) शरीर (च) और (प्रजाम्) प्रजा [सन्तान आदि] को (च) भी (चीकृत्पाति) नमर्थ करे ॥ ४ ॥

भावार्थ—सभापति राजा और सभासद लोग संसार के सब पदार्थों से उपकार लेकर सब की यथावत् रक्षा करें ॥ ४ ॥

मन्त्र ४—६ आद्युक्ते हे—अथ० २० । ६३ । १—३ ॥

आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्धिरस्माकं भूत्वविता तनूनाम् ।
हृत्वार्यं देवा असुरान् यदार्यन् देवा देवत्वमभिरक्षमाणाः ॥५॥
आदित्यैः । इन्द्रैः । स-गणः । मरुत्-भिः । अस्माकम् ।
भूतु । अविता । तनूनाम् ॥ हृत्वार्यं । देवाः । असुरान् ।
यत् । आर्यन् । देवाः । देव-त्वम् । अभि-रक्षमाणाः ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(सगणः) गणों [सुमद वीरों] के साथ वर्तमान (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला सभापति] (आदित्यैः) अन्नरह ब्रतधारी (मरुद्धिः) शूर मनुष्यों के साथ (अस्माकम्) हमारे (तनूनाम्) शरीरों का (अविता) रक्षक (भूतु) होवे । (यत्) क्योंकि (असुरान्) असुरों [दुराचारियों] को (हृत्वार्यं) मारकर (देवाः) विजय चाहने वाले, (अभिरक्षमाणाः) सब ओर से रक्षा करने लगे (देवाः) विद्वानों ने (देवत्वम्) देवतापन [उत्तम पद] (आर्यन्) पाया है ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य शूर वीर विद्वानों के साथ प्रजा की रक्षा कर सके, वही अपने उत्तम कर्मों के कारण उत्तम पद सभापतित्व आदि के योग्य होवे ॥५॥
मृत्यञ्चमर्कमनयं खचीभिरादित् स्वधामिषिरां पर्यपश्यन् ।
अथा वाजं देवहितं सनेमु मर्दम शुतहिमाः सुवीराः ॥ ६ ॥

प्रत्यञ्चस् । अर्कस् । अनयन् । शचीभिः । आत् । इत् ।
स्वधाम् । इषिराम् । परि । अपश्यन् ॥ अया । वाजम् ।
देव-हितम् । सनेम् । सदेम । शत-हिमाः । सु-वीराः ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ—(प्रत्यञ्चम्) प्रत्यक्ष पाने योग्य (अर्कम्) पूजनीय व्यवहार
को (शचीभिः) अपने कर्मों से (अनयन्) उन [विद्वानों] ने प्राप्त कराया है,
और (आत् इत्) तमी (इषिराम्) चकाने वाली (स्वधाम्) आत्म धारण
शक्ति को (परि) सब ओर (अपश्यन्) देखा है । (अया) हली [नीति] से
(शतहिमाः) सौ वर्षों जीते हुये (सुवीराः) उत्तम वीरों वाले हम (देवहितम्)
विद्वानों के हितकारी (वाजम्) विज्ञान की (सनेम्) देवों और (सदेम)
आनन्द करें ॥ ६ ॥

भावार्थ—जैसे विद्वान् लोग अपने उत्तम कर्मों से संसार का उपकार
करने रहे हैं, वैसे ही हम श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति से मनुष्यों को वीर बनाकर
आनन्द देंगे ॥ ६ ॥

सूक्तम् १२५ ॥

१—७ ॥ १—३, ६, ७ इन्द्रः, ४, ५ अश्विनौ देवते ॥ १—त्रिष्टुप्, २, ३
निचृत् त्रिष्टुप्, ४ निचदनष्टुप्, ५—७ विराडाधी त्रिष्टुप् ॥

राजधर्मोपदेशः—राजा के धर्म का उपदेश ॥

अपेन्द्रु प्राचो सधवन्मिज्ञानपापाचो अभिभूते नुदस्व ।
अपोदीचो अप-शूराधुराच उरौ यथा तव शर्मन् सदेम ॥१॥
अप । इन्द्र । प्राचः । सध-वन् । मिज्ञान् । अप । अपाचः ।
अभि-भूते । नुदस्व ॥ अप । उदीचः । अप । शूर । अधु-
राचः । उरौ । यथा । तव । शर्मन् । सदेम ॥ १ ॥

भाष्यार्थ—(सधवन्) हे महाधनी ! (अभिभूते) हे विजयी ! (शूर)

१—(अप) इन्द्र (इन्द्र) परमेश्वर्यवन् राजन् (प्राचः) प्र + अश्नते—

हे शूर ! (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (प्राचः) पूर्व वाले (अमित्रान्) वैरियों को (अप) दूर, (अपाचः) पश्चिम वाले [वैरियों] को (अप) दूर, (उदीचः) उत्तर वाले [वैरियों] को (अप) दूर, और (अधराचः) दक्षिण वाले [वैरियों] को (अप) दूर (जुदस्व) हटा, (यथा) जिस से (तव) तेरी (उरौ) चौड़ी (शर्मन्) शरण में (मदेम) हम आनन्द करें ॥ १ ॥

भावार्थ—प्रतापी राजा सब दिशाओं के शत्रुओं का नाश करके प्रजा को सुख देवे ॥ १ ॥

यह सूक्त कुछ भेद से ऋग्वेद में है—१० । १३१ । १—७ ॥

कुविदुङ्ग यवमन्तो यवं चिद् यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूयं । इहे-
हैषां कृणुहि भोजनानि ये बर्हिषो नमोवृक्ति न जुग्मुः ॥ २ ॥

कुवित् । अङ्ग । यव-मन्तः । यवम् । चित् । यथा । दान्ति ।
अनु-पूर्वम् । वि-यूयं ॥ इह-इह । एषाम् । कृणुहि । भोज-
नानि । ये । बर्हिषः । नमः-वृक्तिम् । न । जुग्मुः ॥ २ ॥

भाषार्थ—(अङ्ग) हे [राजन् ।] (यवमन्तः) जौ आदि धान्य वाले [किसान लोग] (यथा चित्) जैसे ही (यवम्) जौ आदि धान्य को (अनु-पूर्वम्) क्रम से (वियूयं) अलग अलग करके (कुवित्) घड़न प्रकार (दान्ति) काटते हैं । (इहेह) इस इस [व्यवहार] में (एषाम्) उन [लोगों] के

किन्, शस् । प्राग्देशे वर्तमानान् (मघवन्) महाधनिन् (अमित्रान्) पीडकान् वैरिणः (अप) (अपाचः) पश्चिमदेशे वर्तमानान् (अभिभूते) अभिभवितः (जुदस्व) प्रेरय । दूरे गमय (अप) (उदीचः) उत्तरदेशे वर्तमानान् (अप) (शूर) (अधराचः) दक्षिणदिशि वर्तमानान् (उरौ) विस्तीर्णं (यथा) येन प्रकारेण (तव) (शर्मन्) शर्मणि । शरणे (मदेम) हृष्येम ॥

२—(कुवित्) घड़लम् (अङ्ग) हे (यवमन्तः) यवादिधान्ययुक्ताः कर्षकाः (यवम्) यवादिकम् (चित्) एव (यथा) (दान्ति) लुनन्ति (अनुपूर्वम्) यथाक्रमम् । धान्यानां जातिपाकक्रमेण (वियूयं) पृथक् कृत्य (इहेह) अस्मिन्नस्मिन् व्यवहारे (एषाम्) पुरुषाणाम् (कृणुहि) कुरु

(भोजनानि) भोजनों और धनों को (कृणुहि) कर, (ये) जिन (बर्हिषः) बढ़ती करते हुये लोगों ने (नमोवृक्तिम्) सत्कार के न्याग को (न) नहीं (जग्मुः) पाया है ॥ २ ॥

भावार्थ—जैसे चतुर किसान जो गेहूँ आदि धान्य को काटकर उन की जाति और पकने के अनुसार पकत्र करते हैं, वैसे ही राजा आशाकारी कर्मकुशल प्रजा गणों को उनकी योग्यता के अनुसार भोजन और धन आदि दान करे ॥ २ ॥

यह मन्त्र कुछ भेद-से यजुर्वेद में भी है—१० । ३२; १६ । ६; तथा २३ । ३८ ॥

नहि स्थूर्युतुथा यातमस्ति नीत श्रवो विविदे संगमेषु ।
गव्यन्त इन्द्रं सुख्याय विप्रा अशदायन्तो वृषणं वाजयन्तः ॥३
नहि । स्थूरि । ऋतु-था । यातम् । अस्ति । न । उत । श्रवः ।
विविदे । सु-गमेषु ॥ गव्यन्तः । इन्द्रम् । सुख्याय । विप्राः ।
अश्व-यन्तः । वृषणम् । वाजयन्तः ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(स्थूरि) ठहरा हुआ [ढीला] काम (ऋतुथा) ऋतु के अनुसार [ठीक समय पर] (यातम्) पाया हुआ (नहि) नहीं (अस्ति) होता है, (उत) और [इसी कारण] (संगमेषु) समाजों [वा संग्रामों] में (श्रवः) यश (न) नहीं (विविदे) मिलता है, (सुख्याय) मित्रता के लिये (वृषणम्) बलवान् (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले राजा] को (वाजयन्तः) वेगवान्

(भोजनानि) भोगसाधनानि खाद्यानि धनानि च (ये) पुरुषाः (बर्हिषः) वृद्धिकराः (नमोवृक्तिम्) वृजी वर्जने-क । नमस्कारस्य सत्कारस्य वर्जनं त्यागकरणम् (न) निषेधे (जग्मुः) प्रापुः ॥

३—(नहि) न कदापि (स्थूरि) स्थः किञ्च । उ० ५ । ४ । छा गतिवृत्तौ-ऊरञ् । गतिशून्यं प्रवृत्तिरहितं कर्म (ऋतुथा) ऋतौ । निश्चिनसमये (यातम्) प्राप्तं समाप्तम् (अस्ति) (न) निषेधे (उत) अपि (श्रवः) यशः (विविदे) लोडर्थे लिट् । लभ्यते प्राप्यते (संगमेषु) समाजेषु । संग्रामेषु (गव्यन्तः) भूमि-मिच्छन्तः (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं राजानम् (सुख्याय) सखिकर्मणे (विप्राः)

बनाते हुये (विप्राः) बुद्धिमान् लोग (गव्यन्तः) भूमि चाहने हुये और (अश्व-
यन्तः) घोड़े चाहते हुये है ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य कार्य आरम्भ करके आलस के मारे छोड़ देता है,
वह यश नहीं पाता है, इस लिये वह विद्वानों से शिक्षा पाकर राज्य आदि कामों
को पुरुषार्थ से चलावे ॥ ३ ॥

युवं सुराममश्विना नमुचावासुरे सर्वा ।

विपिपाना शुभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम् ॥ ४ ॥

युवम् । सुरामम् । अश्विना । नमुची । आसुरे । सर्वा ॥

वि-पिपाना । शुभः । पुती इति । इन्द्रम् । कर्म-सु ।

आवृत्तम् ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(शुभः पती) हे शुभ व्यवहार के पालन करने हारे (अश्विना)
कर्मों में व्यापक [सभापति और सेनापति] (सर्वा) मिले हुये (विपिपाना)
विविध प्रकार रक्षक (युवम्) तुम दोनों ने (नमुची) न छोड़ने योग्य [सदा
रखने योग्य] (आसुरे) बुद्धिमान् पुरुष के व्यवहार में (कर्मसु) कर्मों के बीच
वर्तमान्, (सुरामम्) भले प्रकार आनन्द देने वाले (इन्द्रम्) इन्द्र [परम
पेश्वर्य वाले धनी पुरुष] को (आवृत्तम्) रक्षा की है ॥ ४ ॥

भाषार्थ—प्रजा और सेना के अधिकारी मिलकर व्यवहार कुशल धनी
पुरुषों की रक्षा करके खेती आदि व्यापारों से प्रजा को सुख पहुंचावे ॥ ४ ॥

मन्त्र ४; ५ यजुर्वेद में भी हैं—१० । ३३, ३४ तथा २० । ७६, ७७ ॥

मेधाधिनः (अश्वयन्तः) तुरगानिच्छन्तः (वृषणम्) बलवन्तम् (वाजयन्तः)
वेगवन्तं कुर्वन्तः ॥

४—(युवम्) युवाम् (सुरामम्) सुष्ठु रमयितारं आनन्दयितारम् (अश्विना)
कर्मसु व्यापकौ सभासंनेशौ (नमुची) अ० २० । २१ । ७ । अमोचनीये । सदा
रक्षणीये (आसुरे) असुर—अण् । असुः प्रहा—निघ० ३ । ६, रो मत्वर्थे ।
असुरस्य मेधाधिनः पुरुषस्य व्यवहारे (सर्वा) समवेतौ (विपिपाना) पा रक्षणे—
कानच् । विविधं रक्षणीयौ (शुभः) कल्याणकरस्य व्यवहारस्य (पती) पालकौ
(इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्त धनिकम् (कर्मसु) (आवृत्तम्) युवा रक्षितवन्तौ ॥

पुत्रसिद्धं पितरौ अश्विनोभेन्द्रावधुः काव्यैर्दंसनाभिः । यत्
सुराम् अपिबः शचीभिः सरस्वती त्वा मघवन् अभिष्णक् ॥ ५ ॥

पुत्रसु-इव । पितरौ । अश्विना । उभा । इन्द्र । आवधुः ।
काव्यैः । दंसनाभिः ॥ यत् । सुरामम् । वि । अपिबः ।
शचीभिः । सरस्वती । त्वा । मघवन् । अभिष्णक् ॥ ५ ॥

भाष्यार्थ—(पितरौ) माता पिता (पुत्रम् इव) जैसे पुत्र को [वैसे]
(अश्विना) कामों में व्यापक [सभापति और सेनापति] (उभा) तुम दोनों
ने (काव्यैः) बुद्धिमानों के किये व्यवहारों से और (दंसनाभिः) दर्शनीय क्रियाओं
से [राज्य की] (आवधुः) रक्षा की है, और (मघवन्) हे महाधनी (इन्द्र)
इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (यत्) क्योंकि (सुरामम्) बड़े आनन्द देने
वाले [आनन्द रस] को (शचीभिः) अपनी बुद्धियों से (वि) विविध प्रकार
(अपिबः) तू ने पिया है, (सरस्वती) सरस्वती [विज्ञान युक्त विद्या] ने
(त्वा) तुझ को (अभिष्णक्) सेवन किया है ॥ ५ ॥

भावार्थ—जब प्रजा और सेना के अधिकारी पूरी प्रीति से प्रजा की
रक्षा करते हैं, और जब मुख्य सभापति राजा भी तस्व जानने वाला होता है,
उस राज्य में विद्या की वृद्धि होती है ॥ ५ ॥

इन्द्रः सुत्रामां स्वतां शचीभिः सुमृडीको भवतु विश्ववेदाः ।
वार्धतां ह्रुवेषो अभयं नः कृणोतु सुवीर्यस्यु पतयः स्याम ॥६॥

५—(पुत्रम्) सन्तानम् (इव) यथा (पितरौ) जननीजनकौ (अश्विना)
कर्मसु व्यापकौ सभासेनेशौ (उभा) द्वौ (इन्द्र) परमेश्वर्यवन् राजन् (आवधुः)
राज्यं रक्षितवन्ती युवाम् (काव्यैः) कविभिर्मन्त्राविभिर्निर्मितैर्व्यवहारैः (दंस-
नाभिः) अथ० २० । ७४ । २ । दर्शनीयानि क्रियाभिः (यत्) यतः (सुरामम्)
म० ४ । शोभनानन्दयितारम् (वि) विविधम् (अपिबः) पीतवानसि (शचीभिः)
प्रजाभिः (सरस्वती) विज्ञानयुक्ता विद्या (त्वा) (मघवन्) महाधनिन्
(अभिष्णक्) मिष्णञ् उपसेवायां कण्डवादिः, लङ्, चक्रो लुक् छान्दसः ।
उपसेवताम् ॥

इन्द्रः । सु-वामा । स्व-वान् । अवः-भिः । सु-मृडोक्तः ।
भवतु । विश्व-वेदाः ॥ वाधताम् । ह्वेषः । अभयम् । नः ।
कृणोतु । सु-वीर्यस्य । पतयः । स्याम् ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(सुवामा) बड़ा रक्षक, (स्ववान्) बहुत से ज्ञाति पुरुषों
वाला, (विश्ववेदाः) बहुत धन वा ज्ञान वाला (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य
वाला राजा] (अवोभिः) अनेक रक्षाओं से (सुमृडोक्तः) अत्यन्त सुख देने
वाला (भवतु) होवे । वह (द्वेषः) वैरियों को (वाधताम्) हटावे, (नः)
हमारे लिये (अभयम्) निर्भयता (कृणोतु) करे और हम (सुवीर्यस्य) बड़े
पराक्रम के (पतयः) पालन करने वाले (स्याम) हों ॥ ६ ॥

भाषार्थ—राजा दुष्ट स्वभावों और दुष्ट लोगों को नाश करके प्रजा की
रक्षा करे ॥ ६ ॥

मन्त्र ६, ७, आनुके हैं—अथ० ७ सू० ६१, ६२ ॥

स सुवामा स्ववान् इन्द्रो अस्मद्वाराच्चित् ह्वेषः सनुतयुयोतु ।
तस्य वयं सुमती यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ ७ ॥

सः । सु-वामा । स्व-वान् । इन्द्रः । अस्मत् । आरात् ।
चित् । ह्वेषः । सनुतः । युयोतु ॥ तस्य । वयम् । सु-मती ।
यज्ञियस्य । अपि । भद्रे । सौमनसे । स्याम् ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(सः) वह (सुवामा) बड़ा रक्षक, (स्ववान्) बड़ा धनी,
(इन्द्रः) इन्द्र [महा प्रतापी राजा] (अस्मत्) हम से (आरात् चित्) बहुत
ही दूर (द्वेषः) शत्रुओं को (सनुतः) निर्णय पूर्वक (युयोतु) हटावे । (वयम्)
हम लोग (तस्य) उस (यज्ञियस्य) पूजा योग्य [राजा] की (अपि) ही
(सुमती) सुमति में और (भद्रे) कल्याण करने वाली (सौमनसे) प्रसन्नता
में (स्याम) रहें ॥ ७ ॥

भाषार्थ—सब मनुष्य प्रजा रक्षक, शत्रुनाशक राजा की आज्ञा में रह-
कर सदा प्रसन्न रहें ॥ ७ ॥

सूक्तक्त १२ई ॥

१—२३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ५—७ १०—१५, १८, १९, २३ पङ्क्तिः, २
विराडापी पङ्क्तिः, ३, ४, ८, ९, २०—२२ निचूत् पङ्क्तिः, १६, १७ विराट्
पङ्क्तिः ॥

गृहस्थकर्तव्योपदेशः—गृहस्थ के कर्तव्य का उपदेश ॥

वि हि सोतो रसृ'सुतु नेन्द्रं देवमसंसत । यवामदद् वृषाकपि-
र्यः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १ ॥

वि । हि । सोतोः । असृ'सुत । न । इन्द्रं । देवम् । असं-
सुत ॥ यव । असदत् । वृषाकपिः । अर्यः । पुष्टेषु । मत्-
सखा । विश्वस्मात् । इन्द्रः । उत्-तरः ॥ १ ॥

भाषार्थ—(हि) क्योंकि (सोतोः) तत्त्व रस का निकालना (वि
असृजत) उन्होंने ने [लोको ने] छोड़ दिया है, [इली से] (देवम्) विद्वान्
(इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले मनुष्य आत्मा] को (न असंसत) उन्होंने ने
नहीं जाना, (यत्र) जहाँ [संसारे में] (अर्यः) स्वामी (मत्सखा) मेरा
[देह वाले का] साथी (वृषाकपिः) वृषाकपि [बलवान् कपाने वाले अर्थात्
चेष्टा कराने वाले जीवात्मा) ने (पुष्टेषु) पुष्टि कारक-धर्मों में (असदत्)

१—(वि) वियोगे (हि) यस्मात् कारणात् (सोतोः) ईश्वरे तो-
सुत्कसुनौ । पा० ३ । ४ । १३ । सुञ् अभिववे—तोसुत् । अभिषोतुम् । तत्त्वरसं
निष्पादयितुम् (असृजत) विसृष्टवन्तः । त्यक्तवन्तः (नि) निषेधे (इन्द्रम्)
परमैश्वर्यवन्तं मनुष्यम् (देवम्) विद्वान्सम् (असंसत) मन ज्ञाने-लुङ् ।
ज्ञातवन्तः (यत्र) यस्मिन् संसारे (असदत्) हृष्टोऽभूत् (वृषाकपिः) कनिन्
युवृपिनक्षि० । उ० १ । १५६ । वृष सेवने पराक्रमे च—कनिन्, यद्वा, इगुपधका-
प्रीकिरः । पा० ३ । १ । १३५ । इति क्रप्रत्ययः । कुण्ठकम्प्योर्नलोपश्च । उ० ४ ।
१४४ । कपि चलने-इप्रत्ययः । अन्येषामपि दृश्यते । पा० ६ । ३ । १३७ । इति
दीर्घः । वृषाकपिः पदनाम-निघ० ५ । ६ । अथ यद् रश्मिभिरभिप्रकम्पयन्नेति
तद् वृषाकपिर्भवति वृषाकम्पनः—निघ० १३ । २७ । हरविष्णु वृषाकपी—

आनन्द पाया है, (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले मनुष्य] (विश्वस्मात्) सय [प्राणी मात्र] से (उत्तरः) उत्तम है ॥ १ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य, दूसरे जीवों से अधिक उत्तम और तत्त्व ज्ञानी होने पर भी अपने सामर्थ्य और कर्तव्या को भूल जाते हैं, वे आत्मघाती संसार में सुख कभी नहीं पाते ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—१०।८६।१—२३ ॥

मूचना—इस सूक्त में इन्द्र, वृषाकपि, इन्द्राणी और वृषाकपायी का वर्णन है। इन्द्र शब्द से मनुष्य का शरीरधारी जीवात्मा, वृषाकपि से भीतरी जीवात्मा, इन्द्राणी से इन्द्र की विभूति वा शक्ति और वृषाकपायी से वृषाकपि की विभूति वा शक्ति पात्पर्य है, अर्थात् एक ही मनुष्य के जीवात्मा का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से है। इन्द्र अर्थात् शरीरधारी मनुष्य सव प्राणियों से श्रेष्ठ है, वह अपने को बुराई से बचाकर भलाई में सदा लगावे—सूक्त का यही सारांश है ॥

परा हीन्द्र धावसि वृषाकपेरति व्यथिः । नो अहु प्रविन्द-
स्युन्यत्र सोमपीतये विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २ ॥

परा । हि । इन्द्र । धावसि । वृषाकपेः । अति । व्यथिः ॥
नो इति । अह । प्र । विन्दसि । अन्यत्र । सोम-पीतये ॥२

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र । [बड़े पेश्वर्य वाले मनुष्य] तू (हि) ही (वृषाकपेः) वृषाकपि [बलवान् चेष्टा कराने वाले जीवात्मा] से (अति) अत्यन्त (व्यथिः) व्याकुल होकर, (परा) दूर (धावसि) दौड़ता है ।

अमरः, २३।१३०। वृषाकपि.=विष्णुः, शिवः, अग्निः, इन्द्रः, सूर्यः—इति शब्दकल्पद्रुमः । वृषा बलवान्, कपिः कम्पयिता चेष्टयिता इन्द्रो जीवात्मा (अर्थः) स्वामी (पुष्टेषु) पोषकेषु धनेषु (मत्सखा) मम शरीरधारिणः सखा (विश्वस्मात्) सर्वस्मात् प्राणिमात्रात् (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् शरीर-धारी मनुष्यः (उत्तरः) श्रेष्ठतरः ॥

२—(परा) दूर (हि) अवधारणे (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् मनुष्य (धावसि) शीघ्र गच्छसि (वृषाकपेः) म० १ । बलवच्चेष्टाकारकाज्-जीवात्मनः (अति) अत्यन्तम् (व्यथिः) सर्वधातुभ्य इन् । उ० ४ । ११८ ।

(अन्यत्र) [अपने आत्मा से] दूसरे [प्राणी] में (सोमपीतये) सोम [तत्त्व रस] के पान के लिये (नो अह) कभी नहीं (प्र विन्द्रसि) तू पाया जाता है, (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेशवर्य वाला मनुष्य] (विश्वस्मात्) सब [प्राणी मात्र] से (उत्तरः) उत्तम है ॥ २ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य आत्मज्ञान के बिना कष्टों से व्याकुल होकर अपने सामर्थ्य को सोचकर काम करता है, वही तत्त्व मार्ग पर चलकर आप सुखी होता और सब को सुखी करता है ॥ २ ॥

किमुयं त्वां वृषाकपिश्चकार हरितो मृगः । यस्माद् हरस्यसीदु
न्वर्षोवापुष्टिमद् वसु विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ३ ॥

किम् । अयम् । त्वाम् । वृषाकपिः । चकार । हरितः । मृगः ॥
यस्मै । हरस्यसि । इत् । ज इति । नु । अयः । वा । पुष्टि-
मद् । वसु । ० ॥ ३ ॥

भाषार्थ—[हे मनुष्य] (किम्) कौनसा [अपकार] (अयम्) इस (हरितः) छीन लेने वाले, (मृगः) घूमने वाले मृग [जंगली पशु के समान] (वृषाकपिः) वृषाकपि [बलवान् चेष्टा कराने वाले जीवात्मा] ने (त्वाम्) तुझ को (चकार) किया है ? (यस्मै) जिस [जीवात्मा] के लिये (अयः) स्वामी होकर तू (पुष्टिमत्) पुष्टि रखने वाले (वसु) धन का (इत्) भी (वा) अवश्य (उ) निश्चय करके (नु) अब (हरस्यसि) डाह करता है, (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेशवर्य वाला मनुष्य] (विश्वस्मात्) सब [प्राणी मात्र] से

व्यथ भयसंचलनयोः—इन् । व्याकुलः (नो) नैव (अह) निश्चयेन (प्र) (विन्द्रसि) लभसे । प्राण्य से (अन्यत्र) स्वात्मनो भिन्ने (सोमपीतये) तत्त्वरसपानाय । अन्यत् पूर्ववत् ॥

३—(किम्) किमपकारम् (अयम्) विद्यार्थमाणः (त्वाम्) मनुष्यम् (वृषाकपिः) म० १ । बलवच्चचेष्टाकारको जीवात्मा (चकार) कृतवान् (हरितः) हरणशीलः (मृगः) मृगो माष्टेगतिकर्मणः—निरु १३ । ३ । अमण-
शीलो घनरश्मिर्धा (यस्मै) वृषाकपये जीवात्मने (हरस्यसि) हरस ईष्यार्था
कण्डुवादिः । ईर्षसि (इत्) अपि (उ) एव (नु) इदानीम् (अयः) स्वामी

(उत्तरः) उत्तम है ॥ ३ ॥

भावार्थ—मनुष्य को चाहिये कि पशु के समान आचरण अर्थात् पाप-बुद्धि और डाह छोड़कर पुरुषार्थ से वृद्धि करे ॥ ३ ॥

यमिसं त्वं वृषाकपिं प्रियमिन्द्राभिरक्षसि । श्वा न्वस्य
जम्भिषदपि कर्णे वराहयुर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ४ ॥

यम् । इमम् । त्वम् । वृषाकपिम् । प्रियम् । इन्द्र । अभि-
रक्षसि ॥ श्वा । नु । अस्य । जम्भिषत् । अपि । कर्णे ।
वराह-युः । ० ॥ ४ ॥

भावार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य] (त्वम्) तू
(यम्) जिस (इमम्) इस (प्रियम्) प्यारे (वृषाकपिम्) वृषाकपि [बल-
वान् चेष्टा कराने वाले जीवात्मा] की (अभिरक्षसि) सब ओर से रक्षा करे,
[तौ] (नु) क्या (वराहयुः) सुअर को दूढ़ने वाला (श्वा) कुत्ता [अर्थात्
पाक कर्म] (अस्य) इस [सुअर अर्थात् जीव] के (अपि) भी (कर्णे)
कान में (जम्भिषत्) काटेगा, (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला मनुष्य]
(विश्वस्मात्) सब [प्राणी मात्र] से (उत्तरः) उत्तम है ॥ ४ ॥

भावार्थ—जब सब प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य अपने आत्मा को अपने
वश में कर लेता है, तब उसको कोई पाप कर्म ऐसा नहीं सताता है, जैसे
कुत्ता सुअर को कान पकड़कर शंभोर डालता है ॥ ४ ॥

प्रिया तुष्टानि मे कुपिर्व्यस्ता व्यदूदुषत् । शिरो न्वस्य
राविषं न सुगं दुष्कृते भुवं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ५ ॥

(वा) अवधारणे (पुष्टिमत्) पोषथुकम् (वस्तु) धनम् । सिद्धमन्यत् ॥

४—(यम्) जीवात्मानम् (इमम्) शरीरे विद्यमानम् (त्वम्)
(वृषाकपिम्) म० १ । बलवत् चेष्टाकारकं जीवात्मानम् (प्रियम्) इष्टम्
(इन्द्र) परमैश्वर्यवान् मनुष्य (अभिरक्षसि) परिपालयसि (श्वा) कुक्कुरः
(नु) प्रश्ने (अस्य) जीवात्मनः (जम्भिषत्) भक्षयेत् (अपि) एव (कर्णे)
श्रोत्रे (वराहयुः) वराहं शंकरमिच्छन् । अन्यद् गतम् ॥

प्रिया । तुष्टानि । मे । कपिः । वि-अक्ता । वि । अद्दुदुषत् ॥
शिरः । नु । अस्य । राविषम् । न । सु-गम् । दुः-कृते ।
भुवम् । ० ॥ ५ ॥

भाष्यार्थ—(कपिः) कपि [चंचल जीवात्मा] ने (मे) मेरे (व्यक्तानि) स्वच्छ किये हुये (प्रिया) प्यारे (तष्टानि) कर्मों को (वि) विरुद्धपन से (अद्दुदुषत्) दूषित कर दिया है (अस्य) इस [पाप कर्म] के (शिरः) शिर को (नु) अब (राविषम्) मैं काट डालूँ, और (दुःकृते) दुष्ट कर्म में (सुगम्) सुगम (न) नहीं (भुवम्) हो जाऊँ, (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला मनुष्य] (विश्वस्मात्) सब [प्राणी मात्र] से (उत्तरः) उत्तम हैं ॥ ५ ॥

भाष्यार्थ—विद्वान् जितेन्द्रिय मनुष्य के मन में यदि पाप की लहर उठे, वह ज्ञान से उस को सर्वथा नष्ट करके अपना महत्त्व दृढ़ बनाये रखे ॥ ५ ॥

न सत्स्त्री सुभसत्तरा न सुयाशुतरा भुवत् । न सत् प्रतिच्य-
वीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ६ ॥

न । सत् । स्त्री । सुभसत्-तरा । न । सुयाशु-तरा । भुवत् ॥
न । सत् । प्रति-च्यवीयसी । न । सक्थ्य । उत्-यमीयसी । ०६

भाष्यार्थ—(स्त्री) कोई स्त्री (सत्) मुझ से (न) न (सुभसत्तरा)

५—(प्रिया) कमनीयानि (तष्टानि) कृतानि कर्माणि (मे) मम (कपिः) म० १ । कुरिठकम्प्योर्नलोपश्च । उ० ४ । १४४ । कपि चलने—इप्रत्ययः । चपलो जीवात्मा (व्यक्ता)—वि + अङ्—क । स्वच्छीकृतानि (वि) विरोधे (अद्दुदुषित्) दुष वैकृत्ये—णिच् लुङ् । दूषितवान् (शिरः) मस्तकम् (नु) इदानीम् (अस्य) पापकर्मणः (राविषम्) रुद् गतिरेषणयोः—लुङ्, अडभावः । सुनीयाम् (न) निषेधे (सुगम्) यथा तथा सुगमम् (दुःकृते) दुष्टकर्मणि (भुवम्) भवेयम् । अन्यद् गतम् ॥

६—(न) निषेधे (सत्) मत्तः (स्त्री) अन्या नारी (सुभसत्तरा) शूद्-

अधिक बड़ी शोभा वाली, (न) न (सुयाशुतरा) अधिक सुन्दर बल वाली, (न) न (मत्) मुझ से (प्रतिच्यवीयसी) अधिक सहने वाली और (न) न (सकृधि) जंघा [आदि शरीर के अंगों] को (उद्यमीयसी) उद्योग में अधिक लगाने वाली (भुवत्) होवे, (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला मनुष्य] (विश्वस्मात्) सब [प्राणी मात्र] से (उत्तरः) उत्तम है ॥ ६ ॥

भाषार्थ—स्त्रियां भी मनुष्य शरीर पाकर सब प्रकार विद्या ग्रहण करें और कर्तव्य में चतुर बनकर अन्यस्त्रियों और प्राणियों से अपनी शोभा अधिक बढ़ावें ॥ ६ ॥

उवे अम्ब सुलाभिके यथेवाङ्ग भविष्यति । भुसन्मे अम्बु सक्थि से शिरः से वीव हृष्यति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥७॥

उवे । अम्बु । सुलाभिके । यथा-इव । अङ्ग । भुविष्यति ॥

भुसत् । से । अम्बु । सक्थि । से । शिरः । से । वि-इव ।

हृष्यति । ० ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(उवे) हे (अम्ब) अम्मा ! (अङ्ग) हे (सुलाभिके) सुन्दर लाभ कराने वाली ! (यथा इव) जैसा कुछ (भविष्यति) आगे होगा [वैसा किया जावे], (अम्ब) हे अम्मा ! (मे) मेरा (भसत्) चमकता हुआ कर्म, (मे) मेरी (सकृधि) जंघा, (मे) मेरा (शिरः) शिर (वि) विविध

भलोऽदिः । उ० १ । १३० । भस दीप्तौ—अदि । अधिकसुदीप्यमाना । सुभगतरा (न) (सुयाशुतरा) यत्तु प्रयत्ने—उत्तु, सस्य शः । अतिशयेन सुप्रयतमाना (भुवत्) भवेत् (न) (मत्) (प्रतिच्यवीयसी) च्युङ् सहने गतौ च—तृच, ईयसुन् । प्रत्यक्षेणाधिकच्यावयित्री । अधिकसहनशीला (न) (सकृधि) जंघादिशरीराङ्गजातम् (उद्यमीयसी) यत्तु उपरमे—तृच, ईयसुन् । अतिशयेन उद्यमयित्री । अन्यद् गतम् ॥

७—(उवे) संबोधने निपातः । हे (अम्ब) मातः (सुलाभिके) शोभनलाभे (यथा इव) येन प्रकारेणैवोक्तं तथैव (अङ्ग) हे (भविष्यति) भवतु (भसत्) म० ६ । दीप्यमानं कर्म (मे) मम (अम्ब) (सकृधि) म०

प्रकार से (इव) ही (हृष्यति) आनन्द देवे, (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला मनुष्य] (विश्वस्मात्) सब [प्राणी मात्र] से (उत्तरः) उत्तम है ॥ ७ ॥

भावार्थ—सब लड़के लड़कियां गुणवती माता से, शरीर के अङ्गों से सुन्दर चेष्टा करके बलवान् और गुणवान् होना सीखें ॥ ७ ॥

किं सुबाहो स्वङ्गुरे पृथुष्टो पृथु जघने । किं शूरपत्नि नुस्त्व-
अभ्यमीषि वृषाकपिं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ८ ॥

किम् । सुबाहो इति सु-बाहो । सु-अङ्गुरे । पृथुस्तो इति
पृथु-स्तो । पृथु-जघने ॥ किम् । शूर-पत्नि । नः । त्वम् ।
अभि । अभ्यमीषि । वृषाकपिम् । ० ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(सुबाहो) हे बलवान् भुजाओं वाली ! (स्वाङ्गुरे) हे
हृद् अंगुलियों वाली ! (पृथुजघने) हे मोटी जंघाओं वाली ! (पृथुष्टो) हे
बड़ी स्तुति वाली ! [कुलवधू] (किम्) क्यों, (शूरपत्नि) हे शूर की पत्नी !
(किम्) क्यों, (त्वम्) तू (नः) हमारे (वृषाकपिम्) वृषाकपि [बलवान्-
चेष्टा कराने वाले जीवात्मा] को (अभि) सर्वथा (अभ्यमीषि) पीड़ा देगी,
(इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला मनुष्य] (विश्वस्मात्) सब [प्राणी मात्र]
से (उत्तरः) उत्तम है ॥ ८ ॥

भावार्थ—रूपवती, बलवती, गुणवती स्त्री पुत्र पुत्रियों को रूपवान्,
बलवान् और गुणवान् बनाकर पति आदि को सदा प्रसन्न करे ॥ ८ ॥

अवीरामिव मामयं शूरारुभिर्मन्यते । उताहमस्मि वीरि-

६ । जंघा (मे) (शिरः) (मे) (वि) विविधम् (इव) अवधोरणे (हृष्यति)
हर्षयतु । अन्यद् गतम् ॥

८—(किम्) आक्षेपे । किमर्थम् (सुबाहो) बलयुक्तभुजापेते (स्वाङ्गुरे),
हृद्भागुलिके (पृथुष्टो) अथ० ७ । ४६ । १ । पृथुस्तो—हु । बह्वस्तुतियुक्ते
(पृथुजघने) स्थूलजघ्ने (किम्) (शूरपत्नि) हे वीरस्य भार्ये (नः) अस्मा-
कम् (त्वम्) (अभि) सर्वतः (अभ्यमीषि) अम पीडने । आमयसि । पीडयिष्यसि
(वृषाकपिम्) म० १ । बलवन्तं चेद्वयिनारं जीवात्मानम् । अन्यत् पूर्ववत् ॥

वीन्द्रपत्नी मरुत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ८ ॥

अवीराम्-इव । माम् । अथम् । शराहः । अमि । मन्यते ॥
उत । अहम् । अस्मि । वीरिणी । इन्द्र-पत्नी । मरुत्-सखा०

भाषार्थ—(अथम्) यह (शराहः) अपकारी मनुष्य (माम्) मुझ [स्त्री] को (अवीराम् इव) अवीर स्त्री के समान (अमि मन्यते) मानता है, (उत) और (अहम्) मैं (वीरिणी) वीरिणी [वीर सन्तानों वाली], (इन्द्र-पत्नी) इन्द्र पत्नी [बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य की पत्नी], और (मरुत्सखा) विद्वान् वीरों को साथी रखने वाली (अस्मि) हैं, (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला मनुष्य] (विश्वस्मात्) सब [प्राणी मात्र] से (उत्तरः) उत्तम है ॥ ८ ॥

भावार्थ—वीर पत्नी स्त्री वीर सन्तानों और वीर पुरुषों के साथ रहकर दुष्टों से निर्भय होवे ॥ ८ ॥

संहोत्रं स्म पुरा नारी समनं वाव गच्छति । वेधा ऋतस्य
वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १० ॥

सम्-होत्रम् । स्म । पुरा । नारी । समनम् । वा । अथ ।
गच्छति ॥ वेधाः । ऋतस्य । वीरिणी । इन्द्र-पत्नी ।
महीयते । ० ॥ १० ॥

भाषार्थ—(नारी) नारी [नरों का हितकरने हारी स्त्री] (पुरा) पहिले काल से (स्म) ही (संहोत्रम्) मिलकर अग्नि होत्र आदि यज्ञ करने (वा) और (समनम्) मिलकर जीवन करने को, (अथ गच्छति) जानती है । (ऋतस्य)

४—(अवीराम्) अबलाम् (इव) यथा (माम्) स्त्रियम् (अथम्) (शराहः) शूच्योराहः । पा० ३ । २ । १७३ । शू हिसायाम्—आरु । धातुकः । अपकारी (अमि) आभिमुख्ये (मन्यते) जानाति (उत) अपि च (अहम्) स्त्री (अस्मि) (वीरिणी) वीरसन्तानवती (इन्द्रपत्नी) इन्द्रस्य ऐश्वर्यवनः पुरुषस्य भार्या (मरुत्सखा) मरुद्भिर्निद्रुमिः शूरैर्युक्ता । अन्यद् गतम् ॥

१०—(संहोत्रम्) पत्यादिभिः सहाग्निहोत्रादियज्ञम् (स्म) एव (पुरा) पुस्त्यात् (नारी) नराणां हिता स्त्री (समनम्) अन प्राणने—अथ । सहजी-

सत्य ज्ञान का (वेधाः) विधान करने वाली (वीरिणी)-वीरिणी [वीर सन्तानों वाली], (इन्द्रपत्नी) इन्द्रपत्नी [बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य की स्त्री] (महीयते) पूजी जाती है, (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला मनुष्य] (विश्वस्मात्) सब [प्राणी मात्र] से (उत्तरः) उत्तम श्रेष्ठ है ॥ १० ॥

भाषार्थ—जो ज्ञानवती स्त्री अपने सदृश वीर पति से विवाह करके वीर सन्तानें उत्पन्न करती है, वही सैमार में बड़ाई पाती है ॥ १० ॥

इन्द्राणीमासु नारिषु भर्गामहमश्रवम् । नृह्यस्या अपरं च न
जरसा मरते पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ११ ॥

इन्द्राणीम् । आसु । नारिषु । सु-भर्गाम् । अहम् । अश्रवम् ॥
नृहि । अस्याः । अपरम् । च न । जरसा । मरते । पतिः । ० ॥ ११ ॥

भाषार्थ—(आसु)-इन (नारिषु) बलाधी गयी प्रजाओं के बीच (इन्द्राणीम्) इन्द्राणी [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष की विभूति वा शक्ति] को (सुभ-गाम्) बड़ी भगवतो [ऐश्वर्य वाली] (अहम्) मैं ने (अश्रवम्) सुना है (अस्याः) इस [विभूति] का (पतिः) पति [पालन करने वाला, इन्द्र यह मनुष्य] (अपरम् च न) दूसरे प्राणियों के समान (जरसा) वयोहानि से (नहि) नहीं (मरने) मरता है, (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला मनुष्य] (विश्वस्मात्) सब [प्राणी मात्र] से (उत्तरः) उत्तम है ॥ ११ ॥

वनम् (वा) समुच्चये (सव गच्छति) जानाति (वेधाः) विधात्री (ऋतस्य) सत्यज्ञानस्य (वीरिणी) म० ६ (इन्द्रपत्नी) म० ६ (महीयते) पूज्यते । अन्यद् गतम् ॥

११—(इन्द्राणीम्) इन्द्राणीन्द्रस्य पत्नी—निरु० ११ । ३७-। इन्द्राणी-इन्द्रस्य पत्नी इन्द्रस्य विभूतिः—दुर्गाचार्यः । परमैश्वर्यवतः पुरुषस्य विभूतिं शक्तिम् (आसु) दृश्यामानासु (नारिषु) वसिष्ठपियत्रि० उ० ४ । १२५ । नृ-नये-इत् । नीतासु प्रजासु (सुभगाम्) बह्वैश्वर्यवतीम् (अहम्) मनुष्यः (अश्र-वम्) अश्रौषम् । भूतवानस्मि (नहि) नैव (अस्याः) विभूते, (अपरम्) अन्यन् प्राणिवीतम् (च न) सादृश्ये (जरसा) वयोहान्या । निर्बलत्वेन (मरते) क्षिपते । पतिः) पालकः । अन्यद् गतम् ॥

भावार्थ—यह वेदादि शास्त्रों से प्रसिद्ध है कि उन्नतिशाल मनुष्य अपनी बुद्धि आदि शक्तियों को ठिकाने रखकर सदा चलवान रहकर यशस्वी होवे ॥ ११ ॥

नाहमिन्द्राणि ररण सख्युर्वृषाकपेऋते । यस्येदप्यं ह्रविः
मियं देवेषु गच्छति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १२ ॥

न । अहम् । इन्द्राणि । ररण । सख्युः । वृषाकपेः । ऋते ॥
यस्य । इदम् । अप्यम् । ह्रविः । मियम् । देवेषु । गच्छति । ० ॥ १२ ॥

भाषार्थ—(इन्द्राणि) दे इन्द्राणी ! [इन्द्र, बड़े पेश्वर्यवान् मनुष्य की विभूति] (सख्युः) सखा (वृषाकपेः) वृषाकपि [अलघान् चेष्टा कराने वाले जीवात्मा] के (ऋते) बिना (अहम्) मैं [शरीरधारी] (न) नहीं (ररण) चलसकता, (यस्य) जिस [वृषाकपि, जीवात्मा] का (इदम्) यह (अप्यम्) प्रजाओं का हितकारी (मियम्) प्यारा (ह्रविः) हवि [देने लेने योग्य, घृत, जल आदि पदार्थ] (देवेषु) विद्वानों में (गच्छति) पहुँचता है, (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला मनुष्य] (विश्वस्मात्) सब [प्राणी मात्र] से (उत्तरः) उत्तम है ॥ १२ ॥

० भावार्थ—मनुष्य अपनी शक्ति को अपने मित्र जीवात्मा के साथ बढ़ाकर स्वस्थ रह, और सब प्राणियों से उत्तम होकर मोक्ष सुख पावे ॥ १२ ॥

वृषाकपायि रेवति सुपुत्र आदु सुसुपे । घवत् तु इन्द्रं
उदायः मियं काचित्करं ह्रविर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १३ ॥
वृषाकपायि । रेवति । सु-पुत्रे । आत् । ऊं इति । सु-सुपे ॥

१३—(न) निवेशे (अहम्) शरीरी जीवः (इन्द्राणि) म० ११ । हे पर-मेश्वर्यवतः पुरुषस्य विभूते (ररण) रण गती शब्दे च—लडर्थे लिट् । गच्छामि (सख्युः) सखिभूतात् (वृषाकपेः) म० १ । बलवत्तश्चेष्टयितुर्जीवात् (ऋते) बिना (यस्य) वृषाकपेः (इदम्) इत्यमानम् (अप्यम्) अपां प्रजानां हितम् (ह्रविः) दातव्यग्राह्यं घृतजलादिकम् (मियम्) प्रीतिकरम् (देवेषु) विद्वत्सु (गच्छति) प्राप्सते । अन्वत् लिट् ॥

घसत् । ते । इन्द्रः । उक्षाणः । प्रियम् । काचित्-करम् । हविः । १० ॥ १३

भाषार्थ—(वृषाकपायि) हे वृषाकपायी ! [वृषाकपि यज्ञवान्, वेष्टा कराने वाले जीवात्मा की विभूति] (रेवति) हे धनवाली ! (सुपुत्रे) हे वीर पुत्रों की करने वाली ! (सुस्तुपे) हे बहुत सुख बरसाने वाली ! (आत् उ) लगातार ही (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाली मनुष्य] (ते) तेरे (उक्षाणः) बढ़ती करने वाले पदार्थों को (घसत्) खावे, वह (प्रियम्) (प्यारा) (काचित्-करम्) सुख का सब ओर से एकत्र करने वाला (हविः) हवि [म० १२ । घृत, जल आदि पदार्थ] है, [क्योंकि] (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला मनुष्य] (विश्वस्मात्) सब [प्राणी मात्र] से (उत्तरः) उत्तम है ॥ १३ ॥

भावार्थ—मनुष्य आत्मबल को अपनी विभूति में संयुक्त करके संसार के सब पदार्थों से उपकार लेकर आनन्द पावे ॥ १३ ॥

उक्षाणो हि मे पञ्चदश सुकं पचन्ति विश्रुतिम् । उताहमस्मि
पीषु इदुभा कुक्षी पृणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १४ ॥
उक्षाणः । हि । पञ्च-दश । सुकम् । पचन्ति । विश्रुतिम् ॥

१३—(वृषाकपायि) म० १। वृषाकप्यग्नि० पा०। ४। १। ३७। वृषाकपि—डीप्, ऐकारादेशश्च । वृषाकपायी वृषाकपेः पत्न्यपैवाभिसृष्टकालतमा निरु० १२। ८। वृषाकपायी वृषाकपेः पत्नी, वृषाकपिराहित्यः, तस्यै पत्नी, तद्विभूतिः इति दुर्गाचार्यः । वृषाकपायी श्रीगौर्योः—इत्यमरः, २३। १५६। लक्ष्मीः, गौरी, स्वाहा, शची, जीवन्ती, शतावरी—इति शब्दकल्पद्रुमः । हे वृषाकपेर्जीवात्मनो विभूते (रेवति) धनवति (सुपुत्रे) सु वीराः पुत्रा यस्याः संकाशात् सा सुपत्रा तत्सम्बुद्धौ (आत्) अन्तर्गम (उ) एव (सुस्तुपे) स्तुभश्चि० । ड० ३। ६६। षण् प्रसवणे—सः कित्, टाप् । स्तुषा साधुसाधिनीति वा साधुसाधिनीति वा स्वपत्यं तत् सनोतीति वा—निरु० १२। ६। षडसुखस्य वर्षयिञि (घसत्) घसत् अदने—लेट् । भक्षयेत् (ते) तव (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् मनुष्यः (उक्षाणः) उक्षातेर्बृद्धिकर्मणः—निरु० १२। ६। वृद्धिकरान् पदार्थान् (प्रियम्) इष्टम् (काचित्करम्) क + आ + चिभ् चयने—किप्, तुक् + करोतेः—अच् । सुखाचयकरं सुखकरम्—निरु० १२। ६। कं सुखं तस्याचित् संघः, तत्करम् (हविः) म० १२। घृतजलादिकम् । अन्यद् गतम् ॥

उत् । अहम् । अस्मि । पीवः । उभा । कुक्षी इति । पृणन्ति । मे०१४

भाषार्थ—(पञ्चदश, विंशतिम्) पन्द्रह, बीस [अर्थात् बहुत से] (उच्यः) बढ़ती करने वाले पदार्थों को (मे) मेरे लिये (हि) ही (साकम्) एक साथ (पचन्ति) वे [ईश्वर नियम] परिपक्व करते हैं, (उत्) और (अहम्) मैं, पीवः) उन के पुष्टि कारक रस को (इत्) ही (अस्मि) खाता हूँ, और (मे) मेरी (उभा) दोनों (कुक्षी) कोखों को (पृणन्ति) वे [पदार्थ] भरते हैं, (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले मनुष्य] (विश्वस्मात्) सब [प्राणी-मात्र] से (उत्तरः) उत्तम है-॥ १४ ॥

भावार्थ—परमात्मा ने संसार में अनेक उपकारी पदार्थ उत्पन्न किये हैं, मनुष्य उन का सार लेकर शरीर और आत्मा की पुष्टि करे ॥ १४ ॥

वृषभो न तिग्मशृङ्गोऽन्तर्युषेषु रोरुवत् । मन्थस्त इन्द्रांशं हृदे यं ते सुनोति भावयुर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १५ ॥

वृषभः । न । तिग्म-शृङ्गः । अन्तः । युषेषु । रोरुवत् ॥ मन्थः । ते । इन्द्र । शम् । हृदे । यम् । ते । सुनोति । भावयुः । ०॥१५

भाषार्थ—(इन्द्र) हैं इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले मनुष्य] (युषेषु अन्तः) यूरों के बीच (रोरुवत्) दहाडते हुये, (तिग्मशृङ्गः) तीक्ष्ण सींगों वाले (वृषभः न) बेल के समान, (मन्थः) वह तख रस (ते) तेरे (हृदे) हृदय के लिये (शम्) शान्ति दायक हो, (यम्) जिस [तख रस] को (ते) तेरे

१४—(उच्यः) म० १३ । वृद्धिकरान् पदार्थान् (हि) एव (मे) मह्यम् (पञ्चदश, विंशतिम्) बहुसंख्याकान् (साकम्) सह (पचन्ति) परिपक्वान् कर्षन्ति ते परमेश्वरनियमाः (उत्) अपि च (अहम्) मनुष्यः (अह्मि) अक्षयाभि (पीवः) पीव स्थौल्ये-असुन् । पुष्टिकरं रसम् (इत्) एव (उभा) उभौ-द्वौ (कुक्षी) उदरस्य वामदक्षिणपार्श्वौ (पृणन्ति) पूरयन्ति ते पदार्थाः (मे) मम । अन्यद् गतम् ॥

१५—(वृषभः) पुङ्गवः (न), इव (तिग्मशृङ्गः) तीक्ष्णविषाणः (अन्तः) मध्ये (युषेषु) सजातीयसमूहेषु (रोरुवत्) काशब्दे-यद्भुक्ति शब्द-भूषं भवति कुर्षन् (मन्थः) तखरसः (ते) तव (इन्द्र) परमेश्वर्यवान् मनुष्य

लिये (भावयुः) मत्ता चाहने वाला [परमात्मा] (सुनोति) मथता है।
[क्योंकि] (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य-वाला मनुष्य] (विश्वस्मात्) सब
[प्राणी मात्र] से (उत्तरः) उत्तम है ॥ १५ ॥

भावाथ—जैसे बलवान् सांड अपने भुंड़ों को बश में करके सुख को
प्राप्त होता है, वैसे ही प्रतापी मनुष्य परमात्मा के उत्पन्न किये पदार्थों से तत्त्व
रस ग्रहण करके सुखी होवे ॥ १५ ॥

न सेशे यस्य रम्बतेऽन्तरा सुकथ्या ३ कपृत् । सेदीशे यस्य
रोमशं निषेदुषो विजृम्भते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १६ ॥

न । सः । ईशे । यस्य । रम्बते । अन्तरा । सुकथ्या । कपृत् ॥
सः । इत् । ईशे । यस्य । रोमशम् । नि-सेदुषः । वि-जृम्भते ॥ १६ ॥

भाषार्थ—(सः) वह पुरुष (न ईशे) पेश्वर्यवान् नहीं होता है,
(यस्य) जिस का (कपृत्) शिर पालने वाला कपाल (सुकथ्या अन्तरा)
हानों जंघाओं के बीच (रम्बते) नीचे लटकता है, (सः इत्) वही पुरुष
(ईशे) पेश्वर्यवान् होता है, (यस्य निषेदुषः) जिस बड़े हुये [विचारते हुये]
पुरुष का (रोमशम्) रोम वाला मस्तक [ज्ञान सामर्थ्य] (विजृम्भते) फैलता
है, (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला मनुष्य] (विश्वस्मात्) सब [प्राणी मात्र]
से (उत्तरः) उत्तम है ॥ १६ ॥

भावाथ—मनुष्य को चाहिये कि आलस्य से मस्तक झुकाकर अपने

(शम्) सुखदः (हृदे) हृदयाय (यम्) मन्थम् (ते) तुभ्यम् (सुनोति)
निष्पादयति (भावयुः) भावं संतामिच्छुकः । अन्यद् गतम् ॥

१६—(न) निषेधे (सः) पुरुषः (ईशे) ईष्टे । पेश्वर्यवान् भवति
(यस्य) (रम्बते) लस्यरः । लस्यते । अथस्तादाश्रियते (अन्तरा) मध्ये
(सुकथ्या) सुकथिनी । जंघे (कपृत्) क + पृ पालने-किप्, तुक् । कस्य
शिरसः पालकः । कपालः (सः) (इत्) एव (ईशे) ईष्टे (यस्य) (रोम-
शम्) मस्त्वर्थे शप्रत्ययः । रोमशुकं मस्तकम् (निषेदुषः) उपविष्टस्य (विजृम्भते
विघृतं भवति । निदनीर्यते । अन्यद् गतम् ॥

ज्ञान को संकुचित न करे, किन्तु शिर को सब ओर खुलाकर मन्त्री भान्ति विचारकर ज्ञान बढ़ाता हुआ अपना इन्द्रत्व दिखावे ॥ १६ ॥

न शेषे यस्य रोमशं निषेदुषो विजृम्भते । मेदीशे यस्य रम्ब-
तेऽन्तरा सुकथ्या इ कपृत् विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १७ ॥

न । सः । ईशे । यस्य । रोमशम् । नि-सेदुषः । वि-जृम्भते ॥

सः । इत् । ईशे । यस्य । रम्बते । अन्तरा । सुकथ्या । कपृत् ०१७

भाषार्य—(सः) वह पुरुष (न ईशे) पेश्वर्यवान् नहीं होता, (यस्य निषेदुषः) जिस बैठे हुये [आलसी] का (रोमशम्) रोम वाला मस्तक (विजृम्भते) जमाई लेना है, (सः इत्) वही पुरुष (ईशे) पेश्वर्यवान् होता है, (यस्य) जिस का (कपृत्) शिर पालने वाला कपाल (सुकथ्या अन्तरा) दोनों जंघाओं के बीच [ध्यान में] (रम्बते) नीचे लटकता है, (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले मनुष्य] (विश्वस्मात्) सब [प्राणी मात्र] से (उत्तरः) उत्तम है ॥ १७ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य आलस्य से शिर झुकाकर आंगन लगाने हैं, उन को विद्या, सुवर्ण और राज्य आदि पेश्वर्य नहीं मिलता, पेश्वर्य उन को मिलता है जो शिर को झुकाकर अपना आपा साचते हुये इन्द्र बनते हैं ॥ १७ ॥

अथमिन्द्र वषाकपिः परस्वन्तं हुतं विदत् । अंसि सुनां नवं
चुरुमादेधुस्थानु आचितुं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १८ ॥

अथम् । इन्द्र । वषाकपिः । परस्वन्तम् । हुतम् । विदत् ॥

अंसिम् । सुनाम् । नवम् । चुरुम् । आत् । एधस्य । अन्तः ।

आ-चितम् ० ॥ १८ ॥

भाषार्य—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले मनुष्य] (अथम्) इस (वषाकपिः) वषाकपि [बलवान् चेष्टा कराने वाले जीवात्मा] ने (पर-

१७—(विजृम्भते) आलस्येन जृम्भां मुखविकाशं करोति। अत्यत् पूर्ववत् ॥

१८—(अथम्) प्रसिद्धः (इन्द्र) परमेश्वर्यवान् मनुष्य (वषाकपिः)

स्वन्तम्) पालने वाले व्यवहार-को (हतम्) नाश किया हुआ (विदत्) पाय है, (आत्) तभी (नवम्) नवीन (चरम्) स्थान [अर्थात् देश निकास] [अथवा] (अस्मिम्) तलवार, (सूनाम्) वध स्थान, और (एधस्य) इन्धन का (आचितम्) भरा हुआ (अनः) झकड़ा [पाया है], (इन्द्रः) इन्द्र [वड़े ऐश्वर्यवाला मनुष्य] (विश्स्मात्) सब [प्राणी मात्र] से (उत्तरः) उत्तम है ॥ १८ ॥

भावार्थ—जो पायी आत्मा उपकारी व्यवस्था को तोड़े, उस को दण्ड रीति से ऐसा कष्ट भोगना चाहिये, जैसे कोई अपराधी देश से निकाला जावे, अथवा तलवार आदि शस्त्र से मारकर लकड़ी से भस्म किया जावे ॥ १८ ॥

अयमैमि विचाकशह् विचिन्वन् दासु सार्यम् । पिबामि पाकु-
सुत्वन्तोऽभि धीरंसर्वाकशु विश्स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १८ ॥

अयम् । इमि । वि-चाकशत् । वि-चिन्वन् । दासुम् । सार्यम् ॥
पिबामि । पाकु-सुत्वन्तः । अभि । धीरम् । अचाकशम् ० १८ ॥

भावार्थ—(विचाकशत्) विविध प्रकार सुशोभित हुआ, और (दासुम्) डाकू और (सार्यम्) सार्य [श्रेष्ठ पुरुष] को (विचिन्वन्) पहि-
चानता हुआ (अयम्) यह मैं [इन्द्र] (एमि) चलता हूँ, (पाकुसुत्वन्तः) पक्के विद्वान् के तत्त्व रस का (पिबामि) पान करता हूँ और (धीरम्)-धीर

म० १ । बलवान्-चेष्टयिता जीवात्मा (परस्वन्तम्) पृ पालनपूरणयोः—
असुन् । पालनवन्तं व्यवहारम् (हतम्) हिंसितम् (विदत्) अविदत् । प्राप्तवान्
(अस्मिम्) खड्गम् (सूनाम्) पृ क्षेपे—क्त, टाप् । प्राणिवधस्थानम् (नवम्)
नवीनम् (चरम्) चरस्थानम् । विवासनम् (आत्) अनन्तरम् (एधस्य)
इन्धनस्य (अनः)-शकटम् (आचितम्) पूर्णम् । अन्यद् गतम् ॥

१६—(अयम्) इन्द्रः (एमि) गच्छामि (विचाकशत्) अ० १३ । ३ ।
१ । काश्ट दीप्ती चङ्गुकि शत् । विविधं भृशं शोभमानः (विचिन्वन्) चिन्
चयने—शत् । परिचिन्वन् । विशेषेण जानन् (दासुम्) उपक्षेपयितारम् ।
दस्युम् (सार्यम्) श्रेष्ठं पुरुषम् (पिबामि) पानं करोमि (पाकुसुत्वन्तः) पुञ्

[बुद्धिमान्] को (अग्नि) सब प्रकार (अचाकशम्) सुशोभित करता हूँ, (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला मनुष्य] (विश्वस्मात्) सब [प्राणी मात्र] से (उत्तरः) उत्तम है ॥ १६ ॥

भावार्थ—मनुष्य विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों से सुशोभित होकर, दुष्टों और शिष्टों की विवेचना करके शिष्टों का मान और दुष्टों का अपमान करता हुआ इन्द्रत्व दिखावे ॥ १६ ॥

धन्वं च यत् कुन्तत्रं च कति स्वित् ता यि योजना । नेदीयसो
वृषाकपेऽस्तुमेहि गृहान् उप विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २० ॥

धन्वं । च । यत् । कुन्तत्रम् । च । कति । स्वित् । ता । यि । वि ।
योजना ॥ नेदीयसः । वृषाकपे । अस्तम् । आ । इहि ।
गृहान् । उप । ० ॥ २० ॥

भावार्थ—(यत्) जो (कुन्तत्रम्) काटने योग्य वन (च च) और (धन्वं) निर्जल देश है, (ता) वे (कति स्वित्) कितने ही (योजना) योजना (वि) दूर दूर हैं । (वृषाकपे) हे वृषाकपि ! [बलवान् चेष्टा कराने वाले जीवात्मा] तू (नेदीयसः) अधिक समीप वाले (गृहान्) घरों को और (अस्तम्) अपने घर को (उप) आदर से (आ इहि) आ, (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला मनुष्य] (विश्वस्मात्) सब [प्राणी मात्र] से (उत्तरः) उत्तम है ॥ २० ॥

अभिपवे—कनिष् । पाकः पकड्यो भवति विपकप्रस आत्मा—निरु० ३ । १२ ।
विपकप्रसस्य तरवरसस्य (अग्नि) सर्वतः (धीरम्) बुद्धिमन्तम् (अचाकशम्)
काण्ड दीप्तौ यद् लुकि लङ् । शोभयामि । अन्यद् गतम् ॥

२०—(धन्वं) धन्वानि । निर्जलदेशान् (च) (यत्) (कुन्तत्रम्)
कृतेर्नुम् च । ४० ३ । १०६ । कृती छेदने—कत्रन् लुम् च । छेदनीयं वनम् (च)
(कति) किंपरिमाणानि (स्वित्) प्रश्ने (ता) तानि धन्वानि (वि) विंश-
ष्टानि (योजना) चतुः क्रोशस्थस्थानानि (नेदीयसः) अतिशयेन समीपस्थान्
(वृषाकपे) म० १ । हे बलवान् चेष्टयितर्जीवात्मन् (अस्तम्) स्वगृहम् (आ
इहि) आगच्छ (गृहान्) (उप) आदरे । अन्यद् गतम् ॥

भाष्यार्थ—मनुष्य को चाहिये कि कठिनाई पड़ने पर आत्मघाती
अर्थात् हताश न होवे, किन्तु धैर्य धारण कर टिकाने पर आ जाये ॥ २० ॥

पुनरेहि वृषाक्षये सुविता कल्पयावहे । य सुष स्वमनशनोऽस्म-
न्नेषि पथा पुनर्विशस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २१ ॥

पुनः । आ । इहि । वृषाक्षये । सुविता । कल्पयावहे ॥ यः ।
सुषः । स्वमनशनः । अस्तम् । एषि । पथा । पुनः । ० ॥२१॥

भाष्यार्थ—(वृषाक्षये) हे वृषाक्षय ! [मनुष्य को कष्ट करने वाले
जंघात्मा] तू (पुनः) फिर (आ इति) आ, (सुविता) ऐश्वर्य कर्मी को
(कल्पयावहे) हम दोनों [तुम्हारे मैं] विचार कर करें, (यः जो (एषः)
यह तू (स्वमनशनः) स्वमनस करने वाला [आत्मस्य लुप्ताने वाता] है,
तो तू (पथा) मार्ग से [स्वमनसे] पुनः) फिर (अस्तम्) घर (एषि)
पहुँचता है, (इन्द्रः) इन्द्र [इन्द्र देव का बाला मनुष्य] (विश्वस्मान्) सब
[प्राणी मात्र] से (उत्तरः) उत्तर है ॥ २१ ॥

भाष्यार्थ—मनुष्य अपने गिरे हुए आत्म से लावधान से टिकाने पर
लाकर ऐश्वर्य पड़ाना रह ॥ २१ ॥

यदुदङ्घ्री वृषाक्षये गृहस्मिन्द्राजयन्तन । य सुष पुनरेहि सुग-
कर्मणं जनयोपतो विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २२ ॥

यत् । उदङ्घ्रिः । वृषाक्षये । गृहस्मिन्द्राजयन्तन ॥ यः ।
सुषः । पुनरेहि । सुगः । कर्मणः । जनयोपतः । विश्वस्मादिन्द्र । उत्तरः । ० ॥२२॥

२१—(पुनः) (आ इति) आ-च्छ (वृषाक्षये) सू० १ । हे श्लेषन्
वेद्ययित्तर्जात्मान् (सुविता) प्र० ३३ । १० । १ । ऐश्वर्यकर्तादि (कल्पयावहे)
स्वमहं चावामुभौ पर्यालोचन कुर्यात् (यः) (एष) स त्वम् (स्वमनशनः) एष
अपश्यते नाशे च—स्युद् । मस्तिजशोर्लसि । ए० ० । १ । ६० । इति सुम् ।
स्वमस्यात्स्वस्य नाशयिता (अस्तम्) गृहम् (एषि) गच्छसि (पथा)
सन्मार्गेण (पुनः) । अन्यद् चतम् ।

भाषार्थ—(वृषाकपे) हे वृषाकपि ! [बलवान् चेष्टा कराने वाले जीवात्मा] (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य] [और हे इन्द्राणी ! मनुष्य की विभूति] (यत्) जन (उदञ्चः) ऊँचे चढ़ते हुये तुम सब (गृहम्) घर (अजगन्तन) पहुँच गये, (रयः) वह (पुल्वघः) महापापी, (जनयोपनः) मनुष्य को घनाग देने वाला, (मृग) पशु [पशु समान गिरा हुआ जीवात्मा] (क) कहां, (कम्) किन् मनुष्य को (अगन्) पहुँचा, (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला मनुष्य] (निर्वन्मान्) सब [प्राणी मात्र] से (उत्तर,) उत्तर है ॥ २० ॥

भाषार्थ—जय मनुष्य अपने आत्मा और बुद्धि शक्ति विभूति को ठिकाने ले जाना है, वह कभी भी दुःख करों करके लक्ष्म में नहीं पड़ता है ॥२१॥ पशुर्ह नाम मानवी लोकां रक्षुव विश्वितिम् । भद्रं भूलु त्वस्या अभूद् यस्या उदरमात्स्यद् विश्वस्मात् । इ उतरः ॥ २३ ॥

पशुः । हु । नाम । मानवी । लोकस् सुसुव । विश्वितिम् ॥
भद्रम् । भूलु । त्वस्यै । अभूत् । त्वस्याः । उदरस्य । आस्यत् ।
विश्वस्मात् । इन्द्रः । उत्तरः ॥ २३ ॥

भाषार्थ—(पशुः) शत्रुओं का नाश करने वाली (मानवी) मनुष्य की विभूति ने (इ) निश्चय करके (नाम) प्रसिद्ध (विश्वितिम्) वीस [पाँच

२०—(यत्) यदा (उदञ्चः) उद्गामिनः सन्तः (वृषाकपे) अ० १ । हे बलवान् चेष्टयितजीवात्मान् (गृहम्) (इन्द्र) परमैर रयन् मनुष्य । हे इन्द्राणि च सूर्यं नर्षे (अजगन्तन) गमेलाडि मध्यमवहुवचने छान्दनः शपः शतुः । तत्तनमनथनाश्च । पा० ७ । १ । ४५ । तनयादेशः । सूर्यम् अगच्छत (क) कुत्र (स्यः) सः (पुल्वघः) पुरु + अघ पापकरणे—अच् रस्य लः । बहुपापः (मृगः) अ० ३ । पशुतुल्यो नीचगामी जीवात्मा (कम्) प्रश्ने । मनुष्यम् (अगन्) अगच्छत् (जनयोपनः) जनमोहनः । अन्यद् गतम् ॥

२३—(पशुः) आङ्गारयोः कनिशुभ्यां ङिञ् । उ० १-३३ । पर + श्च हिंसायाम्—कृ ङित्, पृषोढरादित्वाद्कारलोपः । पराणां शत्रूणां नाशयित्री (इ) अवधारणे (नाम) प्रसिद्धौ (मानवी) अ० ३ । २४ । ३ । मनु—मण,

ज्ञानेन्द्रियों और पांच कर्मेन्द्रियों और इन के दस विषयों] को (साकम्) एक साथ (ससूत्र) उत्पन्न किया है । (भल) हे विचारवान् ! [आत्मा] (त्यस्यै) उस [माता] के लिये (भद्रम्) कल्याण (अभूत्) हुआ है, (यस्याः) जिस [माता] के (उदरम्) पेट को (आमयत्) उस [गर्भ] ने पीड़ा दी थी, (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाला मनुष्य] (विश्वस्मात्) सब [प्राणी मात्र] से (उत्तरः) उत्तम है ॥ २३ ॥

भावार्थ—दस इन्द्रियां और उनके दस विषय, मनुष्य की उत्तम विभूति अर्थात् शक्ति से उत्तम होते हैं, इस लिये मनुष्य तपश्चरण से उत्तम विद्या प्राप्त करके सुख पावे, जैसे माता गर्भ का कष्ट सहकर उत्तम सम्पत्ति उत्पन्न करके सुख पाती है ॥ २३ ॥

अथ कुन्तापसूक्तानि [१२७-१३६] ॥

सूक्तम् १२७ ॥

१-१४ ॥ प्रजापतिरिन्द्रो वा देवता ॥ १, २ पद्या बृहती ; ३, ५, १२ निचृदनुष्टुप्, ४, ७, ६-११, १३ अनुष्टुप् ; ६ भुरिगुष्णिक् ; ८ भुरिगनुष्टुप् ; १४ निचृत् पङ्क्तिः ॥

राजधर्मोपदेशः—राजा के धर्म का उपदेश ॥

हुदं जना उपं श्रुतं नराशंसु स्तविष्यते । षष्टिं सुहस्रां नष्टतिं च कौरम् आ रुशमेषु दद्यहे ॥ १ ॥

हुदम् । जनाः । उपं । श्रुतं । नराशंसुः । स्तविष्यते ॥ षष्टिम् । सुहस्रां । नष्टतिम् । च । कौरम् । आ । रुशमेषु । दद्यहे ॥ १ ॥

कीष् । मनोर्मनुष्यस्येयं विभूतिः (साकम्) सह (ससूत्र) ससूत्रेति निगमे । पा० ७ । ४ । ७४ । इति सूतेर्लिटि रूपम् । सुषुवे । जनयामास (विशतिम्) दशेन्द्रियाणि दश तेषां विषयान् च (भद्रम्) कल्याणम् (भल) भल बधे दाने निरूपणे च—अचू । हे निरूपकात्मन् (त्यस्यै) तस्यै । जनन्यै (अभूत्) (यस्याः) जनन्याः (उदरम्) गर्भाशयम् (आमयत्) अम पीडने । पीडितवान् क्व गर्भः । अन्यत् पूर्ववत् ॥

[सूचना—सूक्त १३६ के मन्त्र १ तथा ४ को छोड़कर, यह कुन्तापसूक्त १२७—१३६ ऋग्वेद आदि अन्य वेदों में नहीं हैं। हम स्वामी विश्वेश्वरानन्द नित्यानन्द कृत पद सूची से पद पाठ को संग्रह करके और कुछ शोधकर लिखते हैं। आगे सूचना अथर्व० २०। ३४। १२, १६, १७; ४८। १—३; ४३। १—३ भी देखो ॥]

भावार्थ—(जनाः) हे मनुष्यो ! (इदम्) यह (उप) आदर से (श्रुत) सुनो, [कि] (नराशंसः) मनुष्यों में प्रशंसा वाला पुरुष (स्तविष्यते) बढ़ाई किया आवेगा। (कौरम) हे पृथिवी पर रमण करने वाले राजन् ! (पष्टिम् सहस्रा) साठ सहस्रा (च) और (नवतिम्) नब्बे [अर्थात् अनेक दानों] को (वृषभेषु) हिंसकों के फँकने वाले वीरों के बीच (आ वृषभे) हम पाते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—उत्तम कर्म करने वाला मनुष्य संसार में सदा बढ़ाई पाता है, यह विचार कर राजा कर्मकृशत वीरों के बीच आदर कर के सुपात्रों को अनेक दान देवे ॥ १ ॥

(कुन्तापसूक्तानि) का अर्थ पाप वा दुःख के भस्म करने वाले सूक्त अर्थात् वेद मन्त्रों के समुदाय है ॥

उषद्गा यस्य प्रवाहणो वृधूमन्तो हृविर्दश । वृष्मि रथस्य नि जिहीडते द्विव ई पमाणा उपरुपृशः ॥ २ ॥

उषद्गाः । यस्य । प्रवाहणः । वृधूमन्तः । हृविर्दश ॥ वृष्मि ।

[कुन्तापसूक्तानि—कुङ् आर्तस्वरे—डुप्रत्ययः+तप दाहे—घञ्, अलुक्-समासः+सु+वच कथने—क। कोः पापस्य दुःखस्य तापकानि दाहकानि सूक्तानि सुन्दरकथनानि वेदमन्त्रसमुदायाः—इत्यर्थः] ॥

१—(इदम्) वक्ष्यमाणम् (जनाः) हे मनुष्याः (उप) आदरे (श्रुत) श्रुत (नराशंसः) अथ० ५। २७। ३। नरेषु आशंसा यस्य सः। मनुष्येषु प्रशंसनीयः (स्तविष्यते) स्तुत्यो भविष्यति (पष्टिं सहस्रा नवतिं च) बहुसंख्याकानि दानानि—इत्यर्थः (कौरम) कौ+रमु श्रीडावाम्—अच्, अलुक्समासः। हे कौ पृथिव्यां रमणशील राजन् (वृषभेषु) अथ० २०। २०। २। वृषभाणां हिंसकानां प्रक्षेपकेषु वीरेषु (आ वृषभे) वरं ग्रहणीमः ॥

रथस्य । नि । जिहीडते । दिवः । ईषमाणाः । उपस्पृशः ॥ २ ॥

एष इषाय मासहे शृतं निष्कान् दश स्रजः ।

त्रीणि शृतान्यर्वतां सहस्रा दश गोनाम् ॥ ३ ॥

एषः । इषाय । मासहे । शृतम् । निष्कान् । दश । स्रजः ॥

त्रीणि । शृतानि । अर्वतान् । सहस्रा । दश । गोनाम् ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—(यस्य) जिस [राजा] के (रथस्य) रथ के (प्रवाहणः) ले चलने वाले, (ईषमाणाः) शीघ्र गामी, (उपस्पृशः) छुते हुये (वधूमन्तः) उंटनियों सहित, (द्विर्दश) देवार दस (उपद्राः) ऊंट (दिवः) उन्मत्त मनुष्य के (वर्ष्मा = वर्ष्माणम्) ऊंचे पद का (नि जिहीडते) अपमान करते रहते हैं ॥ २ ॥ (एषः) उस [राजा] ने (इषाय) उन्मत्तों पुरुष को (शतम्) सौ (निष्कान्) दीनारों [सुवर्ण मुद्रा], (दश) दस (स्रजः) मातायें, (अर्वताम् त्रीणि शृतानि) तीन सौ घोड़े और (गोनाम् दश सहस्रा) दस सहस्र गौयें (मासहे) दान दी हैं ॥ ३ ॥

२—(उपद्राः) उपिंकुशिभ्यां कित् । उ० ४ । १६२ । उष दाहे, वधे च—
पून् कित् । पशुभेदाः (यस्य) राज्ञः (प्रवाहणः) वह प्राण्ये—यिच् कर्निन्
वाहकाः (वधूमन्तः) उष्ट्रीसहिताः (द्विर्दश) द्विवारं दश । त्रिंशतिम् (वर्ष्मा)
अ० ३ । ४ । २ । वृष प्रजननैश्ययोः—मनिन् । सुपां सुलुक्० । पा० ७ । १ । ३६ ।
द्वितीयास्थाने सुः । वर्ष्माणम् । उच्चपदम् (रथस्य) यानस्य (नि) नितराम्
(जिहीडते) अ० ४ । ३२ । ५ । हेडू अनादरे क्रोधे च तिरस्कुर्वन्ति (दिवः)
दिडु मदे—किप् । उन्मत्तस्य (ईषमाणाः) ईष-गती—शानच् । शीघ्रगामिनः
(उपस्पृशः) उपस्पृष्टाः । योजिताः ॥

३—(एषः) स राजा (इषाय) इष गती—क । उद्योगिने पुरुषाय
(मासहे) महतेर्दानकर्मा—निघ० ३ । २० । ददौ (शतम्) (निष्कान्)
निश्चयेन कायति । निस् + कै शब्दे—क । यद्वा, नौ सदेर्दिङ् । उ० ३ । ४५ ।
पदुलं गतिविशरणयोः—कन्, स च डित् । दीनारान् । सुवर्णमुद्राः (दश)
(स्रजः) स्रजं विसर्गे—किन् । माताः (त्रीणि) (शृतानि) (अर्वताम्) अश्व-
नाम् (सहस्रा) सहस्राणि (दश) (गोनाम्) गवाम् । धेनुनाम् ॥

भाष्यार्थ—राजा वीसही अंठ, अंठनी आदि को रथ आदि में जोतकर अनेक उद्यम करे करावे और उद्योगी लोगों को बहुत से उचिन पारितोषिक देवे ॥ २, ३ ॥

वच्यस्व रेभं वच्यस्व वृक्षे न पक्के शुक्रुनः ।

नष्टे जिह्वा चर्चरीति क्षुरो न भुरिजोरिव ॥ ४ ॥

वच्यस्व । रेभं । वच्यस्व । वृक्षे । न । पक्के । शुक्रुनः ॥ नष्टे ।

जिह्वा । चर्चरीति । क्षुरः । न । भुरिजोः । इव ॥ ४ ॥

भाष्यार्थ—(रेभ) हे विद्वान् ! (वच्यस्व) उपदेश कर, (वच्यस्व) उपदेश कर, (न) जैसे (शुक्रुनः) पत्ती (पक्के) फल वाले (वृक्षे) वृक्ष पर [चढ़ चहाता है] । (नष्टे) दुःख व्यापने पर (भुरिजोः) दोनों धारण पोषण करने वाले [स्त्री पुरुष] जो (इव) ही (जिह्वा) जीभ (चर्चरीति) चलती रहती है, (न) जैसे (क्षुरः) क्षुरा [केशों पर चलता है] ॥ ४ ॥

भाष्यार्थ—विद्वान् स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर खलनाश आदि को लदा सद्-उपदेश करे जैसे फलवाले वृक्ष पर पत्ती प्रसन्न होकर बैठते हैं, और सद्उपदेश द्वारा केशों को इस प्रकार काटे, जैसे नापित केशों को क्षुरा से काट डालना है ॥ ४ ॥

अ रेभासो मनीषा वृषा गार्धं हवेरते ।

अमोतपुत्रका सुषामसोतं गा इवांसते ॥ ५ ॥

अ । रेभासः । मनीषाः । वृषाः । गार्धः-इव । ईरते ॥ अमोतु ।

४—(वच्यस्व) ब्रवीतेत्यक् । ब्रूहि । उपदिश (रेभ) स्तोत्रनाम—निघ० ३ । १६ । हे विद्वान् (वच्यस्व) (वृक्षे) (न) यथा (पक्के) फलयुक्ते (शुक्रुनः) अथ० ६ । २७ । २ । शक्य शक्तौ—उत्त । शक्तः । पत्नी (नष्टे) नशत्, व्याप्तिकर्मा—निघ० २ । १८ । व्यसते दुःखे (जिह्वा) ज्ञाणी, (चर्चरीति) भृशं चरति (क्षुरः) क्षुर विलेखने-क । नापितास्त्रम् (न) यथा (भुरिजोः), भृश इव । उ० २ । ७२ । सुभृश् धारणपोषणयोः—इति कित्, उकारान्तादेशः । धारक—पोषकयोः स्त्रीभूत्ययोः (इव) एव ॥

पुत्रकाः । एवाम् । अमोत । गाः-इव । आसते ॥ ५ ॥

भाषार्थ—(वृषाः) बलवान् (गावः इव) वीलों के समान (रेमासः) विद्वान् लोग (मनीषाः) बुद्धियों को (प्र ईरते) आगे बढ़ाते हैं । (अमोत) हे बन्धन रहित । (अमोत) हे मुक्त मनुष्य । (एवाम्) इन [विद्वानों] के (पुत्रकाः) पुत्र (गाः) विद्याओं और भूमियों को (इव) अवश्य (आसते) सेवते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ—जैसे बलवान् बल आगे बढ़ते जाते हैं, मनुष्य-विद्वानों से मुक्त होकर बुद्धि को अनेक प्रकार बढ़ावें और सन्तान आदि को योग्य विद्वान् और राज्याधिकारी बनावें ॥ ५ ॥

प्र रेभु धीं भरस्व गोविदं वसुविदम् ॥

देवत्रेमां वाचं श्रीणीहीषुर्नवीरुस्तारम् ॥ ६ ॥

प्र । रेभु । धीम् । भरस्व । गोविदम् । वसुविदम् ॥ देव-त्रा ।
इमाम् । वाचम् । श्रीणीहि । इषुः । न । अवीः । अस्तारम् ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(रेभु) हे विद्वान् । (गोविदम्) भूमि प्राप्त कराने वाली और (वसुविदम्) धन प्राप्त कराने वाली (धीम्) बुद्धि को (प्र) अच्छे प्रकार से (भरस्व) धारण कर । (देवत्रा) विद्वानों के बीच (इमाम्) इस [पूर्वोक्त] (वाचम्) वाणी को (श्रीणीहि) पकी कर, (इषुः न) जैसे तीर (अवीः)

५—(प्र) प्रकर्षेण (रेमासः) विद्वानः (मनीषाः) बुद्धीः (वृषाः) बलवन्तः (गावः) वृषमाः (इव) यथा (ईरते) गमयन्ति (अमोत) मुक्त बन्धने—क, छान्दसो गुणः । हे अमूत । अवयव । मुक्त (पुत्रकाः) पुत्राः । सन्तानाः (एवाम्) पूर्वोक्तानाम् (अमोत) (गाः) विद्याः । भूमिः (इव) एव (आसते) उपासते । सेवन्ते ॥

६—(प्र) प्रकर्षेण (रेभु) विद्वान् (धीम्) प्रज्ञाम् (भरस्व) धरस्व (गोविदम्) भूमिप्राप्तिकाम् (वसुविदम्) धनप्राप्तिकाम् (देवत्रा) विद्वान्सु (इमाम्) पूर्वोक्ताम् (वाचम्) वाणीम् (श्रीणीहि) परिपकां दडां कुरु (इषुः) शीपः (न) यथा (अवीः) अव प्रवेष्टे—इन् । प्रवेष्टमस्मि कस्यपि—(अस्तारम्)

प्रवेश योग्य लक्ष्यों को (अस्तारम्) तीर चढ़ाने वाले के लिये [पक्का करता है] ॥६॥

भावार्थ—मनुष्य विद्वानों में बैठकर निश्चय करे कि राज्य और धन की प्राप्ति के लिये यत्न सुफल हों, जैसे चतुर धनुर्धारी का वाण लक्ष्य पर ही पड़चता है ॥ ६ ॥

राज्ञो विश्वजनीनस्य यो देवोमर्त्याँ अति ।

वैश्वानरस्य सुष्टुतिमा सुनोतां परिक्षितः ॥ ७ ॥

राज्ञः । विश्वजनीनस्य । यः । देवः । मर्त्यान् । अति ॥

वैश्वानरस्य । सुष्टुतिम् । आ । सुनोत । परिक्षितः ॥ ७ ॥

भावार्थ—(यः) जो (देवः) देव [विजय चाहने वाला पुरुष] (मर्त्यान् अति) मनुष्यों में बढ़कर [गुणी है], (विश्वजनीनस्य) सब लोगों के हितकारी, (वैश्वानरस्य) सब के नेता, (परिक्षितः) सब प्रकार पेश्वर्य वाले (राज्ञः) उस राजा की (सुष्टुतिम्) उत्तम स्तुति को (आ) भले प्रकार (सुनोत) मथा ॥ ७ ॥

भावार्थ—सर्वहितकारी पुरुष से सब मनुष्य उत्तम गुणों का ग्रहण करें ॥ ७ ॥

पुरिच्छिन्नः क्षेममकरोत् तम् आसनमाचरन् ।

कुलायन् कृणवन् कौरव्यः पतिर्वदति जायया ॥ ८ ॥

पुरिच्छिन्नः । क्षेमम् । अकरोत् । तम् । आसनम् । आचरन् ।

कुलायन् । कृणवन् । कौरव्यः । पतिः । वदति । जायया ॥ ८ ॥

शरप्रक्षोत्तारम् ॥

७—(राज्ञः) तस्य शासकस्य (विश्वजनीनस्य) आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात् सः । पा० ५ । १ । ६ । विश्वजन-स्यप्रत्ययः । सर्वजनेभ्यो हितस्य (यः) (देवः) विजिगीषुः (मर्त्यान्) मनुष्यान् (अति) अतीत्य । उल्लङ्घ्य श्रेष्ठगुणैः—वर्तने (वैश्वानरस्य) सर्वनायकस्य (सुष्टुतिम्) कल्याणीं स्तुतिम् (आ) समन्तात् (सुनोत) मथश्चम् (परिक्षितः) क्षि पेश्वर्ये-क्षिप्, लुक् । सर्वत पेश्वर्यं युक्तस्य ॥

भाष्यार्थ—(तमः) अन्धकार (परिच्छिन्नः) काट डालने वाले [राजा] ने (आसनम्) आसन (आचरन्) ब्रह्म करने हुये (दीमम्) आनन्द (अकरोत्) करदिया है—[यह वान] (कुलायन्) बरों को (कृण्वन्) बनाता हुआ (कौरव्यः) कार्य करताओं का राजा (पतिः) पति [गृहस्थ] (जायया) अपनी पत्नी से (वदति) कहता है ॥ ८ ॥

भाष्यार्थ—न्यायकारी, प्रजापालक राजा की चर्चा गृहपति लोग अपनी अपनी स्त्रियों से कहते हैं ॥ ८ ॥

कतरत् तु आ हराणि दधि मन्थ परि श्रुतम् ।

जायाः पतिं वि पृच्छति राष्ट्रे राज्ञः परिक्षितः ॥ ८ ॥

कतरत् । ते । आ । हराणि । दधि । मन्थांश्च । परि ।

श्रुतम् ॥ जायाः । पतिम् । वि । पृच्छति । राष्ट्रे । राज्ञः ।

परिक्षितः ॥ ८ ॥

भाष्यार्थ—(कतरत्) कौन वस्तु (ते) तेरे लिये (परि) सुधारकर (आ हराणि) मैं लाऊं, (दधि) दही, (मन्थाम्) निर्जल मठा, [चा] (श्रुतम्) नौनी माखन आदि—[यह घात] (जायाः) पत्नी (पतिम्) पति से (परिक्षितः)

८—(परिच्छिन्नः) कर्तरि क्तः । परिच्छेदकः । सर्ववतो नाशकः (जेमम्) आनन्दम् (अकरोत्) कृतवान् (तमः) अन्धकारम् (आसनम्) सिंहासनम् (आचरन्) स्वीकुर्वन् । गृहणन् (कुलायन्) ह्रस्वश्चान्दसः । कुलायान् । स्थानानि । गृहाणि (कृण्वन्) कुर्वन् । कृण्वन् (कौरव्यः) क्रमोरुच । उ० १ । २४ । डुकृञ् करणे—कु, उकारश्च । कुरुनादिभ्यो एयः । पा० ४ । १ । १७२ । कुरे—एय । कुरेणां कार्यकनृणां राजा । गृहपतिः (पतिः) भर्ता (वदति) (जायया) पत्न्या ॥

९—(कतरत्) किं वस्तु (ते) तुभ्यम् (आ हराणि) आनयानि (दधि) (मन्थाम्) मथ्यते विलोड्यते, मन्थ विलोडने—घञ्, टाप् । मथितम् । निर्जलतकम् (परि) परिभूय (श्रुतम्) सु गतौ क्षरणे च—क, सस्य शः । कृतम् । हरितं नवनीनादिकम् (जायाः) एकवचनस्य बहुवचनम् । पत्नी

सब प्रकार पेश्वर्य वाले (राजः) राजा के (राष्ट्रे) राज्य में (वि) विविध प्रकार (पृच्छति) पूछती है ॥ ६ ॥

भावार्थ—सुनीति वाले राजा के राज्य में दूध, दही घृत आदि पदार्थ बहुतायत से पाकर लोग सुखी होते हैं ॥ ६ ॥

अभीवस्वः प्र जिहीते यवः पृक्कः पृथो बिलम् ।

जनः स भद्रमेधति राष्ट्रे राज्ञः परिहितः ॥ १० ॥

अभीवस्वः । प्र । जिहीते । यवः । पृक्कः । पृथः । बिलम् ॥

जनः । सः । भद्रम् । एधति । राष्ट्रे । राज्ञः । परिहितः ॥ १० ॥

भावार्थ—(अभीवस्वः) सब ओर से बसाने वाला, (पृक्कः) पक्का हुआ (यवः) जौ आदि अन्न (पृथः) मार्ग से (बिलम्) गढ़े [खत्ती आदि] को (प्र) भले प्रकार (जिहीते) पहुंचता है । (सः जनः) वह मनुष्य (परिहितः) सब प्रकार पेश्वर्य वाले (राजः) राजा के (राष्ट्रे) राज्य में (भद्रम्) आनन्द (एधति) बढ़ाता है ॥ १० ॥

भावार्थ—राजा के सुप्रबन्ध से किसान आदि धनवान् लोग अन्न को पकजाने पर यथाविधि एकत्र करके खत्ती आदि में भरें और आवश्यकता पर काम में लाकर सुखी हों ॥ १० ॥

इन्द्रः कारुमबुधुदुत्तिष्ठ वि चरा जनम् ।

ससेदुग्रस्य चक्रीधि सर्व इत् ते पृथादरिः ॥ ११ ॥

(पतिम्) भर्तारम् (वि) विविधम् (पृच्छति) ज्ञातुमिच्छति (राष्ट्रे) राज्ये (राजः) शासकस्य (परिहितः) म० ७ । सर्वत पेश्वर्ययुक्तस्य ॥

१०—(अभीवस्वः) कृगुशुद्धयो वः । उ० १ । १५५ । अमि + वस निवासे—वप्रत्ययः, छान्दसो दीर्घः । सर्वतो वासयिता (प्र) प्रकर्षण (जिहीते) ओहाङ् गतौ । गच्छति । प्राप्नोति (यवः) यवादिभक्ष्यपदार्थः (पृक्कः) पाकं गतः (पृथः) मार्गात् (बिलम्) छिद्रम् । अन्नधारणार्तम् (जनः) मनुष्यः, (सः) (भद्रम्) आनन्दम् (एधति) एधयति । वर्धयति । अन्यद् गतम्—म० ७ ॥

इन्द्रः । कारुम् । अंबूबुधत् । उत्तिष्ठि । वि । चरु । जनम् ॥ मम ।
इत् । उग्रस्य । चर्कधि । सर्वः । इत् । ते । पृणात् । अरिः ॥ ११

भाषार्थ—(इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] ने (कारुम्)
काम करने वाले को (अंबूबुधत्) जगाया है—(उत्तिष्ठ) उठ और (जनम्)
लोगों में (वि चर) विचर, (मम इत् उग्रस्य) मुझ ही तेजस्वी की [भक्ति]
(चर्कधि) तू करता रहे, (सर्वः) प्रत्येक (अरिः) वैरी (इत्) भी (ते)
तेरी (पृणात्) तृप्ति करे ॥ ११-॥

भावार्थ—प्रतापी राजा के प्रबन्ध से मनुष्य उद्यमी होकर आपस में
विचारें और राज भक्त होकर चोर आदि प्रजा के शत्रुओं को वश में करें ॥ ११ ॥

इह गावः प्रजायध्वमिहाशवा इह पूरुषाः ।

इहो सहस्रदक्षिणोऽपि पुषा नि षीदति ॥ १२ ॥

इह । गावः । प्रजायध्वम् । इह । अशवाः । इह । पूरुषाः ॥

इहो । सहस्रदक्षिणः । अपि । पुषा । नि । षीदति ॥ १२ ॥

भाषार्थ—(गावः) हे गौओं ! तुम (इह) यहां पर [इस घर में],
(अशवाः) हे घोड़ों ! तुम (इह) यहां पर (पूरुषाः) हे पुरुषों ! तुम (इह)
यहां पर (प्रजायध्वम्) बढ़ो, (इहो) यहां पर (सहस्रदक्षिणः) सहस्रों
की दक्षिणा देने वाला (पुषा) पोषक [गृहपति] (अपि) भी (नि षीदति)
बैठता है ॥ १२ ॥

११—(इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् राजा (कारुम्) कार्यकर्तारम् (अंबूबुधत्)
प्रबोधितवान् (उत्तिष्ठ) (वि) विविधम् (चर) गच्छ (जनम्) मनुष्यसमूहम्
(मम्) (इत्) एव (उग्रस्य) तेजस्विनः (चर्कधि कस्येते—यद्भुक्ति रूपम् ।
भृशं भक्तिं कुरुं (सर्वः) प्रत्येकः (इत्) (ते) तव (पृणात्) पृण प्रीणने ।
तृप्तिं कुर्यात् (अरिः) शत्रुः ॥

१२—(इह) अस्मिन् गृहे (गावः) हे धेनवः (प्रजायध्वम्) प्रवर्धध्वम्
(इह) (अशवाः) हे तुरंगाः (इह) (पूरुषाः) हे मनुष्याः (इहो) इह-उ ।
अत्रैव (सहस्रदक्षिणः) बहुदानस्वभक्षः (अपि) (पुषा) पोषको गृहपतिः
(नि षीदति) उपविशति ॥

भाषार्थ—उत्तम राजा के प्रबन्ध से गृहस्थ लीग गौश्रों, घोड़ों और मनुष्यों से वृद्धि करके परस्पर उपकार करें ॥१२॥

यह मन्त्र महर्षि दयानन्द कृत संस्कारविधि विवाह प्रकारण में उद्धृत है ॥

नेसा इन्द्र गावो रिषन् मो आसां गोप रीरिषत् ।

मासांमसिन्नयुर्जन इन्द्र मा स्तेन ईशत ॥ १३ ॥

न । इमाः । इन्द्र । गावः । रिषन् । मो इति । आसाम् ।

गोप । रीरिषत् ॥ मा । आसाम् । असिन्नयुः । जनः । इन्द्र ।

मा । स्तेनः । ईशत ॥ १३ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्ये वाले राजन्] (इमाः) यह (गावः) भूमियें (न रिषन्) न नष्ट होवें और (आसाम्) इन का (गोप) रक्षक (मो रीरिषत्) नही नष्ट होवे । (इन्द्र) हे इन्द्र ! [राजन्] (मा) न तो (असिन्नयुः) बैरियों को चाहने वाला (जनः) नीच मनुष्य, और (मा) न (स्तेनः) चोर (आसाम्) इन [भूमियों] का (ईशत) राजा होवे ॥ १३ ॥

भाषार्थ—राजा डाकू चोर आदि से खेती आदि भूमियों की रक्षा करके प्रजा को पाले ॥ १३ ॥

उपं नो न रमसि सूक्तेन वचसा वृयं भुद्रेण वचसा वृयम् ।

वनादधिध्वनो गिरो न रिष्येम कुदा चन ॥ १४ ॥

उपं । नुः । न । रमसि । सूक्तेन । वचसा । वृयम् । भुद्रेण ।

१३—(न) निषेधे (इमाः) दृश्यमानाः (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् राजन् (गावः) कृष्यादिभूमयः (रिषन्) नश्यन्तु (मो) निषेधे (आसाम्) गवां भूमीनाम् (गोप) गुपे रक्षणे—अन् । आयादय आर्धधातुके वा । पा० ३ । १ ३१ । आयलोपः । विभक्तोर्लुक् । गोपः । रक्षकः (रीरिषन्) रिष हिंसायाम्, श्यन्ताद् माङि लुङि षङि रूपकर्मण्यर्थे । नश्येत् (मा) निषेधे (आसाम्) (असिन्नयुः) अमिन्न-क्यच्, उपत्ययः । शत्रून् कामयमानः (जनः) पामरलोकः (इन्द्र) (मा) (स्तेनः) चोरः (ईशत्) राजा भवेत् ॥

वचसा । वयम् ॥ वनात् । अधिध्वनः । गिरः । त । रिष्येम ।
कदा । चन । ॥ १४ ॥

भाषार्थ—[हे राजन् ।] (नः) हम को (न) श्रव (उप) आदर से
(रमसि) तू आनन्द देता है, (सूक्तेन) वेदोक्त (वचसा) [वचन के साथ
(वयम्) हम, (भद्रेण) कल्याणकारी (वचसा) वचन के साथ (वयम्)
हम (वनात्) क्लेश से अलग होकर (अधिध्वनः) ऊँची ध्वनि वाली (गिरः)
वाणियों को (कदा चन) कभी भी (न) न (रिष्येम) नष्ट करें ॥ १४ ॥

भावार्थ—राजा और प्रजा परस्पर उपकार करके दृढ प्रतिष्ठा के साथ
संसार में सुख बढ़ावें ॥ १४

सूक्तम् १२८ ॥

१—१६ ॥ प्रजापतिरिन्द्रो वा देवता ॥ १—३, ७, १०, १२ निचृदनुष्टुप्;
४, ८, ९, १४ अनुष्टुप्; ५ आर्ष्यनुष्टुप्; ६, १६ भुरिगनुष्टुप्; ११, १३
विराडार्ष्यनुष्टुप्; १५ विराडनुष्टुप् ॥

मनुष्यकर्तव्योपदेशः—मनुष्य के कर्तव्य का उपदेश ॥

यः सुभेयो विद्वय्यः सुत्वा यज्वाथ पूरुषः ।

सूर्यं चासूँ रिशादसस्तद् देवाः प्रागकल्पयन् ॥ १ ॥

यः । सुभेयः । विद्वय्यः । सुत्वा । यज्वा । अथ । पूरुषः ॥

सूर्यम् । च । असूँ । रिशादसुः । तत् । देवाः । प्राक् । अक-
ल्पयन् ॥ १ ॥

[सूचना—पदपाठ के लिये सूचना सूक्त १२७ देखो ॥]

१४—(उप) पूजायाम् (नः) अस्मान् (न) सम्प्रति (रमसि)
रमयसि । आनन्दयसि (सूक्तेन) वेदविहितेन (वचसा) वचनेन (वयम्)
प्रजाजनाः (भद्रेण) कल्याणकरेण (वचसा) (वयम्) (वनात्) वन
उपतापे—अच् । क्लेशात् पृथग्भूय (अधिध्वनः) ध्वन शब्दे—किप् । उच्चध्वनिः
युक्ताः (गिरः) वाणीः (न) निषेधे (रिष्येम) नाशयेम (कदा) कस्मिन्
काले (चन) अपि ॥

भाषार्थ—(यः) जो (समेयः) सभ्य [सभाओं में चतुर],
(विदथ्यः) विद्वानों में प्रशंसनीय, (सुत्वा) तत्र रस निकालने वाला (अथ)
और (यज्ञा) मितानसार (पुरुषः) पुरुष है । (अम्) उस (सूर्यम्) सूर्य
[के समान प्रतापी] को (च) नियन्त्रण करके (तत्) तब (रिशादसः)
हिसकों के नाश करने वाले (देवाः) विद्वानों ने (प्राक्) पहिले [ऊंचे स्थान
पर] (अकल्पयन्) माना है ॥ १ ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग सब में चतुर मनुष्य को सभापति बनाकर
प्रजा की रक्षा करें ॥ १ ॥

यौ जास्या अप्रथयस्तद् यत् सखायं दुधूर्षति ।

ज्येष्ठो यदप्रचेतास्तदाहुरधरुगिति ॥ २ ॥

यः । जास्याः । अप्रथयः । तत् । यत् । सखायम् । दुधूर्षति ॥

ज्येष्ठः । यत् । अप्रचेताः । तत् । आहुः । अधरुक् । इति ॥ २

भाषार्थ—(यः) जो मनुष्य, (जास्याः) कुल स्त्री को (अप्रथयः)
गिराता है, (तत्) वह पुरुष, और (यत्) जो (सखायम्) मित्र को (दुधूर्षति)
मारना चाहता है, और (यत्) जो (ज्येष्ठः) अति वृद्ध होकर (अप्र-

१—(यः) (समेयः) दृश्यन्वति । पा० ४ । ४ । १०६ । सभा-
दप्रथयः । सभासु साधुः । सभ्यः (विदथ्यः) तत्र साधुः पा० ४ । ४ ।
६८ । विदथ—यत् । विद्वत्सु साधुः (सुत्वा) सुयजोर्ध्वनिप् । पा०
३ । २ । १०३ । पुञ् अग्निपवे—ध्वनिप् । सामस्य तत्वरसस्य सोता (यज्ञा)
यज्ञ—ध्वनिप् पूर्वसूत्रेण । यथा । संगन्ता (अथ) समुच्चये (पुरुषः) पुरुषः
(सूर्यम्) सूर्यवत् प्रतापिनम् (च) अवधारणे (अम्) सुपां सुपो भवन्ति ।
पा० पा० ७ । १ । ३६ । एकवचनस्य द्विवचनम् । अनुम् (रिशादसः) अ० २ ।
२८ । २ । रिश हिंसायाम् + क + अद् भक्षणे—असुन् । हिंसकानां भक्षका
नाशकाः (तत्) तदा (देवाः) विद्वान्सः (प्राक्) पूर्वम् । अमम् (अकल्पयन्)
कल्पितवन्तः ॥

२—(यः) पुरुषः (जास्याः) अथ० २ । ७ । २ । द्वितीयार्थे षष्ठी ।
जामिम् । कुलस्त्रियम् (अप्रथयः) पृथ प्रक्षेपे । प्रक्षिपति । अधोगमयति
(तत्) सः (यत्) यः (सखायम्) (दुधूर्षति) युर्वी हिंसायाम्—सन् ।

चेताः) अज्ञानी है, (तत्) वह (अधराक्) अधोगामी है—(इति) ऐसा (आहुः) वे लोग कहते हैं ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—जो मनुष्य सती स्त्री को पाप में लमावे, मित्रघाती हो और बयोवृद्ध होकर भी अज्ञानी हो, वह विद्वानों में नीच गति पाता है ॥ २ ॥

यद् भुद्रस्य पुरुषस्य पुत्रो भवति दाधृषिः ।

तद् विप्रो अब्रवीदु तद् गंधर्वः काम्यं वचः ॥ ३ ॥

यत् । भुद्रस्य । पुरुषस्य । पुत्रः । भवति । दाधृषिः ॥ तत् ।

विप्रः । अब्रवीत् । ज् इति । तत् । गंधर्वः । काम्यम् । वचः ॥

यश्च पुषि रघुञ्जिष्ठ्यो यश्च देवां अदाशुरिः ।

धीराणां शश्वतामुहं तदपुगिति शुश्रुस ॥ ४ ॥

यः । च । पुषि । रघुञ्जिष्ठ्यः । यः । च । देवान् । अदाशुरिः ॥

धीराणास् । शश्वताम् । अहम् । तत् । अपुगि । इति ।

शुश्रुस ॥ ४ ॥

भाष्यार्थ—(यत्) जब (भुद्रस्य) श्रेष्ठ (पुरुषस्य) पुरुष का (पुत्रः) पुत्र (दाधृषिः) ढीठ (भवति) हों जावे, (तत्) तब (विप्रः) बुद्धिमान् (गन्धर्वः) विद्या के धारण करने वाले पुरुष ने (उ) निश्चय करके (तत्) यह (काम्यम्) मनोहर (वचः) वचन (अब्रवीत्) कहा है [कि] ॥ ३ ॥—

हन्तुमिच्छति (ज्येष्ठः) अतिवृद्धः सन् (यत्) यः (अपचेताः) अपरिहृतः (तत्) सः (आहुः) कथयन्ति ते विद्वांसः (अधराक्) अधोगामी भवति (इति) वाक्यसमाप्तौ ॥

३—(यत्) यदा (भुद्रस्य) श्रेष्ठस्य (पुरुषस्य) (पुत्रः) (भवति) (दाधृषिः) किकिनावुत्सर्गशक्तवसि सदादिभ्यो दर्शनात् । वा० पा० ३ । २ । १७१ । मिधृषा प्रागल्भ्ये—किन्, धृष्टः । प्रगल्भः । निर्लज्जः (तत्) तदा (विप्रः) मेधावी (अब्रवीत्) (उ) अवधारणे (तत्) इदम् (गन्धर्वः) अथ० २ । १ । २ । गो + धृञ् धारणे—अप्रत्ययः, गोशब्दस्य गमादेशः । विद्याधारकः (काम्यम्) मनोहरम् (वचः) वचनम् ॥

(यः) जो मनुष्य (पण्डि) कुर्व्यवहारी (रघुजिष्ण्यः) अत्यन्त हलका है, (च च) और (यः) जो (देवान्) विद्वानों को (अदाशुरिः) नहीं दान देने वाला है, (तत्) वह (शश्वताम्) सब (धीराणाम्) धीर पुरुषों में (अपाक्) दूर रहने योग्य है—(इति) ऐसा (अहम्) हम ने (शुश्रुम्) सुना है ॥४

भाषार्थ—विद्वानों को प्रयत्न करना चाहिये कि उन के सन्तान विद्वान् होकर विद्वानों से मिलकर रहें ॥ ३, ४ ॥

ये च देवा अयजन्ताथो ये च पराद्दिः ।

सूर्यो दिवमिव गत्वाय मघवा नो वि रप्शते ॥ ५ ॥

ये । च । देवाः । अयजन्त । अथो इति । ये । च । पराद्दिः ॥

सूर्यः । दिवम्-इव । गत्वाय । मघवा । नः । वि । रप्शते ॥५

भाषार्थ—(ये) जिन (देवाः) विद्वानों ने (अयजन्त) मेल किया है, (अथो च च) और (ये) जो (पराद्दिः) शत्रुओं के पकड़ने वाले हैं । (सूर्यः) सूर्य (दिवम् इव) जैसे आकाश को (गत्वाय) प्राप्त होकर, [वैसे ही] (मघवा) महाधनी [सभापति] (नः) उन हम को [प्राप्त होकर] (वि) विविध प्रकार (रप्शते) शोभित होता है ॥ ५ ॥

४—(यः) (च) (पण्डि) विभक्तुंक् । पण्डिः । कुर्व्यवहारी (रघु-जिष्ण्यः) लघुज्येष्ठ्यः, छान्दसं रूपम्, लघु+ज्येष्ठ—भावे यत् । लघुषु निःसारेषु ज्येष्ठ्यम् अतिशयेन वर्धनं यस्य स । अतिशयेन निःसारः (यः) (च) (देवान्) विदुषः प्रति (अदाशुरिः) अ + दाशू दोन—उरिन् प्रत्ययः । अदानशीलः (धीराणाम्) बुद्धिमतां मध्ये (शश्वताम्) बहूनाम् । सर्वेषाम् (अहम्) बहुवचनस्यैकवचनम् । घयम् (तत्) सः (अपाक्) दूरे गमनीयः (इति) एवम् (शुश्रुम्) वयं श्रुतवन्तः ॥

५—(ये) (अथो च च) समुच्चये (देवाः) विद्वानः (अयजन्त) संगतिं कृतवन्तः (ये) (पराद्दिः) अथ० २० । ५६ । २ । बहुवचनस्यैकवचनम् । पराद्दयः । पराणां शत्रूणामादातारो प्रहीतारः (सूर्यः) (दिवम्) आकाशम् (इव) यथा (गत्वाय) ल्यप् छान्दसः । गत्वा । प्राप्य (मघवा) धनवान् । सभापतिः (नः) अस्मान् प्राप्य (वि) विविधम् (रप्शते) राजते—ऋग्वेदभाष्ये ४ । ४५ । १, दयानन्दसायणी ॥

भावार्थ—सभ्य लोग और संभाषति मिलकर संसार को उपकार करके शोभा बढ़ावे, जैसे सूर्य आकाश में चमक कर उपकार करता हुआ शोभित होता है ॥ ५ ॥

योऽनाक्ताक्षो अनभ्युक्तो अमणिवो अहिरण्यवः ।

अब्रह्मा ब्रह्मणः पुत्रस्तोता कल्पेषु संमिता ॥ ६ ॥

यः । अनाक्ताक्षः । अनभ्युक्तः । अमणिवः । अहिरण्यवः ॥

अब्रह्मा । ब्रह्मणः । पुत्रः । तोता । कल्पेषु । संमिता ॥ ६ ॥

भावार्थ—(यः) जो (ब्रह्मणः) ब्रह्मा [वेदजानी] का (पुत्रः) पुत्र (अब्रह्मा) अब्रह्मा [वेद न जानने वाला; कुमार्गी] (अनाक्ताक्षः) अशुद्ध व्यवहार वाला और (अनभ्युक्तः) अविल्यात है । वह (अमणिवः) मणियों [रत्नों] का न रखने वाला और (अहिरण्यवः) तेजहीन होवे; (तोता) यह यह कर्म (कल्पेषु) शास्त्र विधानों में (संमिता) प्रमाणित है ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो कोई ज्ञानी का सन्तान होकर कुमार्गी मूर्ख होवे, वह निर्धन होकर निस्तेज हो जाता है, यह वान वेदशास्त्र से सिद्ध है ॥ ६ ॥

य आक्ताक्षः सुभ्युक्तः सुमणिः सुहिरण्यवः ।

सुब्रह्मा ब्रह्मणः पुत्रस्तोता कल्पेषु संमिता ॥ ७ ॥

यः । आक्ताक्षः । सुभ्युक्तः । सुमणिः । सुहिरण्यवः ॥ सुब्रह्मा ।

ब्रह्मणः । पुत्रः । तोता । कल्पेषु । संमिता ॥ ७ ॥

६—(यः) सन्तानः (अनाक्ताक्षः) अन् + आ + अञ्जू व्यक्तिब्रह्मणः कान्तिगतिषु—क । अशुद्धव्यवहारयुक्तः (अनभ्युक्तः) अन् + अभि + अञ्जू व्यक्तौ—क । अयुक्तः । अविल्यातः । (अमणिवः) वप्रकरणेऽभ्येभ्योऽपि दृश्यते । वा० पा० ५ । २ । १०६ वा मत्वर्थे । रत्नरहितः । निर्धनः (अहिरण्यवः) तेजोहीनः (अब्रह्मा) अत्रेदक्षः (ब्रह्मणः) वेदज्ञस्य (पुत्रः) (तोता) ता + उ + ता । तान्येव तानि कर्माणि (कल्पेषु) शास्त्रविधानेषु (संमिता) प्रमाणितानि ॥

भाषार्थ—(यः) जो (ब्रह्मणः) ब्रह्मा [वेदज्ञानी] का (पुत्रः) पुत्र (सुब्रह्मा) सुब्रह्मा [बड़ा वेदज्ञानी, सुमार्गी], (आत्मानः) शुद्ध व्यवहार वाला और (सुभ्यक्तः) बड़ा विख्यात हो, वह (सुमणिः) बहुत मणियों [रत्नों] वाला और (सुहिरण्यवः) बड़ा तेजस्वी होने, (तोता) यह यह कर्म (कल्पेषु) शास्त्र विधानों में (समिता) प्रमाणित है ॥ ७ ॥

भावार्थ—विद्वान् का सन्तान विद्वान् होने से ही संसार में प्रतिष्ठा पावे, यह वेद मत है ॥ ७ ॥

अप्रपाणा च वेशन्ता रेवा अप्रतिदिश्ययः ।

अयभ्या कुन्या कल्याणी तोता कल्पेषु संमिता ॥ ८ ॥

अप्रपाणा । च । वेशन्ता । रेवान् । अप्रतिदिश्ययः ॥ अयभ्या । कुन्या । कल्याणी । तोता । कल्पेषु । संमिता ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(च) जैसे (अप्रपाणा) बिना पनघट वाला (वेशन्ता) सरोवर है, [वैसे ही] (अप्रतिदिश्ययः) प्रतिदान का न करने वाला (रेवान्) धनवान् और (अयभ्या) मैथुन के अयोग्य [रोग आदि से पीड़ित, सन्तान उत्पन्न करने में असमर्थ] (कल्याणी) सुन्दर (कुन्या) कन्या है, (तोता) यह यह कर्म (कल्पेषु) शास्त्र विधानों में (संमिता) प्रमाणित है ॥ ८ ॥

भावार्थ—बिना पनघट के जल से भरा सरोवर, बिना प्रतिदान के बड़ा धनी, और बिना सन्तान उत्पन्न करने के रूपवती स्त्री निष्फल हैं ॥ ८ ॥

७—(यः) सन्तानः (आत्मानः) म० ६ । आ + अञ्ज—क । शुद्धेव्यवहार-युक्तः (सुभ्यक्तः) म० ६ । सु + अभि + अञ्ज—क अकारलोपः । बहुविख्यातः (सुमणिः) बहुरत्नयुक्तः (सुहिरण्यवः) महातेजस्वी (सुब्रह्मा) महावेदज्ञः (ब्रह्मणः) वेदज्ञस्य । अन्यद् गतम् ॥

८—(अप्रपाणा) विभक्तोकारः—पा० ७ । १ । ३६ । पानस्थानशून्यः (च) उपमार्थं (वेशन्ता) सरोवरः । तडागः (रेवान्) धनवान् (अप्रतिदिश्ययः) दिश दाने—क्यप् + था प्रापणे—ड । अप्रतिदानप्रापकः (अयभ्या) पोरदुपधात् । पा० ३ । १ । ६६ । यम-मैथुने—यत् । अमैथुनयोग्या । रोगादिवशात् सन्तानोत्पादने असमर्था (कुन्या) (कल्याणी) सुन्दरी । अन्यद् गतम् ॥

सुप्रपाणा च वेशुन्ता रेवान्तसुप्रतिदिश्ययः ।

सुर्यभ्या कन्या कल्याणी तोता कल्पेषु संमिता ॥ ८ ॥

सुप्रपाणा । च । वेशुन्ता । रेवान् । सुप्रतिदिश्ययः ॥ सुर्यभ्या ।
कन्या । कल्याणी । तोता । कल्पेषु । संमिता ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(च) जैसे (सुप्रपाणा) अच्छे पनघट वाला (वेशुन्ता)
सरोवर है, [वैसे ही] (सुप्रतिदिश्ययः) सुन्दर प्रतिदान करने वाला
(रेवान्) धनवान् और (सुर्यभ्या) अच्छे प्रार मैथुन योग्य [नीरोग होकर
सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ] (कल्याणी) सुन्दर (कन्या) कन्या है, (तोता)
यह यह कर्म (कल्पेषु) शास्त्र विधानों में (संमिता) प्रमाणित है ॥ ६ ॥

भाषार्थ—जल भरे सरोवर की उपयोगिता जल काम में आने से, धन
की उचित व्यव करने से, और रूपवती स्त्री की वीर सन्तान उत्पन्न करने से
होती है ॥ ६ ॥

परिवृक्ता च महिषी स्वस्त्या च युधिगुमः ।

अनाशुरश्चायामी तोता कल्पेषु संमिता ॥ १० ॥

परिवृक्ता । च । महिषी । स्वस्त्या । च । युधिगुमः ॥ अना-
शुरः । च । आयामी । तोता । कल्पेषु । संमिता ॥ १० ॥

भाषार्थ—(च) जैसे (परिवृक्ता) त्यागे हुये [कर्तव्य छोड़े हुये]
(महिषी) पूजनीया गुणावती पत्नी, [वैसे ही] (स्वस्त्या) सुख के साथ

६—(सुप्रपाणा) शोभनपानस्थानोपेतः (च) उपमार्थे (वेशुन्ता)
तडागः (रेवान्) धनवान् (सुप्रतिदिश्ययः) म० = । योग्यप्रतिदानप्रापकः
(सुर्यभ्या) म० = । सुमैथुनयोग्या । आरोग्यात् सन्तानोत्पादनसमर्था । अन्यद्
गतम् ॥

१०—(परिवृक्ता) त्यक्ता । स्वकर्तव्यविरक्ता (च) उपमार्थे (महिषी)
मह पूजायाम्—टिप्पण् डीप् । पूजनीया गुणावती पत्नी (स्वस्त्या) सुखेन ।
अनायासेन (च) समुच्चये (युधिगुमः) इशुपधात् कित् । ड० ४ । १२० । युध

[जीव चुराकर] (युधिगमः) युद्ध से चल देने वाला, (च च) और (अनाशुरः) आलसी (आयामी) शासन करने वाला [नकम्मा है], (तोता) यह यह कर्म (कल्पेषु) शास्त्र विधानों में (संमिता) प्रमाणित हैं ॥ १० ॥

भावार्थ—घर आदि कर्तव्य कर्म छोड़ने से गुणवती स्त्री, युद्ध से भागने से शूर, और आलस करने से शासक पुरुष निकम्मा है ॥ १० ॥

वावाता च महिषी स्वस्त्या च युधिगमः ।

श्वाशुरश्चायामी तोता कल्पेषु संमिता ॥ ११ ॥

वावाता । च । महिषी । स्वस्त्या । च । युधिगमः ॥ श्वा-

शुरः । च । आयामी । तोता । कल्पेषु । संमिता ॥ ११ ॥

भावार्थ—(च) जैसे (वावाता) अति शीघ्रकारिणी (महिषी) पूजनीया पत्नी, [वैसे ही] (स्वस्त्या) सुख के साथ [धर्म समझकर] (युधिगमः) युद्ध में जाने वाला (च च) और (श्वाशुरः) बड़ा वेगशील (आयामी) शासन करने वाला [सुखदायी है], (तोता) यह यह कर्म (कल्पेषु) शास्त्र विधानों में (संमिता) प्रमाणित हैं ॥ ११ ॥

भावार्थ—कर्तव्य में दक्ष स्त्री, हर्ष के साथ युद्ध को जाने वाला शूर और शीघ्र स्वभाव वाला राजा सुखदायी है ॥ ११ ॥

यदिन्द्रादो दाशराज्ञे मानुषं वि गाहयाः ।

संप्रहारे—इन् कित्+गम्लु गतौ—खच् मुम च । युधेयुद्धाद् गमनशीलः पलायनशीलः (अनाशुरः) शावशेराज्ञौ । उ० १ । ४४ । अन्+अशू व्याप्तौ—वरन्, स च यित् । अनाशुः । अशीघ्रः । आलस्यवान् (च) (आयामी) आ+यम वेष्टने नियमने णिच्—णिनि । आ समन्ताद् यामयति नियामयति प्रजागणान् । निबन्ता । शासकः । अन्यद् गतम् ॥

११—(वावाता) हसिमृत्रिणवामदि० । उ० ३ । ६६ । वा गतिगन्धनयोः यङि तन् प्रत्ययः, टाप् । भृशं शीघ्रकारिणी (च) (महिषी) म० १० । पूजनीया पत्नी (स्वस्त्या) सुखेन । धर्मभावेन (च) (युधिगमः) म० १० । युधौ युद्धे गमनशीलः शूरः (श्वाशुरः) म० १० । सु+आशुरः । सुष्ठु वेगवान्, (च) (आयामी) म० १० । शासकः । अन्यद् गतम् ॥ ।

विरूपः सर्वस्मा आसीत् सुह यज्ञाय कल्पते ॥ १२ ॥

यत् । इन्द्र । अदः । दाशराज्ञे । मानुषम् । वि । गाहथाः ॥

विरूपः । सर्वस्मै । आसीत् । सुह । यज्ञाय । कल्पते ॥ १२ ॥

भाषार्थ—(यत्) जब, (इन्द्र) इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य] (दाशराज्ञे) दानपात्र सेत्रकों के राजा के लिये [अर्थात् अपने लिये] (अदः) उस [वेदोक्त] (मानुषम्) मनुष्य के कर्म को, (वि गाहथाः) तू ने विलोडित किया है [गड़बड़ कर दिया है] । (सर्वस्मै) सब के लिये (विरूपः) वह दुष्ट रूप वाला व्यवहार (आसीत्) हुआ है । यह [मनुष्य] (यज्ञाय) पूजनीय कर्म के लिये (सह) मिलकर (कल्पते) समर्थ होता है ॥ १२ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य वेद मर्यादा को तोड़कर स्वार्थ के लिये सेवक आदि को सताता है, वह सब को कष्ट देता है, इस लिये मनुष्य सदा परोपकार करे ॥ १२ ॥

त्वं वृषाक्षुं मघवन्नम्रं अर्थाकरो रविः ।

त्वं रौहिणं व्यास्यो वि वृत्रस्याभिनुच्छिरः ॥ १३ ॥

त्वम् । वृषा । अक्षुम् । मघवन् । नम्रम् । अर्थाकुरः ।

रविः ॥ त्वम् । रौहिणम् । व्यास्युः । वि । वृत्रस्य । अभि-

नुत् । शिरः ॥ १३ ॥

भाषार्थ—(मघवन्) हे धनवान् (मर्य) मनुष्य । (त्वम्) तू ने

१२—(यत्) यदा (इन्द्र) परमैश्वर्यन्, मनुष्य (अदः) तत् । वेदोक्तम् (दाशराज्ञे) दाशु दानै—घञ् । राज्ञु दीप्तौ ऐश्वर्ये च—कनिन् । दाशानां दानीयानां दानपात्राणां भृत्यानां स्वामिदिताय । स्वार्थाय (मानुषम्) मनु—अण् धुक् च । मनुष्यसम्बन्धि कर्म (वि गाहथाः) गाह विलोडने—लुङ्, अडसीवः । विलोडितघानलि (विरूपः) विकृतरूपो, दुष्टरूपो व्यवहारः (सर्वस्मै) प्रत्येकप्राणिने (आसीत्) (सह) संयोगेन (यज्ञाय) यज्ञ पूजायाम्—घञ् । पूजनीयकर्मणे (कल्पते) रूप सामर्थ्ये । समर्थो भवति ॥

१३—(त्वम्) (वृषा) बलवान् (अक्षुम्) अ० ६ । ३ । अक्षु व्यास्यौ-

(वृषा) बलवान् और (रविः) सूर्य [के समान प्रतापी] होकर : (अक्षुम्) व्यापन शील [चतुर] (नम्रम्) नम्र [विनीत] पुरुष को (आकरः) आवाहन किया है । (त्वम्) तू ने (रौहिणम्) मेघ [के समान अन्धकार फैलाने वाले पुरुष] को (व्यास्यः) फैंक गिराया है और (वृत्रस्य) शत्रु के (शिरः) शिर को (वि अभिनत्) तोड़ दिया है ॥ १३ ॥

भावार्थ—सभापति राजा सूर्य के समान प्रतापी होकर चतुर सुशिक्षित लोगों का आदर और दुष्ट शत्रुओं का नाश करे ॥ १३ ॥

यः पर्वतान् व्यदधाद् यो अपो व्यगाहयाः ।

इन्द्रो यो वृत्रहान्सुहं तस्मादिन्द्र नमोस्तु ते ॥ १४ ॥

यः । पर्वतान् । वि । अदधात् । यः । अपः । वि । अगाहयाः ॥

इन्द्रः । यः । वृत्रहा । आत् । सुहम् । तस्मात् । इन्द्र । नमः ।

अस्तु । ते ॥ १४ ॥

भावार्थ—(यः) जिस (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] तू ने (पर्वतान्) पहाड़ों को (वि) विविध प्रकार (अदधात्) धारण किया है, (यः) जिस तू ने (अपः) जलों को (वि) विविध प्रकार (अगाहयाः) विलोया है, (आत्) और (यः) जो (वृत्रहा) शत्रुनाशक है, (तस्मात्) इसी से, (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] (ते) उस तुम्हें को

उप्रत्ययः । व्यापनशीलं प्रवीणम् (मघवन्) धनवन् (नम्रम्) विनीतं पुरुषम् (मर्य) हे मनुष्य (आकरः) आ—अकरः । आङ् + डुकृञ् आह्वाने—लुङ् । आहूतवानसि (रविः) सूर्यवत्प्रतापी सन् (त्वम्) (रौहिणम्) अथ ० २० । ३४ । १३ । मेघसिवाऽन्धकारकरं दुष्टम् (व्यास्यः) असु क्षेपे—लुङ् । प्रक्षिप्तवानसि (वि) पृथग्भावे (वृत्रस्य) शत्रुः (अभिनत्) अभिदः । मित्रवानसि (शिरः) ॥

१४—(यः) पुरुषः (पर्वतान्) शैलान् (वि) विविधम् (अदधात्) अदधाः । धारितवानसि (यः) (अपः) जलानि (वि) (अगाहयाः) विलो-
डितवानसि (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् पुरुषः (यः) (वृत्रहा) शत्रुनाशकः—
असि (आत्) अनन्तरम् (महम्) महत् (तस्मात्) कारणात् (इन्द्र)

(महम्) बहुत (नमः) नमस्कार (अस्तु) होवे ॥ १४ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य पहाड़ों में मार्ग कर के नदी नाले निकाल कर प्रजा का उपकार करे, सब लोग उस का आदर करें ॥ १४ ॥

पृष्ठं धावन्तं हुर्योः औच्यैःश्वसमब्रुवन् ।

स्वस्तिश्व जैत्रायेन्द्रमा वह सुस्रजम् ॥ १५ ॥

पृष्ठम् । धावन्तम् । हुर्योः । औच्यैःश्वसम् । अब्रुवन् ॥

[स्वस्ति । अश्व । जैत्राय । इन्द्रम् । आ । वह । सुस्रजम् ॥ १५ ॥

भावार्थ—(हुर्योः) ते चलने वाले दोनों बल और पराक्रम के (पृष्ठम्) पीछे (धावन्तम्) दौड़ते हुये (औच्यैःश्वसम्) उच्चैःश्व [बड़ी कीर्ति वाले वा ऊँचे कानों वाले घोड़े] से (अब्रुवन्) वे [चतुर लोग] बोले, (अश्व) हे घोड़े ! (स्वस्ति) कुशल से (जैत्राय) जीतने के लिये (सुस्रजम्) सुन्दर माला के समान सुन्दर सेना वाले (इन्द्रम्) इन्द्र [यड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] को (आ वह) ले आ ॥ १५ ॥

भावार्थ—चतुर विद्वान् लोग श्रेष्ठ घोड़े आदि लाकर राजा को दें, जिस से वह अपनी बड़ी सेना के साथ रण क्षेत्र में दुष्ट शत्रुओं के जीते ॥ १५ ॥

ये त्वा श्वेता अजैश्वसो हार्या युञ्जन्ति दक्षिणम् ।

(नमः) सत्कारः (अस्तु) (ते) तादृशाय तुभ्यम् ॥

१५—(पृष्ठम्) पृष्ठतः । अनुसारेण (धावन्तम्) शीघ्रं गच्छन्तम् (हुर्योः) हरणशीलयोर्बलपराक्रमयोः (औच्यैःश्वसम्) उच्चैः+श्व भवणे—अस्तुन्) स्वार्थे अण् । औच्यैःश्वसः अश्वनाम—निघ० १। १४ । उच्चैर्महन् ब्रुवो यशो यस्य, यद्वा, उच्यते अश्वसो कर्णौ यस्य तम् । बहुकीर्तिमन्तमुच्चतर्कणं वा घोटकम् (अब्रुवन्) अकथयन् ते विद्वान्पः (स्वस्ति) कुशलेन (अश्व) हे घोटक (जैत्राय) जैत्र-भण् । जयाय (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं पुरुषम् (आ वह) आनय (सुस्रजम्) स्रजं विसर्गे—क्विन् । सुमालयेव सुसेनया युक्तम् ॥

पूर्वा नमस्य देवानां विभ्रदिन्द्र महीयते ॥ १६ ॥

ये । त्वा । श्वेताः । अजैश्वसः । हार्यः । युञ्जन्ति । दक्षि-
णम् ॥ पूर्वा । नमस्य । देवानाम् । विभ्रत् । इन्द्र । महीयते ॥

भाष्य—(नमस्य) हे नमस्कार योग्य (इन्द्र) इन्द्र । [बड़े पेश्वर्य वाले पुरुष] (ये) जो (श्वेताः) चांदी [आदि धन] वाले, (अजैश्वसः) अजेय कीर्ति वाले (हार्यः) मनुष्य (दक्षिणम्) चतुर (त्वा) तुझ से (युञ्जन्ति) मिलते हैं, (देवानाम्) विद्वानों को (विभ्रत्) पोषण करने वाले (पूर्वा) [उन की] पुरानी नीति (महीयते) पूजी जाती है ॥ १६ ॥

भाष्य—चतुर राजा धनी विद्वान् मनुष्यों की सुनीति का सदा आदर करे ॥ १६ ॥

सूक्तम् १२८ ॥

१—२० ॥ प्रजापतिदेवता ॥ १—५, ७, १०—१२, १४, १५, २० प्रजा-
पत्या गायत्री; ६ । १६ याजुषी गायत्री; ८, ९ दैवी बृहती; १३ साम्नी गायत्री;
१६, १७ याजुष्युष्णिकं; १८ याजुषी पङ्क्तिः ॥

मनुष्यप्रयत्नोपदेशः—मनुष्य के लिये प्रयत्न का उपदेश ॥

युता अश्वा आ प्रवन्ते ॥१॥ युताः । अश्वाः । आ । प्रवन्ते ॥ १

प्रतीपं प्राति सुत्वनम् ॥२॥ प्रतीपम् । प्राति । सुत्वनम् ॥ २ ॥

[पद पाठ के लिये सूचना सूक्त १२७ देखो]

१६—(ये) (त्वा) (श्वेताः) श्वेतं रूपेऽपि रजतम्—अमरे २३ ।
७६ । श्वेत—अर्श आद्यच् । श्वेतेन रजतादिधनेन युक्ताः (अजैश्वसः) अजेय-
श्वसः । अजेयकीर्तयः (हार्यः) वसिष्ठपियजि० । ७०.४ । १२५ । हन् हरणे—
इम् । हरयो मनुष्यनाम—निघ० २ । ३ । हरयः । मनुष्याः (युञ्जन्ति) संयोज-
यन्ति (दक्षिणम्) दक्ष वृद्धौ—इनन् । दक्षम् । कार्यकुशलम् (पूर्वा) प्राचीना
नीतिः (नमस्य) हे संस्करणीय (देवानाम्) विदुषाम् (विभ्रत्) विभ्रती ।
पोषणं कुर्वन्ती (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् मनुष्य (महीयते) पूज्यते ॥

भाषार्थ—(एताः) यह (अश्वाः) व्यापक प्रजायें (प्रतीपम्) प्रत्यक्ष व्यापक (सुत्वन्म प्राति) ऐश्वर्य वाले [परमेश्वर] के लिये (आ) आकर (स्रवन्ते) चलती हैं ॥ १, २ ॥

भावार्थ—संसार के सब पदार्थ उत्पन्न होकर परमेश्वर की आज्ञा में वर्तमान हैं ॥ १, २ ॥

तासामेका हरिक्रिका ॥३॥ तासाम् । एका । हरिक्रिका ॥३॥
हरिक्रिके किमिच्छसि ॥४॥ हरिक्रिके । किम् । इच्छसि ॥४॥
साधुं पुत्रं हिरण्ययम् ॥५॥ साधुम् । पुत्रम् । हिरण्ययम् ॥५॥
क्वाहंतं परास्यः ॥ ६ ॥ क्वा । आहंतुम् । परास्यः ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(तानाम्) उन [व्यापक प्रजाओं] के बीच (एका) एक [छी प्रजा] (हरिक्रिका) मनुष्य में प्रीति करने वाली है ॥ ३ ॥ (हरिक्रिके) हे मनुष्य में प्रीति करने वाली ! तू (किम्) क्या (इच्छसि) चाहती है ॥ ४ ॥ (साधुम्) साधु [कार्य साधने वाले], (हिरण्ययम्) तेजोमय (पुत्रम्) पुत्र

१—(एताः) उपस्थिताः (अश्वाः) अश्व व्याप्तौ—इन्द्र, टाप् । व्यापिकाः प्रजाः (आ) आगत्य (स्रवन्ते)—गच्छन्ति ॥

२—(प्रतीपम्) आप्तोनेर्ह्रस्वश्च । उ० २ । ५२ । प्रति + आप्तु व्याप्तौ—किप् । ऋक्पूरवधुः पथामनन्ते । पा० ५ । ४ । ७४ । अप्रत्ययः । द्वयन्तरूप-सर्गेभ्योऽपि ईत् । पा० ६ । ३ । ६३ । इति ईत् । प्रत्यक्षव्यापकम् (प्राति) साहितकौ दीर्घः । प्रति । उद्दिश्य (सुत्वन्म) सुयजेर्द्वनिप् । पा० ३ । २ । १०३ । पु प्रसवैश्वर्ययोः—द्वनिप, तुक् च । उत्पादकम् । ऐश्वर्यवन्त परमेश्वरम् ॥

३—(तासाम्) पूर्वोक्तप्रजानां मध्ये (एका) छी प्रजा (हरिक्रिका) हरयो मनुष्याः—निघ० २ । ३ । कुन् शिल्पिसंज्ञयोरपूर्वस्यापि । उ० २ । ३२ ॥ कनी दीप्तिकान्तिगतिषु—कुन्, टाप् । अत् इत्वम् । धातोः अकारलोपः । हरिक्रिका । मनुष्येच्छुका ॥

४—(हरिक्रिके) म० ३ । हे मनुष्येच्छुके (किम्) (इच्छसि) कामयसे ॥

५—(साधुम्) कार्यसाधकम् (पुत्रम्) सन्तानम् (हिरण्ययम्) तेजोमयम् ॥

[सन्तान्] को (क) कहां (आहतम्) ताडा हुआ (परास्यः) तूने दूर फेंक दिया है ॥ ५,६ ॥

भावार्थ—सृष्टि के बीच माता अपने पुत्र से प्रीति करके सन्तान उत्पन्न करके उन को कुमार्ग से बचाके तेजस्वी और सुमार्गी बनावे ॥ ३-६ ॥

यत्रासूस्तिस्रः शिशुपाः ॥७॥ यत्र । अमूः । तिस्रः । शिशुपाः ॥७॥

परि त्रयः ॥ ८ ॥ परि । त्रयः ॥ ८ ॥

पृदाकवः ॥ ९ ॥ पृदाकवः ॥ ९ ॥

शृङ्गं धुमन्तं आसते ॥१॥ शृङ्गम् । धुमन्तः । आसते ॥१०॥

भावार्थ—(यत्र) जहां (अमूः) वे (तिस्रः) तीन [माता पिता और आचार्य रूप प्रजायें] (शिशुपाः) बालक की पालने वाली हैं ॥ ७ ॥

[वहां] (त्रयः) तीन [आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक क्लेश रूप] (पृदाकवः) अजगर [बड़े सांप] (शृङ्गम्) धुमन्तः) लींग फूकते हुये [घाजे के समान फुफकार मारते हुये] (परि) अलग (आसते) बैठने हैं ॥ ८-१० ॥

भावार्थ—जिस कुल में माता पिता और आचार्य सुशिक्षक हैं, वहां सन्तान सदा सुखी रहते हैं, और जैसे अजगर सांप अपने श्वास से खैचकर प्राणियों को खा जाने हैं, वैसे ही विद्वान् सन्तानों को तीनों क्लेश नहीं सताते हैं ॥ ७-१० ॥

अयन्मुहा तं अर्वाहः ॥११॥ अयत् । मुहा । ते । अर्वाहः ॥११॥

६—(क) कुत्र (आहतम्) ताडितम् (परास्यः) असु क्षेपणे । परा दूरे आस्यः अक्षिपः ॥

७—(यत्र) यस्मिन् कुले (अमूः) प्रसिद्धाः (तिस्रः) मातापितराचार्यरूपाः प्रजाः (शिशुपाः) छान्दसं रूपम् । शिशुपाः । बालानां पालिकाः ॥

८—(परि) पृथग्भावे (त्रयः) आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकक्लेशाः ॥

९—(पृदाकवः) अजगराः । शृङ्गसर्पाः ॥

१०—(शृङ्गम्) वायुविशेषं यथा, तथा श्वासशब्दम् (धुमन्तः) ध्मा शब्दाग्निसंयोगयोः—शब्द । दीर्घश्वासेन शब्दधुमन्तः (आसते) उपविशन्ति ॥

स इच्छकं सधाघते ॥१२॥ सः । इच्छकम् । सधाघते ॥१२॥

सधाघते गोमीद्या गोगतीरिति ॥ १३ ॥

सधाघते । गोमीद्या । गोगतीः । इति ॥ १३ ॥

पुमां कुस्ते निमिच्छसि ॥१४॥ पुमान् । कुस्ते । निमिच्छसि ॥१४॥

भाषार्थ—[हे स्त्री !] (अर्वाहः) ज्ञान पहुँचाने वाला [मनुष्य] (महा) महत्त्व के साथ (ते) तेरे लिये (अयत्) प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ (सः) वह [मनुष्य] (इच्छकम्) इच्छावाले को (सधाघते) सहाय करता है ॥१२॥ (गोमीद्या) वेद वाणी जानने वाली [स्त्री] (गोगतीः) पृथिवी पर गति वाली [प्रजाओं] को (सधाघते) सहाय करती है, (इति) ऐसा [निश्चय] है ॥ १३ ॥ [हे मनुष्य !] (पुमान्) रत्नक पुरुष होकर (कुस्ते) मिलाप के व्यवहार में (निमिच्छसि) चलता रहता है ॥ १४ ॥

भावार्थ—स्त्री पुरुष मिलकर धर्म व्यवहार में एक दूसरे के सहायक होकर संसार का उपकार करें ॥ ११—१४ ॥

११—(अयत्) अयते । प्राप्यते (महा) मह पूजायाम् क्विप् । महश्चेन (ते) तुभ्यम् (अर्वाहः) ऋ गतौ—विच्+वह प्रापणे—ऌण् । ज्ञानप्रापको विद्वान् ॥

१२—(सः) मनुष्यः (इच्छकम्) इषु इच्छायाम्-शकप्रत्ययः । इच्छा-धुकम् (सधाघते) वह क्षमायाम् इत्यस्य रूपम् । यद्वा, पद्य हिंसायाम् अत्र सहाये । साहयते ॥

१३—(सधाघते) म० १२ ॥ साहयते (गोमीद्या) गौर्वाङ्गिनाम—निघ० १ । ११ । अथन्यादयश्च । उ० ४ । ११२ । मिद् मेधाहिंसनयोः—यक्, टाप् दीर्घश्च । गां वेदवाणीं मेदते प्रजानाति आ सा (गोगतीः) गवि पृथिव्यां गति-युक्ताः प्रजाः (इति) एवमस्ति ॥

१४—(पुमान्) पातेर्ङुमसुन् । उ० ४ । ११६ । पुमस् । रत्नकः सन् (कुस्ते) अञ्जिघृसिभ्यः कः । उ० ३ । ८६ । कुस संश्लेषणे—क । संयोगव्यवहारे (निमिच्छसि) मियच्छति म्यच्छतीति गतिक्सा—निघ० २ । १४ इत्यस्य रूपम् । यद्वा मिच्छ उत्कृष्टे शौ=पीडने, इत्ययमपि गतौ । नितरां गच्छसि ॥

पल्पं बहु वयो इति ॥१५॥ पल्पं । बहु । वयः । इति ॥१५॥

बद्धं वे अघा इति ॥१६॥ बद्धं । वः । अघाः । इति ॥१६॥

भाषार्थ—(पल्प) हे रक्तक ! (बहु) हे प्रबन्ध करने वाले ! [पुरुष] (वयः इति) यह जीवन है ॥ १५ ॥ (अघाः) हे पापियो ! (वः) तुम्हारा (बद्ध इति) यह [प्राणी] प्रबन्ध करने वाला है ॥ १६ ॥

भावार्थ—मनुष्य सावधान जितेन्द्रिय होकर पाप से बचने को उपाय करते रहें ॥ १५, १६ ॥

अजागारु केविका ॥ १७ ॥ अजागारु । केविका ॥ १७ ॥

अश्वस्य वारो गोशपद्यके ॥ १८ ॥

अश्वस्य । वारः । गोशपद्यके ॥ १८ ॥

भाषार्थ—(केविका) सेवा करने वाली [बुद्धि] (अजागारु) जागती हुई है ॥ १७ ॥ (अश्वस्य वारः) अश्ववार [घुडचढ़ा, घोड़ा लेने को] (गोशपद्यके) गौओं के सोने के स्थान में [व्यर्थ है] ॥ १८ ॥

भावार्थ—सेवा करने वाली अर्थात् उचित काम में लगी हुई बुद्धि तीव्र होती है, घुडचढ़े को उत्तम घोड़ा घुड़साल में मिलता है, गोशाला में नहीं ॥ १७, १८ ॥

श्रेणीपती सा ॥ १८ ॥ श्रेणीपती । सा ॥ १८ ॥

१५—(पल्प) पानीविषिभ्यः पः । उ० ३ । २१ । पल्ल गतौ रक्षणं च—पप्रत्ययः । हे रक्तक (बहु) कर्तरि क । हे प्रबन्धक (वयः) जीवनम् (इति) अवधारणे ॥

१६—(बद्ध) विभक्तोर्लुक् । प्रबन्धकः (वः) युष्माकम् (अघाः) अघं पापम्—अर्शआद्यच् । हे पापिनः (इति) ॥

१७—(अजागारु) जागरिता सावधाना अभवत् (केविका) केषु सेवने—एतुल्, टाप अत इत्वम् । सेविका बुद्धिः ॥

१८—(अश्वस्य) तुर्गस्य (वारः) वारयिता । आरूढः (गोशपद्यके) गौ + शीङ् शयने—ङ + पद—यत् ; स्वार्थे कन् । गोशयनस्थाने । गौष्टे ॥

अनासुये।पञ्जिहिका ॥२०॥ अनासुया । उपजिहिका ॥ २० ॥

भाषार्थ—(सा) वह [सेवा करने वाली बुद्धि—म० १७] (श्येनीपती) शीघ्र गति वाली प्रजाप्रा की स्वामिनी- होकर ॥ १६ ॥ (अनामया) गीरोग और (उपजिहिका) उपकारी जिह्वा [वाणी] वाली है ॥ २० ॥

भावार्थ—उत्तम बुद्धिवाला मनुष्य शीघ्र काम करने वाला; स्वस्थ और उपकारी वचन बोलने वाला होता है ॥ १६. २० ॥

सूक्तम् १३० ॥

१—२० ॥ प्रजापतिर्देवता १ याजुषी पङ्क्तिः ; २. ३, ४, १८ याजुषी गायत्री ; ५. ६, ८, ९, ११, १२, १४—१७, १९, २० प्राजापत्या गायत्री ; ७ याजुषी वृहती ; १० याजुष्युष्णिक ; १२ देवी पङ्क्तिः ॥

मनुष्यपुरुषार्थोपदेशः—मनुष्य के लिये पुरुषार्थ का उपदेश ॥

को अर्य बहुलिमा इषूनि ॥१॥ कः । अर्य । बहुलिमा । इषूनि १

को अरिद्याः पर्यः ॥ २ ॥ कः । अरिद्याः । पर्यः ॥ २ ॥

को अर्जुन्याः पर्यः ॥ ३ ॥ कः । अर्जुन्याः । पर्यः ॥ ३ ॥

कः क्राण्यर्याः पर्यः ॥ ४ ॥ कः । क्राण्यर्याः । पर्यः ॥ ४ ॥

एतं पृच्छ कुहं पृच्छ ॥५॥ एतस् । पृच्छ । कुहम् । पृच्छ ॥५॥

कुहाकं पक्वकं पृच्छ ॥६॥ कुहाकम् । पक्वकम् । पृच्छ ॥६॥

[सूचना—पदपाठ के लिये सूचना सूक्त १२७ देखो ॥]

भाषार्थ—(कः) कौन मनुष्य (बहुलिमा) बहुत से (इषूनि) इष्ट

१६—(श्येनीपती) अ० ३ । ३ । ३ । श्येङ् गतौ—इनच्, डीप + पति—डीप् । श्येनीतां शीघ्रगामिनीनां प्रजानां स्वामिनी (सा) केविका बुद्धिः—म० १७ ॥

२०—(अनामया) वलिमलितनिभ्यः कथन्, उ० ४ । ६६ । अम पीडने श्रु०—कथन्, डाप् । रोगरहिता । (उपजिहिका) शेषाथहजिह्वा० । उ० १ । १५४ । जि जये—कन्, कुक् च, डाप् । उप उपकारिका जिह्व वाणी यस्याः सा ॥

१—(कः) (अर्य) अ गतौ—इत्यर्थे कथम् । अर्यात् । प्राप्नुयात्

धन्तुर्ग्रीं को (अर्थ) पावे ॥ १ ॥ (कः) कौन (असिधाः) बिना बन्धन वाली क्रिया के (पयः) अन्न को ॥ २ ॥ (कः) कौन (अर्जुन्याः) उद्यम वाली क्रिया के (पयः) अन्न को ॥ ३ ॥ (कः) कौन (कार्ण्याः) आकर्षण वाली, क्रिया के (पयः) अन्न को [पावे] ॥ ४ ॥ (एतम्) इस [प्रश्न] को (कुहम्) अद्भुत स्वभाव वाले मनुष्य से (पृच्छ) पूछ, (पृच्छ) पूछ ॥ ५ ॥ (कुहाकम्) अद्भुत स्वभाव वाले, (पककम्) पके [हृद् चित्त वाले] से (पृच्छ) पूछ ॥ ६ ॥

भावार्थ—मनुष्य विवेकी, क्रिया कुशल विद्वानों से शिक्षा लेता हुआ विद्या यत्न से समत्कारी, नवीन नवीन आविष्कार करके उद्योगी होवे ॥१—६॥

यवानो यतिस्वभिः कुभिः ॥७॥ यवानः। यतिस्वभिः। कुभिः॥७ ॥

अकुप्यन्तः कुपायकुः ॥ ८ ॥ अकुप्यन्तः । कुपायकुः ॥ ८ ॥

आमणको मणत्सकः ॥ ९ ॥ आमणकः । मणत्सकः ॥ ९ ॥

देव त्वप्रतिसूर्य ॥ १० ॥ देव । त्वप्रतिसूर्य ॥ १० ॥

(बहुलिमा) पृथ्वादिभ्य इमनिच्वा । पा० ५ । १ । १३२ । बहुल-इमनिच् । यहनि (इपुनि) इषु इच्छायाम् उप्रत्ययः कित् । इष्टवस्तुनि

२—(कः) (असिधाः) विद् बन्धने-क्तिन्, तस्य दः । असिध्याः । बन्धन-रहितक्रियायाः (पयः) पय गती-असुन् । अन्नम्—निघ० २ । ७ ॥

३—(कः) (अर्जुन्याः) अर्जेर्णिलुक् च । उ० २ । ५ ८ । अर्जे अर्जने-उनन् ङीप् । उद्योगिन्याः क्रियायाः (पयः) म० २ ॥

४—(कः) (कार्ण्याः) वृण्णिपृश्नपाणिर्ण ० । उ० ४ । ५२ । कृप विले-खने-निप्रत्ययः, वृद्धिश्च । आकार्यकक्रियायाः (पयः) म० २ ॥

५—(एतम्) प्रश्नम् (पृच्छ) (कुहम्) कुह विस्मापने—क । अद्भुत-स्वभावं पुरुषम् (पृच्छ) ॥

६—(कुहाकम्) बहुलमन्यत्रापि । उ० २ । ३७ । कुह विस्मापने—कसुन्, वृद्धिः । यद्वा, पिनाकाद्यश्च । उ० ४ । १५ । कुह—आकप्रत्ययः । अद्भुतस्व-भावम् (पककम्) हृद्चित्तम् (पृच्छ) ॥

भाषार्थ—(यवानः) युवा [बलवान्] (यतिस्वभिः) यतियों [यत्न करने वालों] में प्रकाशमान, (कुभिः) ङकलेने वाला [प्रताप वाला] ॥ ७ ॥ (अकुप्यन्तः) कोप नहीं करने वाला, (कुपायकुः) पृथिवी को रक्षा करने वाला ॥ ८ ॥ (आमणकः) उपदेश करने वाला और (मणत्सकः) विद्वानों में शक्तिमान् होकर ॥ ९ ॥ (देव) हे विद्वान् । (त्वप्रतिसूर्य) तू सूर्य समान [प्रतापी] है ॥ १० ॥

भाषार्थ—मनुष्य शरीर और आत्मा से बलवान् होकर भूमि की रक्षा और विद्या की बढ़ती करे ॥ ७—१० ॥

एनश्चिपङ्क्तिका हृविः ॥ ११ ॥ एनश्चिपङ्क्तिका । हृविः ॥ ११ ॥

प्रदुद्रुदो सचाप्रति ॥ १२ ॥ प्रदुद्रुदुः । सचाप्रति ॥ १२ ॥

भाषार्थ—(एनश्चिपङ्क्तिका) पाप के नाश का फैलाने वाला

७—(यवानः) सभ्यानच् स्तुवः । उ० २ । ८६ । यु मिश्रणामिश्रणयोः—आनच् । युवा । बलवान् (यतिस्वभिः) सर्वधातुभ्य इन् । उ० ४ । ११८ । यती यत्ने—इन् । इगुपधात् कित् । उ० ४ । १२० । युभ शुभ भाषणभासनहिंसनेषु—इन् कित् । उकारस्य वः । यतिषु यत्नशीलेषु दीप्यमानः (कुभिः) इगुपधात् कित् । उ० ४ । १२० । कुभ कुभि आच्छादने—इन् कित् । आच्छादकः प्रतापवान् ॥

८—(अकुप्यन्तः) जृविशिश्यां भक्त् उ० ३ । १२६ । कुप क्रोधे—भक्त्, अत्र कित् यकारश्च । क्रोधरहितः (कुपायकुः) कठिकुपिभ्यां काकुः । उ० ३ । ७७ । काकुरेव ककुः । कु + पा रजणे—ककु, यकारश्च । कुं भूमिं पातीति—सः । पृथिवीपालः ॥

९—(आमणकः) कजादिभ्यः संज्ञायां वुन् । उ० ५ । ३५ । आ + मण शब्दे—वुन् । उपदेशकः (मणत्सकः) वर्तमाने पृषद् वृहन् । उ० २ । ८४ । मण शब्दे—अति + शकल् + सामर्थ्ये—अच् । मणत्सु विद्वत्सु शक्तः ॥

१०—(देव) हे विद्वान् (त्वप्रतिसूर्य) विभक्तलुक् । त्वमेव सूर्य-समानः प्रतापवान् ॥

११—(एनश्चिपङ्क्तिका) वातेर्ङिच्च । उ० ४ । १३४ । एनः + चन अक्षोपहननयोः—इण् डित् । वृतेस्तिकन् । उ० ३ । १४६ । पचि व्यक्तीकरणे विस्तारवचने—तिकन् । सुपां सुलुक्० पा० ७ । १ । ३६ । विभक्तोराकारः ।

(हविः) देन लेन [होवे] ॥ ११ ॥ (प्रदुद्दः) अच्छे प्रकार गति देने वाला व्यवहार (मघाप्रति) धनों के लिये [होवे] ॥ १२ ॥

भावार्थ—मनुष्य सत्य से व्यवहार कर के धन प्राप्त करे ॥ ११, १२ ॥

शृङ्ग उत्पन्न ॥ १३ ॥ शृङ्गः । उत्पन्न ॥ १३ ॥

मा त्वाभि सखा नो विदन् ॥ १४ ॥

मा । त्वा । अभि । सखा । नः । विदन् ॥ १४ ॥

भाषार्थ—[हे शत्रु !] तू (शृङ्गः) हिसक (उत्पन्न) उत्पन्न है ॥ १३ ॥ (त्वा) तुझ से (नः) हमारा (सखा) सखा [साथी] (मा अभि विदन्) कभी न मिले ॥ १४ ॥

भावार्थ—मनुष्य अपने मित्रों को दुष्टों से कभी न मिलने देवे ॥

वृश्याः पुत्रमा यन्ति ॥ १५ ॥ वश्याः पुत्रम् । आ । यन्ति ॥ १५ ॥

इरावेदुमयं दत्त ॥ १६ ॥ इरावेदुमयम् । दत्त ॥ १६ ॥

अथो ह्यन्नियन्निति ॥ १७ ॥ अथो । ह्यन्-ह्यन् । इति ॥ १७ ॥

अथो ह्यन्निति ॥ १८ ॥ अथो । ह्यन् । इति ॥ १८ ॥

अथो श्वा अस्थिरो भवन् ॥ १९ ॥

अथो । श्वा । अस्थिरः । भवन् ॥ १९ ॥

एनसः पापस्य चेर्नाशस्य पङ्क्तिकं विस्तारकम् (हविः) हु दानादानयोः— इति । दानादानकर्म ॥

१२—(प्रदुद्दः) शते च । उ० १ । ३५ । प्र+द्रु गतो—कु डित्, ददातेः—क । प्रकर्षेण गतिदायको व्यवहारः (मघाप्रति) मघं धननाम— निघ० २ । १० । धनानि प्रति अभिमुखीकृत्य ॥

१३—(शृङ्गः) शृणातेर्ह्रस्वश्च । उ० १ । १२६ । शृ हिंसायाम्— गन्, नुट् च । हिंसकः । शत्रुः (उत्पन्न) प्रादुर्भूतोऽसि ॥

१४—(मा) निषेधे (त्वा) त्वाम् (अभिः) सर्वतः (सखा) (नः) अस्माकम् (विदन्) प्राप्नोतु ॥

सूर्यं यकांशलोकका ॥ २० ॥ उयम् । यकांशलोकका ॥ २० ॥

भाष्यार्थ—(वशायाः) कामना योग्य स्त्री के (पुत्रम्) पुत्र को (आ यन्ति) वे [मनुष्य] आकर पहुंचते हैं ॥ १५ ॥ (इरावेदुमयम्) भूमि के ज्ञान वाला व्यवहार [उस को] (वत) तुम दो ॥ १६ ॥ (अथो) फिर वह [पुत्र] (इयन्—इयन्) चलता हुआ, चलता हुआ [होवे], (इति) ऐसा है ॥ १७ ॥ (अथो) फिर वह (इयन्) चलता हुआ [होवे], (इति) ऐसा है ॥ १८ ॥ (अथो) अथवा (श्वा) कुत्ते [के समान] (अस्थिरः) चंचल स्वभाव वाला (भवन्) होता हुआ ॥ १९ ॥ वह (इयम्) निश्चय करके (यकांशलोकका) यातना [घोर पीड़ा] वाले भाग का दिखाने वाला [होवे] ॥ २० ॥

भावार्थ—विद्वान् लोग गुणवती स्त्री के सन्तानों को उत्तम शिक्षा देकर महान् विद्वान् और उद्योगी बनावें। ऐसा न करने से बालक निर्गुणी और पीड़ा दायक होकर कुत्ते के समान अपमान पाते हैं ॥ १५—२० ॥

१५—(वशायाः) वश कान्तौ—अङ्, टाप् । कामनीयायाः स्त्रियाः (पुत्रम्) सन्तानम् (आ) आगत्य (यन्ति) प्राप्नुवन्ति ॥

१६—(इरावेदुमयम्) ऋज्जेन्द्राग्र० । उ० २ । २८ । इण् गतौ—रन्, गुणाभावः । भृशुशीङ्० । उ० १ । ७ । विद् ज्ञाने—उप्रत्ययः । इराया भूमेर्ज्ञानियुक्तं व्यवहारम् (वत) तलोपः । यूर्यं इत्स ॥

१७—(अथो) अनन्तरम् (इयन्नियन्) इण् गतौ—शत्, इयङ् इत्यादेशः, क्तिषं च । यन् यन् । गच्छन् गच्छन्—स सधत्तु (इति) एवम् ॥

१८—(अथो) अनन्तरम् (इयन्) म० १७ । गच्छन् (इति) ॥

१९—(अथो) पक्षान्तरे । अथवा (श्वा) श्वनुत्तन्पूषन्० । उ० १ । १५६ । हु ओ षिव गतिवृद्धयोः—कनिन् । कुक्कुरो यथा, (अस्थिरः) चञ्चल-वृद्धिः (भवन्) सन् ॥

२० (उयम्) अव्ययम् । निश्चयेन (यकांशलोकका) कृमादिभ्यः संज्ञायां युन् । उ० ५ । ३५ । यत् ताडने—डुन्, स च डित्+अंश विभाजने—अच् । कृमादिभ्यः० । उ० ५ । ३५ । लोक दर्शने—युन्, विमकोराकारः । यकस्य यात-कस्य महापीडकस्य अंशस्य भागस्य लोकको दर्शयिता ॥

सूक्तम् १३१ ॥

१-२० ॥ प्रजापतिर्वरुणो वा देवता ॥ १-४,६-११, १४, १८, १९ प्राजा-
पत्या गायत्री, ५ अनुष्टुप्; १२, १३ द्वैत्री बृहती; १५, १६ याजुषी गायत्री; १७
द्वैवी पङ्क्तिः; २० याजुष्युष्णिक् ॥

पेश्वर्यप्राप्तयुपदेशः—पेश्वर्य की प्राप्ति का उपदेश ॥

अमिनो निति भव्यते ॥१॥ आ-अमिनोन् । इति । भव्यते ॥ १ ॥

तस्य अनु निभञ्जनम् ॥२॥ तस्य । अनु । निभञ्जनम् ॥२॥

वरुणो याति वस्वभिः ॥३॥ वरुणः । याति । वस्वभिः ॥३॥ ।

शतं वा भारती शवः ॥४॥ शतम् । वा । भारती । शवः ॥४॥ ।

शतमाश्वा हिरण्ययाः । शतं रुथ्या हिरण्ययाः ॥

शतं कुथा हिरण्ययाः । शतं निष्का हिरण्ययाः ॥ ५ ॥

शतम् । आश्वाः । हिरण्ययाः ॥ शतम् । रुथ्याः । हिरण्ययाः ॥

शतम् । कुथाः । हिरण्ययाः ॥ शतम् । निष्काः । हिरण्ययाः ॥

भाषार्थ—(आ—अमिनोन्) उन [विद्वानों] ने [विघ्न को] सब
ओर से हटाया है, (इति) यह (भव्यते) कल्याणकारी है ॥ १ ॥ (तस्य)
हिंसक विघ्न का (अनु) लगातार (निभञ्जनम्) विनाश-होवे ॥ २ ॥ (वरुणः)
श्रेष्ठ [धनी पुरुष] (वस्वभिः) श्रेष्ठ वस्तुओं के साथ (याति) चलता
है ॥ ३ ॥ (शतम्) सौ (भारती) पोषण करने वाली विधायी (वा) और

१—(आ—अमिनोन्) इमिन् प्रक्षेपणे—लङ् छान्दसः । मिनोतिर्वध-
कर्मा—निघ० २ । १६ । समन्तात् नाशितवन्तः, ते विद्वानो विघ्नम् (इति)
अवधारणे (भव्यते) भदि कल्याणे लुप्ते च । कल्याणकरं भवति ॥

२—(तस्य) तर्द हिंसे—इप्रत्ययः । हिंसकस्य विघ्नस्य । चौरस्य
(अनु) निरन्तरम् (निभञ्जनम्) विनाशनम् ॥

३—(वरुणः) श्रेष्ठः । धनी पुरुषः (याति) गच्छति (वस्वभिः)
वस्तुभिः । श्रेष्ठवस्तुभिः ॥

४—(शतम्) बहु (वा) चार्थे (भारती) अथ० ५ । १२ । इ । इभ्रुष

(शवः) चल हैं ॥ ४ ॥ (शतम्) सौ (हिरण्ययाः) मुनहरं (आशवाः) घोड़े हैं । (शतम्) सौ (हिरण्ययाः) मुनहरं (रथ्याः) रथ हैं । (शतम्) सौ (हिरण्ययाः) मुनहरी (कुयाः) हाथी की झुलें हैं । (शतम्) सौ (हिरण्ययाः) मुनहरं (निष्काः) हार हैं ॥ ५ ॥

भाषार्थ—मनुष्य पूर्वज विद्वानों के लमान विद्यों को हटाकर अनेक प्रकार के पेश्वर्य प्राप्त करें ॥ १—५ ॥

अहल कुश वर्त्तक ॥ ६ ॥ अहल । कुश । वर्त्तक ॥ ६ ॥

शुफेन इव ओहते ॥ ७ ॥ शुफेन । इव । ओहते ॥ ७ ॥

आय वनेनती जनी ॥ ८ ॥ आ-अय । वनेनती । जनी ॥ ८ ॥

वनिष्ठा नाव गृह्णन्ति ॥ ९ ॥ वनिष्ठाः ॥ न । अवं । गृह्णन्ति ॥ ९ ॥

इहं मह्यं अदुरिति ॥ १० ॥ इदम् । मह्यम् । मदुः । इति ॥ १० ॥

ते वृक्षाः सुह तिष्ठति ॥ ११ ॥ ते । वृक्षाः । सुह । तिष्ठति ॥ ११ ॥

भाषार्थ—(अहल) है प्रकाशमान ! (कुश) है पाप नाशक ! (वर्त्तक) है प्रवृत्ति करने वाले ! [मनुष्य] ॥ ६ ॥ (शुफेन इव) खुर से जैसे, (ओहते)

धारणपोषणयोः—अतच्, स्वार्थे अण्, ङीप्, बहुवचनस्यैकवचनम् । भारती षाक्—निघ० १ । ११ । भारत्यः । वियाः (शवः) शर्वासि चलानि ॥

५—(शतम्) (आशवाः) स्वार्थे अण् । अशवाः । तुरगाः (हिरण्ययाः) हिरण्यमयाः । सुवर्णशुकाः । तेजामयाः (शतम्) (रथ्याः) खलनोरथात् । पा० ४ । २ । ५० । रथ—य । रथसमूहाः (हिरण्ययाः) (शतम्) (कुयाः) कुथ, कुन्थ संश्लेषणे—अच् । गजपृष्ठस्थचित्रकम्बलाः (हिरण्ययाः) (शतम्) (निष्काः) निस्, निश्चयेन + कै शब्दे—क । उरोभूषणानि । हाराः (हिरण्ययाः) ॥

६—(अहल) शक्तिशम्योर्नित् । उ० १ । ११२ । अहि गतौ दीप्तौ च—कलप्रभयः । है दीप्यमान (कुश) कु पापं श्यतीति, शो तनूकरणे—उग्रत्ययः । है पापनाशक (वर्त्तक) वृत्तु वर्तने—खुल् । है प्रवृत्तिशील ॥

७—(शुफेन) खुरेण (इव) यथा (ओहते) उदिर अर्द्धने । हन्यते स शत्रुः ॥

वह [शत्रु] मारा जाता है ॥ ७ ॥ (वनेनती) उपकार में झुकने वाली (जनी) माता होकर (आय) तू आ ॥ ८ ॥ (वनिष्ठाः) अत्यन्त उपकारी लोग (न) नहीं (अव गृह्यन्ति) रुकते हैं ॥ ९ ॥ (इदम्) यह [वचन] (मह्यम्) मेरे लिये (मदुः) आनन्द देने वाली नीति है—(इति) यह निश्चय है ॥ १० ॥ (ते) वे (वृक्षाः) स्वीकार करने योग्य पुरुष (सह) मिलकर (तिष्ठति) रहते हैं ॥ ११ ॥

भावार्थ—सब मनुष्य और स्त्रियां सदा उपकार करके क्लेशों से बचें और परस्पर प्रीति से रहें ॥ ६—११ ॥

पाकं बलिः ॥ १२ ॥ पाक । बलिः ॥ १२ ॥

शकं बलिः ॥ १३ ॥ शक । बलिः ॥ १३ ॥

अश्वत्थ खदिरो ध्रुवः ॥ १४ ॥ अश्वत्थ । खदिरः । ध्रुवः ॥ १४ ॥

अरदुपरम ॥ १५ ॥ अरदुपरम ॥ १५ ॥

शयो हुत इव ॥ १६ ॥ शयः । हुतः । इव ॥ १६ ॥

भावार्थ—(पाक) हे रक्षक श्रेष्ठ पुरुष ! (बलिः) बलि [भोजन

८—(आय) अय गतौ । आगच्छ (वनेनती) वन उपकारे—अच् । पातेर्ङिति । उ० ४ । ५७ । एम प्रहृत्वे शब्दे च—ङिति, ङीप् । उपकारे नम्रा (जनी) जन जनने—इन्, ङीप् जनयित्री । माता सती त्वम् ॥

९—(वनिष्ठाः) वनित्—इष्ठन्, तुचोलोपः । वनितृतमाः । उपकारितमाः (न) निषेधे (अव गृह्यन्ति) अवग्रहं प्रतिरोधं प्राप्नुवन्ति ॥

१०—(इदम्) वचनम् (मह्यम्) मनुष्याय (मदुः) कृषिचमि० । उ० १ । ८० । मदी हवे—ऊप्रत्ययः । हर्षकरी नीतिः (इति) अवधारणे ॥

११—(ते) पूर्वोक्ताः (वृक्षाः) वृक्ष वरणे—क । स्वीकरणीयाः पुरुषाः (सह) एकैभूय (तिष्ठति) तिष्ठन्ति । वर्तन्ते ॥

१२—(पाक) इण्मीकापा० । उ० ३ । ४३ । पा रक्षणे—कन् । पाकः प्रशस्यनाम—निघ० ३ । ८ । पाकः पक्वव्यो भवति विपक्वप्रश्न आदित्यः—निरु० ३ । १२ । हे रक्षक । प्रशस्य (बलिः) सर्वधातुभ्य इन् । उ० ४ । ११८ । बल प्राप्ते धान्याधरोधने च—इन् । भोजनादिदानम् । उपहारः । राजप्राज्ञः करः ।

आदि की-में होवे] ॥ १२ ॥ (शक) हे समर्थ ! (बलिः) बलि
[राजा का ग्राह्य कर आदि का लेना होवे] ॥ १३ ॥ (अश्वत्थ) हैं अश्वत्थामा !
[बलवानों में ठहरने वाले वीर] (खदिरः) दृढ चित्त वाला (धवः) मनुष्य
[होवे] ॥ १४ ॥ (अरदुपरम) हे हिंसा से निवृत्ति वाले ! ॥ १५ ॥ (शयः)
साँव [के समान शत्रु] (हतः) मारा हुआ (इव) जैसे है ॥ १६ ॥

भाष्यार्थ—मनुष्य उचित रीति से भोजन आदि का उपहार वा दान
और कर आदि का ग्रहण करके दृढचित्त होकर शत्रुओं का नाश करे ॥ १२-१६ ॥

व्याप् पूरुषः ॥ १७ ॥ व्याप् । पूरुषः ॥ १७ ॥

अदूहमित्यां पूषकम् ॥ १८ ॥ अदूहमित्याम् । पूषकम् ॥ १८ ॥

अत्यर्धर्चं तरस्वतः ॥ १९ ॥ अत्यर्धर्चं । परस्वतः ॥ १९ ॥

दौर्व हस्तिनो दृती ॥ २० ॥ दौर्व । हस्तिनः । दृती ॥ २० ॥

भाष्यार्थ—(अत्यर्धर्चं) हे अत्यन्त बढी हुई स्तुति वाले ! (पूरुषः)
इस पुरुष ने (अदूहमित्याम्) अनष्ट ज्ञान के बीच (परस्वतः) पालन सामर्थ्य

१३—(शक) शकल सामर्थ्य—अच् । हे समर्थ (बलिः) म० १२ ।
राजग्राह्यकरः ॥

१४—(अश्वत्थ) अथ० ३ । ६ । १ । अश्व + घ्रा गतिनिवृत्तौ—क,
पृषोदरादिरुपम् । अश्वेषु बलवत्सु स्थितिशील । अश्वत्थामन् वीर (खदिरः)
अथ० ३ । ६ । १ । खद् स्थैर्यहिंसयोः—किरच् । स्थिरचित्तः (धवः) अथ०
५ । ५ । ५ । धावु गतिशुद्ध्योः—पचाधच्, ह्रस्वः । धव इति मनुष्यनाम
सद्विधागाद्विधवा—निरु० ३ । १५ । शुद्धः । मनुष्यः ॥

१५—(अरदुपरम) वर्तमाने पुपदूहन्महज् । उ० २ । ८४ । अ
हिंसाथाम—अति + उप—रम निवृत्तौ—घञ् । हिंसनात् निवृत्तिशील ॥

१६—(शयः) शीङ् शयने—अच् । सर्पः । सर्प इव शत्रुः (हतः) नाशितः
(इव) यथा ॥

१७—(व्याप्) व्यापितवान् । विस्तारितवान् (पूरुषः) अर्थ मनुष्यः ॥

१८—(अदूहमित्याम्) अ + दुहिर् अर्द्धते—क + माङ् माने—किन् । अन-
ष्टायां मित्यां ज्ञाने, (पूषकम्) पूष वृद्धौ—एबुल् । वृद्धिकरं व्यवहारम् ॥

वाले [मनुष्य] के (पृषकम्) बढती करने वाले व्यवहार को (व्याप) फैलाया है ॥ १७—१६ ॥ [जैसे] (हस्तिनः) धौकनी वाले का (दौव) दोनों (इती) गालों [धौकनी फैलती हैं] ॥ २० ॥

भावार्थ—मनुष्य विद्या आदि की प्राप्ति से संसार का उपकार करके अपनी कीर्ति फैलावे, जैसे लांहार धौकनी की गालों को वायु से फुलाकर फैलाता है ॥ २० ॥

सूक्तम् १३२ ॥

१—१६ ॥ प्रजापतिर्देवता ॥ १—६, १२, १६ प्रजापत्या गायत्री ; १०, १४ आसुरी जगती , ११, १३ देवी जगती ; १५ यानुषी गायत्री ॥

परमात्मगुणोपदेशः—परमात्मा के गुणों का उपदेश ॥

आदलाबुमेककम् ॥ १ ॥ आत् । अलाबुकुम् । एककम् ॥ १ ॥

अलाबुकं निखातकम् ॥ २ ॥ अलाबुकुम् । निखातकम् ॥ २ ॥

कुकुरिको निखातकः ॥ ३ ॥ कुकुरिकः । निखातकः ॥ ३ ॥

तद् वात् उन्मथायति ॥ ४ ॥ तत् । वात् । उन्मथायति ॥ ४ ॥

[पद पाठ के लिये सूचना सूक्त १२७ देखो ॥]

भावार्थ—[वह ब्रह्म] (अलाबुकम्) न डूबने वाला (आत्) और

१६—(अत्यर्धर्च) ऋधु वृद्धौ—घञ्, ऋच स्तुतौ क्तिप् । ऋक्पूरब्धूः० । पा० ५ । ४ । ७४ । समासान्तस्य अप्रत्ययः । हे अतिशयेन प्रबुद्धस्तुतियुक्त (परस्वत.) पृ पालनपूरणयोः—असुन्, मतुप् । पालनसामर्थ्ययुक्तस्य मनुष्यस्य ॥

२०—(दौव) द्वौ (हस्तिन.) हस्तिमृगिण्० । उ० ३ । ८६ । हसे विकाशे—तन्, इति । हस्तं भस्त्रा । भस्त्रावतः पुरुषस्य (इती) दृणातेर्ह्रस्वः । उ० ४ । १८४ । इ विदारणे—तिप्रत्ययः, ह्रस्वश्च । द्वे चर्मनिर्मितपात्रे ॥

१—(आत्) अनन्तरम् (अलाबुकम्) नञि लम्बेर्नलोपश्च । उ० १ । ८७ । नञ्+लृञि भवस्त्रंलने—ऊ, ऊकारस्य उकारः, स. च, णित् नलोपश्च, स्वार्थे कन् । न लम्बते कुत्रापि । अनधःपतनशीलम् निराधारं ब्रह्म (एककम्) स्वार्थे कन् । भस्त्रहायम् ॥

(एककम्) अकेला है ॥ १ ॥ (अलाबुकम्) न डूबने वाला और (निखातकम्) दृढ़ जमा हुआ है ॥ २ ॥ [वह परमात्मा-] (कर्करिकः) बनाने वाला (निखातकः) दृढ़ जमा हुआ है ॥ ३ ॥ (तत्) उस [ब्रह्म] को (वातः) वायु (उन्मथायति) अच्छे प्रकार मथने [मनन] करता है ॥ ४ ॥

भाष्यार्थ—वह ब्रह्म निराधार अकेला होकर सब का आधार और बनाने वाला है, वायु आदि पदार्थ उस की आज्ञा में चलते हैं। सब मनुष्य उसकी उपासना करें ॥ १-४ ॥

कुलायं कृणवादिति ॥ ५ ॥ कुलायन् । कृणवात् । इति ॥ ५ ॥
उग्रं वनिषदाततम् ॥ ६ ॥ उग्रम् । वनिषत् । आततम् ॥ ६ ॥
न वनिषुदनाततम् ॥ ७ ॥ न । वनिषत् । अनाततम् ॥ ७ ॥

भाष्यार्थ—(कुलायन्) स्थानों को (कृणवात्) वह [परमात्मा] बनाता है, (इति) ऐसा [मानते हैं] ॥ ५ ॥ (उग्रम्) दृढ़ और (आततम्) सब ओर फैला हुआ पदार्थ (वनिषत्) यह [मनुष्य] मांगे ॥ ६ ॥ (अनाततम्) बिना फैले हुये पदार्थ को (न वनिषत्) वह न मांगे ॥ ७ ॥

२—(अलाबुकम्) म० १ (निखातकम्) खनु अवदारणे-क, स्वार्थे कन् । खनित्वा दृढीकृत्य स्थापितम् ॥

३—(कर्करिकः) फर्फरीकादयश्च । उ० ४ । २० । डुकृञ् करणे-ईकन्, कर्करादेशः, ईकारस्य इकारः । कर्ता । रचयिता (निखातकः) म० २ । दृढीकृत्य स्थापितः ॥

४—(तत्) ब्रह्म (वातः) वायुः (उन्मथायति) उत्तमतया मथनं मननं करोति ॥

५—(कुलायन्) अ० २० । १२७ । न । कुलायन् । स्थानानि (कृणवात्) लक्ष्यंलेट् । करोति रचयति परमेश्वरः (इति) पर्व मन्यन्ते ॥

६—(उग्रम्) दृढम् (वनिषत्) वनु याचने लिङ्गर्थे लुङ् । परस्मैपदं च । अवनिषत् । याचनां मनुष्यः (आततम्) समन्ताद् विस्तृतं पदार्थम् ॥

७—(न) निषेधे (वनिषन्) म० ६ । योचंतां सः (अनाततम्) अवि-
स्तृतम् ॥ सङ्कुचिनं पदार्थम् ॥

भावार्थ—परमात्मा ने यह सब बड़े बड़े लोक बनाये हैं । मनुष्य अपने हृदय की सदा बढ़ाता जावे, कभी संकुचित न करे ॥ ५—७ ॥

क एषां कर्करी लिखत् ॥८॥ कः । एषाम् । कर्करी । लिखत्
क एषां दुन्दुभि हनत् ॥९॥ कः । एषाम् । दुन्दुभिम् । हनत् ॥
यदीयं हनत् कथं हनत् ॥ १० ॥

यदि । इयम् । हनत् । कथम् । हनत् ॥ १० ॥

देवी हनत् कुहनत् ॥११॥ देवी । हनत् । कुहनत् ॥ ११ ॥

पर्यागारं पुनःपुनः ॥ १२॥ परि-आगारम् । पुनः-पुनः ॥१२॥

भाषार्थ—(कः) कौन (एषाम्) इनके बीच (कर्करी) कर्करी [झारी जलपात्र, वा जलतरंग आदि बाजा] (लिखत्) छोड़े [बजावे] ॥८॥
(कः) कौन (एषाम्) इन के बीच (दुन्दुभिम्) दुन्दुभि [ढोल] (हनत्) बजावे ॥ ९ ॥ (यदि) जो (इयम्) यह [प्रजा, पुरुष वा स्त्री] (हनत्) बजावे, (कथम्) कैसे (हनत्) बजावे ॥ १० ॥ (देवी) देवी [उत्तम प्रजा, मनुष्य वा स्त्री] (पर्यागारम्) घर घर पर (पुनःपुनः) बार बार (हनत्)

८—(कः) (एषाम्) मनुष्याणां मध्ये (कर्करी) अर्तिकमिभ्रमि० ।
उ० ३ । १३२ । सौत्रो धातुः, कर्क हासे—अरप्रत्ययः, यडा, कर्क हासं राति, रा
दाने—क, गौरादित्वात् ङीष्, त्रिभक्तेर्लुक् । कर्करीम् । सनालजलपात्रम् ॥
जलतरङ्गादिवाद्यम् (लिखत्) लिख अक्षरविन्यासे । अक्षरविन्यासरीत्या
वाचयेत् ॥

९—(कः) (एषाम्) (दुन्दुभिम्) अथ० ५ । २० । १ । बृहद्भकाम्
(हनत्) वाचयेत् ॥

१०—(यदि) सम्भुवनायम् (इयम्) दृश्यमाना स्त्रीपुरुषरूपा प्रजा
(हनत्) (कथम्) केन प्रकारेण (हनत्) ॥

११—(देवी) दिव्यगुणवती प्रजा (हनत्) (कुहनत्) कुह विस्मापने ।
विस्मापयेत् । चमत्कारं कुर्यात् ॥

१२—(पर्यागारम्) परि + अग कुटिल्यायां गतौ—घञ्, आगमुच्छति ऋ

बजावे और (कुहनत्) चमत्कार दिखावे ॥ ११, १० ॥

भावार्थ—बुने हुये विद्वान् मनुष्य और विदुषी स्त्रियां संसार में उत्तम उत्तम बाजों के साथ वेद विद्या का गान करके आत्मा और शरीर की बल बढ़ाने वाली चमत्कारी क्रियाओं का प्रकाश करें ॥ ८--१२ ॥

त्रीयुष्टस्य नामानि ॥ १३ ॥ त्रीणि । उष्टस्य । नामानि ॥ १३

हिरण्य इत्येके अब्रवीत् ॥ १४ ॥

हिरण्यः । इति । एके । अब्रवीत् ॥ १४ ॥

द्वौ वा ये शिशवः ॥ १५ ॥ द्वौ वा । ये । शिशवः ॥ १५ ॥

नीलशिखण्डवाहनः ॥ १६ ॥ नीलशिखण्डवाहनः ॥ १६ ॥

भावार्थ—(उष्टस्य) प्रतापी [परमात्मा] के (त्रीणि) तीन (नामानि) नाम ॥ १३ ॥ (हिरण्यः) हिरण्य [तेजोमय], (वा) और (द्वौ) दो (नीलशिखण्डवाहनः) नीलशिखण्ड [नीलों निधियों वा निवाल स्थानों का पहुंचाने वाला] तथा वाहन [सब का ले चलने वाला] हैं, (इति) ऐसा (ये शिशवः) बालक हैं, (एके) वे कोई कोई (अब्रवीत्) कहते हैं ॥ १४-१६ ॥

भावार्थ—परमात्मा अपने अनन्त गुण, कर्म स्वभाव के कारण नामों की गणना में नहीं आ सकता है, जो मनुष्य उसके केवल "हिरण्य" आदि नाम बताते हैं, वे बालक के समान थोड़ी बुद्धि वाले हैं ॥ १३-१६ ॥

गत्तौ-अण् । आगारं गृहम् । प्रतिगृहम् ॥ (पुनःपुनः) वारंवारम् ॥

१३—(त्रीणि) त्रिसंख्याकानि (उष्टस्य) उषिस्त्रिभ्यां कित् । उ० ४ । १६२ । उप दाहे बधे च-ष्टन् कित् । प्रतापितः परमेश्वरस्य (नामानि) संज्ञाः ॥

१४—(हिरण्यः) हिरण्यः = हिरण्यमयः—नि० १० । २३ । तेजोमयः (इति) एषम् (एके) केचित् (अब्रवीत्) लडर्थे लङ्, बहुवचनस्यैकवचनम् अशुभन् । भ्रुवन्ति ॥

१५—(द्वौ) (वा) समुच्चये (ये) (शिशवः) वाताः । बालसमाना-
ह्यशुभयः (नीलशिखण्डवाहनः) नीलशिखण्डश्च वाहनश्च [नीलशिख-
ण्डः—अथ० २ । २७ । ६] स्फादि-विचवञ्चि० । उ० २ । १३ । णीञ् प्रापणे—
एक, इत्य लः । यदा नि + इल अतो—कः । अण्डन् कृष्णभुवजः । उ० १ । २६ ।

परिचित सेवकलाल कृष्णदास संशोधित पुस्तक में मन्त्र १३—१६ का पाठ इस प्रकार है ॥

त्रीण्युष्टस्य नामानि ॥ १३ ॥ हिरण्यमित्येकमब्रवीत् ॥ १४ ॥
द्वे वा यशः शवः ॥ १५ ॥ नीलशिखण्डो वा हनत् ॥ १६ ॥

(उपद्रस्य) प्रतापी [परमात्मा] के (त्रीणि) तीन (नामानि) नाम हैं ॥ १३ ॥ (एकम्) एक (हिरण्यम्) हिरण्य [तेजोमय], (वा) और (द्वे) दो (यशः) यश [कीर्ति] तथा (शवः) वन है, (इति) ऐसा (अब्रवीत्) [वह, मनुष्य] कहता है ॥ १४, १५ ॥ (नीलशिखण्डः) नील शिखण्ड [नीलों निधियों वा निवास स्थानों का पट्टचान वाला परमेश्वर] (वा) निश्चय करके (हनत्) व्यापक है [हन गतौ, गच्छति व्याप्नोति] ॥ १६ ॥

सूक्तम्-१३३ ॥

१—६ ॥ कुमारी देवता ॥ १—३, ५ निचृदनुष्टुप् । ४, ६ अनुष्टुप् ॥
स्त्रीणां कर्तव्योपदेशः—स्त्रियों के कर्तव्य का उपदेश ॥

वितंतौ किरणौ द्वौ तावा पिनष्टि पूरुषः ।

न वै कुमारि तत् तथा यथा कुमारि मन्यसे ॥ १ ॥

वितंतौ । किरणौ । द्वौ । तौ । आ । पिनष्टि । पूरुषः ॥

न । वै । कुमारि । तत् । तथा । यथा । कुमारि । मन्यसे ॥ १ ॥

[पदपाठ के लिये सूचना सूक्त १२७ देखो ॥]

भाषार्थ—(द्वौ) दोनों (किरणौ) प्रकाश की किरणें [शारीरिक बल और आत्मिक पराक्रम] (वितंतौ) फैले हुये हैं, (तौ) उन दोनों को (पूरुषः) पुरुष [देहधारी जीव] (आ) सब ओर से (पिनष्टि) पोसता है [सूक्ष्म रीति से

शिखि गतौ—अण्डन् कित् । नीलानां निधीनां यद्वा नीलानां नीडानां निवासानां शिखण्डः प्रापकः [चाहनः] वह प्राणोत्पत्तु स च णित् । वोढा । सर्ववहनशीलः परमेश्वरः ॥

१—(वितंतौ) विस्तृतौ (किरणौ) प्रकाशरश्मी । शारीरिकबलात्मिक-पराक्रमौ (द्वौ) (तौ) किरणौ (आ) समस्तात् (पिनष्टि) पिप् ल संचूर्णने । संचूर्णीकरोति । सूक्ष्मतया प्रयोजयति (पूरुषः) शरीरी जीवः (न) निषेधे

काम में लाता है]। (कुमारि) हे कुमारी ! [कामना योग्य स्त्री] (वै) निश्चय करके (तत्) वह (तथा) वैसा (न) नहीं है, (कुमारि) हे कुमारी । (यथा) जैसा (मन्यसे) तू मानती है ॥ १ ॥

भाषार्थ—संसार में सब प्राणी शरीर और आत्मा की स्वस्थता से सूक्ष्म विचार और कर्म के द्वारा उन्नति करते हैं, स्त्री आदि भी समय का व्यर्थ न खोकर सदा पुरुषार्थ करें ॥ १ ॥

मातुष्टे किरणौ द्वौ निवृत्तः पुरुषानृते । न वै० ॥ २ ॥

मातुः । ते । किरणौ । द्वौ । निवृत्तः । पुरुषान् । ऋते ॥
न । वै । ० ॥ २ ॥

भाषार्थ—(मातुः ते) तुझ माता के (द्वौ) दोनों (किरणौ) प्रकाश की किरणें [शारीरिक बल और आत्मिक पराक्रम] (पुरुषान्) पुरुषों [शरीर धारी जीवों] को (ऋते) सत्य शास्त्र में (निवृत्तः) प्रकाशमान करते हैं । (कुमारि) हे कुमारी ! ... [म० १] ॥ २ ॥

भाषार्थ—माता आदि से ही सुशिक्षा पाकर सब सन्तान पुरुषार्थी होते हैं । स्त्री आदि ... [म० १] ॥ २ ॥

निगृह्य कर्णिकौ द्वौ निरायच्छसि मध्यमे । न वै० ॥ ३ ॥

निगृह्य । कर्णिकौ । द्वौ । निरायच्छसि । मध्यमे ॥ न । वै । ० ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(मध्यमे) हे मध्यस्थ होने वाली ! [स्त्री] (द्वौ) दोनों (कर्णिकौ) कोमल कानों को (निगृह्य) वश में करके [सुनने में लगवाकर]

(वै) निश्चयेन (कुमारि) कमेः किदुञ्चोपधायाः । उ० ३ । १३८ । कमु-
काग्तौ—आरन् कित् अकारस्य उकारः, यद्वा कुमार क्रीडने-पचाद्यच्, ऊर्ण-
हे कमनीयेस्त्रि (तत्) कर्म (तथा) (यथा) (कुमारि) (मन्यसे) जानासि ॥

२—(मातुः) जनन्याः (ते) तव, मातुः—इति पदेन समानाधिकरणम्
(किरणौ) म० १ (द्वौ) (निवृत्तः) वृत्त चुरादिः—भाषणे दीपने च + निवर्त-
यतः । नितर्गं दीपयन्ः (पुरुषान्) शरीरधारिणो जीवान् (ऋते) सत्यशास्त्रे ।
सन्वत् पूर्ववत् । म० १ ॥

३—(निगृह्य) वशीकृत्य (कर्णिकौ) अनुकम्पायाम्—कन् । कोमल-
कर्णौ (द्वौ) (निरायच्छसि) निश्चयेन समन्तात् नियमयसि (मध्यमे) हे

(निरायच्छसि) [सन्तानों को] तू नियम में चलाती है । (कुमारी) हे कुमारी ! ... [म० १] ॥ ३ ॥

भावार्थ—माता आदि ध्यान दिलाकर बालकों को सुशिक्षा देवें, स्त्री आदि ... [म० १] ॥ ३ ॥

भगवान् यास्क का वचन है—निरु० २।४ ॥

य आतृण्यत्यवितथेन कर्णांनदुःखं कुर्वन्नमृत सम्प्रयच्छन् । तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न हुहोत् कनमच्चनाह ॥

(यः) जो [आचार्य] (अदुःखं कुर्वन्) दुःख न करता हुआ, (अमृतं सम्प्रयच्छन्) अमृत देता हुआ (अवितथेन) सत्य [वेदज्ञान] से (कर्णां) दोनों कानों को (आतृण्यति) खोल देता है, (तम्) उस को (मातरं पितरं च) माता और पिता (मन्येत) वह [शिष्य] माने, (तस्मै) उस से (कथमच्चनाह) किसी प्रकार कभी (न हुहोत्) बुराई न करे ॥

उत्तानायै शयानायै तिष्ठन्ती वाव गूहसि । न वै ० ॥ ४ ॥

उत्तानायै । शयानायै । तिष्ठन्ती । वा । अव । गूहसिः ॥

न । वै । ० ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(उत्तानायै) बड़े उपकार वाली नीति के लिये (तिष्ठन्ती) ठहरती हुई तू (शयानायै) सोती हुई [आलस्य वाली] रीति को (वा) निश्चय करके (अव) निरादर करके (गूहसि) ढांप देती है । (कुमारी) हे कुमारी ! ... [म० १] ॥ ४ ॥

भावार्थ—स्त्री आदि अपनी चतुराई से कुरीतें छोड़कर सुरीतें चलावें, स्त्री आदि ... [म० १] ॥ ४ ॥

मध्यमवे स्त्रि ॥ अन्यत्—म० १ ॥

४—(उत्तानायै) उत्+तनु विस्तारे श्रद्धोपकारादिषु च—घञ् । उत्तमोपकारयुक्तायै नीतये (शयानायै) सम्यानच् स्तुवः । उ० २ । ८६ । शीङ् शयने—आनच् । टाप् । सुपां सुपो भवन्ति । वा० पा० ७ । १ । ३६ । द्वितीयार्थे चतुर्थी । प्राप्तनिद्राम् । आलस्ययुक्तां रीतिम् (तिष्ठन्ती) वर्तमाना त्वम् (वा) अवधारणे (अव) अनादरे । अनादृत्य (गूहसि) गूह संवरणे । आच्छाद्यसि । अन्यत्—म० १ ॥

श्लक्ष्णायां श्लक्ष्णिकायां श्लक्ष्णमेवाव गूहसि । न वै ॥ ५ ॥
 श्लक्ष्णायास् । श्लक्ष्णिकायास् । श्लक्ष्णम् । एव । अव ।
 गूहसि । न । वै । ० ॥ ५ ॥

भाष्यार्थ—(श्लक्ष्णायाम्) चिकनी [कोमल] और (श्लक्ष्णिकायाम्)
 मनोहर वाणी में (श्लक्ष्णम्) स्नेह [प्रेम] को (एव) निश्चय करके (अव)
 शुद्धि के साथ (गूहसि) तू गुहा [हृदय] में रखती है । (कुमारि) हे
 कुमारी । [म० १] ॥ ५ ॥

भावार्थ—स्त्री आदि मधुर मनोहर वाणी से शुद्ध प्रेम के साथ उपदेश
 करें, स्त्री आदि । [म० १] ॥ ५ ॥

मनु महाराज ने कहा है—मनुस्मृति अध्याय २ श्लोक १५६ ॥ अहिंसयैव
 भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम् । वाक् चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥

(भूतानाम्) प्राणियों की (अहिंसया एव) अहिंसा [दुःख न देने]
 से ही (श्रेयः) कल्याण कारी (अनुशासनम्) शासन वा उपदेश (कार्यम्)
 करना चाहिये । (च) और (धर्मम् इच्छता) धर्म चाहने वाले करके (वाक्
 एव) वाणी भी (मधुरा) मधुर, (श्लक्ष्णा) मनोहर (प्रयोज्या) बोलनी चाहिये ॥

अवश्लक्ष्णमिव अंशदन्तलोममति हुदे ।

न वै कुमारि तत् तथा यथा कुमारि मन्यसे ॥ ६ ॥

अवश्लक्ष्णम् । इव । अंशदन्तलोममति । हुदे ॥ न । वै ।

कुमारि । तत् । तथा । यथा । कुमारि । मन्यसे ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ—(अंशदन्तलोममति) भीतर पड़े हुये केश आदि पदार्थ

५—(श्लक्ष्णायाम्) श्लक्ष्णेष्वोपाधायाः । उ० ३ । १६ । श्लक्ष्ण आलिंगने
 संसर्गे च—कस्त्, इकारश्च अकारः । चिकृष्णायाम् । कोमलायाम् (श्लक्ष्ण-
 कायाम्) श्लक्ष्ण-कन् स्वार्थे, टाप् अत इत्त्वम् । मनोहरायां वाचि—यथा मनु
 १ । १५६ (श्लक्ष्णम्) स्नेहम् । प्रेमभावम् (एव) अवधारणे (अव) शुद्धी ।
 शुद्धया (गूहसि) गुह संवरणे । गुहायां हृदये स्थापयति । अन्यत्—म० १ ॥

६—(अवश्लक्ष्णम्) म० ५ । अव अनादरे, परिभवे च । अमनोहरत्वम् ।

घाले (हृदे) जलाशय में (अवस्लक्षणम् इव) जैसे गदला रूप [दीखता है] ।
(कुमारि) हे कुमीरी ! [कामना योग्य स्त्री] (वै) निश्चय करके (तत्)
बह (तथा) वैसा (न) नहीं है, (कुमारि) हे कुमारी (यथा) जैसा (मन्यसे)
तू मानती है ॥ ६ ॥

भावार्थ—गदले पानी में गदला रूप दीखता है, और शुद्ध में शुद्ध, वैसे
ही स्त्री आदि सब लोग मानसिक मैल तज कर शुद्ध व्यवहार करें ॥ ६ ॥

सूक्तम् १३४ ॥

१—६ ॥ प्रजापतिर्देवता ॥ १, ३, ५, ६ निचृत् साक्षी पङ्क्तिः; २ साक्षी
पङ्क्तिः; ४ विराट् साक्षी पङ्क्तिः ॥

बुद्धिवर्धनोपदेशः—बुद्धि बढ़ाने का उपदेश ॥

इहेत्थ प्रागपुगुदगुधराग्—अरालागुदभर्त्सथ ॥ १ ॥

इह । इत्थं । प्राक् । अपाक् । उदक् । अधराक्—अराल-
अगुदभर्त्सथ ॥ १ ॥

[पद पाठ के लिये सूचना सूक्त १२७ देखो ॥]

—भाषार्थ—(इह) यहां (इत्थं) इस प्रकार (प्राक्) पूर्व में, (अपाक्)
पश्चिम में, (उदक्) उत्तर में और (अधराक्) दक्षिण में—(अरालागुद-
भर्त्सथ) हिंसा की गति का धिक्कारने वाला परमात्मा है ॥ १ ॥

भावार्थ—परमात्मा को सब स्थान और सब काल में वर्तमान जानकर

मलिनरूपत्वम्, (इव) यथा (अशदन्तलोममति) अशु अधःपतने—शतु +
अन्तः + लोम—मतुप् । अधःपतितमध्यकेशादिपदार्थयुक्ते । अतिमलिनवस्तु-
पेते (हृदे) जलाशये । अन्यत्—म० १ ॥

१—(इह) अत्र (इत्थं) इत्थम् । अनेन प्रकारेण (प्राक्, अपाक्, उदक्,)
अथ० २० । १२० । १ (अधराक्) नीच्यां दक्षिणस्यां दिशि (अरालागुदभर्त्सथ)
स्थाचतिमृजेरालज्०। ३०१ । ११६ । अ हिंसायाम्—आलच् + अग गतौ—उदच्
प्रत्ययः, यथा अर्बुदशब्दे + शीङ्शपिठ० । उ० ३ । ११३ । भर्त्सं तर्जने—अर्थ-
प्रत्ययः । सुपां सुलुक्० । पा० ७ । १ । ३६ । विभर्त्सुक् । अराल-अगुद-
भर्त्सथः । हिंसागतितिरस्कर्ता परमेश्वरः ॥

मनुष्य हिंसाकर्म से पचे ॥ १ ॥

इस मन्त्र का मिलान करो—अथ० २० । १२० । १ ॥

० वृत्साः पुरुषन्त आसते ॥ २ ॥

० ॥ वृत्साः । पुरुषन्तः । आसते ॥ २ ॥

भाषार्थ—(इह) यहां (इत्थ) इस प्रकार ... [म० १]—(वरसाः) प्यारे बच्चे (पुरुषन्तः) पुरुष होते-हुये (आसते) ठहरते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ—सब स्थान और सब काल में मनुष्य पुरुषार्थ करें ॥ २ ॥

० स्थालीपाका वि लीयते ॥ ३ ॥

० ॥ स्थालीपाकः । वि । लीयते ॥ ३ ॥

० स वै पृथु लीयते ॥ ४ ॥

० ॥ सः । वै । पृथु । लीयते ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(इह) यहां (इत्थ) इस प्रकार ... [म० १]—(स्थालीपाकः) स्थाली पाक [बटले वा कडाही में पका हुआ भोजन पदार्थ] (वि) विविधप्रकार (लीयते) मिलता है ॥ ३ ॥ (इह) यहां (इत्थ) इस प्रकार ... [म० १]—(सः) वह [भोजन-पदार्थ] (वै) निश्चय करके (पृथु) विस्तार से (लीयते) मिलता है ॥ ४ ॥

भाषार्थ—मनुष्य को सब स्थान में सदा भोजन आदि पदार्थ प्राप्त करना चाहिये ॥ ३, ४ ॥

० आष्टे लाहणि लीशायी ॥ ५ ॥

० ॥ आष्टे । लाहणि । लीशायी ॥ ५ ॥

२—(वृत्साः) प्रियशिशवः (पुरुषन्तः) पुरुषा भवन्तः (आसते) तिष्ठन्ति ॥

३—(स्थालीपाकः) स्थान्निमृजेरुत्तुज् ० । ड० १ । ११६ । प्रा गतिनि-
वृत्ती—आलच् डोप् + डुपचष् पाके—घञ् । स्थाल्यां सुपादिपचन्यां पच्यते ।
पक्वभोजनपदार्थः (वि)-विविधम् (लीयते) लीड् श्लेषणे । श्लिष्यते ।
संयुज्यते ॥

४—(सः) स्थालीपाकः (वै) निश्चयेन (पृथु) यथा तथा विस्तारेण
(लीयते) म० ३ । संयुज्यते ॥

भावार्थ—(इह) यहां (इत्थ) इस प्रकार " "[म० १]—(लाहणि)
प्रेरक बुद्धि (लीशाथी) च नती हुई (आष्टे) फैलती है ॥ ५ ॥

भावार्थ—सब विद्वान् अपनी बुद्धि को सब ओर चलाकर संसार में
विचरें ॥ ५ ॥

इहेत्थ प्रागपागुदंगधराग्—अद्विलली पुच्छलीयते ॥ ६ ॥

इह । इत्थ । प्राक् । अपाक् । उदक् । अधराक्—अद्विलली ।
पुच्छलीयते ॥ ६ ॥

भावार्थ—(इह) यहां (इत्थ) इस प्रकार (प्राक्) पूर्व में, (अपाक्)
पश्चिम में, (उदक्) उत्तर में और (अधराक्) दक्षिण में—(अद्विलली)
व्यवहार प्रहण करने वाली बुद्धि (पुच्छलीयते) प्रसन्न होती है ॥ ६ ॥

भावार्थ—मनुष्य अपनी बुद्धि को सब कामों में प्रविष्ट करके प्रसन्न
रहें ॥ ६ ॥

सूक्तम् १३५ ॥

१-१३ ॥ प्रजापतिरिन्द्रश्च देवते ॥ १, ५, ६ स्वराडाप्यनुष्टुप्; २
भुरिगनुष्टुप्; ३ आपी पङ्क्तिः । ४ आप्युष्णिक्; ७ भुरिगपी त्रिष्टुप्, ८ भुरिग्
गायत्री, ९ विराडापी पङ्क्तिः; १०, १२, १३ अनुष्टुप्; ११ निचृदाप्यनुष्टुप् ॥

मनुष्यकर्तव्योपदेशः—मनुष्य के कर्तव्य का उपदेश ॥

भुगित्यभिगतुः शलित्यपक्रान्तुः फलित्यभिष्ठितः ।

५—(आष्टे) अशू व्याप्तौ । व्याप्यने (लाहणि) अर्त्तिसृष्टु० । उ० २ ।
१०२ । लाभ प्रेरणे—अनि, भस्य हः । विमक्तेर्लुक् । प्रेरिका शक्तिः । तीक्ष्णा बुद्धिः
(लीशाथी) रुचिभ्या डित् । उ० ३ । ११५ । लिश गतौ, अल्पीभावे च—अथ
प्रत्ययः, डीप्, पृषोद्द्रादिरूपम् । गमनशीला सती ॥

६—(अद्विलली) अत्तू व्याप्तौ—किप् । सलिकलयनि० । उ० १ । ५४ ।
ला आदाने, इलच् स च डित्, डीप् । अत्तः अत्तस्य व्यवहारस्य प्राहिका बुद्धिः
(पुच्छलीयने) पुच्छ प्रसादे—इति शब्दकल्पद्रुमः । सलिकलयनि० । उ० १ ।
५४ । इति इलच् डीप् । भृशादिभ्यो भुव्यच्चेर्लोपश्च हलः । पा० ३ । १ । १२ ।
पुच्छली-क्यङ् भवन्त्यर्थे बाहुलकात् । प्रसन्ना भवति । अन्यद् गतम्—म० १ ॥

दुन्दुभिमाहननाभ्यां जरितरोथामो दैव ॥ १ ॥

भुक् । इति । अभि-गतुः । शल् । इति । अप-क्रान्तः ।

फल । इति । अभि-स्थितः ॥ दुन्दुभिम् । आहननाभ्याम् ।

जरितः । आ । उथामः । दैव ॥ १ ॥

[पद पाठ के लिये सूचना सूक्त १२७ देखो ॥]

भाष्यार्थ—(भुक्) पालने वाला [परमात्मा] (अभिगतः) सामने पाया गया है—(इति) ऐसा है, (शल्) शीघ्रगामी वह (अपक्रान्तः) सुख से आगे चलता हुआ है—(इति) ऐसा है, (फल्) सिद्धि करने वाला वह (अभिष्ठितः) सब ओर उदरा हुआ है—(इति) ऐसा है । (जरितः) हे स्तुति करने वाले (दैव) परमात्मा को देवता मानने वाले विद्वान् ! (दुन्दुभिम्) ढोल को (आहननाभ्याम्) दो डोंकों से (आ) सब ओर (उथामः) हम उठावें [बल से बजावें] ॥ १ ॥

भाष्यार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि परमेश्वर के उपकारों को देखकर डंके की चोट प्रयत्नी और उपकारी हों ॥ १ ॥

क्रोशुबिले रजनि ग्रन्थे धानमुपानहि पादम् ।

उत्तमां जनिमां जुन्यानुत्तमां जनीन् वत्सैन्यात् ॥ २ ॥

क्रोशुबिले । रजनि । ग्रन्थेः । धानम् । उपानहि । पादम् ॥

१—(भुक्) भुज पालनाभ्यवहारयोः—क्रिप् । पालकः परमात्मा (इति) एवं वर्तते (अभिगतः) अभिमुख्येन प्राप्तः (शल्) शत गतौ—क्रिप् । शीघ्रगामी (इति) (अपक्रान्तः) अप आनन्दे + क्रमु पादविक्षेपे—कं । सुखेन क्रमशः शीलः (फल्) फल निष्पत्तौ—क्रिप् । सिद्धिकर्ता परमेश्वरः (इति) (अभिष्ठितः) सर्वतः स्थितः (दुन्दुभिम्) बृहद्बद्धकाम् (आहननाभ्याम्) ताडनस्य वादनस्य साधनाभ्याम् (जरितः) जरिता स्तोतनाम—निघ० ३ । १६ । हे स्तोतः (आ) समन्तात् (उथामः) उत् + ष्टा—लट् अन्तर्गतस्यर्थः । उथामः । उथापयामः । उच्चैर्वादयामः (दैव) देव—अण् । देवः परमात्मा देवता यस्य, तत्संशुभौ । हे परमेश्वरोपासक विद्वन् ॥

उत्तमासु । जनिमासु । जुन्या । अनुत्तमासु । जनीन् । वर्त्मन् ।
यात् ॥ २ ॥

भाषार्थ—(रजनि) रात्रि में [जैसे] (कोशविले) कोश [सोना
चांदी रखने] के कुण्ड के भीतर (ग्रन्थेः) गांठ के (धानम्) रखने को,
[अथवा जैसे] (उपानहि) जूते में (पादम्) पैरे को, [वैसे ही] (जन्या)
मनुष्यों के बीच (उत्तमासु) उत्तम (जनिमासु) जन्म लक्ष्मी [शोभा वा ऐश्वर्य],
(अनुत्तमासु) अति उत्तम गति और (जनीन्) उत्पन्न पदार्थों को (वर्त्मन्)
मार्ग में (यात्) [मनुष्य] प्राप्त होवे ॥ २ ॥

भावार्थ—जैसे रात्रि में कोशागार में रखकर सोने चांदी की, और
जूता पहिनकर पैर की रक्षा करते हैं, वैसे ही मनुष्य श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होकर
उत्तम प्रवृत्ति करके उन्नति करें ॥ २ ॥

अलावूनि पृषातकुान्यश्वत्थुपलाशसु । पिपीलिकावटुश्वसे
विद्युत्स्वार्पणशुफो गोशुफो जरितुरोयामो दैव ॥ ३ ॥

अलावूनि । पृषातकुानि । अश्वत्थु-पलाशसु ॥ पिपीलिका ।
वटुश्वसः । वि-द्युत् । स्वार्पणशुफः । गोशुफः । जरितुः ।
आ । उयामः । दैव ॥ ३ ॥

२—(कोशविले) सुवर्णरूपस्थितिकुण्डे (रजनि) रजन्याम् । रात्री
(ग्रन्थेः) बन्धनस्य (धानम्) स्थापनम्- (उपानहि) उप + णह बन्धने-क्विप् ।
नहिवृत्तिवृषि० । पा० ६ । ३ । ११६ । पूर्वपदस्य दीर्घः । चर्मपादुकायाम्
(पादम्) (उत्तमासु) श्रेष्ठाम् (जनिमासु) जनिवसिभ्यामिण् । उ० ४ । १३० ।
जनी प्रादुर्भावे-इण् । जनिवथ्योश्च । पा० । ७ । ३ । ३५ । वृद्धिनिषेधः । माङ्माने
शब्दे च-क्विप् । जनेः उत्पत्तेः जन्मनो मां लक्ष्मीं शोभामैश्वर्यं वा (जन्या) सुपां
सुलुक्० । पा० ७ । १ । ३६ । जन-व्या सप्तमी बहुवचने । जनेषु । मनुष्येषु
(अनुत्तमासु) अतिशयेन श्रेष्ठाम् (जनीन्) उत्पन्नान् पदार्थान् (वर्त्मन्)
वर्त्मनि । मार्गे (यात्) यायात् । प्राप्नुयात् ॥

भाषार्थ—(अलावृनि) तुंबी आदि वेलें, (पृषातकानि) पृषातक [वृक्ष विशेष], (अश्वत्थपलाशम्) पीपल और पलाश वा ढाक [वृक्ष विशेष], (पिपीलिका) पिपीलिका [वृक्ष विशेष], (वटश्वसः) वटश्वस [वृक्ष विशेष], (विद्युत्) विजुली [वृक्ष विशेष], (स्वापर्णशफः) स्वापर्णशफ [वृक्ष विशेष], और (गोशफः) गोशफ [वृक्ष विशेष] हैं, [उन सब में] (जरितः) है स्तुति करने वाले (दैव) परमात्मा को देवता मानने वाले विद्वान् । (आ) सब ओर से (उथामः) हम उठते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि घाटिका, खेत आदि में अनेक लता बेलों और वृक्षों को लगाकर ठीक ठीक उपकार लेकर सुखी हों ॥ ३ ॥

इमे देवा अक्रंसताध्वर्यो क्षिप्रं प्रचर ।

सुसुत्यमिद् गवामस्यसि प्रखुदसि ॥ ४ ॥

वि । इमे । देवाः । अक्रंसत । अध्वर्यो । क्षिप्रम् । प्रचर ॥

सुसुत्यम् । इत् । गवाम् । असि । असि । प्रखुदसि ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(इमे देवाः) इन विद्वानों ने (वि) विविध प्रकार (अक्रंसत) पैर बढाया है, (अध्वर्यो) हे हिंसा न करने वाले विद्वान् (क्षिप्रम्) शीघ्र

३—(अलावृनि) नञि लम्बेर्नलोपश्च । उ० १ । ८७ । नञ् + लवि अवक्षंसने-ऊ, ऊकारस्थ उकारः, स च शित्, नलोपश्च । तुम्बीलताः (पृषातकानि) अथ० १४ । २ । ४८ । पृषु सेचने-क + अतं वन्धने-कुन् । वृक्षविशेषाः (अश्वत्थपलाशम्) पिप्पलपलाशवृक्षसमूहः (पिपीलिका) अथ० ७ । ५६ । ७ । अपि + पील रोधने-रबुल, अकारलोपः टाप्, अत इत्वम् । पिपीलिका पेलतेर्गतिकर्मणः निरु० ७ । १३ । वृक्षविशेषः (वटश्वसः) वट वेष्टने-अच् + श्वस प्राणने-अच् । वृक्षविशेषः (विद्युत्) वृक्षविशेषः (स्वापर्णशफः) वृक्षविशेषः (गोशफः) वृक्षविशेषः (जरितः) म० १ । हे रतोतः (आ) समन्तात् (उथामः) उत्थागः । उच्चैर्भवामः (दैव) म० १ । हे परमेश्वरोपासक विद्वन् ॥

४—(वि) विविधम् (इमे) प्रसिद्धाः (देवाः) विद्वांसः (अक्रंसत) क्रमु पाद्विक्षेपे । पादं विक्षिप्तवन्तः । अथे गताः (अध्वर्यो) अ० ७ । ७०३ । ५ । हे अहिंसाप्रापक विद्वन् (क्षिप्रम्) शीघ्रम् (प्रचर) अथे गच्छ (सुसुत्यम्)

(प्रचर) आगे बढ़ । और (प्रखुदसि) बड़े आनन्द में (असि) तू हो, (असि) तू हो, [यह वचन] (गवाम्) स्तोताओं [गुण व्याख्याताओं] का (सुसत्यम् इत्) बड़ा ही सत्य है ॥ ४ ॥

भावार्थ—पहिले विद्वान् लोग काम करने से बड़े हो गये हैं, वैसे ही हम भी विद्वानों का वचन मानकर आगे बढ़ें ॥ ४ ॥

पुत्री यदृश्यते पुत्री यद्व्यमाणा जरितुरोयामो दैव ।

होता विष्टीमेन जरितुरोयामो दैव ॥ ५ ॥

पुत्री । यत् । दृश्यते । पुत्री । यद्व्यमाणा । जरितुः । आ ।

उयामः । दैव ॥ होता । विष्टीमेन । जरितुः । आ । उयामः ।

दैव ॥ ५ ॥

भावार्थ—(पुत्री) पुत्री (यत्) जहाँ पर (यद्व्यमाणा) पूजी जाती हुई (पुत्री) पुत्री (दृश्यते) दीखती है, [वहाँ] (जरितुः) हे स्तुति करने वाले (दैव) परमात्मा को देवता मानने वाले विद्वान् ! (आ) सब ओर से (उयामः) हम उठते हैं । (विष्टीमेन) विशेष कोमलपन के साथ (होता) तू दाता है, (जरितुः) हे स्तुति करने वाले (दैव) परमात्मा को देवता मानने वाले विद्वान् ! (आ) सब ओर से (उयामः) हम उठते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ—पुत्री और पति गुणवान् और परमेश्वर भक्त होकर आनन्द भोगें ॥ ४ ॥

आदित्या ह जरितुरङ्गिरोभ्यो दक्षिणामुनयन् ।

तां ह जरितुः प्रत्यायुस्तासु ह जरितुः प्रत्यायन् ॥ ६ ॥

सर्धसत्यम् (इत्) एव (गवाम्) गौः स्तोता—निघ० ३। १६। स्तोतृणाम् । गुणव्याख्याम् (असि) त्वं भव (असि) (प्रखुदसि) उपः क्तिन् । ३० ४ । २३४ । प्र + खुर्द क्रीडायाम्—असि कित् रेफलोपः । प्ररुष्टसुत्वे ॥

५—(पुत्री) वेदविधानेनोक्ता । गृहिणी (यत्) यत्र (दृश्यते) प्रेक्ष्यते (पुत्री) (यद्व्यमाणा) पूज्यमाना (जरितुः, आ, उयामः, दैव) म० १, ३ (होता) त्वं दातासि (विष्टीमेन) वि + ष्टीम फलेदे-घञ् । विशेषेण आशी-भावेन । कोमलत्वेन । अन्यद् गतम् ॥

आदित्याः । ह । जरितुः । अङ्गिरः-भ्युः । दक्षिणाम् । अन-
यन् ॥ ताम् । ह । जरितुः । प्रति । आयन् ॥ ताम् । ज इति ।
ह । जरितुः । प्रति । आयन् ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(आदित्याः) अखण्ड ब्रह्मचारियों ने (ह) ही, (जरितुः)
हे स्तुति करने वाले ! (अङ्गिरोभ्युः) विज्ञानी पुरुषों के लिये (दक्षिणाम्)
दक्षिणा [दान वा प्रतिष्ठा] को (अनयन्) प्राप्त कराया है । (ताम्) उस
[दक्षिणा] को (ह) ही, (जरितुः) हे स्तुति करने वाले ! (प्रति आयन्)
उन्होंने प्रत्यक्ष पाया है, (ताम्) उस [दक्षिणा] को (उ) निश्चय करके
(ह) ही, (जरितुः) हे स्तुति करने वाले ! (प्रति आयन्) उन्होंने प्रत्यक्ष
पाया है ॥ ६ ॥

भाषार्थ—मनुष्य पूर्व विद्वानों के समान विद्वानों द्वारा उत्तम शिक्षा-
पाकर अवश्य प्रतिष्ठित हों ॥ ६ ॥

तां ह जरितर्नुः प्रत्यङ्गुभ्युस्तासु ह जरितर्नुः प्रत्यङ्गुभ्यः ।
अहानैतरसं नु वि चेतनानि युज्जानैतरसं नु पुरोगवामः ॥७॥
ताम् । ह । जरितुः । नुः । प्रति । अङ्गुभ्यन् । ताम् । ज इति ।
ह । जरितुः । नुः । प्रति । अङ्गुभ्यः ॥ अहानैतरसम् । नु ।
वि । चेतनानि । युज्जानैतरसम् । नु । पुरोगवामः ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(ताम्) उस [दक्षिणा] को (ह) ही, (जरितुः) हे स्तुति

६—(आदित्याः) अथ० १६ । ११ । ४ । अदिति—एय । अखण्डब्रह्मचा-
रिणः (ह) एव (जरितुः) हे स्तोतः (अङ्गिरोभ्युः) अ० २० । २८ । २ ।
विज्ञानिभ्यः (दक्षिणाम्) अथ० ५ । ७ । १ । दानम्, प्रतिष्ठाम् (अनयन्)
प्रापितवन्तः (ताम्) दक्षिणाम् (ह) (जरितुः) (प्रति) प्रत्यक्षम्
(आयन्) अथ० २० । ६१ । २ । अगच्छम् । प्राप्नुवन् (उ) अवश्यम् । अन्यद्
गतम् ॥

७—(ताम्) दक्षिणाम्-म० ६ (ह) एव (जरितुः) हे स्तोतः (नः)

करने वाले । (नः) हमारे लिये (प्रति अगृभण्) उन्हों ने [विद्वानियो ने—
म० ६] प्रत्यक्ष पाया है, (ताम्) उस को (उ) निश्चय करके (ह) ही,
(जिरितः) हे स्तुति करने वाले । (नः) हमारे लिये (प्रति अगृभणः) तू ने
प्रत्यक्ष पाया है । (न) अभी (अहानेतरसम्) व्याप्ति में बल रखने वाले
व्यवहार को, (वि) विविध (चेतनानि) चेतनाओं को, और (न) अभी (य
ज्ञानेतरसम्) यज्ञ [देवपूजा, संगति करण और दान] में बल रखने वाले
व्यवहार को (पुरोगवामः) हम आगे होकर पावे ॥ ७ ॥

भाष्यार्थ—जैसे पूर्वज महात्माओं ने श्रेष्ठ कर्मों से प्रतिष्ठा पाई है, वैसे
ही आप और हम मिलकर विज्ञान द्वारा बड़ाई पावें ॥ ७ ॥

उत श्वेतु आशुपत्वा उतो पद्याभिर्यविष्ठः ।

उतेसाशु मानं पिपर्ति ॥ ८ ॥

उत । श्वेतुः । आशुपत्वाः । उतो । पद्याभिः । यविष्ठः ॥

उत । ईम् । आशु । मानम् । पिपर्ति ॥ ८ ॥

भाष्यार्थ—(आशुपत्वाः) हे शीघ्रगामी पुरुषो ! (श्वेतः) श्वेत वर्ण
वाला [सूर्य] (उत) भी (यविष्ठः) अत्यन्त बलवान् होकर (पद्याभिः)

अस्मभ्यम् (प्रति) प्रत्यक्षम् (अगृभण्) अगृह्णन् । गृहीतवन्तः (ताम्) (उ)
निश्चयेन (ह) (जिरितः) (नः) (प्रति) प्रत्यक्षम् (अगृभणः) अगृह्णः ।
गृहीतवानसि (अहानेतरसम्) सम्यानच् स्तुवः । उ० २ । ८६ । अह व्याप्तौ-
आनच् । तरो बलनाम-निघ० २ । ६ । ततः अर्श आद्यच् । अहाने व्याप्तौ तरसं
बलयुक्तं व्यवहारम् (न) सम्प्रति-निरु० ७ । ३१ (वि) विविधानि (चेतनानि)
चेतनाः । ज्ञानानि (यज्ञानेतरसम्) सम्यानच् स्तुवः । उ० २ । ८६ । यज्ञ
देवपूजासंगतिकरणदानेषु आनच्, नकारश्छान्दसः । यज्ञे बलयुक्तं व्यवहारम्
(न) सम्प्रति (पुरोगवामः) गु गतौ-कट्, परस्मैपदम् । गवते गतिकर्मा-निघ०
२ । १४ । अग्रे भूत्वा गच्छामः प्राप्नुमः ॥

८—(उत) अपि (श्वेतः) शुक्लवर्णः सूर्यः (आशुपत्वाः) अशुप्रवि-
लटि० । उ० १ । १५१ । आशु + पत् गतौ-कन् । हे शीघ्रगामिनः (उतो)
निश्चयेन (पद्याभिः) पाद्-यत् । पद्यत्यतर्थे । पा० ६ । ३ । ५३ । इति

चलने योग्य गतियों से (उतो) निश्चय करके (उत) अवश्य (ईम्) प्राप्ति योग्य (मानम्) परिमाण को (आशु) शीघ्र (पिपति) पूरा करता है ॥ ८ ॥

भाषार्थ—जैसे सूर्य अपने मार्ग में चलकर संसार का उपकार करता है, वैसे ही मनुष्य वेद मार्ग पर चलकर शीघ्र उपकार करें ॥ ८ ॥

आदित्या रुद्रा वसवस्त्वेऽनु त इदं राधः प्रति गृभ्णीह-
ङ्गिरः । इदं राधो विभु प्रभु इदं राधो बृहत् पृथु ॥ ८ ॥

आदित्याः । रुद्राः । वसवः । त्वे । अनु । ते । इदम् । राधः ।
प्रति । गृभ्णीहि । अङ्गिरः ॥ इदम् । राधः । विभु । प्रभु ।
इदम् । राधः । बृहत् । पृथु ॥ ८ ॥

भाषार्थ—[हे शूर सभापति !] (ते) वे (आदित्याः) अक्षरद ब्रह्म-
चारी, (रुद्राः) ज्ञान दाता और (वसवः) श्रेष्ठ विद्वान् लोग (त्वे अनु)
तेरे पीछे पीछे हैं, (अङ्गिरः) हे विद्वानी पुरुष ! (इदम्) इस (राधः)
धन-को (प्रति) प्रत्यक्ष रूप से (गृभ्णीहि) तू ग्रहण कर । (इदम्) यह
(राधः) धन (विभु) व्यापक और (प्रभु) बलयुक्त है, (इदम्) यह
(राधः) धन (बृहत्) बहुत और (पृथु) विस्तीर्ण है ॥ ८ ॥

भाषार्थ—शूर प्रतापी सभापति की सुनीति से सब लोग ब्राह्मण
आदि चारों वर्ण अपना अपना कर्तव्य पूरा करें और विद्या और धन की
वृद्धि से संसार में सुख बढ़ावें ॥ ८ ॥

पद्मभाषः । पादाय गमनाय द्वितामिर्गतिभिः (यविष्ठः) अथ० १८ । ४ । ६१ ।
युवन्—इष्टन् । अतिशयेन बलवान् सन् (उत) अवश्यम् (ईम्) प्राप्तव्यम्-
(आशु) शीघ्रम् (मानम्) परिमाणम् (पिपति) पूरयति ॥

६—(आदित्याः) अदिति-एय । अक्षरदब्रह्मचारिणः (रुद्राः) रुद्रो
ज्ञानस्य रातारो दातारः (वसवः) श्रेष्ठपुरुषाः (त्वे) विभक्तेः शे । त्वाम्
(अनु) अनुसृत्य (ते) प्रसिद्धाः (इदम्) (राधः) धनम् (प्रति) प्रत्य-
क्षेण (गृभ्णीहि) गृह्णाण (अङ्गिरः) विद्वान्निन् (इदम्) (राधः) (विभु)
व्यापकम् (प्रभु) समर्थम् (इदम्) (राधः) (बृहत्) बहु (पृथु)
विस्तृतम् ॥

इस मन्त्र का मिलान करो—अथ० ११ । ६ । १३, और १६ । ११ । ४ ॥

देवा ददुत्वासुरं तद् वी अस्तु सुचेतनम् ।

युष्मौ अस्तु दिवेदिवे प्रति गृभायत ॥ १० ॥

देवाः । ददुतु । आसुरम् । तत् । वः । अस्तु । सुचेतनम् ॥

युष्मान् । अस्तु । दिवेदिवे । प्रति । एव । गृभायत ॥ १० ॥

भाषार्थ—[हे मनुष्ये !] (देवाः) विद्वान् लोग (आसुरम्) बुद्धि-
मत्ता (ददुतु) देवें, (तत्) वह (वः) तुम्हारे लिये (सुचेतनम्) सुन्दर
ज्ञान (अस्तु) होवे । (युष्मान्) तुम को वह (दिवेदिवे) दिन दिन (अस्तु)
होवे, [उस को] (प्रति) प्रत्यक्ष रूप से (एव) ही (गृभायत) तुम ग्रहण
करो ॥ १० ॥

भाषार्थ—सब मनुष्य विद्वानों से शिक्षा लेकर सदा आनन्द पावे ॥ १० ॥
त्वमिन्द्र शर्मरिणा हव्यं पारावतेभ्यः ।

विप्राय स्तुवते वसुवनिं दुरश्वसे वृह ॥ ११ ॥

त्वम् । इन्द्र । शर्म । रिणाः । हव्यम् । पारावतेभ्यः ॥ विप्राय ।

स्तुवते । वसुवनिम् । दुरश्वसे । वृह ॥ ११ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़े पेश्वर्य वाले राजन्] (त्वम्)
तू ने (शर्म) शरण और (हव्यम्) हव्य [विद्वानों के योग्य अन्न] (पारा-

१०—(देवाः) विद्वांसः (ददुतु) प्रयच्छन्तु (आसुरम्) असुर-अण
भावे । असुरत्वं प्रज्ञावत्त्वं वानवत्त्वं वापि वासुरिति प्रज्ञानामास्यत्यनर्था-
नस्तुप्रचास्यामर्थाः—निरु० १० । ३४ । बुद्धिमस्वम् (तत्) आसुरम् (वः)
युष्मभ्यम् (अस्तु) (सुचेतनम्) प्रशस्तं ज्ञानम् (युष्मान्) युष्मभ्यम् (अस्तु)
(दिवेदिवे) दिने दिने (प्रति) प्रत्यक्षेण (एव) निश्चयेन (गृभायत)
अ० ८ । ४ । १८ । गृहीत ॥

११—(त्वम्) (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् राजन् (शर्म) शरणम् । सुखम्
(रिणाः) री गतिरेषणयोः—लङ् । अरिणाः । प्रापितवानसि (हव्यम्) हु-

वनेभ्यः) पार और अवार देश वाले लोगों के लिये (रिणाः) पहुंचाया है ।
(स्तुवने) स्तुति करने वाले (विप्राय) बुद्धिमान के लिये (वसुवनिम्)
धनों का सेवन (दुरश्रवसे) दुष्ट अपयश मिटाने को (वह) प्राप्त करा ॥ ११ ॥

भाषार्थ—राजा दूर और समीप वाली प्रजा को शरण में रख कर
विद्या और धन से उन की उन्नति करे ॥ ११ ॥

संहिता के(शर्मरिणाः)एक पद के स्थान पर[शर्म रिणाः] ही पद मानकर
हम ने कथं किया है ॥

त्वमिन्द्र कुपोतीय छिन्नपुत्राय वञ्चते ।

श्यामाकं पृक्षं पीलुं च वारस्मै अकृणोर्बहुः ॥ १२ ॥

त्वम् । इन्द्र । कुपोतीय । छिन्नपुत्राय । वञ्चते ॥ श्यामाकम् ।

पृक्षम् । पीलुं । च । वाः । अस्मै । अकृणोः । बहुः ॥ १२ ॥

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र । [बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्] (त्वम्) तू ने
(अस्मै) इस (छिन्नपुत्राय) कटे पंख वाले, (वञ्चते) चलाते हुये (कुपोतीय)
कवृत्त को (पृक्षम्) पका हुआ (श्यामाकम्) श्यामा [समा अक्ष] (पीलुं) पीलु
[फल विशेष] (च) और (वाः) जल (बहु) बहुत बार (अकृणोः) किया है ॥ १२ ॥

यत् । देवयोग्यान्नम् (पारावतेभ्यः) पारि + अवारि—वत्, अण्, पृषोदगादि-
कपम् । पारावतघ्नीं पारावारघातिनीं पारं परं अवन्ववारमवरम्—निल० २ ।
२४ । पारावारदेशे विद्यमानेभ्यः (विप्राय) मेघाचिने (स्तुवने) स्तुतिं
कुर्वते (वसुवनिम्) इन्द्रसि वनसनरनिमयाम् । पा० ३ । २ । २७ । वसु +
वन सम्मकौ—इत् । धनानां सेवनम् (दुरश्रवसे) क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि-
स्थानिनः । पा० २ । ३ । १४ । इति तुमुनः कर्मणिः चतुर्थी । दुर् दुष्टम् अश्रवः
अपयशः, तन्नाशयितुम् । दुष्टापकीर्तिनाशनाय (वह) प्रायय ॥

१२—(त्वम्) (इन्द्र) परमैश्वर्यवन् राजन् (कुपोतीय) पक्षिविशेषाय
(छिन्नपुत्राय) (वञ्चते) वञ्चु गती—शत् । गच्छते (श्यामाकम्) शुद्धधान्य-
भेदम् (पृक्षम्) (पीलुं) फलविशेषम् (च) (वाः) जलम् (अस्मै) प्रसि-
दाय (अकृणोः) कृतवानसि (बहुः) द्विविचतुर्भ्यः सुच् । पा० ५ । ४ । १८ ।
रिणोश्च बाहुलकात् । बहुवारम् ॥

भावार्थ—जैसे पत्त कटे कबूतर को अन्न और जल देकर पुष्ट करते हैं, वैसे ही राजा दीन दुखियों को अन्न आदि देकर सुखी करे ॥ १२ ॥

अरुंगरो वावदीति त्रेधा बुद्धो वरत्रया ।

इरामहु प्रशंसुत्यनिरामपं सेधति ॥ १३ ॥

अरुंगरः । वावदीति । त्रेधा । बुद्धः । वरत्रया ॥ इराम् ।

अहु । प्रशंसति । अनिराम् । अपं । सेधति ॥ १३ ॥

भावार्थ—(अरुंगरः) पूरा विज्ञानी पुरुष (त्रेधा) तीन प्रकार से [स्थान, नाम और मनुष्य आदि जन्म से] (वरत्रया) रस्सी से (बुद्धः) बंधा हुआ (वावदीति) बार बार कहता है । (इराम्) लेने योग्य अन्न को (अह) ही (प्रशंसति) वह सराहता है और (अनिराम्) निन्दित अन्न को (अपं सेधति) हटाता है ॥ १३ ॥

भावार्थ—विद्वान् प्राप्त पुरुष अपना स्थान, नाम और जन्म सुधारने के लिये अधर्म को छोड़कर धर्म से अन्न आदि पदार्थ ग्रहण करे ॥ १३ ॥

सूक्तम् १३६ ॥

१—१६ ॥ प्रजापतिदेवता ॥ १, २, ५, ७—९, १५ निचूदनुष्टुप्, ३ ।
आर्यनुष्टुप्, ४ भुरिगनुष्टुप्, ६, १०, ११, १६ अनुष्टुप्, १२ निचूत् ककुमु-
ष्णिक्, १३ भुरिगार्युष्णिक्, १४ उरोबृहती ॥

राजप्रजाकर्तव्योपदेशः— राजा और प्रजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

यदस्या अहु भेद्याः कृधु स्थुलमुपात्सत् ।

१३—(अरुंगरः) अन्नम् + गृ विज्ञाने-अप् । पूर्णविज्ञानी पुरुषः (वाव-
दीति) पनुः पनुर्वदति (त्रेधा) धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि नामानि
जन्मानि—निरु० ६ । २८ । स्थाननामजन्मभिन्विप्रकारेण (बुद्धः) (वरत्रया)
वृक्षश्चित् । उ० ३ । १०७ । वृज् वरशो-अन्नं चित् । रज्ज्वा (इराम्) ऋज्जेन्द्रा-
प्र० । उ० २ । २८ । इण् गतौ-रन्, गुणाभावः । इरा अन्ननाम-निघ० २ । ७ ।
प्रापणीयमन्नम् (अह) अवश्यम् (प्रशंसति) स्तौति (अनिराम्) निन्दितमन्नम्
(अप-सेधति) अपगमयति निवारयति ॥

मुष्काविदस्या एजतो गौशुफे शकुलाविव ॥ १ ॥

यत् । अस्याः । अंहु-भेद्याः । कृधु । स्थूलम् । उप-अतसत् ॥
मुष्कौ । इत् । अस्याः । एजतः । गौ-शुफे । शकुलौ-इव ॥१॥

[पद पाठ के लिये सूचना सूक्त १२७ देखो ॥]

भाष्यार्थ—(यत्) जब (अस्याः) इस (अंहुभेद्याः) पाप से नाश होने वाली [प्रजा] के (कृधु) छोटे और (स्थूलम्) बड़े [पाप] को (उपा-तसत्) वह [राजा] नाश करता है । (अस्याः) इस [प्रजा] के (मुष्कौ इत्) दोनों ही चोर [स्त्री और पुरुष चोर अथवा राति और दिन के] चोर (गौशुफे) गौ के खुर के गढ़े में (शकुलौ इव) दो मछलियों के समान, (एजतः) कांपते हैं [डरते हैं] ॥ १ ॥

भाष्यार्थ—जब राजा न्याय से सब प्रजा के छोटे बड़े अपराध को मिटाता है, तब सब स्त्री पुरुष राति और दिन में पाप से कांपते हैं जैसे मछ-लियां छोड़े जल में घबराती हैं ॥ १ ॥

यह मन्त्र यजुर्वेद में है—२३। २८ । और महर्षि दयानन्द कृत ऋग्वेदादि-भाष्य भूमिका पृष्ठ ३३२ में व्याख्यात है ॥

यदा स्थुलेन पससाणी मुष्का उपावधीत् ।

विष्वञ्चा वुस्या वर्धतुः सिकतास्वेव गर्दभी ॥ २ ॥

१—(यत्) यदा (अस्याः) अग्रे वर्तमानायाः (अंहुभेद्याः) भूमेशीङ्० । उ० १ । ७ । अम रोगे पीडने च—उप्रत्ययः, इक् च । अंहुः=अंहस्वात्—निरु० ६ । २७ । अचित्स्त्तन्त्रिभ्यर्ङ् । उ० ३ । १५८ । मिदिर् विदारणे—ईप्रत्ययः । अंहुना पापेन भेदनीया विदारणीया या सा अंहुभेदी तस्याः प्रजायाः (कृधु) ह्रस्वम्—निघ० ३ । २ । अल्पं पापम् (स्थूलम्) महत् पापम् (उपातसत्) तसु उपक्षये उपक्षेपे च—लङ् लङर्थे । उपक्षिपति नाशयति (मुष्कौ) स्वभूमिशुषि-मुषिभ्यः कक् । उ० ३ । ४१ । मुप स्तेथे—कक् । तस्करौ । स्त्रीपुरुषरूपौ रात्रि-दिवसभौ चौरौ या (इत्) एव (अस्याः) प्रजायाः (एजतः) कम्पेते । विभीतः (गौशुफे) गौखुरचिहे (शकुलौ) मद्गुरादयश्च । उ० १ । ४१ । शकुल शकौ-इरव्, रस्य क्तः । मत्स्यौ (इव) यथा ॥

यदा । स्थूलेन । पससा । अणौ । मुष्को । उप । अवधीत् ॥
विष्वञ्चा । वस्या । वर्धतः । सिकतासु । एव । गर्दभौ ॥ २ ॥

भाषार्थ—(यदा) जब (स्थूलेन) बड़े (पससा) राज्य प्रबन्ध के साथ (अणौ) सूक्ष्म) न्याय के बीच (मुष्को) दोनों चोरों [स्त्री और पुरुष चोरों वा रात्रि और दिन के चोरों] को (उप अवधीत्) वह [राजा] मार डालता है । (विष्वञ्चा) सब और पूजनीय (वस्या) अति श्रेष्ठ दोनों [स्त्री और पुरुष], (सिकतासु) रेत वाले देशों में (गर्दभौ एव) दो श्वेत कमलों के समान, (वर्धतः) बढ़ते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—जब राजा सूक्ष्म विचार के साथ सब दुष्ट चोरों को मिटा देता है, तभी श्रेष्ठ गुणवान् स्त्री पुरुष बढ़ते हैं, जैसे बालू के स्थानों में श्वेत कमल बढ़ता है ॥ २ ॥

यदल्पिकास्वल्लिका कर्कधुकेवषद्यते ।

वासन्तिकमिव तेजनं यन्त्यवाताय वित्पति ॥ ३ ॥

यत् । अल्पिकासु । अल्लिका । कर्क-धुके । अव-षद्यते ॥

वासन्तिकस्-इव । तेजनम् । यन्ति । अवाताय । वित्पति । ३

भाषार्थ—(यत्) जब (अल्पिकासु) छोटी प्रजाओं में (अल्लिका)

२—(यदा) (स्थूलेन) महता (पससा) अथ० ४।४।६। पस
बन्धे वाधे च—असुन् । पसः=राष्ट्रम्—दयानन्दभाष्ये, यजु० २३। २२।
राज्यप्रबन्धेन (अणौ) सूक्ष्मे न्याये (मुष्को) म० १। तस्करौ (उप) व्याप्तौ
(अवधीत्) हन्ति । नाशयति (विष्वञ्चा) विष्णु+अञ्चु गतिपूजनयोः—किन् ।
सर्वतः पूज्यौ (वस्या) वसु—ईयसुन्, ईकारलोपः । सुपां सुलुक्० । पा० ७।
१। ३६। विभक्तोर्डा । वसीयसौ । अतिश्रेष्ठौ स्त्रीपुरुषौ (वर्धतः) (सिकतासु)
पृथिरञ्जिभ्यां कित् । उ० ३। १११। सिक सेचने—अतच् । बालुयुक्तभूमिषु
(एव) सादृश्ये । इव (गर्दभौ) कृशूशलिकलिगर्दिभ्योऽमच् । उ० ३। १२२।
गर्द शब्दे—अमच् । द्वे श्वेतकुमुदे ॥

३—(यत्) यदा (अल्पिकासु) क्षुद्रासु प्रजासु (अल्लिका) क्षुद्रा प्रजा

छोटी प्रजा (कर्कधूके) अग्नि के भोके में (अवषद्यने) कष्ट पाती है । [तब] (वित्पति) विद्वानों के पतन में (अवाताय) दुःख मिटाने के लिये (वासन्तिकम् इव) वसन्त ऋतु में होने वाली [उत्तेजना) के समान (तेजनम्) उत्तेजना को (यन्ति) वं [शूर लोग] पाते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—छोटी छोटी प्रजाओं पर अन्याय होने से बड़ों को हानि पहुँचती है, इस लिये शूर वीर पुरुष वसन्त ऋतु के समान उत्तेजित होकर शत्रुओं का नाश करें ॥ ३ ॥

यद् देवासो ललामगुं प्रविष्टीमिन्माविषुः ।

सकुला देदिश्यते नारी सत्यस्यासिभुवो यथा ॥ ४ ॥

यत् । देवासः । ललाम-गुम् । प्र । विष्टीमिन्म् । आविषुः ॥

सकुला । देदिश्यते । नारी । सत्यस्य । असिभुवः । यथा ॥४॥

भावार्थ—(यत्) जैसे (देवासः) विद्वान् लोग (ललामगुम्) प्रधानता पहुँचाने वाले (विष्टीमिन्म्) कोमलता से युक्त न्याय में (प्र आविषुः) प्रविष्ट हुये हैं । और (यथा) जैसे (सकुला) बाल बच्चों वाली (नारी)

(कर्कधूके) कृदाधा० । उ० ३ । ४० । डुकृञ् करणे—कप्रत्ययः, ककारस्य इत्संज्ञा न । सृष्टृभू० । उ० ३ । ४१ । धूञ् कम्पने—कक् । कर्कस्य अग्नेः धूके कम्पने (अवषद्यने) अवसीदति । दुःखं प्राप्नोति (वासन्तिकम्) वसन्ताच्च । पा० ४ । ३ । २० । वसन्त—ठञ् । वसन्ते भवं तेजनम् (इव) यथा (तेजनम्) उद्दीपनम् । उत्तेजनाम् । प्रेरणाम् (यन्ति) प्राप्नुवन्ति ते शूराः (अवाताय) घात गतौ सेवायां सुखीकरणे च—घञ् । घातं सुखम् अघातं दुःखम् । तत् नाशयितुम् (वित्पति) विद ज्ञाने—क्विप्+पत्त्व गतौ—क्विप् । विदां विदुषां पति अधःपतने ॥

४—(यत्) यथा (देवासः) विद्वांसः (ललामगुम्) प्रथेयम् । उ० ५ । ६८ । लल ईप्तायाम्—अमञ् । पृषोदरादिदीर्घः । गच्छतेः—डु । ललामं पुच्छपुण्ड्राश्वभूषाप्रार्थान्यकेतुषु—अमरः २३ । १४२ । प्रार्थान्यस्य गमेयितारं प्रापयितारम् (प्र) (विष्टीमिन्म्) वि+ष्टीम् क्लेदे—घञ् । अत इतिठनौ । पा० ५ । २ । ११५ । विष्टीम्—इति । विशेषण आदभावेन कोमलत्वेन युक्तं

नारी [स्त्री] (अग्निभुवः) आंशों से हुये [प्रत्यक्ष] (सत्यस्य) सत्य का (देदिश्यते) बार बार उपदेश करती है [वैसे ही राजा न्याय और उपदेश करे] ॥ ४ ॥

भावार्थ—जैसे पूर्वज लोग न्याय करने से प्रधान हुये हैं, और जैसे माता सत्य-का उपदेश करके सन्तानों को गुणी बनाती है, वैसे ही राजा प्रजा का हित करता रहे ॥ ४ ॥

यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद में है—२३ । २६ । और महर्षि दयानन्द कृत ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ ३३४ में व्याख्यान है ॥

सुहान् नरन्व्यतृप्तहि मोक्रदत् अस्थानासरन् ।

शक्तिकानना स्वचमशकं सक्तु पद्यम ॥ ५ ॥

सुहान् । अग्नी इति । अतृप्तत् । वि । मोक्रदत् । अस्थाना ।

आसरन् ॥ शक्तिकाननाः । स्वचमशकम् । सक्तु । पद्यम ॥५॥

भाषार्थ—(महान्) महान् पुरुष (अग्नी) दोनों अग्निओं [शारीरिक और आत्मिक बलों] को (वि) विशेष करके (अतृप्तत्) तृप्त करे, और (अस्थाना) अयोग्य स्थान में (आसरन्) आता हुआ (मोक्रदत्) न घबरावे । (शक्तिकाननाः) सामर्थ्य का प्रकाश करने वाले हम (स्वचमशकम्) क्षातियों

न्यायम् (आविपुः) अत्र रक्षणगतिप्रवेशादिषु—लुङ् । प्रविष्टवन्तः (सकुला) कुलैः सन्तानैः सह वर्त्तमाना (देदिश्यते) दिश दाने—यङ्प्रत्ययः । पुनः पुनरुपदेशं करोति (नारी) नरस्य स्त्री (सत्यस्य) यथार्थज्ञानस्य (अग्निभुवः) अग्नि + भू—क्विप् । अग्निभ्यां भवस्य प्रत्यक्षस्य (यथा) ॥

-५—(महान्) समर्थः पुरुषः (अग्नी) प्रगृह्त्वामावः । अग्निरूपौ आत्मिकसामाजिकप्रतापौ (अतृप्तत्) तर्पयेत् (वि) विशेषेण (मोक्रदत्) क्रद, क्रदि वैकल्ये । नैव व्याकुलो भवेत् (अस्थाना) सुपां सुलुक्० । पा० ७ । २ । ३६ । विभक्तराकारः । अयोग्यस्थानम् (आसरन्) सू गतौ—शत् । आगच्छन् (शक्तिकाननाः) कन दीप्तौ—णिच्, ल्युट् । शक्ति कानयन्ति दीपयन्तीति शक्तिकाननाः । सामर्थ्यप्रकाशकाः (स्वचमशकम्) अत्यविचर्मितमि० । ड० ३ । ११७ । वमु अदने—असच् । अस्य शः, स्वार्थकन् । स्वेभ्यो-हानिभ्यःषिष्टकमेदं लडङ्कादिकम् (सक्तु) अष्टयवादिचूर्णम् (पद्यम)

के लिये भोजन [लड्डू आदि] और (लक्ष्) लक्ष् (पद्यम) प्राप्त करें ॥५॥

भाषार्थ—समर्थ मनुष्य अन्न आदि पदार्थों का संग्रह करके कठिन समय में अपने भाई बन्धुओं को पुष्ट करके रक्षा करे ॥ ५ ॥

महानुग्न्युल्लखलमतिक्रामन्त्यब्रवीत् ।

यथा तव वनस्पते निरघ्नन्ति तथैवति ॥ ६ ॥

महान् । अग्नी इति । उल्लखलम् । अतिक्रामन्ति । अब्रवीत् ॥

यथा । तव । वनस्पते । निरघ्नन्ति । तथा । एवति ॥ ६ ॥

भाषार्थ—(महान्) महान् पुरुष (अग्नी) दोनों अग्नियों [आत्मिक और सामाजिक बलों] से (उल्लखलम्) ओखली को (अतिक्रामन्ति) लांघता है और (अब्रवीत्) कहता है—(वनस्पते) हे वनस्पति ! [काष्ठ के पात्र] (यथा) जैसे (तव) तुझ में (निरघ्नन्ति) [लोंग] कूटते हैं, (तथा) वैसे ही (एवति) ज्ञान के विषय में [होवे] ॥ ६ ॥

भाषार्थ—जैसे ओखली में कूटकर सार पदार्थ लेते हैं, वैसे ही मनुष्य परिश्रम करके ज्ञान प्राप्त करे ॥ ६ ॥

महानुग्न्युप ब्रूते भ्रष्टोथाप्यभ्रुवः ।

यथैव ते वनस्पते पिप्पति तथैवति ॥ ७ ॥

महान् । अग्नी इति । उप । ब्रूते । भ्रष्टः । अथ अपि । अभ्रु-

व्यं प्रामुयाम ॥

६—(महान्) (अग्नी) सुगं सुलुक्० । पा० । ७ । १ । ३६ । विभक्तो पूर्वसवर्णदीर्घः, प्रगृह्यत्वाभावश्च । अग्निभ्याम् । आत्मिकसामाजिकबलाभ्याम् (उल्लखलम्) धान्यादिकण्डनपात्रम् (अतिक्रामन्ति) एकवचनस्य बहुवचनम् । अतिक्रामति । उल्लंघयति (अब्रवीत्) ब्रवीति (यथा) (तव) त्वयि (वनस्पते) हे काष्ठमय पात्र (निरघ्नन्ति) अकारश्लान्दसः । निर्घ्नन्ति । नितरामाहननं कुर्वन्ति मनुष्याः (तथा) (एवति) वर्तमाने पृषद्बृहन्मह० । उ०२ । २४ । इति व्यासौ—अति, नकारलोपः । ज्ञानविषये ॥ ६ ॥

भुवः॥ यथा । एव । ते । वनस्पते । पिप्पति । तथा । एवति ७

भाषार्थ—(महान्) महान्, (अष्टः) परिपक्व, (अथ अपि) और भी (अभूभुवः) अशुद्धि का शोधने वाला पुरुष (अग्नी) दोनों अग्नियों [आत्मिक और सामाजिक बलों] को (उप) पाकर (ब्रूते) कहता है— (वनस्पते) हे वनस्पति ! [काठ के पात्र ओखली] (यथा) जैसे (ते) तुझ में (पिप्पति) [मनुष्य] भरता है. (तथा एव) वैसे ही (एवति) ज्ञान के विषय में [होंगे] ॥ ७ ॥

भावार्थ—मन्त्र ६ के समान है ॥ ७ ॥

महान्गन्धुपं ब्रूते भ्रष्टोवाप्यभूभुवः ।

यथा वयो विदाह्यं स्वर्गं नुमवदह्यते ॥ ८ ॥

महान् । अग्नी इति । उपं । ब्रूते । भ्रष्टः । अथ । अपि । अभूभुवः ॥ यथा । वयः । विदाह्यं । स्वर्गं । नुम् । अवदह्यते ८

भाषार्थ—(महान्) महान्, (अष्टः) परिपक्व, (अथ अपि) और भी (अभूभुवः) अशुद्धि का शोधने वाला पुरुष (अग्नी) दोनों अग्नियों [आत्मिक और सामाजिक बलों] को (उप) पाकर (ब्रूते) कहता है— (यथा) जैसे (वयः) जीवन को (विदाह्यं) विविध प्रकार तपाकर (स्वर्गं)

७—(महान्) (अग्नी) म० ५ । आत्मिकसामाजिकप्रतापौ (उप) उपेत्य । प्राप्य (ब्रूते) कथयति (अष्टः) असृज पाके—क । भ्रष्टः । परिपक्वः (अथ) अनन्तरम् (अपि) (अभूभुवः) भू सत्ताशुद्धिचिन्तनमिश्रणेषु—क्विप् + भूरक्षिभ्यां कित् । उ० ४ । २१७ । भू शुद्धौ—असृज कित् । अशुद्धि-शोधकः पुरुषः (यथा) (एव) (ते) त्वयि (वनस्पते) म० ६ (पिप्पति) पृ पालनपूरणयोः पृषोदरादिरुपम् । पिपति । पूरयति (तथा) (एवति) म० ॥ ६ ॥

८—(वयः) सर्वधातुभ्योऽसृज् । उ० ४ । १८६ । वी गतिव्याप्तिप्रजना-दिषु—असृज् । जीवनम् (विदाह्यं) दह दाहे । विविधं तपश्चरणेन तपत्वा (स्वर्गं) सुखविशेषे (नम्) एह बन्धे—ड । बन्धम् (अवदह्यते) अस्मीकरोति

स्वर्ग में [सुख विशेष में] (नम्) बन्धन को (अवदह्यते) [विद्वान्] भस्म
करदेता है, [वैसे ही मनुष्य करे] ॥ ८ ॥

भाष्यार्थ—मनुष्य शुद्ध चित्त से बल बढ़ाकर विद्वानों के समान ब्रह्मचर्य
आदि तप करके दुखों से मुक्त होवे ॥ ८ ॥

मूहानुगन्धुपं ब्रूते स्वसावेशितं पसः ।

इत्थं फलस्य वृक्षस्य शूर्पं शूर्पं भजेमहि ॥ ८ ॥

मूहान् । अग्नी इति । उप । ब्रूते । स्वसा । आ-वेशितम् ।
पसः ॥ इत्थम् । फलस्य । वृक्षस्य । शूर्पं । शूर्पम् । भजेमहि । ८ ॥

भाष्यार्थ—(महान्) म न् पुरुष (अग्नी) दोनों, अग्नियों [आत्मिक
और समाजिक बलों] को (उप) पाकर (स्वसा) सुन्दर गति [उपाय] से
(आवेशितम्) प्राप्त हुये (पसः) राज्य प्रबन्ध के विषय में (ब्रूते) कहता
है—[कि] (इत्थम्) इसी प्रकार से (वृक्षस्य) स्वीकार करने योग्य
(फलस्य) फल के (शूर्पं) एक रूप में (शूर्पम्) दूसरे रूप को (भजेमहि)
हम खेवें ॥ ८ ॥

भाष्यार्थ—जैसे मनुष्य अन्न आदि पदार्थ को रूप से लगातार शुद्ध करते
हैं, वैसे ही राज्य का प्रबन्ध सदा विचार से करना चाहिये ॥ ८ ॥

मूहानुग्नी कृकवाकं शम्यया परि धावति ।

अयं न विद्य भो मृगः शीष्णी हरति धाणिकाय ॥ ९० ॥

मूहान् । अग्नी इति । कृकवाकम् । शम्यया । परि । धावति ॥

विनाशयति विद्वान् । अन्यद् गतम्—म० ७ ॥

६—(महान्) (अग्नी) म० ५ । आत्मिकसमाजिकप्रतापौ (उप-)
उपेत्य (ब्रूते) (स्वसा) सु + अल गतिदीप्तधादानेषु-किप् । सुगत्या । उचितो-
पायेन (आवेशितम्) प्राप्तम् । रक्षितम् (पसः) म० ३ । राज्यप्रबन्धम्
(इत्थम्) एषम् (फलस्य) (वृक्षस्य) वृक्ष वरणे—क । स्वीकरणीयस्य
(शूर्पं) शूर्प माने-घञ् । एकस्मिन् धान्यस्फोटके (शूर्पम्) अयं शूर्पम् (भजे-
महि) खेवेमहि ॥ ८ ॥

अयम् । न । विद्म । यः । मृगः । शीष्णा । हरति । धाणिकसू०

भाषार्थ—(महान्) महान् पुरुष (अग्नी) दोनों अग्निधियों [आत्मिक और सामाजिक बलों] से और (शम्यया) जूये की कील [के समान शस्त्र] से (कृकवाकम् परि) बनावटी बोली वाले पर. (धावति) दौडता है । [उसको] (न) अग (विद्म) हम जानते हैं, (अयम् यः) यह जो (मृगः) पशु [के तुल्य मूर्ख] (शीष्णा) शिर से [कल्पित विचार से] (धाणिकाम्) वस्ती [राजधानी आदि] को (हरति) लुटता है ॥ १० ॥

भाषार्थ—जो ठग छल से झूठी बनावटी बोली बोल कर राजधानी आदि वस्ती को लूटे, राजा उन को यथावत् दण्ड देवे ॥ १० ॥

मुहानुग्नी महानुग्रं धावन्तुमनु धावति ।

इमास्तदस्य गा रक्ष यभु सामद्वयौदनम् ॥ ११ ॥

मुहान् । अग्नी इति । महान् । अग्रम् । धावन्तुम् । अनु ।

धावति ॥ इमाः । तत् । अस्य । गाः । रक्ष । यभु । साम् ।

अद्वि । औदनम् ॥ ११ ॥

भाषार्थ—(महान्) महान् पुरुष (अग्नी) दोनों अग्निधियों [आत्मिक और सामाजिक बलों] के, और (महान्) महान् पुरुष (अग्रम्) ज्ञानवान्

१०—(महान्) (अग्नी) म० ६ । अग्निभ्याम् । आत्मिकसामाजिक-बलाभ्याम् (कृकवाकम्) सृष्टभूशुषिमुषिभ्यः कक् । उ० ३ । ४१ करोतेः—कक् + वच कथने-घञ् । कृकः कृत्रिमः कल्पितो वाको वचनं यस्य तम् । कृत्रिमवाचिनम् (शम्यया) अथ० ६ । १३८ । ४ । शान्तिकरेण युगकीलतुल्य-शस्त्रेण (परि) प्रति (धावति) शीघ्रं गच्छति (अयम्) (न) सम्यति—निरु० ७ । ३१ (विद्म) जानीमः (यः) (मृगः) पशुतुल्यो मूर्खः (शीष्णा) शिरसा । कल्पितविचारेण (हरति) लुण्ठति (धाणिकाम्) आणको लुधु-शिङ्घिधान्भ्यः । उ० ३ । ८३ । दधातेः—आणकप्रत्ययः, टाप् अत इत्त्वम् । वस्तीम् । राजधान्यादिकाम् ॥

११—(महान्) (अग्नी) म० ५ । आत्मिकसामाजिकपराक्रमौ (महान्) (अग्रम्) धावन्तुस्यज्यतिभ्यो नः । उ० ३ । ६ । अग गतौ—न प्रत्ययः । ज्ञान-

(धावन्तम् अनु) दौड़ते हुये के पीछे (धावति) दौड़ता है । (तत्) सो (अस्य) इस [पुरुष] को (इमाः) इन (गाः) भूमियों की (रक्ष) रक्षा कर, (यम) हे न्यायकारी ! (माम्) मुझको (औदनम्) भोजन (अद्धि) खिला ॥ ११ ॥

भाषार्थ—महान् पुरुष आत्मिक और सामाजिक बल प्राप्त करके ज्ञानियों का अनुकरण करे, और राज्य की रक्षा करके प्रजा को पाले ॥ ११ ॥

सुदेवस्त्वा महान्ग्रीर्बर्वाधते महतः साधु खोदनम् ।

कुसं पीवरो नवत् ॥ १२ ॥

सुदेवः । त्वा । महान् । अग्रीः । बर्वाधते । महतः । साधु ।
खोदनम् ॥ कुसम् । पीवरः । नवत् ॥ १२ ॥

भाषार्थ—[हे प्रजा जन !] (सुदेवः) बड़ा विजय चाहने वाला, (महान्) महान् पुरुष (त्वा) तुझ से (महतः) बड़े (अग्रीः) अग्रियों [आत्मिक और सामाजिक बलों] के द्वारा (खोदनम्) खोदने के कर्म [सैव सुरंग आदि] को (साधु) सले प्रकार (बर्वाधते) रोकता है । (पीवरः) पुष्टाङ्ग पुरुष (कुसम्) आपस में मिलाप को (नवत्) प्राप्त करे ॥ १२ ॥

वन्तम् (धावन्तम्) शीघ्रं गच्छन्तम् (अनु) अनुकृत्य (धावति) शीघ्रं गच्छति (इमाः) (तत्) ततः (अस्य) पुरुषस्य (गाः) भूमिः (रक्ष) (यम) मस्य भः । हे यम । न्यायकारिन् (माम्) प्रजाजनम् (अद्धि) अद् भक्षणे, अन्तर्गतणिजर्थः । आदय । खादय (औदनम्) स्वार्थे अण् । भोजनम् ॥

१२—(सुदेवः) सुविजिगीषुः (त्वा) प्रजाजनसकाशात् (महान्) (अग्रीः) अग्नीन् । आत्मिकसामाजिकपराक्रमैः—इत्यर्थः (बर्वाधते) बाधते । निवारयति (महतः) विशालान् । विशालैः (साधु) यथा तथा । यथावत् प्रकारेण (खोदनम्) खुड संवरणे भेदने च—ल्युट् । भेदनम् । सन्धिकरणम् । (कुसम्) कुस संश्लेषणे—क, परस्परसंगमनम् (पीवरः) अर्तिकमिभ्रमि० । ड० ३ । १३२ । पीव स्थात्वे—अरप्रत्ययः, स च चित् । पुष्टः पुरुषः (नवत्) नवत् इति गतिकर्मा—निघ० २ । १४ । प्राप्नुयात् ॥

भावार्थ—राजा और प्रजा के मेल से चोर आदि दुष्ट लोग प्रजा को न सतवें ॥ १२ ॥

वशा दुग्धामिमाङ्गुरिं प्रसृजतोयतं परे ।

महान् वै भद्रो यभु मामद्भ्यौदनम् ॥ १३ ॥

वशा । दुग्धाम्-इम । अङ्गुरिम् । प्रसृजत । उग्रतम् । परे ॥

महान् । वै । भद्रः । यभु । माम् । अद्भि । औदनम् ॥ १३ ॥

भाषार्थ—[हे विद्वानो !] (वशा) बन्ध्या [निष्फल] (उग्रतम्) उग्रता [प्रचण्ड नीति] को (दुग्धाम्) जँली हुई (अङ्गुरिम् इम) अंगुरी के समान (परे) दूर (प्रसृजत) सर्वथा छोड़ो । (महान्) महान् पुरुष (वै) ही (भद्रः) मंगलदाता है, (यभु) हे न्यायकारी । (माम्) मुझ को (औदनम्) भोजन (अद्भि) तू खिला ॥ १३ ॥

भावार्थ—जैसे साँप आदि के विष से जले हुये अगुली आदि अङ्ग को शरीर की रक्षा के लिये शीघ्र काटकर फँक देते हैं, वैसे ही विद्वान् लोग निष्फल प्रचण्ड नीति को छोड़कर प्रजा को सुख देवें ॥ १३ ॥

विदेवस्त्वा महान्ग्रीर्विबाधते महतः साधु खोदनम् ।

कुमारिका पिङ्गलिका कार्द्व भस्मा कु धार्वति ॥ १४ ॥

विदेवः । त्वा । महान् । अग्रीः । विबाधते । महतः । साधु ।

खोदनम् । कुमारिका । पिङ्गलिका । कार्द्व । भस्मा ।

कु । धार्वति ॥ १४ ॥

भाषार्थ—[हे प्रजा जन !] (विदेवः) मद रहित [निरहंकारी],

१३—(वशा) विभक्तोर्लक् । वशाम् । बन्ध्याम् । निष्फलाम् (दुग्धाम्) विषदुग्धाम् (इम) वस्य मः । इष । यथा (अङ्गुरिम्) अङ्गुलिम् (प्रसृजत) सर्वथा त्यजत (परे) दूरे (महान्) (वै) एष (भद्रः) मङ्गल-प्रदः । अन्यद् गतम्—म० ॥ ११ ॥

१४—(विदेवः) दिव्य क्रीडामदादिषु— इष् । विगतमदः । निरहंकारिः

(महान्) महान् पुरुष (त्वा) तुभ्य से (महतः) बड़े (अग्नीः) अग्नियों [आत्मिक और सामाजिक बलों] के द्वारा (खोदनम्) खोदने के कर्म [सैंधु सुरंग आदि] को (साधु) मले प्रकार (विवाधते) हटा देता है। (पिङ्गलिका) शोभायमान (कुमारिका) कामना योग्य कुमारी [कन्या] (कार्द) कीबड़ और (मस्मा) मस्म [राल आदि] को (कु) भूमि पर (धावति) शुद्ध कर देती है ॥ १४ ॥

भाषार्य—राजा और मन्त्री मिलकर चोर आदि दुष्टों को हटावे, जैसे शुद्ध स्वभाव वाली स्त्री कूड़े करकट को घर से बाहर फेंक देती है ॥ १४ ॥

सुहान् वै भद्रो बिल्वो सुहान् भद्र उदुम्बरः ।

सुहां अभिक्त बाधते महतः साधु खोदनम् ॥ १५ ॥

सुहान् । वै । भद्रः । बिल्वः । सुहान् । भद्रः । उदुम्बरः ॥

सुहान् । अभिक्त । बाधते । महतः । साधु । खोदनम् ॥ १५ ॥

भाषार्य—(भद्रः) मंगल दाता (महान्) महान् पुरुष (वै) वी (बिल्वः) बेल [वृक्ष के समान उपकारी] है, (भद्रः) मंगल दाता (सुहान्) महान् पुरुष (उदुम्बरः) गूलर [वृक्ष के समान उपकारी] है। (अभिक्त) हैं

पुरुषः (विवाधते) निवारयति (कुमारिका) कमेः किदुञ्चोपधायाः । उ० ३ ।

१३८ । कमु कान्ती—आरन्, कन् टाप् अकारस्य, उकारः, अत इत्वम् । कमनीया

कन्या (पिङ्गलिका) कलस्त्वपश्च । उ० १ । १०४ । पिजि दौमौ, वासे, बले,

हिंसायां दाने च—कलप्रत्ययः, कन्, टाप्, अत इत्वम् । दीप्यमाना । शोम-

माना (कार्द) कर्द कुत्सिते शब्दे—घञ्, विभक्तोर्लुक् । कार्दम् कर्दमम् । पङ्कम्

(मस्मा) छान्दसो दीर्घः । मस्म । दग्धगोमयादिविकारम् (कु) कौ । भूम्याम्

(धावति) धाडु गतिशुद्धयोः । शोधयति । अन्यद् यथा म० ॥ १२ ॥

१५—(सुहान्) (वै) एव (भद्रः) मङ्गलप्रदः (बिल्वः) उल्वादयश्च ।

उ० ४ । १५ । बिल्वे भेदने—घञ् । फलवृक्षविशेषः । शिवद्रुमः (सुहान्) (भद्रः)

(उदुम्बरः) पृथिव्यधि० । उ० १ । २३ । उड् संहतौ सौत्रो धातुः—कु ।

संज्ञार्था भृतृवृ० । पा० ३ । २ । ४६ । उडु+वृञ् धरणे—लच्, लुम् च, उर्य दः,

लस्ये च । वृक्षविशेषः । कर्तुफलः । यज्ञीयः (सुहान्) (अभिक्त) अभि+अभ्यञ्

विख्यात ! (महान्) महान् पुरुष (महतः) बड़े [आरिभक्त और सामाजिक बलों—म० १४] से (खोदनम्) खोदने के कर्म [सौंघ सुरंग आदि] को (साधु) भले प्रकार (बाधते) हटाता है ॥ १५ ॥

भावार्थ—सब महान् पुरुष प्रयत्न करके प्रजा को दुष्टों से बचावें ॥१५॥

यः कुमारी पिङ्गलिका वसन्तं पीवरी लभेत् ।

तैलकुण्डमिमाङ्गुष्ठं रोदन्तं शुद्धमुद्धरेत् ॥ १६ ॥

यः । कुमारी । पिङ्गलिका । वसन्तम् । पीवरी । लभेत् ॥

तैलकुण्डम्-इम । अङ्गुष्ठम् । रोदन्तम् । शुद्धम् । उद्धरेत् ॥१६॥

भावार्थ—(पीवरी) पुष्टाङ्गी, (पिङ्गलिका) शोभायमान, (कुमारी) कामनायोग्य कुमारी [कन्या] (यः) प्रयत्न से, (वसन्तम्) वसन्त राग को (लभेत्) प्राप्त होवे । [वैसे ही राजा] (तैलकुण्डम्) [तसे हुये] तैलकुण्ड में डाले हुये (अङ्गुष्ठम् इम) अंगूठे [अंगुली] को जैसे [वैसे] (रोदन्तम्) रोते हुये (शुद्धम्) ज्ञान दाता का (उद्धरेत्) उद्धार करे [ऊचा उठावे ॥१६॥

भावार्थ—जैसे स्त्रियां प्रसन्न होकर वसन्त-राग को गाती हैं, वैसे ही राजा प्रसन्न होकर क्लेश में पड़े हुये विद्वानों को उठावे, जैसे तपे हुये तेल में से अंगुली को उठा लेते हैं ॥ १६ ॥

इति कुन्तापसूक्तानि समाप्तानि ॥

व्यक्तिप्रत्ययकान्तिगतिषुः—क, अकारलोपः । अभ्यक्त । हे विख्यात (बाधते) निवारयति । अन्यद् यथा म० ॥ १२ ॥

१६—(यः) यस्मि प्रयत्ने—क्विप्, विभक्तैर्लुक् । यसा । प्रयत्नेन, (कुमारी)

म० १४ । कमु कान्तौ—आरन्, डीप् । कामनीया कन्या (पिङ्गलिका) म० १४^१ । शोभमानाः (वसन्तम्) तृभूवहिवसि० । उ० ३ । १२८ । वस निवासे—भक्त् । रागविशेषम् (पीवरी) म० १२ । पीवरङ्गीप् । पुष्टाङ्गी (लभेत्) प्राप्नुयात् (तैलकुण्डम्) पचाद्यच् । तप्ततैलकुण्डेन शुक्तम् (इम) म० १३ । इव । यथा (अङ्गुष्ठम्) अङ्गु + ष्टा गतिनिवृत्तौ—क । अम्बाम्बगोभू० । पा० ८ । ३ । ६७ । इति पत्यम् । अङ्गु हस्ते पादे वा तिष्ठतीति । अम्बाम्बेति सूत्रे, अङ्गु शब्द-प्रयोगः । कृष्णाङ्गुलिम् । अङ्गुलिम् (रोदन्तम्) रोदन कुर्वन्तम् क्लेश प्राप्तम् (शुद्धम्) शुन गतौ—डु + ददातेः—क । ज्ञानदानारम् (उद्धरेत्) हष् । हरणे । कर्षमानयेत्

सूक्तम् १३७ ॥

१—१४ ॥ १ अलक्ष्मीघ्नम्; २ विश्वे देवाः; ३ दधिकावा; ४—६ पवमानः
सोमः; ७, ८, १०—१४ इन्द्रः; ६ इन्द्रा वृद्धस्यती देवते ॥ १, ६ निचृद्बुष्टुप्; २
निचृज् जगती; ३—५ अनुष्टुप्; ७, ८, १० निचृत् त्रिष्टुप्; ६ विराट् त्रिष्टुप्;
११ आर्षी पङ्क्तिः; १२—१४ गायत्री छन्दः ॥

राजप्रजाकर्तव्योपदेशः—राजा और प्रजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

यद्बु प्राचीरजगन्तोरो मरुद्भूरधाणिकीः ।

हुता इन्द्रस्य शत्रवः सर्वे बुद्बुदयाशवः ॥ १ ॥

यत् । हु । प्राचीः । अजगन्त । उरः । मरुद्भूर-धाणिकीः ॥

हुताः । इन्द्रस्य । शत्रवः । सर्वे । बुद्बुद-याशवः ॥ १ ॥

भाषार्थ—(मरुद्भूरधाणिकीः) हे विभग धारण करने वाली (उरः)
मारु सेनाओ ! (प्राचीः) आगे बढनी हुई (यत् हं) जमी (अजगन्त) तुम
चली हो । [तमी] (इन्द्रस्य) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले राजा] के (सर्वे) सर्व
(शत्रवः) वैरो लोग (बुद्बुदयाशवः) बुद्बुदों के समान चलने वाले और
फैलने वाले होकर (हुताः) मारे गये ॥ १ ॥

भावार्थ—राजा व्यूह रचना से टुकरो टुकरी करके सुशिक्षित सेना के

१—(यत्) यदा (ह) एव (प्राचीः) प्रकर्षेण अचन्त्यः। प्रकृष्टगमानाः सत्यः
(अजगन्त) गमेर्लङि मध्यमवहुवचने छान्दसः शपः श्लुः। तप्तृप्तनयाश्च ।
पा० ७ । १ । ४५ । तस्य तषादेशः । अगच्छत यूयम् (उरः) उर्वी हिंसायाम्—
किप् । राल्लोपः । पा० ६ । ४ । २१ । वलोपः, तनो जसि रूपम् । हे हिंसित्रयो
मारणशीलाः सेनाः (मरुद्भूरधाणिकीः) मीनातेकरन् । उ० १ । ६७ । मडि
विभाजने भूषायां हर्षे च—ऊरन् । आणको लूधूशिङ्घिधायाञ्भ्यः । उ० ३ ।
८३ दधातेः—आणकप्रत्ययः, ङोप्, इत्वं च । हे विभागस्य धारयित्र्यः व्यूहेन
(हुताः) नष्टाः (इन्द्रस्यः) ऐश्वर्यवतो राज्ञः (शत्रवः, (सर्वे) (बुद्बुदया-
शवः) बुद्बुद आलोचने प्रणिधाने—किप् + बुद्बुद आलोचने + क । यन्ति गच्छन्तीति
याः, या—किप् । अशुचत इत्याशवः, अशु व्याप्तौ—उण् । बुद्बुदवत् जलस्य
गोलाकारविकारवत् यातारो व्यापनशीलाश्च सन्तः ॥

द्वारा शत्रुओं को बुदबुदों के समान निर्वल करके मारे ॥ १ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—१०।१५५।४ ॥

कपृ॑न्नरः कपृ॑थसुद् द॑धातन चो॑दयत॑ खु॒दत॑ वाज॑सातये ।
 नि॒ष्टि॒ग्र्यः पु॒त्रमा च्या॑वये॒तय॑ इन्द्र॑ सु॒बाध॑ इ॒ह सोम॑पीतये ॥२॥
 कपृ॑त् । नरः । कपृ॑थम् । उ॒त् । द॒धा॒त॒न॒ । चो॑दयत॑ । खु॒दत॑ ।
 वाज॑-सातये ॥ नि॒ष्टि॒ग्र्यः । पु॒त्रम् । आ । च्या॑व॒य॒ । ऊ॒तये॑ ।
 इन्द्र॑म् । सु॒-बाधः॑ । इ॒ह । सोम॑-पीतये ॥ २ ॥

भाषार्थ—(कपृत्) हे मुख से भरने वाले, (नरः) नरो । [नेताओं]
 (सबाधः) नाश के रोकने वाले होकर तुम (कपृथम्) मुख से भरने वाले,
 (निष्टिग्र्यः) निश्चित इष्ट क्रिया की बताने वाली [माता] के (पुत्रम्) पुत्र
 (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले शूर] को (वाजसातये) धनों के पाने के
 लिये (सोमपीतये) सोम [तत्त्व रस] पीने के लिये और (ऊतये) रक्षा के
 लिये (इह) यहां पर (उत्) अच्छे प्रकार (दधातन) धारण करो, (चोदयत)
 आगे बढ़ाओ, (खुदत) सुखी करो और (आ) सब ओर से (च्यवय)
 उत्साही करो ॥ २ ॥

भावार्थ—नेता लोग बड़े गुणी शूर पुरुष को पूजा की रक्षा के लिये

२—(कपृत्) क सुजम् + पृ पूर्तौ—किप् तुक् च, विभक्तोर्लुक् । हे कपृत् ॥
 सुखेन पूरकाः (नरः) हे नेतारः (कपृथम्) हनिकुपिनी० । उ० २।२। क +
 पृ पूर्तौ—कथन् । सुखेन पूरयितारम् (उत्) उत्कर्षेण (दधातन) धारयत
 (चोदयत) प्रेरयत (खुदत) खुर्द क्रीडायाम्, रेफलोपः । क्रीडयत । सुजयत
 (वाजसातये) धनानां लाभाय (निष्टिग्र्यः) नि + इष्टि, पृषोदरादिरूपम् + गृ
 विज्ञापने—किप् । निष्टिम् निश्चिताम् इष्टिम् इष्टक्रियां गारयते विज्ञापयतीति
 निष्टिग्रीः तस्या जनन्याः (पुत्रम्) (आ) समन्तात् (च्यवय) च्यु सहने, एक-
 वचनं छान्दसम् । च्यवयत । उत्साहिनं कुरुत (ऊतये) रक्षायै (इन्द्रम्)
 परमैश्वर्यवन्तं शूरम् (सबाधः) स्यतीति सः । षो अन्तकर्मणि—ड + बाधु
 लोडने प्रतिघाते—किप् । सबाधः ऋत्विजः—निघ० ३। १८ । नाशस्य प्रति-
 घातकाः (इह) अत्र (सोमपीतये) तत्स्वरसपानाय ॥

राजा बनावे और सब प्रकार उत्साही करे ॥ २ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है - १०।१०१।१२ ॥

दुधिक्रावणो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः ।

सुरभि नो सुखा करत् प्र नु आयूषि तारिषत् ॥ ३ ॥

दुधि-क्रावणः । अकारिषम् । जिष्णोः । अश्वस्य । वाजिनः ॥

सुरभि । नुः । सुखा । करत् । प्र । नुः । आयूषि । तारिषत् ३

भाषार्थ—(दुधिक्रावणः) चढ़ाकर चलने वाले वा हीलने वाले (जिष्णोः) जीतने वाले, (वाजिनः) वेगवान् (अश्वस्य) घोड़े के (अकारिषम्) कर्म को मैं ने किया है । वह [कर्म] (नुः) हमारे (सुखा) सुखों को (सुरभि) ऐश्वर्य युक्त (करत्) करे और (नुः) हमारे (आयूषि) जीवनों को (प्र तारिषत्) बढ़ावे ॥ ३ ॥

भावार्थ—जैसे शीघ्र गामी घोड़ा मार्ग को जीतकर अश्ववार को लेकर ठिकाने पर पहुँचकर सुख पाता है, वैसे ही विद्वान् पराक्रमी अपना कर्तव्य पूरा करके यश प्राप्त करे ॥ ३ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—४।३६।६; यजु० २३।३२; साम० पू० ४।७।७।

सुतासेा सधुसत्तमाः सोमा इन्द्राय सुन्दिनः ।

३—(दुधिक्रावणः) अथ० ३।१६।६। दुधान् धारणपोषणयोः—कि, दुधि + क्रमु पादत्रिक्षेपे वा कृदि आह्वाने, क्रन्द सातत्यशब्दे—वनिप् । दुधिक्रावा अश्वनाम—निघ० १।१४। दधत् कामतीति वा दधत् क्रन्दतीति वा दधदाकारो भवतीति वा—निघ० २।२७। दुधिः, धारयिता सन् कामतीति वा क्रन्दतीति वा दुधिक्रावा, तस्य तथाभूतस्य (अकारिषम्) अहं कर्म कृतवानस्मि (जिष्णोः) मार्गजयशीलस्य (अश्वस्य) तुरंगस्य (वाजिनः) शीघ्रगामिनः (सुरभि) अ० १२।१।२३। सुर ऐश्वर्यदीप्तधोरित्यस्माद् बाहुत्यकादीणादि-कोऽभिच् प्रत्ययः—इति दयानन्दो यजु० १२।३५। सुरभीषि ऐश्वर्यवन्ति (नुः) अस्माकम् (सुखा) सुखानि (करत्) कुर्यात् तत् कर्म (नुः) अस्माकम् (आयूषि) जीवनानि (प्र तारिषत्) बढ़ायेन् ॥

पुवित्रवन्तो अक्षरन् देवान् गच्छन्तु वो मदाः ॥ ४ ॥

सुतासः । मधुमत्-तमाः । सोमाः । इन्द्राय । मन्दिनः ॥

पुवित्रवन्तः । अक्षरन् । देवान् । गच्छन्तु । वः । मदाः ॥४॥

भाषार्थ—(सुतासः) निचोडे हुये, (मधुमत्तमाः) अत्यन्त ज्ञान करने वाले, (मन्दिनः) आनन्द देने वाले, (पुवित्रवन्तः) शुद्ध व्यवहार वाले (सोमाः) सोम [तस्व रस] (इन्द्राय) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] के लिये (अक्षरन्) बहे हैं, (मदाः) वे आनन्द देने वाले [तस्व रस] (वः) तुम (देवान्) विद्वानों को (गच्छन्तु) पहुँचें ॥ ४ ॥

भाषार्थ—विद्वान् लोग ज्ञान के साथ सब पदार्थों का तस्व जानकर ऐश्वर्य बढावे ॥ ५ ॥

मन्त्र ४—६ ऋग्वेद में हैं—६।१०१। ४—६, सामवेद—उ० २।२। तुच १५ ; म० २ साम० पू० ६।६।३ ॥

इन्द्रुरिन्द्राय पवते इति देवासो अब्रुवन् ।

वाचस्पतिर्मखस्यते विश्वस्येशान् ओर्जसा ॥ ५ ॥

इन्दुः । इन्द्राय । पवते । इति । देवासः । अब्रुवन् ॥

वाचः । पतिः । मखस्यते । विश्वस्य । ईशानः । ओर्जसा ॥५॥

भाषार्थ—(इन्दुः) सोम [तस्व रस] (इन्द्राय) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य] के लिये (पवते) शुद्ध होता है, (वाचः पतिः) वेदवाणी का

४—(सुतासः) निष्पादिताः (मधुमत्तमाः) मधुना ज्ञानेन अनिशयेन युक्ताः (सोमाः) तस्वरसाः (इन्द्राय) परमैश्वर्यवते मनुष्याथ (मन्दिनः) अ० २०।१७।४। आनन्दयितारः (पुवित्रवन्तः) शुद्धव्यवहारोपेताः (अक्षरन्) संचलनं कृतवन्तः (देवान्) विदुषः पुरुषान् (गच्छन्तु) प्राप्नुवन्तु (वः) (शुष्मान्) (मदाः) हर्षकाः सोमाः ॥

५—(इन्दुः) सोम । तस्वरसः (इन्द्राय) परमैश्वर्यवते पुरुषाय (पवते) शुष्यति (इति) पवम् (देवासः) विद्वांसः (अब्रुवन्) अकथयन् (वाचः)

स्वामी [परमात्मा] (ओजसा) अपने सामर्थ्य से (विश्वस्य) सब का (ईशानः) राजा होकर (मखस्यते) पुरुषार्थ चाहता है - (इति) ऐसा (देवासः) विद्वानों ने (अत्रुवन्) कहा है ॥ ५ ॥

भावार्थ—विद्वानों का निश्चय है कि परमात्मा पुरुषार्थियों को तत्त्व ज्ञान देकर ऐश्वर्यवान् करता है ॥ ५ ॥

सुहस्रधारः पवते समुद्रो वाचमीङ्खयः ।

सोमः पती रयीणां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ॥ ६ ॥

सुहस्र-धारः । पवते । समुद्रः । वाचस्-ईङ्खयः ॥

सोमः । पतिः । रयीणां । सखा । इन्द्रस्य । दिवे-दिवे ॥ ६ ॥

भावार्थ—(सहस्रधारः) सहस्रों धाराओं वाला समुद्रः) समुद्र [जैसे], (वाचमीङ्खयः) विद्याओं का प्रवर्त्तक, (रयीणाम्) धनों-का (पतिः) स्वामी, (इन्द्रस्य) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष] का (सखा) मित्र (सोमः) सोम [तत्त्व रस] (दिवेदिवे) दिन दिन (पवते) शुद्ध होता है ॥ ६ ॥

भावार्थ—मनुष्य विद्याओं द्वारा पदार्थों का तत्त्व जानकर दिन दिन नवीन नवीन आविष्कार करके धन की वृद्धि करे ॥ ६ ॥

अव द्रुष्यो अंशुसतीसतिष्ठदियानः कृष्णो दृशभिः सुहस्रैः ।

आवत् तमिन्द्रः शच्या धमन्तुमप स्नेहितीर्नु सखा अधत्त ॥ ७ ॥

अव । द्रुष्यः । अंशु-सतीम् । अतिष्ठत् । इयानः । कृष्णः ।

वेदवाण्याः (पतिः) स्वामी परमात्मा (मखस्यते) मख गतौ, लालसायां सुगागमः । गतिं पुरुषार्थमिच्छति (विश्वस्य) सर्वस्य (ईशानः) राजा (ओजसा) सामर्थ्येन ॥

६—(सहस्रधारः) बहुधाराभिर्युक्तः (पवते) शुभ्यति (समुद्रः) जल-धिर्यथा (वाचमीङ्खयः) ईक्षि गतौ, एयन्तस्य सुप्युपपदे खशप्रत्ययः । वाचां विद्यानां प्रवर्त्तकः (सोमः) तत्त्वरसः (पतिः) स्वामी (रयीणाम्) धनानाम् (सखा) (इन्द्रस्य) परमैश्वर्यवान् पुरुषस्य (दिवेदिवे) दिने दिने ॥

दश-भिः । सहस्रैः ॥ आवत् । तम् । इन्द्रः । शच्या ।
धमन्तम् । अप । स्नेहितीः । नृ-सनाः । अधत्तु ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(द्रुप्तः) बमंडी, (कृष्णः) कौवा [के समान निन्दित लुटेरा शत्रु] (दशभिः सहस्रैः) दस सहस्र [बड़ी सेना] के साथ (इयानः) चलता हुआ (अंशुमतीम्) विभाग वाली [सीमा वाली नदी—म० ८] पर (अव अतिष्ठत्) ठहरा है। (नृमणाः) नरो के समान मन वाले (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े प्रतापी शूर] ने (तम् धमन्तम्) उस हाँफते हुये को (शच्या) बुद्धि से (आवत्) वचाया है और (स्नेहितीः) अपनी मारु सेनाओं को (अप अधत्तु) हटा लिया है ॥ ७ ॥

भावार्थ—जो शत्रु चढ़ाई करे और थककर हार मान लेवे, वीर राजा जीवित छोड़कर उसे मित्र बनावे और यथोचित प्रबन्ध करके अपनी सेना हटा लेवे ॥ ७ ॥

मन्त्र ७—११ ऋग्वेद में है—८।६६ [सायण भाष्य ८५]। १३—१७;
मन्त्र ७ सामवेद—पू० ४।४।१ ॥

द्रुप्तमपश्यं विषुणो चरन्तमुपहुरे नृद्यौ अंशुमत्याः । नभो न
कृष्णमवतस्थिवांसुमिष्यामि वो वृषणो युध्यताजौ ॥ ८ ॥
द्रुप्तम् । अपश्यम् । विषुणो । चरन्तम् । उपहुरे । नृद्यौ ।

७—(द्रुप्तः) घृत्वदिवचि० । उ० ३।६२। इप हर्षमोहनयोः, उत्कृष्टे शे, गर्वे च—सप्रत्ययः । गर्घवान् (अंशुमतीम्) मृगच्छादयश्च । उ० १।३७। अंशु-विभाजने—कु । विभागवती सीमायुक्ता नदीम् (अव अतिष्ठत्) अवस्थितवान् (इयानः) इड् गतौ—कानच् । गच्छन् (कृष्णः) अ० ७।६४।१। श्वा काक इति कुत्सायाम्—निक० ३।१८। काक इव निन्दितो दस्युः शत्रुः (दशभिः सहस्रैः) बहुभिः सेनाभिः (आवत्) रक्षितवान् (तम्) शत्रुम् (इन्द्रः) महा-प्रतापी शूरः (शच्या) प्रज्ञया—निघ० ३।६ (धमन्तम्) उच्छ्वसन्तम् । परा-भवेन दीर्घं श्वसन्तम् (स्नेहितीः) स्नेहतिः स्नेहयतिर्वधकर्मा—निघ० २।१६। स्वकीया मारणशीलाः सेनाः (नृमणाः) नेतृतुल्यमनस्कः (अप अधत्तु) दूरे धारितवान् निवर्तितवान् ॥

अंशु-सत्याः ॥ नभः । न । कृष्णम् । अवतस्थि-वांसम् ।
इष्यामि । वः । वृषणः । युध्यत । आजौ ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(द्रुप्तम्) घमंडी को (अंशुसत्याः) विभाग वाली [सीमा वाली] (नद्यः) नदी के (उपहरेः) समीप में (विषुणे) विरुद्ध आचरण [अन्याय] के बीच में (चरन्तम्) विचरते हुये, (नभः) आकाश से (अवतस्थिवांसम्) उतरे हुये (कृष्णम् न) कौवे के समान (अपश्यम्) मैं ने-देखा है, (वृषणः) हे पेश्वर्य वाले वीरो ! (वः) तुम को (इष्यामि) मैं प्रेरणा करता हूं, (आजौ) संग्राम में (युध्यत) युद्ध करो ॥ ८ ॥

भावार्थ—राजा लुटेरे शत्रु को सीमा पर आते देखकर अपने वीरों को भेजकर उसे रोक दे ॥ ८ ॥

अधं द्रुप्ते अंशुसत्या उपस्थेऽधारयत् तन्वं तित्विषाणः ।
विशो अदेवीरभ्याश्चरन्तीर्बृहस्पतिना युजेन्द्रः ससाहे ॥ ८ ॥
अधं । द्रुप्तः । अंशु-सत्याः । उप-स्थे । अधारयत् । तन्वंम् ।
तित्विषाणः ॥ विशः । अदेवीः । अभि । आ-चरन्तीः ।
बृहस्पतिना । युजा । इन्द्रः । ससुहे ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(अध) फिर (तित्विषाणः) भड़कीले (द्रुप्तः) घमंडी

८—(द्रुप्तम्) म० ७ । गर्ववन्तम् (अपश्यम्) अदर्शम् (विषुणे)-
क्षुधिपिशिमिथिस्थः कित् । ३० ३ । ५५ । विष विप्रयोगे—उत्तन् कित् । विषुण-
स्य विषमस्य—निर० ४ । १६ । विरुद्धाचरणे । अन्याये (चरन्तम्) विच-
रन्तम् (उपहरे) अथ० २० । २२ । ६ । समीपे (नद्यः) नद्याः (अंशुसत्याः)
म० ७ । विभागवत्याः । सीमायुक्तायाः (नभः) विभक्तोर्लुक् । नमसः ।
आकाशात् (न) यथा (कृष्णम्) म० ७ । काकम् (अवतस्थिवांसम्) अव-
स्थितम् (इष्यामि) इष गतौ । प्रेरयामि (वः) युष्मान् (वृषणः) अथ० ११ ।
१ । २ । हे पेश्वर्यवन्तः । वीराः (युध्यत) संप्रहरत (आजौ) अ० २० । १६ ।
२ । संग्रामे ॥

९—(अध) अथ (द्रुप्तः) म० ७ । अभिमानी (अंशुसत्याः) म० ७ ।

ने (अंशुमत्याः) विभाग वाली [सीमा वाली नदी] के (उपस्थे) समीप में (तन्वम्) अपने शरीर को (अधारयत्) पुष्ट किया । [ऋषि] (युजा) अपने मित्र (बृहस्पतिना) बृहस्पति [बड़ी विद्याओं के स्वामी] के साथ (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े प्रतापी राजा] ने (अभि) सब ओर (आचरन्तीः) घूमती हुई, (अदेवीः) कुब्यवहार वाली (विशः) प्रजाओं को (नसहे) जीत लिया ॥ ६ ॥

भाषार्थ—यदि शत्रु लोग बार बार एकत्र होकर उपद्रव मचावें, नीति-कुशल राजा मित्रों का सहाय लेकर वैरियों को हरावे ॥ ६ ॥

त्वं ह त्वत् सुप्तभ्यो जायमानोऽशत्रुभ्यो अभवः शत्रु रिन्द्र ।
गुल्हे द्यावापृथिवी अन्वविन्दो विभुसद्भ्यो भुवनेभ्यो रणं
धाः ॥ १० ॥

त्वम् । ह । त्वत् । सुप्त-भ्यः । जायमानः । अशत्रु-भ्यः ।
अभवः । शत्रुः । इन्द्र ॥ गुल्हे इति । द्यावापृथिवी इति ।
अनु । अविन्द्रः । विभुसत्-भ्यः । भुवनेभ्यः । रणम् । धाः ॥ १०

भाषार्थ—(इन्द्र) हे इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्] (त्वत् ह) तभी (जायमानः) प्रकट होता हुआ (त्वम्) तू (अशत्रुभ्यः) अशत्रु [बिना वैर वाले, अपस में मित्र] (सप्तभ्यः) सातो [कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका पांच ज्ञान इन्द्रिय, मन और बुद्धि] के हित के लिये (शत्रुः) [दुष्टों का] शत्रु (अभवः) हुआ है । (गुल्हे) [अज्ञान के कारण] ढके हुये (द्यावा-

विभागवत्या नद्याः (उपस्थे) समीपे (अधारयत्) अपोषयत् (तन्वम्) स्वशरीरम् (नित्विपाणः) त्विष दीप्तौ—कानच् । दीप्यमानः (विशः) प्रजाः । शत्रुसेनाः (अदेवीः) कुब्यवहारवतीः (अभि) सर्वतः (आचरन्तीः) विचरन्तीः (बृहस्पतिना) बृहतीनां महतीनां विद्यानां स्वामिना (युजा) सहायेन (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् राजा (नसहे) पह अभिभवे—लिट् । अभिवभूव ॥

१०—(त्वम्) (ह) एव (त्वत्) तत् । नदा (सप्तभ्यः) सप्तसख्या-केभ्यः । मनोबुद्धिसहितपंचज्ञानेन्द्रियाणां हिताय (जायमानः) प्रादुर्भवन् सन् (अशत्रुभ्यः) शत्रुनारहितेभ्यः । परस्परमित्रभूतेभ्यः (अभवः) (शत्रुः) दुष्टानां शत्रुः (इन्द्रः) महाप्रतापिन् राजन् (गुल्हे) अज्ञानेन गूढे संवृते

पृथिवी) आकाश और भूमि को (अनु) अनुक्रम से (अविन्दः) तू ने पाया है और (विभुमद्भ्यः) महत्त्व वाले (भुवनेभ्यः) लोकों को (रणम्) रमण [आनन्द] (धाः) तू ने दिया है ॥ १० ॥

भाषार्थ—राजा प्रबन्ध करे कि सब लोग शरीर और आत्मा से स्वस्थ रहकर आकाश और भूमि के पदर्थों से विज्ञान द्वारा उपकार लेकर सुखी रहें ॥ १० ॥

त्वं हु त्यदप्रतिमानमोजो वज्रेण वज्रिन् धृषितो जघन्थ ।
त्वं शुष्णस्यावातिरो वधत्रैस्त्वं गा इन्द्र शच्येदविन्दः ॥११॥
त्वम् । हु । त्यत् । अ॒प्र॒ति॒मा॒न॒म् । अ॒जोः । व॒ज्रे॒ण । व॒ज्रि॒न् ।
धृ॒षि॒तः । ज॒घ॒न्थ ॥ त्वम् । शु॒ष्ण॑स्य । अ॒व । अ॒ति॒रः ।
व॒ध॒त्रैः । त्वम् । गाः । इ॒न्द्र । श॒च्य॑ । इत् । अ॒वि॒न्दुः ॥११॥

भाषार्थ—(वज्रिन्) हे वज्रधारी (इन्द्र) इन्द्र ! [महाप्रतापी राजन्] (धृषितः) निर्भय (त्वम्) तू ने, (त्वम्) तू ने (ह) ही (शुष्णस्य) सुखाने वाले वैरी के (त्यत्) उस (अ॒प्र॒ति॒मा॒न॒म्) अनुपम (अ॒जोः) बल को (वज्रेण) वज्र से और (वधत्रैः) हथियारों से (जघन्थ) नष्ट कर दिया है और (अव अतिरः) नीचे किया है, (त्वम्) तू ने (गाः) उस की भूमियों को (शच्य) अपनी बुद्धि से (इत्) ही (अ॒वि॒न्दुः) पाया है ॥ ११ ॥

(द्यावापृथिवी) आकाशभूलोकौ । तत्रत्यपदार्थान् (अनु) अनुक्रमेण (अविन्दः) अलभथाः (विभुमद्भ्यः) महत्त्वयुक्तेभ्यः (भुवनेभ्यः) लोकेभ्यः (रणम्) मलोपः । रमणम् । आनन्दम् (धाः) दत्तवानसि ॥

११—(त्वम्) (ह) एव (त्यत्) तन् । प्रतिदम् (अ॒प्र॒ति॒मा॒न॒म्) प्रतिमान-सुपमा । निरुपमम् (अ॒जोः) बलम् (वज्रेण) आयुधेन (वज्रिन्) हे वज्रवन् (धृषितः) धृष्टः । निर्भयः (जघन्थ) हन्तेर्लिट् । हतवान् नाशितवानसि (त्वम्) (शुष्णस्य) शोपकस्य शत्रोः (अव अतिरः) अत्रारितवानसि । नीचैः कृतवानसि (वधत्रैः) अमिनक्षियजिबधि० । उ० ३ । १०५ । बध संयमने—अत्रन्, यद्वा, हन हिंसागत्योः—अत्रन्, वधादेशः । संयमनसाधनैः हननसाधनैर्वा आयुधैः (त्वम्) (गाः) शत्रुभूमिः (इन्द्र) महाप्रतापिन् राजन् (शच्य) मन्प्रज्ञया (इत्) एव (अ॒वि॒न्दुः) अलभथाः ॥ ॥

भावार्थ—राजा अपनी बुद्धि के बल से शस्त्र अस्त्र आदि युद्ध सामग्री एकत्र करके शत्रुओं को मारकर प्रजा की रक्षा करे ॥ ११ ॥

तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । स वृषा वृषभो भुवत् ॥ १२ ॥

तम् । इन्द्रम् । वाजयामसि । महे । वृत्राय । हन्तवे ॥ सः । वृषा । वृषभः । भुवत् ॥ १२ ॥

भावार्थ - (तम्) उम (इन्द्रम्) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाले राजा] को (महे) बड़े (वृत्राय) रोकने वाले बैल के (हन्तवे) मारने को (वाजयामसि), हम बलवान् करने हैं [उरलाही बनाते हैं], (सः) वह (वृषा) पराक्रमी (वृषभः) श्रेष्ठ वीर (भुवत्) होवे ॥ १२ ॥

भावार्थ—प्रजागण राजा को शत्रुओं के मारने के लिये सहाय करें और राजा भी प्रजा की भलाई के लिये प्रयत्न करे ॥ १२ ॥

मन्त्र १२—१४ आचुके है—अथ० २० । ४७ । १—३ ॥

इन्द्रः स दामने कृत ओजिष्ठः स मदे हितः । द्युम्नी श्लोकी स सोम्यः ॥ १३ ॥

इन्द्रः । स । दामने । कृतः । ओजिष्ठः । सः । मदे । हितः ॥ द्युम्नी । श्लोकी । सः । सोम्यः ॥ १३ ॥

भावार्थ— सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े पेश्वर्य वाला राजा] (दामने) दान करने के लिये और (कृतः) वह (मदे) आनन्द देने के लिये (ओजिष्ठः) महाबली और (हितः) हितकारी (कृतः) बनाया गया है, (सः) वह (द्युम्नी) अज्ञ वाला और (श्लोकी) कीर्ति वाला पुरुष (सोम्यः) पेश्वर्य के योग्य है ॥ १३ ॥

भावार्थ—प्रजागण प्रतापी, गुणी पुरुष को इस लिये राजा बनावें कि वह प्रजा के उपकार के लिये दान करके प्रयत्न करे और अज्ञ आदि पदार्थ

बदाकर कीर्ति पावे ॥ १३ ॥

गिरा वज्रो न संभृतः सबलो अनपच्युतः- वृषस कृष्वो
अस्तृतः ॥ १४ ॥

गिरा । वज्रः । न । सम्-भृतः । स-बलः । अनप-च्युतः ॥
वृषस । कृष्वः । अस्तृतः ॥ १४ ॥

भाष्यार्थ—(गिरा) वाणी से (संभृतः) पुष्ट किया गया, (सबलः)
सबल, (अनपच्युतः) न पिरने योग्य, (ऋष्वः) गति चाना, और (अस्तृतः)
बेरोक सेनापति (वज्र. न) बिजुली के समाने (वृषस) रिस होवे ॥ १४ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य अपनी बात में सच्चा महाबली हो, वह सेनानी
होकर शत्रुओं पर बिजुली के समान क्रोध करे ॥ १४ ॥

सूक्तम् १३८ ॥

१-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छन्दः ॥

राजप्रजाकर्तव्योपदेशः—राजा और प्रजा के कर्तव्य का उपदेश ॥

मुहो इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमां इव । स्तोमैर्वत्सस्य
वावृधे ॥ १ ॥

मुहान् । इन्द्रः । यः । ओजसा । पर्जन्यः । वृष्टिमान्-इव ॥
स्तोमैः । वत्सस्य । वावृधे ॥ १ ॥

भाष्यार्थ—(यः) जो (मुहान्) महान् [पूजनीय] (इन्द्रः) इन्द्र
[बड़े पेश्वर्य वाला राजा] (ओजसा) अपने बल से (वृष्टिमान्) मेह वाले
(पर्जन्यः इव) बादल के समान है, [वह] (वत्सस्य) शास्त्रों के कहने वाले
[आचार्य आदि] के (स्तोमैः) उत्तम गुणों के व्याख्यानों से (वावृधे) बढ़ा है ॥ १ ॥

१—(मुहान्) पूजनीयः (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् राजा (यः) (ओजसा)
बलान् (पर्जन्यः) मेघः (वृष्टिमान्) वृष्टि युक्तः (इव) यथा (स्तोमैः)
स्तोत्राणां व्याख्यानैः (वत्सस्य) वृत्तवदिवचिवलि०। २०३। ६२। ब्रह्म
व्यकार्या वाचि—ब्रह्मत्वयः । आत्मानां कथनशीलस्य (वावृधे) वृद्धिं गतः ॥

भावार्थ—मनुष्य गुरु जनों से शिक्षा पाकर बरसने वाले बादल के समान उपकार करके पूजनीय होवे ॥ १ ॥

यह त्वच ऋग्वेद में है—= १६। १—३, सामवेद—३०५। २। त्वच १०, मन्त्र १ यजु० ७। ४० ॥

प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद् भरन्त वह्यः । विप्रो ऋतस्य वाहसा ॥ २ ॥

प्र-जाम् । ऋतस्य । पिप्रतः । प्र । यत् । भरन्त । वह्यः ॥

विप्रोः । ऋतस्य । वाहसा ॥ २ ॥

भाषार्थ—(ऋतस्य) सत्य धर्म का (पिप्रतः) पालन करते हुये (वह्यः) ले चलने वाले [नेता लोग] (प्रजाम्] प्रजा को (यत्) जब (प्र) मल प्रकार (भरन्त) पुष्ट करते हैं, [तब] (विप्रोः) बुद्धिमान लोग, (ऋतस्य) सत्य धर्म के (वाहसा) प्राप्त कराने वाले [होते हैं] ॥ २ ॥

भावार्थ—नेता गण सत्यवती होकर प्रजा को सुख देकर विद्वानों द्वारा सत्य धर्म का प्रचार करें ॥ २ ॥

कयवा इन्द्रं यदक्रतु स्तोमैर्यज्ञस्य साधनम् । जामि ब्रुवतु आयुधम् ॥ ३ ॥

कयवाः । इन्द्रम् । यत् । अक्रतु । स्तोमैः । यज्ञस्य । साधनम् ॥

जामि । ब्रुवतु । आयुधम् ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(कयवाः) बुद्धिमानों ने (यत्) जब (इन्द्रम्) इन्द्र

२—(प्रजाम्) राज्यजनान् (ऋतस्य) सत्यधर्मस्य (पिप्रतः) वालजं कुर्वन्तः (प्र) प्रकर्षेण (यत्) यदा (भरन्त) भरन्ति । पुष्पन्ति (वह्यः) घोदारः । नेतारः पुरुषाः (विप्रोः) मेधाविनः (ऋतस्य) सत्यधर्मस्य (वाहसा) वृद्धि शुभ्यां एतत् । ३०३ । ११६ । वह प्रापणे—असत्, स च यित्, विसर्गलोपः । वाहसाः । घोदारः प्रापयितारः सन्ति ॥

३—(कयवाः) मेधाविनः—निघ० ३ । ३५ (इन्द्रम्) महाप्रतापिनं

[महाप्रतापी मनुष्य] को (स्तोमैः) उत्तम गुणों के व्याख्यानों से (यज्ञस्थ) यज्ञ [देव पूजा, संगनिकरण और दान] का (साधनम्) सिद्ध करने वाला (अकृत) बनाया है, [तभी उस को] (आयुधम्) मनुष्यों का पोषण करने वाला (जामि) बन्धु (ब्रुवते) कहते हैं ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—बुद्धिमान् लोग प्रतापी गुणी पुरुष को प्रधान बनाकर प्रजा को पालें ॥ ३ ॥

सूक्तसू १३८ ॥

१—५ ॥ अश्विनौ देवते ॥ १, ४ पथ्या बृहती; २ गायत्री; ३ निचृद् गायत्री
५ कक्कुण्णिक् छन्दः ॥

गुरुजनगुणोपदेशः—गुरु जनो के गुणों का उपदेश ॥

आ नूनमश्विना युवं वृत्सस्य गन्तवसे ।

प्रास्मै यच्छतमवुकं पृथु च्छुर्दियुयुतं या अरातयः ॥ १ ॥

आ । नूनम् । अश्विना । युवम् । वृत्सस्य । गन्तम् । अवसे ।

प्र । प्रास्मै । यच्छतम् । अश्वकम् । पृथु । छुर्दिः । युयुतम् ।

याः । अरातयः ॥ १ ॥

भाष्यार्थ—(अश्विना) हे दोनों उश्वी [चतुर माता पिता, अथवा राजा और मन्त्री] (युवाम्) हम दोनों (वःसस्य) निवास करने वाले [प्रजा जन] की (अवसे) रक्षा के लिये (नूनम्) अवश्य (आ गन्तम्)

मनुष्यम् (यत्) यदा (अकृत) करोतेर्लुङि रूपम् । अकृत (स्तोमैः) स्तुत्यगुणानां व्याख्यानैः (यज्ञस्थ) देवपूजासंगतिकरणदानव्यवहारश्च (साधनम्) साधयितारं निष्पादकम् (जामि) वसिष्ठपियमि०—४० ४ । १२५ । जमु अदने—१३ । जामिं बन्धुम् (ब्रुवते) कथयन्ति (आयुधम्) आयुधो मनुष्यनाम—निघ० २ । ३ । मनुष्याणां पोषकम् ॥

१—(आ गन्तम्) आगच्छतम् (नूनम्) अवश्यम् (अश्विना) अथ० २ । २६ । ६ । अश्विनौ.. राजानौ पुरयकृतावित्यैतिहासिकाः—निघ० १२ । १ । हे चतुरमातापितरौ राजामान्कौ वा (युवम्) युवाम् (वःसस्य) अथ० २० ।

आओ । और (अस्मै) उस को (अवृकम्) बिना भेड़िये वाला [भेड़िये के समान चोर डाकू के बिना], (पृथु) चौड़ा (छर्दिः) घर (प्र यच्छतम्) दो और (याः) जो (अरातयः) कर न देने वाली प्रजायें हैं, [उन्हें] (युयुतम्) अलग करो ॥ १ ॥

भावार्थ—चतुर माता पिता तथा राजा और मन्त्री सब गुरु जन प्रजा की रक्षा करें और शत्रुओं को हटावें ॥ १ ॥

चार सूक्त १३६—१४२ के २१ मन्त्र ऋग्वेद में है—८ । ६ । १—२१ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—८ । ६ । १—५ ॥

यदन्तरिक्षे यद् द्विवि यत् पञ्च मानुषान् अनु । नृम्यां तद् धत्तमश्विना ॥ २ ॥

यत् । अन्तरिक्षे । यत् । द्विवि । यत् । पञ्च । मानुषान् । अनु ॥ नृम्याम् । तत् । धत्तम् । अश्विना ॥ २ ॥

भावार्थ—(यत्) जो [धन] (अन्तरिक्षे) आकाश में, (यत्) जो (द्विवि) सूर्य आदि के प्रकाश में और (यत्) जो (पञ्च) पांच [पृथिवी आदि पांच तत्त्वों] से संबन्ध वाले (मानुषान् अनु) मनुष्यों में है, (अश्विना) हे दोनों अश्वी ! [चतुर माता पिता] (तत्) उस (नृम्याम्) धन को (धत्त) दान करो ॥ २ ॥

१३८ । १ । वस निवासे—सप्रत्ययः । निवासशीलस्य प्रजाजनस्य (अवसे) रक्षणाय (प्र यच्छतम्) प्रदत्तम् (अस्मै) प्रजाजनाय (अवृकम्) अथ० ४ । २ । १ । वृको हिंस्रजन्तुविशेषः, तद्रहितम् । वृकसमानचौरादिरहितम् (पृथु) विस्तीर्णम् (छर्दिः) गृहम् (युयुतम्) पृथक्कुरुतम् (याः) (अरातयः) अथ० १ । २६ । २ । अदानशीलाः शत्रुभूताः प्रजाः ॥

२—(यत्) धनम् (अन्तरिक्षे) आकाशे (यत्) (द्विवि) सूर्यादि-प्रकाशे (यत्) (पञ्च) पृथिव्यादिपञ्चभूतसम्बन्धिनः (मानुषान् अनु) लक्षणे अनोः कर्मप्रथमनीयत्वात् । कर्मप्रथमनीययुक्ते द्वितीया । पा० २ । ३ । ६ । इति द्वितीया । मनुष्याम् प्रति (नृम्याम्) धनम् (तत्) तादृशम् (धत्त) दत्त (अश्विना) म० १ । हेचतुरमातापितरौ ॥

भावार्थ—माता पिता आदि गुरु जन प्रवृत्त करें किं सब लोग आपस में खगोल विद्या, सूर्य, बिजुली, अग्नि आदि विद्याये जानकर धनी हों ॥ २ ॥

ये वां दंसांस्यश्विना विप्रांसः परिमामृशुः । एवेत् काएवस्य बोधतम् ॥ ३ ॥

ये । वाम् । दंसांसि । अश्विना । विप्रांसः । पुरि-मृशुः ॥

एव । इत् । काएवस्य । बोधतम् ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(अश्विना) हे दोनों अश्वी ! [चतुर माता पिता] (वाम्) तुम दोनों के (दंसांसि) कर्मों को (ये) जिन (विप्रांसः) बुद्धिमानों ने (परिमामृशुः) विचारा है, (एव इत्) वैसे ही [उन के बीच] (काएवस्य) बुद्धिमान के किये कर्म का (बोधतम्) तुम दोनों ज्ञान करो ॥ ३ ॥

भावार्थ—जैसे विद्वान् लोग माता पिता आदि गुरु जनों को उत्तम प्रकार से विचारें, वैसे ही गुरु जन भी विद्वानों का आदर करें ॥ ३ ॥

अयं वां घर्मो अश्विना स्तोमेन परि सिच्यते । अयं सोमो मधुमान् वाजिनीवसु येन वृत्रं चिकेतयः ॥ ४ ॥

अयम् । वाम् । घर्मः । अश्विना । स्तोमेन । परि ।

सिच्यते ॥ अयम् । सोमः । मधु-मान् । वाजिनीवसु इति

वाजिनी-वसु । येन । वृत्रम् । चिकेतयः ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(अश्विना) हे दोनों अश्वी ! [चतुर माता पिता, गुरुजनो] (वाम्) तुम दोनों का (अयम्) यह (घर्मः) पसीना (स्तोमेन)

३—(ये) (वाम्) युवयोः (दंसांसि) कर्माणि (अश्विना) म० १ । हे चतुरमातापितरौ । गुरुजनौ (विप्रांसः-) विप्राः । मेधाधिनः (परिमामृशुः) नृश रूपेण प्रणिधाने, च—लिट् । विचारितवन्तः (एव) एवम् । तथा (इत्) अवधारणे (काएवस्य) कएवेन मेधाधिना प्रणीतस्य कर्मणः (बोधतम्) बोधं कुरुतम् ॥

४—(अयम्) शरीरस्थः (वाम्) युवयोः (घर्मः) घर्मग्रीष्मौ । उ० १ । ५४६ । वृ कर्णर्धाह्यो—रक् । स्वेटः (अश्विना) म० १ । हे चतुर—

स्तुति योग्य कर्म के साथ (परि सिच्यते) सिच्यता है [वहना है], (वाजिनी-
वसू) हे बहुत वेग वाली वा बहुत अन्न वाली क्रियाओं में निवास करने वाले
दोनों] (अयम्) वह [पत्नी] (मधुमान्) उत्तम ज्ञान वाला (सोमः)
सोम [तत्त्व रस] है, (येन) जिस [तत्त्व रस] से (वृत्रम्) रोकने वाले शत्रु
को (चिकेतथः) तुम दोनों जान लेते हो ॥ ४ ॥

भावार्थ—गुरु जन महान् परिश्रम करके मधुविद्या अर्थात् तत्त्वज्ञान
को प्राप्त करे और शत्रुओं को मारे ॥ ४ ॥

यद्गुप्सु यद् वनस्पतौ यदोषधीषु पुरुदंससा कृतम् । तेन
माविष्टमश्विनान् ॥ ५ ॥

यत् । अप्-सु । यत् । वनस्पतौ । यत् । ओषधीषु । पुरु-
दंससा । कृतम् ॥ तेन । मा । अविष्टम् । अश्विना ॥ ५ ॥

भावार्थ—(पुरुदंससा) हे बहुत कर्मों वाले दोनों । (यत्) जो कुछ
(कृतम्) क्रिया फल (अप्सु) जल में है, (यत्) जो (वनस्पतौ) वनस्पति
[वृक्षों] में है, और (यत्) जो (ओषधीषु) ओषधियों [जी चावल आदि]
में है, (अश्विना) हे दोनों अश्वी । [चतुर माता पिता] (तेन) उस [क्रिया
फल] से (मा) मेरी (अविष्टम्) रक्षा करो ॥ ५ ॥

भावार्थ—गुरुजन जिज्ञासुओं को जल आदि सब पदार्थों का तत्त्व ज्ञान
कराके, क्रियाकुशल बनावे ॥ ५ ॥

मातापितरौ । गुरुजनौ (स्तोमेन) स्तुत्यकर्मणा (परि सिच्यते) आसिच्यते ।
बहति (अयम्) स घर्मः (सोमः) तत्त्वरसः (मधुमान्) मधुविद्यायुक्तः ।
श्रेष्ठज्ञानोपेतः (वाजिनीवसू) अय० १४ । २ । ५ । हे वेगवतीषु अन्नवतीषु वा
क्रियासु निवासिनी (येन) तत्त्वरसेन (वृत्रम्) आवरक शत्रुम् (चिकेतथः)
जानीयः ॥

५—(यत्) (अप्सु) जलेषु (यत्) (वनस्पतौ) जलाविदमेकवचनम् ।
वनस्पतिषु वृक्षेषु (यत्) (ओषधीषु) यवमीक्षादिषु (पुरुदंससा) हे नहु-
कर्माणी (कृतम्) क्रियाफलम् (तेन) क्रियाफलेन (मा) माम् (अविष्टम्)
अवतेलौटि वाङ्मूलकात् सिप्, तत् इट् । रक्षतम् (अश्विना) म० १ । हे चतुर-
मातापितरौ ॥

सूक्तम् १४० ॥

१—५ ॥ अश्विनो देवते ॥ १ पथ्या बृहती; २, ३ अनुष्टुप्; ४ विराडनुष्टुप्; ५ भुरिगार्थी पङ्क्तिः ॥

अहोरात्रसुप्रयोगोपदेशः—दिन और राति के उत्तम प्रयोग का उपदेश ॥

यत्नासत्या भुरण्यथो यद् वा देव भिषज्यथः । अयम् वा वत्सो मतिभिर्न विन्धते हविष्मन्तं हि गच्छथः ॥ १ ॥

यत् । नासत्या । भुरण्यथः । यत् । वा । देवा । भिषज्यथः ॥
अयम् । वाम् । वत्सः । मति-भिः । न । विन्धते । हविष्मन्तम् । हि । गच्छथः ॥ १ ॥

भाषार्थ—(नासत्या) हे असत्य न रखने वाले दोनों ! [दिन राति] (यत्) क्योंकि (भुरण्यथः) तुम पोषण करते हो, (वा) और, (देवा) हे व्यवहार कुशल दोनों ! (यत्) क्योंकि (भिषज्यथः) तुम औषध करते हो । (अयम्) यह (वत्सः) बोलने वाला (वाम्) तुम दोनों को (मतिभिः) अपनी बुद्धियों से (न) नहीं (विन्धते) पाता है, (हविष्मन्तम्) भक्ति रखने वाले को (हि) ही (गच्छथः) तुम दोनों मिलते हो ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्य दिन राति का सुन्दर प्रयोग करके पुष्ट, स्वस्थ,

१—(यत्) यतः (नासत्या) नास्ति असत्यं ययोस्तौ । नम्राणुनपाश्र्व-वेदानासत्या० । पा० ६ । ३ । ७५ । इति नञः प्रकृतिभावः । विभक्तेराकारः । नासत्यौ चाश्विनौ, सत्यावेत्र नासत्यावित्यौर्णभावः, सत्यस्य प्रणेतारावित्याप्रा-यणः, नासिकाप्रभवौ बभूवतुरिति-वा । निरु० ६ । १३ । नासिकाप्रभवौ प्राणा-पानावित्यर्थः । हे अमत्यंरहितौ । सदा सत्यस्वभावौ । अश्विनौ (भुरण्यथः) भुरण धारणापोषणयोः कण्डवादिः । सर्वं पोष्यथः (यत्) (वा) च (देवा) छान्दसः सांहितिको ह्रस्वः । व्यवहारकुशलौ (भिषज्यथः) भिषज चिकित्सार्थं कण्डवादिः । भैषज्यं कुरुथः (अयम्) (वाम्) युवाम् (वत्सः) अथ० २० । १३८ । १ । वदंते—सप्रत्ययः । कथयिता (मतिभिः) बुद्धिभिः (न) निषेधे (विन्धते) दस्य धः । विन्दते लभते (हविष्मन्तम्) भक्तिमन्तम् (हि) एव (गच्छथः) प्राप्तुथः ॥

विद्वान् होकर आनन्द पावें ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—८।६।६-१० ॥

आ नूनमश्विनोऽर्षिस्तोमं चिकेत वामया ।

आ सोमं मधुमत्तमं घर्मं सिञ्चादथर्वणि ॥ २ ॥

आ । नूनम् । अश्विनोः । ऋषिः । स्तोमंश्च । चिकेत ।
वामया ॥ आ । सोमंश्च । मधुमत्-तमम् । घर्मंश्च । सिञ्चात् ।
अथर्वणि ॥ २ ॥

भाषार्थ—(ऋषिः) ऋषि [विद्वानी पुरुष] (अश्विनोः) दोनों अश्वी
[व्यापक दिन राति] के (स्तामम्) स्तुति योग्य कर्म को (वामया) उत्तम
बुद्धि से (नूनम्) अवश्य (आ) सब ओर से (चिकेत) जाने । और (मधु-
मत्तमम्) प्रत्यन्त ज्ञान वाले और (घर्मंश्च) प्रकाश वाले (सोमम्) सोम [तत्त्वरस]
को (अथर्वणि) निश्चल [जिज्ञासु] पर (आ) भले प्रकार (सिञ्चात्) सींचे ॥ २ ॥

भाषार्थ—विद्वानी पुरुष काल की महिमा जानकर जिज्ञासुओं को
तत्त्व ज्ञान का उपदेश करे ॥ २ ॥

आ नूनं रघुवर्तनि रथं तिष्ठायो अश्विना ।

आ वामं स्तोमं हुमे मम नमो न चुच्यवीरत ॥ ३ ॥

आ । नूनम् । रघु-वर्तनिम् । रथंश्च । तिष्ठायः । अश्विना ॥

आ । वामं । स्तोमाः । हुमे । मम । नमः । न । चुच्यवीरत ॥

३—(आ) समन्तात् (नूनम्) अवश्यम् (अश्विनोः) अथ० २ । २६ ।
६ । अश्विनो अहोरात्रित्येके—निरु० १२ । १ । व्यापकयोः । अहो-
रात्रयोः (ऋषिः) विद्वानी पुरुषः (स्तोमम्) स्तुत्यव्यवहारम् (चिकेत)
किं ज्ञाने-लिट्—जानीयात् (वामया) वामः प्रशस्य—निरु० ३ । ८ ।
उक्तपृथा बुद्ध्या (आ) (सोमम्) तत्त्वरसम् (मधुमत्तमम्) अतिशयेन
मधु रथयुक्तम् (घर्मंश्च) अ० २० । १३६ । ४ । ऋ दितौ—मक् । दीप्यमानम्
(सिञ्चात्) सिञ्चेत् (अथर्वणि) अथ० ४ । १ । ७ । अ+थर्व चरणे-घनिप्,
बलोपः । निश्चले जिज्ञासौ ॥

भाषार्थ—(अश्विना) हे दोनों अश्वी ! [व्यापक दिन राति] (रघुव-
र्तनिम्) हलके घुमने वाले [अनि शीघ्रगामी] (रथम्) रथ पर (नूनम्)
अवश्य (आ तिष्ठाथः) तुम चढ़ते हो, (मम) मेरे (इमे) यह (स्तोमाः)
स्तुति के वचन (वाम्) तुम दोनों को (नभः न) मेघ के समान [शीघ्र]
(आ) सब ओर से (चुच्यवीरत) [हमें] प्राप्त कराते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—जैसे रवन से बादल आकाश में दौड़ता है; उससे भी अधिक
शीघ्रगामी काल को वश में लाकर बुद्धिमान् आनन्द पाने हैं ॥ ३ ॥

यद्य वा नास्त्योक्त्यैराचुच्युवीमहि ।

यद् वा वाणीभिरश्विनेवेत् कारवस्य बोधतम् ॥ ४ ॥

यत् । अद्य । वास् । नास्त्या । उक्त्यैः । आ-चुच्युवीमहि ॥

यत् । वा । वाणीभिः । अश्विना । एव । इत् । कारवस्य ।

बोधतम् ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(नास्त्या) हे सदा सत्य स्वभाव वाले दोनों ! [दिन राति]
(अद्य) आज (यत्] जैसे (उक्त्यैः) कहने योग्य शास्त्रों से, (वा) अथवा
(यत्) जैसे (वाणीभिः) अपनी वाणियों से (वाम्) तुम दोनों को (आचुच्यु-
वीमहि) हम लावें, (अश्विना) हे दोनों अश्वी ! [व्यापक दिन राति] (एव इत्)
वैसे ही (कारवस्य) बुद्धिमान् के किये कर्म का (बोधतम्) तुम दोनों जानकरो ४

३—(आ तिष्ठाथः) अथितिष्ठथः (नूनम्) अवश्यम् (रघुवर्तनिम्)
वृत्तेश्च । उ० २ । १०६ । लघु + वृत्तु वर्तने—अनि, लस्य रः । लघुवर्तनोपेतम् ।
अतिशीघ्रगामिनम् (रथम्) यानम् (अश्विना) म० २ । हे व्यापकौ । अहो-
रात्रौ (आ) समन्तात् (वाम्) युवाम् (स्तोमाः) स्तुतिवचनानि (इमे)
(मम) (नभः) मेघः (न) यथा (चुच्यवीरत) अन्तर्गतव्यर्थः । च्यवयन्ति-
गमयन्ति ॥

४—(यत्) यथा (अद्य) अस्मिन् दिने (वाम्) युवाम् (नास्त्या)
म० १ । हे सदा सत्यस्वभावौ (उक्त्यैः) कथनीयशास्त्रैः (आचुच्युवीमहि)
आगमेयेम (यत्) यथा (वा) अथवा (वाणीभिः) वाग्भिः (अश्विना) म०
२ । हे व्यापकौ । अहोरात्रौ ! अन्यद् गतम्—१३६ । ३ ॥

भावार्थ— मनुष्य शीघ्र शास्त्रों में प्रवीण होकर अपने वचन के पक्के होने और प्राप्त अवसर का यथावत् प्रयोग करें ॥ ४ ॥

यद् वां कक्षीवां उत यद् व्यश्च ऋषिर्ह वां दीर्घतमा
जुहाव । पृथी यद् वां वैन्यः सद्नेष्वेवेदतो अश्विना चेत-
येथाम् ॥ ५ ॥

यत् । वाम् । कक्षीवान् । उत । यत् । वि-अश्चः । ऋषिः ।

यत् । वाम् । दीर्घ-तमाः । जुहाव ॥ पृथी । यत् । वाम् ।

वैन्यः । सद्नेषु । एव । इत् । अतः । अश्विना । चेतयेथाम्

भाषार्थ—(यत्) जैसे (वाम्) तुम दोनों को (कक्षीवान्) गति वाले [वा शासन वाले] पुरुष ने, (उत) और (यत्) जैसे (व्यश्चः) विविध वेग वाले ने और (यत्) जैसे (वाम्) तुम दोनों को (दीर्घतमाः) दीर्घममा [लंबा हो गया है, चला गया है अन्धकार जिस से ऐसे] (ऋषिः) ऋषि [विद्वानी] ने, (यत्) जैसे (वाम्) तुम दोनों को (वैन्यः) बुद्धिमानों के पास रहने वाले (पृथी) विस्तार वाले पुरुष ने (सद्नेषु) अपने स्थानों में (जुहाव) गृहण किया है, (अश्विना) हे दोनों अश्वी ! [व्यापक दिन राति] (एव इत्) वैसे ही (अतः) इस [मेरे वचन] को (चेतयेथाम्) जानो ॥ ५ ॥

५—(यत्) यथा (वाम्) युवाम् (कक्षीवान्) अथ० । ४ । २६ । ५ ।
कश गतिशासनयोः—किस, मनुष्य, मस्य व., दीर्घश्च । गतिशीलः शासनशीलो
वा (उत) अपि च (यत्) यथा (व्यश्चः) वि + अश्च व्याप्तौ—कन् । विविध-
वेगयुक्तः (ऋषिः) विद्वानी (यत्) (वाम्) दीर्घतमाः) द् विदारणे—घञ् +
तमु काङ्क्षायां खेदे च—असुन् दीर्घं विदीर्णं दूरीभूतं तम. अन्धकारो यस्मात्
स विद्वान् (जुहाव) हु आदाने—लिट् । गृहीतवान् । स्वीकृतवान् (पृथी)
अ० ८ । १० (४) । ११ । प्रथविस्तारे—घञर्थे कप्रत्ययः सम्प्रसारणं च, मत्वर्थे
इति । विस्तारवान् (यत्) (वाम्) (वैन्यः) अथ० ८ । १० (४) । ११ ।
वेनो मेधावी—निघ० २ । १५ । अदूरभवश्च । पा० ४ । २ । ७० । इति एय ।
मेधाविनां समीपस्थ. (सद्नेषु) स हितायां दीर्घः । स्थानेषु (एव) एषम् ।
तथा (इत्) अवश्यम् (अतः) इदम्—द्वितीयार्थे तसिः । इदं वचनम्
(अश्विना) म० २ । हे व्यापकौ । आहोरात्रौ (चेतयेथाम्) जानीतम् ॥

भावाय—जैसे जैसे मनुष्य दिन राति का सुप्रयोग करते हैं, वैसै ही दिन राति उनको सुख देते हैं ॥ ५ ॥

सूक्तम् १४१ ॥

१—५ ॥ अश्विनौ देवते ॥ १ त्रिपाद् विराद् गायत्री; २ जगती; ३ निचृद्-
नुष्टुप्; ४ निचृद् बृहती; ५ निचृत् पथ्या बृहती ॥

अहोरात्रसुप्रयोगोपदेशः—दिन और राति के उत्तम प्रयोग का उपदेश ॥

यातं छर्दिष्या उत नः परस्पा भूतं जगत्पा उत तनूपा ।
वर्तिस्तोकाय तनयाय यातम् ॥ १ ॥

यातम् । छर्दिः-पौ । उत । नः । परः-पा । भूतम् । जगद्-पौ ।
उत । नः । तनु-पा ॥ वर्तिः । तोकाय । तनयाय ।
यातम् ॥ १ ॥

भाषार्थ—[हे दिन राति दोनों] (छर्दिष्यौ) घर के रक्षक होकर
(यातम्) आओ, (उत) और (नः) हमारे बीच (परस्पा), पालनीयों के
पालक, (जगत्पा) जगत् के रक्षक (उत) और (नः) हमारे (तनूपा)
शरीरों के बचाने वाले (भूतम्) होओ, और (तोकाय) सन्तान और (तन-
याय) पुत्र के हित के लिये (वर्तिः) [हमारे] घर (यातम्) आओ ॥ १ ॥

भावार्थ—सब मनुष्य घर आदि स्थानों में दिन रात का सुप्रयोग
करके अपने बालक आदि को सुमार्ग में चलावें ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—८ । ६ । ११—१५ ॥

यदिन्द्रेण सुर्यं याथो अश्विना यद् वा वायुना भवथुः

१—(यातम्) आगच्छतम् (छर्दिष्यौ) गृहपालकौ (उत) अपि च
(नः) अस्माकं मध्ये (परस्पा) पृ पालनपूरणयोः—असुन् । परसं पालनी-
यानां पालकौ (भूतम्) भवतम् (जगत्पा) जगतः संसारस्थ रक्षकौ (उत)
(नः) अस्माकम् (तनूपा) शरीराणां पालकौ (वर्तिः) अर्चिशुचिहु० । उ०
२ । १०८ । वृत्तु वर्तने—इसि । छर्दिः । गृहम् (तोकाय) सन्तानहिताय (तन-
याय) पुत्रहिताय (यातम्) आगच्छतम् ॥

समोकसा । यदादित्येभिः ऋभुभिः सजोषसा यद् वा विष्णो-
विक्रमणेषु तिष्ठथः ॥ २ ॥

यत् । इन्द्रेण । स-रथम् । याथः । अश्विना । यत् । वा । वायुना ।
भवथः । सम्-ओकसा ॥ यत् । आदित्येभिः । ऋभु-भिः ।
स-जोषसा । यत् । वा । विष्णोः । वि-क्रमणेषु । तिष्ठथः ॥२॥

भावार्थ—(अश्विना) हे दोनों अश्वी ! [व्यापक दिन राति] (यत्)
चाहे (इन्द्रेण) इन्द्र [बडे पेश्वर्य वाले सूर्य] के साथ (सरथम्) एक रथ में
चढकर (याथः) तुम चलते हो, (वा) अथवा (यत्) चाहे (वायुना) पवन के
साथ (समोकसा) एक घर वाले , भवथः) होते हो । (यत्) चाहे (आदि-
त्येभिः) अखण्ड व्रतधारी (ऋभुभिः) बुद्धिमानों के साथ (सजोषसा) एक
सी प्रीति करने हुये, (वा) अथवा (यत्) चाहे (विष्णोः) सर्वव्यापक पर-
मात्मा के (विक्रमणेषु) पराक्रमों में (तिष्ठतः) ठहरते हो [वहां से दोनों
आओ—म० १] ॥ २ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि सर्वत्र व्यापी दिन राति अर्थात्
काल को सूर्य विद्या, वायु विद्या, विद्वानों के सत्संग और परमेश्वर की भक्ति
आदि में लगाकर अपना पुरुषार्थ बढ़ावें ॥ २ ॥

यदद्व्याश्विनावहं हुवेयु वाजसातये ।

यत् पृत्सु तुर्वणे सहस्तच्छ्रेष्ठमश्विनोरवः ॥ ३ ॥

२—(यत्) यदि । सम्भाषनायाम् (इन्द्रेण) परमैश्वर्यवता सूर्येण सह
(सरथम्) समानमेकं रथमास्थाय (याथः) गच्छथः (अश्विना) सू० १४० ।
म० २ । हे व्यापकौ । अहोगत्रौ (यत्) यदि (वा) अथवा (वायुना) पवनेन
(भवथः) (समोकसा) समानगृहौ (यत्) (आदित्येभिः) अखण्डव्रतिभिः
(ऋभुभिः) अथ० १ । २ । ३ । मेधाविभिः—निघ० ३ । १५ (सजोषसा)
समानप्रीयमाणी (यत्) (वा) (विष्णोः) सर्वव्यापक परमेश्वरस्य (विक्रम-
णेषु) शौर्यातिशयेषु । पराक्रमेषु (तिष्ठथः) वर्तेथे । सर्वस्मादपि स्थानादा-
गच्छतम्—इति पूर्वमन्त्रेण सह अन्वयः ॥

यत् । अद्य । अश्विनौ । अहम् । हुवेय । वाज-सातये ॥

यत् । पृत्सु । तुर्वणे । सहः । तत् । श्रेष्ठम् । अश्विनोः ।
अवः ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(यत्) जब (अद्य) (अश्विनौ) दोनों अश्वी [व्यापक दिन राति] को (वाजसातये) विज्ञान के लाभ के लिये (अहम्) मैं (हुवेय-) बुलाऊं । और (पृत्सु) संग्रामों के बीच (तुर्वणे) शत्रुओं के मारने में (यत्) जो (सहः) बल है, (तत्) वह (अश्विनोः) दोनों अश्वी [व्यापक दिन राति] की (श्रेष्ठम्) अति उत्तम (अवः) रक्षा [होवे] ॥ ३ ॥

भाषार्थ—मनुष्य सदा विज्ञान के साथ अपना सामर्थ्य बढ़ावे, और शत्रुओं को मारकर सुखी होवे ॥ ३ ॥

आ नूनं यातमश्विनेमा हुव्यानि वां हिता ।

इमे सोमासि अधि तुर्वणे यदाविमे करवेषु वामथ ॥ ४ ॥

आ । नूनम् । यातम् । अश्विना । इमा । हुव्यानि । वाम् ।

हिता ॥ इमे । सोमासः । अधि । तुर्वणे । यदा । इमे ।

करवेषु । वाम् । अथ ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(अश्विना) हे दोनों अश्वी ! [व्यापक दिन राति] (नूनम्) अवश्य (आ यातम्) आओ, (इमा) यह (हुव्यानि) ग्राह्य द्रव्य (वाम्) तुम दोनों के लिये (हिता) रक्खे हैं । (इमे) यह (सोमासः) सोम रस

३—(यत्) यदा (अद्य) अस्मिन् दिने (अश्विनौ) म० २ । व्यापकौ । अहोरात्रौ (अहम्) (हुवेय) आह्वयेय (वाजसातये) विज्ञानस्य लाभाय (यत्) (पृत्सु) संग्रामेषु (तुर्वणे) कृपवृजि० । ७० । २ । ८१ । तर्वा हिंसायाम्—क्यु । शत्रूणां नाशने (सहः) अभिभवित् बलम् (तत्) (श्रेष्ठम्) प्रशस्यतमम् (अश्विनोः) अहोरात्रयोः (अवः) रक्षणं भवतु ॥

४—(आ यातम्) आगच्छतम् (नूनम्) अवश्यम् (अश्विना) म० २ । हे व्यापकौ । अहोरात्रौ (इमा) पुरोवर्तीनि (हुव्यानि) ग्राह्यवस्तूनि (वाम्) शुवाभ्याम् (हिता) धृतानि (इमे) दृश्यमानाः (सोमासः) तत्त्वरसाः

[तत्त्वं रत्न] (तुर्वशे) हिंसकों को वश में करने वाले, (यदौ) तल्लशील मनुष्य में (अथ) और (इमे) यह [तत्त्वं रत्न] (कण्वेषु) बुद्धिमानों में (वाम्) तुम दोनों के (अधि) अधिकार से हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ—समय के सुप्रयोग से विद्वान् प्रयत्न करने वालों को उत्तम उत्तम पदार्थ मिलते हैं और सदा मिलते रहेंगे ॥ ४ ॥

यन्नासत्या पराके अर्वाके अस्ति भेषजम् ।

तेन नूनं विमदाय प्रचेतसा छुर्दिर्वत्साय यच्छतम् ॥ ५ ॥

यत् । नासत्या । पराके । अर्वाके । अस्ति । भेषजम् ॥ तेन ।

नूनम् । वि-मदाय । प्र-चे-तसा । छुर्दिः । वत्साय । यच्छतम् ॥

भाषार्थ—(नासत्या) हैं सदा सत्य स्वभाव वाले दोनों । [दिनराति] (यत्) जो (भेषजम्) औषध (पराके) दूर में और (अर्वाके) समीप में (अस्ति) है । (प्रचेतसा) हे उत्तम ज्ञान कराने वाले दोनों (तेन) उस [औषध] के साथ (नूनम्) अवश्य करके (विमदाय) निरहंकारी [वा अदीन] (वत्साय) शास्त्रों के कहने वाले पुरुष को (छुर्दिः) घर (यच्छतम्) दान करो ॥ ५ ॥

(अधि) आधिक्येन (तुर्वशे) अ० २० । ३७ । ८ । तरां हिंसकानां वशयितरि (यदौ) यती प्रयत्ने—उप्रत्ययः, तकारस्य दः । प्रयत्नशीले (इमे) (कण्वेषु) मेधाविषु (वाम्) युवेयोः (अथ) अपि च ॥

५—(यत्) (नासत्या) सू० १४० । १ । हे सदा सत्यस्वभावौ (पराके) पिनाकाद्यश्च । उ० ४ । १५ । परा + क्रमु पादविक्षेपे—आकप्रत्ययः, धातुलोपः । पराके दूरनाम—निघ० ३ । २६ । पराके पराक्रान्ते—नि० ५ । ६ । दूरदेशे (अर्वाके) वलाकाद्यश्च । उ० ४ । १४ । अर्वाक् + क्रमु पादविक्षेपे—आकप्रत्ययः, धातुलोपः । अर्वाके अन्तिकनाम—निघ० ३ । १६ । समीपे (अस्ति) (भेषजम्) औषधम् (तेन) भेषजेन सह (नूनम्) अवश्यम् (विमदाय) अ० ४ । २६ । ४ । निरहंकाराय । अदीनाय (प्रचेतसा) प्रकृष्ट ज्ञान याभ्या तौ । हे प्रकृष्ट-ज्ञानकारकौ (छुर्दिः) गृहम् (वत्साय) सू० १३८ । १ । शास्त्राणां कथनशीलाय (यच्छतम्) दत्तम् ॥

भावार्थ—मनुष्य घर और बाहिर समय को उत्तम रीति से काम में लगाकर सुन्दर घरों में स्वस्थ रहें ॥ ५ ॥

सूक्तम् १४२ ॥

१—६ ॥ अश्विनो देवते ॥ १ आर्च्यनुष्टुप् : २, ४ अनुष्टुप् : ३ विराडा-
र्च्यनुष्टुप् ; ५ गायत्री ; ६ त्रिचूड गायत्री ॥

अहोरात्रसुप्रयोगोपदेशः—दिन और राति के उत्तम प्रयोग का उपदेश ॥

अभुत्स्यु प्र देव्यां साकं वाचाहसुश्विनोः ।

व्यावर्दे व्या सति वि राति मर्त्येभ्यः ॥ १ ॥

अभुत्सि । जुं इति । प्र । देव्या । साकम् । वाचा । अहम् ।
अश्विनोः ॥ वि । आवः । देवि । आ । मत्सि । वि ।
रातिम् । मर्त्येभ्यः ॥ १ ॥

भावार्थ—(अहम्) मैं (देव्या , उत्तम गुण वाली (वाचा साकम्)
वाणी के साथ (अश्विनोः) दोनों अश्वी [व्यापक दिन राति] के बीच (उ)
अवश्य (प्र अभुत्सि) जागा हूँ । (देवि) हे देवी ! [प्रकाशमान उपा—म०
२] तुने (आ) आकर (मर्त्येभ्यः) मनुष्यों के लिये (मत्सिम्) बुद्धि और
(रातिम्) धन को (वि) विशेष करके (वि आवः , खोल दिया है ॥ २ ॥

भावार्थ—मनुष्य प्रमाण समय उठकर दिन राति विद्या और धन को
प्राप्त करे ॥ १ ॥

यह सूक्त ऋग्वेद में है—= । ६ । १६—२१ ॥

प्र बोधयोषो अश्विना प्र देवि सूनृते महि ।

प्र यज्ञहोतरानुषक् प्र मदायश्वो बृहत् ॥ २ ॥

१—(प्र अभुत्सि) बुध अवगमने—लुङ् । प्रबुद्धोऽस्मि (उ) अवश्यम्
(देव्या) उत्तमगुणवत्या (साकम्) सह (वाचा) वाग्वा (अहम्) (अश्विनोः)
सू० १४० । म० २ । व्यापकयोः । अहोरात्रमध्ये (वि आत्रः) वृणोतेर्लुङ् । त्वं
विवृतां विस्तृतां कृन्वती (देवि) हे द्योतमाने उपा—म० ० । (आ) आगत्य
(मत्सिम्) बुद्धिम् (वि) विशेषेण (रातिम्) धनम् (मर्त्येभ्यः) मनुष्याणां हिताय ॥

प्र । बोधय । उपः । अश्विनौ । प्र । देवि । सूनुते । महि ॥

प्र । यजु-होतः । आनुपक् । प्र । मदाय । अर्वाः । बृहत् ॥२॥

भाषार्थ - (उपः) हे उपा ! [प्रभात बेला] (अश्विनौ) दोनों अश्वी [व्यापक दिन राति] को (प्र बोधय) जगादे, (देवि) हे देवी ! [व्यवहार कुशल] (सूनुते) हे अन्न वाली ! (महि) हे पूजनीया ! [उपा] (प्र=प्र बोधय) जगादे । (यजुहोतः) हे उत्तम संगति देने वाले ! [विद्वान्] (आनुपक्) लगानार (प्र) जगादे, (बृहत्) बड़े (अर्वाः) यश के लिये और (मदाय) आनन्द के लिये (प्र) जगादे ॥ २ ॥

भावार्थ—मनुष्य प्रातःकाल उठकर सदा अन्न आदि धन, कीर्ति और आनन्द के लिये प्रयत्न करें ॥ २ ॥

यदुपो यासि शानुना सं सूर्येण रोचसे ।

आ हायमश्विनो रथो वर्तिष्यति नृपाय्यम् ॥ ३ ॥

यत् । उपः । यासि । शानुना । सम् । सूर्येण । रोचसे ॥ आ ।

ह । अयम् । अश्विनोः । रथः । वर्तिः । याति । नृ-पाय्यम् ॥ ३ ॥

भाषार्थ—(उपः) हे उपा ! [प्रभात बेला] (यत्) जब तू (शानुना) प्रकाश के साथ (यासि) चलती है, [तत्र] तू (सूर्येण) सूर्य के साथ (सम्) ठीक प्रकार में (रोचसे) कनती दे [प्रिय लगती है । [तभी] (अश्विनोः)

३—(प्र बोधय) ज्ञातय (उपः) हे प्रभातबेले (अश्विनौ) व्यापकी । अहोरात्रौ (प्र) प्र बोधय (देवि) हे व्यवहारकुशल (सूनुते) अथ० ३ । १२ । २ । सूनुता जगताम—निध० २ । ७, अर्शाद्यच्च, टाप् । हे अन्नवति (महि) हे महति (प्र) प्र बोधय (यजुहोतः) हे उत्तमसंगतिदातः । विद्वान् (आनुपक्) अथ० ४ । १० । १ । अनुपक्त निरन्दरम् (प्र) प्र बोधय (मदाय) हर्षाय (अर्वाः) विमन्तेर्लुक् । अन्वे । यशसे (बृहत्) वृक्षते । महते ॥

३—(यत्) यदा (उपः) हे प्रभातबेले (यासि) गच्छसि (शानुना) दीप्तया सम् (सम्) सम्यक् (सूर्येण) (रोचसे) कां । प्रिया भवसि (आ याति) आगच्छति (ह) अपि (अयम्) दृश्यमानः (अश्विनोः) व्यापकयोः । अहो-

दोनों अश्वी [व्यापक दिन राति] का (अयम्) यह (रथः) रथ (ह) भी (नृपाय्यम्) नरों [नेताओं] से पालने योग्य (वर्तिः) घर पर (आ याति) आता है ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—जैसे उषा सूर्य के साथ सदा शोभायमान होती है, वैसे ही मनुष्य ज्ञान के साथ शोभा बढ़ाकर दिन राति को सफल करे ॥ ३ ॥

यदापीतासो अंशवो गावो न दुह ऊर्धभिः ।

यद्वा वाणीरनूषत् प्र देवयन्तो अश्विना ॥ ४ ॥

यत् । आ-पीतासः । अंशवः । गावः । न । दुहे । ऊर्ध-भिः ॥

यद्वा । वा । वाणीः । अनूषत् । प्र । देव-यन्तः । अश्विना ॥ ४ ॥

प्र द्युस्नाय प्र श्वसे प्र नृदाहाय शर्मणे । प्र दक्षाय प्रचे-
तसा ॥ ५ ॥

प्र । द्युस्नाय । प्र । श्वसे । प्र । नृ-सहाय । शर्मणे ॥

प्र । दक्षाय । प्र-चे-तसा ॥ ५ ॥

यन्नं धीभिरश्विना पितुर्योना निषीदयः । वद्वा सुम्नेभि-
रुवया ॥ ६ ॥

यत् । नूनम् । धीभिः । अश्विना । पितुः । योना ।

नि-सीदयः ॥ यत् । वा । सुम्नेभिः । उक्थया ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ—(यत्) जब (आपीतासः) अच्छे प्रकार पीये हुये (अंशवः) बटे हुये सोम रस [तत्त्वं रस] (दुहे) दुहे जाते हैं, (गावः न) जैसे गौरों

रात्रयोः (रथः) (वर्तिः) सू० १४१ । १ । गृहम् (नृपाय्यम्) श्रुद्धिस्पृ-
हि० । उ० ३ । ६६ । पा रक्षणे—आय्य । नृभिर्नृतभिः पातव्यं पालनीयम् ॥ ३ ॥

४—(यत्) यदा- (आपीतासः) समन्तात् कृतपानाः (अश्वः) अंश-
विभाजने—कु । विभक्ताः सोमाः । तत्त्वरसाः (गावः) धेनवः (न) यथा (दुहे)

(ऊधमिः) लेवाश्रीं [अयनों, धनों के स्थानों] से [दूध-दुहती हैं] । (वा) और (यत्) जब (देवयन्तः) दिव्य गुण चाहने वाले लोग (वाणीः) वाणियों से (अश्विना) दोनों अश्वी [व्यापक दिन राति] को (प्र) अच्छे प्रकार (अनूपत) सराहते हैं ॥ ४ ॥

[तव] (प्रचेतसा) हे उत्तम ज्ञान देने वाले ! तुम दोनों (द्युम्नाय) समकते हुये यश के लिये (प्र = प्रभवथः) समर्थ होते हो, (शवसे) बल के लिये (प्र) समर्थ होते हो, (नृपहाय) मनुष्यों को सहाय देने वाले (शर्मणे) शरण्य [घर आदि] के लिये (प्र) समर्थ होते हो, और (दक्षाय) चतुराई [कार्य कुशलता] के लिये (प्र) समर्थ होते हो ॥ ५ ॥

(यत्) क्योंकि (नूनम्) अवश्य, (उक्थ्या) हे बड़ाई योग्य (अश्विना) दोनों अश्वी [व्यापक दिन राति] (धीभिः) कर्मों के साथ, (वा) और (यत्) क्योंकि (सुम्नेभिः) अनेक सुखों के साथ (पितुः) पालन करने पुरुष के (योना) घर में (निषीदथः) दोनों बैठते हो ॥ ६ ॥

भावार्थ—मनुष्य दिन राति तत्त्व का ग्रहण करके यशस्वी, बलवान् और कार्य कुशल हों ॥ ४-६ ॥

अथ० १० । १० । ३२ । प्रपूर्यन्ते (ऊधमिः) आपीनैः । क्षीराधारैः (यत्) यदा (वा) समुच्चये (वाणीः) वाणीभिः (अनूपत) एव स्तवने, तद्धर्थे लुङ् । लुवन्ति । स्तुवन्ति (प्र) प्रकर्षेण (देवयन्तः) देवान् दिव्यगुणान् कामयमानाः पुरुषाः (अश्विना) व्यापकौ । अहोरात्रौ ॥

५—(प्र) प्रभवथः । समर्थो भवथः (द्युम्नाय) द्योतमानाय यशसे (प्र) प्रभवथः (शवसे) बलाय (प्र) प्रभवथः (नृपहाय) शक्तिसहोश्च । पा० ३ । १ । ६६ । यह द्मार्या—यत्, सहितायां दीर्घः । नृणां सहायाय (शर्मणे) शृहाय । शरणाय (प्र) प्रभवथः (दक्षाय) दक्षत्वाय । कार्यकुशलत्वाय (प्रचेतसा) हे प्रकृष्टज्ञानप्रदौ ॥

६—(यत्) यतः (नूनम्) अवश्यम् (धीभिः) कर्मभिः—निघ० २ । १ । (अश्विना) हे व्यापकौ । अहोरात्रौ (पितुः) पालनकर्तुः पुरुषस्य (योना) योनी । शृहे (निषीदथः) उपविशथः । निषसथः (यत्) यतः (वा) समुच्चये (सुम्नेभिः) सुम्नैः । अनेकसुखैः (उक्थ्या) हे उक्थ्यौ । प्रशस्यौ ॥

सूक्तम् १४३ ॥

१—६ ॥ १—७, ६ अश्विनौ देवते; = क्षेत्रपतिदेवता ॥ १, ३, ६—६ निचूत्
त्रिष्टुप्; २ त्रिष्टुप्; ४ भुरिक्, गळ्किः; ५ विराट् त्रिष्टुप् ॥

१—७, ६ राजामात्यकृत्योपदेशः; म० = कृषिर्म्मोपदेशः—१—७, ६ राजा
और मन्त्री के कर्तव्य का उपदेश; म० = खेती के काम का उपदेश ॥

तं वां रथं वयसुद्या हुवेम पृथुञ्जयसश्विना संगतिं गोः ।

यः सूर्या वहति वन्धुरायुर्गिर्वाहसं पुरुतमं वसुयुम् ॥ १ ॥

तम् । वाम् । रथम् । वयस् । अद्य । हुवेम । पृथु-ञ्जयम् ।

अश्विना । वसु-गतिम् । गोः ॥ यः । सूर्याम् । वहति ।

वन्धुर-युः । गिर्वाहसम् । पुरु-तमम् । वसु-युम् ॥ १ ॥

भाषार्थ—(अश्विना) हे दोनों अरवी । [चतुर राजा और मन्त्री]

(वयम्) हम (अद्य) आज (वाम्) तुम दोनों के (पृथुञ्जयम्) बड़ी गति
वाले, (गोः) पृथिवी की (संगतिम्) संगति करने वाले, (गिर्वाहसम्) विज्ञान
से चलने वाले, (पुरुतमम्) अत्यन्त बड़े, (वसुयुम्) बहुत धन वाले (तम्)
उंस (रथम्) रमणीय रथ को (हुवेम) ग्रहण करें, (यः) जो (वन्धुरयुः)
यन्त्रों के बन्धनों वाला [रथ] (सूर्याम्) सूर्य की धूप को (वहति) प्राप्त
होता है [रखता है ॥ १ ॥

१—(तम्) (वाम्) युवयोः (रथम्) रमणीयं यानम् (वयम्)
(अद्य) संहितायां हीर्घः । अस्मिन् दिने (हुवेम) आद्याम् (पृथुञ्जयम्)
जयतिर्गतिकर्मा—निघ० २ । १४, ततः—अच् । बहुगतियुक्तम् (अश्विना) अथ०
२ । २६ । ६ । अश्विना राजानोपुण्यकृतावित्यैतिहाहिकः—निरु० १२१ । हे चतुर-
राजात्मात्थौ (संगतिम्) गमेः-क्लिच् । संगन्तारम् (गोः) पृथिव्याः (यः) रथः
(सूर्याम्) सूर्यस्य कान्तिम् । भानुतापम् (वहति) प्राप्नोति । धारयति (वन्धुरयुः)
मद्गुरादयश्च । उ० १ । ४१ । बन्ध बन्धने—उरच्+युजिर् योने—डु । यन्त्राणां
बन्धनयुक्तः (गिर्वाहसम्) अथ० २० । ३५ । ४ । गृ विज्ञापने विज्ञाते शब्दे च-
क्लिप्+वह प्राप णे—कृत् । विज्ञानेन गतिशीलसु (पुरुतमम्) अतिशयेन
विशालम् (वसुयुम्) धान्दसो दीर्घः । बहुधनयुक्तम् ॥

भावार्थ—राजा और मंत्री विज्ञानियों से ऐसे रथ यान विमान आदि वनवायें जो भानुताप [सूर्य की धूप] आदि से चले ॥ १ ॥

मन्त्र १—७ ऋग्वेद में हैं—४।४४।१—७ ॥

युवं अयमश्विना देवता तां दिवो नपाता वनथुः शचीभिः ।
युवोर्वपुर्भि पृक्षः सचन्ते वहन्ति यत् ककुहासो रथे वाम् ॥
युवम् । अयम् । अश्विना । देवता । ताम् । दिवः ।
नपाता । वनथुः । शचीभिः ॥ युवोः । वपुः । अभि । पृक्षः ।
सचन्ते । वहन्ति । यत् । ककुहासः । रथे । वाम् ॥ २ ॥

भाषार्थ—(दिवः) हे व्यवहार के (नपाता) न गिराने वाले (अश्विना) दोनों अश्वी ! [चतुर राजा और मन्त्री] (देवता) दिव्य गुण वाले (युवम्) तुम दोनों (शचीभिः) बुद्धियों से (ताम्) उस (अयम्) लक्ष्मी का (वनथुः) सेवन करते हो, (यत्) जिस [लक्ष्मी] के लिये (पृक्षः) अनेक अन्न (युवोः) तुम दोनों के (वपुः) शरीर को (अभि) सब ओर से (सचन्ते) सींचते हैं और [जिस के लिये] (ककुहासः) बड़े चिद्वाङ्ग लोग (वाम्) तुम दोनों को (रथे) रमणीय रथ में (वहन्ति) ले चलते हैं ॥ २ ॥

२—(युवम्) युवाम् (अयम्) लक्ष्मीम् (अश्विना) म० १ । हे चतुर-राजमन्त्रिणी (देवता) भृसृदशि० । उ० ३ । ११० । दिवु क्रीडादिपु-अतच्, विभक्तेराकारः । दिव्यगुणसम्पन्नौ (ताम्) वक्ष्यमाणाम् (दिवः) व्यवहारस्य (नपाता) अथ० १ । १३ । २ । नञ् + पत अथःपतने णिच्—किप्, नमः प्रकृतिभावः । न पातयितारौ । रक्षकौ (वनथुः) संभजेथे । संसेवेथे (शचीभिः) प्रक्षामिः (युवोः) युवयोः (वपुः) शरीरम् (अभि) अमितः (पृक्षः) पृची सम्पर्क—किप्, धातोः कुगागमः, बहुवचनम् । पृक्षः अन्ननाम्—निघ० २ । ७ । अन्नानि (सचन्ते) पच सेचने । सिञ्चन्ति (वहन्ति) नयन्ति (यत्) यस्यै श्रिये (ककुहासः) क + कु + हन हिंसागत्योः—ङप्रत्ययः । कस्य सुखस्य कुं भूमिं स्थानं प्राप्नोतीति कर्कहः, अस्तुगागमः । ककह इति महत्त्वम्—निघ० ३ । ३ । महान्तो चिद्वाङ्गः—दयानन्दभाष्ये ऋ० १ । ४६ । ३ (रथे) रमणीये याने (वाम्) युवाम् ॥

भाष्यार्थ— विद्वान् लोग विज्ञान द्वारा यान विमान आदि बनाकर राज्य की सम्पत्ति बढ़ावें और अन्न आदि प्राप्त करके राजा और मन्त्रा को सुखी करें ॥ २ ॥

को वामुद्या करते रातहव्य जुतये वा सुतपेयाय वाकैः ।
 ऋतस्य वा वनुषे पूष्याय नमो येमानो अश्विना ववर्तत् ॥ ३ ॥
 कः । वाम् । अद्य । करते । रात-हव्यः । जुतये । वा ।
 सुत-पेयाय । वा । अकैः ॥ ऋतस्य । वा । वनुषे । पूष्याय ।
 नमः । येमानः । अश्विना । आ । ववर्तत् ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—(अश्विना) हे दोनों अश्वी ! [चतुर राजा और मन्त्री]
 (रातहव्यः) देने योग्य को दिये हुये (कः) कौन पुरुष [अर्थात् प्रत्येक मनुष्य]
 (जुतये) रक्षा के लिये (वा वा) और (सुतपेयाय) निचोड़े हुये सोम [तत्त्व
 रस] पीने के लिये (वाम्) तुम दोनों के निमित्त (अकैः) सत्कारों के साथ
 (अद्य) आज (करते) कर्म करता है, (वा) और (ऋतस्य) सत्य ज्ञान के
 (पूष्याय) प्राचीनों में रहने वाले (वनुषे) सेवन के लिये (नमः) अन्न को
 (येमानः) कीचता हुआ [कौन अर्थात् प्रत्येक मनुष्य] (आ ववर्तत्) बताव
 करता है ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—प्रत्येक मनुष्य चतुर राजा और मन्त्री का आदर करके
 पूर्वजों के समान सत्य ज्ञान बढ़ाकर अन्न आदि प्राप्त करे ॥ ३ ॥

हिरण्ययेन पुरुभु रथनेसं यज्ञं नासुत्याय यातम् ।

३—(कः) प्रत्येकपुरुषः, इत्यर्थः (वाम्) युवाभ्याम् (अद्य) म० १
 (करते) कर्म प्रयत्नं करोति (रातहव्यः) दत्तदातव्यः (जुतये) रक्षणाय
 (वा वा) समुच्चये (सुतपेयाय) निष्पादितस्य सोमस्य तत्त्वरसस्य पानाय
 (अकैः) सत्कारैः (ऋतस्य) सत्यज्ञानस्य (वा) समुच्चये (वनुषे) जने-
 कसिः । इ० २ । ११५ । वन संभकौ—उसि । संभजनाय । सेवनाय (पूष्याय)
 प्राचीनेषु भवाय (नमः) अन्नम् (येमानः) यमेः कानच्, पृथ्वमभ्यासजोपश्च,
 चित्त्वादन्तोदात्तः । नियच्छन् । आकर्षन् । गृहणन् (अश्विना) म० १ (आ)
 (ववर्तत्) वर्तते ॥

पिवायु इन्मधुनः सोम्यस्य दधयो रत्नं विधुते जनाय ॥ ४ ॥

हिरण्ययेन । पुरुभु इति पुरु-भू । रथेन । इमम् । युञ्जम् ।
नासत्या । उप । यातम् ॥ पिवायुः । इत् । मधुनः । सोम्यस्य ।
दधयः । रत्नम् । विधुते । जनाय ॥ ४ ॥

भाषार्थ—(पुरुभू) हे पालन व्यवहारों के विचारने वाले ! (नासत्)
हे सदा सत्य स्वभाव वाले दोनों ! [राजा और मन्त्री] (हिरण्ययेन) ज्योति
रखने वाले [अग्नि आदि प्रकाश-बल से चकने वाले] (रथेन) रमणीय रथ
से (इमम्) इस (युञ्जम्) यज्ञ [देवपूजा, संगति करण और दान व्यवहार]
को (उप) आदर से (यातम्) प्राप्त होओ, और (मधुनः) उत्तम ज्ञान के
(सोम्यस्य) सोम [तत्त्व रस] में उत्पन्न रस का (इत्) अवश्य (पिवायुः)
पान करो और (विधुते) पुरुषार्थ करते हुये (जनाय) मनुष्य के लिये
(रत्नम्) रत्न [सुन्दर धन] (दधयः) दान करो ॥ ४ ॥

भाषार्थ—राजा और मन्त्री के सुप्रबन्ध से सब प्रजा गण विज्ञान के
साथ शिल्प विद्या द्वारा रत्नों का सग्रह करके सुखी हों ॥ ४ ॥

आ नो यातं दिवो अच्छा पृथिव्या हिरण्ययेन सुवृत्ता रथेन ।
मा वामुन्ये नि यमन् देवयन्तः सं यद् ददे नाभिः पुर्व्या वासु
आ । नुः । यातम् । दिवः । अच्छा । पृथिव्याः । हिरण्ययेन ।

४—(हिरण्ययेन) तेजोमयेन । अन्यादिप्रकाशबलयुक्तेन (पुरुभू)
पृथिव्याधि० । ३० १ । २६ । पृ पालनपूरणयोः—कु+भू चिन्तने—डु । हे
पुरुषां पालनव्यवहाराणां भाषयितारौ चिन्तयितारौ (रथेन) रमणीयेन यानेन
(इमम्) (युञ्जम्) देवपूजासंगतिकरणदानव्यवहारम् (नासत्या) सू० १४० ।
१ । हे सदा सत्यस्वभावी (उप) पूजायाम् (धानम्) प्राप्तुम् (पिवायुः)
केटि रूपम् । पानं कुरुतम् (इत्) अवश्यम् (मधुनः) निश्चितज्ञानस्य । मधु-
ज्ञानस्य (सोम्यस्य) सोमे तत्त्वरसे भवस्य रसस्य (दधयः) दध दाने धारणे
स—लेट् । दत्तम् (रत्नम्) रमणीयं धनम् (विधुते) विधु विधाने—शुट् ।
पुरुषार्थं कुर्वते (जनाय) मनुष्याय ॥

सु-वृता । रथेन ॥ मा । वाम् । अन्ये । नि । यमन् । देव-
यन्तः । सम् । यत् । दृदे । नामिः । पूर्व्या । वाम् ॥ ५ ॥

भाष्यार्थ—[हे राजा और मन्त्री !] (दिवः) आकाश से और
(पृथिव्याः) भूमि से (हिरण्ययेन) ज्योति रखने वाले [अग्नि आदि प्रकाश
बल से चलने वाले], (सुवृता) शीघ्र घूमने वाले [चलने वाले] (रथेन)
रमणीय रथ [विमान आदि वाहन] द्वारा (अञ्छ) अञ्छे प्रकार (नः) हम को
(आ यातम्) दोनों प्राप्त होओ, (अन्ये) अन्य (देवयन्तः) पीड़ा देते हुये
लोग (वाम्) तुम दोनों को (मा नि यमन्) न रोकें, (यत्) क्योंकि (पूर्व्या)
पुरानी (नामिः) बन्धुना ने (वाम्) तुम दोनों को (सं ददे) दिया है ॥ ५ ॥

भाष्यार्थ—राजा और मन्त्री आकाश और पृथिवी पर चलने वाले यान
विमानों द्वारा शत्रुओं से बेरोक होकर प्रजा की रक्षा करें ॥ ५ ॥

नू नो रयिं पुरुवीरं बृहन्तं दक्षा मिमांयामुभयेष्वस्मे । नरो
यद् वामशिवना स्तोममावन्त्सुधस्तुतिमाजमीलहासो अस्मन् इ
नु । नुः । रयिस् । पुरु-वीरस् । बृहन्तस् । दक्षा । मिमां-
याम् । उभयेषु । अस्मे इति ॥ नरः । यत् । वाम् । अशिवना ।
स्तोमस् । आवन् । सुध-स्तुतिस् । आज-मीलहासः । अस्मन् इ

भाष्यार्थ—(दक्षा) हे दर्शन योग्य (अशिवना) दोनों अग्नी !

५—(आ) (नः) अस्मान् (यातम्) प्राप्तम् (दिवः) आकाशान्
(अञ्छ) सांहितिको दीर्घः । नमस्क (पृथिव्याः) भूमेः ललाशान् (हिरण्ययेन)
म० ४ (सुवृता) सुवर्त-शीलेन । अग्निनामिना (रथेन) विमानादियानेन
(वाम्) युवाम् (अन्ये) इतरं (मा नि यमन्) न निरुहन्तु (देवयन्तः) दिव
अर्धने = पीडने चुरादिः - शत्रुः । पीडयन्तो जनाः (यन्) यन्तः (सं ददे)
ददानेर्लिट् । सन्धानं बन्धनम् । बन्धे कृतवतो (नामिः) नहो भस्वः । ३० ४ ।
१२६ । एह बन्धने—इत् । हस्य भः । बन्धुन्यम् (पूर्व्याः) पूर्व्यं पुराणात्तम =
निघ० ३ । २७, प्राचीना (वाम्) युवाम् ॥

६—(नु) सद्यः (नः) अस्मरूपम् (रयिस्) धनम् (पुरुवीरम्) बृहन्ती

[चतुर राजा और मन्त्री] (नः) हमारे लिये [अर्थात्] (उभयेषु) दोनों राजजन और प्रजाजन वाले (अस्मे) हम लोगों में (पुरुवीरम्) बहुत धीरों के प्राप्त कराने वाले (बृहन्तम्) बड़े (रथिम्) धन को (तु) शीघ्र (मिमथाम्) नापो [दो] । (यत्) क्योंकि (नरः) नरों [नेता लोगों] ने (वाम्) तुम दोनों के लिये (स्तोमम्) प्रशंसा की (आवन्) रक्षा की है, और (आजमील्हासः) उन घृत आदि पदार्थों और सुवर्ण आदि धन धातों ने (सधस्तुतिम्) परस्पर कीर्ति (अगमन्) पाई है ॥ ६ ॥

भाषार्थ—राजा और मन्त्री राजजन और प्रजाजनों का सत्कार करके परस्पर कीर्ति बढ़ावें ॥ ६ ॥

इहेह यद् वां समुना पृपृक्षे सेयमुस्मे सुमतिर्वाजरत्ना । उरु-
ष्यते जरितारं युवं ह श्रितः कामो नासत्या युवद्रिक् ॥ ७ ॥

इह-इह । यत् । वाम् । समुना । पृपृक्षे । वा । इयम् । अस्मे
इति । सु-सुतिः । वाज-रत्ना ॥ उरुष्यतेम् । जरितारम् ।
युवम् । हु । श्रितः । कामः । नासत्या । युवद्रिक् ॥ ७ ॥

भाषार्थ—(वाजरत्ना) हे ज्ञान और धन रखने वाले दोनों ! [राजा-
और मन्त्री] (इहेह) यहाँ [राज्य में] ही (यत्) जो (सुमतिः) सुमति

धीरां यस्मात्तम् (बृहन्तम्) महास्तम् (दक्षा) अथ० ७ । ७३ । २ । दस दर्शने-
रक् । दर्शनीयौ—निरु० ६ । २६ (मिमथाम्) माङ् माने लोट् । परिमितं कुरुतम् ।
दत्तम् (उभयेषु) द्वित्वविशिष्टेषु । राजप्रजाजनयुक्तेषु (अस्मे) अस्मात्तु (नरः)
नेतारः (यत्) यतः (वाम्) युवाभ्याम् (अश्विना) म० १ । हे चतुरराजो-
त्मात्यौ (स्तोमम्) प्रशंसाम् (आवन्) अथ० ४ । २ । ६ अथ रक्षणगत्यादिषु-
लङ् । अरक्षन् (सधस्तुतिम्) सध = सह । परस्परकीर्तिम् (आजमील्हासः)
आ + अञ्जू व्यक्तिप्रक्षणकान्तिगतिषु-घञर्थे क + मिह सेचने—क । आजम्
आज्यं घृतम् । मील्हं धनम्—निघ० २ । ७ । घृतादिपदार्थः सुवर्णादिधनं च
येषां ते तथाभूताः (अगमन्) अगमन् । प्राप्नुवन् ॥

७—(इहेह) अस्मिन्नेव राज्ये (यत्) वा सुमतिः (वाम्) युवाम्
(समना) समान + अन प्राणने—अच्, वा मन ज्ञाने—अच् । समनं समन-

[इत्तम बुद्धि] (संमना) एक से मन वाले (वाम्) तुम दोनों को (पृष्ट्वे) छूती है, (सा इयम्) वही [सुमति] (अस्मे) हम में [होवे] । (नासत्या) हे नदा सत्य स्वभाव वाले ! [धर्मात्माओं] (युवम्) तुम दोनों (ह) ही (जरितारम्) गुणों की व्याख्या करने वाले की (उरुष्यतम्) रक्षा करो, (श्रितः) [तुम्हारा] आश्रय लिये हुये [कामः) मेरा मनोरथ (युवद्विक्) तुम दोनों की ओर देखने वाला है ॥ ७ ॥

भावार्थ—राजा और मन्त्री अपनी हितकारिणी बुद्धि का राज्य में विस्तार करके प्रजा की रक्षा करें ॥ ७ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद ४ । ४३ । ७ में भी है ॥

मधुमतीरोषधीद्यावि आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम् ।
क्षेत्रस्य पतिर्मधुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वनं चरेम ॥ ८ ॥

मधु-मतीः । ओषधीः । द्यावः । आपः । मधु-मत् । नः ।
भवतु । अन्तरिक्षम् ॥ क्षेत्रस्य । पतिः । मधु-मान् । नः ।
अस्तु । अरिष्यन्तः । अनु । एनुस् । चरेम ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(नः) हमारे लिये (ओषधीः) ओषधियां [चावल जी आदि अन्न], (द्यावः) सूर्य आदि के प्रकाश, (आपः) जल [मेघ, कूपे, नदी आदि के] (मधुमतीः) मधुर आदि गुण वाले [होवें], (अन्तरिक्षम्)

नाद्वा सम्मानाद्वा—निरु० ७ । १६ । समानमनस्कौ (पृष्ट्वे) पृष्ट्वी संपर्चने । पृक्ते । संयोजयति (सा) (इयम्) (अस्मे) अस्मात् (सुमतिः) शोभना प्रदा (वाज-रक्षा) वाजो बोधी रत्नं धनं च ययोस्तौ । हे ज्ञानेन धनेन च युक्तौ (उरुष्यतम्) उरुष्यती रक्षाकर्मा—निरु० ५ । २३ । रक्षतम् (जरितारम्) स्तोतारं गुणानां व्याख्यातारम् (युवम्) युवाम् (ह) एव (श्रितः) आश्रितः । युवयोराश्र-यभूतः (कामः) मनोरथः (नासत्या) म० ४ । हे सदा सत्यस्वभावी । धर्मात्मानौ (युवद्विक्) दृशिर् प्रेक्षणे—क्विप्, ऋकारस्य रिक्कारः । युवां पश्यन् ॥

८—(मधुमतीः) मधुमत्याः । मधुरादिगुणयुक्ताः (ओषधीः) ओषधयः । मीहियवादिभोज्यपदार्थाः (द्यावः) सूर्यादिप्रकाशाः (आपः) मेघकूपनद्यादि-लक्षणानि (मधुमत्) मधुरादिगुणयुक्तम् (नः) अस्मभ्यम् (भवतु) (अन्त-

आकाश (मधुमत्) मधुर आदि गुण वाला (भवतु) होवे । (क्षेत्रस्य पतिः) खेत का स्वामी [किसान] (नः) हमारे लिये (मधुमान्) मधुर आदि गुण वाला (अस्तु) होवे, (अरिष्यन्तः) पिना कष्ट उठाये हुये हम (पनम् अनु) इस [किसान] के पीछे पीछे (चरेम) चलें ॥ ८ ॥

भावार्थ—जैसे किसान खेत में बीज बोकर धूप, जल, भूमि आदि से काम लेता हुआ अन्न उत्पन्न करके उपकार करता है, वैसे ही विद्वान् लोग सब पदार्थों का उपयोग करके संसार का उपकार करें ॥ ८ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—४।५७।३ ॥

पनाय्यं तदश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः ।
सहस्रं शंसा उत ये गमिष्यी सर्वा इत् तां उप याता पिबध्वै । ८
पनाय्यम् । तत् । अश्विना । कृतम् । वाम् । वृषभः ।
दिवः । रजसः । पृथिव्याः ॥ सहस्रम् । शंसाः । उत । ये ।
गो-इषी । सर्वा । इत् । तान् । उप । यातु । पिबध्वै ॥ ८ ॥

भाषार्थ—(अश्विन) हे दोनों अश्वी ! [चतुर राजा और मन्त्री] (तत्) वह (वाम्) तुम दोनों का (कृतम्) काम (पनाय्याम्) बड़ाई योग्य है [कि] पृथिव्याः) पृथिवी के और (रजसः) आकाश के (दिवः) व्यवहार के (वृषभः=वृषभौ) दोनों शासक [हो] । (उत) और, (गमिष्यी)

रिक्तम्) आकाशम् (क्षेत्रस्य) शस्याद्युत्पत्तिस्थानस्य (पतिः) स्वामी । कृपाणः (मधुमान्) मधुरादियुण्युक्तः (नः) अस्मभ्यम् (अस्तु) (अरिष्यन्तः) रिप हिंसायाम्—शत्रु, नञ्समासः । हिंसां न प्रामुवन्तः (अनु) अनुसृत्य (पनम्) क्षेत्रपतिम् (चरेम) गच्छेम ॥

६—(पनाय्यम्) श्रुदक्षिस्पृहिगृहिभ्य आय्यः । उ० ३ । ६६ । पन व्यवहारे स्तुती च—आय्यप्रत्ययः । स्तुत्यम् (तत्) वक्ष्यमाणम् (अश्विना) म० १ । हे चतुरराजामात्यौ (कृतम्) कर्म (वाम्) युवयोः (वृषभः) श्रुचिवृषिभ्यां कित् । उ० ३ । १२३ । वृषु सेचने, वृषप्रजनैश्वर्ययोः + अभच् । सुपां सुलुक्० । प्रा० ७ । १ । ३६ । द्विवचनस्य सुः । वृषभौ । ईश्वरौ । शासकौ (दिवः) दिव्य व्यवहारादिषु—दिवि । व्यवहारस्य (रजसः) अन्तरिक्षस्य । आकाशस्य

विद्या की प्राप्ति में (ये) जो (सहस्रम्) सहस्र (शंसाः) प्रशंसनीय गुण हैं ;
(तान् सर्वान्) उन सब को (इत्) ही (पिबथ्यै) [सोम अर्थात् तत्स्व रस]
पीने के लिये (उप) आदर से (यात) तुम सब लोग प्राप्त करो ॥ ६ ॥

भावार्थ—राजा और मन्त्री विज्ञान द्वारा यात विमान आदि से
पृथिवी और आकाश में मार्ग करें और सब लोग विद्या की वृद्धि से तत्स्व रस
प्राप्त करके सुखी हों ॥ ६ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद में है—= १७०।३ [सायण भाष्य अवशिष्ट वाक्य
स्वरूप सू० ६। म०३] ॥

इति नवमोऽनुवाकः ॥

इति अष्टत्रिंशत्कारणं नाम विंशं कारणं समाप्तम् ॥

अथर्ववेदसंहिता च संपूर्णा ॥

इह शासन कारणं नाम त्रीसर्वा कारणं पूरा हुआ ॥

और अथर्ववेद संहिता भी पूरी हुई ॥

ओ३म्—शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

इति श्रीमद्राजाधिराजप्रदितमहागुरुमहिम्न श्रीसुधाजीरावभायकवाङ्मा-

धिष्ठित बड़ोदेपुरीगतश्रावणमालदेक्षिणापरीक्षायाम्-

ऋक्सामाथर्ववेदभाष्येषु लब्धदक्षिणने श्रीपरिहित

सोमकरणादास त्रिवेदिना

कृते अथर्ववेदभाष्ये विंशं कारणं समाप्तम् ॥

(पृथिव्याः) भूमेः (सहस्रम्) बहुसंख्यायाः (शंसाः) स्तोमाः । स्तुत्यगुणाः
(उत) अपि च (ये) (गविष्टौ) इष गतौ, यद्वा यज देवपूजासंगतिकरण-
दानेषु—क्तिन । गोर्वाचो विद्याया इष्टौ प्रासौ (सर्वान्) (इत्) एव (तान्)
शंसान् स्तुत्यगुणान् (उप) पूजायाम् (यात) साहितिको दीर्घः । प्रामुत
(पिबथ्यै) अथ० २० । न । ३ । पानुम् । सोमस्य तत्स्वरसस्य पानं कर्तुम् ॥

शु० १४३ [७५१] विंश कार्डम् ॥ २० ॥ (४,५५५)

इदं कार्डं प्रयागनगरे द्वितीयभाषणमासे पूर्णमास्यां रक्षावन्धनतिथौ १६७७ तमे
[सप्तसप्तत्युत्तरीकोनविंशतिशतके] विक्रमीये संवत्सरे
धीर-वीर-चिरप्रतापि-महायशस्वि
श्रीराजराजेश्वर पञ्चमजार्ज महोदयस्य सुसाम्राज्ये सुसमाप्तिमगात् ॥

मुद्रितम् - आश्विन शुक्ला = संवत् १६७७ वि० तारीख २० अक्टूबर
१६२० ईस्वी ॥

५२ लूकरगंज, प्रयाग
[अलाहाबाद],
आश्विन शुक्ला =
संवत् १६७७ वि०
२० अक्टूबर १६२० ई०

होमकरगदास त्रिवेदी
जन्म, कार्तिक शुक्ला ७ संवत् १६०५
विक्रमीय [ता० ३ नवम्बर १८४८ ईस्वी] ।
जन्म स्थान, ग्राम शाहपुर—महराज,
ज़िला अलीगढ़ ।



अथर्ववेदभाष्य सम्मतिर्या ॥

श्रीमती आर्य प्रतिनिधिसभा, पंजाब, गुरुदत्त भवन लाहौर
अन्तरंग सभा के प्रस्ताव संख्या ३ तिथि ६-१२-७३ की प्रति ।

ला० दीवान चन्द प्रतिनिधि आर्य समाज बटाला का प्रस्ताव, कि पं० क्षेम-
करणदास को अथर्ववेद भाष्य के लिये ४०) मासिक की सहायता दी जावे,
उपस्थित हुआ। निश्चय हुआ कि २५) मासिक की सहायता एक वर्ष के लिये दी
जावे और उसके परिवर्तन में उतने मूल्य की पुस्तकें उनसे स्वीकार की जावें ॥

श्रीमती आर्यप्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रदेश आगरा और
अवध, स्थान बुलन्दशहर, अन्तरंग सभा ता० ४ जून १९१६ ई०
के निश्चय संख्या १३ (अ) और (ब) की लिपि ।

(अ) समाजों में गश्ती चिट्ठी भेजी जावे कि वे इस भाष्य के ग्राहक बनें
तथा अन्यो को बनावें ।

(ब) समा सम्प्रति १ वर्ष पर्यन्त १५) मासिक एक क्लर्क के लिये पं०
क्षेमकरणदास जी को देवे, जिसका बिल उक्त पंडित जी कार्यालय सभा में
भेजते रहें । इस धन के बदले में पंडित जी उतने धन की पुस्तकें समा को देंगे ॥

लिपि गश्ती चिट्ठी श्रीमती आर्यप्रतिनिधि सभा जो पूर्वोक्त
निश्चय के अनुसार समाजों को भेजी गयी (संख्या ५९७६ प्राप्ति

२० जूलई १९१६ ई०)

॥ ओ३म् ॥

मान्यवर, नमस्ते !

आपको ज्ञात होगा कि आर्यसमाज के अनुभवी वयोवृद्ध विद्वान् श्री पं०
क्षेमकरणदास त्रिवेदी गत कई वर्षों से बड़ी योग्यता पूर्वक अथर्ववेद का
भाष्य कर रहे हैं। आपने महर्षि दयानन्द के अनुसार ही इस भाष्य को करने
का प्रयत्न किया है। भाष्य काएडों में निकलना है अब तक ६ कांड निकल चुके
हैं। आर्यसमाज के वैदिक साहित्य सम्बन्ध में वस्तुतः यह बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य
हो रहा है। त्रिवेदी महाशय के भाष्य की जानकारी ने खूब प्रशंसा की है।
परन्तु खेद है कि अभी आर्यसमाज में उच्च कोटि के साहित्य को पढ़ने की ओर
लोगों की बहुत कम रुचि है। जिसके कारण त्रिवेदी जी अर्थ हानि उठा रहे
हैं। भाष्य के ग्राहक बहुत कम हैं। लागत तक घसूल नहीं होती। वेदों का पढ़ना
पढ़ाना और सुनना सुनाना आर्यसमाज का प्रधान कर्त्तव्य है। अतएव सविनय
निवेदन है कि वैदिक धर्मी मात्र श्री त्रिवेदी जी को उनके महत्त्वपूर्ण गुरुतर कार्य
में साहस प्रदान करें। स्वयम् ग्राहक बनें और दूसरोंको बनावें। ऐसा करने से
भाष्यकार महाशय उसे छापने की अर्थ सम्बन्धिनी चिन्ताओं से मुक्त होकर
भाष्य को और अधिक उत्तमता से सम्पादन करने की ओर प्रवृत्त होंगे।
आशा है कि वेदों के प्रेमों उक्त प्रार्थना पर ध्यान दे इस ओर अपना कुछ
कर्त्तव्य समझेंगे। प्रत्येक आर्य के घर में वेदों के भाष्य होने चाहिये। समाजके
पुस्तकालयों में तो उनका रखना बहुत ही जरूरी है। भाष्य के प्रत्येक कांड का
मूल्य त्रिवेदी जी ने बहुत ही थोड़ा रक्का है।

त्रिवेदी जी से पत्र व्यवहार ५२ लूकरगज, प्रयाग के पते पर कीजिये ।
जल्दी से भाष्य मंगाइये ।

भवदीय—

नन्दलाल सिंह,

B. Sc., LL. B. उपसन्धी ।

चिट्ठी संख्या २७० तिथि १०—१२—१५१४। कार्यालय श्रीमती आर्य-
प्रतिनिधि सभा, संयुक्तप्रान्त आगरा व अथर्व, बुलन्दशहर।

आपका पत्र संख्या १०१ तथा अथर्ववेद भाष्य का तृतीय कांड मिला। इस
रूपा के लिये अनेक धन्यवाद है। वास्तव में आप आर्यसमाज के साहित्य को
समृद्धि शाली बनाने में बड़ा कार्य कर रहे हैं, आपकी विद्वत्ता और रूपा के
लिये आर्य संसार ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक शिखा सूत्र धारी को आभारी होना
चाहिये। ईश्वर आपको उत्तरोत्तर उस महत्व पूर्ण कार्य के सम्पादन और
समाप्त करने के लिये शक्ति प्रदान करें, ऐसे उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशन को आप
सदैव जारी रखें यही प्रार्थना है।

भवदीय—

सदन सौहन सेठ

(एम० ए० एल० एल० बी०) मन्त्री सभा।

श्रीमान् परिदित तुलसीराम स्वामी—प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा
संयुक्तप्रान्त, सामवेद भाष्यकार, सम्पादक वेदप्रकाश, मेरठ—१६१३।

ऋग्यजुर्वेद का भाष्य श्रीस्वामीदयानन्द सरस्वती जी ने संस्कृत और भाषा
में किया है, सामवेद का श्री पं० तुलसीराम स्वामी ने किया है, अथर्ववेद के
भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी। पं० जेमकरणदास जी प्रयाग निवासी ने इस
अभाव को दूर करना आरम्भ कर दिया है। भाष्य का क्रम अच्छा है। यदि
इसी प्रकार समस्त भाष्य बन गया, जो हमारी समझ में कठिन है, तो चारों
वेदों के भाषा भाष्य मिलने लगेंगे, आर्यों का उपकार होगा।

श्रीशुत महाशय नारायणप्रसाद जी—मुख्याधिष्ठाता-शुक्ल ब्रह्म-
वन मथुरा—उपप्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, संयुक्तप्रान्त। आर्यमित्र आगरा,
२४ जनवरी १६१३।

श्री पं० जेमकरणदास त्रिवेदी प्रयाग निवासी, ऋक् साम तथा अथर्ववेद
सम्बन्धी परीक्षोत्तीर्ण अथर्ववेद का भाषा भाष्य करते हैं, मैंने सम्पूर्ण [प्रथम]
कांड का पाठ किया। त्रिवेदी जी का भाष्य ऋषि दयानन्द जी की शैली के अनु-
सार भावपूर्ण संक्षिप्त और स्पष्टतया प्रकट करने वाला है कि मन्त्र के किस
शब्द के स्थान में भाषा का कौनसा शब्द आया, फिर नोटों में व्याकरण तथा
निरुक्त के प्रमाण, आरम्भ में एक उपयोगी भूमिका दे देने से भाष्य की उप-
योगिता और भी बढ़ गई है, निदान भाष्य अत्युत्तम, आर्यसमाज का पक्षपोषक
और इस योग्य है कि प्रत्येक आर्यसमाज उसकी एक २ पोथी (कापी) अपने
पुस्तकालय में रखे।

त्रिवेदी जी ने इस भाष्य का आरम्भ करके एक बड़ी कमी के पूर्ण करने का

उद्योग किया है। ईश्वर उनको बल तथा वेद प्रेमी आवश्यक सहायता प्रदान करें निर्विघ्नता के साथ वह शुभ कार्य पूरा हो छुपाई और कागज़ भी अच्छा है

श्रीयुत महाशय मुन्शीराम जी—जिज्ञासु मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार—पत्र संख्या ६४ तिथि २७—१०—१९६६ ।-

अथर्ववेदभाष्य आप का दिया वा किया हुआ अवकाशानुसार तीसरे हिस्से के लगभग देख चुका हूँ आप का परिश्रम सराहनीय है।

तथा—पत्र संख्या ११४ तिथि २२—१२—१९६६ ।

अवलोकन करने से भाष्य उत्तम प्रतीत हुआ।

श्रीयुत पं० शिव शंकर शर्मा काव्यतीर्थ—छान्दोग्योपनिषद् भाष्यकार, वेदनत्वादि ग्रंथकर्ता वेदाध्यापक कांगड़ी गुरुकुल महाविद्यालय, आदि आदि, सम्पादक आर्यमिश्र—८ फरवरी १९१३ ।

अथर्ववेद भाष्य। श्री प० ज्ञानेश्वर दास त्रिवेदी जी का यह परिश्रम प्रशंसनीय है। आप बहुत दिनों तक सरकारी नौकरी कर और अब वहाँ से पेन्शन पाके अपना सम्पूर्ण समय सस्कृत पढ़ने में लगाने लगे। अन्ततः आपने वेदों में विशेष परिश्रम कर बड़ौदा राजधानी में वेदों की परीक्षा दी और उनमें उत्तीर्ण हो त्रिवेदी बने हैं। आप परिश्रमी और अनुभवी वृद्ध पुरुष हैं। आप का अथर्ववेदीय भाष्य पढ़ने योग्य है।

श्रीयुत पंडित भीमसेन शर्मा इटावा—उपनिषद् गीतादि भाष्यकत वेदव्याख्याता कलकत्ता यूनीवर्सिटी, सम्पादक ब्राह्मण सर्वस्व इटावा, फरवरी १९१३ ।

अथर्ववेदभाष्य—इसे प्रयाग के परिणत ज्ञानेश्वर दास त्रिवेदी ने प्रकाशित किया है। इसका क्रम ऐसा रक्खा गया है कि प्रथम तो प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ में—अभिप्राय यह है कि भाष्य का ढंग अच्छा है। भाष्यकर्ता के मानसिक विचारों का मुकाब आर्यसामाजिक सिद्धान्तों की तरफ है अतएव भाष्य भी आर्य सामाजिक शैली का हुआ है। तब भी कई अशों में स्वामी दयानन्द के भाष्य से अच्छा है। और यह प्रणाली तो बहुत ठीक है!

श्रीमती पंडिता शिवप्यारी देवी जी, १३७ हकीम देवी प्रसाद जी अंतरमुइया, प्रयाग, पत्र ता० २१—१०—१९१५ ॥

श्रीयुत परिणत जी नमस्ते,

महेवा के पते से आका भेजा हुआ पत्र और अथर्ववेद भाष्य चौथा कांड मिला, मैंने चारों कांड पढ़े, पढ़कर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ। आपने हम सभी पर अत्यंत कृपा की है आपको अनेकों धन्यवाद हैं। आशा है कि पांचवां कांड भी शीघ्र तैयार होकर वी० पी० द्वारा मुझे मिलेगा।

दो पुस्तक हवनमन्त्राः की जिस का मूल्य १॥ है कृपाकर भेज दीजिये मेरी एक बहिन को आवश्यकता है।

श्रीयुत परिहित महावीर प्रसाद त्रिवेदी—कानपुर, सम्पादक सरस्वती प्रयाग, फरवरी १९१३।

अथर्ववेद भाष्य—श्रीयुत शंभकरगुदास त्रिवेदी जी के वेदार्थज्ञान और श्रम का यह फल है, कि आप ने अथर्ववेद का भाष्य लिखना और क्रम क्रम से प्रकाशित करना आरम्भ किया है। बड़ी विधि से आप भाष्य की रचना कर रहे हैं। स्वर सहित मूलमन्त्र, पद पाठ, हिन्दी में सान्त्वय अर्थ, मन्त्रों का पाठान्तर, टिप्पणी आदि से आपने अपने भाष्य को अलंकृत किया है। आपकी राय है कि—“वेदों में सार्वभौम विज्ञान का उपदेश है”। आपका भाष्य स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य के ढंग का है।

श्रीयुत परिहित गणेश प्रसाद शर्मा—संपादक भारतसुदशप्रवर्तक फतेहगढ़, ता० १२ अप्रैल १९१३।

हर्ष की बात है कि जिस वेद भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति का आरम्भ हो गया। वेद भाष्य बड़ी उत्तम शैली से निकलता है। प्रथम मन्त्र पुनः पदार्थयुक्त भाषार्थ, उपरान्त भाषार्थ, और नाट में सन्देह निवृत्ति के लिये धात्वार्थ भी व्याकरण व निरुक्त के आधार पर किया गया है। वैदिक धर्म के प्रेमियों को क्रम से क्रम यह समझ कर भी ग्राहक होना चाहिये कि वेद भाष्य का अनुवाद है और काम पड़े पर उस से कार्य लिया जा सकेगा।

बाबू कालिकाप्रसाद जी—लिट्क मर्चेन्ट कमन्सगढ़ा, बनारस सिटी संख्या ५२६ ता० २७-३-१३।

आपका भेजा अथर्ववेदभाष्य को वी० पी० मिला, मैं आपका भाष्य देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्वर सहाय करे कि आप इसे इसी प्रकार पूरा करें। आप बहुत काम एक साथ न छेड़कर इसी की तरफ समाधि लगाकर पूरा करेंगे। मेरा नाम ग्राहकों में लिख लीजिये, जब २ अड़क रुपए मेरे पास भेज देना।

श्रीयुत महाशय राधत हरप्रसाद सिंहजी शर्मा, मु० एकडका पोस्ट किशुनपुर जिला फतेहपुर हसवा, पत्र ६ दिसम्बर १९१३।

वास्तव में आप का किया हुआ “अथर्ववेद भाष्य” निष्पक्षता का आश्रय लिया चाहता है। आप ने यह साहस दिखाकर साहित्य भण्डार की एक बड़ी भारी न्यूनता को पूर्ण कर दिया है। ईश्वर आपको वेद भण्डार के आवश्यक कार्यो के सम्पादन करने का बल प्रदान करे।

श्रीयुत महाशय पंडित श्रीधर पाठक जी, (सभापति हिन्दी साहित्य सम्मेलन लखनऊ)—मनेविनाद आदि अनेक ग्रन्थों के कर्ता, सुपरिन्टेन्डेन्ट गवर्नमेंट सेक्रेटरियट, पी० डब्ल्यू० डी० श्री प्रयागराज, पत्र ता० १७-६-१३।

आप का अथर्ववेद भाष्य अवलोकन कर चित्त अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ। आप की यह परिदृश्य-पूर्ण कृति वेदार्थ जिज्ञासुओं को बहुत हितकारिणी होगी। आप का व्याख्याक्रम परम मनोरम तथा प्रांजल है, और ग्रन्थ सर्वथा उपादेय है।

प्रकाश लाहौर १२ आषाढ संवत् १८७३ (२५ जून १८१६--
लेखक श्रीयुत पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी)

हम परिदित क्षेमकरणदास जी का धन्यवाद करने से नहीं रह सकते—स्वामी (दयानन्द) जी ने लिखा है— कि वेद का पढ़ना पढ़ाना आर्यों का परम धर्म है—इसके अनुकूल श्री पंडित जी अपना समय वेद अध्ययन में लगाते हैं—आर्यों के लिये परम उपयोगी पुस्तक प्रकाशित करने में पुरुषार्थ करते रहते हैं—पंडित जी ने इस समय तक हवन मन्त्रों तथा यज्ञाध्याय का भाषा में अर्थ प्रसिद्ध किया है—जो कि आर्यों के लिये पठन पाठन में उपयोगी हैं इस सम्बन्ध में यह अथर्ववेद के पांच कांड छपवा कर निःसन्देह बड़ा काम पहुंचाया है। आर्यों की जो शिक्षा प्रणाली थी उसको दृष्टे आज पाँच हजार वर्ष हो चुके हैं। ऐसे अंधेरे के समय में स्वामी जी ने वेद के ऊपर लोगों के भीतर दृढ़ विश्वास उत्पन्न करके एक धर्म का दीपक प्रकाशित किया। परन्तु हमें शोक यह है वेद के पढ़ने में आर्य लोग इतना समय नहीं लगाते—जिनका वे प्रबन्ध सम्बन्धी झगड़ों की बातों में लगाते हैं। हमारा विश्वास है कि जब तक पं० क्षेमकरणदास जी जैसे वेदाभ्यासी पुरुषार्थी लोग अपना समय वेदों के खोज में न लगावेंगे तब तक आर्य समाज का कोई गौरव नहीं बढ़ सकता। अथर्ववेद के अर्थ खोजने में बड़ी कठिनाई है। इसके ऊपर साधारण भाष्य उपलब्ध नहीं होता, जो इस समय तक छपा हुआ है वह बड़ी अधूरी दशा में है, सूक्त के सूक्त ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अब तक कोई टीका नहीं हुई। इस समय जो पांच कांडों का भाष्य पंडित जी ने प्रकाशित किया है उसके लिखने का ढंग बड़ा अच्छा और सुगम है। प्रथम उन्होंने सूक्त के तथा मन्त्रों के देयना दिये हैं—पश्चात् छन्द विद्वानों का यही काम है कि वह जैसे जैसे साधन उनके पास हों वैसा वैसा सोचकर वेद मन्त्रों का अर्थ प्रकाशित करें। ऐसे सैकड़ों प्रयत्न जब होंगे, तब सच्चे अर्थ खोज करना आगामी विद्वानों को सरल होगा। परन्तु इन समय बड़ी भारी कठिनाई यह है कि प्रकाशित पुस्तकों के लिये पर्याप्त सख्या में प्राहक नहीं मिलते हैं और विद्वानों के पास सम्पत्ति का अभाव होने के कारण हानि के डर से पुस्तकों का प्रकाशित करना बन्द होता है। इसलिये सब आर्यों को परम उचित है कि पंडित क्षेमकरणदास जी जैसे विद्वान पुरुषार्थी के ग्रन्थ मोल लेकर उनको अन्य ग्रन्थ प्रकाशित करने की आशा देते रहें। त्रिवेदी जी कोई धनाढ्य पुरुष नहीं हैं, उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति जो कुछ उनके पास है लगा दी है। त्रिवेदी जी ने जो कुछ किया है वह वैदिक धर्म के प्रेम से प्रवृत्त होकर—इसलिये न केवल सब आर्य पुरुषों का यह कर्त्तव्य है कि इस भाष्य को मोल लेकर त्रिवेदी जी को बरसाहित करें किन्तु धनाढ्य आर्य पुरुषों का यह भी कर्त्तव्य है कि उनकी आर्थिक सहायता करें।

The VIDYADHIKARI (Minister of Education), Baroda State, letter No 624 dated 6th February 1913.

....It has been decided to purchase 20 copies of your book entitled अथर्ववेद भाष्यम् It has been sanctioned for use of the library and the prize distribution Please send them also add on the address label " For Encouragement Fund.

RAI THAKUR DATTA RETIRED DISTRICT JUDGE, Dera Ismail Khan Letter dated March 25th, 1914.

The Atharva Veda Bhashya.—It is a gigantic task and speaks volumes for your energies and perseverance that you should have undertaken at an advanced age I wish I had a portion of your will-power.

Letter dated 30th April 1914

I very much admire your labour of love and hope the venture will not fail for want of pecuniary support.

THE MAGISTRATE OF ALLAHABAD.

Letter No 912 dated 21st May 1915.

Has the honour to request him to be so good as to send a copy each of the 1st and 3rd Kandas of Atharva Veda Bhashya to this office for transmission to the India Office, London.

THE ARYA PATRIKA LAHORE APRIL 18 1914.

THE Atharva Veda Bhashya or commentary on the Atharva Veda

which is being published in parts by Pandit Khem Karan Das Trivedi, does great credit to his energy, perseverance and scholarship. The first part contains the Introduction and the first *Kanda* or Book. There is a learned disquisition on the origin of the Vedas and the pre-eminent position in Sanskrit literature. The arrangement is good, the original *Mantra* is followed by a literal translation and their *bhavarth* or purport in Arya Bhasha. The footnotes are copious, they give the derivation and meaning in Sanskrit of the various words quoting the authority of *Ashtadhyayi* of Pānini, *Unadikoshā* of Dayananda, *Nirukta* of Yaska, *Yoga Darshana* of Patanjai, and other standard ancient works... The Pandit appears to have laboured very hard and the Book before us does credit to his erudition; scholars may not agree with certain of his renderings, but like a true Arya, who venerates the Vedas, he has made an honest attempt to find in the Vedic verses something which will elevate and ennoble mankind. Cross references to verses where the word has already occurred in this Veda are also given to enable the reader to compare notes. There can be no finality in Vedic interpretation, but honest attempts like these which shall render the task easy to others are commendable. We are glad to call public attention to this scholarly work, and hope that Pandit Khem Karan Das Trivedi will get the encouragement which he so richly deserves... Our earnest request is that the revered Pandit will go on with this noble work and try to finish the whole before he is called to eternal rest

N.B.—The printing and paper are good, the price is moderate

